

राधाकृष्ण





श्रीकृष्ण आठो काण्ड

(ज्ञानमोहिनी टीका सहित)

गोस्वामी तुलसीदासजी का जीवन-चरित्र, श्रीरामशलाका-प्रश्नावली,
 पारायण-विधि, गूढ़ार्थ शब्द-कोष, रामायण-साहाय्य, हनुमान-
 चालीसा, सप्तदेवी की आरती, राम, कलेवा, शबण-चरित्र
 हनुमानजी के जन्म की कथा, वानरों द्वारा अपना
 बल-वर्णन, सुलोचना-सती, अहिराबण-बध,
 नारान्तक बध तथा अन्य बहुत-सी
 क्षेपक कथायें एवं अन्तर्कथायें
 टीका सहित दी गई हैं ।

•
 टीकाकार-

विद्यारत्न पं० ज्वालाप्रसादजी पाराशर

•
 स्टीकिस्ट-

श्रीकृष्ण पुस्तकालय

द्वारा

बम्बई

अक्षरों में सुद्धित

नवमी आवृत्ति]

सन् १९७४ ई०

[मूल्य २५) रुपया

प्रकाशक :

श्रीकृष्ण पुस्तकालय,

वृन्दावन दरवाजा, मथुरा .

फोन : 662

नवम् संस्करण सं० २०३०

मुद्रित प्रतियां ६६००

सर्वाधिकार सुरक्षित है ।

मूल्य :

रफ कागज २५) रुपया

मुद्रक :

रामनायण, प्रेस मथुरा



प्रकाशकीय



प्रिय पाठकगणो !



श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजी ने लोक-प्रिय ग्रन्थ—
 “श्रीरामचरित-मानस” की जो रचना की है वह हिन्दू-
 समाज के लिए एक बहुत बड़ी देन है। क्योंकि इस विश्व-
 विख्यात ग्रन्थ “रामायण” के द्वारा भगवान श्रीराम का
 परम पावन चरित्र हमारी सम्यता एवं संस्कृति पर बड़ा
 भारी प्रभाव डालता है। अतः जिन महापुरुषों को इसके
 आदर्शों पर चलने का शुभ अवसर मिला है, उनका जीवन
 परम धन्य है !

अतः हमने इस अलौकिक ग्रन्थ की सारी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए
 इसके नवम संस्करण को बहुत ही शुद्धता के साथ छापकर प्रकाशित किया है। इसमें
 अनेकों क्षेपक-कथाओं तथा अन्तर्कथाओं के साथ-साथ और भी बहुत-सी अन्य उपयोगी
 बातों का समावेश किया गया है तथा आठों काण्डों में अनेकों चतुरंगे चित्र भी दिये
 गये हैं, जिससे पाठकों को अधिक रुचिकर, उपयोगी तथा ज्ञान-वर्द्धक सिद्ध हो सके।

आशा है कि इस ग्रन्थ को प्रिय-पाठकगण अवश्य ही अपनायेंगे और पसन्द
 भी करेंगे। अगर ग्रन्थ में कोई त्रुटि भी होगी, तो पाठकगण उसे क्षमा करते हुए ठीक
 कर लेंगे। जिसकी अगले संस्करण में ठीक कर दिया जायेगा।

—प्रकाशक

* श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित-मानस *

को

-:* विषयानुक्रमणिका *:-

—:६:—

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
निवेदन	३	दशरथजी का व्रत और श्रीराम-जन्म	१६१
गोस्वामी तुलसीदासजी का जीवन-चरित्र	६	नामकरण और बाल-लीला वर्णन	१६७
श्रीरामदासका प्रस्तावली	११	श्रीराम-लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ	
गारासन विधि	१२	वन को जाना	१७५
ध्यान, राम-मन्त्र	१४	अहिल्या उद्धार व जनकपुर प्रवेश	१७७
मुझसे मन्त्र-योग	१४	श्रीराम-लक्ष्मण का नगर व धनुष-यज्ञ देखना	१८७
रामायण महात्म्य	१६	गौरी-पूजन	१८६
प्राणिकृत अन्तर्कथायें	६७५	धनुष-यज्ञ	१६७
रघुमान चोरीका	६७८	श्रीराम द्वारा धनुष तोड़ना	२११
आरतिपत्र	६७६	जयमाला पहिनाना	२१३
वनवास का तिथि-पत्र	६८१	परशुराम आगमन	२१५
		क्षेपजी और धनुषों की कथा (क्षेपक)	२१७
		परशुरामजी द्वारा पृथ्वी को जीतने की कथा (क्षेपक)	२१६
		परशुरामजी द्वारा माता का वध (क्षेपक)	२२३
		दूतों का अयोध्या में आगमन	२३१
		बारात की तैयारी	२३५
		श्रीसीता-राम विवाह वर्णन	२४५
		श्रीराम कलेवा (क्षेपक)	२६३
		बारात की विदा	२८१
		* अयोध्या काण्ड *	
		मङ्गलाचरण	३०२
		विश्रवाचसु गन्धर्व का गान तथा नारद आगमन की कथा (क्षेपक)	३०३
		दशरथजी द्वारा राज्याभिषेक की तैयारी	३०६
		देवताओं द्वारा सरस्वतीजी की वन्दना	३१३
		मन्थरा की कथा (क्षेपक)	३१४
		मन्थरा कीकई मन्वाद	३१५
		कटु-वनिता की कथा (क्षेपक)	३१६
		कैकेई के दरबानों की कथा (क्षेपक)	३१६
		सोप भवन में कैकेई	३२१
		दशरथ कीकई मन्वाद	३२७
		दशरथजी का मोच	३२६
		राम चन्द्रजी का आगमन	३३१

* बाल काण्ड *

मङ्गलाचरण	२३
गुप्त परम वन्दना	२५
गन्धर्व वन्दना	२७
धनुषयज्ञ वन्दना	२६
निष्पिष्ट वन्दना	४१
राम नाम महिमा	४३
श्रीरामचरित-मानस के प्रारम्भ की तिथि	५५
मानस का भावक और महात्म्य	५७
रामायण-भारद्वाज मन्वाद	६३
सतीश्री का मोच	६५
दश-यज्ञ से सतीश्री का जाना	७३
पार्ष्णी का जन्म और व्रत	७७
पार्ष्णी की परीक्षा	८५
काश्यप वर भस्म होना	८६
रवि की वरदान	८१
श्रीमित्र-पार्ष्णी विवाह	८३
श्रीमित्र-पार्ष्णी मन्वाद	१११
नारद मोच	११६
भारद्वाज मनु की कथा	१२८
श्रीराम जन्म के कारण वर्णन	१३५
राजा दशरथजी की कथा	१३७
रघुवंश, हुम्बरवदन औरि का जन्म	१५३
देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति	१५६

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
पुरवासियों का सोच	३३५	स्थापना और उनकी दशा	५२१
श्रीरामजी का कोशलया के पास आना	३४१	भरतजी का राज्य संभालना	५२३
श्रीराम-सीता सम्वाद	३४३	* अरण्य काण्ड *	
राम-लक्ष्मण सम्वाद	३५१	मंगलाचरण	५२५
सदमणजी की माता से विदाई	३५३	जयन्त की कथा	५२६
श्रीराम वन-गमन	३५७	भक्ति के आश्रम में आगमन	५२७
अयोध्यावासियों का प्रेम	३६१	अनुसूइयाजी द्वारा सीताजी को सीख	५२८
शुङ्गवेरपुर में निपाद मिलन	३६३	शक्तिजी द्वारा विनय	५३१
सदमणजी द्वारा निपाद को उपदेश	३६५	विरोध-व्यथ	५३३
सुमन्त का लौटना और श्रीराम का उपदेश	३६८	सरमङ्ग-मिलन	५३५
केवट का प्रेम और सम्वाद	३७१	सुतीक्ष्णजी का प्रेम और स्तुति	५३४
प्रयाग में श्रीराम-भरद्वाज सम्वाद	३७३	श्रीराम अगस्त्य मिलन	५३७
निपाद का प्रेम और प्रत्यागमन	३७५	जटायु से भेंट और पंचवटी में वास	५३६
वन-पथ में श्रीराम	३७७	शुष्पेण्डा की कथा और खर-दूषण का वध	५४३
ग्राम-वधुटियों को दर्शानातन्द	३८१	शुष्पेण्डा द्वारा रावण को भड़काना	५४६
बाल्मीकिजी के आश्रम में आगमन	३८७	सीताजी का अग्नि-प्रवेश और मायायम सीता	
चित्रकूट में आगमन	३९३	की उत्पत्ति	५५१
सुमन्तजी का विवाद और प्रत्यागमन	४०१	मारीच की कथा और सीता का हरण	५५१
सुमन्त द्वारा रामजी का संदेश कहना	४०३	सीताजी का विलाप	५५५
श्रवणकुमार की कथा (सोपक)	४०६	जटायु का रावण से युद्ध	५५७
दशरथ मरण	४११	रघुनाथजी का विलाप	५५७
भरत का ननसाल से सीटना	४१३	जटायु-मोक्ष, कवच-उद्धार	५५८
भरत कैकेई सम्वाद व भरत का विलाप	४१५	शबरी पर कृपा व भक्ति उपदेश	५६३
कोशलया का भरत को समझाना	४१६	श्रीरामजी का विरह वर्णन	५६५
दशरथजी की अन्त्येष्टी	४२१	श्रीराम-नारद सम्वाद, सन्तों के गुण वर्णन	५६६
भरतजी का बन जाने का निश्चय	४२६	* किष्किन्धा काण्ड *	
भरतजी की बन-यात्रा	४३१	मंगलाचरण	५७४
निपादराज से भेंट	४३३	सुग्रीव द्वारा हनुमानजी को भेजना	५७५
भरतजी का प्रेम और शोक वर्णन	४४१	हनुमानजी का विनय और प्रेम	५७७
भरद्वाजजी का भरतजी को समझाना और		श्रीराम-सुग्रीव की मित्रता	५७८
उनका सत्कार करना	४४७	सुग्रीव का भय वर्णन	५७९
सदमणजी का भरतजी के प्रति रोप प्रकट करना	४४७	बालि का वध और बालि मोक्ष	५८१
और श्रीरामजी का उन्हें समझाना	४४७	श्रीरामजी का तारा को उपदेश	५८३
श्रीराम-भरत मिलन	४६७	सुग्रीव का राज्याभिषेक	५८४
भरतजी की विनय	४६६	प्रवर्षण विरि पर निवास	५८७
जनकजी का चित्रकूट में आगमन	४८६	श्रीरामजी का सुग्रीव पर रोप	५८८
जनकजी द्वारा भरतजी की वढ़ाई	४८६	सुग्रीव का बानर-दूतों को भेजना	५८९
श्रीराम-भरत सम्वाद	५०६	सदमणजी का नगर में आगमन	५९२
अभिजी के साथ भरत का बन में परिभ्रमण	५११	सीताजी की छोख में बानरो का जाना	५९३
रामजी का भरतजी को छड़ाके देना	५१२	तपस्वियों से बानरो की भेंट	५९५
भरतजी का प्रत्यागमन	५१७	सम्पाती से बानरो की भेंट व सम्पाती की कथा	५९७
भरतजी द्वारा पाशुकाओं की राज-सिंहासन पर			

* विषयानुक्रमिका *

वानरों द्वारा बल वर्णन (क्षेपक)
महावीरजी के जन्म की कथा (क्षेपक)
महावीरजी का लङ्का गमन

* सुन्दर काण्ड *

मंगलाचरण
हनुमानजी की मीनाक से वार्तालाप (क्षेपक)
हनुमान चुरसा सम्वाद
जल-राक्षसी का वध
लंकिनी-हनुमान सम्वाद
हनुमान-विभीषण सम्वाद
रावण-सीता सम्वाद
त्रिजटा द्वारा स्वप्न वर्णन
हनुमानजी का मुद्रिका डालना
हनुमान-सीता सम्वाद
हनुमानजी का अशोक-वाटिका उजाड़ना
अक्षयकुमार वध
हनुमान-रावण सम्वाद
लंका-दहन
जानकीजी का विरह वर्णन (क्षेपक)
हनुमानजी का लौटना
रामजी से सीताजी का विरह वर्णन
श्रीराम-सेना का प्रस्थान
मन्दोदरी-रावण सम्वाद
रावण-विभीषण सम्वाद
विभीषण को राजतिलक
रावण के हूत की कथा
श्रीराम द्वारा समुद्र की विनती और क्रोध
समुद्र द्वारा विनती

* लङ्काकाण्ड *

मङ्गलाचरण
नल-नील द्वारा सेतु वांधना
रामेश्वर की स्थापना
श्रीराम-सेना का समुद्र पार करना
रावण मन्दोदरी सम्वाद
सुवेल पर्वत पर चन्द्रोदय वर्णन
रावण के छत्र आदि गिरना
मन्दोदरी द्वारा प्रभु के विषय रूप का वर्णन
भुक्त-सारण का रावण के लक्ष्मि नानरों का
बल वर्णन (क्षेपक)
अंगद का रावण की सभा में खाना
अंगद-रावण सम्वाद

पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
५६६	अंगद का रावण की सभा में पर खाना	६५५
६०१	मन्दोदरी का रावण को समझाना	६५७
६०४	युद्धारम्भ	६६१
	मेघनाद का युद्ध और लक्ष्मण-शक्ति	६०१
६०५	कालनेमि की कथा और वध	६०३
६०६	भरतजी का हनुमानजी को वाण मारना	६०५
६०७	श्रीरामजी का विलाप	६०६
६०८	लक्ष्मणजी का मूर्छा से उठना	६०६
६१०	धूम्राक्ष, अकम्पन, प्रहस्त, महोदर और अतिकाय	६०७
६११	आदि का वध (क्षेपक)	६११
६१३	कुम्भकरण का युद्ध और परमगति की प्राप्ति	६१३
६१४	मेघनाद का द्वितीय युद्ध	६१७
६१५	श्रीराम का नागपास बन्धन	६१६
६१७	मेघनाद का वध	६२१
६१६	सुलोचना-सती की कथा (क्षेपक)	६२२
६२०	मेघनाद की मृजा का श्रीराम-लक्ष्मण की महिमा	६२५
६२२	लिखकर बताना	६२६
६२५	सुलोचना रावण सम्वाद	६२८
६२६	सुलोचना-मन्दोदरी सम्वाद	६३१
६२७	रामादल में सुलोचना का जाना	६३३
६३०	मेघनाद के सिर का हँसना	६३५
६३३	सुलोचना का सती होना	६३७
६३४	अहिरावण की कथा (क्षेपक)	६३९
६३७	अहिरावण-रावण सम्वाद	६४२
६४३	अहिरावण द्वारा राम-लक्ष्मण का हरण	६४६
६४५	हनुमानजी द्वारा खोज	६४९
६४६	हनुमान-मकरध्वज सम्वाद	६४५
६५१	अहिरावण वध	६४७
	नारान्तक की कथा (क्षेपक)	६४८
६५३	नारान्तक की उत्पत्ति व तप	६५१
६५४	दधिवल की कथा (क्षेपक)	६५३
६५५	नारान्तक का लंका को प्रस्थान	६५५
६५७	नारान्तक का युद्ध	६५५
६५८	नारान्तक व दधिवल का युद्ध	६६३
६६२	नारान्तक का वध	६६३
६६३	विन्दुमती का सती होना	६६३
६६४	राम-रावण का प्रथम युद्ध	६६३
	रावण का यज्ञ विध्वंस	६६५
६६५	द्वितीय युद्ध का वर्णन	६६५
६७३	शक्ति से विभीषण की रक्षा	६७३
६७५	त्रिजटा-सीता सम्वाद	६७५
	रावण वध मन्दोदरी विनती	६७५

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
विभीषण का राज्याभिषेक	८०३	ज्ञान व भक्ति का निरूपण	८१६
राम-सीता मिलन, अग्नि-परीक्षा	८०५	गहड़जी के सात प्रश्न	८२७
देवताओं द्वारा स्तुति	८०७	हरि-भक्ति की महिमा और गहड़जी की महिमा	८३१
वानरों की विदा	८१६	तुलसीदास की विनय	८३४
अयोध्या को लौटना	८१८		

* उत्तर काण्ड *

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
मङ्गलाचरण	८२१	मङ्गलाचरण	८३६
हनुमानजी का नन्दिग्राम में आना	८२३	ब्राह्मण-युव की कथा	८४३
पुरवासियों का आनन्द	८२५	श्रीश्री की कथा	८४५
श्रीराम-भरत मिलन	८२७	सीता-परित्याग	८५०
माताओं का आनन्द, राजतिलक	८३३	अश्वमेध का विचार	८५१
वेदों द्वारा स्तुति	८३४	स्वर्ण-सीता का निर्माण	८५५
देवताओं द्वारा स्तुति	८३५	शत्रुघ्नजी का सेना लेकर जाना	८५७
सुग्रीव आदि वानरों की विदा	८३६	लवणामुर सग्राम तथा अश्व	८५८
राम-राज्य वर्णन	८४३	लवकुश व शत्रुघ्नजी का युद्ध	८६१
सनकादिक ऋषियों द्वारा स्तुति	८५१	लवकुश व लक्ष्मण का युद्ध	८६३
सन्त-संभक्तों का भेद वर्णन	८५५	लवकुश व भरत का युद्ध	८६५
नगर-वासियों का उपदेश	८५६	लवकुश व श्रीरामजी का युद्ध	८६७
श्रीरामजी का विश्राम और नारद स्तुति	८६३	लवकुश की विजय	८६८
सिद्ध-पार्वती मन्वाद	८६३	सीताजी का पाताल प्रवेश	८६९
गहड़जी का मोह	८६६	यमराज का आगमन	८७०
काकभृशुण्डिजी द्वारा राम-कथा व राम महिमा का वर्णन	८७७	लक्ष्मण देह परित्याग	८७१
कलियुग का वर्णन	८८६	श्रीरामजी का पुरवासियों के साथ परम धाम गमन	८७३
काकभृशुण्डिजी के पूर्व जन्म की कथा	८९७	श्रीरामायणजी की आरती	८७६

—*::०::*—

* बहुरंगे चित्रों की सूची *

१-श्रीराम पंचायत	१	५-रावण द्वारा सीता-हरण	५६१
२-गोस्वामी तुलसीदासजी	६	६-श्रीरामजी द्वारा रामेश्वर स्थापना	६५७
३-ध्यान-मग्न श्रीशङ्करजी	८१	७-पुरुषोत्तम भगवान् श्रीराम	८४६
४-श्रीरामजी द्वारा भरतजी को खड़ाऊँ देना	५२१	८-लवकुश द्वारा घोड़े को पकड़ना	८६१

—*::०::*—

* मास-पारायण विश्राम-स्थल *

—:—:—

पहिला विश्राम	४७	सोलहवां विश्राम	३८३
दूसरा "	७०	सत्रहवां "	३९४
तीसरा "	९३	अठारहवां "	४२५
चौथा "	११६	उन्नीसवां "	४५१
पांचवां "	१३७	वीसवां "	४६५
छठा "	१५८	इककीसवां "	५२८
सातवां "	१७९	बाईसवां "	५७३
आठवां "	१९८	तेईसवां "	६०४
नवां "	२१८	चौबीसवां "	६५१
दसवां "	२४१	पच्चीसवां "	६९७
ग्यारहवां "	२६१	छब्बीसवां "	७६५
बारहवां "	३०१	सत्ताईसवां "	८२०
तेरहवां "	३२५	अठ्ठाईसवां "	८७३
चौदहवां "	३४६	उन्तीसवां "	९१६
पन्द्रहवां "	३६८	तीसवां "	९३७

* नवान्ह-पारायण विश्राम-स्थल *

—:०+०:—

पहिला विश्राम	११६	छठा विश्राम	५५५
दूसरा "	१६८	सातवां "	६३४
तीसरा "	२६६	आठवां "	७३२
चौथा "	३८३	नवां "	८३७
पांचवां "	४६५		

श्री रामायण भा० टी०



गोमदानी तुलसीदासजी

भगवान् के आदेशानुसार गोस्वामीजी चलकर पुनः अयोध्या आये और उन्होंने सम्बत् १६३१ वि० के मधु-मास की राम-नवमी को 'रामचरित-मानस' की रचना प्रारम्भ की। इस महान् काव्य की रचना में उन्हें समय २ पर श्रीभगवान् शंकरजी तथा हनुमानजी से प्रेरणा मिली। यह ग्रन्थ दो वर्ष, सात महीने और छव्वीस दिन में लिखकर समाप्त हुआ।

समाज में गोस्वामीजी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर पण्डितों को बड़ा दाह हुआ। उन्होंने रामायण को चुराने के लिए दो चोर भेजे। चोरों ने सुन्दर धनुषधारी राजकुमारों को गोस्वामीजी की कृटियाकी रक्षा करते हुए देखा तो वे भयभीत होकर भाग गये। तुलसीदासजी को मालूम हुआ तो भगवान् को अपने लिए कष्ट होता जानकर उन्होंने घर का सारा सामान लुटा दिया और पुस्तक को अपने मित्र राजा टोडरमल के यहाँ रख दिया।

अपने सनकालीन धर्माचार्यों में गोस्वामीजी का सर्वत्र बड़ा मान था। नाभादासजी ने आपकी प्रशंसा में एक छप्पय लिखा है। ब्रज के 'चौरांसी व्रैष्णवों की वार्ता' में भी आपका उल्लेख है। स्वामी मधुसूदनाचार्य (दण्डीजी) के निम्न श्लोक से गोस्वामीजी का तत्कालीन विद्वत्-वर्ग में श्रेष्ठ स्थान स्पष्ट हो जाता है। दण्डीजी ने लिखा है—

आनन्दकानने ह्यस्मिञ्जङ्गमस्तुसीतरुः । कविता मञ्जरी भाति रामभ्रमरभूषिताः ॥

तुलसीदासजी के विषय में अनेक किम्बदन्तियाँ प्रचलित हैं। उनसे यह स्पष्ट है कि वे एक उच्चकोटि के अनन्य-भक्त थे।


सम्बत् १६८० की श्रावण शुक्ला सप्तमी को गोस्वामी तुलसीदासजी अपनी यह लीला समाप्त करके परम-धाम को चले गये।

श्रीरामचरित-मानस—श्रीमद्गोस्वामीजी की यह महान् कृति हिन्दी-साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। अवधी-भाषा में—दोहे, चौपाई, छन्द, सोरठा, छप्पय आदि में इसकी रचना हुई है। इनकी भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण तथा प्रभावशाली है, इस ग्रन्थ में सभी रसों का समावेश है। शृङ्गार, करुणा, हास्य, भयानक, रौद्र, वीभत्स और शान्त आदि रसों का वर्णन देखते ही बनता है। व्याकरण-शास्त्रकी पिगला-पद्धति पर यह ग्रन्थ आधारित है तथा सभी वेद-पुराण और उपनिषदोपनिषदों का सार लेकर तुलसीदासजी ने इस अभूतपूर्व महाकाव्य की रचना की। यह प्रबन्ध-काव्य है, अतः नायक के जीवन के सभी परिच्छेदों का इसमें विस्तृत चित्रण है। वात्सल्य, शृङ्गार, विरह, शौर्य, श्लेष आदि का रसास्वादन पाठक इसे पढ़कर ही कर सकते हैं। गोस्वामीजी के अन्य ग्रन्थों में प्रमुख निम्नांकित हैं—

१-गीतावली, २-दोहावली, ३-कवितावली, ४-विनय-पत्रिका, ५-राम-सतसई, ६-वरवै-रामायण, ७-रामलला नहलू, ८-कुण्डलिया-रामायण, ९-संकट-मोचन, १०-हनुमान-वाहुक, ११-जानकी-मंगल, १२-पार्वती-मंगल, १३-रामाज्ञा, १४-वैराग्य-संदीपनि, १५-कृष्ण गीता-दली, १६-रामशलाका प्रश्नावली, १७-चन्द्रावली, १८-छप्पय रामायण, १९ कड़खा रामायण, २०-सूलना रामायण, २१-रोला रामायण आदि।

श्रीरामशलाका प्रश्नावली

विधि—इस प्रश्नावली से अपने प्रश्न का उत्तर जानने से पूर्व प्रश्न-कर्ता को पूर्ण शुद्धता से श्रीसीता-रामजी व हनुमानजी का स्मरण करना चाहिए। तत्पश्चात् किसी भी वर्ग में उंगली या सलाका रख देनी चाहिए। उस वर्ग के अक्षर को लिख लेना चाहिए, फिर गिन कर आगे के नवें अक्षर को लिख लेना चाहिए। आगे के अक्षरों को आगे और पीछे के अक्षरों को पीछे रखने पर एक पूरी चौपाई बन जावेगी। उस चौपाई का फल नीचे लिखे अनुसार जान लेना चाहिए।



उदाहरण—मान लीजिए किसीने पांचवी पंक्ति के आठवें अक्षर 'म' पर उंगली रखी। 'म' को लिख लेना चाहिए। आगे नवाँ अक्षर 'र' है। 'म' के आगे और पीछे लिपते जाने से निम्न चौपाई बन जावेगी—

होइ है सोइ जो राम रच राखा * को करि तर्क बढ़ावै साखा

इसका फल यह है कि कार्य पूर्ण होने में सन्देह है,

इस चौपाई के अतिरिक्त श्रीरामशलाका-प्रश्नावली से जो अन्य चौपाइयाँ हैं, वे फल सहित इस प्रकार हैं—

सुनु सिय सत्य असीस हमारी * पूछिहि मन कामना तुम्हारी

फल—प्रश्न-कर्ता का प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा।

प्रविसि नगर कीजै सब काजा * हृदयँ राखि कौशलपुर राजा

फल—ईश्वर का स्मरण करके कार्य करो, सफलता मिलेगी।

उधरें अन्त न होइ निबाहू * कालनेमि जिमि रावन राहू

फल-इस कार्य में भलाई नहीं, सफलता में सन्देह नहीं।

विधि बस सुजन कुसङ्गति परहीं * फनिमनिसम निजगुन अनुसरहीं

फल-दुष्टों का संग छोड़ दो, कार्य होने में सन्देह है,

मुद मङ्गलमय सन्त समाजू * जिमि जग जङ्गम तीरथ राजू

फल-प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा।

गरल सुधा रिपु करत मितार्ई * गोपद सिन्धु अनल सितलाई

फल-प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, कार्य सफल होगा।

बरन कुबेर सुरेस समीरा * रन सन्मुख धरि काहु न धीरा

फल-कार्य पूर्ण होने में सन्देह है।

सुफल मनोरथ होहुं तुम्हारे * राम लखनु सुनि भए सुखारे

फल-प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा।

* पारायण विधि *

श्रीमद्दरामचरित-मानस के प्रेमी पाठकों को विधिपूर्वक पाठारम्भ करने के पूर्व श्रीतुलसीदासजी, श्रीबाल्मीकिजी, श्रीमहादेवजी तथा श्री हनुमानजी का आवाहन-पूजन करके तीनों भाइयों सहित श्रीसीता-रामजी का आवाहन, शोडसोपचार-पूजन और ध्यान करना चाहिए। सबके आवाहन, पूजन और ध्यान के मन्त्र क्रमशः नीचे दिये जाते हैं-

* अथ आवाहन मन्त्रः *

तुलसीक नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुचिव्रत । नैऋत्य उपविश्येदं पूजनं प्रतिग्रह्यमासु ॥ १ ॥

ॐ तुलसीदासाय नमः

श्रीबाल्मीकि नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुभप्रद । उत्तर पूर्वयोर्मध्ये तिष्ठ गृहणीष्व मेऽर्चनं ॥ २ ॥

ॐ बाल्मीकाय नमः

श्रीगौरीपते नमस्तुभ्यमिहागच्छ महेश्वर । पूर्वदक्षिणयोर्मध्ये तिष्ठ पूजां गृहाण मे ॥ ३ ॥

ॐ गौरीपतये नमः

श्रीलक्ष्मण नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः । याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं संगृहाण मे ॥ ४ ॥

ॐ श्रीसपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः

श्रीशत्रुघ्न नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः । पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं स्वीकुरुश्वमे ॥ ५ ॥

ॐ श्रीसपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः

श्रीभरत नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः । पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां गृहाण मे ॥ ६ ॥

ॐ श्रीसपत्नीकाय भरताय नमः

श्रीहनुमन्त नमस्तुभ्यमिहागच्छ कृपानिधे । पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरु प्रभो ॥ ७ ॥

ॐ हनुमते नमः

अथ प्रधानपूजां च कर्तव्या विधिपूर्वकम् । पुष्पांजलि गृहीत्वा तु ध्यानं कुर्यात्परस्य च ॥८॥ रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालंकृतं । श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् । कारुण्यामृतसागरं प्रियगणभ्रात्रादिभिर्भावितं । वन्दे विष्णु त्रिवादिसेव्यमनिशं भवतेष्टसिद्धिप्रदम् ॥६॥ आगच्छ जानकीनाभ । जानक्या सह राघव । गृहाण मम पूजां च चायुपुत्रादिभिर्द्युतः ॥१०॥

॥ इत्यावाहनम् ॥

सुवर्णरचितम् राम दिव्यास्तरणशोभितम् । आसनं हि मया दत्तं गृहाणमणिचित्रतम् ॥११॥

इति षोडशोपचारैः पूजयेत्

ॐ अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्रीरामचरितस्य श्रीशिवकाकभुशुण्डियात्तवत्वयगोस्त्वामि-
तुलसीदासाश्रयः श्रीसीता-रामो देवता श्रीरामनाम बीजं भवरोगहारी शक्तिः भक्ति-मम निय-
न्त्रिताशेषविघ्नतया श्रीसीता-राम प्रीतिपूर्वकं सकल मनोरथं सिद्धयर्थं पाठे विनियोगः ॥१२॥

अथाचमनम्—श्रीसीतारामाभ्यां नमः । श्रीरामचन्द्रायनमः श्रीरामभद्राय नमः ।
॥ इति मन्त्रिजितयेनं आचमनं कुर्यात् । श्रीयुगलबीजमन्त्रेण प्राणायामं कुर्यात् ॥

अथ करन्यासः

जग मंगल गुन-ग्राम राम के । दानि मुकुति धन धरम धाम के ॥

अंगुष्ठाभ्यां नमः

राम नाम कहि जे जमुहाहीं । तिन्हहि न पाप पुंज समुहाहीं ॥

तर्जनीभ्यां नमः

राम सकल नामन्ह ते अधिका । होउ नाय अव खग गन बधिका ॥

मध्यमाभ्यां नमः

उमा दाह लोपित की नाई । सर्वाह नचावत राम गोसाई ॥

अनामिकाभ्यां नमः

सन्मुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहि तबहीं ॥

कनिष्ठिकाभ्यां नमः

मामभिरक्षय रघुकूल नायक । धृत वर चाप हचिर कर सायक ॥

करतल करिपृष्ठाभ्यां नमः

॥ इति करन्यास ॥

* अथ हृदयादिन्यासः *

जग मंगल गुन ग्राम राम के । दानि मुकुति धन धरम धाम के ।

हृदयाय नमः ।

राम राम कहि जे जमुहाहीं । तिन्हहि न पाप पुंज समुहाहीं ॥

शिरसे स्वाहा ।

राम सकल नामन्ह ते अधिका । होउ नाय अघ खगगन बधिका ॥

शिखायै वषट्

उमा दाह जोषित की नाई । सर्बाह नचावत राम गोसाई ॥

कवचाय हुम्

सन्मुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासाहि-तबहीं ॥

नेत्राभ्यां वौषट्

मामभिरक्षय रघुकुल नायक । धृत वर चाप रुचिर कर सायक ॥

अस्त्राय फट्

॥ इति हृदयादिन्यासः ॥

*** अथ ध्यानम् ***

मामवलोकय पंकज लोचन । कृपा बिलोकनि सोच विमोचन ॥
नील तामरस स्याम कामअरि । हृदय कञ्ज मकरन्द मधुप हरि ॥
जातुधान बरुथ बल भञ्जन । मुनि सञ्जन रञ्जन अघ गञ्जन ॥
भूसुर शशि नव वृन्द बलाहक । अशरन शरन दीनजन गाहक ॥
भुजबल विपुलभार महि खण्डित । खर दूषन बिराध बध पण्डित ॥
रावनारि सुखरूप भूपवर । जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर ॥
सुजसु पुरान विदित निगमागम । गावत सुर मुनि सन्त समागम ॥
कारुणीक व्यलीक मद खण्डन । सब विधि कुशल कौशला मण्डन ॥
कलिमल मथन नाम समताहन । तुलसीदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥

॥ इति ध्यानम् ॥

*** श्रीराम-नाम महामन्त्र ***

राम रामेति रमेति, रसे रामे मनोरमे ।

सहस्र नाम ततुल्यं, राम नाम वरानने ॥

*** गूढार्थ शब्द कोष ***

अवस्था चार हैं—जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय । इनके विभु ये हैं—जाग्रत का विश्व, स्वप्न का तेजस, सुषुप्ति का प्राज्ञ और तुरीय का ब्रह्मा ।

अविद्या—प्राणी की अल्पज्ञता ।

अंग—वेद के अंग छः हैं—शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छन्द और ज्योतिष । वेद के पढ़ने की विधि को शिक्षा कहते हैं । कल्प उसे कहते हैं—जिसमें सब कर्मों के करने की रीति है । व्याकरण उसे कहते हैं—जिससे शब्दों की शुद्धता का ज्ञान हो । निरुक्ति उसे कहते हैं—जिसमें वेद के कठिन शब्दों का अर्थ निरुक्ति सहित लिखा हो । जिससे अक्षर, मात्रा व वृत्त का ज्ञान हो—उसे छन्द कहते हैं और जिससे भूत, भविष्य और वर्तमानकाल का ज्ञान हो—वह ज्योतिष है ।

आश्रम चार हैं—ग्रहचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास ।

आकार चार हैं—अण्डज, अर्थात्—जो देह के साथ उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य, पशु आदि ।
अण्डज—जो अण्डे से होते हैं, जैसे पक्षी, साँप आदि । श्वेदज—जो पानी से उत्पन्न होते हैं,
जैसे चीलर, डील आदि । उद्भुज—जो पृथ्वी को फोड़कर उत्पन्न होते हैं, जैसे वृक्ष आदि ।

आभरण चारह हैं—नूपुर, किकणी, हार, कूड़ी, मुँदरी, फंकड़, वाजूबन्द, कण्ठी,
चेसर, बिदिया, टीका, शिरफूल ।

उपवेद—सामवेद का गन्धर्व-वेद, अर्थात्—सङ्गीत-शास्त्र, ऋग्वेद का आयुर्वेद, अर्थात्—वैद्यक
यजुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्प-विद्या और वास्तु ।

ऋतु छः हैं—वसन्त-चैत्र, वैसाख । ग्रीष्म-ज्येष्ठ, आषाढ़ । वर्षा-श्रावण, भाद्रपद । शरद-
चवार, कार्तिक । हेमन्त-अगहन, पौष । शिशिर-माघ, फाल्गुन ।

कल्प—चारों युगों को एक चौकड़ी कहते हैं और हजार चौकड़ी का एक कल्प होता है ।

गुण तीन हैं—सत्, रज, मम । राजा के चार गुण हैं—साम, दाम, दण्ड, भेद ।

चतुरगुणी सेना के चार अंग हैं—हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल ।

तत्त्व पाँच हैं—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ।

त्रिताप तीन प्रकार के हैं—आध्यात्मिक, आधि-भौतिक, आधि-दैविक ।

त्रिविध कर्म—संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण ।

दिवपाल—पूर्व दिशा के इन्द्र, आग्नेय के अग्नि, दक्षिण के यम, नैऋत्य के निऋति, पश्चिम
के वरुण, वायव्य के वायु, उत्तर के कुबेर, ईशान के ईशान ।

पुराण अठारह हैं—जिसमें पाँच वस्तुओं (सर्ग, प्रतिसर्ग, मन्वन्तर, वंश, वंशानुचरित्र)
का वर्णन हो । जिसमें दस लक्षण हों, वह महापुराण है, जैसे श्रीमद्भागवत ।

भवत चार प्रकार के होते हैं—आत जिज्ञासु, अर्थाथी, विज्ञान-निवास ।

भक्ति नव प्रकार की हैं—सत्संग, श्रवण, कीर्तन, चरण-सेवा, अर्चन, वन्दन, आत्म-
निवेदन, दासत्व, सख्य ।

युग चार हैं—सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग ।

योनि चौरासी लाख हैं—नौ लाख जलचर, सत्ताईस लाख स्थावर, ग्यारह लाख कृमि-
दस लाख पक्षी, तेईस लाख चौपाये, चार लाख मनुष्य ।

राम तीन हैं—परशुराम, बलराम, श्रीरामचन्द्रजी ।

विद्या—ईश्वर की सर्वज्ञता को विद्या कहते हैं ।

शास्त्र छः हैं—वेदान्त, सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक ।

शृंगार सोलह प्रकार के हैं—अंगशुचि-मंजन, अमलवस्त्र-पहिनना, यावक-केश संभालना,
माँग में सिद्धर लगाना, भाल में तिलक बनाना, मेहदी लगाना, अरगजा अंग में लगाना,
भूपण पहिनना, पुष्प-गन्ध लगाना, मुखराग-दाँत रँगना, अधरराग-काजल लगाना ।

सप्तश्रपि—कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, जमदग्नि, गौतम ।

समीर—तीन प्रकार की होती है—शीतल, मन्द, सुगन्ध ।

सिद्धि आठ हैं—अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्प, ईशित्व, वशित्व ।

अथ श्रीरामायण माहात्म्य

दोहा—गुरु हरिपर गणपतिगिरा, सुमिरौं तुलसीदास ।

कहत गोपाल महात्म्य, श्रीरामायण सुखरास ॥ १ ॥
 रामायण सुरतरु की छाया * दुख भए दूर निकट जो आया
 सप्त खण्ड स्कन्ध सुहाई * दोहा लघु शाखा छवि छाई
 शुद्धि सोरठा सीठिका सोई * पत्र सुभग चौपाई जोई
 छन्दन की शोभा अति रुरी * जनु नवीन अंकुर छवि पूरी
 अक्षर सुमन रहे गहगाई * अति अद्भुत सुगन्ध कविताई
 विविध प्रकार अर्थ सोई फल * श्रोता सुमति स्वाद जानै भल
 भक्ति ज्ञान वैराग्य सरस रस * बीज दोष निर्गुण सगुण अस
 मुनि भुशुण्डि शिव प्रथमहिंगाई * सोइ गाई जग हेतु गोसाई
 दोहा—तुलसीदास रामायण, नहिं करते परचार ।

कलि के कुटिल जीव ये, को करतौ निस्तार ॥ २ ॥

रामायण सुरधेनु समाना * दायक अभिमत फल कल्याना
 गुण समूह कवि सकै कोन गनि * जासु प्रभाव सरिस चिन्तामनि
 राम अयन रामायण आही * वर्ण पार पावै को ताही
 रामायण अद्भुत फुलवारी * रामभ्रसर भूषित रुचि भारी
 श्रीरामायण जेहि घर साहीं * भूत प्रेत तहँ भूल न जाहीं
 नहिं गत तहाँ दरिद्रहु केरी * तहँ श्रीमहावीर की फेरी
 यन्त्र मन्त्र सगुनीती जेती * रामायण सहँ जानिय तेती
 प्रीति करै रामायण साहीं * तेहि सस भाग्यवन्त कोउ नाहीं

दोहा—रामायण सस नहिं कोउ, सब उपमा उपमेय ।

उपमा पुस्तक और की, कैसे कोउ कवि देय ॥ ३ ॥
 त्रेता में भए वाल्मीकि मुनि * ते कलियुग भए तुलसीदास पुनि
 शत करोड़ रामायण भाषी * इन सतिसार सुसूक्ष्म राखी
 प्रथम काण्ड है बाल रसीला * जन्म विवाह राम की लीला

द्वितीय अयोध्या काण्ड प्रकाशा * पितु आज्ञा रघुपति बनवासा
 पुनि अरण्ड किष्किन्धा भाख्यो * तहँ सुग्रीव शरण महँ राख्यो
 सुन्दर सुन्दरकाण्ड सुहावन * युद्धकाण्ड महँ मारेउ रावन
 सप्तम उत्तर परम अनुपा * उत्सव प्रभु कोशलपुर भूषा
 तुलसीकृत रामायण ऐती * विविध प्रकार कथा हँ केती
 दोहा—भव वारिधिको पार नहि, ऐसौ है फैलाव ।

तुलसीदास कृपा करि, रचि रामायण नाव ॥ ४ ॥
 श्रीरामायण स्वर्ग निसेनी * भक्त जनन कहँ आनन्द देनी
 श्रीरामायण सद्गुण माता * अज्ञ जाहि पढ़ि होहिं सुजाता
 पाप समूह तूल की रासी * रामायण पावक कणिका-सी
 मोह पुंज यम किरन तमारी * काम अग्नि कहँ शीतल वारी
 रामायण शशि किरन समाना * सन्त चकोर करहि तेहि पाना
 धन्य धन्य श्रीतुलसीदास धनि * जग हित रामायण राखी भनि
 नीच ऊँच जेते नर नारी * श्रीरामायण सब कहँ प्यारी
 रामायण सों नेह लगावै * अधमअपत्य सो चित सुत पावै
 दोहा—रामायण सों नेह किय, सिद्ध होत सब काम ।

है सबको कल्याणप्रद, पढ़ सुन लेहु विश्राम ॥ ५ ॥
 निगमादिक सोइ ब्रह्म कमण्डल * रामायण स्थित गङ्गा जल
 भागीरथ सम तुलसिदास पुनि * भाषा चतुर कीन जनु सुर धुनि
 होत रहै इक ठाँव रामायण * तेहि मग आवत पाप परायण
 कछुक कान महँ परि गई वाता * चलत पन्थ कहँ भयौ प्रपाता
 गिरते समय छूटि तन गयऊ * तहँ अद्भुत इक अचरज भयऊ
 ताहि लेंन आये यमदूता * निज पाशन बाँध्यौ मजवृता
 अति आतुर हरिजन तहं आये * छीन लीन्ह बहु त्रास दिखाये
 रामायण पै सुनि यह काना * लै जैहँ बैठारि विमाना
 दोहा—रामायण परताप सों, गयौ पार्षदन्ह साथ ।

दूत चलें यम के सदन, खौजत मीजत हाथ ॥ ६ ॥
 निज दूतन्ह देखे बिलखाता * पूछी भानु तनय कुशलाता

किन्हु तुमको दीन्हों दुख भाई * चार चतुर तुम देहु बताई
 कहा कहै तुमसे महाराजा * पूछन तुम्हहिं न आवत लाजा
 कोउ एक मृत्यु लोक बड़भागी * तुलसीदास भयो बैरागी
 राम कथा रामायण भाखी * सो लोगन घर घर धरि राखी
 जे जे विविध भाँति के पापी * साँसाहारी और सुरापी
 ते सब मिलि रामायण सुनि हैं * कहि हैं लिखि हैं पढ़ि हैं गुनि हैं
 ते नहिं ऐहें सदैव तुम्हारे * सत्य सत्य नृप बचन उचारे
 दोहा—लेहु पाश ये आपनो, राखहु अपने पास ।

अमल तुम्हारौ अब उठौ, सुनि यमभये उदास ॥ ७ ॥
 अपनी व्यथा कहन नहिं पाये * तब लगि दूत और तहं आये
 कहन लगे रवि सुत सों रोई * तब चाकरी न हम सो हौई
 जग में कहूं न हुकम तिहारो * यह सुन यम चकि रहेउ विचारो
 अहौ दूत मोहि कहौ बुझाई * किन्हु दीन्हों सम हुकम उठाई
 कहा कहैं कछु कहीं न जाई * तुलसीदास एक भयो गोसाई
 तिनकी रामायण जग व्यापी * तेहि कीन्हे पवित्र सब पापी
 गये हम एक अधम गृह भाहीं * अति दुख भयो जाति कह नाहीं
 तहँ देखेउ एक कपि बलवाना * उग्ररूप सम सो हनुमाना
 दोहा—प्राणन को ग्राहक भयो, तन सों भे अति दीन ।

शरण र तब शरण हैं, स्तुति बहु बिधि कीन्हु ॥ ८ ॥
 तब तौ व्हैं प्रसन्न कपिराई * हम पुनि परतीत कराई
 धरो होय रामायण जहवा * कबहूँ भूलि न जयहु तहँवा
 जे श्रोता वक्ता रामायण * कबहूँ मत न जायहु तेहि आयन
 अस हम सों कपि सपथ कराई * तब छूटन पाये सुनिराई
 सुनि यमराज बहुत घबराये * निकट बुलाय दूत समुझाये
 नाम रूप गुन कथा राम की * किएउ न फेरी तीन धाम की
 अजामिल की सुरति करौ जू * और न कछुचित माँझ धरौ जू
 थकि से रहे दूत सुनि बानी * धनि श्रीरामायण महारानी
 दोहा—रामायण ते जसि बनी, सब भाषा शिर मौर ।

यमपुर ताकौ शोर है, समता की नाहि और ॥ ८ ॥
 पातक महा लग्यौ किन होइ * रामायण सुन रहै न कोई
 चाहै चारों फल कौ साधन * करु रामायण कौ आराधन
 रामायण सुनि पाप पराने * जिमि हिम ऋतुमहँ मशकनशाने
 कलियुग तरनि उपाय न होई * राम भजन रामायण दोई
 कथा रामायण की जहँ होई * सो गृह घर मति जान न कोई
 सो घर तीर्थ रूप सम भासै * तहां गये सब पातक नासै
 पाप वास देही महँ तव लग * श्रीरामायण सुनै न जब लग
 उदय पुरानौ पुण्य होय जब * रामायण महँ मन लाग तव
 दोहा—रामायण के सुनत ही, छूट जाय प्रेतत्व ।

जाके पढ़े सुने ते, समुझत है पर तत्व ॥ १० ॥
 को जानै रामायण कौ रस * यह तौ है सन्तन को सरवस
 बनज सनेही अलिंगण जैसे * भक्तन प्रिय रामायण तैसे
 त्याग भक्तजन ग्रन्थ अनेक * धारण किय रामायण एक
 भक्तन कहँ है भक्ति अनूपा * रसिकजनन कहँ है रस रूपा
 ज्ञानमयी तिन कहं जे ज्ञानी * तुलसी तारण तरण बखानी
 काम क्रोध रुज बस संसारा * औषधि रामायण अनुसार
 रामायण महँ नेह न जाकौ * जीवन शव सम जानिय ताकौ
 रामायण जा कहँ प्रिय नाहीं * वृथा जनम ताकौ जग माहीं
 दोहा—रामायण अमृत कथा, लेत न ताकौ स्वाद ।

तिनको निश्चल जानिये, हैं पूरे दनुजाद ॥ ११ ॥
 रामायण विधिं कहौ विशारद * सनत्कुमार सों भाषी नारद
 सहित विधान सुनै जो कोई * सहज मुक्ति पावै नर सोई
 कार्तिक माघ चैत चित लाई * नव दिन सुनै कथा सुखदाई
 ब्रह्म मुहूर्त समय हो जबहीं * कर्म करै शौचादिक तवहीं
 करे दन्त धावन लट जीरा * सञ्जन करै धरै मन धीरा
 पुनि रामायण पुस्तक अरचै * प्रेस सहित गन्धादिक चरचै
 अन्तमो रामायण सन्त्र भनीजै * तीन आहुती हौम करीजै

जो यह पुत्र होय महाराज * करहिं विवाह साज सब साजा
 तुलसीदास वेदि विचराई * तहँ गणेश गौरी पधराई
 सिंहासन पर धर रामायण * नव दिन भर कीन्ही पारायण
 कन्या कौ वर वेष बनायो * ताही को सन्मुख बैठायो
 वक्ता आप सो श्रोता भई * दुनियाँ सब देखन को गई
 कथा सकल जब बाँचि सुनाई * तासु शीश कर धरेउ गोसाँई
 मन्त्र महासणि विषय व्याल के * मेटत कठिन कुअड्डु भाल के
 दोहा-अरु यह चौपाई पढ़ी, रामहि सुमिर प्रसन्न ।

तेहि अवसर वर है गयो, श्रीरामायण धन्य ॥१७॥

रामायण जब कही गोसाँई * मेटन हित काशी फिर आई
 आदर कीन्ह न पण्डित काऊ * कहैं जो हम सो करौ उपाऊ
 जहँ अस्थान कहौ तह जाहू * पोथी अब न दिखावहु काहू
 श्रीआनन्द कान्ह ब्रह्मचारी * हम शिर सौर सुसहिमा भारी
 जो जाको लै आदर करि हैं * तौ हम सब लै सीसाहि धरि हैं
 गए आनन्द कान्ह पहिं तत्पर * करत प्रशंस प्रसन्न परस्पर
 पोथी की चर्चा पुनि कीन्ही * देखन हेतु सों लै धरि लीन्ही
 कछु दिन पढ़ी सहित अनुरागन * गये गोसाँई पोथी माँगन
 दोहा-पोथी दइ जब अस कछौ, हुई है आदर लोक ।

निज प्रणामकरि लिखिदियो, यह अदभुत श्लोक ॥१८॥

श्लोक-आनन्द कानने ह्यस्मिञ्जङ्ग मस्तुलसीतरुः ।

कविता संजरी भाति रामभ्रमरभूषिता ॥

छन्द-धन्य धन्य तुलसीदास निज जग हेतु रामायण भनी ।

माहात्म्य अमित न कह सकौं रस विषय मह मति सनी ॥

निज बुद्धि के अनुसार कहि गोपाल सदगुरु की कथा ।

रघुवीर यश की अधिकता श्रीसन्तजन कर हैं मथा ॥

* इति श्रीरामायण-माहात्म्य संपूर्ण *



* अथ मङ्गलाचरणम् *

—::* श्लोक *::—

वर्णानामर्थसंधानाँ रसानाँ छन्दसामपि ।

मङ्गलानां च कर्त्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ ॥ १ ॥

अक्षरों, अनेक प्रकार के अर्थों, अनेक छन्दों और मंगलों के करने वाली श्रीसरस्वतीजी और गणेशजी की मैं वन्दना करता हूँ ।

भवानीशङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ ।

याभ्यां विनानपश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम् ॥ २ ॥

मैं श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्रीपावतीजी और शंकरजी की वन्दना करता हूँ, जिनकी कृपा से बिना सिद्ध लोग अपने अतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते ।

वन्दे बोधमयं नित्यं श्रीगुरुम् शङ्कररूपिणम् ।

यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते ॥ ३ ॥

मैं ज्ञान से परिपूर्ण, नित्य, (सदैव 'ब्रह्मनिष्ठ') शिव स्वरूप गुरुदेवकी वन्दना करता हूँ, जिनके आश्रित होकर ही देहा चन्द्रमा भी सर्वत्र वन्दित होता है ।

सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ ।

वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ ॥ ४ ॥

श्रीसीतारामजी के गुण समूह रूपी पवित्र वनमें विहार करने वाले तथा परम ज्ञानी कवीश्वर श्रीवाल्मीकिजी और कपीश्वर श्रीहनुमानजी की मैं वन्दना करता हूँ ।

उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम् ।

सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् ॥ ५ ॥

उद्भवस्थिति, संहारकारिणी, क्लेशहारिणी, सर्वश्रेयस्करिणी, सीता, नतोऽहं, रामवल्लभाम् ॥ ५ ॥

में संसार को उत्पन्न, पालन, संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली और सम्पूर्ण कल्याणों को करने वाली श्रीरामचन्द्र की प्रिय सीताजी को नमस्कार करता हूँ ।

यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा
यत्सत्त्वादसृषैव भातिसकलं रज्जौ यथाहेभ्रमः ।
यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षवित्तां
बन्देऽहं तदशेषकारणपरं रामाख्यमोशं हरिम् ॥ ६ ॥

जिनकी माया के वश में सम्पूर्ण, ब्रह्मादिक देवता असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भाँति यह सब प्रपंच (माया रूपी जगत) सत्य सा प्रतीत होता है, एवं जिनके चरण ही संसार सागर से तर जाने की इच्छा करने वाले प्राणियों को एक मात्र नौका रूप है, उन कारणों से परे श्रीराम नामक भगवान श्रीहरि को मैं नमस्कार करता हूँ ।

नानापुुराण निगमागमसम्मतं
रामायणेनिगदितंक्वचिदन्यतोऽपि ।
स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा
भाषा निबन्ध मति मञ्जुल मातनोति ॥ ७ ॥

अठारहों पुराण, चारों वेद और छहों शास्त्रों से समस्त जो बाल्मीकि रामायण को कहा है तथा कुछ अन्यत्र से भी प्राप्त श्रीरघुनाथजी की कथा को अपने अन्तःकरण सुख के लिए तुलसीदास अति मनोहर भाषा-प्रबन्ध में विस्तार से वर्णन करता हूँ ।

सो०—जेहि सुमिरतसिधिसोई, गणनाथक करिवर बदन ।
करउ अनुग्रह सोइ, बुद्धिराशि शुभगुण सदन ॥ १ ॥

जिन्हें स्मरण करने से सिद्धि प्राप्त होती है, गुणों के स्वामी, सुन्दर हाथी के मुखवाचे हैं, वे बुद्धि के समूह और शुभ गुणों के भण्डार श्रीगणेशजी मेरे ऊपर कृपा करें ।

मूक होय वाचाल, पगु चढ़ाहि गिरिवर गहन ।
जासु कृपाँ सो दयालु, द्रवहु सकल कलिमलदहन ॥ २ ॥

जिनकी कृपा से गूँगा बहुत बोलने लग जाता है और लंगड़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलियुग के सम्पूर्ण पापों को दूर करने वाले परम दयालु ईश्वर मेरे ऊपर कृपा करें ।

नील सरोरुह, श्याम, तरुन अरुनवारिजनयन ।
करहु सो सम उर धाम, सदा क्षीरसागरशयन ॥ ३ ॥

निल कमल के समान श्याम वर्ण और खिले हुए लाल कमल के समान नेत्रों वाले, जो सदैव क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे श्रीहरि मेरे हृदय में निवास करें ।

कुन्दु इन्दु सम देह, उमा रमण करुणा अयन ।

जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मर्दन मयन ॥ ४ ॥

कुन्द-पुष्प और चन्द्रमा के समान देह वाले, पार्वती के साथ विहार करने वाले, दया के स्थान, दीनों पर स्नेह-कर्ता हैं, ऐसे कामदेव को भस्म करने वाले शिवजी मेरे ऊपर कृपा करें ।

वन्दउँ गुरु पद कञ्ज, कृपासिंधु नर रूप हरि ।

महामोह तम पुञ्ज, जासु वचन रविकर निकरि ॥ ५ ॥

मैं गुरुदेव के कमल-स्वरूप चरणों की वन्दना करता हूँ, जो दया के समुद्र और मनुष्य-रूप में साक्षात् श्रीहरि ही हैं और जिनका वाक्य सदा अज्ञानी हपी महा अन्धकार को नाश करने में सूर्य की किरणों के समान है ।

वन्दउँ गुरु पद पदम परागा * सुरचि सुवास सरस अनुरागा

अमिय मूरिमय चूरन चारु * समन सकल भव रज परिचारु

मैं उन गुरुदेव के चरणों की वन्दना करता हूँ, जो सुन्दर, स्वादिष्ट तथा अनुरागरूपी रस से पूर्ण हैं। वह अमृत-बूटी का चूर्ण हैं, जिससे समस्त संसार हपी रोगों के परिवार का नाश होजाता है।

सुकृत सम्भु तनु विमल विभूती * मञ्जुल मंगल मोद प्रसूती

जन मनु मंजु मुकुल मल हरनी * किए तिलक गुनगन वस करनी

वह चरण-रज सुकृति (पुण्यवान् पुरुषों) रूपी शिवजी के शरीर की उज्ज्वल विभूति है, सुन्दर कल्याण व आनन्द को उत्पन्न करने वाली है, भवतजनों के मनरूपी दर्पण के मूल को हरने वाली है और धारण करने से सब गुणों को वश में करती है ।

श्रीगुरु पद नख मणिगन जोती * सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती

दलन मोह तम सो सुप्रकासू * बड़े भाग्य उर आवइ जासू

श्रीगुरुदेव के चरणों की नख-ज्योति मणि-समूह के प्रकाश के समान है । उनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य-दृष्टि हो जाती है । वह मोहरूपी अन्धकार को दूर कर सुन्दर प्रकाश करने वाली है, वह बड़ा ही भाग्यशाली है, जिसके हृदय में वह प्रकाश आता है ।

उधरहिं विमल विलोचन हिय के * मिटाहिं दोष दुख भव रजनी के

सूझहिं रामचरित मनि मानिक * गुपुत प्रगट जहँ जो जेहि खानिक

उस प्रकाश से हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार हपी रात्रि के दोष, दुःख दूर हो जाते हैं । श्रीरामचन्द्रजी के मानिक रूपी चरित्र जहाँ और जिस स्थान में गुप्त तथा प्रगट हैं, वे सब दिखाई देने लगते हैं ।

दोहा—यथा सुअञ्जन अञ्जिदृग, साधक सिद्ध सुजान ।

कौतुक देखत सैल वन, भूतल भूरि निधान ॥ १ ॥

जैसे मन्त्र-सिद्ध अंजन को नेत्र में लगाकर सुजान, साधक और सिद्धजन-पर्वतों, वनों और पृथ्वी में नाना प्रकार के कौतुक करते हैं ।

**गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन * नयन अमिय दृग दोष विभंजन
तेहिं कर विमल विवेक विमोचन * वरनउँ रामचरित भव मोचन**

गुरु-चरण-रज कोमल नयनामृत अंजन है और नेत्रों के दोषों को दूर करता है । मैं उसी से अपने ज्ञानरूपी नेत्रों को निर्मलकर संसार से मुक्ति देने वाले 'श्रीराम-चरित्र' का वर्णन करता हूँ ।

**बन्दउँ प्रथम महीसुर चरना * मोह जनित संसय सब हरना
सुजन समाज सकल गुन खानी * करउँ प्रणाम सप्रेम सुबानी**

पहले पृथ्वी के देवता-ब्राह्मणों के चरणों की वन्दना करता हूँ, जो मोह से उत्पन्न सब संशयों को हर लेते हैं, सब गुणों की खान सन्त-समाज को मैं प्रेम सहित वाणी से प्रणाम करता हूँ ।

**साधु चरित सुभ चरित कपासू * निसद विसद गुनमय फल जासू
जो सहि दुख परछिद्र दुरावा * बन्दनीय जेहिं जग जस पावा**

साधुओं का चरित्र कपास के समान है जिनका फल रस रहित होने पर भी स्वच्छ और गुणमय होता है । साधु स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों के दोष छिपाते हैं, इसी से संसार में वन्दनीय यश पाते हैं ।

**मुद मङ्गलमय सन्त समाजू * जो जग जङ्गम तीरथराजू
राम भगति जहँ सुरधरि धारा * सरसइ ब्रह्म विचारि प्रचारा**

सन्त-समाज आनन्द-मंगल से परिपूर्ण है, जो संसार में चलने वाला तीर्थराज (प्रयाग) है, जहाँ (सन्तसमाजरूपी प्रयाग) में राम-भक्ति ही गंगा की धारा है और ब्रह्म-विचार का प्रचार सरस्वती है

**विधि निषेधमय कलिमल हरनी * करम कथा रविनन्दनि वरनी
हरि हर कथा विराजति बेनी * सुनत सकल मृदु मङ्गल देनी**

विधि तथा निषेधरूपी जो कर्म काण्ड की कथा है, वही कलयुग के पापों को हरने वाली है । सूर्य-पुत्री यमुना, विष्णु और शिवजी की कथा मिलकर सुन्दर त्रिवेणी है, जो सुनने से आनन्द-मंगल को देने वाली है ।

**वटु विश्वास अचल निज धरमा * तीरथराज समाज सुकरमा
सबहि सुलभ सब दिन सब देसा * सेवत सादर समन कलेसा**

धर्म में अचल विश्वास अक्षय-वट है और सुकर्म ही तीर्थराज के वासी हैं । वह (भक्त-समाज रूपी प्रयाग) सबको, सब दिन, सब देशों में सुलभ है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नाश करने वाला है ।

अथक अलौकिक तीरथराऊ * देइ सद्य फल प्रकट सुभाऊ

यह तीर्थराज अकथनीय और अलौकिक है, यह तुरन्त फल देता है और इसका प्रभाव जगत् प्रसिद्ध है ।

दोहा—सुनि समुझहिं जन मुदित मन, मज्जहिं अति अनुराग ।

लहं हि चारि फलअछत तनु, साधु समाज प्रयाग ॥ २ ॥

जो इस प्रकार प्रसन्न चित्त हो बड़े प्रेम से उनके उपदेश सुनकर मनन करते हैं और मनमें मग्न होजाते हैं, वे शरीर के रहते हुए भी चारों फलों को प्राप्त करते हैं ।

मज्जन फल देखिय तत्काला * काक होहि पिक बकड मराला
सुनि आचरज करै जनि कोई * सतसङ्गत महिमा नहि गोई

तीर्थराज में स्नान का फल तुरन्त दिखाई देता है कि कौआ कोयल और बगुला हंस हो जाता है । यह सुनकर कोई अचरज न करें, क्योंकि सत्सङ्गति की महिमा छिपी नहीं है ।

वालमीकि नारद घट जोनी * निज निज मुख निकही निज होनी
जलचर थलचर नभचर नाना * जे जड़ चेतन जीव जहाना

वाल्मीकि, नारद और अगस्त्य ने अपने २ मुख से अपनी २ होनी कहीं । जलचर, थलचर व नभचर अनेक प्रकार के जड़ और चेतन-जीव संसार में हैं ।

मति कीरति गति भूत भलाई * जब जेहि जतन जहाँ पहि पाई
सो जानव सतसङ्ग प्रभाऊ * लोकहुँ वेद न आन उपाऊ

बुद्धि, यश, मोक्ष, ऐश्वर्य, भलाई जिस उपाय से जहाँ जिसने पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव है । लोक और वेद में इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है ।

बिनु सतसङ्ग विवेक न होई * राम कृपा बिनु सुलभ न होई
सतसङ्गत मुद मङ्गल मूला * सोइफल सिधिसव साधन फूला

बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता, सत्संग श्रीरामजी की कृपा के बिना मिलना दुर्लभ है । सत्संग आनन्द-मंगल की जड़ है, सिद्धि उसका फल है और सब साधन उसके फूल हैं ।

सठ सुधरहि सतसङ्गति पाई * पारस परसि कुधातु सुहाई
विधि वश सुजन कुसङ्गति परहीं * फणिमणिसमनिजगुण अनुसरहीं

दुष्टजन भी अच्छी संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस को छूने से लोहा कंचन हो जाता है । देव-योग से यदि सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो सर्प की मणि के समान अपने गुणों के अनुसार रहते हैं ।

विधि हरिहर कविकोविद वानी * कहत साधु महिमा सकुचानी
सो मो सन कहि जात न कैसे * साक वनिक मणि गुणगन जैसे

यस्या, विष्णु, महेश, कवि और पण्डितों की वाणी भी साधु-महिमा वर्णन करते सकुचाती है । वह मुझसे कैसे नहीं कही जाती, जैसे कि कुजड़ा मणियों के गुणों को नहीं जानता ।

दोहा—वन्दउँ सन्त समान चित्त, हित अनहित नहि कोइ ।

अंजलिगत शुभसुमन जिमि, सम सुगन्ध कर दोइ ॥ ३ ॥

मैं उन समदर्शी संतों की वन्दना करता हूँ, जिनका मित्र और शत्रु कोई नहीं है । जैसे

जैसे अंजलि में लिए फूल दोनों हाथों को बराबर सुगन्धित करते हैं, वैसे ही सन्त-शत्रु और मित्र दोनोंका समान रूप से कल्याण करते हैं।

दोहा—सन्त सरल चित्त जगतहित, जानि सुभाउ सनेहु।

बाल विनय सुनिकरि कृपा, राम चरन रति देहु ॥ ४ ॥

सन्त—सरल चित्त और जगत हितकारी हैं। उनका ऐसा स्वभाव और स्नेह जानकर मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझ बालक को विनती सुन, कृपा करके श्रीरामजी के चरणों में प्रीति दें।

**बहुरि बन्दि खलगन सतिभाएँ * जे बिनु काज दाहिनेहु बाएँ
पर हित हानि लाभ जिन्ह केरे * उजरें हरष विषाद बसेरे**

मैं सच्चे भाव से उन दुष्टजनों की वन्दना करता हूँ, जो बिना कार्य ही अपने हितैषियों के शत्रु बन जाते हैं। दूसरों के हित की हानि में ही जिनको लाभ है तथा किसी के उजड़ते में प्रसन्नता और बसने से जिन्हें दुःख होता है।

**कहत सुनत पर अघ न अघाहीं * जे पृथु शेष सरिस जग माहीं
हरि हर जस राकेश राहु से * पर अकाज भट सहस्रबाहु से**

जो दूसरे के पापों को कहते-सुनते नहीं अघाते हैं, वे मानो पृथु और शेषजी के समान कृथा ही संसार में आकर प्रकट हुए हैं। जो श्रीविष्णु और शिवजी के यशरूपी चन्द्रमा को राहु के समान और दूसरे का काम बिगाड़ने को सहस्रबाहु के समान योद्धा बन जाते हैं।

**जे पर दोष लखहि सहसाखी * परहित घृत जिनके मन माखी
तेज कृसानु रोष महिशेषा * अघ अवगुण धन धनी धनेषा**

जो पराये दोषों को हजार नेत्रों से देखते हैं और पराये हितकारी धी को बिगाड़ने में जिनका मन मक्खी के समान है। दुष्टों को तेज, अग्नि और क्रोध यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन के लिए तो वे साक्षात् कुवेर ही हैं।

**उदय केतु सय हित सब ही के * कुम्भकरण सम सोवत नीके
पर अकाजु लगि तनु परिहरही * जिमिहिस उपलकृषी दलिगरहीं**

जैसे केतु के उदय से सबको क्लेश होता है इसी प्रकार दुष्टों की बुद्धि से सबको क्लेश होता है, उनका तो कुम्भकरण के समान सोते रहते रहना ही अच्छा है। वे पराये काम बिगाड़ने को अपना शरीर तक त्याग देते हैं, जैसे पाला सौर ओले खेती को नष्ट कर आप भी नष्ट हो जाते हैं।

**बन्दउँ खल जस शेष सरोषा * सहस्र बदन बरनइ परदोषा
पुनि प्रबनउँ पृथुराज समाना * पर अघ सुनिहि सहस्र दस काना**

उनदुष्टों को मैं शेषजी के समान जानकर वन्दना करता हूँ, क्रोधावेश में हजार मुखों से पराये दोषों का वर्णन करते हैं। पुनः मैं उन दुष्टजनों को राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को दस हजार कानों से सुनते हैं।

बहुरि सक्र सम विनवउँ तेही * सन्तत सुरानीक हित जेही
वचन वज्र जेहि सदा पियारा * सहस नयन परदोष निहारा

फिर में उनको इन्द्र के समान नमस्कार करता हूँ जिन्हें नीक(अच्छी) सुरा(मदिरा)सदब
प्रिय लगती है, जैसे इन्द्र को सुर-अनीक (देव-सेना) सदा प्रिय है। जिनको कठोर वचन सदा
प्यारा लगता है और जो अपने नेत्रों से हजार नेत्रों के समान पराये दोषों को देखते हैं।

दोहा—उदासीन अरि मीत हित, सुनत जराहं खलरोति।

जानि पानि जुग जोरि जन, विनती करहुँ सप्रीति ॥ ५ ॥

उदासीन, रात्रु और मित्र का हित सुनते ही वे जल जाते हैं—यह दुष्टों की रीति है।
यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर प्रीति सहित में उनसे प्रार्थना करता हूँ।

मैं आपन दिशि कीन्ह निहोरा * तिन्ह निज औरन लाउव मोरा
बायस पालिहि अति अनुरागा * होहि निरामिष कबहुँ कि कागा

मैंने तो अपनी ओर से विनती करली है, परन्तु वे अपनी ओर निष्कपट-भाव नहीं लावेंगे,
ब्राह्मे खीर खिलाकर बड़े प्रेम से कोए को पालो, तो भी क्या वह बिना मांस खाये रह सकता है।

बन्दउँ सन्त असज्जन चरना * दुखप्रद उभय बीच कछु वरना
बिछुरत एक प्राण हरि लेहोँ * मिलत एक दुख दारुण देहोँ

अब मैं सन्त और असन्त दोनों के चरणों की वन्दना करता हूँ, दुःख-दाता दोनों ही हैं,
परन्तु दोनों के बीच में कुछ भेद है। एक (सन्त) तो गुणों से बिछुड़ते समय मानो प्राण
हर लेते हैं, और एक अपने अवगुणों से मिलते ही महान् दुःख देते हैं।

उपर्जाहि एक सङ्ग जग माहीं * जलजजोकजिमि गुन विल गाहीं
सुधा सुरा सम साधु असाधू * जनक एक जग जलधि अगाधू

संसार में दोनों ही एक साथ पैदा होते हैं, परन्तु कमल और जोंक के समान गुण पृथक
पृथक होते हैं। अमृत के समान साधु हैं और मदिरा के समान असाधु। इन दोनों का पिता
संसार अर्थात्—अमृत और मदिरा का पिता अथाह समुद्र है।

भल अनभलनिज निज करतूती * लहत सुजस अपलोक विभूती
सुधा सुधाकर सुरधरि साधू * गरल अनल कलिमल सरिव्याधू

गुण अवगुण जानत सब कोई * जो जेहि भाव नीक तेहि सोई

संत और असंत अपनी २ करतूत से सुयश और अपयश रूपी विभूती को पाते हैं।
अमृत, चन्द्रमा, गंगा, साधु, गरल, अग्नि, कर्मनाशा नदी, व्याधि—इन सबके गुण और अवगुण
सब कोई जानता है, परन्तु जिसको जो प्रिय लगे—वही अच्छा है।

दोहा—भलौ भलाई पै लहइ, लहइ निचाइहि नीचु।

सुधा सराहिअ अमरताँ, गरल सराहिअ मीचु ॥ ६ ॥

भले-जन भलाई से बड़ाई पाते हैं और नीच-जन निचाई से, अमृत अपने अमरता के गुण से और विष तत्काल मारने से सराहनीय है।

खल अघ अगुन साधु गुन गाहा * उभय अपार उदधि अवगाहा
तेहि तें कछु गुन दोष बखाने * संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने

दुष्ट अवगुण एवं साधु गुण ग्रहण करते हैं, दोनों अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से मैंने उनके कुछ गुण और दोष कहे हैं, क्योंकि बिना पहिचाने उनका संग्रह और त्याग नहीं होता।

भलेउ पोच सब विधि उपजाए * गुन गन दोष वेद बिलगाए
कहहिं वेद इतिहास पुराना * विधि प्रपंच गुन अवगुन साना

भले-बुरे सभी ब्रह्माने पैदा किए हैं और वेदों ने उनके गुण-दोष विचार कर उनके विभाग किये। वेद, पुराण और इतिहास सब कहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि में गुण-अवगुण दोनों मिले हुए हैं।

दुख सुख पाप पुण्य दिन राती * साधु असाधु सुजाति कुजाती
दानव देव ऊँच अरु नीचू * अमिअ सुजीवनु माहुरु मीचू

दुख-सुख, पाप-पुण्य, दिन-रात, साधु-असाधु, सुजाति-कुजाति, देव-दानव, ऊँच-नीच, अमृत-विष, संजीवन-मृत्यु—

माया ब्रह्म जीव जगदीसा * लच्छि अलच्छि रंक अबनीसा
काशी मृग सुरसरि कर्मनासा * मरु मारव महिदेव गवासा
सरग नरक अनुराग विरागा * निगमागम गुण दोष विभागा

माया-ब्रह्म, जीव-ईश्वर, लक्ष्मी दरिद्रता, रंक-राजा, काशी-मगध देश, गंगा-कर्मनाश नदी, मारवाड़-मालवा प्रदेश, ब्राह्मण-म्लेच्छ, स्वर्ग-नर्क, प्रेम-वैराग्य ये सब मिले हैं। वेद-शास्त्रों ने इनके गुण और दोषों का विभाग कर दिया है।

दोहा-जड़ चेतन गुन दोषमय, विश्व कीन्ह करतार।

सन्त हंस गुन गहहिं पय, परिहरि वारि विकार ॥ ७ ॥

ब्रह्मा ने संसार में जड़-चेतन जीवों को गुण-दोषों से मुक्त बनाया है, परन्तु हंसरूपी सन्त-जन जलरूपी दोष को त्याग कर दुग्धरूपी गुण को ही ग्रहण करते हैं।

अस विवेक जब देइ विधाता * तब तजि दोष गुनिहि मनु राता

काल सुभाउ करम बरिआई * भलेउ प्रकृति बस चुकइ भलाई

ऐसा (नीर-क्षीर-न्याय) ज्ञान जब विधाता देता है, तब अवगुणों को छोड़ गुणों में मन लगता है। परन्तु समय, स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले पुरुष भी माया के वश भलाई से चूक जाते हैं।

सो सुधारि हरिजन जिमि लेहीं * दलि दुख दोष विमल जसु देहीं

खलहु करहिं भल पाइ सुसंगू * मिटइ न मलिन सुभाउ भुअंगू

भगवद्भक्त जैसे उस भूल को सुधारकर दुःख और दोष को दूरकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्टजन अच्छी संगति पाकर भलाई करते हैं, परन्तु उनका दुष्ट स्वभाव नहीं जाता।

लखि सुवेष जग बंचक जेऊ * वेष प्रताप पूजिअहिं तेऊ
उघर्राहिं अन्त नहोइ निवाहू * कालनेमि जिमि रावन राहू

जो सुन्दर वेष बना जगत् को ढगते हैं, वे भी वेष के प्रताप से पूजे जाते हैं। परन्तु बीच में ही वह कपट स्वरूप खुलने से अन्त तक उसका निर्वाह नहीं होता, जैसे कालनेमि, रावण और राहू का हुआ।

किएहुँ कुवेष साधु सनमानू * जिमि जग जामवन्त हनुमानू
हानि कुसङ्ग सुसङ्गति लाहू * लोकहु वेद विदित सब काहू

साधु बुरा वेष भी धारण किये हो, तो भी उसका सम्मान ही होता है, जैसे जगत् में जामवन्त और हनुमान का हुआ। कुसंग से हानि तथा सुसंग से लाभ होता है, लोक और वेद में यह सबको विदित है।

गगन चढ़इ रज पवन प्रसंगा * कीर्चहिं मिलइ नीच जल संगी
साधु असाधु सदन शुक्र सारी * सुमिरहिं राम देहिं गनि गारी

धूल पवन के साथ आकाश में चढ़ जाती है और वही नीचे जाने वाले जल के साथ नीचे मिलती है। साधुके घर में तोता-मैनारामरटते हैं और असाधुके घर में तोता-मैना मालीदेते हैं।

धूम कुसंगति कालिख होई * लिखिअ पुरान मंजु मसि सोई
सोइ जल अनल अनिल संघाता * होइ जलद जग जीवन दाता

कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है और सुसंगति से वह अच्छी स्याही बनकर पुराण लिखने के काम आता है। वही धुआं जल अग्नि और वायु के सम्बन्ध से भावरूप बादल होकर संसार को जीवन देने वाला हो जाता है।

रोहा-ग्रह भेषज जल पवन पट, पाइ कुजोग सुजोग।

होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लहहिं सुलच्छन लोग ॥ ८ ॥

ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये कुयोग और सुयोग पाकर संसार में भले और बुरे हो जाते हैं, यह बात तो चतुर लोग ही जानते हैं।

सम प्रकाश तम पाख दुहुँ, नाम भेद विधि कीन्ह।

शशि सोषक पोषक समुझि, जगयश अपयश दीन्ह ॥ ९ ॥

यद्यपि महीने के दोनों पक्षों में उजाला और अँधेरा एक समान रहता है तथापि विघाता ने उनके नामों में भेद कर दिया है। एक पक्ष में चन्द्रमा को बढ़ने वाला और दूसरे में घटने वाला समझ कर यश, अपयश दे दिया है।

जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानि।

वन्दउँ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानि ॥ १० ॥

जितने भी जड़ और चेतन जीव संसार में हैं, उन सबको राममय जानकर सबके चरमलों की मैं वन्दना करता हूँ।

दोहा—देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गन्धर्व ।
बन्दुँ किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सर्व ॥११॥

देवता, दैत्य, मनुष्य, प्रेत, पितर, गन्धर्व किन्नर और निशाचर इन सबकी मैं वन्दना करता हूँ । अब मुझ पर आप सब कृपा करो ।

आकर चारि लाख चौरासी * जाति जीव जल थल नभ वासी
सीय रामसय सब जग जानी * करहुँ प्रणाम जोरि जुग पानी

चार प्रकार के जीव (स्वेदज, उद्भिज, अण्डज तथा जरायुज) हैं, इनकी चौरासी लाख योनि हैं और यह पृथ्वी, जल तथा आकाश में रहते हैं । इससे जगत् को सीताराम सय जानकर दोनों हाथ जोड़कर मैं वन्दना करता हूँ ।

जानि कृपा कर किन्नर सोहू * सब मिलि करहु छाँड़ि छलछोहू
निज बुधिबल भरोस मोहिनाहीं * ताते विनय करहुँ सब पाहीं

मुझे अपना सेवक जानकर आप सब निष्कपट हो मुझ पर दया करो । मुझे अपनी बुद्धि-बल का भरोसा नहीं है इसलिए सबसे विनय करता हूँ ।

करन चहुँ रघुपति गुणगाहा * लघुमति मोरि चरित अवगाहा
सूझ न एकउ अड़ उपाऊ * मन मति रंक मनोरथ राऊ

मैं श्री रघुनाथजी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परन्तु मेरी बुद्धि छोटी और चरित्र अथाह है । कविता के अनेक अंगों में से मुझे कोई और उपाय नहीं सूझता । मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किन्तु मेरा मनोरथ राजा है ।

मति अति नीच ऊँच रुचि आछी * चहिअ अमिय जग जुरइ न छाछी
जसिहाँ सज्जन मोरि ढिठाई * सुनिहाँ बाल वचन मन लाई

और बुद्धि तो बहुत नीची और चाह बहुत ऊँची और सुन्दर है । चाहिए तो अमृत पर संसार में छाछ भी नहीं मिलती । मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल-वचन मन लगाकर सुनेंगे ।

जाँ बालक कह तोतरि बाता * सुनिहाँ मुदित मन रिपु अरु माता
हँसिहाँ कूर कुटिल कुविचारी * जे पर दूषन भूषन धारी

जिस प्रकार बालक तोतली बात कहता है तो माता-पिता प्रसन्न मनसे सुनते हैं, किन्तु निर्दयी, कुटिल और खोटे विचार वाले हँसेंगे जो पराये दोषरूपी भूषण को धारण करने वाले हैं ।

निज कवित्त केहि लागि न नीका * सरस होउ अथवा अति फीका
जे पर भनित सुनत हरषाहीं * ते वर पुरुष बहुत जग नाहीं

रसीला हो अथवा फीका हो, अपना काव्य किसे अच्छा नहीं लगता ? जो दूसरे की रचना को सुनकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत नहीं हैं ।

जग बहु नर सर सरि सम भाई * ते निज बाढ़ि बढहि जल

सज्जन सुकृत सिन्धु सम कोई * देखि पूर विधु वाढ़इ जोई
संसार में तालावों और नदियों के समान ही मनुष्य अधिक हैं, जो अपनी वाढ़ से ही
बढ़ते हैं। पुण्यात्मा सज्जन तो कोई २ हैं; जो समुद्र के समान पूर्णचन्द्र को देखकर बढ़ते हैं।

दोहा-भाग कोट अभिलाषु वड़, करउं एक विश्वास।

पैहहिं सुख सुनिसुजन जन, खल करिहहिं उपहास ॥ २ ॥

मेरा भाग्य तो छोटा है और अभिलाषा बड़ी है, परन्तु मुझे एक ही बात का विश्वास
है कि सन्त-जन उसको सुनकर सुख पावेंगे और दुष्ट-जन उपहास करेंगे।

खल परिहास होइ हित मोरा * काक कहहिं कल कण्ठ कठोरा

हंसहिं बक दादुर चातकहीं * हंसहिं मलिन खल विमल वत कहीं

दुष्टों के हंसने से मेरा हित होगा, क्योंकि कोए तो कोयल के कण्ठ को कठोर कहते हैं।
जैसे हंस को वगुला और पपीहा को मेंढक देखर हंसता है, इसी प्रकार मलिन-आत्मा वाले
दुष्ट-जन निमल वचन को सुनकर हंसते हैं।

कवित रसिक न राम पद नेहू * तिन्ह कहं सुखद हास रस ऐहू

भाषा भनिति भोरि मति मोरी * हंसिवे जोग हंसे नहिं खोरी

न तो जो कविता के रसिक हैं और न जिन्हें श्रीरामजी के चरणों में स्नेह है, उनको
भी यह कविता हास्य-रस-युक्त होकर सुख देने वाली होगी। यह भाषा में है, दूसरे मेरी
बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने योग्य ही है, अतः हंसने में कोई दोष नहीं है।

प्रभु पद प्रीति न सामुझि नीकी * तिन्हहिं कथा सुन लागिहिं फीकी

हरिहर पद रति मति न कुतर की * तिन्ह कहुं मधुर कथा रघुवर की

जिनकी प्रभु के चरणों में न तो प्रीति है, न बुद्धि अच्छी है, उनको यह कथा सुनकर
फीकी लगेगी। जिनका विष्णु और महादेवजी के चरणों में प्रेम है और बुद्धि कुतर्क नहीं
है, उनको यह श्रीरामजी की कथा मधुर लगेगी।

राम भगति भूषित जियं जानी * सुनिहहिं सुजन सराहि सुवानी

कवि न होउं नहिं वचन प्रवीनू * सकल कला सब विद्या हीनू

श्रीराम-भक्तिरूपी मणि से सुरोमित जानकर श्रेष्ठ-जन सुन्दर वाणी से प्रशंसा करते
हूए इसको सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ और न बोलने में चतुर हूँ, मैं सम्पूर्ण कला तथा सब
विद्याओं से रहित हूँ।

आरथ अरथ अलंकृति नाना * छन्द प्रवन्ध अनेक विधाना

भाव भेद रस भेद अपारा * कवित दोष गुण विविध प्रकारा

एकउ कवित विवेक न मोरे * सत्य कहहुं लिखि कागद कोरे

अक्षरों के अर्थ, अलंकार, छन्द रचना के विधान, भावों और रसों के भेद तथा कविता के दोष-
गुण अनेक प्रकार के हैं। कविता के ज्ञान में से कोई मुझमें नहीं है, यह मैं सत्य य

दोहा—भनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक ।

सो विचारि सुनिहहिं सुमति, जिन्हकें विसल विवेक ॥१३॥

मेरी कविता सब गुणों से रहित है । इसमें केवल एक गुण है, जो संसार में प्रसिद्ध है । उसे विचारकर इसको वही लोग सुनेंगे, जिनकी सति अच्छी और हृदय में निर्मल ज्ञान होगा ।

एहि सहँ रघुपति नाम उदारा * अति पावन पुरान श्रुति सारा
सङ्गल भवन असङ्गल हारी * उमा सहित जेहि जपत पुरारी

इसमें श्रीरघुनाथजी का उदार नाम है, जो संसार में प्रसिद्ध, अति पवित्र और वेदों का सार है, मंगल का घर और अमंगल को हरने वाला है, जिसको पार्वती सहित शिवजी भी जपते हैं ।

भनिति विचित्र सुकविकृत जोऊ * राम नाम विनु सोह न सोऊ
विधुवदनी सब भाँति सँदारी * सोह न वसन विना वर नारी

अच्छे कवि की कविता अनोखी हो तो भी श्रीराम-नाम के बिना शोभा नहीं पाती, जैसे चन्द्रमा के समान मुख वाली, सब प्रकार से सुन्दर स्त्री वस्त्रों के बिना शोभा नहीं देती ।

सब गुण रहित कुकविकृत बानी * राम नाम जस अंकित जानी
सादर कहहिं सुनिहं बुधि ताही * सधुकर सरिस सस्त गुण प्राही

सब गुणों से रहित अनाड़ी कवि की रचना को भी राम-नाम के यश से अंकित जानकर विद्वान उसको आदर सहित कहते और सुनते हैं, क्योंकि सत्पुरुष तो भौरे के समान गुणों के ग्राहक हैं ।

जदपि कवित रस एकउ नाही * राम प्रताप प्रगट एहि माहीं
सोइ भरोस मोरें मन आवा * केहि न सुसङ्ग बडप्पनु पावा

यद्यपि इसमें कविता का एक भी गुण नहीं है, तथापि इसमें श्रीराम का प्रताप प्रकट है इससे मेरे मन में यही भरोसा है कि अच्छे संग से किसने बड़ाई नहीं पाई है ?

धूमउ तजइ सहज करुआई * अगर प्रसङ्ग सुगन्ध वसाई
भनिति भदेस वस्तु भलि वरनी * राम कथा जग मङ्गल

धुआँ भी अगर के साथ सुगन्धित होने से कहुवापन छोड़, सुगन्धयुक्त हो जाता है । मेरी तो भद्वी है, परन्तु एक वस्तु श्रीराम-कथा उत्तम है, जो संसार में मंगल करने वाली है ।

छन्द—मङ्गल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की
गति कूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की ।

प्रभु सुजस सङ्गति भनिति भलि होइहि सुजस मन भावनी

भव अंग भूति ससान की सुमिरत सुहावनि पावनी ।

श्रीरघुनाथजी की कथा मंगलकारी और कलियुग के पापों को हरने वाली है । मेरी कविता रूपों नदी की गति पवित्र गंगाजी की भाँति देही है । परन्तु रघुनाथजी के सुयश के संग मेरी कविता भी अच्छी और सत्पुरुषों के हृदय को प्रसन्न करने वाली हो जायगी ।

शिवजी के अंग में लगी चित्ता की अपवित्र भस्म स्मरण करने में मुहावनी और पवित्र है ।

दोहा—प्रिय लागिहि अति सबसम, भनिति राम जस सङ्ग ।

दारु विचारु किकरइ कोउ, वन्दिअ मलय प्रसङ्ग ॥१४॥

श्रीरामजी के यश से मेरी कविता सभी को प्रिय लगेगी । जैसे मलयगिरि के प्रसंग से काष्ठ मात्र वन्दनीय हो जाता है । तब क्या कोई उसकी तुच्छता विचारता है ?

श्यामसुरभिपय विसद अति, गुनद करहिं सब पान ।

गिरा ग्राम्य सियाराम जस, गावहिं सुनिहिं सुजान ॥१५॥

श्यामा गाव फाली है, परन्तु उसका दूध बहुत स्वच्छ और गुण दायक है, यह समझकर सभी लोग उसको पीते हैं । इसी प्रकार उस राम-कथा को ग्राम्य-भाषा में होने पर भी सीता-रामजी का यश जानकर सज्जन लोग गाते और सुनते हैं ।

मनि मानिक मुकुता छवि जैसी * अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी

नृप किरीट तरनी तनु पाई * लहहिं सकल सोभा अधिकाई

मणि मानिक और मोती की जैसी शोभा है, वंसी सोभा-सर्प, पर्वत और हाथी के मस्तक पर नहीं रहती । राज-मुकुट और नव-यौवन का शरीर पाकर यह सभी बहुत शोभा पाते हैं ।

तैसेहि सुकवि कवित बुध कहहीं * उपजहिं अनत अनत छवि लहहीं

भगति हेतु विधि भवन विहाई * सुमिरत सारद आवति धाई

इसी प्रकार पण्डित कहते हैं कि सुकवि की कविता उपजती अन्य स्थान में है और शोभा अन्यत्र पाती है । भक्ति के कारण, स्मरण करते ही सरस्वती-ब्रह्मलोक को छोड़कर आ जाती है ।

राम चरित सर विनु अन्हवाए * सो श्रम जाइ न कोटि उपाए

कवि कोविद अस हृदय विचारी * गावहिं हरि यश कलि मल हारी

राम चरित्ररूपी सरोवर में स्नान कराये बिना सरस्वतीजीकी थकावट करोड़ों उपायों से भी नहीं जाती । कवि और पण्डित ऐसा हृदय में विचार कर कलियुग के पापों को हरने वाले श्रीहरि के ही गुण गाते हैं ।

कोन्हे प्राकृत जन गुण गाना * सिरधुनि गिरा लगत पछिताना

हृदय सिंधु मति सीप समाना * स्वांति सारदा कहहिं सुजाना

साधारण मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वतीजी सिर धुनकर पछताने लगती हैं । कवियों का हृदय समुद्र, बुद्धि सीप और सरस्वतीजी स्वांति नक्षत्र के समान हैं, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं ।

जौ वरषइ वारि विचारू * होहिं कवित मुकता मणिचारू

इसमें यदि सदविचाररूपी जब बरसता है तो कविता मुयतामणि के समान सुन्दर होती है ।

दोहा—जुगुतिवेधिपुनि पोइअहिं, रामचरित वर ताग ।

पहिरहिं सज्जन दिमल उर, सोभा अति अनुराग ॥१६॥

फिर उन कवितारूपी मणियों को युक्ति रूपी सुई छेदकर रामचरित्र रूपी धागे में पिरोकर सज्जन निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अनुरागरूपी शोभा को प्राप्त करते हैं ।

जे जनमे कलिकाल कराला * करतब बायस वेष मराला
चलत कुपन्थ वेद मग छाँड़े * कपट कलेबर कलिमल भाँड़े

जो भयंकर कलियुग में जन्मे हैं, जिनके कर्म कौए के समान और भेष हंस का-सा है, जो वेद-मार्गको छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपटकी मूर्ति व कलियुग के पापोंके भाँड़े हैं।

वञ्जक भगत कहाइ राम के * किंकर कञ्चन कोह काम के
तिन्ह सहं प्रथम रेख जग मोरी * धींग धरमध्वज धन्धक धोरी

जो राम-भक्त कहाकर लोगों को ठगते हैं, कंचन क्रोध और काम के दास हैं जो धींगा-धीगी करने वाले, दम्भी तथा अपने स्वार्थ में सदैव रत हैं, ऐसे लोगोंमें मेरी गणना सर्व प्रथम है।

जो अपने अवगुण सब कहऊं * बाढ़इ कथा पार नहिं लहऊं
ताते मैं अति अल्प बखाने * थोरे महँ जानिहहिं सयाने

जो मैं अपने अवगुण कहूँ तो कथा बहुत बढ़ जायगी और मैं पार नहीं पाऊँगा। इससे मैंने अपने अवगुण संक्षिप्त में ही कहे हैं। क्योंकि चतुर लोग थोड़े में ही जान लेंगे।

समुझि विविधविधि विनती मोरी * कोउ न कथा सुनि देइहिं खोरां
एतेहु पर करिहहिं जे शंका * मोहिते अधिक ते जडमति रंका

विविध प्रकार की मेरी इस विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर मुझे दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करें, वे मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धिहीन हैं।

कवि न होउं नहिं चतुर कहावौं * मति अनुरूप रामगुण गावौं
कहं रघुपति कै चरित अपारा * कहं मति मोरि निरत संसारा

मैं न कवि हूँ, न चतुर कहाता हूँ, मैं अपनी मति के अनुसार श्रीराम-गुणगान करता हूँ। कहाँ तो श्रीरघुनाथजी का अपार चरित्र और कहाँ मेरी बुद्धि, जो संसारी-माया में फँसी है।

जेहिं मारुत गिरि मेरु उड़ाही * कहहु तूल केहि लेखे माहीं
समुझत अमित राम प्रभुताई * करत कथा मन अति कदराई

जिस प्रचण्ड वायु से सुमेरु के समान पर्वत उड़ जाते हैं, उसके सामने रुई किस गिनती में है? श्रीरामजी को अपार महिमा समझकर कथा रचते हुए मेरा मन बहुत हिचकता है।

दोहा—शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुरान।

नेति नेति कहि जासु गुण, करहिं निरन्तर गान ॥१७॥

सरस्वतीजी, शेषजी, शिवजी, ब्रह्माजी, शास्त्र, वेद और पुराण—ये सब नेति-नेति ऐसा कहकर जिनका सदैव गुणगान करते हैं।

सब जानत प्रभु प्रभुता सोई * तदपि कहे बिनु रहान कोई

तहाँ वेद अस कारण राखा ✽ भजन प्रभाव भाँति बहु भाखा
 यद्यपि प्रभु की ऐसी प्रभुता को सब जानते हैं, तथापि कहे विना कोई नहीं रहा । इसमें
 वेदों ने ऐसा कारण कहा है कि भजन का प्रभाव अनेक प्रकार से वर्णन किया है ।

एक अनीह अरूप अनामा ✽ अज सच्चिदानन्द परधामा
 व्यापक विश्व रूप भगवाना ✽ तेहिं धरि देह चरित कृत नाना

जो अद्वितीय, इच्छा-रहित, निराकार, नामहीन, अजन्मा, सत्त-चित्त, आनन्द और परमधाम हैं,
 तथा सर्वव्यापक, विश्वरूप हैं, वही भगवान् पृथ्वी पर अवतार लेकर अनेक लीलायें करते हैं ।

सो केवल भगंतन हित लागी ✽ परम कृपालु प्रणत अनुरागी
 जेहिं जन पर ममता अति छोह ✽ जेहिं करुणा करि कीन्ह न कोह

वह लीला केवल भक्तों के ही निर्मित है । प्रभु परम दयालु और शरणागत प्रेमी हैं, जिनकी
 भक्तों पर ममता और प्रीति है, जिस पर एक बार कृपा करदी, उसपर कभी क्रोध नहीं किया ।

गइ वहोरि गरीब निवाजू ✽ सरल सबल साहिव रघुराजू
 बुध वरनिहिं हरिजस अस जानी ✽ करहिं पुनीत सुफल निज वानी

वे श्रीरामजी गई वस्तु को पुनः देने वाले, गरीब-निवाज, सौधे, सर्वशक्तिमान सबके स्वामी हैं ।
 ऐसा जानकर विद्वान लोग श्रीहरि-यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र व सफल करते हैं

तेहिं बल मैं रघुपति गुण गाथा ✽ कहिहउं नाइ राम पद माथा
 मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई ✽ तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई

उसी बल से मैं भी श्रीरामजी के चरणों में मस्तक नवाकर उनके गुणों की कथा कहूँगा ।
 वाल्मीकि आदि कवियों ने पहिले हरि-यश गाया है, हे भाई ! उसी मार्ग पर चलना सुगम है

दोहा—अति अपार जे सरित वर, जौं नृप सेतु कराहिं ।

चढ़ि पिपीलकउ परम लघु, विनुश्रम पारहि जाहिं ॥१८॥

अत्यन्त श्रेष्ठ और बड़ी नदियों पर जो राजा लोग पुल बंधवा देते हैं, तो उन पर चढ़कर
 बहुत-सी छोटी २ चोटियाँ भी बिना परिश्रम के ही नदी पार चली जाती हैं ।

एहि प्रकार बल मनहि दिखाई ✽ करिहउं रघुपति कथा सुहाई
 व्यास आदि कवि पुङ्ख नाना ✽ जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना

इस प्रकार के बल से मनको दृढ़ करके मैं श्रीरामजी की सुन्दर कथा वर्णन करूँगा । व्यास
 आदि अनेकों कवीश्वर हो चुके हैं, जिन्होंने आदर सहित श्रीहरि का चरित्र वर्णन किया है ।

चरण कमल वन्दउं तिन्ह केरे ✽ पुरवहु सकल मनोरथ मेरे
 कलि के कविन्ह करउं परनामा ✽ जिन्ह वरणे रघुपति गुण ग्रामा

मैं उनके चरणारविन्दों की वन्दना करता हूँ, वे मेरे सभी मनोरथ पूर्ण करें । कलियुग
 के कवियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथजी के गुणों का वर्णन किया है ।

जे प्राकृत कवि परम सयाने * भाषाँ जिन्ह हरि चरित बखाने
भए जे अहाँहिं जे होइहाँहिं आगे * प्रनवउँ सबहि कपट छल त्यागे

जो बड़े चतुर सामान्य कवि हैं, जिन्होंने भाषा में श्रीहरि-चरित वर्णन किया है, ऐसे कवि जो पहले हो चुके हैं, तथा जो होंगे, उन सबको मैं छल-कपट त्यागकर प्रणाम करता हूँ।

होहु प्रसन्न देहु वरदान * साधु समाज भनिति सनमान
जो प्रबन्ध बुध नाँहि आदरहाँ * सो श्रम बादि बाल कवि करहाँ

वे प्रसन्न होकर यह वरदान दें कि साधु-समाज में कविता का सम्मान हो, क्योंकि पंडित जन जिसकी कविता का आदर नहीं करते, बाल-कवि भी उसकी रचना का परिश्रम व्यर्थ करते हैं।

कीरति भनित भूति भलि सोई * सुरसरि सम सब कहँ हित होई
राम सुकीरति भनिति भदेसा * असमञ्जस अस सोहि अँदेसा

यश, कविता और संपत्ति वही अच्छी होती है, जिससे कि गंगाजी के समान सबका हित हो, श्री रामजी की कीर्ति अच्छी है और कविता श्रद्धा है। दोनों में यह असमंजस्य है, यही मुझे चिन्ता है।

तुम्हरो कृपा सुलभ सोउ सोरे * सिअनि सुहावनि टाट पटोरे

आप लोगों की कृपा से यही मुझे सुलभ हो जायगी, जैसे टाट में रेशम की सिलाई सुन्दर लगती है।

दोहा-सरल कवित कीरति विमल, सोइ आदरहाँ सुजान।

सहज बयरु बिसराइ रिपु, जो सुनि करँहि बखान ॥१८॥

कविता सरल हो, जिसमें निर्मल चरित का वर्णन किया हो, उसका सज्जन आदर करते हैं। वैरी लोग भी अपना स्वभाव छोड़कर उसकी सुनकर सराहना करते हैं।

सोन होइ बिनु विमलमति, सोहि मतिबल अति थोर।

करहु कृपा हरिजस कहउँ, पुनि पुनि करउँ निहोर ॥२०॥

ऐसी कविता निर्मल बुद्धि के बिना नहीं होती और मेरा बुद्धि-बल बहुत थोड़ा है। अतः हे कवियो, मुझ पर कृपा करो, जिससे मैं श्रीहरि का यश कहूँ। मैं बार-बार यही विनय करता हूँ।

कवि कोविद रघुवर चरित, मानस मञ्जु मराल।

बाल विनय सुनि सुरचिलखि, सो पर होहु कृपाल ॥२१॥

हे कवि और पण्डित जनो! आप श्रीरामचरित-मानस के सुन्दर हंस हैं। आप बाल-विनय सुनकर तथा रचि देखकर मुझ पर कृपा करो।

सो०-बन्दउँ मुनि पद कञ्जु, रामायन जेहि निरमयउ।

सखर सुकोसल मञ्जु, दोष रहित दूषण सहित ॥ ६ ॥

मैं वाल्मीकिजी के चरणारविन्दों की वन्दना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है। जो कि खर-दूषण! की कथा से युक्त होने पर भी कोसल, सुन्दर और दोष रहित है।

वन्दउँ चारिहु वेद, भव वारिधि वोहितसरिस ।

जिन्हहिं न सपनेहुँ खेद, वरनतरघुवर विसद जसु ॥ ७ ॥

मैं चारों वेदों की वन्दना करता हूँ, जो भवसागर से पार होने के लिए बड़ी नाव के समान है। जिन्हें श्रीरघुनाथजी का निर्मल यश वर्णन करते हुए स्वप्न में भी क्लेश नहीं होता।

वन्दउँ विधि पद रेनु, भवसागर जेहि कीन्ह जहँ ।

सन्त सुधा ससि धेनु, प्रगटे खल विष वारुनी ॥ ८ ॥

मैं ब्रह्माजी की चरण-रज की वन्दना करता हूँ, जिन्होंने यह संसार सागर रचा है, जिसमें से अमृत, चन्द्रमा और कामधेनु रूपी सन्त और विष-वारुणी रूपी दुष्ट-जन प्रगट हुए हैं।

दोहा—विबुध विप्र बुध ग्रह चरन, वन्दिं कहउँ कर जोरि ।

होइ प्रसन्न पुरवहु सकल, मञ्जु मनोरथ मोरि ॥२२॥

मैं देवता, ग्राह्यण, पण्डित और ग्रहों के चरणों की हाथ जोड़कर वन्दना करके, कहता हूँ कि वे सब प्रसन्न होकर मेरा सुन्दर मनोरथ पूर्ण करें।

पुनि बंदउँ सारद सुरसरिता ✽ जुगल पुनीत मनोहर चरिता

मञ्जन पान पाप हर ऐका ✽ कहत सुनत हर एक अविवेका

पुनः मैं सरस्वतीजी तथा गंगाजी की वन्दना करता हूँ, जो पवित्र व मनोहर चरित्र वाली हैं। एक तो स्नान व पान से पाप हर लेती हैं और दूसरी पढ़ने से अविवेक को हर लेती हैं।

गुरु पितु मातु महेश भवानी ✽ प्रनवउँ दीनवन्धु दिन दानी

सेवक स्वामि सखा सिय पीके ✽ हितनिरुपधि सब विधि तुलसी के

गुरु, माता, पिता एवं शिव-पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो दीनदयालु और नित्य मनोरथ के देने वाले हैं, जो श्रीरामजी के सेवक, स्वामी और सखा हैं और मेरे तो सब प्रकार के दोष रहित हित साधक हैं।

कलिविलोकिजगहितहरगिरिजा ✽ सावर मंत्रजाल जिन्ह सिरिजा

अनमिल आखर अरथ न जापू ✽ प्रगट प्रभाउ महेश प्रतापू

कल्पियुग को देख, जगत् के हितार्थ शिव-पार्वती ने जगत् में सावर-मंत्र रचे, जिनमें अनमिल अक्षर हैं। न अर्थ है न जाप-विधि, परंतु महेश के प्रताप से उनका प्रभाव प्रत्यक्ष है।

सो उमेश मोहि पर अनुकूला ✽ करिहि कथा मुदि मङ्गल मूला

सुमिरिं शिवा शिव पाइ पसाऊ ✽ वरनउँ रामचरित चित चाऊ

वे शिवजी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनन्द देने वाली करेंगे। शिव-पार्वती का स्मरण कर प्रसन्नता पाकर मैं प्रसन्न चित्त से रामचरित का वर्णन करता हूँ।

भनिति मोरि शिव कृपाँ विभाती ✽ ससि समाज मिल मनहुँ सिराती

जे एहि कथहि सनेह समेता * कहिहहिं सुनहहिं समुझि सचेता
होइहहिं राम चरण अनुरागी * कलिमल रहित सुमङ्गल भागी

शिवजी की कृपा से यह कविता ऐसी सुशोभित होगी—जैसे तारों सहित चन्द्रमा से रात्रि । जो इस कथा को प्रेम सहित कहेंगे, सुनेंगे और ध्यान देकर समझेंगे—श्रीरामजी के चरणों के प्रेमी और कलिकाल के पापों से रहित होकर सुन्दर मंगल के भागी होंगे ।

दोहा—सपनेहुँ साँचेहुँ मोहि पर, जाँ हर गौरि पसाउ ।

तौ फुर होउ जो कहेहुँ सब, भाषा भणिति प्रभाउ ॥२३॥

स्वप्न में भी सचमुच जो मुझ पर श्रीशिव-पार्वतीजी प्रसन्न होंगे तो मेरी इस भाषा कविता का प्रभाव जो मैंने कहा है— वह सब सत्य होगा ।

बन्दउं अवधपुरी अति पावनि * सरयू सरि कलि कलुश नसावनि
प्रनवउं पुर नर नारि बहोरी * ममता जिन्ह पर प्रभुहिं न थोरी

मैं अति पवित्र अयोध्या तथा कलियुग के पापों की नाशक सरयू की वन्दना करता हूँ । नगर के नर-नारियों को प्रणाम करता हूँ, जिन पर प्रभु की बहुत ही ममता थी ।

सिय निन्दक अघ ओघ नसाए * लोक विसोक बनाइ बसाए
बन्दउं कोसल्या दिसि प्राची * कीरति जासु सकल जग माची

जिन्होंने सीताजी के निन्दक धोबी के पापों का नाश कर उसे शोक रहित करके बैकुण्ठ में बसा दिया । अबमें पूर्व दिशा रूपी कौसल्या की वन्दना करता हूँ, जिनकी कीर्ति संसार में फैली है ।

प्रगटेउ जहं रघुपति शशि चारू * विश्व सुखद खल कमल तुषारू
दशरथ राउ सहित सब नारी * सुकृत सुमङ्गल मरति मानी

जो संसार को सुख देने वाले चन्द्रमारूपी श्रीरघुनाथजी दुष्टरूपी कमलों के लिए पाल के समान प्रगट हुए । सब रानियों सहित राजा दशरथ को पुण्य और मंगल की मूर्ति मानकर ।

करहुँ प्रणाम करम मन बानी * करहु कृपा सुत सेवक जानी
जिन्हहिं विरचि बड़भयउ विधाता * महिमा अवधि राम पितु माता

मैं कर्म, मन, वचन से प्रणाम करता हूँ, मुझ अपने पुत्र को सेवक जानकर कृपा करें । जिनको रचकर विधाताने भी बड़ाई पाई तथा जो श्रीरामजी के माता-पिता होने के कारण महिमा की सीमा हैं ।

सो०--बन्दउं अवध भूआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद ।

बिछुरत दीनदयाल, प्रियतनु तृनइव परिहरेउ ॥ २४ ॥

अबमें अवध-नरेश दशरथजी की वन्दना करता हूँ, जिनका सच्चा प्रेम श्रीरामजी के चरणों में था । जिन्होंने दीनदयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपना शरीर तृण के समान त्याग दिया ।

प्रनवउं परिजन सहित विदेह * जाहि रमापति गूड़ सनेह
जोग भोग सहं राखेउ गोई * राम विलकत प्रगटेउ सोई

में परिवार सहित विदेहराज को प्रणाम करता है, जिनका श्रीरामजी के चरणों में गूढ़ स्नेह था। जो योग उन्होंने भोग में छिपाकर रक्खा था वह श्रीरामजी के दर्शन होते ही प्रगट हो गया।

प्रनवउं प्रथम भरत के चरना * जासु नेम व्रत जाइ न वरना

राम चरन पंकज मन जासू * लुबुध मधुप इव तजइ न पासू

में पहले भरतजी के चरणों में प्रणाम करता है, जिनका नियम और द्रत वर्णन नहीं किया जा सकता। श्रीरामजी के चरणकमलों की समीपता को जिनका मन लोभी मन भौरे के समान नहीं त्यागता।

वन्दउं लछिमन पद जलजाता * सीतल सुभग भगत सुखदाता

रघुपति कीरति विमल पताका * दण्ड समान भयउ जस जाका

लक्ष्मणजी के चरण-कमलों की में वन्दना करता है, जो शीतल, सुन्दर और भक्तों को सुख दायक हैं। श्रीरघुनाथजी की कीर्ति वही पताका में जिनका यश दण्ड के समान हुआ।

शेष सहस्र सीस जग कारन * जो अवतरेउ भूमि भय टारन

सदा सो सानुकूल रह मोपर * कपासिंधु सौमित्र गुनाकर

हजार सिर वाले शेषजी संसार के कारणरूप हैं, जिन्होंने पृथ्वी के भय को दूर करने के लिये अवतार लिया है। वे दयानिधान, गुणों की खान, सुमित्रानन्दन सदैव मुझ पर प्रसन्न रहें।

रिपुसूदन पद कमल नमामी * शूर सुसील भरत अनुगामी

महावीर विनवउं हनुमाना * राम जासु जसु आप बखाना

शत्रुघ्न के चरण कमलों में नमस्कार करता है, जो शूरवीर, सुशील और भरतजी के अनुगामी हैं। हनुमान से वितन्य करता है, जिनका यश श्रीरघुनाथजीने स्वयं बखान किया है।

सो०-प्रनवउं पवनकुमार, खलवन पावक ग्यान घन।

जासु हृदय आगार, बसाहिं राम सर चाप धर ॥१८॥

में उन पवनकुमार हनुमानजी को प्रणाम करता है, जो दुष्टरूपी पवन के लिए अग्नि हैं और ज्ञान से परिपूर्ण हैं। जिनके हृदय-मन्दिर में धनुर्धारी श्रीरामजी निवास करते हैं।

कपिपति रीछ निसाचर राजा * अङ्गदादि जे कपीस समाजा

बन्दउं सवके चरन सुहाए * अधम सरीर राम जिन्ह पाए

में उन सुग्रीव, जामवन्त, विभीषण, अंगद आदि वानरों के सुन्दर चरणों की वन्दना करता है, जिन्होंने अधम-सरीर में श्रीरामजी को पाया।

रघुपति चरन उपासक जेते * खग मृग सुर नर असुर समेते

वन्दउं पद सरोज सव केरे * जे विनु काम राम के चेरे

श्रीरघुनाथजी के चरणों की उपासना करने वाले उन पशु, पक्षी, देवता मनुष्य और अगुरों आदि के चरणों की में वन्दना करता है, जो बिना काम के ही श्रीरामजी के सेवक हैं।

शुक सनकादि भगत मुनि नारद * जे मुनिवर दिग्यान विष्णुवरद

प्रनवउँ सबहि धरनि धरि सीसा * करहु कृपा जन जानि मुनीसा

शुकदेवजी, सनकादि, व्यास, नारद और जो परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, उन सबको पृथ्वी पर मस्तक नवाकर मैं प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरो! मुझे अपना सेवक जानकर कृपा करो।

जनकसुता जग जननि जानकी * अतिशय प्रिय करुनानिधान की

ताके जुग पद कमल मनावउँ * जासु कृपाँ निरमल मति पावउँ

मैं जनक नन्दनी जगत्माता और करुनानिधान श्रीरामचन्द्रजी की प्रियतमा श्री जानकी जी के चरणों को मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल मति प्राप्त करूँ।

पुनि मन वचन कर्म रघुनायक * चरन कमल बंदउँ सब लायक

राजिव नयन धरें धनु सायक * भगति विपति भंजन सुखदायक

पुनः मन, वचन, कर्म से सर्व-समर्थ श्रीरघुनाथजी के चरणों की वन्दना करता हूँ, जो कमल-नयन, धनुषधारी, भक्तों के क्लेश को दूर करने वाले तथा सुखदायक हैं।

दोहा—गिरा अरथ जल बीचिसम, कहिअत भिन्न न भिन्न।

बन्दउँ सीताराम पद, जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ॥२४॥

जो वाणी और अर्थ, जल और लहर के समान कहने में तो अलग २ हैं, परन्तु वास्तव में एक ही हैं, ऐसे श्रीसीता-रामजी के चरणों की मैं वन्दना करता हूँ, जिन्हें दुःखीजन अति-प्रिय हैं।

बन्दउँ राम नाम रघुवर को * हेतु कृसानु भानु हिमकर को

विधि हरि हरमय वेद प्राण सो * अगुन अनूपम गुन निधान सो

मैं श्रीरघुनाथजी के नाम 'राम' की वन्दना करता हूँ, जो अग्नि, सूर्य तथा चन्द्रमा—इन तीनों को कारण अर्थात् 'र' 'अ' 'म' रूप से बीज हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है, वेदों का प्राण तथा अनुपम गुणों का भंडार है।

महामन्त्र जोइ जपत महेसू * कासी मुक्ति हेतु उपदेसू

महिमा जासु जान गनराऊ * प्रथम पजिअत नाम प्रभाऊ

जिस 'राम' नाम को महामन्त्र महादेवजी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश ही काशी में मुक्ति का कारण है। जिसकी महिमा गणेशजी जानते हैं, जो नाम के प्रभाव से ही प्रथम पूज्य हुए हैं।

जानि आदि कवि नाम प्रतापू * भयउ शुद्ध करि उलटा जापू

सहस नाम सम सुनि सिव बानी * जपि जेई पिय सङ्ग भवानी

नाम का प्रताप जानकर आदि कवि वाल्मीकिजी, जो उलटा नाम जप करके ही सिद्ध होगये। हजार नामों के समान एक राम-नाम को शिवजी से सुनकर पार्वतीजी, जो अपने पति के साथ जपती रहती हैं।

हरषे हेतु हेरि हर ही को * किय भूषन तिय भूषन ती को

नाम प्रभाऊ जान सिव नीको * कालकूट फलु दीन्ह अमी को

राम-नाम पर पार्वती का ऐसा दृढ़ प्रेम देखकर शिवजी ऐसे प्रसन्न हुए कि स्त्रियों के

आभूषण रूप पार्वती को अपने अंग का आभूषण कर लिया (अर्थात् अधोऽङ्गनी बना लिया) नाम के प्रभाव को शिवजी भली-भाँति जानते हैं, जिससे कि कालकूट ने शिवजी को अमृत के समान फल दिया ।

दोहा—वरणा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी शालि सुदास ।

राम नाम वर वरन जुग, सावन भादव मास ॥२५॥

श्रीरघुनाथजी की भक्ति वर्षा ऋतु है और अच्छे भक्त धान हैं तथा राम-नाम के दोनों अक्षर सुन्दर सावन और भादों मास हैं ।

**आँखर मधुर मनोहर दोऊ * वरन विलोचन जन जिय जोऊ
सुमिरित सुलभ सुखद सब काऊ * लोक लाभ परलोक निभाऊ**

यह दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, सब अक्षरों में नेत्ररूप हैं तथा स्मरण करने में सबको सुलभ और सुपदायक हैं, इस लोक में यश आदि का लाभ और परलोक वास देने वाले हैं ।

**कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके * राम लखन प्रिय सम तुलसी के
वरनत वनत प्रीति बिलगाती * ब्रह्म जीव सम सहज सँघाती**

यह कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत अच्छे हैं । तुलसी को राम-सङ्गमण के समान प्रिय हैं । इन्हें अलग-अलग करने से प्रीति में अन्तर आता है, परन्तु जीव और ब्रह्म के समान यह दोनों स्वाभाविक रूप से सम्बन्धित हैं ।

**नर नारायन सरिस सुभ्राता * जग पालक विसेषि जन त्रासा
भगति सुतीय कल करन विभूषन * जगहित हेतु विमल विधू पूषन**

यह नर-नारायण के तुल्य सुन्दर भाई हैं, जगत् के पालक और भक्त रक्षक हैं, भक्तिरूपी स्त्री के सुन्दर कर्ण भूषण हैं और जगत के कल्याण के लिये चन्द्रमा के समान निर्मल हैं ।

**स्वाद तोष सम सुमति सुधा के * कमठ शेष सम धर वसुधा के
जन मन मञ्जु कञ्ज मधुकर से * जीह जसोमति हरि हलधर से**

श्रीराम भक्तिरूपी अमृत के स्वाद तथा सन्तोष के तुल्य हैं, कच्छप और शेषजी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं । भक्तों के मनरूपी सुन्दर कमलों के भोंरे और यशोदारूपी जीम तो श्रीकृष्ण और बलराम हैं ।

दोहा—एकुछत्रु एक मुकुटमणि, सब वरननि पर जोड ।

तुलसी रघुवर नाम के, वरन विराजत दोड ॥२६॥

तुलसीदासजी कहते हैं—राम-नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, उनमें एक 'र' फार छत्र होकर 'म' फार मुकुट में हीरा होकर सब वर्णों के ऊपर रहता है ।

**समुझत सरिस नाम अरु नामी * प्रीति परस्पर, प्रभु अनुगामी
नाम रूप दुइ ईश उपाधी * अकध अनादि सुसामुझि साधी**

समझने में नाम और नाम वाला दोनों एक समान हैं, इनकी प्रीति स्वामी और सेवक

है। नाम और रूप दोनों ईश्वर उपाधि हैं, दोनों अनिवर्चनीय और अनादि हैं। शुद्ध बुद्धि से इनका स्वरूप जानने में आता है।

को बड़ चोट कहत अपराधू * सुनि गुण भेद समुझिहहिं साधू
देखिअहिं रूप नाम आधीना * रूप ग्यान नहि नाम विहीना

नाम और रूपों कौन बड़ा और कौन छोटा—यह कहने में अपराध है, साधु-पुरुष गुणों का भेद सुनकर समझ लेंगे। नाम-रूपके आधीन हैं और विना नाम के रूप का ज्ञान नहीं होता।

रूप विशेष नाम विनु जाने * करतल गति न परहिं पहिचाने
सुमिरिअ नाम रूप विनु देखे * आवत हृदयं सनेह विशेषे

कोई विशेष रूप भी विना नाम जाने हथेली पर रक्खा हुआ भी पहिचानने में नहीं आता। परन्तु नाम स्मरण करने से विना पहिचाने हुए भी हृदय में आ जाता है।

नाम रूप गति अकथ कहानी * समुझत सुखद न सकति बखानी
अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी * उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी

नाम और रूप की गति अकथनीय है। यह समझने में सुख देने वाली है, परन्तु कह नहीं जा सकती। अगुण और सगुण इन दोनों के बीच में नाम साक्षी और यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है।

दोहा—राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार।

तुलसी भीतर बाहेरहूँ, जाँ चाहसि उजियार ॥२७॥

तुलसीदासजी कहते हैं—जो भीतर और बाहर उजाला चाहते हो तो, राम-नामरूप मणि (दीपक) को सुख रूपी द्वार की जीभरूपी देहली पर धरें।

जीहं जपि जागहिं योगी * विरति विरंचि प्रपञ्च वियोगी
ब्रह्म सुखहिं अनुभवहिं अनूपा * अकथ अनामय नाम न रूपा

योगीजन जीभसे नाम जपकर संसार को वैराग्य से त्याग कर रात्रि में जागते हैं और उसी ब्रह्मानन्द के सुख का अनुभव करते हैं, जो अनुपम, अकथनीय, अनामय नाम वरूप से हीन है।

जाना चहहिं गूढ़ गति जेरु * नाम जीहं जपि जानहिं
साधक नाम जपहिं लय लाएं * होहिं सिद्ध अणिमादिक

जो लोग गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, वे जीभ से नाम जपकर उसे जान लेते हैं। साधक मन लगाकर नाम जपते हैं, वे अणिमादिक आठ सिद्धियाँ पाकर सिद्ध हो जाते हैं।

जपहिं नाम जन आरत भारी * मिटहिं कुसंकट होहिं
राम भगति जग चार प्रकारा * सुकृति चारिहिं अनघ उदा

जो मनुष्य दुःख में नाम जपते हैं, उनके महान दुःख भी दूर हो जाते हैं और वे हो जाते हैं। संसार में चारों प्रकार के राम-भक्त पुण्यात्मा, निष्पाप और उदार हैं।

चहूँ चतुर कहं नाम अधारा * ग्यानी प्रभुहिं विशेषि

चहुँ युग चहुँ श्रुतिनाम प्रभाऊ * कलि विसेपि नाहि आन उपाऊ

चारों चतुर भक्तों को नाम का आधार है, इसमें जानो-भक्त प्रभु को अधिक प्रिय हैं। चारों युग चारों वेदों में नाम का प्रभाव है, कलियुग में तो विधेय कर कोई दूसरा उपाय हो नहीं है।

दोहा—सकल कामना हीन जे, राम भगति रस लीन।

नाम सुप्रेम पियूष हृद, तिन्हहुँ किए मन मीन ॥२८॥

जो भक्त सभी कामनाओं से रहित हो श्रीराम-भक्त-रस में लीन हो, जिन्होंने राम-नाम के प्रेमरूपो अमृत के कुण्ड में अपने मन को मछली बना लिया है।

अगुण सगुण दुइ ब्रह्म सरूपा * अकथ अगाध अनादि अनूपा
मोरें मत बड़ नाम दुहूँ तें * किए जेहि युग निजवस निजवृत्ते

अगुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं और उन दोनों के ही रूप अकथनीय, अपाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में दोनों से 'नाम' बड़ा है, जिसने अपने वल से दोनों को अपने वश में कर रखा है।

प्रौढिसुजन जनि जानाहि जनकी * कहउं प्रतीति प्रीति रुचि मनकी

एकु दारुगति देखिअ ऐकू * पावक सम जुग ब्रह्म विवेकू

चतुर लोग इसे मेरी दीवता न समझें, मैं अपने विश्वास, प्रेम और मन की रुचि से कहता हूँ। एक अग्नि काष्ठ में व्याप्त रहती है और एक प्रत्यक्ष देवने में आती है। इन्हीं दो अग्निपों के समान निर्गुण व सगुण ब्रह्म का ज्ञान होता है, एक गुप्त व दूसरा प्रकट, परन्तु दोनों एक ही हैं।

उभय अगम जुग सुगम नाम तें * कहेउं नामु बड़ ब्रह्म राम तें

व्यापकु एकु ब्रह्म अविनासी * सत चेतन घन आनन्द रासी

दोनों के साधन कठिन हैं, पर नाम दोनों सुगम हैं। इसी से मैं तो निर्गुण से 'राम-नाम' को बड़ा कहता हूँ। एक अविनाशी सच्चिदानन्द परब्रह्म ही सब में व्यापक हैं।

अस प्रभु हृदय अछत अविकारी * सकल जीव जग दीन दुखारी

नाम निरूपम नाम जतन तें * सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन तें

ऐसे निर्विकार के हृदय में रहते हुए भी जगत के सब जीव—दीन और दुर्गो हैं। नाम का निरूपण करके यत्न पूर्वक जपने से ब्रह्म हृदय में ऐसे आ जाता है, जैसे रत्नको जान लेने पर उसका मूल्य मिल जाता है।

दोहा—निरगुन तें एहि भाँति बड़, नाम प्रभाऊ अपार।

कहउं नाम बड़ राम तें, निज विचार अनुसार ॥२९॥

इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यन्त अपार है। अब अपने विचार के अनुसार मैं (सगुण) राम से 'नाम' को बड़ा कहता हूँ।

राम भगत हित नर तनु धारी * सहि संकट किए साधु सुखारी

नाम सप्रेम जपत अनुयासा * भगत होहि मुद मङ्गल वासा

रामजी ने भक्तों के निमित्त मनुष्य देह धारणकर संकट सहकर साधुओं को मुक्ति किया।

है। नाम और रूप दोनों ईश्वर उपाधि हैं, दोनों अनिवर्चनीय और अनादि हैं। शुद्ध बुद्धि से इनका स्वरूप जानने में आता है।

को बड़ चोट कहत अपराधू * सुनि गुण भेद समुझिहहिं साधू
देखिअहिं रूप नाम आधीना * रूप ग्यान नहि नाम विहीना

नाम और रूपमें कौन बड़ा और कौन छोटा—यह कहने में अपराध है, साधु-पुरुष गुणों का भेद सुनकर समझ लेंगे। नाम-रूपके आधीन हैं और बिना नाम के रूप का ज्ञान नहीं होता।

रूप विशेष नाम बिनु जाने * करतल गति न परहिं पहिचाने
सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखे * आवत हृदय सनेह विशेषे

कोई विशेष रूप भी बिना नाम जाने हथेली पर रक्खा हुआ भी पहिचानने में नहीं आता। परन्तु नाम स्मरण करने से बिना पहिचाने हुए भी हृदय में आ जाता है।

नाम रूप गति अकथ कहानी * समुझत सुखद न सकति बखानी
अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी * उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी

नाम और रूप की गति अकथनीय है। यह समझने में सुख देने वाली है, परन्तु कही नहीं जा सकती। अगुण और सगुण इन दोनों के बीच में नाम साक्षी और यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है।

दोहा—राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार।

तुलसी भीतर बाहेरहूँ, जौं चाहसि उजियार ॥२७॥

तुलसीदासजी कहते हैं—जो भीतर और बाहर उजाला चाहते हो तो, राम-नामरूप मणि (दीपक) को सुख रूपी द्वार की जीभरूपी देहली पर धरें।

नाम जीहं जपि जागहिं योगी * विरति विरंचि प्रपञ्च वियोगी
ब्रह्म सुखाहिं अनुभवाहिं अनूपा * अकथ अनामय नाम न रूपा

योगीजन जीभसे नाम जपकर संसार को वैराग्य से त्याग कर रात्रि में जागते हैं और उसी ब्रह्मानन्द के सुख का अनुभव करते हैं, जो अनुपम, अकथनीय, अनामय नाम वरूप से हीन है।

जाना चर्हाहिं गूढ गति जेऊ * नाम जीहं जपि जानहिं तेऊ
साधक नाम जपहिं लय लाएं * होहिं सिद्ध अणिमादिक पाएं

जो लोग गूढ रहस्य को जानना चाहते हैं, वे जीभ से नाम जपकर उसे जान लेते हैं। जो साधक मन लगाकर नाम जपते हैं, वे अणिमादिक आठ सिद्धियाँ पाकर सिद्ध हो जाते हैं।

जपहिं नाम जन आरत भारी * मिटहिं कुसंकट होहिं

राम भगति जग चार प्रकारा * सुकृति चारिहिं अनघ ७

जो मनुष्य दुःख में नाम जपते हैं, उनके महान दुःख भी दूर हो जाते हैं और वे हो जाते हैं। संसार में चारों प्रकार के राम-भक्त पुण्यात्मा, निष्पाप और उदार हैं।

चहूँ चतुर कहं नाम अधारा * ग्यानी प्रभुहिं विशेषि पिया

हे । नाम और रूप दोनों ईश्वर उपाधि हैं, दोनों अनिवर्तनीय और अनादि हैं । शुद्ध बुद्धि से इनका स्वरूप जानने में आता है ।

को बड़ चोट कहत अपराधू * सुनि गुण भेद समुझिहहिं साधू
देखिअहिं रूप नाम आधीना * रूप ग्यान नहि नाम विहीना

नाम और रूपमें कौन बड़ा और कौन छोटा—यह कहने में अपराध है, साधु-पुरुष गुणों का भेद मुनकर समझ लेंगे । नाम-रूपके आधीन हैं और विना नाम के रूप का ज्ञान नहीं होता ।

रूप विशेष नाम बिनु जाने * करतल गति न परहिं पहिचाने
सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखे * आवत हृदयं सनेह विशेषे

कोई विशेष रूप भी विना नाम जाने हथेली पर रक्खा हुआ भी पहिचानने में नहीं आता । परन्तु नाम स्मरण करने से विना पहिचाने हुए भी हृदय में आ जाता है ।

नाम रूप गति अकथ कहानी * समुझत सुखद न सकति बखानी
अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी * उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी

नाम और रूप की गति अकथनीय है । यह समझने में मुख देने वाली है, परन्तु कही नहीं जा सकती । अगुण और सगुण इन दोनों के बीच में नाम साक्षी और यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है ।

दोहा—राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार ।

तुलसी भीतर बाहेरहूँ, जौं चाहसि उजियार ॥२७॥

तुलसीदासजी कहते हैं—जो भीतर और बाहर उजाला चाहते हो तो, राम-नामरूपी मणि (दीपक) को मुख रूपी द्वार की जीभरूपी देहली पर धरें ।

नाम जीहं जपि जागहिं योगी * विरति विरंचि प्रपञ्च वियोगी
ब्रह्म सुखहिं अनुभवाहिं अनूपा * अकथ अनामय नाम न रूपा

योगीजन जीभसे नाम जपकर संसार को वैराग्य से त्याग कर रात्रि में जागते हैं और उसी ब्रह्मानन्द के सुख का अनुभव करते हैं, जो अनुपम, अकथनीय, अनामय नाम वरूप से हीन है ।

जाना चर्हिं गूढ गति जेऊ * नाम जीहं जपि जानहिं तेऊ
साधक नाम जपहिं लय लाएं * होहिं सिद्ध अणिमादिक पाएं

जो लोग गूढ रहस्य को जानना चाहते हैं, वे जीभ से नाम जपकर उसे जान लेते हैं । जो साधक मन लगाकर नाम जपते हैं, वे अणिमादिक आठ सिद्धियाँ पाकर सिद्ध हो जाते हैं ।

जपहिं नाम जन आरत भारी * मिटहिं कुसंकट होहिं सुखारी
राम भगति जग चार प्रकारा * सुकृति चारिहिं अनघ उदारा

जो मनुष्य दुःख में नाम जपते हैं, उनके महान दुःख भी दूर हो जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं । संसार में चारों प्रकार के राम-भक्त पुण्यात्मा, निष्पाप और उदार हैं ।

चहूँ चतुर कहं नाम अधारा * ग्यानी प्रभुहिं विशेषि पियारा

यही सुन्दर कथा मैंने अपने गुहजी से सूकर-क्षेत्र में पुनः सुनी, परन्तु बालकपन के कारण यथायं समझ में नहीं आई, क्योंकि अज्ञानी था ।

दोहा—श्रोता वक्ता ग्यान निधि, कथा राम कै गूढ़ ।

किमि समझों मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़ ॥४०॥

श्रीराम-कथा के श्रोता और वक्ता-दोनों ज्ञान की निधि होते हैं । मैं कलियुगी पापोंमें फँसा हुआ अज्ञानी जीव उसको कैसे समझ सकता था ?

**तदपि कही गुरु वारहिंवारा * समुझि परी कछु मति अनुरागा
भाषवद्ध करिव मैं सोई * मोरें मन प्रबोध जेहि होई**

यद्यपि गुहजी ने वारम्बार कथा कही, तबतय बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। यही मैं अब भाषामें रचूँगा, जिससे मेरे हृदय में ज्ञान हो और गुहजी के कहे तत्व को न भूल सकूँ ।

**जसु कछु बुधि विवेक बल मेरें * तसि कहिहउँ हिय हरि के प्रेरें
निज सन्देह मोह भ्रम हरनी * कहउँ कथा भव सरिता तरनी**

जैसा कुछ बुद्धि, ज्ञान का बल मुझमें है, उसी प्रकार हृदय में श्रीहरि की प्रेरणा से कहूँगा । मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा कहता हूँ, जो संसाररूपी नदीके लिये नौका है ।

**बुध विश्राम सकल जल रंजनि * राम कथा कलि कलुह विभंजनि
रामकथा कलि पन्नग भरनी * पुनि विवेक पावक कहूँ करनी**

श्रीराम-कथा पण्डितों को शान्ति-दायक और सब मनुष्यों को आनन्द-दायक व कलियुग के पापों को दूर करने वाली है । राम-कथा कलियुग-रूपी सर्प को मोरनी और ज्ञानरूपी अग्नि को बढ़ाने के लिए अरनी के समान है ।

**रामकथा कलि कामद गाई * सुजन संजीवनि मूरि सुहाई
सोइ बसुधातल सुधा तरङ्गिनि * भय भंजनि भ्रम भेक भुअङ्गिनि**

राम-कथा कलियुग में कामधेनु, सज्जनो के लिए सुन्दर संजीवनी जड़ी है । यही कथा पृथ्वी पर अमृत की नदी है, जन्म-मरणरूपी भय का नाश करने वाली और भ्रमरूपी मेंढक को सर्पिणी के समान है ।

**असुर सेन सम तरक निकन्दिनि * साधुविवुधकुल हित गिरिनन्दिनि
सन्त समाज पयोधि रमा सी * विश्व भार भर अचल छमा सी**

राम-कथा असुरों की सेनारूपी नरकों का नाश करने वाली और साधुओं की देवताओं के चन्द्रमा के समान उज्वल वंश के हित के लिए शिवा है । यह सन्त-समाजरूपी समुद्ररूपी को भी और संसार को जोड़ उठाने के लिए अचल पृथ्वी के समान है ।

**मगन मुँह मसि जग जमुनासी * जीवन मुक्ति हेतु जनु कासी
प्रिय मेकल सैल सुता सी * सकल सिद्धि सुख संपत्ति रासी**

सूतों मुँह पर स्याही लगाने को जगत् में जमुना के समान है और जीवन-मुक्ति को मानों

भरत-मिलाप के समय उनका बहुत आदर किया और राज-सभा में बहुत प्रशंशा की ।

दोहा—प्रभु तरुतर कपि डार पर, ते किए आपु समान ।

तुलसी कहूँ न राम से, साहिब शील निधान ॥३६॥

प्रभु वृक्ष के नीचे और बानर वृक्षों पर बैठते थे, उनको भी अपने समान बनालिया । श्रीरामजी के समान शील-निधान स्वामी कहीं नहीं हैं । तुलसीदासजी कहते हैं—

राम निकाई रावरी, है सबही को नीक ।

जौ यह सांची है सदाँ, तौ नीकौ तुलसीक ॥३७॥

हे श्रीरामजी ! आपकी भलाई सबको भली है । यदि यह सत्य है, तो मेरा भी सदा-ही भला होगा ।

एहिविधिनिजगुनदोषकहि, सबहि बहुरि सिरु नाइ ।

बरनउँ रघुवर बिसद जसु, सुनि कलिकलुष नसाइ ॥३८॥

इस प्रकार अपने गुण-दोष कहकर फिर सबको मस्तक नवाकर मैं श्रीरघुनाथजी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलियुग के पाप नष्ट हो जाते हैं ।

याज्ञवल्क्य जो कथा सुहाई * भरद्वाज मुनिवरहि सुनाई
कहिहउँ सोइ सम्बाद बखानी * सुनहुँ सकल सज्जन सुख मानी

याज्ञवल्क्यजी ने जो सुन्दर कथा मुनिवर भारद्वाज को सुनाई, वही सम्बाद में कहता हूँ । सभी सज्जन सुख मानकर सुनो—

शम्भु कीन्ह यह चरित सुहावा * बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा
सोइ शिवकाकभुशुण्डिहि कीन्हा * राम भगति अधिकारी चीन्हा

प्रथम यह सुहावना चरित्र शिवजी ने रचा फिर कृपा करके पार्वती को सुनाया । वही फिर शिवजी ने काकभुशुण्डिजी को राम-भक्ति का अधिकारी जानकर सुनाया ।

तेहि सन याज्ञवल्क्य मुनि पावा * तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा
ते श्रोता बकता सस शीला * समदरशी जानहि हरि लीला

काकभुशुण्डिजी ने याज्ञवल्क्य-मुनि को सुनाया, फिर याज्ञवल्क्यजी ने भरद्वाजजी के लिये वर्णन किया । वे श्रोता और वक्ता समदर्शी हैं, जो श्री हरि की लीलाओं को जानते हैं ।

जानहि तीनि काल निज ग्याना * करतल गत आमलक समाना
औरउ जे हरि भगत सुजाना * कर्हि सुनिहि समुझाहि विधिनाना

और तीनों कालों को अपने ज्ञान से हथेली पर धरे हुए आँवले के समान जानते हैं तथा और भी जो चतुर हरि-भक्त हैं, वे भी इनको अनेक प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं ।

दोहा—मैं पुनि निज गुरुसन सुनी, कथा सो सुकर खेत ।

समुझी नाहि तसि बालपन, तब अति रहेउँ अचेत ॥३९॥

यही सुन्दर कथा मैंने अपने गुरुजी से सूकर-क्षेत्र में पुनः सुनी, परन्तु बालकपन के कारण यथायं समझ में नहीं आई, क्योंकि अज्ञानी था ।

दोहा—श्रोता व्रकता ग्यान निधि, कथा राम कै गूढ़ ।

किमि समझों मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़ ॥४०॥

श्रीराम-कथा के श्रोता और व्रकता-दोनों ज्ञान की निधि होते हैं । मैं कलियुगी पापोंमें फँसा हुआ अज्ञानी जीव उसको कैसे समझ सकता था ?

**तदपि कही गुरु वाराहिवारा * समुझि परी कछु मति अनुरागा
भाषवद्ध करिव मैं सोई * मोरें मन प्रबोध जेहि होई**

यद्यपि गुरुजी ने वारम्बार कथा कही, तत्रतय बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही मैं अब भाषा में रचूँगा, जिससे मेरे हृदय में ज्ञान हो और गुरुजी के कहे तत्व को न भूल सकूँ ।

**जसु कछु बुधि विवेक बल मेरें * तसि कहिहउँ हिय हरि के प्रेरें
निज सन्देह मोह भ्रम हरनी * कहउँ कथा भव सरिता तरनी**

जैसा कुछ बुद्धि, ज्ञान का बल मुझमें है, उसी प्रकार हृदय में श्रीहरि की प्रेरणा से कहूँगा । मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा कहता हूँ, जो संसाररूपी नदी के लिये नौका है ।

**बुध विश्राम सकल जल रंजनि * राम कथा कलि कलुह विभंजनि
रामकथा कलि पन्तग भरनी * पुनि विवेक पावक कहूँ करनी**

श्रीराम-कथा पण्डितों को शान्ति-दायक और सब मनुष्यों को आनन्द-दायक व कलियुग के पापों को दूर करने वाली है । राम-कथा कलियुग-रूपी सर्प को मोरनी और ज्ञानरूपी अग्नि को बढ़ाने के लिए अरनी के समान है ।

**रामकथा कलि कामद गाई * सुजन सँजीवनि मूरि सुहाई
सोइ वसुधातल सुधा तरङ्गिनि * भय भंजनि भ्रम भेक भुअङ्गिनि**

राम-कथा कलियुग में कामधेनु, सज्जनो के लिए सुन्दर संजीवनी जड़ी है । यही कथा पृथ्वी पर अमृत की नदी है, जन्म-मरणरूपी भय का नाश करने वाली और भ्रमरूपी मेंढक को सर्पिणी के समान है ।

**असुर सेन सम नरक निकन्दिनि * साधुविवुधकुल हित गिरिनन्दिनि
सन्त समाज पयोधि रमा सी * विश्व भार भर अचल छमा सी**

राम-कथा असुरों की सेनारूपी नरकों का नाश कहने वाली और साधुरूपी देवताओं के चन्द्रमा के समान उज्वल वंश के हित के लिए शिवा है । यह सन्त-समाजरूपी समुद्ररूपी को लक्ष्मी और संसार को बोज उठाने के लिए अचल पृथ्वी के समान है ।

**जमगन सुँह मसि जग जमुनासी * जीवन मुकुति हेतु जनु कासी
शिव प्रिय मेकल सैल सुता सी * सकल सिद्धि सुख संपति रासी**

यमदूतों के मुख पर स्याही लगाने को जगत में यमुना के समान है और जीवन-मुक्ति को मानो

काशी है। शिवजी को नर्मदा के समान प्रिय है और सिद्धियों एवं सम्पदाओं की राशि है।
 रामहिं प्रिय पावनि तुलसी सी * तुलसीदास हित हियँ हुलसी सी
 सदगुनि सुरगम अम्ब अदितिसी * रघुवर भगति प्रेम परि मति सी

श्रीराम को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है, तुलसीदास को हुलसी के समान हितकारी है।
 सदगुणी देवगणों की माता अदिति-सी है और श्रीरामजी को भक्ति व प्रेम की सीमा-सी है।

दोहा-राम कथा मन्दाकिनी, चित्रकूट चित चारु।

तुलसी सुभग सनेह वन, सिय रघुवीर बिहार ॥४१॥

तुलसीदासजी कहते हैं-राम-कथा मन्दाकिनी नदी है, पवित्र हृदय चित्रकूट है, सुन्दर
 स्नेह ही श्रीसीता-रामजी के विहार का वन (स्थल) है।

रामचरित चिन्तामनि चारु * सन्त सुमति तिय सुभग सिंगारु
 जग मङ्गल गुन ग्राम राम के * दानि मुकुति धन धरम धाम के

श्रीराम-चरित्र सुन्दर चिन्तामणि है, जो संतों की सुबुद्धिरूपी स्त्री के लिए सुन्दर शृंगार है।
 श्रीरामजी के गुण जगत में मंगलकारी और मुक्ति, धन, धर्म, और परमधाम के देने वाले हैं।

सद्गुरु ग्यान विराग जोग के * विबुध ब्रह्म भव भीम रोग के
 जननि जनक सिय राम प्रेम के * बीज सकल व्रत धरम नेम के

वे ज्ञान, और वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं, भयंकर भव-व्याधि को अश्विनीकुमार हैं
 श्रीसीता-रामजी के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिये माता-पिता हैं और सब व्रत, धर्म तथा
 नियमों के मूल हैं।

समन पाप सन्ताप शोक के * प्रिय पालक परलोक लोक के
 सचिव सुभट भूपति विचार के * कुम्भज लोभी उदधि अपार के

पाप, संताप और दुःख के नाशक तथा परलोक और इस लोक के प्रिय-पालक हैं। ज्ञान-
 रूपी राजा के वीर-योद्धा व मन्त्री हैं, लोभरूपी अपार समुद्र के सोखने को मुनि अगस्त्य हैं।

काम कोह कलिमल करिगन के * केहरि सावक जन मन वन के
 अथिति पूज्य प्रियतम पुरारि के * कादस धन दारिद द्वारि के

भवतों के मनरूपी वन के लिए-वादल, काम, क्रोध आदि और कलियुग के पापरूपी हाथियों
 के लिए-सिंह, अतिथि पूज्य और शिव-प्रिय हैं, दरिद्रतारूपी अग्नि के लिए-ज्ञामद धन हैं।

मन्त्र महामणि विषय व्याल के * मेटत कठिन कुअंक भाल के
 हरन मोह तम दिनकर कर से * सेवक सालि पाल जलधर से

विषयरूपी सर्प के विषय के लिए-मन्त्र और महामणि हैं, जो भाग्य के कुलेखे को मेट
 देते हैं। मोहरूपी अंधकार को हरने के लिए-सूर्य की किरण और भक्तिरूपी धानको पालने
 के लिए मेघ के समान हैं।

अभिमत दानि देब तरुवर से * सेवत सुलभ सुखद हरि हर से
 सुकवि सरद नभ मन उडुगन से * राम भगत जन जीवन धन से

मनोवांछित फल देने को कल्पवृक्ष के समान हैं और सेवा करने पर हरि-हर के समान सहज ही में सुख देने वाले हैं। सुरुवियों के मनरूपी शरद्-कालीन आकाश में तारागण के समान तथा राम-भक्तों के जीवन-धन हैं।

सकल सुकृत फल भूरि भोग से * जग हित निरूपधि साधु लोग से
सेवक मन मानस मराल से * पावक गङ्ग तरङ्ग माल से

सम्पूर्ण सत्कर्मों के फल भोगों के समान हैं, जगत का हित करने के लिए-छल रहित साधु लोगों के समान हैं। भक्तों के मनरूपी मानसरोवर के हंस के समान और गंगाजी की तहरों के समान पवित्र हैं।

दोहा—कुपथ कुतरक कुचालि कलि, कपट दम्भ पाखण्ड।

दहन राम गुन ग्राम जिमि, ईधन अनल प्रचण्ड ॥४२॥

कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल, कलह, कपट दम्भ, पाखण्डरूपी ईधन को नष्ट करने के लिए—श्रीराम-गुण-समूह प्रचण्ड अग्नि के समान हैं।

राम चरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहु।

सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेषि बड़ लाहु ॥४३॥

राम-चरित—चन्द्रमा की फिरणों के समान सबको सुख देने वाला है, परन्तु कुमुद व चकोररूपी सज्जनों को विशेष हितकारी और लाभदायक है।

कीन्ह प्रश्न जेहि भाँति भवानी * तेहि विधि शङ्कर कहा बखानी
सो सब हेतु कहव मैं गाई * कथा प्रबन्ध विचित्र बनाई

जिस प्रकार पार्वतीजी ने प्रश्न किये, और जिस प्रकार शिवजी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किये वे सब कारण में विचित्र कथा की रचना करके कहेंगा।

जेहि यह कथा सुनी नहि होई * जनि आचरजु करहि सुनि सोई
कथा अलौकिक सुनिहि जे ग्यानी * नहि आचरजु करहि अस जानी

जिन्होंने यह कथा नहीं सुनी, वे भविष्य में सुनकर अचरज न करें। जो जानी पुरुष इस अदभुत कथा को सुनते हैं, वे ऐसा जानकर अचरज नहीं करते कि—

राम कथा कै मिति जग नाही * असि प्रतीति जिन्ह के मन माहीं
नाना भाँति राम अवतारा * रामायण सत कोटि अपारा

जगत् में राम-कथा अनन्त है। ऐसा विश्वास जिनके हृदय में रहता है कि अनेक प्रकार से श्रीराम के अवतार हुए हैं और रामायण भी सौ-रुरोड़ और अपार है।

कल्प भेद हरि चरित सुहाए * भाँति अनेक सुनीसन्ह गाए
करिअ न संशय अस उर जानी * सुनिअ कथा सादर रति मानी

कल्प-भेद के अनुसार श्रीहरि के सुहावने चरित्र मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से वर्णन किये हैं। ऐसा मन में विचार कर सन्देह न करें और आदर सहित प्रेम से मनें।

दोहा—राम अनन्त अनन्त गुण, अमित कथा विस्तार ।

सुनि आचरजु न सानिहहिं, जिन्हकें विमल विचार ॥४४॥

श्रीराम अनन्त और उनके गुण भी अनन्त हैं, इसी कारण राम-कथा का विस्तार असीम । जिनके विचार शुद्ध हैं, वे लोग इसको सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे ।

एहि विधि सब संशय कर दूरी * थरि सिर गुरु पद पङ्कज धूरी
पुनि सबही विनय कर जोरी * करत कथा जेहि लागि न खोरी

इस प्रकार सब सन्देह को दूर कर, गुरु-चरणों की रज को शिर पर धारण करके फिर सब ही की हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, जिससे कथा-रचना में दोष न आवे ।

सारद शिवहि नाइ अब माथा * बरनउँ बिसद राम गुन गाथा
सम्बत सोलह सौ इकतीसा * करहुँ कथा हरिपद धरि सीसा

अब मैं आदर सहित शिवजी को मस्तक नवाकर रामजी के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ । अब मैं सम्बत १६३१ में श्रीहरि के चरणों में शिर नवाकर कथा प्रारम्भ करता हूँ :

नौमी भौम बार मधु मासा * अवधपुरी यह चरित प्रकासा
जेहि दिन रामजन्मश्रु ति गावहिं * तीरथ सकल तहाँ चलि आवहिं

चैत्रमास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्यापुरी में यह राम-चरित्र प्रारम्भ हुआ । जिस दिन श्रीरामजी का जन्म होता है, वेदों में कहा है कि उस दिन समस्त तीर्थ वहाँ पर चले आते हैं ।

असुर नाग खग नर मुनि देवा * आइ करहिं रघुनायक सेवा
जन्म महोत्सव रचहिं सुजाना * करहिं राम कल कीरति गाना

असुर, नाग, पक्षी, मनुष्यमुनि और देवता सब आकर श्रीरघुनाथजी की सेवा करते हैं । भक्तजन रामजन्म का बड़ा उत्सव मनाते हैं और श्रीरामजी का सुन्दर गुणगान करते हैं ।

दोहा—मज्जहिं सज्जन बृन्द बहु, पावन सरजू नीर ।

जपहिं रामधरि ध्यान उर, सुन्दर स्याम शरीर ॥४५॥

सज्जनों के झुण्ड सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुन्दर श्याम शरीर श्रीरामजी का ध्यान धरकर राम-नाम जपते हैं ।

दरस परस मज्जन अरु पाना * हरहिं पाप कह वेद पुराना
नदी पुनीत अमित महिमा अति * कहि न सकइ सारदा विमलमति

दर्शन, स्पर्श, स्नान एवं जलपान करने से श्रीसरयूजी पापों को हर लेती हैं, ऐसा वेद-पुराण कहते हैं । इस पवित्र नदी की भारी महिमा को निर्मल-बुद्धि शारदा भी नहीं कह सकती ।

राम धामदा पुरी सुहावनि * लोक समस्त विदित अति पावनि
चारि खानि जग जीव अपारा * अवध तजें तनु नहिं संसारा

श्रीराम-धाम को देने वाली सुहावनी अयोध्यापुरी पवित्र और सब लोकों में प्रसिद्ध है ।

चार प्रकार के अनन्त जीव जगत् में हैं, अवधपुरी में शरीर छोड़ने से उन्हें जन्म-मरण का दुःख नहीं होता है।

सब विधि पुरी मनोहर जानी * सकल सिद्धिप्रद मङ्गल खानी
विमल कथा कर कीन्ह अरम्भा * सुनत नसाहि काम मद दम्भा

पुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की दाता एवं मंगल की खान जान मने इन सुन्दर राम-कथा का प्रारम्भ किया, जिसके सुनने से काम, मद, दम्भ आदि दोष नष्ट हो जाते हैं।

रामचरितमानस एहि नामा * सुनत श्रवन पाइअ विश्रामा
मन करि विषय व्याल वन जरई * होइ सुखी जौं एहि सर परई

इसका 'रामचरित-मानस' नाम है, इसको कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मनस्वीहायो विषयवृषी दावानल में जल रहा है, यदि वह इस मानसरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाय।

रामचरितमानस सुनि भावन * विचरेउ शम्भु सुहावन पावन
त्रिविध दोष दुख दारिद दानव * कलिकुचालिकलिकलुष नसावन

सुनि-भावन, सुहावने और पवित्र रामचरित-मानस को शिवजी ने रचा है, जो तीनों प्रकार के दोष, दुःख और दरिद्र को दूर करने वाला व कलियुग के पापों का नाश करने वाला है।

रचि महेश निज मानस राखा * पाइ सुसमय शिवा सन भाखा
तातै रामचरितमानस वर * धरेउ नाम हियँ हेरि हरषि हर

कहउँ कथा सोई सुखद सुहाई * सादर सुनहु सुजन मन लाई

शिवजी ने इनको रचकर अपने मन में रखया, फिर सुअवसर पाकर पावती से कहा। इस लिए शिवजी ने अपने हृदय में विचारकर प्रसन्नता पूर्वक रामचरित-मानस ऐसा सुन्दर नाम रखया। वही सुखदायक सुन्दर कथा मैं कहता हूँ, हे सज्जनो! इसे सादर मन लगाकर सुनो।

दोहा—जन मानस जेहि विधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेतु।

अब होव कहउँ प्रसङ्ग सब, सुमिरि उमा वृषकेतु ॥४६॥

'रामचरित-मानस' जैसा है, जिस प्रकार बना है, संसार में इसका प्रचार जिस कारण हुआ। अब वही कथा मैं श्रीशिव पावतीजी का स्मरण करके कहता हूँ।

शम्भु प्रसाद सुमति हियँ हुलसी * रामचरितमानस कवि तुलसी
करइ मनोहर मति अनुहारी * सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी

शिवजी की कृपा से हृदय में सुबुद्धि का प्रकाश हुआ, जिससे मैं रामचरित-मानस का कवि हुआ। बुद्धि के अनुसार मैं इसे मनोहर बनाता हूँ, सज्जन इसे ध्यान से सुनकर सुधार लेंगे।

सुमति भूमि थल हृदय अगाधू * वेद पुरान उदधि घन साधू
वरपाहि राम सुजस वर वारी * मधुर मनोहर मङ्गलकारी

निर्मल बुद्धि पृथ्वी-तल है, हृदय गहराई है, वेद-पुराण समुद्र हैं, साधु लोग वा... के वे ही राम-चरित वृषी सुन्दर, मधुर और मंगलकारी जल की बर्षा करते हैं।

लीला सगुन जो कहहिं बखानी * सोइ स्वच्छता करइ मल हानी
प्रेम भगति जो वरनि न जाई * सोइ जल मधुर सुसीतलताई

श्रीराम का सगुण-लीला वर्णन ही स्वच्छता है, जो मन के मल का नाश करती है।
प्रेम-भक्ति-जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वही जल की मधुरता और सुशीतलता है।
सो जल सुकृति सालि हित होई * राम भगत जन जीवन सोई
मेधा महि गत सो जल पावन * सलिल श्रवन मग चलेउ सुहावन
भरेउ सुमानस सुथल थिराना * सुखद सीत रुचि चारु चिराना

वह जल पुण्यरूपी धानों को हितकर होता है, वही श्रीरामजी के भक्तजनों का जीवन है।
वह पवित्र जल बुद्धि-रूपिणी पृथ्वी पर वरसा और इकट्ठा होकर कानों के मार्ग से भीतर
चला फिर सुन्दर मानस रूपी शरद-ऋतु को प्राकर और पुरान होकर सुखदायक होगया।

दोहा-सुठि सुन्दर सम्वाद वर, विचरेउ बुद्धि विचारि।

तेइ एहि पावन सुभग सर, घाट मनोहरि चारि ॥४७॥

बहुत सुन्दर चार सम्वाद (भृगुण्डि-गरुड, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य-भरद्वाज, तुलसी-सन्त)
जो बुद्धि से विचार कर रचे गये हैं, वे ही इस पवित्र सुन्दर सरोवर के मनोहर चार घाट हैं।
सप्त प्रबन्ध सुभग सोपाना * ग्यान नयन निरखत मन माना
रघुपति महिमा अगुन अबाधा * बरनव सोइ वर वारि अगाधा

कथा के सात काण्ड ही सात सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञानरूपी नेत्रोंसे देखते ही मन प्रसन्न
हो जाता है। श्रीरघुनाथजी की गुणातीत और अपार सहिमा का वर्णन ही सुन्दर जल की
गहराई है।

रामसीय जस सलिल सुधा सस * उपमा बीच विलास मनोरम
पुरइनि सघन चार चौपाई * जुगुति मंजु मनि सीप सोहाई

श्रीसीता-राम का यश ही अमृत के समान जल है, उपमायें ही मनोहर तरंगों का विलास है।
सुन्दर चौपाइयाँ ही घनी कमल की बेलें हैं और युक्तियाँ ही उज्वल मोती की सुन्दर सीपियाँ हैं।

छन्द सौरठा सुन्दर दोहा * सोइ बहुरङ्ग कमल कुल सोहा
अरथ अनूप सुभाव सुभासा * सोइ पराग मकरन्द सुवासा

सुन्दर छन्द सौरठा और दोहा ही अनेक रंग वाले कमलों के समूह शोभायमान हैं।
अनुपम अर्थ, सुन्दर भाव और अच्छी भाषा ही पुष्प रज, मकरन्द और सुगन्ध हैं।

सुकृत पुञ्ज संजुल अलि साला * ग्यान विराग विचार सराला
धुनि अकरेव कवित गुन जाती * भीन मनोहर ते बहु भाँती

पुण्यात्मा भक्तजनों के समूह ही सुन्दर भीरों के शृङ्ख हैं और ज्ञान, वैराग्य व विचार-
हंस हैं। ध्वनि, कथन शक्ति, गुण और साति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियाँ हैं।

अरध धरम कामादिक चारी * कहब ग्यान विग्यान बिचारी
नव रस जप तप जोग विरागा * ते सब जलचर चारु तड़ागा

अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों ओर ज्ञान, विज्ञान, विचार, नव-रस, जप, तप, योग और वैराग्य ये सब सुन्दर सरोवर के जलचर हैं।

सुकृति साधु नाम गुन गाना * ते विचित्र जल विहंग समाना
सन्त सभा चहुँ दिसि अँवराई * श्रद्धा रितु वसन्त सम गाई

पुण्यात्मा साधुजनों के नाम और गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षी हैं। सन्तजनों की सभा ही सरोवर के चारों ओर लगी हुई अमराई और श्रद्धा ही वसन्त के समान ऋतु है।

भगति निरूपन विविध विधाना * छमा दया दम लता विताना
सम जम नियम फूल फल ग्याना * हरि पद रति रस वेद वखाना

अोरउ कथा अनेक प्रसङ्गा * तेइ सुक पिक बहु वरन विहङ्गा

विविध प्रकार से भक्ति का वर्णन, क्षमा, दया और दम ही लताओं के चंदोये हैं। संसय और नियम फूल हैं, ज्ञान फल है, श्रीहरि के चरणों में प्रेम होना ही रस है और जो अनेकों कथा-प्रसंग हैं, वे ही तोते, फोयल आदि अनेक रंगों के पक्षी हैं।

दोहा—पुलकि वाटिका वाग वन, सुख सुविहङ्ग विहार।

माला सुमन सनेह जल, सौचत लोचन चारु ॥४८॥

कथा में जो रोमाञ्च होता है, वही वाटिका, वाग और वन हैं। यह सुख सुन्दर पक्षियों का विहार है। सुन्दर मनरूपी माली स्नेहरूपी जल से सुन्दर नेत्रों द्वारा उसे सौचता है।

जे गार्वाहि यह चरित सँभारे * तेइ एहि ताल चतुर रखवारे
सदा सुनहि सादर नर नारी * तेइ सुरवर मानस अधिकारी

जो इस चरित्र को ध्यानपूर्वक गाते हैं, वही इस सरोवर के चतुर रक्षक हैं। जो नर-नारी इस कथा को आदर के साथ सुनते हैं, वे ही देवताओं के श्रेष्ठ मानस के अधिकारी हैं।

अति खल जे विषयी बक कागा * एहि सर निकट न जाहि अभागा
सम्बुक भेक सेवार समाना * इहाँ न विषय कथारस नाना

जो बड़े दुष्ट व विषयी बगुले और कौए हैं, वे अभागे इस सरोवर के निकट भी नहीं जाते। क्योंकि इसमें घोंघे, मेंढक व सियार के समान अनेक नाति की विषय-रस से नरी कथाएँ नहीं हैं।

तेहि कारन आवत हियँ हारे * कामी काक बलाक विचारे
आवत एहि सर अति कठिनाई * राम कृपा विनु आइ न जाई

इसलिए कामोजन-रूपी कौए और बगुले वेचारे यहाँ आते हुए अपने हृदय में हार जाते हैं। सरोवर पर आना कठिन है, श्रीराम की कृपा के बिना किसी से नहीं आया जाता।

कठिन कुसङ्ग कुपन्थ कराला * तिन्हके वचन बाध हरि व्याला
गृह कारज नाना जञ्जाला * ते अति दुर्गम सैल विसाला

बन बहु विषम मोह मद माना * नदी कुतर्क भयंकर नाना

यहाँ जाने के लिए सुसंग ही दुर्गम मार्ग है, जिसमें उन दुष्टों के वचन ही सिंह, बाघ और सर्प हैं। घर के काम और अनेक प्रकार के बुरे जंजाल ही मानो बड़े २ दुर्गम पहाड़ हैं। मोह, मद, मान-ये ही बहुत से घने वन हैं और अनेकों प्रकार के बुरे विचार ही भयावनी नदियाँ हैं।

दोहा-जे श्रद्धा सम्बल अहित, नहिं सन्तन्ह कर साथ।

तिन्ह कहुं मानस अगम अति, जिन्हहिं न प्रिय रघुनाथ ॥४८॥

जिनके पास श्रद्धारूपी सम्बल नहीं है और न सन्तों का साथ ही है तथा श्रीरघुनाथजी जिनको प्रिय नहीं हैं, उनको यह मानस बहुत ही अगम है।

जौं करि कष्ट जाइ पुनि कोई * जातहिं नौंद जुड़ाई होई

जड़ता जाड़ विष उर लागा * गएहुं न मज्जनु पाव अभागा

यदि कोई कष्ट सहकर वहाँ जाय भी तो, पहुँचते ही नींदरूपी जूड़ी घेर लेती है। मूर्खतारूपी असह्य जाड़ा हृदय में ऐसा लगता है कि, पहुँचने पर भी वह अभागा उसमें स्नान नहीं कर पाता।

करि न जाई सर मज्जनु पाना * फिरि आवइ समेत अभिमाना

जौं बहोरि कोउ पूछन आवा * सर निन्दा करि ताहि बुझावा

जब उससे स्नान और जलपान नहीं किया जाता तो, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर जो कोई पूछने आता है, तो उसको सरोवर की निन्दा सुनाकर समझा देता है।

सकल विघ्न व्यापहिं नहिं तेही * रामु सुकृपां विलोकहिं जेही

सोइ सादर सर मज्जनु करई * महाघोर त्रयताप न जरई

उसे कोई भी विघ्न-बाधा नहीं व्यापते, जिसको श्रीराम कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महाघोर तीनों तापों से भी नहीं जलता।

ते नर यह सर तजहिं न काऊ * जिन्हके रामचरन भलि भाऊ

जो नहाइ चह एहिं सर भाई * सो सतसङ्ग करउ मन लाई

वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते, जिनके हृदय में श्रीरामजी के चरणों में अच्छा भाव है। भाई ! जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे, वह मन लगाकर सत्संग करे।

अस मानस मानस चख चाहौं * भइ कवि बुद्धि विमल अवगाही

भयउ हृदयँ आनन्द उछाहू * उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू

ऐसे 'मानस-सर' में स्नान करने के लिए हृदय के नेत्र चाहिए, जिनके स्नान करने से कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनन्द और उत्साह भर आया तथा प्रेम व आनन्द का प्रभाव उमड़ पड़ा।

चली सुभग कविता सरिता सो * राम बिमल जस जल भरितासो

सरजू नाम सुमङ्गल मूला * लोक वेद अत मंजुल कूला

नदी पुनीत सुमानस नन्दिनि * कलिमल तृन्तरु मूल निकन्दिनि

उससे सुन्दर कविता रूपिणी नदी वह निकली, जिसमें श्रीरामजी का निर्मल यश-रूपी जल भरा है, उसका नाम 'सरयू' है, जो सब मङ्गलों की जड़ है। लोक-मत और वेद-मत उसके दो सुन्दर किनारे हैं। रामचरित-मानस-सरोवर से उत्पन्न हुई यह पवित्र नदी कलि-युग के पापरूपी तट के वृक्षों को उखाड़ने वाली है।

दोहा—श्रोता त्रिविधि समाज नर, ग्राम नगर दुहुँ कूल।

सन्त सभा अनुपम अवध, सकल सुमङ्गल मूल ॥५०॥

उत्तम, मध्यम, लघु तीनों प्रकार के श्रोताओं के समूह ही मानो दोनों किनारों पर गाँव व नगरी हैं। संतों की सभा ही मानो अनुपम अयोध्यापुरी है, जो सुन्दर मङ्गलों की जड़ है।

राम भगति सुरसरिताहिं जाई * मिली सुकीरति सरजु सुहाई
सानुज राम समर जसु पावन * मिलेउ महानदु सोन सुहावन

राम-भक्तिरूपी गंगाजी में निर्मल यश वाली सुहावनी 'सरयू' जाकर मिली है। छोटे भाई सहित रामजी के पुत्र का पवित्र यश ही मानो उसमें सुहावना सोनमद्र नामक महानद आकर मिला है।

जुग विच भगति देवधुनि धारा * सोहति सहित सुविरति विचारा
त्रिविधि ताप त्रासक तिसुहानी * राम सरूप सिन्धु समुहानी

दोनों के बीच में गंगाजी की धारा ऐसी शोभित है, जैसे ज्ञान और वंशाय के साथ मुक्ति तीनों तापों को भय देने वाली-तीन मुँह वाली नदी श्रीराम-रूपी समुद्र की ओर चली।

मानस मूल मिली सुरसरिही * सुनत सुजन मन पावन करही
विचविच कथा विचित्र विभागा * जनु सरि तीर तीर वन वागा

मानस की जड़ ऐसी सरयू गंगाजी में जा मिली, इसी हेतु श्रोता सज्जनों के हृदय को पवित्र कर देगी। इसके बीच में जो विचित्र कथाएँ हैं, वही किनारे के वन और वाग हैं।

उमा महेश विवाह वराती * ते जलचर अगनित बहु भाँती
रघुवर जन्म अनन्द बधाई * भँवर तरङ्ग मनोहरताई

शिव-पार्वतीजी के विवाह के जितने वराती हैं, वही इस नदी के बहुत प्रकार के असंख्य जल-चर जीव हैं। श्रीरामचन्द्रजी के जन्म की आनन्द-बधाई इस नदी की मनोहर भँवर-तरंगें हैं।

दोहा—बाल चरित चहुँ बन्धु के, वनज विपुल बहु रङ्ग।

नृप रानी परिजन सुकृत, मधुकर वारि विहङ्ग ॥५१॥

श्रीराम आदि चारों भाइयों के बाल-चरित इसमें बहुत-से रंग-विरंगे फल हैं। राजा दशरथ और उनकी रानियाँ व कुटुम्बी लोगों के पुष्प ही भँरे और जल-पथी हैं।

सीय स्वयम्बर कथा सुहाई * सरित सुहावनि सो छवि छाई
नदी नाव पटु प्रश्न अनेका * केवट कुसल उतर सविवेका

सीता के स्वयंम्बर की जो मनोहर कथा है, वही सुहावनी नदी की शोभा छा रही है। इस

नदी में अनेक प्रश्न ही नावें हैं और उन प्रश्नों के विवेक पूर्ण उत्तर ही चतुर केवट हैं ।
 सुनि अनुकथन परसपर होई * पथिक समाज सोइ सर सोई
 घोर धार भृगुनाथ रिसानी * घाट सुबद्ध राम वर बानी

कथा सुनकर जो बात-चीत आपस में होती है, वही मानो इस नदी के यात्री हैं । परशु
 रामजी का कोप तीक्ष्ण धारा व श्रीरामजी के श्रेष्ठ वचन ही सुन्दर घाट बंधे हुए हैं ।

सानुज राम विवाह उछाहू * सो सुभ उमग सुखद सब काहू
 कहत सुनत हरषहि पुलकाहीं * ते सुकृति मन मुदित नहाहीं

माइयों सहित श्रीरामजी के विवाह का जो उत्सव है, वही मानो इस कथा रुपिणी
 नदी की सब सुख देने वाली तरंगें हैं । इसको कहते-सुनते हुए जो लोग प्रसन्न होकर रोमां-
 चित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा-जन मानो प्रसन्न मन से स्नान करते हैं ।

राम तिलक हित मङ्गल साजा * पर्व जोग जनु जूरे समाजा
 काई कुमति कैकेई केरी * परी जासु फल विपति घनेरी

श्रीरामजी के तिलक के निमित्त जो मङ्गल-साज सजा है, वही मानो पर्व, योग, समाज
 जुड़ा है । कैकेई की कुमति ही मानो इस नदी में काई है, उसी से घोर विपत्ति आ पड़ी है ।

दोहा-समन अमित उतपात सब, भरतचरित जप जाग ।

कलिअघखलअवगुनकथन, ते जल मल बक काग ॥५२॥

सब उपद्रवों को शान्त करने के निमित्त भरतजी का चरित्र ही जप और यज्ञ है । कलि-
 युग के पाप और दुष्टों के अवगुणों का वर्णन ही जल के मलिन पक्षी बगुले और कौए हैं ।

कीरति सरित छहूँ रितु रूरी * समय सुहावन पावनि भूरी
 हिम हिमसैलसुता सिव व्याहू * सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू

वह कीर्तिरुपिणी नदी छहों ऋतुओं में भरी रहती है और समय पर बहुत सुहावनी और
 पवित्र हो जाती है । श्रीशिव-पार्वतीजी का विवाह हेमन्त ऋतु है और श्रीरामजी का सुख-
 दायक जन्मोत्सव शिशिर-ऋतु है ।

वनरव राम विवाह समाजू * सो मुद मङ्गलमय रितुराजू
 ग्रीष्म दुसह राम वन गवनू * पन्थ कथा खर आतप पवनू

श्रीराम-विवाह की कथा-आनन्द-मंगलकारी वसन्तऋतु है और श्रीरामजी के वन-गमन
 की कथा ही दुःखदायी ग्रीष्मऋतु है । मार्ग की कथा मानो कड़ी घूप और लू हैं ।

वरषा घोर निसाचर रारी * सुरकुल सालि सुमङ्गलकारी
 राम राज सुख विनय बड़ाई * विसद सुखद सोइ सरद सुहाई

राक्षसों की लड़ाई मानो वर्षा है, जो देव-समूह रूपी धानों को मङ्गलकारी है । राम-
 राज्य में जो सुख, सुनीति और बड़ाई है, वही सुख देने वाली शरद ऋतु है ।

सती सिरोमनि सिय गुनगाथा * सोइ गुन अमल अनूपम पाथा

भरत सुभाउ सुसीतलताई * सदा एक रस वरनि न जाई

सतो-शिरोमणि सीताजी के गुणों को क्या जल के समान निर्मल और उपमा रहित गुण हैं। भरत का स्वभाव शीतलता है, जो सदा एक, सी रहती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।

दोहा—अवलोकनि बोलनि मिलनि, प्रीति परस्पर हास।

भायप भलि चहुँ बन्धु की, जल माधुरी सुवास ॥५३॥

श्रीराम आदि चारों भाइयों का आपस में देखना, बोलना, मिलना, प्रेम करना, हँसना तथा सुन्दर भ्रातृ-भाव ही जल की मधुरता और सुगन्धि है।

आरति विनय दीनता मोरी * लघुता ललित सुवारि न थोरी

अद्भुत सलिल सुनत गनकारी * आस पिआस मनोमल हारी

अत्यन्त प्रेम के साथ मेरी बिनती तथा दीनता ही इस सुन्दर जल का हल्कापन और निर्मलता है। इसमें जल का कुछ दोष नहीं है, जल अनोखा है, सुनते ही गुण करता है और वेश्यारूपी प्यास तथा मन के मेल को दूर करता है।

राम सुप्रेमहि पोषत पानी * हरत सकल कलिकलुष गलानी

भव श्रम सोषक तोषक तोषा * समन दुरित दुख दारिद दोषा

वह जल श्रीरामजी के सुन्दर प्रेम को बढ़ाता है, कलियुग के पापों की ग्लानि को हरता है। यह जन्म-मरण के दुःखों को दूर करने वाला और सन्तोष को भी सन्तोष देने वाला है तथा गठित दुःख और दरिद्रता के दोषों का नाश करता है।

काम कोह मद मोह नसावन * विमल विवेक विरांग बढ़ावन

सादर मज्जन पान किए तें * मिटहि पाप हरिताप हिय तें

यह जल काम, क्रोध, अहंकार और मोह का नाश करने वाला है, निर्मल ज्ञान-वैराग्य को बढ़ाता है। आदर सहित स्नान करने और पीने से पाप एवं दुःख हृदय से मिट जाते हैं।

जिन्ह एहि वार न मानस धोए * ते कायर कलिकाल विगोए

तृषित निरखि रविकर भव वारी * फिरिहहि मृग जिमिजीव दुखारी

जिन्होंने इस जल से अपने मन को नहीं धोया, उन कायरों को कलिकाल ने विगाड़ दिया। जैसे प्यासा हिरन-सूर्य की किरणों से (रेती में) उत्पन्न हुए मिथ्या-जल को देखकर भटकता फिरता है।

दोहा—मति अनुहारि सुवारि गुन, गुनगनि मन अन्हवाइ।

सुमिरि भवानी शङ्करहि, कह कवि क्या सुहाई ॥५४॥

अपनी बुद्धि के अनुसार इस निर्मल जल में उत्तम गुण-समूह युक्त मन को स्नान करा कर और श्रीशिव-पार्वतीजी को स्मरण करके मैं यह सुहावनी क्या कहता हूँ।

अव रघुपति पद पङ्कह, हियँ धरि पाइ प्रसाद।

कहउँ जुगल मुनिवर्य कर, मिलन सुभग सम्वाद ॥५५॥

अब मैं श्रीरघुनाथजी के चरणों को हृदय में धारण कर और उनकी प्रसन्नता पाकर दोनों मुनीश्वरों का मिलन तथा सुन्दर सम्वाद वर्णन करता हूँ।

भरद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा * तिन्हहिं रामपद अति अनुरागा
तापस सम दम दया निधाना * परमार्थ पद परम सुजाना

प्रयाग में भारद्वाज मुनि रहते हैं, उनका श्रीरामजी के चरण में अधिक प्रेम है। वह तपस्वी, शान्त-स्वभाव, इन्द्रिय-जित, दया के घर और परमार्थ (धर्म) के मार्ग में बड़े चतुर हैं।

माघ मकरगत रवि जब होई * तीरथपतिहि आव सब कोई
देव दनुज किन्तर नर श्रेणी * सादर मज्जहिं सकल त्रिवेणी

माघ मास में मकर-संक्रान्ति को सब कोई तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। देवता, दैत्य किन्तर और मनुष्यों के झुण्ड आदर सहित सभी त्रिवेणी में स्नान करते हैं।

पूजहिं माधव पद जलजाता * परसि अखयवटु हरर्षहिं गाता
भरद्वाज आश्रम अति पावन * परम रम्य मुनिवर मन भावन

वेणीमाधव के चरण-कमलों की पूजा करते हैं और अक्षय-वट को छूकर प्रसन्न होते हैं। वहाँ भारद्वाज मुनि का आश्रम अत्यन्त पवित्र, बहुत सुन्दर और मुनीश्वरों के मन को भी मोहित करता है।

तहाँ होइ मुनि रिषय समाजा * जाहिं जे मज्जन तीरथराजा
मज्जहिं प्रात समेत उछाहा * कहहिं परस्पर हरिगुन गाहा

वहाँ पर ऋषि-मुनियों का समाज होता है, जो प्रयाग में स्नान करने जाते हैं। प्रातःकाल सब लोग बड़े उत्साह से स्नान करते हैं और आपस में श्रीहरि के गुणानुवाद गान करते हैं।

दोहा-ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बनरहिं तत्व विभाग।

कहहिं भगति भगवन्त कै, संजुत ग्यान विराग ॥५६॥

ब्रह्म-निरूपण 'धर्म' तत्वों के विभाग ज्ञान-वैराग्य सहित भगवद्भक्ति का वर्णन करते हैं।

एहि प्रकार भरि माघ नहाहीं * पुनि सब निज निज आश्रम जाहीं
प्रति सस्वत अति होइ अनन्दा * मकर मज्जि गवर्नाहिं मुनिवृन्दा

इस तरह माघ-मास भर स्नान करते हैं, फिर सभी अपने २ आश्रमों को लौट जाते हैं। प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार बहुत ही आनन्द होता है, मकर स्नान करके मुनियों के समूह चले जाते हैं।

एक बार भरि मकर नहाए * सब मुनीस आश्रमन्ह सिधाए
जागबलिक मुनि परम विवेकी * भरद्वाज राखे पद टेकी

एक बार मकर-स्नान कर मुनीश्वर अपने २ आश्रमों को लौट गये। परन्तु परम विवेकी याज्ञवल्क्य मुनि को भारद्वाज मुनि ने चरण पकड़ कर रोक लिया।

सादर चरन सरोज पखारे * अति पुनीत आसन बैठारे
करि पूजा मुनि सुजस बखानी * बोले अति पुनीत मृदु बानी

आदर सहित उनके चरण-कमल धोये और बहुत पवित्र आसन पर बैठाया और पूजा करके मुनि के सुपश को यज्ञान कर अति कोमल वाणी से बोले-

नाथ एक संसय बड़ मोरे * करतल वेदतत्व सबु तोरे
कहत सो मोहि लागत भयलाजा * जौ न कहउ बड़ होइ अकाजा

हे नाथ ! मुझे एक बड़ा संदेह है कि वेदों का सब तत्व आपकी मुट्ठी में है। उसको कहते हुए मुझे भय तथा लाज लगती है और जो नहीं कहता तो बड़ा अनर्थ होता है।

दोहा-सन्त कहहिं असि नीति प्रभु, श्रुति पुरान मुनि गाव।

होइ न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव ॥५७॥

हे प्रभो ! सन्तजन ऐसी नीति कहते हैं और वेद, पुराण तथा मुनियों ने भी ऐसा ही कहा है कि गुरु से बात छिपाने से हृदय में निमल ज्ञान पैदा नहीं होता।

अस विचार प्रगटउं निज मोह * हरहु नाथ करि जन पर छोह
राम नाम कर अमित प्रभावा * सन्त पुरान उपनिषद गावा

ऐसा विचारकर मैं अब अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ हे नाथ ! दास पर कृपा करके उसे दूर करें। राम-नाम का बड़ा प्रभाव है, उसे सन्तों, पुराणों और उपनिषदों ने गाया है।

सन्तत जपत शम्भु अविनाशी * शिव भगवान ग्यान गुन रासी
आकर चारि जीव जग अहहीं * काशी मरत परम पद राहहीं

कल्याण स्वरूप, अविनाशी, गुणों की धान-भगवान शिव सदैव 'राम-नाम' जपते हैं। संसार में चार प्रकार के जीव हैं, काशी में मरने से वे सब मोक्ष पाते हैं।

सोपि राम महिमा मुनिराया * शिव उपदेशु करत करि दाया
रामु कवन प्रभु पूछउं तोही * कहिअ बुझाइ कृपानिधि मोही

हे मुनिराज ! यह भी राम की महिमा है, जोकि शिवजी दया करके उपदेश करते हैं। हे प्रभु ! मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं ? हे कृपासिन्धु ! मुझे समझाकर कहिए।

एक राम अवधेस कुमारा * तिन्ह करि चरित विदित संसारा
नारि विरहें दुखु लहे अपारा * भयउ रोषु रन रावनु मारा

एक राम तो अवधपति दशरथजी के पुत्र हैं जिनका चरित्र संसार में प्रसिद्ध है। स्त्री के वियोग से अपार दुःख सहा और क्रोधित हो रण में रावण को मारा।

दोहा-प्रभुसोइ राम किअपरकोउ, जाहि जपत त्रिपुरारि।

सत्यधाम सर्वग्य तुम्ह, कहहु विवेक विचारि ॥५८॥

हे प्रभु ! यही राम हैं, या कोई दूसरे हैं-जिनको शिवजी जपते हैं ? आप सत्य के धाम और सर्वज्ञ हैं, अतः ज्ञान से विचार कर कहिये।

जैसे मिटै मोर भ्रम भारी * कहहु सो कया नास्तारी

तेहि अवसर भञ्जन महि भारा * हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा
पिता वचन तजि राजु उदासी * दण्डक वन विचरहि अविनासी

उसी समय पृथ्वी का भार उतारने को श्रीहरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। पिता का वचन मान, राज्य को छोड़ अविनाशी प्रभु उदासीन होकर दण्डक वन में विचरते थे।

दोहा-हृदय विचारत जात हरि, केहि विधि दरसनु होइ।

गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु, गए जानि सबु कोइ ॥३०॥

शिवजी हृदय में विचार करते हुए जा रहे थे कि किस प्रकार दर्शन हों? प्रभु ने गुप्त-रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब जान लेंगे।

सो०-शंकर उर अति छोभु, सती न जानइ मरम सोइ ॥

तुलसी दरसन लोभु, मन डर लोचन लालची ॥११॥

शिवजी के मन में बड़ा क्षोभ था, सतीजी इस भेद को नहीं जानती थीं। तुलसीदासजी कहते हैं कि उनके नेत्रों में श्रीराम-दर्शन की लोभ-पूर्ण लालसा थी और मन में यह डर था कि इस भेद को कोई जान न जाय।

रावन मरनु मनुज कर जाँचा * प्रभु विधिवचन कीन्ह चहसांचा
जों नहि जाउ रहइ पछितावा * करत बिचारु न वनत वनावा

रावण ने ब्रह्माजी से मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु माँगी थी, सो प्रभु ब्रह्माजी का वचन सत्य करना चाहते हैं। जो मैं श्री रामचन्द्रजी के दर्शन करने न जाऊँ-तो पछितावा रहेगा, ऐसा विचार करते हुए शिवजी कुछ निश्चय नहीं कर पाये।

एहि विधि भए सोच वस ईसा * तेही समय जाइ दससीसा
लीन्ह नीच मारीचहि सझा * भयउ तुरत सोइ कपट कुरझा

इस प्रकार शिवजी सोच में पड़े हुए थे कि उसी समय रावण ने जाकर नीच मारीच को संग लिया और वह तुरन्त कपट-मृग बन गया।

करि छलु मूढ हरी वंदेही * प्रभु प्रताप तस विदिति न तेही
मृगवधि बन्धु सहित हरि आए * आश्रमु देखि नयन जल छाए

छल करके मुछ रावण ने वंदेहो को हर लिया, क्योंकि वह प्रभु का प्रताप नहीं जानता था। मृग को मारकर भाई सहित जब रामजी आये, तो आश्रम को देखकर नेत्रों में जल भर आया।

विरह विकल नर इव रघुराई * खोजत विपिनि फिरत दोउभाई
कबहुँ योग वियोग न जाकें * देखा प्रगट विरह दुख ताकें

सतीजी के वियोग में व्याकुल मनुष्यों की भाँति राम-लक्ष्मण दोनों भाई सतीजी को वन में ढूँढते फिरते हैं। जिनके कभी संयोग वियोग नहीं है, उनमें विरह का दुःख प्रत्यक्ष देखा।

दोहा-अतिविचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान।

जो मतिमन्द विमोह वश, हृदय धरहि कछु आन ॥६१॥

श्रीरघुनाथजी के चरित्र अति विचित्र हैं, जो बड़े ज्ञानी हैं—वे ही जानते हैं। जो मन्द-बुद्धि हैं, वे अज्ञान के वश हृदय में कुछ और समझते हैं।

शम्भु समय तेहि रामहिं देखा * उपजा हियँ अति हरषु विसेषा
भरि लोचन छवि सिंधु निहारी * कुसमय जानि न कोन्ह चिन्हारी

शिवजी ने उस समय श्रीरामजी को देखा, तो उनके हृदयमें बहुत आनंद उत्पन्न हुआ। नयन भर कर शोभा के समुद्र श्रीरामजी को देखा, परन्तु कुअवसर जानकर परिचय नहीं किया।

जय सच्चिदानन्द जग पावन * अस कहि चले मनोज नसावन
चले जात शिव सती समेता * पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता

‘जगत् को पवित्र करने वाले सच्चिदानन्द की जय हो’ इस प्रकार कहकर शिवजी वहाँ से चल दिये। कृपानिधान शिवजी आनन्द से बारम्बार पुलकायमान होकर सतीजी के साथ चले जा रहे थे कि—

सती सो दशा शम्भु कै देखी * उर उपजा सन्देह विसेषी
शंकर जगत बन्ध जगदीसा * सुर नर मुनि सब नावत सीसा

शिवजी की दशा को देखकर सतीजी के हृदय में बड़ा सन्देह उत्पन्न हुआ कि शिवजी-सब संसार के बन्दनीय और जगदीश्वर हैं, देवता, मनुष्य और मुनि सब इनको सिर नवाते हैं।

तिन्ह नृपसुर्ताहिं कीन्ह परनामा * कहि सच्चिदानन्द परधामा
भए भगन छवि तासु विलोकी * अजहुँ प्रीति उर रहित न रोकी

उन्होंने राज-पुत्रों को ‘सच्चिदानन्द और मोक्षके धाम’ कह कर प्रणाम किया और उनकी शोभा को देखकर इतने भग्न होगये कि अब तक हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती।

दोहा—ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद।

सो कि देह धरि होय नर, जाहि न जानत वेद ॥६२॥

जो ब्रह्म सर्व-व्यापक, माया से रहित, अजन्मा, अदृश्य, इच्छा और भेद रहित है तथा जिसे वेद भी नहीं जानते क्या वह देह धारण कर मनुष्य भी हो सकता है।

विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी * सोइ सर्वग्य जथा त्रिपुरारी
खोजइ सो कि अग्य इव नारी * ग्यान धाम श्रीपति असुरारी

जो विष्णु-देवताओं के हित के लिए मनुष्य-देह धारण करते हैं, वे ही सर्वग्य हैं। वे ज्ञान के भण्डार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु-क्या अज्ञानी के समान स्त्री को हूँदेंगे!

शम्भु गिरा पुनिमृषा न होई * शिव सर्बग्य जान सबु कोई
अस संसय मन भयउ अपारा * होइ न हृदयँ प्रबोध प्रचारा

फिर शिवजी की वाणी भी झूठी नहीं हो सकती। शिवजी सर्वज्ञ हैं, वे सब जानते हैं। इस प्रकार सती के मन में बड़ा सन्देह हुआ, हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता था।

जद्यपि प्रकट न कहेउ भवानी * हर अन्तरयासी सब जानी

सुनहु सती तव नारि सुभाऊ * संसय अस न करअि उर काऊ

यद्यपि सती ने प्रकट में कुछ नहीं कहा, किन्तु अन्तर्यामी शिवजी ने सब बात जानली।
वे बोले-सती ! मुनो, तुम्हारा स्वी स्वभाव है। ऐसा सन्देह हृदय में नहीं करना चाहिये।

जासु कथा कुम्भज ऋषि गाई * भगति जासु में मुनिहि सुनाई

सोइ मम इष्टदेव रघुवीरा * सेवत जाहि सदा मुनि धीरा

जिनकी कथा अगस्त्य-ऋषि ने मुझसे कही और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई-वही
श्रीरघुनाथजी मेरे इष्टदेव हैं और मुनि जिनकी सदा सेवा किया करते हैं।

छन्द-मुनि धीर जोगी सिद्ध सन्तत विमल मन जेहि ध्यावहीं ।

कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कौरति गावहीं ॥

सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी ।

अवतरेउ अपने भगतहित निज तंत्र नित रघुकुलमनी ॥

ज्ञानी, मुनो, योगी, सिद्ध आदि निर्मल मन से सदैव जिनका ध्यान करते हैं। वेद-पुराण
'नेति-नेति' कहकर जिन प्रभु की कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्व-व्यापक, सब भुवनों के स्वामी,
मायापति, स्वतन्त्र, नित्य, ब्रह्म रूप श्रीरामजी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल में मणि
समान अवतार लिया है।

सो०-लाग न उर उपदेशु, जदपि कहेउ शिवें वार बहु ।

बोलेउविहँसि महेसु, हरिमाया बलु जानि जियँ ॥१२॥

यद्यपि शिवजी ने बार-बार कहा, फिर भी सतीजी के हृदय पर उपदेश का कुछ भी
प्रभाव न पड़ा। तब शिवजी हरि-माया को बलवान् जानकर हँसकर बोले-

जौं तुम्हारे मन अति सन्देह * तौं किन जाइ परीक्षा लेहू

तव लगिवैठि अहउँ वट छाहीं * जब लगि तुम्ह ऐहहु मोहि पाहीं

जो तुम्हारे मन में अधिक सन्देह है, तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती ? जब तक तुम
मेरे पास नहीं लौटोगी, तबतक मैं इस वट-वृक्ष की छाया में बैठा रहूँगा।

जैसे जाइ मोह भ्रम भारी * करेहु सो जतनु विवेक विचारी

चली सती सिव आयसु पाई * करहि विचार करौं का भाई

जिस प्रकार तुम्हारा मोह व भ्रम दूर हो-वही उपाय अपने मन में विचार कर करना।
शिवजी को आज्ञा पाकर सतीजी चलीं और सोचने लगीं कि क्या कहें-कैसे परीक्षा लूँ ?

इहाँ शम्भु अस मन अनुमाना * दच्छसुता कहे नहि कल्याणा

मौरेहु कहे न संसय जाहीं * विधि विपरीत भलाई नाहीं

यहाँ शिवजी ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष-पुत्री सती का कल्याण नहीं है।
जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, सब भाग्य ही उल्टा है, भलाई नहीं जान पड़ती।

होइहि सोइ जो राम रचि राखा * को करि तरकु वड़ावै साखा

अस कहि लगे जपन हरि नामा * गई सती जहँ प्रभु सुखधामा

वही होगा-जो राम ने रच रख्या है, तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे? ऐसे कहकर शिवजी श्रीहरि का नाम जपने लगे और सीताजी वहाँ गईं-जहाँ सुख के धाम श्रीरामचन्द्रजी थे।

दोहा-पुनि पुनि हृदय विचारु करि, धरि सीता करि रूप ।

आगे होइ चलि पन्थ तेहिं, जेहिं आवत नर भूप ॥६३॥

बार-बार मन में विचार कर सीताजी का रूप धारण करके सतीजी-उसी मार्ग से आगे होकर चलीं, जिस मार्ग से श्रीरामजी आ रहे थे।

लछिमन दीख उमाकृत वेषा * चकित भए भ्रम हृदय विशेषा

कहिन सकत कछु अति गम्भीरा * प्रभु प्रभाव जानत मतिधीरा

लक्ष्मणजी सती का बनावटी भेष देखकर चकित होगये और उनके मन में बड़ा सन्देह हुआ। वे बहुत गम्भीर होगये, कुछ कह नहीं सके, वे धीर-बुद्धि श्रीरामजी के प्रभाव को जानते थे।

सती कपटु जानेउ सुर स्वामी * समदरशी सब अन्तरजामी

सुमिरत जाइ सिटइ अग्याना * सोइ सर्वग्य रामु भगवाना

देवताओं के स्वामी श्री रामजी सतीजी के छल को जान गये, क्योंकि वे सब कुछ देखने वाले और सबके मन को जानने वाले हैं। जिनके स्मरण से अज्ञान दूर हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्रीरामजी हैं।

सती कीन्ह चह यहहुँ दुराऊ * देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ

निज माया बलु हृदय बखानी * बोले विहँसि राम मृदु बानी

सतीजी ने यहाँ भी अपना छिपाव करना चाहा, देखो-यह तो स्त्रियों के स्वभाव का प्रभाव है। अपनी माया का बल हृदय में विचारते हुए श्रीरामजी हँसकर मधुर वाणी से बोले-

जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू * पिता समेत लीन्ह निज नामू

कहेउ वहोरि कहाँ वृषकेतू * विपिनि अकेलि फिरहु केहि हेतू

श्रीरामजी ने हाथ जोड़ कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम लिया फिर कहा कि महादेवजी कहाँ हैं और आप वन में अकेली किस कारण फिर रही हैं।

दोहा-राम वचन मृदु गूढ सुनि, उपजा अति संकोचु ।

सती सभित महेश पहि, चलीहु बड़ सोचु ॥६४॥

श्रीरामचन्द्रजी के कोमल और गूढ वचन सुनकर सतीजी बहुत संकोचित हो गईं और शिवजी के पास चलीं, किन्तु हृदय में बहुत

मैं शंकर कर कहा * नि

जाइ उतर अब देह * उ

कि मैंने शिवजीका कहा नहीं * अज्ञा

अब आकर शिवजी को क्या उतर

जाना राम सती दुखु पावा * निज प्रभाउ कछु प्रगटि जनावा
सती दीख कौतुक मग जाता * आगेँ रामु सहित श्री भ्राता

श्रीरामजी ने जानलिया कि सतीजी को दुःख हुआ है, तब अपना कुछ प्रभाव दिख-
लाया। सतीजी ने मार्ग में यह कौतुहल देखा कि आगे श्रीराम-सीता, लक्ष्मण सहित जा रहे हैं।

फिर चितवा पाछें प्रभु देखा * सहित वन्धु सिय सुन्दर वेपा
जहँ चितवहि तहँ प्रभु आसीना * सेवाहि सिद्ध मुनीश प्रवीना

पाछे फिर कर देखा, तो भी लक्ष्मण और सीताजी सहित सुन्दर वेप में श्रीरामजी दिखाई
दिये, जहाँ देखे-यहाँ ही प्रभु विराजमान हैं और चतुर सिद्ध-मुनीश्वर सेवा कर रहे हैं।

देखे शिव विधि विष्णु अनेका * अमित प्रभाउ एक तें ऐका
वन्दत चरण करत प्रभु सेवा * विधि वेप देखे सब देवा

ऐसे अनेकों शिव, ब्रह्मा, विष्णु देखे-जितका प्रभाव एक से एक बढ़कर था, फिर प्रभु
श्रीरामजी की चरण वन्दना और सेवा करते अनेक प्रकार के वेश वाते सब देवता देखे।

दोहा—सती विधात्री इन्दिरा, देखीं अमित अनूप।

जेहि जेहि वेष अजादिसुर, तेहि तेहि तनु अनुरूप ॥३५॥

अनेकों सती सरस्वती और लक्ष्मी बहुत ही सुन्दर और अनुपम रूप वाली देवों। जिस
जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उन्हीं देवों के अनुसार वे रूप धारण कर रहीं थीं।

देखे जहँ तहँ रघुपति जेते * शक्तिन्ह सहित सकल सुर तेते
जीव चराचर जो संसारा * देखे सकल अनेक प्रकारा

सतीजी ने जहाँ-तहाँ जितने श्री रघुनाथ जी देखे, वहाँ उतने ही देवता शक्तियों सहित
देखे। संसार में जितने भी चराचर जीव हैं, वे सब अनेकों प्रकार के देखे।

पूजाहि प्रभुहि देव बहु वेषा * राम रूप दूसर नाहि देखा
अवलोके रघुपति बहुतेरे * सीता सहित न वेष घनेरे

अनेकों वेप धारण किये देवता-प्रभु श्रीरामजी की पूजा कर रहे थे, परन्तु श्रीरामजी
का दूसरा रूप नहीं देखा। सीताजी सहित बहुत-से श्रीरघुनाथजी देखे, परन्तु उनके वेप
अनेक नहीं थे।

सोइ रघुपति सोइ लछिमनु सीता * देखि सती अति भई समीता
हृदय कम्प तनु सुधि कछु नाहीं * नयन मूँदि वैठी मग माहीं

यहाँ श्रीरघुनाथजी, वही लक्ष्मणजी, व सीताजी को देखकर सतीजी बहुत ही डर गई।
हृदय कांपने लगा, देह को कुछ भी सुधि न रही और आँखें बन्द करके मार्ग में चंठ गई।

वहुरि विलोकेउ नयन उधारी * कछु न दीख तहँ दच्छकुमारी
पुनि पुनि नाइ राम पद सीता * चली तहाँ जहँ रहे गिरीसा

फिर आँख चोलकर देखा तो वहाँ सतीजी को कुछ भी नहीं दीख पड़ा, तब बार-बार

श्रीरामजी के चरणों में सिर नवाकर उस ओर चलीं-जहाँ शंकरजी थे।

दोहा-गई समीप महेश तब, हँसि पूछी कुशलात।

लीन्हि परीक्षाकवन विधि, कहहु सत्य सब बात ॥६६॥

जब पास पहुँची, तब शिवजी ने हँसकर कुशल पूछी और कहा कि किस प्रकार परीक्षा ली, सो सब बात सत्य २ कहो ?

* मास पारायण-दूसरा विश्वास *

सती समुद्रि रघुवीर प्रभाऊ * भय वश शिव सन कीन्ह दुराऊ

कछु न परीक्षा लीन्हि गोसाईं * कीन्ह प्रनाम तुम्हारिहि नाई

श्रीरामजी के प्रभाव को समझ, मन में डरकर सतीजी ने शिवजी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी ! मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली। केवल आपके समान ही प्रणाम किया।

जो तुम कहा सो मृषा न होई * सोरें मन प्रतीत अति सोई

तब शंकर देखेउ धरि ध्याना * सतीजो कीन्ह चरति सब जाना

जो आपने कहा, वह झूठ नहीं हो सकता, यह मेरे मनमें पूर्ण विश्वास है। तब शिवजी ने ध्यान धरकर देखा और सतीजी ने चरित्र किया था, वह सब जान लिया।

वहुरि राम सायहिं सिरु नावा * प्रेरि सतिह जेहि झूठ कहावा

हरि इच्छा भावी बलवाना * हृदयँ विचारत शम्भु सुजाना

पुनः रामजी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा कर सतीजी से भी झूठ कहलवाया। हरि की इच्छारूपी होनहार बलवान है। बुद्धिमान शिवजी अपने मन में विचार करने लगे-

सती कीन्ह सीता कर वेषा * शिव उर भयउ विषाद विसेषा

जाँ अब करउँ सती सन प्रीती * सिटइ भगति पथ होइ अनीती

सती ने सीताजी का रूप धारण किया, यह जानकर शिवजी के हृदय में बहुत दुःख हुआ। जो अब मैं सती से प्रेम करता हूँ, तो भक्ति का मार्ग नष्ट हो जायगा और अनीति होगी।

दोहा-परम पुनीतन जाय तजि, किएँ प्रेम बड़ पापु।

प्रगटि न कहत सहेश कछु, हृदयँ अधिक सन्तापु ॥६७॥

परम पवित्र सती त्यागी नहीं जाती और प्रेम करने में बड़ा पाप है। शिवजी प्रकट में तो कुछ नहीं कहते थे, परन्तु हृदय में बड़ा दुःख था।

तब शंकर प्रभु पद सिरु नावा * सुमिरत राम हृदयँ अस आवा

एहिं तनु सतिहिं भेंट सोहि नाही * शिव संकल्पु कीन्ह मन माहीं

तब शिवजी ने श्रीरामजी के चरणों में सिर नवाया। राम का स्मरण करते ही हृदय में यह विचार आया कि इस शरीर से सती के साथ अब भेंट नहीं हो सकती। शिवजी ने यह संकल्प मन में कर लिया।

अस विचारि शंकर सति धीरा * चले भवन सुमिरत रघुवीरा

चलत गगन भइ गिरा सुहाई * जय महेश भलि भगति दृढ़ाई

तेमा विचारकर धर्मवान् गिबजी-रामजी का स्मरण करते हुए अपने भवन को चले। अपने रामय सुन्दर आकाशवाणी हुई-हे महादेवजी ! आपकी जय हो अपने अष्टों प्रति दृढ़ की।

असपनतुम्हविनुकरइ को आना * राम भगत समरय भगवाना

सुनि नभ गिरा सती उर सोचा * पूछा शिवहि समेत सैंकोचा

तेमा प्रण आपके शिवाय और कौन कर सकता है ? आप श्रीराम के परम-भक्त, रामय और भगवान् हैं। आकाश वाणी सुनकर सती के हृदय में चिन्ता हुई और संकोच महिन्त ये गिबजी से पूछने लगीं।

कौन्ह कवन पन कहहु कृपाला * सत्यधाम प्रभु दीनदयाला

जदपि सती पूछा बहु भाँती * तदपि न कहेउ त्रिपुर आराती

हे कृपातु आपने कौन-सा प्रण किया है ? हे प्रभु ! आप राम के धाम और दीनदयातु हैं। यद्यपि सतीजी ने अनेक नाति से पूछा तो भी गिबजी ने कुछ नहीं कहा।

दोहा-सती हृदयँ अनुमान किय, सनु जानेउ सर्वग्य।

कौन्ह कपटु में शम्भु सन, नारि सहज जइ अग्य ॥६८॥

गती ने अपने हृदय में विचार किया कि गयंत्र गिबजी ने यह सब कुछ जानलिया, जो मैंने शिवजी से कपट किया था। स्त्रिपरी-स्वभाय से ही मृगं और अगाधी होती हैं।

सो०-जल पय सरिस विकाय, देखहुप्रातिकिरीतिभलि।

विगुल होई रसु जाय, कपट खटाई परत पुनि ॥१३॥

दंभो-प्रीति की रीति कंसो अच्छी है कि जल और दूध एक भाय चिन्ता है, परन्तु कपट रूपी खटाई पड़ते ही दूध अलग होजाता है।

हृदयँ सोचु समुझतनिज करनी * चिन्ता अमितजाई नहिं वरनी

कृपासिन्धु शिव परम अगाधा * प्रगट न कहेउ मोर अपराधा

अपनी करतूत को हृदय में स्मरण कर गतीजी को अयर्णनीय चिन्ता हुई। कृपा के समुद्र शिवजी बड़े गम्भीर हैं, उन्होंने मेरे अपराध को प्रकट नहीं कहा।

शंकर रुख अवलोकि भवानी * प्रभुमोहितजेउ हृदयँ अकुलानी

निजअघसमुझिन कछुकहिजाई * तपइ अवाँ इव उर अधिकारै

गिबजी का रूप देखकर गतीजी ने जान लिया कि प्रभु ने मुझे त्याग दिया, ये वह जानकर अपने मन में व्याकुल हो गईं। अपना अपराध समझकर कुछ कहा नहीं जाता, किन्तु कुम्हार के अघे के समान हृदय तपने लगा।

सतिहि ससोच जानि वृपकेतू * कही कया सुन्दर सुत्र हेतू

वरनतपन्य विविधि इतिहासा * विश्वनाय पहुँचे कैलासा

गती को चिन्ता से व्याकुल जानकर गिबजी ने सुत्र के निमत सुन्दर कथानें कहीं। मागं से अनेक प्रकार के इतिहास कहते हुए गिबजी कैलाश पर पहुँचे।

तहँ पुनि शम्भु समुझि पनु आपन * बैठे बट तरु करि कमलासन
शंकर सहज सरूप सम्हारा * लागि समाधि अखण्ड अपारा

फिर वहाँ अपने प्रण का स्मरण कर शिवजी बट-वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गये। शिवजी ने अपना स्वामात्रिक स्वरूप संभाला, जिससे अखण्ड और अपार समाधि लग गई।

दोहा-सत वसहिँ कैलास तव, अधिक सोचु मन माहिँ ।

मरमु न कोऊ जान कछु, जुग सम दिवस सिराहिँ ॥६६॥

सतीजी कैलाश पर रहने लगीं परन्तु मन में बहुत सोच था। इस भेद को कोई कुछ नहीं जानता था, युगों के समान दिन बीतने लगे।

नित नव सोचु सती उर भारा * कव जैहउँ दुख सागर पारा
मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना * पुनि पति वचन मृषा करि जाना

नित्य नया सोच सती के हृदय में बढ़ने लगा कि कव इस दुःख सागर से पार होऊँगी ? मैंने जो श्रीरघुनाथजी का अपमान किया है, फिर पति के वचनों को झूठा जाना है।

सो फलु सोहि विधाता दीन्हा * जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा
अव विधि अस बूझि नहिँ तोही * शंकर विमुख जिआवसि सोही

विधाता ने मुझको उसका फल दिया, जो कुछ उचित था-वही किया। हे विधाता ! अब तुमको ऐसा उचित नहीं है कि शंकरजी से अलग करके मुझको जिलाओ।

कही न जाइ कछु हृदय गलानी * मन सहँ रामहिँ सुमिरि सयानी
जौं प्रभु दीनदयालु कहावा * आरति हरन वेद जसु गावा

सतीजी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती, फिर चतुर सती ने मन में श्रीरामजी का स्मरण किया-हे प्रभु ! जो आप दीनदयालु कहलाते हैं और दुःखों को दूर करने वाले कहकर वेद आपका यश गाते हैं।

। मैं विनय करउँ कर जोरी * छूटहिँ बेगि देह यह सोरी
। मैं शिव चरन सनेह * मन क्रम वचन सत्य व्रत ऐह

तो मैं हाथ जोड़कर आपकी विनती करती हूँ कि मेरा यह शरीर शीघ्र छूट जाय। जो शिवजी के चरणों में स्नेह है और मन, कर्म, वचन से मेरा पतिव्रत-धर्म सच्चा है।

हा-तौ समदरसी सुनिअ प्रभु, करउ सो बेगि उपाय ।

होइ सरनुजोहिँ विनहिँ श्रमु, दुसह विपति विहाय ॥७०॥

तो-हे समदर्शी प्रभु ! सुनिये और शीघ्र ऐसा उपाय करिये, जिससे अनायास ही मेरी मृत्यु हो जाय और यह दुःसह विपत्ति दूर हो जाय।

हि विधि दुखित प्रजेसकुमारी * अक

बोते सम्बत सहस

इस प्रकार दक्ष-कन्या (सती) बहुत दुःखित थी, अकल्पनीय बड़ा ही दारुण दुःख था। सत्तासी हजार वर्ष बीतने पर अधिनाशी शिवजी ने समाधि त्यागी।

राम नाम सिव सुमिरन आगे * जानेउ सती जगपति जागे
जाइ शम्भु पद बन्दन कीन्हा * सनमुख शङ्कर आसनु दीन्हा

शिवजी राम-नाम का सुमिरन करने लगे, तब सती ने जाना कि अब विरघनाथ समाधि से जागे हैं। उन्होंने समीप जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया, तब शिवजी ने उन्हें अपने सामने आसन दिया।

लगे कहन हरिकथा रसाला * दच्छ प्रजेस भए तेहि काला
देखा विधि विचार सब लायक * दच्छहि कीन्ह प्रजापति नायक

शिवजी भगवान की रस-युक्त कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष-प्रजापति हुए। ब्रह्माजी ने दक्ष को सब प्रकार से योग्य देखकर प्रजापतियों का स्वामी बनाया।

बड़ अधिकार दच्छ जब पावा * अति अभिमानु हृदयें तव आवा
नहिं कोउ अस जन्मा जग माही * प्रभुता पाइ जाहि भेद नाहीं

जब दक्ष ने बड़ा अधिकार प्राप्त किया, तब हृदय में बड़ा अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं जन्मा-जिसको प्रभुता पाकर मद नहीं आता।

दोहा-दच्छ लिए मुनि बोलि सब, करन लगे बड़ जाग।

नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग ॥७१॥

दक्ष सब मुनियों को बुलाकर बड़ा भारी यज्ञ करने लगे। आदर सहित सभी देवताओं को न्योता दिया, जो यज्ञ में भाग पाते हैं।

किन्नर नाग सिद्ध गन्धर्वा * वधुन्ह समेत चले सुर सर्वा
विष्णु विरञ्चि महेश विहाई * चले सकल सुर जान बनाई

किन्नर, नाग, गन्धर्व आदि सब देवता अपनी स्त्रियों सहित चले। ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी को छोड़कर, सब देवता अपने-अपने विमान बनाकर चले।

सती बिलोकेउ व्यौम विमाना * जात चले सुन्दर विधि नाना
सुर सुन्दरी करहिं कल गाना * सुनत श्रवन छूटहिं मुनि ध्याना

सती ने आकाश में अनेक सुन्दर विमान जाते हुए देखे, जिन पर देवाङ्गनायें सुन्दर गान कर रहीं थीं। जिसे कानों से सुनते ही मुनियों के ध्यान छूट जाते हैं।

पूछेउ तव सिवें कहेउ वखानी * पिता जग्य सुनि कछु हरपानी
जौं महेश मोहि आयसु देहीं * कछु दिन जाई रहों मिस ऐहीं

सती के पूछने पर शिवजी ने सब हाल कहा। पिता का यज्ञ सुनकर सती प्रसन्न हुई और विचार करने लगी कि हे महादेवजी मुझको आज्ञा दें तो कुछ दिन इसी बहाने पिता के घर जाकर रहूँ।

पति परित्याग हृदयें दुखु भारी * कहइ न निज अपराध विचारी

बोली सती मनोहर बानी * भय संकोच प्रेम रस सानी

पति के द्वारा त्यागे जाने का मन में बड़ा दुःख था, परन्तु अपना अपराध समझ कर कुछ नहीं कहती थीं। सतीजी भय, संकोच व प्रेम-रस से युक्त मनोहर वाणी से बोलीं—

दोहा—पिता भवन उत्सव परम, जौं प्रभु आयसु होइ।

तौं मैं जाऊँ कृपायतन, सादर देखन सोइ ॥७२॥

हे प्रभु ! पिता के घर बहुत सुन्दर उत्सव है, हे कृपानिधान ! यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आदर पूर्वक उसको देखने जाऊँ।

कहेहु नीक मोरेहुँ मन भावा * यह अनुचित नहिं नेवत पठावा
दच्छ सकल निज सुता बोलाई * हमरें बयर तुम्हउ बिसराई

शिवजी ने कहा—तुमने ठीक कहा है और तुम्हारी बात मुझे भी अच्छी लगी परन्तु यह अनुचित है कि उन्होंने हमको न्यौता नहीं भेजा। दक्ष ने अपनी सब कन्याओं को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण तुमको भुला दिया।

ब्रह्मसभाँ हम सन दुख माना * तेहिं ते अजहुँ करहिं अपमाना
जौं बिनु बोलें जाहु भवानी * रहइ न सीलु सनेह न कानी

ब्रह्माजी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गये थे, उसीसे आज तक हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी ! जो बिना बुलाये जाओगी तो शील, स्नेह और मर्यादा न रहेगी।

जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा * जाइअ बिनु बोलेहुँ न सन्देहा
तदपि विरोध मान जहँ कोई * तहाँ गएँ कल्याण न होई

यद्यपि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाये भी निस्संदेह जाना चाहिए, तो भी जहाँ विरोध हो—वहाँ जाने में कल्याण नहीं है।

भाँति अनेक सम्भु समुझावा * भावी बस न ग्यान उर आवा
कह प्रभु जाहु जो बिनाहिं बोलाएँ * नहिं भलि बात हमारे भाएँ

सती को अनेक भाँति से शिवजी ने समझाया, पर होनहार वश हृदय में कुछ ज्ञान नहीं आया तब शिवजी ने कहा कि यदि बिना बुलाये जाओगी—तो हमारी समझ से ठीक नहीं है।

दोहा—कहि देखा हर जतन बहु, रहत न दच्छ कुमारि।

दिए मुख्य गन सङ्ग तब, विदा कीन्ह त्रिपुरारि ॥७३॥

शिवजी ने बहुत से यत्न कहकर देख लिया, परन्तु जब सतीजी नहीं रुकीं, तब त्रिपुरारि शिवजी ने अपने मुख्य गणों को साथ में देकर सती को विदा किया।

पिता भवन जब गई भवानी * दच्छ त्रास काहु न सनमानी
सादर भलेहिं मिली एक माता * भगिनी मिली बहुत मुसकाता

जब सतीजी पिता के पहुँची, तो वहाँ दक्ष के डर से किसी ने आदर नहीं किया।

बेधत एक माता ही भली प्रकार से मिली और बहिन तो बहुत ही मुस्कुराती हुई मिली ।
दच्छ न कछु पूछी कुसलाता * सहित विलोकि जरे सब गाता
सती जाइ देखे तब जागा * कतहुँ न दीख सम्मु कर भागा

वदा ने तो कुछ कुसल भी न पूछी और सती को देखकर उनके सब अंग जल उठे । तब सती ने जाकर यज्ञ को देखा तो यहाँ कहीं भी शिवजी का भाग नहीं देखा ।

तब चित चढ़ेउ शङ्कर कहेउ * प्रभु अपमानु समुझि उर दहेऊ
पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा * जस यह भयउ महा परितापा

तब जो शिवजी ने कहा था, यह सब उनके ध्यान में आया एवं स्वामी का अपमान समस्त हृदय में जलन हुई । पिछला दुःख हृदय में ऐसा नहीं व्यापा था, जैसा कि यह महान दुःख हुआ ।

जद्यपि जग दारुन दुख नाना * सब तें कठिन जाति अपमाना
समुझिसोसतिहि भयउ अतिक्रोधा * बहु विधि जननी कोन्ह प्रबोधा

यद्यपि संसार में अनेक प्रकार के दारुण दुःख हैं, तो भी सबसे कठिन जाति का अपमान है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध आया, तब माता ने बहुत प्रकार से समझाया ।

दोहा—सिव अपमानु न जाइ सहि, हृदयें न होइ प्रबोध ।

सकलसभहि हठिहटकितव, बोलों वचन सक्रोध ॥७४॥

सतीजी को शिवजी का अपमान नहीं सहा गया, इससे हृदय में ज्ञान नहीं हुआ । तब वे सारी सभा को झिड़क कर क्रोध के साथ बोलों—

सुनहु सभासद सकल मुनिन्दा * कही सुनी जिन्ह संकर निन्दा
सो फलु तुरत लहव सब काहुँ * भली भाँति पछिताव पिताहुँ

हे समस्त सभासदोपर्य मुनीश्वरो! सुनो, जिन लोगों ने शिवजी को निन्दाकी और मुनो हे, उसका फल तुरन्त उन सब लोगों को मिलेगा और मेरे पिता भी भली-भाँति पछतायेंगे ।

सन्त सम्मु श्रीपति अपवादा * सुनिअ जहाँ तहँ असि मरजादा
काटिअ तासु जीभ जो वसाई * श्रवन मूँदि न त चलिअ पराई

साधु, शिवजी और विष्णु की निन्दा जहाँ सुनो जाय, यहाँ ऐसी मर्यादा है कि जो आपका पत्र घले तो निन्दक को जीभ काट ले, नहीं तो कान मूँद कर वहाँ से दूर घला जायें ।

जगदातमा महेश पुरारी * जगत जनक सबके हितकारी
पिता मन्दमति निन्दति तेही * दच्छ सक्र सम्भव यह देही

जगत् को आत्मा, त्रिपुरा के मारने वाले, जगत् के पिता और सबके हितकारी शिवजी ही हैं । मेरा मन्द-बुद्धि पिता— जहाँ को निन्दा करता है और उस पिता (दल) के धीरे से ही शरीर उत्पन्न हुआ है ।

तजिहउ तुरत देह तेहि हेतू * उर धरि चन्द्रमौलि वृषकेतू
अस कहि जोग अगनि तनु जारा * भयउ सकल मख हाहापुरा

इसी कारण इस देह को चन्द्रमौलि वृषकेतु शिवजी को हृदय में धारण करके इसीसमय त्याग दूँगी। ऐसा कहकर सतीजी ने योगाग्नि द्वारा शरीर भस्म कर दिया। तब सारे यज्ञ मण्डप में हा-हाकार मच गया।

दोहा—सती मरन सुनि शम्भुगन, लगे करन मख खीस।

जग्य विध्वंश बिलोकि भृगु, रक्षा कीन्ह मुनीस ॥७५॥

सतीजी का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ-विध्वंस करने लगे। यज्ञ को विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगुजी ने यज्ञ की रक्षा की।

समाचार सब शङ्कर पाए * वीरभद्र करि कोपु पठाए

जग्य विध्वंश जाइ तिन्ह कीन्हा * सकल सुरन्ह विधिवत भय दीन्हा

शिवजी ने जब यह समाचार पाया तो क्रोधित होकर वीर भद्र भेजा। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ-विध्वंस कर दिया और सब देवताओं को यथा योग्य दण्ड दिया।

भै जगद्विदित दच्छ गति सोई * जस कछु शम्भु विमुख कै होई
यह इतिहास सकल जग जानी * ताते मैं संक्षेप बखानी

दक्ष की वही जगत्प्रसिद्ध गति हुई जैसे शिवजी के निन्दकों की होती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसीलिए मैंने यह संक्षेप में कहा है।

सती मरत हरिसन वरु मांगा * जनम जनम सिव पद अनुरागा

तेहि कारन हिमिगिरि गृह जाई * जनमी पारवती तनु पाई

सती ने मरते समय श्रीहरि से यह वर मांगा था कि मेरा जन्म जन्मान्तर शिवजी के चरणों में स्नेह हो। इसी कारण हिमाचल के घर पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ।

जब तें उमा सैल गृह जाई * सकल सिद्धि सम्पति तहँ छाई

जहँ तहँ मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे * उचित बास हिम भूधर कीन्हे

जब पार्वती हिमाचल के घर जन्मी-तब से वहाँ सब सिद्धि और सम्पदा छा गई। जहाँ तहाँ मुनियों ने आश्रम बना लिये, हिमाचल ने भी उन मुनियों को उचित स्थान दिये।

दोहा—सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नद नाना जाति।

प्रगटी सुन्दर सैल पर, मनि आकर बहु भाँति ॥७५॥

उत्त सुन्दर पर्वत पर सदैव फल-फलों से युक्त अनेकों प्रकार के नवीन वृक्ष प्रगट होगये और बहुत प्रकार की मणियों की खानें प्रगट हो गई।

सरिता सब पुनीति जलु बहहीं * खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं

सहज बयरु सब जीवन्ह त्यागा * गिरि पर सकल करहि अनुरागा

सब नदियाँ पवित्र जल से बहने लगीं, पशु-पक्षी और भौरे आदि सब सुखी रहने लगे। सब जीवों ने स्वाभाविक वर छोड़ दिया और हिमवान पर स्नेह करने लगे।

सोह सैल गिरिजा गृह आएँ * जिमि जनु रामभगति के पाएँ

नित नूतन मङ्गल गृह तासू ✽ ब्रह्मादिक गावर्हि जसु जासू

पावंती के आने से हिमाचल की ऐसी शोभा हुई जैसे राम-भक्ति पाने पर भक्त की शोभा होती है। घर में नित्य-नये मंगल होने लगे, ब्रह्मादिक भी जिसका पता गाते हैं।

नारद समाचार सब पाए ✽ कौतुकही गिरि गेह सिधाए
सैलराज बड़ आदर कीन्हा ✽ पद पखारि बरु आसनु दीन्हा

नारदजी ने सब समाचार पाया, तब वे कौतुक से ही हिमाचल के घर आये। शंलराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर सुन्दर आसन पर बैठाया।

नारि सहित मुनि पद सिरु नावा ✽ चरन सलिलु सबु भवन सिंचावा
निज सौभाग्य बहुत गिरि वरना ✽ सुता बोल मेली मुनि चरना

स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाकर चरणोदक सब घरों में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने भाग्य को बहुत सराहा। फिर कन्या को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया।

दोहा—त्रिकालग्य सर्वग्य तुम्ह, गति सर्वत्र तुम्हारि।

कहहु सुता के दोष गुन, मुनिवर हृदय विचारि ॥७७॥

और कहा—आप त्रिकालज एवं सर्वज्ञ हैं तथा आपकी गति सर्वत्र है। अतः हे मुनिवर ! आप अपने हृदय में कन्या के दोष व गुण विचार कर कहिये।

कह मुनि विहँसि गूढ़ मृदु बानी ✽ सुता तुम्हारि सकल गुन खानी
सुन्दर सहज सुशील सयानी ✽ नाम उमा अम्बिका भवानी

नारद मुनि ने हँसकर गूढ़ और मीठी बानी से कहा—तुम्हारी कन्या सब गुणों की छान है। यह सुन्दर स्वभाव से सुशील और चतुर है, 'उमा अम्बिका तथा भवानी' इसके नाम हैं।

सब लच्छन सम्पन्न कुमारी ✽ होइहि सन्तत पियहि पियारी
सदा अचल एहि कर अहिवाता ✽ एहि तें जसु पैर्हाहि पितु माता

यह कन्या—समस्त सुलक्षणों से सम्पन्न और अपने स्वामी को सर्वत्र प्रिय होगी। इसका सोहण सर्वत्र अचल रहेगा और इससे माता पिता बराबरी पावेंगे।

होइहि पूज्य सकल जग माहीं ✽ एहि सेवत कछु दुर्लभ नाहीं
एहि कर नामु सुमिरि संसार ✽ त्रिय चढ़िर्हाहि पतिव्रत असि धारा

यह गारे संसार में पूज्य होगी, इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। उसका नाम स्मरण करके स्त्रियाँ संसार में पतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जायेंगी।

सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी ✽ सुनहु जे अब अवगुन दुई चारी
अगुन अमान मातु पितु हीना ✽ उदासीन सब संसय छीना

हे हिमवान ! तुम्हारी कन्या सुलक्षणों से है। अब इसके दो-चार अवगुण हैं, इन्हें भी मुनिये निर्गुण, मान रहित, माता-पिता से हीन, उदासीन, संतप-हीन तथा—

इसी कारण इस देह को चन्द्रमौलि वृषकेतु शिवजी को हृदय में धारण करके इसी समय त्याग दूँगी। ऐसा कहकर सतीजी ने योगाग्नि द्वारा शरीर भस्म कर दिया। तब सारे यज्ञ मण्डप में हा-हाकार मच गया।

दोहा—सती मरन सुनि शम्भुगन, लगे करन मख खीस।

जग्य विध्वंश विलोकि भृगु, रक्षा कीन्ह मुनीस ॥७५॥

सतीजी का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ-विध्वंस करने लगे। यज्ञ को विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगुजी ने यज्ञ की रक्षा की।

समाचार सब शङ्कर पाए * वीरभद्र करि कोपु पठाए

जग्य विध्वंश जाइ तिन्ह कीन्हा * सकल सुरन्ह विधिवत भय दीन्हा

शिवजी ने जब यह समाचार पाया तो क्रोधित होकर वीर भद्र भेजा। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ-विध्वंस कर दिया और सब देवताओं को यथा योग्य दण्ड दिया।

भै जगविदित दच्छ गति सोई * जस कछु शम्भु विमुख कै होई

यह इतिहास सकल जग जानी * ताते मैं संक्षेप बखानी

दक्ष की वही जगत्प्रसिद्ध गति हुई जैसे शिवजी के निन्दकों की होती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसीलिए मैंने यह संक्षेप में कहा है।

सती मरत हरिसन वर माँगा * जनम जनम सिव पद अनुरागा

तेहि कारन हिमिगिरि गृह जाई * जनमी पारवती तनु पाई

सती ने मरते समय श्रीहरि से यह वर माँगा था कि मेरा जन्म जन्मान्तर शिवजी के घरणों में स्नेह हो। इसी कारण हिमाचल के घर पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ।

जब तें उमा सैल गृह जाई * सकल सिद्धि सम्पति तहँ छाई

जहँ तहँ मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे * उचित बास हिम भूधर कीन्हे

जब पार्वती हिमाचल के घर जन्मी-तब से वहाँ सब सिद्धि और सम्पदा छा गई। जहाँ तहाँ मुनियों ने आश्रम बना लिये, हिमाचल ने भी उन मुनियों को उचित स्थान दिये।

दोहा—सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति।

प्रगटी सुन्दर सैल पर, मनि आकर बहु भाँति ॥७५॥

उत्त सुन्दर पर्वत पर सदैव फल-फूलों से युक्त अनेकों प्रकार के नवीन वृक्ष प्रगट होगये और बहुत प्रकार की मणियों की खानें प्रगट हो गईं।

सरिता सब पुनीति जलु बहहीं * खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं

सहज बयरु सब जीवन्ह त्यागा * गिरि पर सकल करहि अनुरागा

सब नदियाँ पवित्र जल से बहने लगीं, पशु-पक्षी और भौरे आदि सब सुखी रहने लगे। सब जीवों ने स्वाभाविक वंर छोड़ दिया और हिमवान पर स्नेह करने लगे।

सोह सैल गिरिजा गृह आएँ * जिमि जनु रामभगति के पाएँ

नित नूतन मङ्गल गृह तासू * ब्रह्मादिक गावाहि जसु जासू

पावंती के जाने में हिमाचल की ऐसी गोमा हुई जैसे राम-भक्ति पाने पर भक्त की गोमा होती है। घर में नित्य-नये मंगल होने लगे, ब्रह्मादिक भी जिसका यत्न करते हैं।

नारद समाचार सब पाए * कौतुकही गिरि गेह सिधाए
सैलराज बड़ आदर कीन्हा * पद पखारि बरु आसनु दीन्हा

नारदजी ने सब समाचार पाया, तब ये कौतुक से ही हिमाचल के घर आये। सैलराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर सुन्दर आसन पर बंठाया।

नारि सहित मुनि पद सिरु नावा * चरन सलिलु सबु भवन सिंचावा
निज सौभाग्य बहुत गिरि वरना * सुता बोल मेली मुनि चरना

स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाकर चरणोदक सब घरों में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने माग्य को बहुत सराहा। फिर कन्या को सुताकर मुनि के चरणों में, डाल दिया।

दोहा—त्रिकालग्य सर्वग्य तुम्ह, गति सर्वत्र तुम्हारि।

कहहु सुता के दोष गुन, मुनिवर हृदय विचारि ॥७७॥

और कहा—आप त्रिकालज्ञ एवं सर्वज्ञ हैं तथा आपको गति सर्वत्र है। अतः हे मुनिवर! आप अपने हृदय में कन्या के दोष व गुण विचार कर कहिये।

कह मुनि विहँसि गूढ़ मृदु वानी * सुता तुम्हारि सकल गुन खानी
सुन्दर सहज सुशील सयानी * नाम उमा अम्बिका भवानी

नारद मुनि ने हँसकर गूढ़ और मोठी वाणी से कहा—तुम्हारी कन्या सब गुणों की छान है। यह सुन्दर स्वभाव से सुशील और चतुर है, 'उमा अम्बिका तथा भवानी' इसके नाम हैं।

सब लच्छन सम्पन्न कुमारी * होइहि सन्तत पियहि पिआरी
सदा अचल एहि कर अहिवाता * एहि तें जसु पैहहि पितु माता

यह कन्या—समस्त सुलक्षणों से सम्पन्न और अपने स्वामी को सर्वत्र प्रिय होगी। इसका सोहाग मर्दब अचल रहेगा और इससे माता पिता यत्न पावेंगे।

होइहि पूज्य सकल जग माहीं * एहि सेवत कष्ट दुर्लभ नाहीं
एहि कर नामु सुमिरि संसारा * त्रिय चढ़िहहि पतिव्रत असि धारा

यह गारे संसार में पूज्य होगी, इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। उसका नाम स्मरण करके स्त्रियाँ संसार में पतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जायेंगी।

सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी * सुनहु जे अब अवगुन दुई चारी
अगुन अमान मातु पितु हीना * उदासीन सब संसय छीना

हे हिमवान! तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसके दो-चार अवगुण हैं, इन्हें भी मुनिये निर्गुण, मान रहित, माता-पिता से हीन, उदासीन, संशय-हीन तथा—

दोहा—जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमङ्गल वेष ।

असस्वामि एहि कहँ मिलहि, परी हस्त अस रेख ॥७८॥

योगी जटाधारी, निष्काम-हृदय, नंगा, अमंगल-वेषधारी ऐसा स्वामी इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पढ़ी है ।

सुनि मुनि गिरा सत्य जियँ जानी * दुख दम्पतिहि उमा हरषानी
नारदहँ यह भेद न जाना * दशा एक समुझव बिलगाना

मुनी की बाणी सुनकर और उसको सत्य जानकर दम्पति को दुःख हुआ, किन्तु पार्वती प्रसन्न हुई । नारदजी ने भी यह भेद नहीं जाना, क्योंकि दशा सन की एक-सी थी, परन्तु समझ में भेद था ।

सकल सखी गिरिजा गिरि मैना * पुलकि शरीर भरे जल नैना
होइ न मृषा देवऋषि भाषा * उमा सो वचनु हृदय धरि राखा

सब सखी, पार्वती, राजा, रानी सबका शरीर पुलकायमान हो, नेत्रों में जल भर आया । देवर्षि का वचन मिथ्या नहीं होता, यह समझकर पार्वती ने उनके वचनों को अपने हृदय में रक्खा ।

उपजेउ शिव पद कमल सनेह * मिलन कठिन मन भा सन्देह
जानि कुअवसर प्रीति दुराई * सखी उछड़ बैठि पुनि जाई

उन्हें शिवजी के चरण-कमलों पर स्नेह उत्पन्न हुआ, पर मिलना कठिन समझकर मन में संदेह हुआ । कुसमय जानकर यह प्रीति छिपाली और सखी को गोद में जा बैठीं ।

झूठ न होइ देवऋषि बानी * सोचहि दम्पति सखी सयानी
उर धरि धीर कहइ गिरिराऊ * कहहु नाथ का करिअ उपाऊ

देवर्षि नारदजी की बाणी झूठ नहीं होगी, यह राजा-रानी और चतुर सखियां सोचने लगीं । फिर मन में धीरज धरकर राजा हिमाचल ने कहा—हे नाथ ! कहिये, क्या उपाय किया जाय ?

दोहा—कह मुनीस हिमवन्त सुनु, जो विधि लिखा लिलार ।

देव दनुज नर नाग मुनि, कोउ न मेंटनहार ॥७९॥

मुनि ने कहा—हे हिमवन्त ! सुनो, जो ब्रह्मा ने माग्य में लिख दिया है, उसे—देव, दानव मनुष्य और मुनि कोई भी मेंटने वाला नहीं है ।

तदपि एक मैं कहउ उपाई * होइ करै जों देव सहाई
जस वरु मैं वरनेउ तुम्ह पाहीं * मिलहहि एहि कछु सँसय नाही

तो भी मैं एक उपाय कहता हूँ, जो देव सहायता करे तो हो जायगा । जैसा वर मैंने तुमसे कहा है, वैसा ही पार्वती को मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है ।

जे जे वर के दोष बखाने * ते सब शिव पहि मैं अनुमाने
जों विवाह शङ्कर सन होई * दोषउ गुन सम कहँ सब कोई

वर के जो-जो दोष मैंने फहे हैं, वे सब दोष मेरे अनुमान से शिवजी में हैं । जो शिवजी के साथ विवाह हो जाय, तो उनके दोषों को भी सब गुण ही कहेंगे ।

जो अहि सेज सयन हरि करहो * बुध कछु तिन्हकर दोष न धरहो
भानु कसानु सर्व रस खाहो * तिन्ह कहें मन्द कहत कोउ नाहो

जंगे श्रीहरि नाग-गंगा पर सोते हैं, परन्तु उनको विद्वान मोग कुछ दोष नहीं लगाने ।
सूर्य और अग्नि समस्त रसों का भक्षण करते हैं, परन्तु कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता ।

शुभ अरु अशुभ सलिल सब वहहो * सुरसरि कोउ अपुनोत न कहहो
समरथ कहुं नहिं दोषु गोसाईं * रवि पावक सुरसरि की नाईं

गंगाजी में पवित्र और अपवित्र सभी जल बहता है, परन्तु उन्हें कोई अपवित्र नहीं
कहता । सूर्य, अग्नि और गंगाजी के समान सामर्थ्य वाले को कुछ दोष नहीं हैं ।

दोहा—जो अस हिसिषा करहिं नर, जड़ विवेक अभिमान ।

परहिं कल्प भरि नरक भहुं, जीव कि ईस समान ॥८०॥

जो मूर्ख मनुष्य अज्ञान और अभिमान से ऐसी समता करते हैं, वे कल्प भर नरक में
पड़ते हैं । जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है ?

सुरसरि जल कृत वारुनि जाना * कबहुं न सन्त करहिं तेहि पाना
सुरसरि मिलें सो पावन जैसें * ईश अनीशाहिं अन्तर तैसें

गंगाजल से यनी हुई मदिरा जानकार भी सन्तजन कभी उसे पान नहीं करते, पर यही
मदिरा गंगाजी में गिरने से पवित्र हो जाती है, इसी प्रकार जीव और ईश्वर में भेद है ।

सम्भु सहज समरथ भगवाना * एहि विवाह सब विधि कल्याना
दुराराध्य पै अर्हाहि महेशू * आसुतोप पुनि किए कलेशू

भगवान शिवजी स्वभाव से ही समर्थ हैं, इस विवाह के करने से सब प्रकारके भला होगा ।
परन्तु महेश्वर की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी तप करने से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं ।

जो तपु करै कुमारि तुम्हारी * भाविउ मेदि सकाहिं त्रिपुरारी
जद्यपि वरु अनेक जग माहो * एहि कहें शिव तजि दूसर नाहो

जो तुम्हारी पुत्री तप करे तो त्रिपुरारी शिवजी होनहार को भी मेंट सकते हैं । यद्यपि
गंगा में बहुत से वर हैं, परन्तु इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है ।

वरदायक प्रणतारित भञ्जन * कृपासिधु सेवक मन रञ्जन
इच्छित फलु विनु शिव अपराधे * लहिअ न कोटि जोग जप साधे

शिवजी वरदायक, वीनों का बल्ला हरने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को
आनन्द देने वाले हैं । शिवजी की आराधना किये बिना करोड़ों योग, जप करने पर भी
मनर्षाच्छित फल नहीं मिलता ।

दोहा—अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन्ह असीस ।

होइहिं सब कल्याण अब, संसय तजहु गिरीस ॥८१॥

ऐसे वह नारदजी ने श्रीहरि का स्मरण कर पावंती को आर्गावाँद दिया और कहा—हे
रिषयन्त ! तन्हेह छोड़ दो, अब सब कल्याण ही होगा ।

अस कहि ब्रह्म भवन मुनि गयऊ * आगलि चरित सुनहु जस भयऊ
पतिहि एकान्त पाइ कह मैना * नाथ न मैं समुझे मुनि बैना

ऐसा कहकर नारदजी ब्रह्मलोक को चले गये । आगे जैसा चरित्र हुआ, उसे सुनो-पति को एकान्त में पाकर रानी मैना ने कहा-नाथ मैंने मुनि को बातें नहीं समझीं ।

जौं घरु वरु कुल होइ अनूपा * करिअ विवाह सुता अनुरूपा
नत कन्या वरु रहउ कुआरी * कन्त उमा मम प्रान पिआरी

जो कन्या के योग्य घर-वर व कुल हो तो विवाह कीजिये, नहीं तो कन्या का क्वारोही रहना भला है । क्योंकि हे स्वामी ! उमा मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है ।

जौं न मिलहिं वरु गिरिजहु जोगू * गिरि जड़ सहज कहिहिसबलोगू
सोइ विचारु पति करेहु विवाहू * जेहिं न बहोरि होइ उर दाहू

जो पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख होता है । अतः हे स्वामी ! यही विचार कर विवाह करना, जिससे कि फिर हृदय में दुःख न हो ।

अस कहि परी चरन धरि सीसा * बोले सहित सनेह गिरीसा
वरु पावक प्रगटै ससि माहीं * नारद बचनु अन्यथा नाहीं

ऐसा कहकर चरणों में सिर रख दिया । तब हिमवान बड़े स्नेह से बोले-चाहे चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो जाय, परन्तु नारदजी के वचन मिथ्या नहीं हो सकते ।

दोहा-प्रिया सोचु परिहरहु सबु, सुमिरहु श्रीभगवान ।

पार्वती जेहीं निरभयउ, सोइ करिहैं कल्याण ॥८२॥

हे प्रिये ! सोच त्यागकर श्रीहरि भगवान का स्मरण करो । जिसने पार्वती को रचा है, वही इनका कल्याण करेंगे ।

अब जौं तुम्हहि सुता पर नेहू * तौ अस जाइ सिखावनु देहू
करै सो तपु जेहिं मिलहिं महेसू * आन उपायँ न मिटहि कलेसू

अब जो तुमको कन्या पर स्नेह है तो जाकर उसे ऐसा उपदेश दो कि वह तप करे । जिससे महादेवजी मिलें, अन्य दूसरे उपाय से क्लेश नहीं मिटेगा ।

नारद बचन सगर्भ सहेतू * सुन्दर सब गुननिधि वृषकेतू
अस विचारि तुम्ह तजहु असंका * सबहि भाँति शङ्करु अकलङ्का

नारदजी के वचन अभिप्राय वाले और कारण सहित हैं । शिवजी सब भाँति सुन्दर गुणों के भण्डार हैं, ऐसा विचारकर सब सन्देह त्याग दो-शिवजी सभी प्रकार से निष्कलंक हैं ।

सुनि पति वचन हरषि मन माहीं * गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं
उमहि विलोकि नयन भरे वारी * सहित सनेह गोद बैठारी

पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न हो, मैना वहाँ से तुरन्त उठकर पार्वती के पास गई ।

उमा की देह मेघों में अग्नू भरकर स्नेह से गोद में बंटाया ।

वारहि वार लेति उर लाई * गदगद कण्ठ न कष्ट कहि जाई
जगत मातु सर्वग्य भवानी * मातु सुखद बोली मृदु बानी

धारम्भार उन्हें हृदय से लगाने लगी, कण्ठ भर आने के कारण कुछ कहा नहीं जाता था । जगत की माता, सर्वज्ञ पार्वतीजी माता को मुग्ध देने वाली कोयल बानी बोली—

दोहा—सुनहु मातु मैं दीख अस, सपन सुनावउँ तोहि ।

सुन्दर गौर सुविप्रवर, अस उपदेसेउँ मोहि ॥ ८३ ॥

हे माता ! मैं ऐसा स्वप्न देगा है, जो मैं तुमको गुनाती हूँ—एक सुन्दर गौर-वर्ण ब्राह्मण ने मुझे इस प्रकार उपदेश दिया है कि—

करहि जाइ तपु सैलकुमारी * नारद कहा सत्य विचारी
मातु पितहि पुन यह मत भावा * तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा

पार्वती ! तुम जाकर तप करो, नारदजी ने जो कहा है, उसे सत्य समझो । फिर तुम्हारे माता-पिता को भी यह बात माली होगी, क्योंकि तप मुग्ध देने वाला और दुःख-दोषों का नाशक है ।

तपु बल रचइ प्रपंचु विधाता * तपु बल विष्णु सकल जग व्राता
तपु बल शम्भु करहि संहारा * तपु बल शेषु धरहि महि भारा

तप के बल से ही ब्रह्माजी जगत् को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सब जगत् को रक्षा करते हैं । तप के बल से ही शंकरजी संहार करते हैं और तप के बल से ही भोजजी पृथ्वी का भार धारण करते हैं ।

तप आधार सब सृष्टि भवानी * करहि जाइ तपु असजिये जानी
सुनत वचन विसमित महतारी * सपन सुनायउ गिरिहि हँकारी

हे पार्वती ! तपके ही सहारे सारी सृष्टि है, ऐसा मनमें जानकर जाकर तप करो । यह वचन सुनते ही माता को बड़ा अचरज हुआ, तो उसने हिमवन्त को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया ।

मातु पितहि वहुँ विधिसमुझाई * चलीं उमा तप हित हरपाई
प्रिय परिवार पिता अरु माता * भए विकल मुख आव नवाता

माता-पिता को बहुत प्रकार से समझाकर उमा प्रसन्न होकर तप करने के लिए चली । प्रिय कुटुम्बों, माता और पिता सब व्याकुल हुए, फिर किसी के मुग्ध से बात नहीं निकली ।

दोहा—वेदतिरा मुनि आइ तव, सबहि कहा समुझाइ ।

पारवती महिमा सुनत, रहे प्रबोधिहि पाइ ॥ ८४ ॥

तब वेदतिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर पार्वतीजी की महिमा सुनाई । पार्वतीजी की महिमा सुनकर सबको धीरज हुआ ।

उर धरि उमा प्राणपति चरना * जाइ विपिन लागी तपु करना
अति सुकमारि नतनु तपु जोगू * पति पद सुमिरि तजेउ सब भोग

वे प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण कर वन में जाकर तप करने लगे। पार्वती का अत्यन्त सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो श्री पति के चरणों का स्मरण कर भोग त्याग दिया।

नित नव चरन उपज अनुरागा * विसरी देह तपहि मन लागा
सम्बत सहस मूल फल खाये * सागु खाइ सत वरष गँवाये

शिवजी के चरणों में नित्य-नया अनुराग उत्पन्न होने लगा, देह की मुधि मूल गई, तप में मन लग गया। हजार वर्ष तक फल-फूल खाये और सौ वर्ष साग खाकर बिताये।

कछु दिन भोजनु वार बतासा * किए कठिन कछुदिन उपवासा
बेलपाँति महि परइ सुखाई * तीनि सहस सम्बत सोइ खाई

कुछ दिन जल के बबूले और वायु का ही सेवन किया, कुछ दिन कठिन उपवास किये, फिर जो बेल-पत्र पृथ्वी पर गिर कर सूख जाते थे, उनको खाकर तीन हजार वर्ष व्यतीत किये।

पुनि परिहरे सुखानेउ परना * उमहि नामु तव भयउ अपरना
देखि उमहि तप खीन शरीरा * ब्रह्मगिरा भइ गगन गँभोरा

फिर सूखे हुए बेल-पत्र भी छोड़ दिये, तब उमा का नाम-‘अपर्णा’ हुआ फिर उमा की देह क्षीण होने पर आकाश से गम्भीर ब्रह्मवाणी हुई—

दोहा—भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारि ।

परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिलिहहि त्रिपुरारि ॥८५॥

हे पार्वती ! सुनो, तुम्हारा मनोरथ सफल होगया, अब तुम इन समस्त कठिन तपों को छोड़ दो, अब तुमको शिवजी अवश्य मिलेंगे।

अस तप काहु न कीन्ह भवानी * भए अनेक धीर मुनि ग्यानी
अब उर धरहु ब्रह्म वर वानी * सत्य सदा सन्तत सुचि जानी

हे भवानी ! जगत् में अनेक पण्डित मुनि और जानी हुए परन्तु ऐसा तप किसी ने नहीं किया। अब तुम इस श्रेष्ठ ब्रह्म-वाणी को सत्य और सदा पवित्र जानकर हृदयमें धैर्य धारण करो।

आवै पिता बोलावन जबहीं * हठ परिहरि घर जाएहु तवहीं
मिलिहंतुम्हहि जब सप्त ऋषीसा * जानेहु तव प्रमान वागीसा

जब तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आवें, तब तुम हठ को त्याग उनके साथ घर चली जाना। और जब तुम्हें सप्त-ऋषि मिलें, तब इस ब्रह्म-वाणी को प्रमाणित जान लेना।

सुनत गिरा विधि गगनवखानी * पुलकि गात गिरिजा हरषानी
उमा चरित सुन्दर मैं गावा * सुनहुँ शम्भु करि चरित सोहावा

आकाश से ब्रह्म-वाणी को सुन पार्वती का शरीर पुलकायमान होगया और वे बहुत प्रसन्न हुईं। यह पार्वतीजी का सुन्दर चरित्र मैंने कह सुनाया, अब शिवजी का सुहावना चरित्र सुनो।

जब तें सती जाइ तनु त्यागा * तब तें शिव मन भय विरागा

जपहि सदा रघुनायक नामा * जहें तहें सुनहि राम गुण ग्रामा

जप मे सती ने जाकर शरीर त्याग दिया, तबगे शिवजी के मनमें धोराम्य उत्पन्न होगया ।
 यह सदा धोरघुनायकी का नाम जपने और जहाँ-तहाँ उनके गुणों की कथा सुनने लगे ।

दोहा—चिदानन्द सुखधाम शिव, विगत मोह मद काम ।

विचरहि महिधरि हृदयै हरि, सकल लोक अभिराम ॥८६॥

चंतन्य, आनन्दरूप, मुग्ध के धाम, मोह-मद और काम से रहित शिवजी सब लोकों को
 आनन्द देने वाले-धीहरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे ।

कतहुँ मुनिन्ह उपदेशहि ग्याना * कतहुँ राम गुन करहि बखाना

जदपि अकाम तदपि भगवाना * भगत विरह दुख दुखित सुजाना

ये कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते, तो कहीं धोरामजी के गुणों का वर्णन करते ।
 यद्यपि भगवान् शंकर निष्काम हैं, तो भी सती के दुःख से दुःखित हैं ।

एहि विधि गयउ काल बहु बीती * नित नइ होइ राम पद प्रीती

नेमु प्रेम शङ्कर करु देखा * अविचल हृदय भगति कै रेखा

इस प्रकार बहुत समय बीत गया और धोराम के चरणों में निरध-नयी प्रीति होने लगी ।
 जब धोरामजी ने शिवजी का नियम, प्रेम और हृदय में भवित की अविचल रेखा को देखा ।

प्रगटे रामु कृतग्य कृपाला * रूप शील निधि तेज विशाला

बहु प्रकार शङ्करहि सराहा * तुम्ह विनुअस व्रत को निरवाहा

सब श्रुत और कृपानु रूप व शील के निधि, महान् तेजस्वी रामजी प्रकट हुए और उनसे
 बहुत प्रकार से शिवजी को बड़ाई की तथा बोले-आपके बिना कौन इस व्रत को निषाहे ?

बहु विधि राम शिवाहि समुझावा * पारवती कर जन्मु सुनावा

अति पुनीत गिरिजा कै करनी * विस्तार सहित कृपानिधि वरनी

धोरामजी ने बहुत प्रकार से शिवजी को समझाया और पावतीजी का जन्म गुनाया ।
 फिर कृपानिधान धोरामजी ने पावतीजी की अति पवित्र करनी विस्तार सहित वर्णन की ।

दोहा—अव विनती मम सुनहु शिव, जोँ मोपर निज नेहु ।

जाइ विवाहु शैलजहि. यह मोहि मांगें देहु ॥८७॥

(और कहा—) हे शिवजी ! मुझ पर यदि आपका स्नेह है, तो मेरी विनती मुनिये-
 प्राप्त मुझे यह माँग दीजिये कि कब आप जाकर पावती के साथ विवाह करतें ।

कह शिव जदपि उचित अस नाहीं * नाय वचन पुनि मेटि न जाहीं

सिरधरि आयसु करिअ तुम्हारा * परम धरमु यह नाय हमारा

शिवजी ने कहा—यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, तो भी प्रभु के वचन मेटे नहीं जा सकते
 हे माय ! आपकी आज्ञा सिरपर रखकर उसका पालन करना मेरा परम धर्म है ।

मातु पिता गुरु प्रभु कै वानी * विनाहिं विचार करिअ शुभजानी
तुम्ह सब भाँति परम हितकारी * आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी

माता, पिता, गुरु और स्वामी के वचन शुभ जानकर बिना विचारे ही मानने चाहिए। आप सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं, हे नाथ ! आपको आज्ञा मेरे सिर पर है।

प्रभु तोषेउ सुनि शङ्कर वचना * भगति विवेक धर्म जुत रचना
कह प्रभु हर तुम्हार प्रण रहेऊ * अब उर रखहु जो हम कहेऊ

शिवजी के भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन सुनकर श्रीरामजी सन्तुष्ट होगये। प्रभु ने कहा-हे शंकरजी ! आपका प्रण रहा, अब जो हमने कहा है-उसे अपने हृदय में रखना।

अन्तरधान भए अस भाषी * शङ्कर सोइ मूर्ति उर राखी
तबहिं सप्तऋषि शिव पहिं आए * बोले प्रभु अति वचन सुहाए

इस प्रकार कह श्रीरामजी अन्तर्धान होगये और शिवजी ने वह मूर्ति हृदय में रखली। उसी समय सप्तऋषि शिवजी के पास आये, तब शिवजी उनसे बहुत सुहावने वचन बोले-

दोहा-पारवती पहिं जाइ तुम्ह, प्रेम परीच्छा लेहु।

गिरहि प्रेरि पठवहु भवन, दूरि करहु सन्देहु ॥८८॥

हे ऋषियो ! तुम पार्वतीजी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लो और हिमवान् को भेज पार्वती को घर भिजवाइये तथा उनके सन्देह को दूर कीजिये।

ऋषिन्ह गौरि देखि महँ कैसी * मूरतिमन्त तपस्या जैसी
बोले मुनि सुनु शैलकुमारी * करहु कवन कारन तपु भारी

ऋषियों ने वहाँ जाकर पार्वतीजी को कैसा देखा-मानो मूर्तिमान् तपस्या ही हो। मुनि बोले-हे पार्वती ! गुनो, तुम किस लिये भारी तप कर रही हो ?

केहि अवरार्थहु का तुम्ह चहू * हम सन सत्य मरमु कि कहू
कहत वचन मनु अति सकुचाई * हँसिहु सुनि हमारि जड़ताई

किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो ? हमसे सच्चा भेद कहो। पार्वती बोली-) बात कहते हुए बहुत संकोच होता है, मेरी मूर्खता पूर्ण बात सुनकर आप हँसेंगे।

मनु हठ परइ न सुनइ सिखावा * चहत वारि पर भोति उठावा
नारद कहा सत्य सोइ जाना * विनु पंखन्हु हर चर्हि उड़ाना

देखहु मुनि अविवेक हमारा * चाहति सदा शिवहिं भरतारा

मन हठ में पड़ गया है, किसी का उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारदजी ने जो कहा है, उसे सत्य जानकर बिना पंखों के मैं उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियो ! मेरी मूर्खता तो देखो-मैं सदा शिवजी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ।

दोहा-सुनत वचन विहँसे ऋषय, गिरि सम्भव तब देह।

नारद कर उपदेश सुनि, कहहु वसेउ कित्तु गेह ॥८८॥

पार्यंती के वचन सुनकर श्रद्धिमान होने और बोलने-पढ़ने में उत्पन्न हो तो तुम्हारा बेह
है । नारद का उपदेश सुनकर कहो-कौन-कौन सा घर बना है ?

दच्छसुतन्ह उपदेशेन्हि जाई * तिन्ह फिरि भवनु न देखा आई
चित्रकेतु कर घर उन्ह घाला * कनक कसिपु कर पुनिअस हाला

नारदजी ने बक्ष-मुषों को जाकर उपदेश दिया, तो उन्होंने तोड़ कर घर हो न देखा ।
चित्रकेतु का घर भी उन्होंने ही बिगाड़ा और हिरण्यकश्यपु का भी ऐसा ही हाल किया ।

नारद सिख जे सुनाहि नर नारी * अवसि होहिं तजि भवनु भिखारी
मन कपटी तन सज्जन चीन्हा * आपु सरिस सबही चह कीन्हा

नारद की सोल जो नर-नारी सुनते हैं, वे घर छोड़ अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं । उनका मन
कपटी है, शरीर सज्जनों का-भा दोष पड़ता है, वे अपने ही समान सबको करना चाहते हैं ।

तेहि के वचन मानि विस्वासा * तुम्ह चाहहु पति सहज उदासा
निर्गुन निलज कुवेष कपाली * अकुल अगेह दिगम्बर व्याली

उनके वचनों पर विश्वास कर तुम ऐसा पति चाहती हो-जो स्वभाव से ही उदासीन,
गुणहीन, निर्लज्ज, घुरे घेष वाला, मुष्ट-मालाधारी, कुलहीन, घरहीन, गङ्गा और साँपों को
धारण करने वाला है ।

कहहु कवन सुख अस वरु पाएँ * भल भूलिहु ठग के वौराएँ
पंच कहें सिव सती विवाही * पुनि अवडेरि मराएन्हि माही

कहो-ऐसा घर पाने में तुम्हें कौन-सा मुष्ट होगा ? ठग के बहकाने से भली-भाँति भ्रूती
हो । पञ्चों के कहने से सती से क्या किया, फिर उसे त्याग कर मरवा दिया ।

दोहा-अव सुख सोवत सोच नहिं, भीख माँगि भव खाहिं ।

सहज एकाकिन्ह के भवन, कवहुँ कि नारि खटाहिं ॥८९॥

अप गियजी मुष्ट से सोते हैं, कुछ सोच नहीं है और भीष माँग कर पाते हैं । ऐसे
ऐसाही स्वभाव वाले के घर में क्या कमी स्त्रियों रह सकती है ?

अजहुँ मानहुँ कहा हमारा * हम तुम्ह कहूँ वरु नोक विचारा
अति सुन्दर सुचि सुखद सुसीला * गावहिं वेद जासु जस लीला

आज भी तुम हमारा कहना मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा घर विचारा है, यह यदुत
हो सुन्दर, पवित्र, मुष्टदायक और सुगन्ध है, जिसकी तोला और मग घेद भी माते हैं ।

दूपन रहित सकल गुन रासी * श्रीपति पुर वैकुण्ठ निवासी
असवरु तुम्हहिंमिलाउव आनी * सुनत विहेसि कह वचन भवानी

ये सब दोषों से रहित, सब गुणों के समूह, श्रीपति नगवान् वैकुण्ठ के वासी हैं । ऐसी
घर जाकर हम तुम्हें मिना देंगे । यह सुनकर पार्यंती हँसकर यह वचन बोलीं ।

सत्य कहेहु गिरि भव तनु ऐहा * हठ न छूट छूटै वरु देहा
कनकउ पुनि पषान तें होई * जारेहुँ सहजु न परिहरु सोई

आपने सत्य कहा कि यह देह पर्वत से उत्पन्न है, इसका हठ नहीं छूटेगा, चाहे देह छूट जाय। सोना भी तो पत्थर से प्रगट होता है, वह तपाने से भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता।

नारद वचन न मैं परिहरऊँ * बसहु भवनु उजरहु नाहि डरऊँ
गुरु के वचन प्रतीत न जेही * सपनेहुँ सुगम न सुख निसि तेही

नारदजी के वचन मैं नहीं छोड़ूँगी, चाहे घर वसे अथवा उजड़े, मैं इसमें नहीं डरती। गुरु के वचनों पर जिसको विश्वास नहीं, उसको स्वप्नमें सुख की सिद्धि सुगम नहीं होती है।

दोहा—महादेव अवगुन भवन, विष्णु सकल गुन धाम।

जेहि कर मनु रम जाहिसन, तेहि तेही सन काम ॥६१॥

शिवजी अवगुणों के घर और विष्णु सब गुणों के धाम हैं, यही सही। परन्तु जिसका मन जिसमें रमे—उसको तो उसी से काम है।

जौं तुम्ह मिलतेहु प्रथम मुनीसा * सुनितउँसिख तुम्हारिधरि सीसा
अब मैं जन्मु शम्भु हित हारा * को गुन दूषन करै विचारा

हे मुनीश्वरो! जो तुम पहले मुझसे मिलते, तो मैं आपकी सीख शिरोधार्य कर सुनती। परन्तु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी हूँ, गुण और दोषोंका विचार कौन करे?

जौं तुम्हरे हठ हृदयँ विसेषी * रहि न जाइ बिनु किएँ वरेषी
तौ कौतुकिअन्ह आलसु नाही * वर कन्या अनेक जग माहीं

जो आपके मन में बहुत हठ है और बिना वर निश्चित किए नहीं रहा जाता है, तो जगत् में अनेकों वर कन्या हैं। इस प्रकारके कौतुकी मनुष्यों को आलस्यतो होता ही नहीं।

जन्म कोटि लगि रगर हमारी * वरउँ शम्भु न त रहउँ कुआरी
तजहुँ न नारद कर उपदेशू * आपु कहहि सत बार महेशू

करोड़ों जन्मों तक हमारी यह हठ है कि या तो शंकरजी को ही पति बनाऊँगी, नहीं तो क्वारी रहूँगी। परन्तु नारदजी के उपदेश को नहीं छोड़ूँगी, चाहे शिवजी स्वयं आकर सो वार भी क्यों न कहें।

मैं पाँ परउँ कहइ जगदम्बा * तुम्ह गृह गवनहु भयउ बिलम्बा
देखि प्रेसु बोले मुनि ग्यानी * जय जय जगदम्बिके भवानी

मैं आपके चरणों में पड़कर कहती हूँ—अब आप घर जाइये, यहाँ आये आपको बहुत देर होगई है। तब ज्ञानी मुनीऐसा अटूट प्रेम देख बोले—हे जगत् जननी भवानी! आपकी जय हो।

दोहा—तुम्ह माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु।

नाइ चरन सिर मुनि चले, पुनि पुनि हरषित गातु ॥६२

आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं, आप दोनों जगत के माता-पिता हैं—यह कहकर

मुनि घरकों में बारम्बार मस्तक नवाकर प्रसन्न होकर बने ।

जाइ मुनिन्ह हिमवन्तु पठाए * करि विनतीगिरिजाहि गृहल्याए
बहुरि सप्तऋषि शिव पहि जाई * कया उमा कै सकल सुनाई

जाकर मुनियों ने हिमाचल की पार्वती के पास भेजा, यह विनती कर पार्वती को घरले धाये । फिर सप्त-श्रयियों ने गियजी के पास जाकर पार्वतीजी की सब कथा सुनाई ।

भए मगनु शिव सुनत सनेहा * हरपि सप्तऋषि गवने गेहा
मनु यिरकरितव शम्भु सुजाना * लगे करन रघुनायक ध्याना

पार्वतीजी का प्रेम मुन शिवजी आनन्द में मग्न हुए और सप्त-श्रयि प्रसन्न हो अपने स्थान को घने गये । तब मुजान शिवजी अपने मन को स्थिर कर और रघुनायकी का ध्यान करने लगे ।

तारकु असुर भयउ तेहि काला * भुज प्रताप बल तेज विशाला
तेहि सब लोक लोकपति जीते * भए देव सुख सम्पति रीते

उसी समय तारक नामक दैत्य हुआ, उसकी मुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत था । उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया और सब देवता सम्पत्ति से होन होगये ।

अजर अमर सो जीति न जाई * हारे सुर करि विविध लराई
तव विरंचि सन जाइ पुकारे * देखे विधि सब देव दुखारे

यह अजर अमर था, अतः किसी से जीता नहीं जाता था । सब देवता लोग उससे अनेक प्रकार से युद्ध करके हार गये । तब ब्रह्माजी के पास जाकर प्रार्थना की, ब्रह्माजी ने सब देवताओं को दुःखी देखा तो—

दोहा—सब सन कहा बुझाइ विधि, दनुज विधन तब होइ ।

शम्भु सुक्र सम्भूत सुत, एहि जीतहि रन सोइ ॥८३॥

ब्रह्माजी ने सबको समझाकर कहा कि उस दैत्य का मरण तब होगा, जब कि गियजी के योग से पुत्र उत्पन्न हो-यही इसको रण में जीत सकेगा ।

भोर कहा सुनि करहु उपाई * होइहि ईश्वर करिहि सहाई
सती जो तजी दच्छ मख देहा * जनमी जाइ हिमाचल गेहा

मेरा कहना सुनकर उपाय करो, यदि ईश्वर सहायता करे, तो काम हो जायगा । गतीजी ने वस के वन में जो देह त्याग दिया था, यही जाकर हिमाचल के घर जन्मी है ।

तहि तपुकीन्ह शम्भुपति लागी * शिव समाधि बैठे सब त्यागी
जदपि अहइ असमंजस भारी * तदपि बात एक सुनहु हमारी

उन्होंने गियजी को अपना पति होने के निमित्त तप किया है और गियजी समाधि में बैठे हैं । यद्यपि इसमें बड़ी द्विविधा है, तो भी हमारी एक बात सुनो—

पठवहु काम जाइ शिव पाहीं * करै क्षोभु शङ्कर मन माहीं
तव हमजाइ शिवाहि शिर नाई * करवाउव विवाह वन्धिआई

जाकर शिवजी के पास कामदेव को भेजो, वह शिवजी के मन में मोक्ष उत्पन्न करे, तब हम जाकर शिवजी को समझा कर जवर्दस्ती विवाह करावेंगे।

एहिविधि भलेहि देव हित होई * मत अति नीकि कहइ सबु कोई
अस्तुतिसुरन्ह कीन्हि निज हेतू * प्रगटेउ विषमवान अषकेतू

इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो, यह सम्मति बहुत अच्छी है, ऐसा सब कहने लगे। फिर अति प्रेम से देवताओं ने कामदेव की स्तुति की, तब विषम, बाणधारी, मछली की ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ।

दोहा—सुरन्ह कही निज विपत्तिसब, सुनि मन कीन्ह विचार।

शम्भु विरोधन कुशलमोहि, बिहँसि कहेउ असमार ॥८४॥

देवताओं ने कामदेव से अपनी सब विपत्ति कही, जिसे सुन कामदेव मन में विचार कर हँसकर ऐसा कहने लगा—कि शिवजी से विरोध करने में मलाई नहीं है।

तदपि करब मैं काजु तुम्हारा * श्रुति कह परम धरम उपकारा
परहित लागि तजइ जो देही * सन्तत सन्त प्रशंसहिं तेही

तो भी मैं तुम्हारा काम करूँगा, वेदों में कहा है कि उपकार करना ही परमधर्म है। पराये उपकार के निमित्त जो अपना शरीर त्याग करते हैं, सन्तजन सदा उनकी प्रशंसा करते हैं।

अस कहि चलेउ सबहिं सिरुनाई * सुमन धनुष कर सहित सहाई
चलत मार अस हृदय विचारा * शिव विरोध ध्रुव मरन हमारा

ऐसे कह सबको सिर नवाकर, अपना फूलों का धनुष हाथ में ले, साथियों के सहित कामदेव शिवजी के पास चला। चलते समय कामदेवने अपने हृदय में विचार किया कि शिवजी से विरोध करने में मेरी मृत्यु निश्चय है।

तब आपन प्रभाउ विस्तारा * निज बस कीन्ह सकल संसारा
कोपेउ जबहिं चराचर केतू * छन महँ मिटे सकल श्रुति सेतू

तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और सब संसार को यश में कर लिया, फिर जब कामदेव ने कोप किया, तो क्षणभर में सारी वेद-मर्यादा नष्ट हो गई।

ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना * धीरज धरम ग्यान विभ्याना
सदाचार जप जोग बिरागा * सभय विवेकु कटकु सबु भागा

ब्रह्मचर्य, व्रत, अनेक संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, श्रेष्ठ आचार, अष्टाङ्ग-योग, वैराग्य आदि विवेक की सब सेना डरकर भाग गई।

छन्द—भागेउ बिबेकु सहाय सहित सो सुभग संजुग महि सुरे ।

सद्ग्रन्थ पर्वत कन्दरन्हि महँ जाइ तेहि अवसर डुरे ॥

होनहार का करतार को रखवार जग खरभरु परा ।

दुइ माथ केहि रतिनाथ जेहि कहँ कोपि कर धनु शरु धरा ॥

सो०-धरी न काहूँ धीर, सबके मन मनसिज हरे ।

जे राखे रघुवीर, ते उबरे तेहि काल महूँ ॥१४॥

किसी ने धीरज धारण नहीं किया, सबके मन कामदेव ने हर लिये । जिनकी श्रोत्रु-नाथजी ने रक्षा की, वे ही उस समय बच सके ।

उभय धरी अस कौतुक भवऊ * जौ लगि कामु शम्भु पहिं गयऊ
शिवाहिं विलोकि ससंकेऊ मारू * भयउ जथाथिन सब संसारू

दो घड़ी तक ऐसा ही खेल हुआ, जब तक कामदेव शिवजी के पास गया । शिवजी को देखकर कामदेव सकुचाया, तब सब संसार ज्यों का त्यों ठहर गया ।

भए तुरत सब जीव सुखारे * जिमि मद ऊतरि गएँ मतवारे
रुद्रहिं देखि भदन भय नाना * दुराधरष दुर्गम भगवाना

तब तुरन्त सब प्राणी ऐसे सुखी होगये, जैसे नशा उतर जाने से मतवाले लोग सुखी हो जाते हैं । कामदेव-बहुत ही निडर और अजेय रुद्र भगवान को देखकर डर गया ।

फिरत लाज कछु करि नहिं जाई * मरनु ठानि मन रचेसि उपाई
प्रगटेसि तुरत रुचिर ऋतुराजा * कुसुमित नव तरु ताजि विराजा

लौटने में लाज उत्पन्न हुई और कुछ करते नहीं बनता । तब अपना मरण मन में ठान कर यह उपाय रचा कि-तुरन्त ऋतुओं में राजा सुन्दर बसन्त-ऋतु को प्रकट कर दिया और फूलों सहित सुन्दर नये पत्तों के वृक्ष उत्पन्न हो गये ।

वन उपजा वाटिका तड़ागा * परम सुभग सब दिसा विभागा
जहँ तहँ जनु उमगत अनुरागा * देखि मुएहुँ मन मनसिज जागा

वन, उपवन, बावड़ी, सरोवर और सब विशायें बहुत सुन्दर हो गये । जहाँ-तहाँ मानो प्रेम उमड़ने लगा, जिसको देखकर वृद्धों के मन में भी कामदेव जाग उठा ।

छन्द-जागइ मनोभाव मुएहुँ मन बन सुगमता न परै कही ।
शीतल सुगन्ध सुमन्द मारुत मदन अनल सखा सही ॥

बिकसे सरन्हि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा ।

कल हंस पिक सुक सरस रव करि गान नाचहिं अपछरा ॥

वन को सुन्दरता कहते नहीं बनती, जिसे देखकर मरे हुएों के मन में भी कामदेव जाग उठा । कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र-शीतल, मन्द, सुगन्धित पवन चलने लगा । सरोवरमें अनेकों प्रकार के कमल खिल गये, जिन पर सुन्दर सौरों के गुण्ड गुझार करने लगे । सुन्दर हंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे, अप्सरायें गा-गाकर नाचने लगीं ।

बोहा-सकल कला करि कोटि विधि, हारेउ सेन समेत ।

कामदेव की सेना के घोड़ा रणभूमि की ओर द्युके, तब ज्ञान अपने साधियों के साथभाग जाता। ये उस समय धर्म-प्रणय-रूपी पर्यंत की कन्दराओं में जा छिपे। हे विधाता ! क्या होनहार है ? कौन रक्षा करेगा ? संसार में यह छलबत्ती मच गई। ऐगा दो तिर वाला कौन है, जिसके लिए कामदेव ने क्रोध करके धनुष-बाण उठाया है ?

दोहा—जे सजीव जग अचर चर, रानि पुरुष अस नाम ।

ते निज निज मरजाद तजि, भए सकल वस काम ॥८५॥

संसार में स्त्री, पुरुष नाम वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी मर्दा को छोड़कर कामदेव के वश में होगये।

सबके हृदयों मदन अभिलाषा * लता निहारि नर्वाहि तर साखा
नदी उमंगि अम्बुधि कहें धाई * सङ्गम करहि तलाव तलाई

सबके हृदय में काम की इच्छा हुई, लताओं को वेपकर वृक्षों की शाखायें मचने लगीं। नदियां उमड़कर समुद्र की ओर बड़ीं, ताल-तलैया भी आपस में मिलने लगे।

जहें असि दसा उड़न्ह कौ वरनी * को कह सकइ सचेतन करनी
पशु पच्छी नम थल जल चारी * भए कामवस समय विसारी

जब जड़-जन्तुओं की ऐसी दशा कहो गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है ? आकाश, जल और पृथ्वी पर रहने वाले पशु-पक्षी भी समय भूलकर काम के आर्षण हो गये।

मदन अन्ध व्याकुल सब लोका * निसिदिन नहि अवलोकिहि कोका
देव दनुज नर किन्नर व्याला * प्रेम पिशाच भूत वेताला

सब लोग कामान्ध होकर व्याकुल होगये। चकवा-चकवी भी रात-दिन नहीं देखते थे। देवता, दंत्य, मनुष्य, किन्नर, नाग, प्रेत, पिशाच, भूत, वेताल आदि—

इन्ह कौ दशा न कहेउं वखानी * सदा काम के चरे जानी
सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी * तेउ कामवश भए वियोगी

इनको सर्वय कामदेव के दास जानकर इनकी दशा मने कुछ कही है। सिद्धि, विरक्त महामुनि तथा योगी भी काम के वश होगये।

छन्द—भए कामवस जोगीस तापस पाँवरन्हि की को कहे ।

देखहि चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे ॥

अबला विलोकिहि पुरुषमय जगु पुरुष सब अबलामयं ।

दुइ दण्ड भरि ब्रह्माण्ड भीतर कामकृत कौतुक अयं ॥

जब योगी और तपस्वी ही काम के वश हो गये, तब दुराचारियों की दगा कौन कह सकता है ? जो सब चराचर को ब्रह्म मय देखते थे, वे भी सबकी स्त्री-भय देखने लगे। गियों सबकी पुरुषमय और पुरुष सबको स्त्री-भय देखने लगे। दो घड़ी तक सारे ब्रह्माण्ड के बीच कामदेव ने यह घिस किया।

सो०-धरी न काहूँ धीर, सबके मन मनसिज हरे ।
जे राखे रघुवीर, ते उबरे तेहि काल महूँ ॥१४॥

किसी ने धीरज धारण नहीं किया, सबके मन कामदेव ने हर लिये । जिनकी श्रीरघु-
नाथजी ने रक्षा की, वे ही उस समय बच सके ।

उभय धरी अस कौतुक भवऊ * जौ लगि कामु शम्भु पहिं गयऊ
शिवाहिं विलोकि ससंकेऊ मारू * भयउ जथाथिन सबु संसारू

दो घड़ी तक ऐसा ही खेल हुआ, जब तक कामदेव शिवजी के पास गया । शिवजी को
देखकर कामदेव सकुचाया, तब सब संसार ज्यों का त्यों ठहर गया ।

भए तुरत सब जीव सुखारे * जिमि मद ऊतरि गएँ मतवारे
रुद्रहिं देखि मदन भय नाना * दुराधरष दुर्गम भगवाना

तब तुरन्त सब प्राणी ऐसे सुखी होगये, जैसे नशा उतर जाने से मतवाले लोग सुखी हो
जाते हैं । कामदेव-बहुत ही निडर और अजेय रुद्र भगवान को देखकर डर गया ।

फिरत लाज कछु करि नहिं जाई * मरनु ठानि मन रचेसि उपाई
प्रगटेसि तुरत रुचिर ऋतुराजा * कुसुमित नव तरु ताजि विराजा

लौटने में लाज उत्पन्न हुई और कुछ करते नहीं बनता । तब अपना मरण मन में ठान
कर यह उपाय रचा कि-तुरन्त ऋतुओं में राजा सुन्दर बसन्त-ऋतु को प्रकट कर दिया
और फूलों सहित सुन्दर नये पत्तों के वृक्ष उत्पन्न हो गये ।

वन उपजा वाटिका तड़ागा * परम सुभग सब दिसा विभागा
जहँ तहँ जनु उमगत अनुरागा * देखि मुएहुँ मन मनसिज जागा

वन, उपवन, वावड़ी, सरोवर और सब दिशाये बहुत सुन्दर हो गये । जहाँ-तहाँ मानो
प्रेम उमड़ने लगा, जिसको देखकर बूढ़ों के मन में भी कामदेव जाग उठा ।

छन्द-जागइ मनोभाव मुएहुँ मन बन सुगमता न परै कही ।
शीतल सुगन्ध सुमन्द मारुत मदन अनल सखा सही ॥

विकसे सरन्हि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा ।

कल हंस पिक सुक सरस रव करि गान नार्चाहिं अपछरा ॥

वन की सुन्दरता कहते नहीं बनती, जिसे देखकर मरे हुआँ के मन में भी कामदेव जाग उठा ।
कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र-शीतल, मन्द, सुगन्धित पवन चलने लगा । सरोवरमें अनेकों
प्रकार के कमल खिल गये, जिन पर सुन्दर भौरों के झुण्ड गुझार करने लगे । सुन्दर हंस
कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे, अप्सरायें गा-गाकर नाचने लगीं ।

दोहा-सकल कला करि कोटि विधि, हारेउ सेन समेत ।

चली न अचल समाधि शिव, कोपेउ हृदय निकेत ॥६६॥

मानकर कहा—'ऐसा ही होगा' । तब देवताओं ने दुन्दुभी बजाई और वे पुष्प-वृष्टि करके बोले—हे देवताओं के स्वामी ! आपको जय हो ।

अवसर जानि सप्तऋषि आए * तुरतीहि विधि गिरिभवन पठाए
प्रथम गए जहँ रही भवानी * बोले मधुर वचन छल सानी

अवसर जानकर सप्तऋषि वहाँ आये, तब ब्रह्माजी ने उन्हें तुरन्त हिमवान के घर भेजा । वे पहले वहाँ गये—जहाँ पार्वती थीं, तब वे पार्वतीजी से छल भरे हुए मधुर वचन बोले—
दोहा—कहा हमार न सुनेहुँ तब, नारद कह उपदेश ।

अब भा झूठ तुम्हारा पन, जारेउ काम महेश ॥६६॥

तुमने नारदजी का उपदेश मानकर—हमारा कहा नहीं सुना, अब तुम्हारा प्रण झूठा होगया । क्योंकि महेश्वर ने कामदेव को भस्म कर दिया है ।

सुनि बोली मुसकाइ भवानी * उचित कहेउ मुनिवर विग्यानी
तुम्हें जान कामु अब जारा * अब लागि शम्भु रहे सविकारा

यह सुन पार्वती मुशकरा कर बोलीं—हे विज्ञानी मुनीश्वरो ! आपने ठीक कहा । आपकी समझमें शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है, क्या अबतक शिवजी विकारयुक्त ही रहे ? हमरें जान सदा शिव जोगी * अज अनवद्य अकाम अभोगी
जौं मैं शिव सेये अस जानी * प्रीति समेत कर्म मन बानी

मेरी समझ में तो शिवजी—सदा से योगी, अजन्मा, निर्दोष, निष्काम और भोगों से रहित हैं । जो मैंने ऐसा जानकर प्रीतिपूर्वक मन, वचन और कर्म से शिवजी की सेवा की है ।
तौ हमार प्रण सुनहु मुनीसा * करिहहि सत्य कृपानिधि ईसा
तुम्ह जो कहा हर जारेउ मारा * सोइ अति बड़ अबिवेक तुम्हारा

तो मुनीश्वरो ! सुनो, मेरे प्रण को कृपासिन्धु शिवजी सत्य करेंगे । आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बहुत बड़ा अबिवेक है ।
तात अनल कर सहज सुभाऊ * हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ
गए समीप सो अवसि नसाई * असि मन्मथ महेश की नाई

हे तात ! अग्नि का यह सहज स्वभाव है कि पीला उसके निकट नहीं जा सकता । क्योंकि समीप जाने से वह अवश्य ही नष्ट हो जाता है । इसी प्रकार कामदेव और शिवजी के लिए समझना चाहिए ।

दोहा—हियँ हरषे मुनि वचन सुनि, देखि प्रीति विश्वास ।

चले भवनीहि नाइ सिर, गए हिमाचल पास ॥१००॥

पार्वती के वचन सुन कर और उसका प्रेमभाव देखकर मुनीश्वर हृदय में अति प्रसन्न हुए, फिर वे पार्वतीजी को सिर नवाकर चले और हिमाचल के पास गये ।

जव जदुवंस कृष्ण अवतारा * होइहि हरन महा महि भारा
कृष्ण तनय होइहि पति तोरा * बचनु अन्यथा होइ न मोरा

जव यदुवंश में श्रीकृष्ण अवतार पृथ्वी के भारी भार को हरने के लिये होगा, तब तुम्हारा पति उनका पुत्र 'प्रद्युम्न' होगा। मेरा बचन झूठा नहीं होगा।

रति गवनी सुनि सङ्कर बानी * कथा अपर अब कहउँ बखानी
देवन्ह समाचार सब पाए * ब्रह्मादिक बैकुण्ठ सिधाए

शिवजी की बात सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा कहता हूँ ब्रह्मादिक देवगणों ने यह समाचार सुने तो वह बैकुण्ठ को चले।

सब सुर विष्णु बिरंचि समेता * गए जहाँ सिव कृपानिकेता
पृथक पृथक तिन्ह कीन्हि प्रसंसा * भए प्रसन्न चन्द्र अवतंसा

वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गये—जहाँ कृपानिधान शिवजी थे। सबने अलग-अलग स्तुति की, तब चन्द्र-माल शंकरजी प्रसन्न हुए।

बोले कृपासिंधु वृषकेतू * कहहु अमर आए केहि हेतू
कह विधि तुम्ह प्रभु अन्तरजामी * तदपि भगति बस विनबउँ स्वामी

कृपा के समुद्र शिवजी बोले—हे देवताओ! किस कार्य हेतु यहां आये हो? ब्रह्मा ने कहा—हे प्रभु! आप अन्तर्यामी हैं, तो भी—हे स्वामी! भक्ति वश आपसे विनती करता हूँ—

दोहा—सकल सुरन्ह के हृदय अस, संकर परम उछाहु।

निज नयनन्हि देखा चहहिं, नाथ तुम्हार बिबाहु ॥६८॥

हे शंकर! सब देवताओं के हृदय में ऐसा परम उत्साह है कि—हे नाथ! आपका विवाह अपने नेत्रों से देखना चाहते हैं।

यह उत्सव देखिअ भरि लोचन * सोइ कछु करहु मदन मद मोचन
कामु जारि रति कहुँ बरु दीन्हा * कृपासिंधु यह अति भल कीन्हा

हे कामदेव के मद को घूर करने वाले! हम लोग यह उत्सव अपने नेत्र भरकर देखें, ऐसा उपाय कीजिये। हे कृपासागर! आपने कामदेव को भस्म कर—रति को वरदान दिया, सो बहुत अच्छा किया।

सासति करि पुनि करहिं पसाऊ * नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ
पारवती तपु कीन्ह अपारा * करहु तास अब अङ्गीकारा

अपराध का दण्ड देकर कृपा करते हैं, हे नाथ! यह तो स्वामियों का सहज-स्वभाव होता है। पावती ने भारी तप किया है, अतः अब उन्हें अंगीकार करें

सुनिविधिविनयसमुझिप्रभुबानी * ऐसेइ होइ कहा सुख मानी
तव देवन्ह दुन्दुभी बजाई * वरषि सुमन जय जय सुर साई

ब्रह्माजी की प्रार्थना सुनकर और श्रीरामजी की बाणी का स्मरण कर शिवजी ने सुख

मानकर कहा—'ऐसा ही होगा' । तब देवताओं ने दुन्दुभी बजाई और वे पुष्प-वृष्टि करके बोले—हे देवताओं के स्वामी ! आपको जय हो ।

अवसर जानि सप्तऋषि आए * तुरतहिं विधि गिरिभवन पठाए
प्रथम गए जहँ रही भवानी * बोले मधुर वचन छल सानी

अवसर जानकर सप्तऋषि वहाँ आये, तब ब्रह्माजी ने उन्हें तुरन्त हिमवान के घर भेजा । वे पहले वहाँ गये—जहाँ पार्वती थीं, तब वे पार्वतीजी से छल मरे हुए मधुर वचन बोले—
दोहा—कहा हमार न सुनेहुँ तब, नारद कह उपदेश ।

अब भा झूठ तुम्हार पन, जारेउ काम महेश ॥६६॥

तुमने नारदजी का उपदेश मानकर—हमारा कहा नहीं सुना, अब तुम्हारा प्रण झूठ होगया । क्योंकि महेश्वर ने कामदेव को भस्म कर दिया है ।

सुनि बोली मुसकाइ भद्रानी * उचित फहेउ मुनिवर विग्यानी
तुम्हें जान कामु अब जारा * अब लगि शम्भु रहे सविकारा

यह सुन पार्वती मुश्करा कर बोलीं—हे विज्ञानी मुनीश्वरो ! आपने ठीक कहा । आपकी समझमें शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है, क्या अबतक शिवजी विकारयुक्त ही रहे ? हमरें जान सदा शिव जोगी * अज अनवद्य अकाम अभोगी
जौ मैं शिव सेये अस जानी * प्रीति समेत कर्म मन वानी

मेरी समझ में तो शिवजी—सदा से योगी, अजन्मा, निर्दोष, निष्काम और भोगों से रहित हैं । जो मैंने ऐसा जानकर प्रीतिपूर्वक मन, वचन और कर्म से शिवजी को सेवा की है ।

तौ हमार प्रण सुनहु मुनीसा * करिहहि सत्य कृपानिधि ईसा
तुम्ह जो कहा हर जारेउ मारा * सोइ अति बड़ अविवेक तुम्हारा

तो मुनीश्वरो ! सुनो, मेरे प्रण को कृपासिन्धु शिवजी सत्य करंगे । आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बहुत बड़ा अविवेक है ।

तात अनल कर सहज सुभाऊ * हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ
गए समीप सो अवसि नसाई * असि मन्मथ महेश की नाई

हे तात ! अग्नि का यह सहज स्वभाव है कि पीला उसके निकट नहीं जा सकता । क्योंकि समीप जाने से वह अवश्य ही नष्ट हो जाता है । इसी प्रकार कामदेव और शिवजी के लिए समझना चाहिए ।

दोहा—हियँ हरषे मुनि वचन सुनि, देखि प्रीति विश्वास ।

चले भवतहिं नाइ सिर, गए हिमाचल पास ॥१००॥

पार्वती के वचन सुन कर और उसका प्रेमभाव देखकर मुनीश्वर हृदय में अति प्रसन्न हुए, फिर वे पार्वतीजी को सिर नवाकर चले और हिमाचल के पास गये ।

सबु प्रसङ्ग गिरिपतिहि सुनावा * मदन दहन सुनि अति दुख पावा
बहुरि कहेउ रति कर वरदाना * सुनि हिमवन्त बहुरि सुख माना

उन्होंने हिमाचल को सब समाचार सुनाया । कामदेव का भस्म होना सुनकर वे बहुत दुःखी हुए फिर रति के वरदान की बात सुनकर हिमाचल ने बहुत सुख माना ।

हृदय विचारि शम्भु प्रभुताई * सादर मुनिवर लिए बोलाई
सुदिनु सुनखतु सुधरो सोचाई * बेगि वेद विधि लगन धराई

हृदय में शिवजी को प्रभुता विचारकर हिमाचल ने आदर सहित मुनीश्वरों को बुलाया। शुन-दिन, शुभ-नक्षत्र, सुन्दर शुभ-घड़ी में तुरन्त वेद की विधि से शीघ्र ही लगन धरवा दी ।

पत्री सप्त ऋषिन्ह सोइ दीन्ही * गहि पद विनय हिमाचल कीन्ही
जाइविधिहितिन्ह दीन्ह सोपाती * बाँचत प्रीति न हृदय समाती

फिर लगन-पत्रिका हिमाचल ने सप्तऋषियों को दे दी और उनके चरण पकड़कर विनती की । मुनियों ने वह पत्रिका जाकर ब्रह्माजी को दे दी, उसे पढ़ते ही वे मारे प्रेम के हृदयमें फूले नहीं समाये ।

लगन वाँचि अज सर्वाहि सुनाई * हरषे मुनि सब सुर समुदाई
सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे * मङ्गल कलष दसहुँ दिसि साजे

ब्रह्माजी ने लगन-पत्रिका पढ़कर सबको सुनाई, उसे सुन सब देवतागण प्रसन्न हुए । आकाश से फूलों की वर्षा हुई, बाजे बजने लगे और दशों दिशाओं में मंगलकलश सजा दिये ।

दोहा—लगे सँवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान ।

होहि सगुन मङ्गल सुभग, करहि अपछरा गान ॥१०१॥

सभी देवता नाना आकार के वाहन और विमान सजाने लगे । कल्याण-प्रद सुमंगल होने लगे, अप्सरायें गान करने लगीं ।

शिवहि शम्भुगन करहि सिंगारा * जटा मुकुट अहि मौर सँवारा
कुण्डल कङ्कन पहिरे व्याला * तन बिभूति पट केहरि छाला

शिव-गण शिवजी का शृंगार करने लगे । जटाओं का मुकुट व सर्पों का मौर बनाया सर्पों के ही कुण्डल और कंगन पहिने, देह में विभूति रमाई, वस्त्र के स्थान पर बाघम्बर पहिनाया ।

शशि ललाट सुन्दर सिर गङ्गा * नयन तीति उपवीनि भुजङ्गा
गरल कण्ठ उर नर सिर माला * असिव भेद सिवधाम कृपाला

शिवजी के मस्तक पर चन्द्रमा, सिर पर सुन्दर गंगाजी, तीन नेत्र, सर्पों का यज्ञोपवीत, कण्ठ में विष और हृदय पर मुण्डों की माला थी । ऐसा अमंगल वेध होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं ।

कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा * चले वृषभ चड़ि वाजहि बाजा
देखि शिवाहि सुरत्रिय मुसुकाहीं * वर लायक दुलहिन जग नाही

हाथों में त्रिशूल व डमरू लिये, बेल पर चढ़कर शिवजी चले, बाजे बजने लगे । शिवजी को देखकर देवांगनायें मुस्कराने लगीं और बोलीं—वर के योग्य बुलहिन संसार में नहीं है ।

**विष्णु विरंचि आदि सुर ब्राता * चढ़ि चढ़ि वाहन चले बाराता
सुर समाज सब भाँति अनूपा * नहिं बरात दूल्हा अनुरूपा**

विष्णु ओर ब्रह्मादि देवतागण अपने-अपने वाहनों पर चढ़कर बरात को चले । देवताओं की मण्डली सब प्रकार से अनुपम थी, परन्तु दूल्हे के समान बरात नहीं थी ।

दोहा—विष्णुकहा तबविहँसि अस, बोलि सकल दिसिराज ।

बिलगुर होइ चलहु सब, निजनिज सहित समाज ॥१०२॥

तब विष्णु भगवान ने सब विग्गालों को बुलाया और हँस कर कहा—सब लोग अलग-अलग अपने दल के साथ चलो ।

**वर अनुहार बरात न भाई * हँसी करैहु पर पुर जाई
विष्णु वचन सुनि सुर मुसुकाने * निज निज सेन सहित बिलगाने**

हे भाइयो ! वर के अनुरूप बरात नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हँसी कराओगे ? विष्णु भगवान के वचन सुनकर सब देवता मुस्कराये और अपनी-अपनी सेना के साथ अलग-अलग हो गये ।

**मन ही मन महेसु मुसुकाहीं * हरि के व्यङ्ग वचन नहिं जाहीं
अति प्रिय वचन सुनत हरि केरे * भृङ्गहि प्रेरि सकल गन टेरे**

शिवजी मन ही मन मुस्कराने लगे कि हरि के व्यंग-वचन नहीं जायेंगे । हरि के अत्यन्त प्रिय वचन सुनते ही शिवजी ने भृंगों को भेजकर अपने सब गणों को बुला भेजा ।

**शिव अनुसासन सुनि सब आए * प्रभुपद जलज सीस तिन्ह नाए
नाना वाहन नाना वेषा * बिहँसे शिव समाज निज देखा**

शिवजी की आज्ञा सुन सब चले आये और प्रभु के चरण-कमलों में सिर नवाया अनेक प्रकार के वाहन तथा अनेक प्रकार के वेष वाले अपने दल को देखकर शिवजी हँसने लगे ।

**कोउ मुखहीन विपुल मुख काहू * विनु पद कर कोउ बहु पद बाहू
विपुल नयन कोउ नयन विहीना * हृष्टरुष्ट कोउ अति तनु खीना**

कोई बिना मुख का था, किसी के बहुत से मुख थे, कोई बिना हाथ-पैर और कोई बहुत से हाथ-पाँव वाला था । कोई बहुत-सी आँखों वाला, कोई बिना आँखों वाला था । कोई हृष्ट-पुष्ट शरीर का था, तो कोई बहुत ही दुबला-पतला था ।

छन्द—तनु क्षीन अति पीन पावन कोउ अपावन गति धरें ।

भूषन अराल कपाल कर सद्य सोनित तनु भरें ॥

खर स्वान सुअर सृगाल मुख गन वेष अगनित को गनै ।

बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगि जमात वरनत नहिं वनै ॥

कोई दुबला, कोई मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेष धारण किये हुए था । वे नयानक भूषण

अनुज समर महँ तुम हियँ हारे * साजहु हय गज रथ मतवारे
रहुड जाय रिपु देखहुँ जाई * बालक, रावण सम दुखदाई
हे भाई! क्या तुम्हारा हृदय युद्ध से हार गया है? मस्तहाथी, घोड़े और रथ आदि सजाओ?
तुम यज्ञ के समीप रहो, मैं जाकर देखता हूँ ये बालक रावण के समान दुःखदाई हैं।

तीव्र वचन सुनि भरत लजाने * बहुत भाँति रघुपति सनमाने
प्रथम सखा सब लेहु बुलाई * हनुमदादि अंगद समुदाई
ऐसे तीव्र वचन सुनकर भरतजी लजित होगये। तब श्रीरघुनाथजी ने बहुत भाँति से
उनका सन्मान किया और कहा—पहले सब सखा—हनुमान, अङ्गद आदि को बुलाओ।

जामवन्त कपिराज विभीषण * द्विविद मयन्द नील कुलभूषण
रिपुहि मारि कै समर भगाई * तात अनुज दोउ आनहु भाई
जामवन्त सुग्रीव, विभीषण, द्विविद, मयन्द और नील जो कुल के भूषण हैं, उन्हें साथ लेकर
शत्रुओं को मारकर, अथवा रण से भगाकर हे तात! उन दोनों भाइयों को साथ ले आऊँगा।
दोहा—समर सीयसुत वीर दोउ, आइ गये बलवान।

देखि डरे सब भालु कपि, तव आयउ हनुमान ॥ ३८ ॥

उत्ती समय सीताजी के दोनों बलवान पुत्र आगये, जिन्हें देखकर सारे रीठ तथा वानर
उर गये। तब हनुमानजी वहाँ आये।

विषम युद्ध दोउ बन्धु करि, जीते कपि संग्राम।

आये पुनि तहँ नृप भरत, सुभिरि विधाता वाम ॥ ४० ॥

दोनों भाइयों ने कठिन युद्ध करके वानरों को युद्ध में जीत लिया, फिर भरतजी-ब्रह्मा
को विपरीत जानकर रण-भूमि में आये।

व्याकुल भालु कपी सब आवहि * वाण त्रास सब अति दुख पावहि
जामवन्त कपिराज बुलाई * अङ्गद हनुमानु सुखदाई
तब भालु बन्धु व्याकुल हैं, वाणों से दुःख पा रहे हैं। उन्होंने जामवन्त, सुग्रीव, अंगद,
हनुमान आदि सहायक वानरों को बुलाया।

सब मिलि सहित निसाचर राजा * धरि आनहु दोउ बाल समाजा
जाइ जुरे कपि भालु भवानी * तिन्ह कछु प्रभु महिमा नहिंजानी
और कहा—तुम सब मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन दोनों बालकों को
पकड़ लाओ। हे पार्षदी रीठ और वानर आकर एकत्रित होगये, उन्होंने प्रभु श्रीरामजी
की महिमा को कुछ नहीं जाना।

बोले कुश सुनु बालिकुमारा * तव बल विदित सकल संसारा
पितहि मराय मानु पर हेली * सकल लाज आए तुम पेली
तुम बोले—हे अंगद! तुम, तुम्हारा बल संसार को विदित है। पिता का वध कराकर,

श्रीरामजी परम तेजस्वी मुनि को आते देखकर उठे और उचित आसन दिया। जल लाकर आदरपूर्वक चरण धोये और चरणामृत लिया। प्रभु बोले—हे मुनिश्रेष्ठ! सेवक जान कर आज्ञा दीजिये, जिसे मैं आदर सहित कहूँ। तब मुनि से कहा—हे दयासागर! मैं बहुत समय से (व्रत के कारण) सूख से मर रहा हूँ।

मन भाव भोजन दीन्ह रघुपति बहुत विधि विनती करी ।
सन्तोष पाय मुनीश स्तुति विनय करि आशिष भरी ।
करि विदा मुनिवर देखि लछिमन हृदय दारुन दुख भए ।
भरतादि अनुज समेत पुरजन ताहि छिन देखन गए ॥

श्रीरघुनाथजी ने मुनि को मन-भावने भोजन कराकर बहुत भांति से विनती की, तब मुनि ने सन्तुष्ट हो, आशीर्वाद देकर स्तुति की। फिर मुनि को विदा कर, लक्ष्मणजी की ओर देखकर श्रीरामजी को भारी दुःख हुआ। उस समय भरत आदि भाई पुरवासियों केसहित उन्हें देखने गये।

पद बन्दि ठाढ़े जोरि कर दोउ वदन लखि अति काँपहीं ।
भरि नयन पङ्कज नीर आरत भरत सों प्रभु भाषहीं ॥
अब गुरुहि आनहु वेगि सादर दुखित अति आतुर चले ।
सब कथा गुरुहि सुनाय आरत यान चढ़ि आवत भले ॥

सब चरणों को बन्दना करके दोनों हाथ जोड़कर खड़े होगये और भगवान का मुख देखकर मन से काँपने लगे। प्रभु ने कमबलवी नेत्रों में जल भरकर दुःखी भरतजी से कहा—अब गुरुजी को शीघ्र ही आदर सहित पुजा लाओ। भरतजी दुःखी मन से शीघ्र चले और गुरुजी को सब समाचार सुनाया, जिसे सुनकर गुरुजी विमान पर चढ़कर चले।

आए वशिष्ठ विलोकि रघुपति सकल उठि चरन्निह परे ।
सम्वाद सुनि मुनि समय जान्यौ त्यागि हैं अब तनु हरे ॥
सुनि वचन सेष विचारि निज उर राम विनु धिक जीवनो ।
गहि चरन सरजू तीर आए देखि जल शुभ पावनो ॥

गुरु वशिष्ठजी को आपा देखकर श्रीरघुनाथजी तथा और सब उठकर गुरुजी के चरणों पर आ गिरे। सारी कथा सुनकर मुनि ने जान लिया कि अब श्रीहरि शरीर त्यागेंगे, लक्ष्मणजी ने ऐसा वचन सुन अपने हृदय में विचार किया कि श्रीरामचन्द्रजी के बिना जीवन क्या है वे चरण छूकर सरजू के किनारे आये और कल्याणकारी पवित्र जल को देखा।

दोहा—कटि पर्यन्त मध्य जल, कीन्हो ध्यान अखण्ड ।

योग यज्ञ करि राम जहँ, फोर्यौ निज ब्रह्मण्ड ॥५०॥

फिर कमर तक मंत्र में खड़े होकर अखण्ड ध्यान किया। योग क्रिया से श्रीरामजी का

माता को दूसरे के घर रखकर, लज्जा को दूर करके मुन आये हा ।

सो फल लेहु समर महें आजू * त्यागहु सकल कलंक समाजू
सुनत क्रोध अङ्गद उर छावा * गहि गिरि एक ताहि पर धावा
उसका फल आज युद्ध में तो और सारे कलंक को दूर करो । यह मुनकर अंगद के
हृदय में बड़ा क्रोध छा गया और वे एक पहाड़ लेकर शोड़े ।

दोहा—आवत सैल विसाल लखि, तिलसम सरहृतिकोन्ह ।

अङ्गद गर्व अपार अति, तसफलरघुपति दोन्ह ॥ ४१ ॥

विशाल पर्वत को आते देखकर कुश ने उसे बाण से काटकर तिल के समान कर दिया ।
जैसा अंगद को अपार अभिमान था, वैसा ही प्रभु ने कत दिया ।

तमकि ताहि कुश वाण चलावा * अङ्गद नील आकाश उड़ावा
आवत जानि पुहुमि अति भारी * मारा वाण प्रचारि प्रचारी
क्रोधित हो कुश ने तककर वाण मारा और अंगद व नील को आकाश में उड़ा दिया
जब उन्हें फिर पृथ्वी पर गिरते देखा तो बार-बार तलहार कर बाण मारे ।

छिन आकाश छिन भूतल माहीं * बोले शरण शरण प्रभु पाहीं
रहेउ गर्व हम कहें भगवाना * अग जग नाथ न हम पहिचाना

वे कभी आकाश में और कभी धरती पर गिरते हैं । वे बोले-हे प्रभु ! हम आपको शरण हैं ।
हमें अपने बल का बड़ा अभिमान था हे संसार के स्वामी ! हमने आपकी नहीं पहिचाना ।

पाँच वाँण वेधे कपि दोऊ * दीन जानि त्यागेउ हँसि सोऊ
जामवन्त हनुमान कपीसा * धावत गिरि तरु लै बहु कीसा

तब कुश ने पाँच बाणों से दोनों गन्वरों को वेध, दोनों समस्त कर हँसकर छाड़ दिया ।
जामवन्त, हनुमान आदि वानर गण वृक्ष व पर्वत लेकर बोड़े ।

छौँचि धनुष गुण छाँड़ेउ सायक * कपिपति आदि हने कपिनायक
देखि भरत सब सेन निपाती * कोपि वाण मारेउ लय छाती

धनुष छौँचकर वाण छोड़े, उनसे मुषोष आदि सेना पति मार गिराये । भरतजी ने मारते
सेना का नाश देख क्रोधित हो तब को छाती में बाण मारा ।

परचौ मूछित कुश देखि रिसाना * चाप चड़ाय वाण सन्धाना
श्रवण प्रयन्त छौँचि धनु वीरा * भरत हृदय नारेउ तत तीरा

तब मूछित होकर गिर पड़े । यह देख कुश बहुत क्रोधित हुए और धनुष अलग पड़ा
लिया । कान तक धनुष छौँचकर उस वीर ने भरतजी के हृदय में गो ली और मारे ।

दोहा—समर भूमि सोये भरत, लवहिं लोन्ह उर लाइ ।
सुमिरि मातु चरण युग, रहे समर जय पाइ ॥ ४२ ॥

ध्यान करके अपना ब्रह्माण्ड कोड़ लिया ।

राम धाम पहुँचे लपण, तुरत चतुर्थम भाग ।
सुनिव्याकुल रघुपति भरत, मिटे सकल अनुराग ॥५१॥

श्रीरामजी के चतुर्थम लक्ष्मणजी की ओर ही श्रीरामजी के धाम को प्यारे । यह सुनकर रघुनाथजी और भरतजी बहुत व्याकुल हुए और उनको सारे प्रसन्नता मिट गई ।

मैं नहिं तजा तजा मोहि ताता * कर सो यत्न जो देखो भ्राता
करहु भरत पुर राज्य सुखारी * सुनत गिरे महि व्याकुल भारी

(प्रभु दुःखी होकर बोले-) मैंने भाई को नहीं त्यागा पा, परन्तु भाई ने मुझे त्याग दिया । अब ऐसा प्रयत्न करो, जिससे मैं भाई को देखूँ । हे भरत ! तुम मुझे पूर्वक राग्य करो । यह सुनते ही भरत व्याकुल होकर गिर पड़े ।

चहत चलन अब प्राण गोसाईं * क्षण लक्ष्मण विनु रहि न सफाईं
तात चलहु कहि तनय बुलाए * कीन्ह तिलक बहु नीति सिघाए

(फिर बोले-) हे भाग ! अब प्राण निकलना चाहते हैं, क्योंकि वे बिना लक्ष्मण के धाम भर भी नहीं रह सकते । 'हे तात ! खो' ऐसा कहकर श्रीरामलक्ष्मणजी ने पुत्रों को बुलाकर राजतिलक करके उन्हें नीति सिघाई ।

सब कहें सब विधिधीरज दीन्हा * आपु गमन सरयू तट कीन्हा
दक्षिण भरत वाम रिपुदवनू * पुरवासी सब निज कुल गमनू

सबको इस प्रकार धर्म देपकर आप सरयू के तट पर चले । बाहिनी और परग और गाई और शत्रुघ्नजी थे । पीछे नगर-निवासी व कुटुम्बी चले ।

चढ़ि विमान निज धाम सिधाए * सकल अमरपति कहें सकुचाए
सुमन वृष्टि नभ होइ अपारा * होइ नाद विधि वेद उचारा

विमानों पर चढ़कर सब श्रीरामजी के धाम को जाने लगे तो सबने अपने देवदेव से १-४ को को वज्रितकर दिया । आकाशले अपार पुष्प-वृष्टि होने लगी और दक्षर शर से बेर-ध्वनि होने लगी ।

छन्द-उच्चारत वेद प्रसन्न भरत कृपालु हैंसि सादर लयो ।
जल परसि कर रिपुदवन सादर पदन बन राजत भयो ॥
कपि आदि यूथप सखा प्रभु के सकल निज लोकरन गये ।
सुग्रीव प्रभु पद बन्दि वारहि वार रवि मन्डल गये ॥

वेद का उच्चारण करते हुए आनन्दित हो भरतजीको श्रीरामजीने हुंकार करने पर सब में मिला लिया । शत्रुघ्नजी जब स्वर्ग करके परम-रूप में छोड़िये हुए । बाबर बाहिर प्रभु के सब सेनापति सखा भी अपने लोगों को गये । सुग्रीव बार-बार प्रभु के चरणों को चूमने करके सूर्य-लोक को गये ।

भरतजी मूछित होकर युद्ध में गिर पड़े, तब कुश ने लव को हृदय से लगा लिया ! गुरु व माता के चरणों का स्मरण करके दोनों युद्ध में जीत रहे हैं ।

आये खबर लेन चर चारी * भरत सैन तिन सकल निहारी
शोणित सरिता देखि डराने * हय गज बहे जात रथ जाने

चार दूत खबर लेने आये, उन्होंने भरतजी की सेना देखी । वे खून की नदी देखकर डरे, जिसमें हाथी और रथ बह रहे हैं ।

फिरे दूत कोसलपुर आये * समाचार सब बरनि सुनाये
चरवर वचन सुनत दुख पावा * त्यागेउ मख निज कटक बनावा

दूत लौटकर अयोध्या में आये और सब समाचार वर्णन किया । दूतों के वचन सुनकर श्रीरामजी ने दुःख पाया और यज्ञ छोड़कर सेना एकत्र की ।

चले सक्रोप कृपालु उदारा * आये जहाँ कटुक संहारा
मुनि बालक वर देखि सुहाये * सिर नवाय प्रभु निकट बुलाये

उदार श्रीरामजी क्रोध करके चले और जहाँ सेना मरी पड़ी थी-वहाँ आये । सुन्दर मुनि-बालकों को सिर नवाकर उन्हें पास बुलाया ।

दोहा-पूछेउ बाल बुलाय दोउ, कहहु भातु पितु नाम ।

देश ग्राम सब कहउ अब, बड़ जीते संग्राम ॥ ४३ ॥

और दोनों से पूछा-तुम अपने माता-पिता का नाम कहो अपने देश और ग्राम का नाम कहो, क्योंकि तुमने भारी संग्राम जीता है ।

गहहु अस्त्र जनि कहहु कहानी * पूछहु स्वर्ग लोक अस जानी
वंश नाम विनु पूछे ताता * हतौ न वाण मनोहर गाता

वे बोलें-शस्त्र पकड़ो, बहुत कहानी कहो-स्वर्ग में जाकर यह जान लेना । तब श्रीरामजी बोले-बिना नाम और वंश जाने मैं आपके मनोहर शरीर में वाण नहीं मारूँगा ।

माता सीय जनक की गाता * वाल्मीक मुनि पाल्यौ ताता
पिता वंश नहि जानहि आजू * लव कुश नाम सुनहु रघुराजू

तब कुमार कहने लगे हमारी माताका नाम सीता है और वे जनकजी की पुत्री हैं तथा-हे तात ! हमें वाल्मीकि ने पाला है । हम पिताका वंश नहीं जानते हे रामजी ! नाम लवकुश है ।

सुनि सब कथा राखि मन माहीं * बाल विलोक वधव भल नाहीं
आवत सुभट समूह हमारे * लरिहहिं तुम्ह सन समर सुखारे

अस कहि अंगद नील पठावा * जायवन्त कपि पतिहि बुलावा

यह सुन मन में विचार कर श्रीरामजी ने कहा-इन्हें मारना उचित नहीं है । वे बोले-हमारी सेना के घोड़ा जाते हैं, वे ही तुमसे सुघ्न पूर्वक युद्ध करेंगे । ऐसा कहकर श्रीराम-धर्मजी ने अंगद, नील, जायवन्त और सुग्रीव आदि सेनापतियों को बुलाकर भेजा ।

सुर सहित दिनकर वंश भूषण आनि जल आश्रित रहे ।
 तेहि समय बोलि अनादि प्रभु जो वचन पावनमय कहे ॥
 इक मास रहि सरि तीर तुम्ह पुरी जीव जे आवहीं ।
 तेहि सुभग देहु विमान पद निर्वाण सो सम पावहीं ॥

फिर देवताओं सहित सूर्यकुल-भूषण श्रीरामजी ने जल में खड़े होकर ब्रह्माजी को बुलाकर पवित्र वचन कहे-तुम एक महीने तक सरयू के किनारे वास करो और मेरी पुरी में जो जीव आयें उन्हें मुन्दर विमान देकर मेरे पास भेज दो, ताकि वे निर्वाण-पद पाकर मुझे प्राप्त करें ।

कह वचन अन्तर्धानि प्रभु ज्यों दामिनी घन सों लह्यो ।
 नभ जयति जय जयकार जय प्रभु जयति जय जय सुर कह्यो ॥
 एहि भाँति रघुपति जग चराचर सकल लै निज धाम को ।
 सो कह्यो उमहि कृपायतन उर राखि सादर राम को ॥

ऐसे वचन कहकर प्रभु इस भाँति अन्तर्धान होगये, जैसे बादलों में बिजली लय हो जाती है । आकाश में देवताओं ने जय-जयकार की ध्वनि की । इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी संग्राम के चराचर जीवों को ताय लेकर निज-धाम को पधारें । यह कथा कृपा के धाम महादेवजी ने आदर सहित श्री रघुनाथजी को हृदय में धारण करके पार्वतीजी से कही ।

दोहा—गिरिजा सन्त समागम, सम न लाभ कछु आन ।

विनु हरि कृपा न होइ सो, गावहिं वेद पुरान ॥५२॥

हे पार्वती ! सन्त-समागम के समान अन्य कुछ लाभ नहीं है और वह भी बिना भगवान् की कृपा के नहीं होता, ऐसा वेद कहते हैं ।

मुनि दुर्लभ हरि भक्तिवर, पावहिं विनहि प्रयास ।

जो यह कथा निरन्तर, सुनहिं आनि विश्वास ॥५३॥

यह श्रेष्ठ भगवद्भक्ति जो मुनियों को भी दुर्लभ है, मनुष्य बिना ही परिश्रम किये पा जाता है, जो इस कथा को प्रेम से विश्वास पूर्वक सुनता है ।

एहि विधि सकल कथा सुनि, हृदय राखि रघुवीर ।

तासु चरण सिर नाथ करि, गयउ गरुड़ मति धीर ॥५४॥

इस प्रकार सम्पूर्ण कथा सुनकर, श्रीरघुनाथजी को हृदय में धारण करके और मुमुग्धिजी के चरणों में सिर नवाकर गरुड़जी बंजुष्ट को चले गये ।

० इति श्रीरामचरितमानसं सकलकलिकमुप विध्यसे अष्टम सोपान समाप्तः *

कलियुग के सम्पूर्ण पापों को नष्ट करने वाले श्रीरामचरितमानस का

यह आठवाँ सोपान समाप्त हुआ ॥

दोहा—सावधान धनु वाण लै, धायउ लव बलवान ।

सनमुख आइ विभीषण, बोलेउ बहुरि रितान ॥ ४४ ॥

तब बलवान लव सावधान हो, धनुष वाण लेकर दौड़े और विभीषण के सामने आकर क्रोधित होकर बोले—

सुनु सठ बन्धुहि समर जुझाई * शत्रुहि मिल्यौ परम कइराई

पिता समान बन्धु बड़ तोरा * त्रिया तासु लै घर बरजोरा

रे मूर्ख सुन, तू भाई को रण में लड़ाकर अत्यन्त डरकर शत्रु से जा निता । तेरा बड़ा भाई पिता के समान पूज्य था, उसकी स्त्री को बरजोरी अपने घर में रख लिया ।

पापी मातु कही कै वारा * सो पत्नी तेइ धर्म तुम्हारा

बूढ़ि भरहु सागर महँ जाई * मरु गर काटि अधम अन्याई

रे पापी ! तूने उसे कितनी ही बार माता कहकर पुकारा होगा, उल्टी को तूने स्त्री बनाया क्या यही तेरा धर्म है ? अधम अन्यायी । समुद्र में जाकर डूब मर या गला काटकर मरया ।

समर भूमि मम सन्मुख आवा * लाज होत नहिं गाल बजावा

आँखिन आगे ते टरि जाई * नाहित मृत्यु निकट छल आई

रण-भूमि में मेरे सामने आकर गाल बनाते हुए तुझे सात्र नहीं आती ? मेरी आँखों के आगे से हट जा नहीं तो तेरी मृत्यु निकट का चुली है ।

सुनि खिसियान गदा कर लीन्ही * सर हति खण्ड-खण्ड लव कीन्ही

गिरत कोप करि सूल चलावा * लव तनु तड़ित समान समावा

यह सुनकर विभीषण ने जितिया कर हाथ में गदा ले ली, तब लव ने उसे जानी ले काटकर खण्ड खण्ड कर डाला । विभीषण ने गिरते समय क्रोध करके त्रिशूल चेंबा, जो लव के शरीर में धिजली के समान घुस गया ।

दोहा—दूर शूल करि बन्धु दोउ, सर मारेउ पुनि दाप ।

जामवन्त कपिराज नल, अंगद करहिं प्रलाप ॥ ४५ ॥

तब दोनों भाइयों ने त्रिशूल को निकाल कर फिर इमरु हर जान मारे, विभने जामवन्त, सुग्रीव, नल अंगद आदि विलाप करने लगे ।

जो गिरि तरु कपि डारहिं जाई * रज तम करि तेहि देहिं उड़ाई

निज वाणन्ह कपि धायल कीन्हे * जो जस उचित सोतसफल दोन्हे

जो वृक्ष पर्वत वानर लाकर डालते हैं, उन्हें वे वानरों ने शूल के समान उड़ा देते हैं । जहाँ-जहाँ अपने बाणों से वानरों को घायल कर दिया और वेता जिसको उचित था, पा, वेता हो कर रिक्त

हृदय तानि लव मारचौ सायक * योजन सात गयो कपिन

घाये भालु कपि कोप बढ़ाई * मल्लयुद्ध कुरा कीन्हे

निज बल भालुहि अवनि पछारा * दोउ कर चरण बांध रिफारा

प्रासंगिक-अन्तर्कथायें

महर्षि वाल्मीकिजी

श्रीमद् रामचरित-मानस के आदि रचयिता महर्षि वाल्मीकिजी अपने व्यास जी राम करते थे, वे जंगलमें बनेक जीवों को नारा करते थे और उनका धन हास कर लेते थे। एक दिन जंगलमें देवर्षि नारदजी से उनको मेटे हुईं तो वे उन्हें भी नारने की उपाय होगये। तब नारदजी ने उनसे पूछा कि 'तू यह पाप किसके लिए कर रहा है?' व्यास ने कहा- 'परशुराम के लिये।' तब नारदजी ने पूछा कि 'वे इस पाप में तैरे नामी हैं कि नहीं?'—'नहीं तो उनके पूछो।' जब व्यास पूछने लगा तो—'माता, पिता, माई, रत्नो सभी ने कहा कि तू नहीं बसाई के साक्षीदार हैं-पाप के नहीं।' तब व्यास की आंखें खुलीं और उनके नारदजी की छोड़ दिया तथा उनसे अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। नारदजी के बताने पर 'मर-मरा' इन्द्र 'राम-राम' अपने के कारण वे महर्षि वाल्मीकिजी होकर आदि-कवि हुए और रामायण की रचना की।

देवर्षि नारदजी

जब वेदव्यासजी पुराणों की लिए चुके तो भी उन्हें समाप्त न हुआ। तब उन्होंने यह पुराण नारदजी को सुनाये। नारदजी बोले कि मैं पहले बानी-पुत्र था, मेरी माता त्रिनके यहाँ काम करती थी, वह साधु-प्रेमी थे। उनके यहाँ जो निम्न साधु जाने थे, उनकी दृष्टि में खायी करता था। अन्त में शरीर त्याग कर मैं इस गति की पहुँचा कि ब्रह्मा का पद हुआ। यह सत्सङ्गति का प्रभाव है, इससे तुम श्रीमद्भागवत रहो तो मुझे समाप्त प्राप्त हो जायगा। तब वेदव्यासजी ने 'श्रीमद्भागवत' की रचना की।

अगस्त्यजी की कथा

अगस्त्यजी के पिता मित्रावरुण एक बार तप कर रहे थे, उस समय ब्राह्मण में उनको नामक अस्तरा शृङ्गार करके जा रही थीं। उस पर दृष्टि पड़ते ही जब काम उत्पन्न हुआ तो मित्रावरुण ने अपना योग्य एक घड़े में भरकर रख दिया। उसीसे 'कुम्भज' नामक बालक की उत्पत्ति हुई। ऐसी निवृष्ट बुद्धि और निवृष्ट ह्यात पर अन्त होने पर भी वे सागङ्गति के कारण परम ज्ञानो हुए और महादेवजी का समागम प्राप्त हुआ।

अजामिल की कथा

अजामिल अत्यन्त पापी था। एक दिन उसकी अनुवर्त्ति में उसके घर मायु आगये, उसकी स्त्री ने उनकी बड़ी सेवा की। पसते समय सायु ने स्त्री को गर्भजना देखाकर कहा कि पुत्र-जन्म होने पर तुम उसका नाम 'नारायण' रचना। उसने ऐसा ही किया।

अजामिल अपने पुत्र को बड़ा प्यार करता था। मरते समय उसने समझी में डरकर अपने पुत्र "नारायण" को पुकारा तो भगवान विष्णु ने उसे लेने को अपने दून भेज दिया। इस प्रकार केवल नाम लेने के कारण ही वह महापापी तर गया।

गणिका की कथा

पिपला यंत्रणा आधीरात तरु शृङ्गार दिव्ये बंटी रही, परन्तु कोई भी प्रत्य उनके पास न थाया। सोते समय उसने विचार कि पर-पूरवों के ह्यात में इनकी डेर बंटी रही। इतना समय

लव ने हृदय में फसकर बाण सारा तो सुग्रीव सात योजन पर जा गिरे । तब जामवन्त क्रोध बढ़ाकर दौड़े तो कुश ने मल्लयुद्ध किया । तब कुश ने अपने बल से जामवन्त को पछाड़ कर उसके दोनों हाथ पैर बांध दिये ।

हनुमन्तहिं बाँध्यों पुनि जाई * राख्यों निकट अश्व थल आई
रखवारी लव छाँड़्यौ वीरा * आपु चले रघुनायक तीरा

फिर जाकर हनुमान को बांध लिया और घोड़े के निकट आकर रक्खा तथा लव को रखवारी के लिये छोड़कर आपथोरघुनायजी के पास चले ।

देखे रथ पर श्रीपति सोये * फिरेउ वीर निज लाज विगोये
सुभट अस्त्र पट भूषण नाना * चले अश्व धरि लै हनुमाना

और देखा कि लक्ष्मीपति श्रीरामजी रथ पर सो रहे हैं, तो कुछ लज्जित होकर लौट आये । वे सुन्दर अस्त्र और वस्त्राभूषण घोड़े पर रखकर हनुमानजी को ले चले ।

छन्द-शुभ वस्त्र भूषण भालु कपि सँग अश्व लै सादर चले ।

सिय निकट नाथो साथ दोउ सुत भेंट भूषण जे भले ॥

पहिचानि कपि दोउ निरखि भूषण सहमि सुनिसिय अति डरी ।

एहि बोच मुनिवर सहमि आये सिया उठि विनती करी ॥

हनुमान और जामवन्त के साथ सुन्दर वस्त्राभूषण व घोड़े को लेकर चले और सीताजी के पास आकर मस्तक नवाया । दोनों पुत्रोंने भेट भली-भाँति आगे रक्खी तो दोनों वानरों को पहिचान कर व अभूषणों को देखकर सीताजी सहमकर बहुत डरीं । उसी समय मुनि वाल्मीकिजी भी घबड़ा कर वहाँ आ गये, तब सीताजीने उठकर उनकी विनती की ।

हनुमान भालुहि छोरि बन्धन त्यागि बहु समुझायउ ।

रिपुदवन लछिमन सहित भरतहिं राम रण पोढायउ ॥

सुत कीन्ह कर्म कलंक कुल महुँ सोहि विधि विधवा करी ।

तजि सोक चन्दन अगरु आनहुँ जाउँ पिय सँग अब जरी ॥

हनुमान और जामवन्त के बन्धन छोलकर उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा- धीरामजी, लक्ष्मणजी, भरत व सत्रुघ्न इन सबको रण में सुलादिया । हे पुत्र ! तुमने कुल में यह कलंक का काम किया है और हाय ! मुझे तो ब्रह्मा ने विधवा ही कर डाला । अब शोक त्यागकर चन्दन और अगरु लोओ, जिससे मैं अब अपने पति के साथ चल जाऊँ ।

मुनि धीर दीन्हौ तनय लीन्हौ सङ्ग लै सादर चले ।

रण देखि बालक चरित आनंद विहँसि मुनिवर अति भले ॥

रथ देखि यह पहिचान प्रभु के जाय मुनि चरनन परे ।

यदि भगवान् के स्मरण में विताती तो मेरा उद्धार हो जाता । इतना विचारते ही उसकी वृत्ति बदल गई । बाद में दत्तात्रेय के दर्शन से उसे ज्ञान प्राप्त हुआ ।

* रावण जन्म की कथा *

पुलस्त्यजी के पुत्र महाज्ञानी विश्रुवा हुए । भरद्वाजजी की कन्या से उनके पुत्र कुबेरजी हुए, जिनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्माजी ने उन्हें निधिपति बनाया और उन्हें रहने को सोने की लज्जा दी । एक समय सुमाली राक्षस ने अपनी कन्या कैकई से कहा कि तू विश्रुवा की वर से । के कन्या विश्रुवा के पास गई ऋषि ने उससे कहा-तु संख्या-समय पुत्र को इच्छा से आई है अतः तेरे राक्षस पुत्र होंगे । उसने कहा कि आपके वीर्य से ही होंगे । तब ऋषि बोले कि एक पुत्र महादमा होगा अतः उससे रावण, कुम्भकर्ण और सूर्पणखा तथा दूसरी स्त्री से विनीषण उत्पन्न हुए ।

एक समय विश्रुवा जप-तप करके अपनी पत्नी से कुछ बातें करने लगे तो उसने कहा-हे महाराज ! आपने तप किया, इतने में तो मेरे दस पुत्र हो जाते । तब ऋषि ने कहा कि मैं तुझे एक ऐसा पुत्र दूंगा जो दस पुत्रों के बराबर बलवान होगा । तब दस सिर और बीस भुजा वाला रावण उत्पन्न हुआ ।

* गणपतिजी की कथा *

देवताओं की सभा में वह प्रश्न उठा कि प्रथम पूज्य-पद के योग्य कौन है ? देवताओं में परस्पर विवाद होने लगा । ब्रह्माजी बोले कि तुम में से जो कोई पृथ्वी की परिक्रमा करके सर्व प्रथम आवेगा, उसे ही मैं प्रथम पूज्य-पद दूंगा । यह सुन सब देवता अपने २ वाहनों पर चढ़कर दौड़े । नृपक पाहन होने के कारण गणेशजी सबसे पीछे रह गये और व्याकुल होने लगे । तब नारदजी ने उससे कहा कि तुम पृथ्वी पर राम-राम लिखकर उसकी परिक्रमा करके बृहमाजी के पास चले जाओ, गणेशजी ने ऐसा किया । तब सबने श्रीराम-नाम की भवार महिमा की समझाकर उन्हें प्रथम पूज्य-पद दिया ।

* अहिल्या की कथा *

एक समय ब्रह्माजी ने एक परम सुन्दर 'अहिल्या' नामक कन्या उत्पन्न की और गौतम ऋषि के पास अरोहर में रख दी । इन्द्र आदि देवता इस प्रतीक्षा में थे कि वह कन्या उन्हें मिलेगी । थोड़े दिन बाद ब्रह्माजी अहिल्या को देखने गये तो उसे ज्यों का त्यों पाकर अत्यन्त प्रसन्न होकर उन्होंने वह कन्या गौतम ऋषि को व्याहृ दी । तब एक दिन इन्द्र ने गौतम-ऋषि का रूप रचकर ऋषि की अनुपस्थिति में उससे विहार किया । इतने में गौतम ऋषि धा गये और उन्होंने इन्द्र को यह घाप दिया कि तेरे समस्त शरीर में गुहाङ्ग के चिन्ह हो जायेंगे । फिर उन्होंने अहिल्या को साप देकर पत्थर की शिला कर दिया और कहा कि श्रीरामचन्द्रजी के अवतार लेने पर उनकी चरण-रत्न के स्पर्श से तेरा उद्धार होगा ।

* हनुमानजी के मिलन की कथा *

यह कथा श्रीरामचन्द्रजी के बाल्य-काल की है । एक दिन राजा दशरथजी के द्वारपर एक मन्त्री आया । उसके बन्दर बनाने पर श्रीरामजी बन्दर लेने के लिए नचल गये । राजा ने उन्हें नुप करने का प्रयत्न किया और कई बन्दर नौ दिये, लेकिन वे नुप न हुए । तब श्रीगुरुजी होकर बोले कि हे राजन ! शिकिकन्या में मानद-राज सुग्रीव के पास एक बन्दर

उठि वैठि कोसलनाथ आरत तनय तव आगे चरे ।

मुनि ने जानकीजी को धर्ये दिया और पुत्रों को साथ लेकर आबर के साथ पडे । कुछ-ब-बागवत के धरण देकर मुनि प्रसन्न हुए । श्रीरामजी का रूप देख, पोरों को परिधान कर प्रभु के चरणों पर गिरे और बोले—हे कोसलनाथ ! उठ बैठिये, जारके दुर्गो पूज आगे चडे हें ।

सो०—पुनि सुनि मुनिवर नैन, जागे रघुपति नय हरन ।

विहंसि उधारे नैन, लोन्हे हृदय लजाय मुनि ॥ ५ ॥

फिर मुनि की कोमल बाणी सुनकर भगवतारी श्रीरघुनाथजी बाले । अर्धने हँसकर देव बोले और मुनि को हृदय से लगा लिया ।

जेहि विधि शेष सीय वन आनी * मुनिवर तो सब कथा बचानी लवकुश कथा सकल मुनि भापी * शिव विरंचि सूरज करि साधो

जिस प्रकार लक्ष्मणजी-सीताजी को वन में लायेये, मुनि ने यह सब कथा कर्तन की, फिर वाल्मीकिजी ने शिवजी, ब्रह्माजी एवं सूर्यकी साधो करके सब-कुच की साधो कथा वर्तन की ।

मिले तनय हृदय लगाई * सुधा वरपि सुर सैन्य जिभाई भरत आदि जागे सब भ्राता * लछिमन चले जहाँ सिय माता

तब श्रीरामजी दोनों पुत्रों को हृदय से लगाकर मिले । देवताओं ने अमृत-वर्षा करके सब सेना जिला दी । भरत आदि सब भाई आगे और लक्ष्मणजी माता सीताजी के साथ पडे ।

बहुरि राम लछिमनहि बुलाई * सुनहु तात मम वचन सुहाई तात वचन मम सातहु भाई * सिय सन दिव्य लेहु तुम जाई

फिर श्रीरामजी ने लक्ष्मणजी को बुलाया और कहा—हे तात ! तुम मेरा पुत्र-व-पुत्र सुनो । हे भाई ! मेरे वचनों को मानकर तुम सीताजी से जाकर रह्यो नो ।

लछिमन जाइ सीस पद नाथा * कुशल कहो बहु रिधि समुसाधा हरि इच्छा सिय मन अस आवा * सेय सहस फनि आन देवावा

लक्ष्मणजी ने जाकर सीताजी के चरणों में शीघ्र नवाकर कुशल कहा और उन्हें बहुत मांति से समझाया । भगवान की प्रेरणा से सीताजी के मन में भी ऐसा ध्यान आगया, सब शेषजी ने आकर सहस फत दियाये ।

दोहा—जटित मणिन सिंहासन, सादर तोय चड़ाय । भयो अलोप पताल महँ, महिमा किमि कहि जाय ॥ ६ ॥

मणि-जटित सिंहासन पर बडे आबर ने सीताजी की बंगल-र-ये (सिय-सन) आगया ये पुष्ट होगये । यह महिमा कित प्रकार कहो जाय ।

लछिमन चरित दीख सब ठाड़े * नयन प्रवाह बलें अति गाड़े सरल चरित मुनि कृपानिधाना * चलन हमार तोय मन जाना

लछिमन चरित दीख सब ठाड़े * नयन प्रवाह बलें अति गाड़े सरल चरित मुनि कृपानिधाना * चलन हमार तोय मन जाना

'महावीर' नाम का है, आप उसे बुलाइये। तब राजा ने मुण्डोय के पान दूध भेजे, वे मुण्डोय के पास आये और सब समाचार कह सुनाया। तब मुण्डोय ने प्रणम हो धीरहराजो को अयोध्या भेज दिया। धीरामचन्द्रजो ने उन्हें देखकर प्रणम हो हरय में लगा लिया।

✽ गङ्गावतरण की कथा ✽

यह कथा मुनि विश्वामित्र ने धीराम-सङ्गमजो को अनन्दपुर जाने समय सुनाई थी। वे बोले-हे रामजी! सुनिये, आपके ही वंश में सगर नामक एक बड़े प्रजापति राजा हुए। मुण्डोय की कृपा से उनको दो स्त्रियाँ 'मुमति' और 'केतनी' गर्भवती हुईं। केतनी के प्रसवसमय नामक पुत्र हुआ, जो प्रजा को बड़ा दुःख देने वाला हुआ। मुमति के नाउ हजार पुत्र, जो बड़े प्रजापति और इन्द्र के समान बली थे। उनमें अंशुमान नाम के पुत्र को राजा सगर बड़ा प्यार करती थी। वृद्धावस्था में राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और एक अरन्ध्र धरम घोड़ा छोड़ा। इन्द्र ने उसे पकड़ लिया और भय खाकर वह उसे कनिष्ठ मुनि के आश्रम में बांध भागा। घोड़ा चोजने के लिए सगर के साठ हजार पुत्र चले, पाँचते २ उन्होंने सारी पृथ्वी घोंब डाली और चारों दिग्गजों को आकर प्रणाम किया। अन्त में कनिष्ठ मुनि के आश्रम में उन्हें अपना घोड़ा मिला, तब अनेक वदुयचन कहने पर कपिल मुनि ने उन्हें भस्म कर दिया। तब सगर ने अंशुमान को घोड़ा व भाइयों को चोजने भेजा, तब मांगे में गरुड़जो ने अंशुमान की सारी कथा कह सुनाई और कपिल मुनि ने अनेक विनय करने पर उन्हें छोड़ा दे दिया।

गरुड़जो ने अंशुमान से कहा कि हे पुत्र! तुम वही उपाय करो, त्रिगते गङ्गाजो पृथ्वी पर आ जायें और उनसे तुम्हारे भाइयों का उद्धार हो। अंशुमान के पर आने पर सगर वन भी चले गये। वृद्ध होने पर अंशुमान भी अपने पुत्र विलोप को राज्य देकर नग्य करने वन की चले गये। विलोप के पुत्र भागीरथ हुए, विलोप भी उन्हें राज्य देकर तप के हेतु वन का गये। पुनः भागीरथ भी अपने पुत्रको कुत्स्यका राज्य देकर तप करने को वन रिये। वे एक पाँच से दोनों भुजा उठाकर एक हजार वर्ष तक पड़े रहे। तब वृद्धाजो उन पर प्रणम हुए और वर मांगनेकी कहा। तब भागीरथजो ने उनसे गङ्गाजो को पृथ्वी पर लाने का वरदान मांगा। वृद्धाजो बोले हे पुत्र! गङ्गाजो पृथ्वी पर आते ही रसातल की पहाड़ी चारोंगी। शिवजी के शिष्या उनके वेग को रोकने वाला कोई नहीं है, अतः तुम शिवजी की प्रणम करो। तब भागीरथ ने वृद्धाजो के कहने पर एक वर्ष तक पंर के एक अंगूठे पर पड़े होकर तप किया और दयालु शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी बोले-मे गङ्गाजो को अवसर धारण कहेंगा। शिवजी ने अपने शिर पर अगम जटायें बनायीं और उन्होंने वृद्धाजो द्वारा छोड़ी हुई गङ्गाजो को अपने शिर पर जटायों में ही समा लिया। एक वर्ष तक गङ्गाजो जटायों में ही समाई रहें। यह कौतुक देखकर देवताओं ने पुण्य बरनाये। तदनन्तर भागीरथ के विनयों करने पर शिवजी ने जटायों में से गङ्गाजो को एक बूँद पृथ्वी पर छोड़ी तब उसके तीन भाग हुए। एक धारा आकाश में जाकर 'मन्दाकिनी' नाम से प्रसिद्ध हुई। दूसरी पानात में जाकर 'प्रभापती' नाम से जानी गई और तीसरी धारा 'गङ्गाजो' अथवा 'भागीरथी' नाम से पश्चिम तीर्थ 'हरिद्वार, प्रयाग और काशी' होती हुई समुद्र में जा मिली। तब पर उमने राजा सगर के पुत्रों को तार दिया। यह सङ्गम 'गङ्गासागर' के नाम से पवित्रता का मोक्ष देने वाला है। इतनी कथा विश्वामित्रजो से सुनकर धीरामजो ने मुनि के चरणों में गिर नवाया।

लव ने हृदय में कसकर बाण मारा तो सुग्रीव सात योजन पर जा गिरे । तब जामवन्त क्रोध बड़ाकर दौड़े तो कुश ने मल्लयुद्ध किया । तब कुश ने अपने बल से जामवन्त को पछाड़ कर उसके दोनों हाथ पर बांध दिये ।

हनुमन्तहिं बाँध्यों पुनि जाई * राख्यौ निकट अश्व थल आई
रखवारी लव छाँड़्यौ वीरा * आपु चले रघुनायक तीरा

फिर जाकर हनुमान को बांध लिया और घोड़े के निकट आकर रक्खा तथा लव को रखवारी के लिये छोड़कर आप श्रीरघुनायजी के पास चले ।

देखे रथ पर श्रीपति सोये * फिरेउ वीर निज लाज विगोये
सुभट अस्त्र पट भूषण नाना * चले अश्व धरि लै हनुमाना

और देखा कि लक्ष्मीपति श्रीरामजी रथ पर सो रहे हैं, तो कुछ लज्जित होकर लौट आये । वे सुन्दर अस्त्र और वस्त्राभूषण घोड़े पर रखकर हनुमानजी को ले चले ।

छन्द-शुभ वस्त्र भूषण भालु कपि सँग अश्व लै सादर चले ।

सिय निकट नायौ साथ दोउ सुत भेंट भूषण जे भले ॥

पहिचानि कपि दोउ निरखि भूषण सहसि सुनिसिय अति डरी ।

एहि वीच मुनिवर सहसि आये सिया उठि विनती करी ॥

हनुमान और जामवन्त के साथ सुन्दर वस्त्राभूषण व घोड़े को लेकर चले और सीताजी के पास आकर मस्तक नवाया । दोनों पुत्रोंने भेट भली-भांति आगे रक्खी तो दोनों वानरों को पहिचान कर व अभूषणों को देखकर सीताजी सहमकर बहुत डरीं । उसी समय मुनि बाल्मीकिजी भी घबड़ा कर वहाँ आ गये, तब सीताजीने उठकर उनकी विनती की ।

हनुमान भालुहि छोरि बन्धन त्यागि बहु समुझायउ ।

रिपुदवन लछिमन सहित भरतहिं राम रण पोढायउ ॥

सुत कोन्ह कर्म कलंक कुल महँ सोहि विधि विधवा करी ।

तजि सोक चन्दन अगरु आनहुँ जाउँ पिय सँग अब जरी ॥

हनुमान और जामवन्त के बन्धन छोलकर उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा- श्रीरामजी, लक्ष्मणजी, भरत व शत्रुघ्न इन सबको रण में सुलादिया । हे पुत्र ! तुमने कुल में यह कलंक का काम किया है और हाय ! मुझे तो ब्रह्मा ने विधवा ही कर डाला । अब शोक त्यागकर चन्दन और अगरु जाओ, जिससे मैं अब अपने पति के साथ जल जाऊँ ।

मुनि धीर दीन्हौ तनय लीन्हौ सङ्ग लै सादर चले ।

रण देखि बालक चरित आनंद विहँसि मुनिवर अति भले ॥

रथ देखि यह पहिचान प्रभु के जाय मुनि चरनन बरे ।

अथ हनुमान-चालीसा प्रारम्भ

दोहा—श्री गुरु चरन सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार ।

वरणों रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार ॥

बुद्धहीन तनु जानि कै, सुमिरौ पवनकुमार ।

बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार ॥

जय हनुमान ज्ञान गुण सागर * जय कपीस तिहुँलोक उजागर
रामदूत अतुलित बल धामा * अञ्जनी पुत्र पवनसुत नामा
महावीर विक्रम वजरङ्गी * कुमति निवार सुमति के सङ्गी
कञ्चन वरण विराज सुवेशा * कानन कुण्डल कुञ्चित केशा
हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजै * काँधे मूँज जनेऊ साजै
शङ्कर सुवन केशरी नन्दन * तेज प्रताप महा जग वन्दन
विद्यावान गुणी अति चातुर * रामकाज करिवे को आतुर
प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया * राम लखन सीता मन बसिया
सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा * विकट रूप धरि लङ्क जरावा
भौम रूप धरि असुर संहारे * रामचन्द्र के काज संवारे
लाय संजोवनि लषण जिवाये * श्रीरघुवीर हरषि उर लाये
रघुपति कीन्हों बहुत बढ़ाई * तुम मम प्रिय भरत सम भाई
सहस बदन तुम्हरो यश गावै * अस कहि श्रोपति कण्ठ लगावै
सनकादिक ब्रह्मादि सुनीसा * नारद सारद सहित अहीसा
यम कुवेर दिगपाल जहाँ ते * कवि कोविद कहि सकें कहाँ ते
तुम उपकार सुग्रीवहि कोन्हा * राम मिलाय राज पद दीन्हा
तुम्हरो मन्त्र विभीषण माना * लंकेश्वर भये सब जग जाना
युग सहस्र योजन पर भानू * लील्यो ताहि मधुर फल जानू
प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहीं * जलधि लाँघि गये अचरज नाहीं
दुर्गम काज जगत के जेते * सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते
राम दुलारे तुम रखवारे * होत न आज्ञा विनु पैसारे
सब सुख लहै तुम्हारी सरना * तुम रक्षक काहू को डरना

उठि वैठि कोसलनाथ आरत तनय तव आगे चरे ।

मुनि ने जानकीजी को धर्यं विधा और पुत्रों को साथ लेकर धाड़र के माघ पड़े । जुद्धर का नरकी के घरण देखकर मुनि प्रसन्न हुए । श्रीरामजी का रथ देख, घोड़ों को चहियान बट वन के घरणों पर गिरे और बोले-हे कोसलनाथ ! उठ बंठिये, धारण्डे पुत्रों पुत्र आगे चरे हूँ ।

सो०-पुनि सुनि मुनिवर वैन, जागे रघुपति मय हरत ।

विहंसि उधारे नैन, लोन्हे हृदय लजाय मुनि ॥ ५ ॥

फिर मुनि को कोमल वाणी सुनकर मयहारो और पुनायत्रों जागे । उन्होंने हृदय देख चोले और मुनि को हृदय से लगा लिया ।

जेहि विधि शेष सीय वन आनी * मुनिवर सो सब कवा यजाती
लवकुश कथा सकल मुनि भापी * शिव विरंचि सूरज करि साधो

जिस प्रकार लक्ष्मणजी-सीताजी को वन में साथेये, मुनि ने यह मंत्र कवा वनन रत, फिर वाल्मीकिजी ने शिवजी, ब्रह्माजी एवं सूर्यको साधो करके तय-कुच को मारो कवा वनन रत ।

मिले तनय हृदय लगाई * सुधा वरपि सुर सैन्य जिहाई
भरत आदि जागे सब भ्राता * लछिमन चले जहाँ सिय माता

तब श्रीरामजी दोनों पुत्रों को हृदय से लगाकर मिले । देवताओं ने अन्न वरणाकर सब सेना जिला दो । भरत आदि सब भाई जागे और लक्ष्मणजी माता सीताजी के पास पड़े ।

बहुरि राम लछिमनहि बुलाई * सुनहु तात मम वचन सुहाई
तात वचन मम मानहु भाई * सिय सन विव्य लेहु तुम जाई

फिर श्रीरामजी ने लक्ष्मणजी को बुलाया और कहा-हे तात ! तुम मेरा सुन्दर पथन सुनो । हे भाई ! मेरे वचनों को मानकर तुम सीताजी से जाकर वचन लो ।

लछिमन जाइ सोस पद नावा * कुशल कहौ बहु विधि समुझावा

हरि इच्छा सिय मन अस आवा * सेप सहस फनि आन देखावा

लक्ष्मणजी ने जाकर सीताजी के घरणों में सोच नवाकर बुझल रहो और उन्हें बहुत मांति से समझाया । बगवान की प्रेरणा से सीताजी के मन में भी ऐसा ध्यान नवाया, तब शेषजी ने आकर सहस फन दियाये ।

दोहा-जटित मणिन सिंहासन, सादर सोय चड़ाय ।

भयो अलोप पताल महँ, महिमा किमि रहि जाय ॥ ४६ ॥

मणि-जटित सिंहासन पर बड़े धाड़र ने सीताजी को बंठाकर वे (सियनाम) बगवान के पुत्र होगये । यह महिमा कित प्रकार रहो जाय ।

लछिमन चरित दीख सब ठाड़े * नयन प्रवाह चले अति गाड़े

सरल चरित सुनि कृपानिधाना * चलत हमार सोय नन जाना

आपन तेज संहारौ आपै * तीनहूँ लोक हांकते काँपै
 भूत पिशाच निकट नहि आवै * महावीर जब नाम मुनायै
 नाशै रोग हरै सब पीरा * जपत निरंतर हनुमत बीरा
 सङ्कट से हनुमान छुड़ावै * मन क्रम वचन ध्यान जो लावै
 सब पर राम तपस्वी राजा * तिनके काज सकल तुम साजा
 और मनोरथ जो कोई लावै * तासु अमित जीवन फल पावै
 चारों युग परताप तुम्हारा * है परसिद्ध जगत उजियारा
 साधु सन्त के तुम रखवारे * असुर निकन्दन राम दुलारे
 अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता * अस वर दीन्ह जानकी माता
 राम रसायन तुम्हरे पासा * सदा रहौ रघुपति के दासा
 तुम्हरे भजन राम को भावै * जन्म जन्म के दुख बिसरावै
 अन्तकाल रघुवर पुर जाई * जहाँ जन्म हरिममत कहाई
 और देवता चित्त न धरई * हनुमत सेय सब सुप करई
 जै जै जै हनुमान गोसाईं * कृपा करो गुरुदेव को नाई
 गह शत वार पाठ कर जोई * छूटहि बन्ध महासुख होई
 जो यह पढ़े हनुमान चालीसा * होय सिद्धि साखी गीरीसा
 तुलसीदास सदा हरि चैरा * कीजै नाथ हृदय महँ डेरा
 दोहा—पवन तनय सङ्कट हरण, मङ्गल मंजुल रूप ।

राम लषण सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप ॥

॥ इति हनुमान-वातोना समाप्तम् ॥

⊙ आरती हनुमानजी की ⊙

आरती कीजै हनुमान लला की * दुष्ट दलन रघुनाथ कला की
 जाके बल सों गिरिवर काँपै * रोग दोष जाके निकट न आँके
 अंजनि पुत्र महा बलदाई * सन्तन के प्रभु सदा महाई
 दे बीरा रघुनाथ पठाये * लंका जारि सिया मुधि लाये
 लङ्का सी कोटि समुद्रसी छायो * जात पवनसुत वार न लायो
 लङ्का जारि असुर सब भारे * सियागम के काज सँचारे

लक्ष्मणजी ने खड़े-खड़े सब चरित्र देवे, उनकी आँखों से आंसुओं की धारा वह चली । श्रीरामजी ने यह चरित्र सुनकर मन में विचार किया कि सीताजी ने हमारा चलना जान लिया तनय सहित प्रभु निज पुर आये * विदा किये मुनिबृन्द बुलाये जनकहि पूजि विदा प्रभु कीन्हा * दोउ गुरु पूजि पदोदक लीन्हा

पुत्रों सहित प्रभु अयोध्या में आये और बुलाये हुए मुनिबृन्दोंको विदा किया । जनकजी का पूजन करके उन्हें विदा किया और दोनों गुरुओं का पूजन करके चरणोदक लिया ।

एहिनिधि त्रिपुलकालचलि गयऊ * निजपुर गहन सुअवसर भयऊ वीली अवधि ब्रह्म जब जानी * नारद मुनि सन कहा बखानी

इस भाँति बहुत समय व्यतीत होगया और अपने धाम पधारने का सुन्दर अवसर आया । जब ब्रह्माजी ने जाना कि अब अवधि पूर्ण होगई है, तब नारद मुनि ने समझाकर कहा— निजपुर आवन चहत खरारी * धर्मराज कहँ कहहु हँकारी विनती बहु विरंचि तब भाखी * गयोउ धर्म रघुपति उर राखी

श्रीरघुनाथजी अपने धाम को जाना चाहते हैं, धर्मराज को बुलाकर कहो । धर्मराज के आने पर ब्रह्माजी ने बहुत विनती की । तब वे श्रीरघुनाथजी को हृदय में धारण करके चले । दोहा—आये यम रघुवीर पुर, मुनिवर वेष बनाय ।

तेज पुंज सुन्दर तरुण, कटि मृगचर्म सुहाय ॥४६॥

यमराज सुन्दर, तेजवान और तरुण मुनि का रूप धारण कर अयोध्यापुरी में आये । उनकी कमर में सुन्दर मृगछाला शोभायमान थी ।

तुरत शेष को खबर जनार्ई * सुनत वचन आये रघुराई मुनिहिनिरखिप्रभु कीन्हाप्रनाभा * सादर उचित कहेउ विश्रामा

लक्ष्मणजी ने शीघ्र ही उनके आने का समाचार प्रभु से कहा । सुनते ही श्रीरघुनाथजी द्वार पर आये । मुनि को देखकर श्रीरामजी ने प्रणाम किया और बड़े आदर से बैठने को उचित आसन दिया ।

अर्घ्य दीन्ह आसन वैठारी * मुनि सादर पुनि गिरा उचारी सुनु सर्वग्य कृपाल दिनेसा * आयउँ मैं मुनिवर के वेषा

फिर अर्घ्य देकर सुन्दर आसन पर बैठायो । तब मुनि ने आदर सहित कहा—हे सर्वज्ञ! हे कृपालु ! हे सूर्यकुल के स्वामी ! मुनिये, मैं यहाँ मुनि के वेष में आया हूँ ।

मैं तुम्ह रहउँ और नहि कोई * तिसरँ सुनत नाश तेहि होई मुनिहि वचन तेहि देहउँ शापू * शिवविधि हरि जो आवहि आपू

इन स्थान पर मैं और आप दोनों ही रह जायें, तीसरे के सुनते ही उसका नाश हो जायगा । यदि स्वयं महादेव, ब्रह्मा और हरि भी मेरी बात सुनेंगे तो मैं उन्हें भी शाप देदूँगा ।

सुनहु लपन वैठहु चल द्वारे * नहि कोउ आव न गिरा उचारे इतनेहु पर आवइ पुनि कोई * सरिहहि सत्य मूषा नहि होई

लक्ष्मण मूर्छित परे धरणी में * लाइ सँजीवनि प्राण उवारे
 पैठि पताल तोरि यम तारे * अहिरावण की भुजा उखारे
 वायीं भुजा सब असुर सँहारे * दाहिनी भुजा सब सन्त उवारे
 सुर नर मुनि आरती उतारें * जै जै जै हनुमानजी उचारें
 कञ्चन थार कपूर लौघाई * आरती करत अञ्जनी माई
 जो हनुमान जी की आरती गावै * वसि वैकुण्ठ अमरपद पावै
 लंक त्रिध्वंस कियो रघुराई * तुलसीदास स्वामी कीरतिगाई

* आरती श्री रामायणजी की *

आरती श्री रामायणजी की । कीरति कलित ललित सिध-पिय की ॥
 गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद । वाल्मीकि विज्ञान विशारद ॥
 युक्त सनकादि जेप अरु शारद । वरनि पवनसुत कीरति नोकी ।
 गावत वेद पुरान अष्ट दस । छहों शास्त्र सब ग्रन्थन की रस ॥
 मुनिजन धन सन्तन की सरवत । सार अज्ञ सम्भव सब ही की ॥
 गावत सन्तन शम्भु भवानो । अरु घट सम्भव मुनि विग्यानी ॥
 व्यास आदि कवि बजं ब्रह्मानी । कागभुगुण्डि गरुड़ के हिय की ॥
 कलिमल हरनी विषय-रस फीकी । सुमग सिंगार मुक्ति जुवती की ॥
 बलन रोग नय मूरि अमी की । तात मात सब विधि तुलती की ॥

* आरती श्रीशंकरजी की *

जयशिव ओंकारा, ओ३म् जय शिव ओंकारा । ब्रह्माविष्णु सदाशिव अर्धाङ्गो धारा ॥ ओ३म् ॥
 एकानन त्रनुरानन पंचानन राजें । हंसानन गहणासन वृषवाहन साजें ॥ ओ३म् ॥ दो भुज चार
 चतुर्भुज दत्त भुज ते मीहें । तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मीहें ॥ ओ३म् ॥ अक्षमाला वनमाला
 मुण्डमाला धारी । चन्दन मृग-मद लेपन भाले शशि धारी ॥ ओ३म् ॥ श्वेतान्धर पीताम्बर
 वाघम्बर अंगे । सनकादिक भूतादिक प्रेतादिक संगे ॥ ओ३म् ॥ कर में दण्ड कमण्डल चक्र त्रिशूल
 धरता । जग रचता दुष्ट हरता जग पालन करता ॥ ओ३म् ॥ लक्ष्मीवर सावित्री पार्वती संगे ।
 अर्धांगि शिव संगे जटा बहति गंगे ॥ ओ३म् ॥ कामारी गजकारी भक्तन हितकारी । रुद्र स्वरूप
 तुम्हारी तुम्हारी गति म्यारी ॥ ओ३म् ॥ ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अवित्रेका । प्राणवाक्षर के
 मध्ये ये तीनों ऐका ॥ ओ३म् ॥ त्रिगुणात्मक की आरति जो कोई नर गावै । कहत शिवानन्द
 स्वामी, छल मनवाँटित पावै ॥ ओ३म् ॥

* आरती श्री राधेश्यामजी की *

मैं तो आरती उतारूँ, राधेश्याम की रे । राधेश्याम की रे, मुक्ति-धामकी रे ॥ मैं तो ॥
 हृदय के पगाँठ योल, नक्ति के तले हिडोल, मधुर नाम योल, मैं तो चरन-छवि निहारूँ,
 राधेश्याम की रे । मैं तो ॥ लाला के चरण पछार, लला के बसन सँवार, नमन करूँ बर-
 बार । पुण्यत मुनि मैं सजाऊँ राधेश्याम की रे ॥ मैं तो ॥

तब रामजी ने कहा—हे लक्ष्मण ! तुम चनकर द्वार पर बैठो, नना काई बात जोर
बात-चीत ही करे ! इतने पर भी जो आयेगा, वह निरव्य हो नरेगा, वह मन्ना नही

दोहा—बौलेउ तापस वचन मूडु, पाहि पाहि रघुनाय ।
कहेउ सकल इतिहास मुनि, कहि पुनि नायउ नाय ॥४८॥

तब वह तपस्वी मयूर वचन बोले—हे धोरघुनायको ! रक्षा करो । द्वार पर-
चलने का सारा इतिहास कहकर नक्तक नवाया ।

प्रभु इच्छा भावी बलवाना * दुर्वासा मुनि आय तुजाना
मुनिहि देखि लछिमन चल आगे * वये निकट विनती अनुरागे

ईश्वर की इच्छा और होनहार बलवान है । उत तनय दुर्वासा मुनि आये । मुनिने
वेच लक्ष्मणजी आगे जाकर मिले और प्रेम से विनती की ।

पूछत मुनि कहै रघुकुल ईसा * तहाँ जाव में सुनहु अहोसा
जो प्रति उत्तर करिहो आजू * भस्म करउ तव घर पुर राजू

मुनि ने पूछा—धोरघुनायको कहाँ है ? हे लक्ष्मण ! मुने, मैं उनके पास जाता था
हूँ । यदि तुम आज प्रभुत्तर दोगे तो मैं तुम्हारे घर, नगर और राज्य को भस्म कर दूँगा ।

काँपे लपन सुनत मुनि वानी * निज वध जानेसु चले भवानो
दोउ कर जोरि कहा प्रभु पाहो * दुर्वासा मुनि आवत चाहो

लक्ष्मणजी मुनि के वचन सुनकर काँप उठे । हे पायंतो ! वे अपना मरन जानकर पंते,
और दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से कहा—हे प्रभु ! दुर्वासा मुनि जाना चाहते हैं ।

तात कोन्ह तुम्ह अवगुन भारी * काल कर्म गति टरहि न टारो
कहेउ वचन दिनकर कुल केतू * सुनु खग अपर कया कर हेतू

हे तात ! तुमने भारी अपराध किया है, काल और कर्म की गति टारने नहीं टारना ।
उत प्रकार धोरघुनायको ने कहा । हे गरुड़ ! अब प्राण की कया-बगल मुने—

दोहा—तुरत कहेउ मुनि आवहु, सादर कृपानिधान ।
चलहु वेगि मुनि बोलि अब, कहा राम भगवान ॥४९॥

कृपानिधान प्रभुने कहा—मुनि को शीघ्र हो जाइर सखि ने प्राणो (मन्त्र-मन्त्र) न ब्रह्मण्ड
है—) हे मुनि ! अब आव शीघ्र पधारें, धोरामको ने बुनाया है ।

न्द—अति तेज पुंज विलोकि आवत उचित उठि आमन दिए ।
जल आनि सादर चरन धोये सुभग पादोदक निण ॥

जन जानि आयसु देहु मुनिवर वेगि में नादर करी ।
वहु काल क्षुधित कृपायतन विनु अमन दिनमनि में करी ॥

*** आरती श्रीदुर्गाजी की ***

जय अम्बे गौरी, मंया जय मङ्गल सूरति, मंया उर आरम्भ करनी । तुम्हारे विरती
 ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवजी ॥टेक॥ माँगि हिरुर विराजत, टोही नर-नन्द हरी । उल्लसत
 बोलनंना, चन्द्र वदन नीकी ॥जय॥ कनक सनान कनेकर, रत्न-म्बर धर्ये । रत्न-कुण्डल
 माला, प्रथम की छाजें ॥जय॥ केंहरि वाहन राजत, उद्यम घुम्नर धर्ये । सुर नर तुलसी
 जन सेवक, तिनके दुपहारी ॥जय॥ गुम्म-निगुम्म विदार्ये, महिगनुर धर्ये । पूज विनीत
 विधाकर, राजत सम ज्योती ॥जय॥ सौमठ योनिनी नगन गावन, नृत्य करत नर्ये । बाजक
 नंना, निशविन मव-माती ॥जय॥ भुजा चार अमिठ गोमिन, उद्यम घुम्नर धर्ये । नन्द
 ताल मूदंगा और वाजत उमट ॥जय॥ भुजा चार अमिठ गोमिन, उद्यम घुम्नर धर्ये । नन्द
 फल पावत, सेवत नर नारी ॥जय॥ दा अम्बे की आरती जो शरीर नर धर्ये ।
 श्रीमालकेतु में राजत, कोटि रतन ज्योती ॥जय॥ दा अम्बे की आरती जो शरीर नर धर्ये ।
 कहत शिवानन्द स्वामी, सुष्ट सम्पति पावें । जय अम्बे ॥

*** आरती श्री तुलसीजी की ***

जय जय तुलसी माता, सब जग की सुप्रदाता, वरदाता ॥जय-जय॥ तब दोरी के
 ऊपर सब रोगों के ऊपर, दुःख से रक्षा करके नय वाना ॥जय-जय॥ बर रही है ग्यान
 सुर बल्लभी है ग्राम्या, है विष्णु प्रिये ! जो तुमकी मेवे, सो नर तर जना । जय जन ॥
 हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन में हो यन्वित । पतिन-बनो की नरनी तुम ही विरदाता
 ॥जय-जय॥ लेकर जन्म विजन में, आई दिव्य प्रवन में मानव-वंश शुरू के सुखमयार
 पाता ॥जय-जय॥ हरि की तुम अनि प्यारी ग्यान धरण सुकुमारी । वस अजय है उरका
 तुमसे कंसा नाता ॥जय-जय॥

*** श्रीरामचन्द्रजी के चतुर्दश वर्ष के वनवास का तिथि-पत्र ***

सम्पूर्ण आनन्द-मङ्गलों के देने वाले श्रीमतीना-गमजी के शुभ-
 चरणों का स्मरण करके मैं अग्निवेश के मतानुसार श्रीराम-वनवास
 की तिथि का वर्णन करता हूँ ।

चैत्र शुक्ला नवमी के दिन श्रीरामजी ने जन्म लिया । चौदह
 वर्ष तक चारो भाइयों ने आनन्द-दायक बाल-लीलारो की । पन्द्रह
 वर्ष की अवस्था में विश्वामित्रजी बुलाने आये, तब श्रीराम-लक्ष्मण
 जी सुनि के साथ वन को गये और उनका कार्य किया । फिर गायम
 तनी अहिल्या को तारकर मिथिलापुरी में पधार्ये और पन्द्रह दिन
 हाँ रहे । सुहावनी अगहन शुक्ला पञ्चमी को मीनलग्न (वाशिराज
 सूर्य) में कृपानिधान श्रीरघुनाथजी का विवाह हुआ । उग गणग
 नकीजी छः वर्ष की थीं, यह जगत जानता है । प्रभु विवाह पञ्च
 आये और बारह वर्ष तक आनन्दपूर्वक अयोध्या में वास किया ।

पहिले हुए हाथ में कपाल लिये, शरीर में ताजा खदिर लपेटे हुए थे। गदहा, कुत्ता, सूअर, सियार कैसे मुख वाले असंख्य भेषों को कौन गिने? बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच योगिनियों का समूह साथ में था, उनका वर्णन करते नहीं बनता।

सो०—नाचहि गावहि गीत, परम तरङ्गी भूत सब।

देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि ॥१५॥

बड़े मौजी सब भूतगण, नाचते और गीत गाते थे। देखने में बेटङ्ग थे, वे अद्भुतवचन बोलते थे।

जस दूल्हा तस वनी वराता * कौतुक विधि होहि मग जाता
इहां हिमाचल रचेउ विताना * अति विचित्र नहि जाय बखाना

जैसा दूल्हा था वैसे ही वरात बन गई, मार्ग में जाते हुए भाँति २ के खेल होने लगे। यहां हिमाचल ने बहुत विचित्र मण्डप बनवाया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।

सैल सकल जहँ लगी जग माहीं * लघु विशालनहि वरनि सिराहीं
वन सागर सब नदी तलावा * हिमगिरि सब कहुं नेवत पठावा

छोटे-बड़े सब पर्वत जो इस संसार में हैं, जिनका वर्णन करना कठिन है। वन, समुद्र, नदियां तालाब सबको हिमाचल ने ग्यांता भेजा।

कामरूप सुन्दर तनु धारी * सहित समाज सहित वर नारी
गए सकल तुहिनाचल गेहा * गावहि मङ्गल सहित सनेहा

इच्छानुसार रूप और सुन्दर शरीर धारण किये, परिवार सहित, सुन्दर स्त्रियों के साथ ये हिमाचल के घर आये और स्नेह सहित मङ्गल गीत गाने लगे।

प्रथमहि गिरि बहु गृह सँवराए * जथा जोगु जहँ तहँ सब छाए
पुर शोभा अवलोकि सुहाई * लागइ लघु विरंचि निपुनाई

हिमाचल ने पहले ही घर सजवा रखे थे, उन्हीं में यथायोग्य सब उहरे, इस पुर की शोभा को देखकर ब्रह्माजी की चतुराई फोकी लगती थी।

छन्द—लघु लाग विधि की निपुनता अवलोकि पुर शोभा सही।

वन वाग कूप तडाग सरिता सुभग सब सक को कही ॥

मङ्गल विपुल तोरन पताका केतु गृह गृह सोहहीं।

वनिता पुरुष सुन्दर चतुर छवि देखि मुनि मन मोहहीं ॥

ब्रह्माजी की चतुराई, पुरकी सुन्दर शोभा देखकर सबमुख फोकी लगने लगी। तालाब और नदियों की सुन्दरता कौन कह सकता है? घर २ में मंगल, तोरन, पताका और ध्वजा सुशोभित हैं। सुन्दर और चतुराई-पुरुषों की छवि को देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो रहे हैं।

दोहा—जगदम्बा जहँ अवतरी, सो पुरु वरनि कि जाइ ।

रिद्विसिद्धि सम्पत्ति सुख, नित नूतन अधिकाइ ॥१०३॥

जगदम्बा ने जहाँ अवतार लिया है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । वहाँ नित्य ऋद्धि, सिद्धि सुख और सम्पत्ति बढ़ने लगीं ।

नगर निकट बरात सुनि आई * पुर खरभरु शोभा अधिकाई
करि नवाज सजि वाहन नाना * चले लेन सादर अगवाना

नगर के समीप जब बरात आई, तब नगर में खलवली मच गई और बड़ी शोभा हुई । सभी लोग बनावट करके अपनी-अपनी सवारी सजाकर आदर से आगवानी के लिए चले ।

हियँ हरषे सुर सेन निहारी * हरिहि देखि अति भए सुखारी
सिव समाज जब देखन लागे * विडरि चले वाहन सब भागे

देवताओं की सेना देखकर सबलोग प्रसन्न हुए और हरि भगवान को देखकर बहुत सुखी हुए । जब शिव के समाज को देखने लगे, तब सब वाहन डरकर इधर उधर भागने लगे ।

धरि धीरजु तहँ रहे सयाने * बालक सब लै जीव पराने
गए भवन पूछाँहि पितु माता * कर्हाँहि बचन भय कम्पित गाता

चतुर बड़े-बूढ़े लोग धीरज धरकर ठहरे । बालक तो सब जान बचाकर भाग गये । घर पहुँचने पर माता-पिता जब पूछने लगे, तब भय से कांपते हुए शरीर से बोले—

कहिअ कहाकहि जात न बाता * जम कर धारं किधौं वरिआता
वरु बौराह बसहँ असवारा * व्याल कपाल विभूषन छारा

क्या कहें कहा नहीं जाता, वह यमराज की सेना है या बरात ? डूल्हा पागल सा बेल पर सवार है । साँप, मुण्ड, भस्म उसके गहने हैं ।

छन्द—तन छार व्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयंकरा ।

सँग भूत प्रेत पिसाच जोगिन विकट मुख रजनीचरा ॥

जो जिअत रहिहि बरात देखत पुण्य बड़ तेहि कर सही ।

देखिहि सो उमा विवाहु घर घर बात असि लरिकन्ह कही ॥

शरीर पर भस्म लगाये, साँप और मुण्डमाला आदि भूषण धारण किये नङ्गा, जटाधारी, भयंकर रूप और साथ में भूत, पिशाच, और योगिनी भयानक मुखवाले राक्षस हैं जो बरात देखकर जीते रहेंगे उनका बड़ा पुण्य होगा और वही पार्वती का विवाह देखेंगे, घर-घर लड़कों ने यही कहा ।

दोहा—समुझि महेस समाज जब, जननि जनक मुसुकाहि ।

बाल बुझाए विविध विधि, निडर होहु डर नाहि ॥१०४॥

शिवजी के समाजको समझ माता-पिता मुस्कराये और अनेक प्रकारसे बालकोंको समझाया ।

जिस समय प्रभु ने वन को प्रस्थान किया, उस समय रघुनाथ जो सत्ताईस वर्ष के और जानकीजी अठारह वर्ष की थीं, यह जगत् जानता है। अयोध्या से चलने के पश्चात् तीन दिन बाद श्रीराम लक्ष्मण और सीताजी ने केवल गङ्गा-जल पान किया। चौथे दिन श्रीराम-लक्ष्मण, जानकीजी ने शृङ्गेरपुर में जाकर कुछ फल खाये। पाँचवें दिन कृपानिधान गङ्गाजी के पार उतर कर चले, वहाँ मुनिवर भारद्वाजजी के आश्रम में एक दिन रहे और मुनि बाल्मीकिजी से मिलकर चित्रकूट में जाकर वर्षा-कुटीर बनाकर रहने लगे। वहाँ जयंतको शिक्षा देकर लक्ष्मीपति प्रभु ने कुछ समय तक निवास किया।

फिर चित्रकूट से चलकर प्रभु ने शरभङ्ग एवं सुतीक्ष्ण से भेंट की और महर्षि अगस्त्यजी को बड़ा सुख दिया। इस प्रकार बारह वर्ष व्यतीत करके प्रभु पंचवटी में आये। तेरहवें वर्ष के प्रारम्भ में लक्ष्मणजी ने सूर्यणखा की नाक काटी और श्रीरामजी ने खरदूषण का वध किया। माघ शुक्ला पंचमी को रावण-मामा मारीच के कपट से महारानी जानकीजी को हरण कर लङ्का में ले गया। तब रघुनाथजी बड़े व्याकुल हुए और मार्ग में पड़े जटायु को क्रिया कर दुष्ट कबन्ध राक्षस को मारा। तत्पश्चात् शबरी को गति दी और आषाढ मास में आनन्द पूर्वक सुग्रीवसे मित्रता की। बलि को मोक्ष देकर श्रीरामजी ने चार महीने प्रवर्षण-गिरि पर वर्षा ऋतु बिताई। फिर जानकीजी को ढूँढने के लिए बड़े ही बुद्धिमान बानर चले।

मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी को महावीरजी लंका के लिए सागर को लाँघ कर गये। तेरस के दिन हनुमानजी ने सीताजी को ढूँढा और उन्हें मुद्रिका दी। चौदस को अशोक-वाटिका उजाड़कर अक्षय कुमार को मारा, फिर लंका-दहन करके जानकीजी के पास आये और उनसे सुन्दर चूड़ामणि लेकर चले और फिर समुद्र लाँघकर अपनी सेना में आये। यह समाचार सुनकर सबने सुख पाया, सब बानर पाँच दिन का मार्ग तय करके अगहन शुक्ला छठ को किष्किन्धा

नारदजी का मैंने क्या बिगाड़ा था, जो मेरा बसता हुआ घर उन्होंने उजाड़ दिया । नारद ने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि उसने बाबले पति के लिए तप किया ।

साँचेहुँ उन्हे केँ मोह न दायी * उदासीन धन धामु न जाया
पर घर घालकु लाज न भीरा * वाँझ कि जान प्रसव कै पीरा

सत्य है कि—उनके हृदय में मोह और दया नहीं है, वे तो उदासीन हैं, न उनके धन हैं, न घर है और न स्त्री है । वे पराये घर को उजाड़ने वाले हैं, उन्हें न लाज है, न किसी का डर है, भला, वाँझ स्त्री प्रसव समय के कष्ट को क्या जाने ?

जंननिहिं विकल विलोकि भवानी * बोली जुत विवेक मृदुवानी
अस विचारि सोचहु मति माता * सो न टरइ जो रचइ विधाता

माता को व्याकुल देखकर पार्वतीजी ज्ञानयुक्त मीठी वाणी बोलों—हे माता ! विधाता ने जो रच रक्खा है, वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर सोच मत करो ।

करम लिखा जाँ बाउर नाहू * कत दोषु लगाइअ काहू
तुम्हसनमिर्दाहिं कि विधिके अङ्का * मातु व्यर्थ जनि लेहु कलङ्का

मेरे भाग्य में जो बाबला पति ही लिखा है, तो किसी को दोष क्यों लगाया जाय ? क्या तुमसे विधाता के लिखे अंक मिट सकते हैं ? हे माता ! क्या कलंक मत लो ।

छन्द—जनु लेहु मातु कलंकु करना परिहरिहु अवसर नहीं ।

दुखु सुख जो लिखा लिलार हमरें जाव जहँ पावहुँ तहीं ॥

सुनि उमा वचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहीं ।

बहु भाँति बिर्दिहिं लगाइ दूषन नयनवारि विमोचहीं ॥

हे माता ! कलंक मत लो, रोना छोड़ दो, यह समय दुःख का नहीं है । जो दुःख-सुख मेरे भाग्य में लिखा है—वह मैं जहाँ जाऊँगी, वहाँ पाऊँगी । ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर स्त्रियाँ सोचने लगीं और ब्रह्मा को दोष लगाकर—आँखों में आँसू वहाने लगीं ।

दोहा—तेहिं अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत ।

समाचार सुनि तुहिनगिरि, गवने तुरत निकेत ॥१०६॥

हिमाचल उसी समय समाचार सुनकर नारदजी और सप्त-ऋषियों सहित तुरन्त अपने घर को गये ।

तव नारद सबही समुझावा * पूरव कथा प्रसंगु सुनावा
मयना सुनहु सत्य मम बानी * जगदम्बा तव सुता भवानी

तब नारदजी ने पार्वती के पूर्व-जन्म की कथा कहकर सबको समझाया—हे मैना ! मेरा सत्य वचन सुनो—तुम्हारी कन्या 'भवानी' जगत्माता है ।

अजाअनादि शक्ति अविनासिनि * सदा शम्भु अरधाङ्ग निवासिनि

में आये। शुक्रवार सप्तमी को प्रभु ने सीताजी की खबर पाई। अष्टमी के दिन स्वांति नक्षत्र में प्रभु ने लंका को प्रस्थान किया। समुद्र-तट तक पहुँचने में सात दिन लगे और पूर्णिमा को तट पर पहुँचे। पौष कृष्णा एकम से तीज तक प्रभु ने वहाँ विचार किया और चौथ को विभीषण शरण में आये। अष्टमी तक प्रभु ने समुद्र से विनती की और फिर रोष प्रकट किया, तब नौमी को समुद्र प्रभु को शरण में आया। दशमी के दिन दस योजन पुल बाँधा, एकादशी को बीस योजन, द्वादशी को तीस योजन और तेरस को नील ने चालीस योजन लम्बा पुल बाँधा। इस प्रकार वानरों ने दस योजन चौड़ा और तीस योजन लम्बा पुल बाँध दिया।

पौष शुक्ला चौदस तक वानर-सेना सागर के पार उतरी और दश दिन में दशमी तक लंका को घेर लिया। पौष सुदी एकादशी को शुक-सारण ने रावण को वानर-सेना दिखाई। द्वादशी को प्रभु ने विचार करके वानर-सेना के चार भाग कर दिये और रावण के छत्र मुकुट भी काटकर गिरा दिये। फिर तीन दिन के भीतर रावण-सेना तैयार हुई। माघ कृष्णा प्रतिपदा के दिन 'अंगद' रावण की सभा में गये और उसका गर्व चूर्ण करके लौटे। माघ कृष्णा दौज से नौमी तक दोनों सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। मेघनाद ने नागपाश चलाया जिसे दशमी के दिन गरुड़जी आकर काट गये। घूम्रलोचन द्वादसी को मारा गया, तेरस को कुम्भकर्ण व मेघनाद और चौदस को अहि-रावण मारा गया। अमावस्य तक वानर-सेना ने अनेक धैर्यवान् राक्षस मार दिये। फाल्गुन वदी पंचमी तक रघुनाथजी ने महाबली नारान्तक का वध किया। तेरस तक कुम्भ आदि अनेक दानव मारे गए और फाल्गुन वदी चौदस तक जम्बुक दैत्य मारा गया।

फाल्गुन शुदी पूर्णिमा को रावण लड़ने चला और चैत्र कृष्णा अष्टमी तक उसके सब सेनापति मारे गए। नौमी के दिन रावण ने लक्ष्मणजी को शक्ति मारो, उसी दिन हनुमानजी संजीवनी लाये और

सो जेवनार कि जाइ बखानी * बसहि भवन जेहि मातु भवानी
सादर बोले सकल बराती * विष्णु विरंचि देव सब जाती

उस ज्योनार का क्या वर्णन किया जाय, जिस घर में जगत्माता भवानी बसती हो ?
सभी बराती, विष्णु, ब्रह्मा और सब देवता आदर सहित बुलाये गये ।

बिबिध पांति बैठी जेवनारा * लागे परूसन निपुन सुआरा
नारिवृन्द सुर जेवत जानी * लगी देन गारी मृदु बानी

अनेक पांतों में ज्योनार बैठी और चतुर रसोइये परोसने लगे । स्त्रियाँ-देवताओं को
भोजन करते जानकर मधुर वाणी से गारी गाने लगीं ।

छन्द-गारी मधुर स्वर देहि सुन्दर व्यङ्ग बचन सुनावहीं ।

भोजन करहि सुअति बिलम्बु बिनोदु सुनि सच्चु पावहीं ॥

जेवत जो बढ्यौ अनन्दु सो मुख कोटिहूँ न परै कह्यौ ।

अँचवाय दान्हे पान गवने वास जहँ जाकौ रह्यौ ॥

सुन्दर स्त्रियाँ मधुर स्वर में गाली गाने लगीं व्यङ्ग भरे बचन सुनाने लगीं । देवतागण
उन्हें सुनकर सुख पाते हुए भोजन करने में देर लगा रहे हैं, भोजन करते समय जो आनन्द
हुआ, वह करोड़ों मुखों से भी नहीं कहा जा सकता । भोजन करके सबके हाथ-मुहें धुलाकर
पान दिये, तब जहाँ जिसका नाम था-वहाँ सभी बराती चले गये ।

दोहा-बहुरि मुनिन्ह हिमवन्त कहूँ, लगन सुनाई आय ।

समय बिलोकि विवाह कर, पठए देव बोलाय ॥१०८॥

फिर जाकर मुनियों ने हिमवन्त को लगन सुनाई और व्याह का समय देखकर देवताओं
को बुलाया ।

बोलि सकल सुर सादर लीन्हे * सबहि जथोचित आसन दीन्हे
वेदी वेद विधान सँवारी * सुभग सुमङ्गल गावहि नारी

सब देवताओं को सादर बुलाकर यथायोग्य आसन दिये । वेद की विधि से वेदी बनाई
और स्त्रियाँ सुन्दर मङ्गल-गीत गाने लगीं ।

सिंहासन अति दिव्य सुहावा * जाइ न वरनि विरंचि बनावा
बैठे सिव विप्रन्ह सिरु नाई * हृदयँ सुमरि निज प्रभु रघुराई

एक अत्यन्त दिव्य सिंहासन पर जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, (क्योंकि उसको
स्वयं ब्रह्माजी ने रचा था) शिवजी-ब्राह्मणों को प्रणाम कर और अपने प्रभु श्रीरघुनायजी
को स्मरण कर बैठ गए ।

बहुरि मुनीन्ह उमा बुलवाई * करि सिंगार सखी लै आई
देखत रूप सकल सुर मोहे * वरनि सकै छबि जग कवि कोहे

लक्ष्मणजी को जिलाया 'यह दूसरी शक्ति थी'। दशमी के दिन बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। एकादशी को मातलि रामजी के लिए देव-रथ लाया। द्वादशी से लेकर अठारह दिन रावण से बड़ा भारी युद्ध हुआ। चैत्रशुक्ला चौदस को रावण का वध हुआ, पूर्णिमा को उसका संस्कार हुआ। वैशाखशुदी प्रतिपदा को इन्द्र ने अमृत-वर्षा करके बानर सेना जीवित की। दौज को ब्रह्म ने विभीषण को राज्य दिया और तीज के दिन सीताजी अग्नि में प्रवेश करके सुख पूर्वक बाहर निकल आईं, यह देखकर बानर आश्चर्य करने लगे। चौदह मास और दस दिन श्रीसीताजी ने लंका में दुःख पाया। चौथ को ब्रह्म ने पुष्पकविमान में बैठकर अयोध्या को प्रस्थान किया। पंचमी के दिन प्रयाग राज में स्नान किया और छट को भरतजी से प्रेम पूर्वक मिले। वैशाख कृष्णा-सप्तमी को सबका मनोरथ सफल करके ब्रह्म अयोध्या में आये।

वनवास से लौटने पर कृपानिधान रामजी इकतालीस वर्ष और सीताजी बत्तीस वर्ष की थीं। सप्तमी को होरघुनाथजी सिंहासन पर विराजमान हुए और राजतिलक हुआ, यह जगत जानता है। भादों वदी नौमी को सीताजी गर्भवती हुईं। चैत्रशुक्ला द्वादशी के दिन लक्ष्मणजी-श्रीरामजी को आज्ञा शिरोधार्य करके उन्हें अत्यंत दुःखी मन से वाल्मीकिजी के आश्रम के निकट छोड़ आये। वहाँ उन्हें मुनि-वर ने पुत्रों के समान पाला और आषाढ़ मास की नौमी के दिन सुन्दर 'लव' और 'कुश' ने जन्म लिया।

तपस्विनी के वेप में सीताजी वन में दुःखी रहीं और श्रीरामजी ने ग्यारह हजार वर्ष तक धर्मपूर्वक राज्य किया। फिर लव-कुश को राज्य देकर भगवान् अपने साकेत-धाम को प्रस्थान कर गये।

अग्निवेश ऋषि ने रामायण का सार लेकर यह वनवास की तिथि का पत्र वर्णित किया। इसे सुनने से भ्रम-जाल का नाश हो जाता है और सम्पूर्ण विकार नष्ट हो जाते हैं।

॥ इति श्रीरामचरित-नामक वनवास-तिथि-पत्र महिम्न आठों काण्ड समाप्तः ॥

अन्न कनक भाजन भरि जाना * दाइज दीन्ह न जाइ बखाना

दासी, दास, घोड़े, रथ, हाथी, गौ, वर्तन, मणि अनेकों प्रकार के पदार्थ, अन्न और सोने के पात्रों को एकड़ों में भरकर इतना दहेज-दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता।

छन्द—दाइज दियौ बहु भाँति पुनि कर जोरि हिमभूधर कह्यौ ।

का देउँ पूरन काम शंकर चरन पंकज गहि रह्यौ ॥

शिवँ कृपासागर ससुर कर सन्तोषु सब भाँतिहि कियो ।

पुनि गहे पद पाथोज मयना प्रेम परिपूरन हियौ ॥

अनेकों भाँति का दहेज दिया, फिर हाथ जोड़कर हिमवान् ने कहा—हे शंकर जी ! आप पूर्णकाम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ ? इस प्रकार कहकर हिमवान् ने शिवजी के चरण पकड़ लिये । तब कृपा के समुद्र शिवजी ने असुर को सब भाँति से सन्तोष दिया । फिर रानी मँना ने प्रेम से परिपूर्ण हृदय से शिवजी के चरण छुए और कहा—

दोहा—नाथ उमा मम प्रान सम, गृह किंकरी करेहु ।

छमेहु सकल अपराध अब, होइ प्रसन्न बरु देहु ॥११०॥

हे नाथ ! उमा मुझे प्राणों के समान प्रिय है, इसे अपने घर की दासी बनाइये । हमारे सब अपराधों को क्षमा कीजिए और प्रसन्न होकर वर दीजिए ।

वहु विधि सम्भु सासु समुझाई * गवनी भवन चरन सिरु नाई
जननी उमा बोलि तब लीन्ही * लै उछड़ सुन्दर सिख दीन्हीं

शिवजी ने बहुत प्रकार से सास को समझाया, तब वह चरणों में सिर नवाकर चली गई । फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में लेकर सुन्दर शिक्षा दी ।

करेहु सदा शंकर पद पूजा * नारि धरमु पति देउ न दूजा
वचन कहत भरे लोचन वारी * वहुरि लाइ उर लीन्हि कुमारी

हे पुत्री । तुम सदा शंकरजी के चरणों की पूजा करना, क्योंकि स्त्री-धर्म में पति के सिवाय दूसरा देवता स्त्री के लिए नहीं है । यह वचन कहते २ माता के नेत्रों में आंसू भर आये, तब उन्होंने पुत्री को छाती से लगा लिया और कहा—

कतविधि सृजी नार जग माहीं * पराधीन सपनेहु सुखु नाहीं
भै अति प्रेम विकल महतारी * धीरजु कीन्ह कुसमय विचारी

ब्रह्मा ने जगत् में स्त्री को क्यों रचा ? पराधीन को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता । प्रेम वरा पार्वती की माता बहुत व्याकुल हो गईं, परन्तु कुसमय विचार कर धीरज धारण किया ।

पुनिपुनिमिलतिपरतिगहिचरना * परम प्रेमु कछु जाइ न वरना
सब नारिन्ह मिलि भेंट भवानी * जाइ जननि उर पुनि लपटानी

मँना बारबार पार्वती से मिलती और चरण पकड़ती थी, अत्यन्त ही स्नेह है, कुछ कहा नहीं जाता । सब सखियों से मिल-भेंट कर पार्वतीजी फिर जाकर माता के हृदय से लिपट गईं ।

कल्याण काज विवाह मङ्गल सर्वदा सुख पावहीं ॥

स्वामिकार्तिकजी के जन्म, कर्म, प्रताप और पुरुषार्थ को जगत जानता है, अतः मैंने शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में कहा है। शिव-पार्वती के विवाह की इस कथा को जो नर-नारी सुनेंगे और सुनावेंगे वे शुभ कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे।

दोहा—चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पारवाहि पारु।

वरनै तुलसीदास किमि, अति मतिमन्द गँवारु ॥११२॥

गिरिजा-पति श्रीमहादेवजी का चरित्र समुद्र के समान है, उससे वेद भी पार नहीं पाते, फिर अति मन्द-बुद्धि और गँवार तुलसीदास उसको कैसे वर्णन कर सकता है ?

शम्भु चरित्र सुनि सरस सुहावा * भरद्वाज मुनि अति सुख पावा
बहु लालसा कथा पर बाढ़ी * नयनन्हि नीरु रोमावलि ठाढ़ी

शिवजी का रसपूर्ण सुहावना चरित्र सुनकर भरद्वाज-मुनि अति सुखी हुए। कथा सुनने की लालसा बहुत बढ़ी, नेत्रों में आनन्द के आंसू भर आये, देह पर रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवस मुख आव न बानी * दशा देखि हरषे मुनि ग्यानी
अहो धन्य तव जन्म मुनीसा * तुम्हहि प्राण सम प्रिय गौरीसा

प्रेम-मग्न होने के कारण मुख से बात नहीं निकली, यह दशा देख मुनि याज्ञवल्क्य बड़े खुश हुए और बोले—हे मुनीश्वर ! तुम्हारा जन्म धन्य है, तुम्हें शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिवपद कमल जिन्हहि रतिनाहीं * रामहि ते सपनेहुँ न सोहाहीं
बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू * राम भगति कर लच्छन ऐहू

शिवजी के चरण-कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्रीरामजी को स्वप्न में भी नहीं सुहाते। विश्वनाथ शिवजी के चरणों में निष्काम स्नेह हो—यही राम-भक्त का लक्षण है।

शिव सम को रघुपति व्रतधारी * बिनु अघ तजी सती असि नारी
पुनि करि रघुपति भगति देखाई * को शिव सम रामहि प्रिय भाई

शिवजी के समान श्रीरघुनाथजी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है ? जिन्होंने बिना अपराध सती जैसी स्त्री को छोड़ दिया। शिवजी ने ऐसा प्रण करके राम-भक्त को टूट कर दिया। हे भाई ! श्रीरामजी को शिवजी के समान और कौन प्रिय है ?

दोहा—प्रथमहि मैं कहा शिव चरित, वृझा मरमु तुम्हार।

सुचि सेवक तुम्ह राम के, रहित समस्त विकार ॥११३॥

मैंने पहले ही शिवजी का चरित्र सुनकर तुम्हारा भेद पा लिया और समझ लिया कि तुम श्रीरामजी के पवित्र सेवक हो और सब विकारों से रहित हो।

मैं जाना तुम्हार गुन शीला * कहउँ सुनहु अव रघुपति लीला
सुनु मुनि आजु समागम तोरें * कहि न जाइ जस सुख मय मोरें

तरुन अरुन अम्बुज सम चरना * नखदुति भगत हृदय तम हरना
भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी * आननु सरद चन्द छविहारी

नवीन लाल कमल के समान चरण थे, नखों की कान्ति भक्तों के हृदयान्धकार को हरती थी। सर्प और भस्म ही त्रिपुरारि-मर्दन शिवजी के गहने थे और मुख शरद-काल के चन्द्रमा की छवि को हरने वाला था।

दोहा—जटा मुकुट सुरिसरि, लोचन नलिन विसाल।

नीलकण्ठ लावन्य निधि, सोह बालविधु भाल ॥११५॥

जटाओं का मुकुट बनाये, शिर पर गंगाजी, विशाल कमल के समान नेत्र, नील-कण्ठ वाले, सुन्दरता की खान, मस्तक पर द्वितीया का चन्द्रमा शोभायमान था।

बैठ सोह नामरिपु कैसे * धरे शरीर सान्तरसु जैसे
पारवती भल अवसर जानी * गई सम्भु पहि मातु भवानी

कामदेव के शत्रु—शिवजी बैठे हुए ऐसे सुशोभित थे, जैसे शान्त-रस शरीर धारण किये बैठे हो। माता पार्वती शुभ अवसर जानकर उनके पास गईं।

जानि प्रिय आदर अति कीन्हा * बाम भाग आसन हर दीन्हा

बैठी शिव समीप हरषाई * पूरव जन्म कथा चित आई

शिवजी ने अपनी प्रिया जानकर बहुत आदर किया और अपने बायों ओर आसन दिया। पार्वतीजी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गईं। उन्हें पूर्व-जन्म की कथा स्मरण हो आई।

पति हिये हेतु अधिक अनुमानी * बिहँस उमा बोली प्रिय बानी

कथा जो सकल लोक हितकारी * सोइ पूछन चह सैलकुमारी

पति के हृदय में बहुत प्रेम समझकर पार्वतीजी हँसकर मधुर वचन बोलों—(याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि) जो कथा सब लोकों का हित करने वाली है, उसे पार्वतीजी पूछना चाहती हैं।

विश्वनाथ मम नाथ पुरारी * त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी

चर अरु अचर नाग नर देवा * सकल करहि पद पङ्कज सेवा

हे विश्वनाथ ! हे मेरे स्वामी ! हे त्रिपुरारी ! आपकी महिमा को तीनों लोक जानते हैं। चर, अचर, नाग, मनुष्य और देवता सब आपके चरणों की सेवा करते हैं।

दोहा—प्रभु समरथ सर्वग्य सिव, सकल कला गुनधाम।

जोग ग्यान वैराग्य निधि, प्रनत कल्पतरु नाम ॥११६॥

हे प्रभु ! आप समर्थ, सर्वज्ञ, कल्याण-रूप, सब कलाओं व गुणों के धाम हैं। योग, ज्ञान और वैराग्य की निधि हैं। आपका नाम शरणागत भक्तों के लिये कल्पवृक्ष है।

जौ मोपर प्रसन्न सुखरासी * जानिअ सत्य मोहि निज दासी

तौ प्रभु हरहु मोर अग्याना * कहि रघुनाथ कथा विधि नाना

हे सुख की राशि ! जो आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो

तब जैसा अज्ञान अब मुझको नहीं है और श्रीराम-कथा सुनने की मन में खिच है। हे नागराज-भूषण ! हे देवताओं के स्वामी ! आप श्रीरामजी के गुणों की पवित्र कथा कहिये।
दोहा—बंदउँ पद धरि धरनि सिरु, विनय करउँ कर जोरि।

वरनहु रघुवर विसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरि ॥११८॥

मैं पृथ्वी पर सिर रखकर आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ और हाथ जोड़कर यह विनती करती हूँ कि आप श्रीरामजी का निर्मल यश वेदों का सारांश लेकर वर्णन कीजिए।
जदपि जोषिता नहीं अधिकारी * दासी मन क्रम वचन तुम्हारी
गूढउ तत्व न साधु दुरावाहि * आरत अधिकारी जहँ पापाहि
यद्यपि स्त्री को वेद-सिद्धान्त सुनने का अधिकार नहीं है, तथापि मन, कर्म और वाणी से मैं आपकी दासी हूँ। इसलिए साधु लोग जहाँ अंत-अधिकारी होते हैं, वहाँ गूढ-तत्व को भी नहीं छिपाते हैं।

अति आरति पूछउँ सुरराया * रघुपति कथा कहहु करि दाया
प्रथम सो कारन कहहु विचारो * निर्गुन ब्रह्म सगुन वपु धारी
हे देवेश ! बहुत दौन होकर मैं आपसे पूछती हूँ, कृपा करके आप श्रीराम-कथा कहिए। प्रथम वह कारण विचारकर बताइए, जिससे निर्गुण-ब्रह्म सगुण शरीर धारी होता है।

पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा * बाल चरित पुनि कहहु उदारा
कहहु कथा जानकी विवाहो * राज तजा सो दूषन काहो
हे प्रभु ! फिर रामजी के अवतार की कथा कहिये, फिर उदार बाल-चरित्र को कहिए—जिस प्रकार जानकी से विवाह हुआ। फिर राज्य त्याग दिया, सो क्या दोष था ? सो कहिए।

वन बसि कोन्हे चरित अपारा * कहहु नाथ जिमि रावनु मारा
राजु बैठि कोन्ही बहु लीला * सकल कहहु शङ्करु सुखशीला
वन में रहकर जो अनेक चरित्र किये कंसे रावण मारा ? हे नाथ ! वह भी कहिए। फिर हे सुख-स्वरूपशंकर ! श्रीरघुनाथजी ने राज्य पर बैठकर जो अनेक लीलायें की, वे सब कहिए।

दोहा—बहुरि कहहु करुना यतन, कोन्हे जो अचरज राम।

प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम ॥११९॥

हे कृपानिधान ! फिर जो अद्भुत कार्य श्रीरामजी ने किये, वह सब कहिए। फिर रघु-वंश शिरोमणि श्रीरामजी प्रजा सहित अपने बंक्ण-धाम को कंसे गये वह भी कहिए ?

पुनि प्रभुकहहु सो तत्व बखानी * जेहि विग्यान मगन मुनिग्यानी
भगति ग्यान विग्यान विरागा * पुनि सब वरनहु सहित विभागा
हे प्रभु ! फिर वह तत्व वर्णन कीजिए, जिसके स्मरण मात्र से मुनि और ज्ञानीजन सदा मग्न रहते हैं। फिर भक्ति और वंराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए।

औरउ राम रहस्य अनेका * कहहु नाथ अति विमल विवेका

निडर हो जाओ, कुछ डर नहीं है।

लै अगवान वरातहि आए * दिए सर्वाहि जनवास सुहाए
मैना शुभ आरती सँवारी * सङ्ग सुमङ्गल गावाहि नारी

अगवान लोग वरात को ले आये और सबको सुन्दर जनवासा दिया। मैनाने शुभ आरती नगाई तब राध में स्त्रियाँ सुन्दर मंगल गाने लगीं।

कंचन थार सोह वर पानी * परिछन चलीं हरहिं हरषानी
विकट वेप रद्दाहिं जब देखा * अवलन्ह उर भय भवउ विसेषा

सोने का सुन्दर थालहाथ में रोमिष्ठ था, प्रसन्न मन से शिवजी का परिछन करने चलीं जब शिवजी का भयंकर वेप देखा, तब स्त्रियों के हृदय में भारी नय उत्पन्न हुआ।

भागि भवनु पैठीं अति त्रासा * गये महेसु जहाँ जनवासा
मैना हृदयें भयउ दुखु भारी * लीन्ही बोलि गिरीस कुमारी

बड़े डर से भाग कर वे घर में घुस कर बैठ गईं और शिवजी जनवासे को चले गये, मैना के हृदय में भारी दुख हुआ और उन्होंने पावती को अपने पास बुला लिया।

अधिक सनेहँ गोद वैठारी * स्यामु सरोज नयन भरे वारी
जेहि विधि तुम्हहिं रूप अस दीन्हा * तेहि जड़ वर वाउर कस कीन्हा

यों प्रेम से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आसू भरकर कहा-जित ब्रह्मा ने तुझको ऐसा रूप दिया है, उस मूर्ख ने वर को वायला क्यों बनाया ?

छन्द-कस कीन्ह वर वौराइ विधि जेहिं तुम्हहिं सुन्दरता दई ।

जो फलु चाहिअ सुरतरहिं सो वरवस ववूरहिं लागई ॥

तुम्ह सहित गिरि तें गिरौं पावक जरौं जलनिधि महुँ परौं ।

घर जाइ अपजसु होइ जग जीवित विवाहु न हौं करौं ॥

जित ब्रह्माने तुमको सुन्दरता दी, उसने वर को वायला क्यों बनाया ? जो फल कल्पवृक्ष में लगना चाहिए, वह जपदंती बयल में लगा दिया। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पटूँ, अग्नि में जल नहूँ। जपया समुन्द्र में उब नहूँ। चाहे घर उजड़ जाय और संसार में अपयश हो, परन्तु मैं अपने जीते-जी इस वर के साथ तुम्हारा विवाह नहीं करूँगी।

दोहा-भई विकल अवला सकल, दुखित देखि गिरिनारि ।

करि विलापु रोदति वदति, सुता सनेहु सँभारि ॥१०५॥

मैना को दुःखित देखकर सब स्त्रियाँ व्याकुल हो गईं। रानी अपनी कन्या के स्नेह को याद कर विलाप करके रोने और कहने लगीं-

नारद कर मैं कहा विगारा * भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा
अस उपदेसु उर्माहिं जिन्ह दीन्हा * वौरै वरहिं लागि तप कीन्हा

हे। तुम श्रीरामजी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो, जगत के हित के लिए तुमने यह प्रश्न किया है।

दोहा—राम कृपा तें पारवति, सपनेहुँ तव मन माहिं ।

सोक मोह सन्देह भ्रम, मम विचारि कछु नाहिं ॥१२१॥

हे पार्वती ! मेरे विचार से तो श्रीरामजी की कृपा से स्वप्न में भी तुम्हारे मन में शोक मोह, सन्देह और भ्रम कुछ भी नहीं है ।

तदपि अशंका कीन्हहु सोई * कहत सुनत सब कर हित होई

जिन्ह हरिकथा सुनी नाहिं काना * श्रवन रन्ध्र अहिभवन समाना

तो भी वही शंका की है, जिसे कहते-सुनते सबका कल्याण होगा । जिन्होंने श्रीहरिकथा कानों से नहीं सुनी, उनके कान साँप के बिल के समान हैं ।

नयनन्हि सन्त दरस नाहिं देखा * लोचन मोरपंख कर लेखा

ते सिर कटु तुम्बरि सम तूला * जे न नमत हरि गुरु पद मूला

जिसने नेत्रों से सन्तों के दर्शन नहीं किये, उनके नेत्र मोर-पंखों में लिखे हुए नेत्रों के समान हैं । वे सिर कड़वी तूबों के समान हैं, जो श्रीहरि और गुरुके चरणों में नहीं झुकते ।

जिन्ह हरि भगति हृदय नाहिं आनी * जीवित शब समान तेइ प्राणी

जो नाहिं करहि राम गुन गाना * जीह सो दादुर जीह समाना

जिन्होंने अपने हृदय में हरि-भक्ति धारण नहीं की, वे प्राणी जीते हुए भी मूर्खों के समान हैं । जो लोग राम-गुणगान नहीं करते, उनकी जीभ मेंढक की जीभ के समान है ।

कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती * सुनि हरि चरित न जो हरषाती

गिरिजा सुनहु राम कै लीला * सुरहित दनुज विमोह न सीला

वह छाती वज्र के समान कड़ी और निठुर है, जो हरि-चरित्र सुनकर प्रसन्न नहीं होती । हे पार्वती ! अब श्रीरामजी की वह लीला सुनो, जो देवताओं का हित करने वाली और राक्षसों को मोहित करने वाली है ।

दोहा—राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुख दानि ।

सत समाज सुरलोक सब, को न सुनै अस जानि ॥१२२॥

श्रीराम कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, सत्पुरुष की सभा ही समस्त देवलोक है, ऐसा जानकर इसे कोन सुनेगा ?

राम कथा सुन्दर करतारी * संसय विहंग उड़ावनि हारी

राम कथा कलि विटप कुठारी * सादर सुनु गिरराज कुमारी

श्रीराम-कथा हाथ की सुन्दर ताली है, जो सन्देह रूपी पक्षी को उड़ा देती है । श्रीराम-कथा कलिपुंग-रूपी वृक्ष को काटने की कुल्हाड़ी है, हे पार्वती ! इसे आदर के साथ सुनो ।

राम नाम गुन चरित सुहाए * जनम करम अगनित श्रुति गाए

जथा अनन्त राम भगवाना * तथा कथा कीरति गुनगाना

जग संभव पालन लय कारिनि * निज इच्छा लीला बपु धारिनि

ये अजन्मा अनादि और अविनाशी हैं और सदैव शिवजी के अर्धाङ्ग में रहती हैं। यही जगत को उत्पन्न पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीलादेह धारण करती हैं।

जनमी प्रथम दच्छ गृह जाई * नामु सती सुन्दर तनु पाई
तहँहुँ सती संकरहि बिवाहीं * कथा प्रसिद्ध सकल जग माहीं

प्रथम दक्ष के घर में जन्म लिया। यहाँ सुन्दर शरीर सती नाम से पाया था। वहाँ भी सती का विवाह शिवजी के साथ हुआ था, यह कथा संसार में प्रसिद्ध है।

एक बार आवत सिव सङ्गा * देखेउ रघुकुल कमल पतङ्गा
भयउ मोह सिब कहान कीन्हा * भ्रम बस वेषु सीय कर लीन्हा

एक बार शिवजी के साथ वन में आते हुए रघुकुल कमल भास्कर श्रीरामजी को देखा। तब इन्हें मोह हुआ और शिवजी का कहना न मानकर भ्रमवश सीताजी का वेष धारण कर लिया।

छन्द-सिय वेषु सती जो कीन्हु तेहिं अपराधशंकर परिहरौं ।

हर विरहँ जाइ बहोरि पितु के जग्य जोगानल जरीं ॥

अब जनमितुम्हरे भवन निज पति लागि दारुन तपु किया ।

अस जानि संसय तजहु गिरिजा सर्वदा संकर प्रिया ॥

सतीजी ने सीता का वेष बनाया शिवने इस अपराध से त्याग दिया। तब शिवजी के वियोग में पिता के यज्ञ में योजाग्नि भस्म हो गई अब तुम्हारे घर में जन्म लेकर पति के लिये कठिन तप किया है। ऐसा जानकर सन्देह दूर करो, पार्वती सर्वदा शिवजी को प्रिय हैं।

दोहा-सुनि नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद ।

छन महँ व्यापेउ सकल पुर, घर घर यह सम्बाद ॥१०७॥

नारदजी के वचन सुनकर तब सबका विशाद मिट गया और क्षण भर में ही सब नगर में घर-घर में सम्बाद फैल गया।

तब मयना हिमवन्तु अनन्दे * पुनि पुनि पारवती पद बन्दे
नारि पुरुष सिसु जुवा सयाने * नगर लोग सब अति हरषाने

तब मैना और हिमवन्त प्रसन्न हुए और बार-बार पार्वती की चरण वन्दना की स्त्री पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध और नगर के सब लोग अति प्रसन्न हुए।

लगे होन पुर मङ्गल गाना * सजे सबहिं हाटक घट नाना
भाँति अनेक भई जेवनारा * सूपशास्त्र जस कछु व्यवहारा

नगर में मङ्गल गीत होने लगे, सबने सोने के भाँति-भाँति के घड़े सजाये। पाक शास्त्रमें जैसी कुछ रीति है, उसके अनुसार अनेक भाँति की ज्योनार हुईं।

सुनु गिरिराज कुमारि, भ्रम तम रविकर वचन मम ॥१६॥

ऐसा अपने मनमें विचार कर, सन्देह छोड़ श्रीरामजी के चरणों को भजो। हे पार्वती सन्देहरूपी अन्धकार को दूर करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो-सगुनाहिं अगुनाहिं नाहिं कछु भेदा * गावाहिं मुनि पुरान बुध वेदा अगुन अरूप अलख अज जोई * भगत प्रेम बस सगुन सो होई

सगुण और निर्गुण में कुछ भेद नहीं है। मुनि, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि जो निर्गुण-रूप रहित, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम-वश सगुण हो जाता है।

जो गुन सहित सगुन सोइ कैसे * जलु हिमउपल बिलग नाहिं जैसे जासु नाम भ्रम तिमिर पतझा * तेहि किमि कहिअ विमोह प्रसझा

जो निर्गुण है, वह सगुण कैसे होता है, जैसे जल व ओलेमें कुछ अन्तर नहीं है, जिसका नाम सन्देहरूपी अन्धकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है, उनको मोह होना कैसे कहा जा सकता है?

राम सच्चिदानन्द दिनेसा * नाहिं तहँ मोह निशा लवलेशा सहज प्रकाश रूप भगवाना * नाहिं तहँ पुनि विग्यान विहाना

जहाँ श्रीरामजी सत्-चित् आनन्दरूपी सूर्य हैं, वहाँ मोहरूपी रात्रि लवलेश-मात्र भी नहीं होती। जहाँ भगवान् स्वभाव से ही प्रकाशरूप हैं, वहाँ ज्ञान रूपी सवेरा नहीं होना।

हरष विषाद ग्यान अग्याना * जीव धर्म अहमित अभिमाना राम ब्रह्म व्यापक जग जाना * परमानन्द परेस पुराना

हरष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंकार, अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्रीरामजी तो साक्षात् व्यापक परब्रह्म, परमानन्द स्वरूप सबसे परे और पुराण-पुरुष हैं, इसे संसार जानता है।

दोहा-पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ।

रघुकुलमनिमस्वामिसोइ, कहि सिवँ नाउँ माथ ॥१०४॥

शास्त्रों में जो पुरुष नाम से प्रसिद्धि है, प्रकाश की खान है, प्रकट और सबके स्वामी हैं वही रघुवंश-मणि श्रीरामजी मेरे स्वामी हैं। यह कहकर श्रीरामजी ने उनको मस्तक नवाया।

निज भ्रम नाहिंसमुझाहिं अग्यानी * प्रभु पर मोह धराहिं जड़ प्राणी जया गगन घन पटल निहारी * ज्ञापेउ भानु कर्हाहिं कुबिचारी

अज्ञानी लोग अपनी भूल तो समझते नहीं, वे जड़ प्रभु पर उनका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में सूर्य को बादल से ढका हुआ देखकर वे लोग कहते हैं कि सूर्य छिप गया है।

चितव जो लोचन अंगुलि लाएँ * प्रगट जुगल शशि तेहिं के भाएँ उमा राम विषयक अस मोहा * नभ तम धूल धूरि जिमि सोहा

जो आँखों में अंगुली लगाकर देखता है, उसको तो दो चन्द्रमा प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। हे पार्वती! श्रीरामजी के विषय में मोह की बातें ऐसी ही हैं, जैसे आकाश से धूआँ, धूल और अन्धकार का दीखना।

फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलाया, शृङ्गार करके सखियाँ उन्हें ले आईं । उनको देखकर सब देवता मोहित होगये, फिर ऐसा कौन कवि है—जो उस छवि का वर्णन करे ?

जगदम्बिका जानि भव भामा * सुरन्ह मनहि मन कीन्ह प्रनामा
सुन्दरता मरजाद भवानी * जाइ न कोटिहुं बदन बखानी

जगत्माता शिव-प्रिया जानकर देवताओं ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया । पार्वतीजी सुन्दरता की सीमा हैं । करोड़ों मुखों से भी उनकी सुन्दरता वर्णन नहीं की जा सकती ।

छन्द—कोटिहुं बदन नहिं बनै वरदान जग जननि शोभामहा ।

सकुचहि कहत श्रुति शेष शारद मन्दमति तुलसी कहा ॥

छवि खानि मातु भवानि गवनी मध्य मण्डप शिव जहाँ ।

अवलोकि सकहि न सकुच पतिपद कमल मनु मधुकर तहाँ ॥

जो करोड़ों मुखों से भी कही नहीं जा सकती, पार्वतीजी की ऐसी शोभा का वर्णन करते—वेद, शेषनाग और सरस्वती को भी संकोच होता है । तब मैं मन्द-बुद्धि तुलसीदास—किस गिनती में हूँ ? शोभा की खान भवानी मण्डप के बीच गई, जहाँ शिवजी थे । संकोच के कारण पति के चरण-कमलों के दर्शन नहीं कर सकीं, जहाँ पर उनका मनरूपी भौरा था ।

दोहा—मुनि अनुसासन गनपतिहि, पूजेउ शम्भु भवानि ।

कोउ सुनिसंसय करइ जनि, सुर अनादि जियजानि ॥१०८॥

मुनियों की आज्ञा से श्रीशिव-पार्वतीजी ने गणपतिजी का पूजन किया, देवताओं को अनादि जानकर कोई यह सुनकर अपने मन में शंका न करे ।

जसि विवाहकै विधि श्रुति गई * महा मुनिन्ह सो सब करवाई
गहि गिरिजा कुश कन्या पानी * शिवहि समरपी जानि भवानी

विवाह की जैसी विधि वेद में कही है, महामुनियों ने वह सब कराई । तब हिमवान् ने कुश हाथ में लेकर और कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिवजी को दान दिया ।

पानिग्रहन जब कीन्ह महेसा * हियँ हरषे तब सकल सुरेसा
वेदमन्त्र मुनिवर उच्चरहीं * जय जय जय शंकर सुर करहीं

श्रीमहादेवजी ने पार्वती का पाणि-ग्रहण किया, तब इन्द्रादि सब देवता मन में प्रसन्न हुए । मुनिवर वेद-मन्त्र पढ़ने लगे और देवता लोग शिवजी की जय-जयकार करने लगे ।

बाजहिं बाजन विविध विधाना * सुमन वृष्टि नभ भै विधि नाना
हर गिरिजा कर भयउ विवाह * सकल भुवन भरि रहा उछाह

भाँति-भाँति के बाजे वजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूल वरसने लगे । शिव-पार्वतीजी का विवाह होगया, तब सारे भुवनों में आनन्द छा गया ।

दासी दास तुरग रथ नागा * धेनु बसन मनि वस्तु विभागा

हे, वही दशरथ-नन्दन, भक्त-हितकारी, अयोध्यापति भगवान् श्रीरामजी हैं।

काशी मरत जन्तु अवलोकी * जासु नाम बल करउँ बिसोकी
सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी * रघुवर सब उर अन्तरजामी

काशी में मरतेहुए प्राणी को देखकर मैं जिनके नाम से केवल उसे जन्म-मरण के दुःख से मुक्त कर देता हूँ वही मेरे प्रभु श्रीरामजी चराचर के स्वामी और सबके हृदय के अन्तर्गामी हैं।

विवसहुँ जासु नाम नर कहहीं * जन्म अनेक रचित अघ दहहीं
सादर सुमिरन जे नर नरहीं * भव बारिधि गोपद इव तरहीं

विवश होकर जिनका नाम लेते ही अनेकों जन्मों के संचित पाप भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य आदर पूर्वक प्रभु का स्मरण करते हैं, वे संसार-सागर को गाय के खुर के बराबर गढ़दे के समान पार कर जाते हैं।

राम सो परमात्मा भवानी * तहँ भ्रम अति अनुचित तवबानी
अस संसय आवत उर माहीं * ग्यान विराग सकल गुन जाहीं

हे भवानी ! वही परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी हैं। उनमें भ्रम है, तुम्हारा यह कहना बहुत ही अनुचित है। हृदय में ऐसा संदेह आते ही ज्ञान-वैराग्य आदि सदगुण दूर हो जाते हैं।

सुनि सिव के भ्रम भंजन वचना * मिटि गै सब कुतरक कै रचना
भइ रघुपति पद प्रीति प्रतीती * दारुन असम्भावना बीती

शिवजीके भ्रमनाशक वचन सुनकर पावतीके सब कुतर्क मिट गये, श्रीरामजीके चरणोंमें स्नेह और विश्वासहुआ तथा कठिन अंशभावना (रामकापरब्रह्महोना संभव नहीं, यह संदेह) जातारहा।

दोहा—पुनिपुनि प्रभुपदकमलगहि, जोरि पंकरुह पानि ।

बोली गिरिजा वचन वर, मनहुँ प्रेम रस सानि ॥१२७॥

बारम्बार प्रभु शिवजी के चरण-कमलों को छूकर, कमलरूपी हाथ जोड़कर, पावतीजी मानो प्रेमरूपी रस में सानकर सुन्दर वचन बोलीं—

ससिकरसम सुनिगिरा तुम्हारी * मिटा मोह सरदातप भारी
तुम्ह कृपालु सबु संसय हरेऊ * राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ

चन्द्रमा की किरणों के समान आपकी शीतल वाणी सुनकर शरदञ्चतु की धूप के समान मेरा अज्ञान जाता रहा। हे कृपालु ! आपने मेरा सब संदेह दूर कर दिया, अब मुझे प्रभु श्रीरामजी का स्वरूप जान पड़ा।

नाथ कृपाँ अव गयउ विषादा * सुखी भइउँ प्रभु चरन प्रसादा
अव मोहिआपनि किंकरिजानी * जदपि सहज जड़ नारि अयानी

हे नाथ! आपकी कृपा से मेरा सब दुःख जाता रहा और प्रभुके चरणोंके प्रसादसेही सुखी हो गई, यद्यपि मैं स्वाभाविक मूर्ख और नासमझ स्त्री हूँ, तथापि आप मुझे अपनी दासी जानकर—

प्रथम जो मैं पूछा सोइ कहहू * जौ मोपर प्रसन्न प्रभु अहहू
राम ब्रह्म चिनमय अविनासी * सर्व रहित सब उर परनासी

छन्द-जननिहि बहुरि मिलि चली उचित असीस सब काहू दई ।
 फिरिफिरि विलोकति मातुतनतबसखीलैशिव पहिंहि गई ॥
 जाचक सकल सन्तोषि शङ्कर उमा सहित भवन चले ।
 सब अमर हरषे सुमन वरषि निशान नभ बाजे भले ॥

फिर माता से मिलकर चलीं, उस समय सबने उचित आशीर्वाद दिए । पार्वतीजी-
 बारम्बार फिरकर माता की ओर देखती थीं, तब देव-स्त्रियाँ उनको शिवजी के पास ले गईं ।
 शिवजी-याचकों को सन्तुष्ट कर पार्वतीजी को साथ ले घर को चले । देवता प्रसन्न हुए और
 पुष्प वरसा कर बाजे बजाने लगे ।

सो०-चले सङ्ग हिमवन्तु तब, पहुँचावन अति हेतु ।

बिबिधभाँतिपरितोषु करि, बिदा कीन्ह वृषकेतु ॥१११॥

हिमवान बड़े प्रेम के साथ पहुँचाने चले, तब शिवजी ने अनेक प्रकार से उनको सन्तोष
 करके विदा किया ।

तुरत भवन आए गिरिराई * सकल सैल सर लिए बोलाई
 आदर दान विनय बहु माना * सब कहूँ बिदा कीन्ह हिमवाना

राजा हिमाचल तुरन्त आये और सब पर्वत तथा सरोवरों को बुलाया । आदर पूर्वक
 विनय और सन्मान करके सबको हिमाचल ने विदा किया ।

जबहि सम्भु कैलासहिं आये * सुर सब निज लोक सिधाये
 जगत मातु पितु सम्भु भवानी * तेहि सिंगारु न कहउँ बखानी

जब शिवजी कैलाश पर आगये, तब सब देवता अपने २ लोकों को चले गये । शिवजी-
 पार्वती जगत् के माता-पिता हैं, इस कारण मैं उनका शृङ्गार वर्णन नहीं करता हूँ

करहिविविधविधिभोगबिलासा * गनन्ह समेत बसहिं कैलासा
 हर गिरिजा बिहार नित नयऊ * एहिविधिबिपुलकाल चलिगयऊ

श्रीशिव-पार्वतीजी अनेक भाँति के भोग-विलास करते हुए गणों के साथ कैलाश पर
 रहने लगे । वे नित्य-नवीन बिहार करने लगे, इस प्रकार बहुत समय बीत गया ।

तब जनमेउ षठबदन कुमारा * तारक असुर समर जेहिं मारा
 आगम निगम प्रसिद्ध पुराना * सन्मुख जन्म सकल जग जाना

तब छः मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकजी का जन्म हुआ, जिन्होंने युद्ध में तारकासुर
 को मारा । वेद, शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकजी का जन्म प्रसिद्ध है, उसे सारा
 संसार जानता है ।

छन्द-जगु जान सन्मुख जन्मु कर्मु प्रतापु पुरुषारथु महा ।
 तेहिं हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संछेपहि कहा ॥
 यह उमा शम्भु विवाहु जे नर नारि कर्हिं जे गावहीं ।

जब जब होइ धर्म की हानी * बाढ़हि असुर अधम अभिमानो
हे सुमुखी ! और जैसा मुझे समझ पड़ा है, वैसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ—सुनो, जब-जब
धर्म की हानि होती है और पृथ्वी पर नीच अभिमानो असुर बढ़ जाते हैं ।

करहि अनीति जाइ नहि वरनी * सोदाहि विप्र धेनु सुर धरनी
तब तब प्रभुधरिविधशरीरा * हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा
और वे ऐसी अनीति करते हैं, जो कही नहीं जा सकती । जय ब्राह्मण, गौ, देवता और
पृथ्वी—ये सब दुःखी हो जाते हैं, तब-तब कृपानिधान श्रीहरि अनेकों प्रकार के शरीर धारण
कर भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं ।

दोहा—असुर मारि थापहि सुरन्ह, राखहि निजश्रुति सेतु ।

जग विस्तारहि विसद जस, रामजन्म कर हेतु ॥१२६॥

वे असुरों को मारकर देवताओं को राज्य देकर, अपनी बाँधी हुई वेद-मर्यादा की रक्षा करते हैं
और संसार में निर्मल यश का विस्तार करते हैं । रामजी के जन्म लेने का यही कारण है ।

सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं * कृपासिंधु जन हित तनु धरहीं

राम जनम के हेतु अनेका * परम विचित्र एक तें ऐका

उसी यश को गाकर भक्तजन संसार से तर जाते हैं, कृपासिंधु प्रभु भक्तों के हितार्थ देह धारण
करते हैं । श्रीरामजी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक अधिक आश्चर्य वाले हैं ।

जनम एक दुइ कहउ बखानी * सावधान सुनु सुमति भवानी

द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ * जय अरु विजय जानि सबुकोऊ

हे सुन्दर बुद्धिवाली भवानी ! मैं रामजी के एक-दो जन्मों का वर्णन करता हूँ । सावधान हो
सुनो—श्रीहरि भगवान के दो प्यारे द्वारपाल जय और विजय हैं, जिनको सब कोई जानता है ।

विप्र श्राप ते दोनोंउ भाई * तामस असुर देह तिन्ह पाई

कनक कशिपु अरु हाटकलोचन * जगत विदत सुरपति मद मोचन

ब्राह्मण के श्राप से दोनों भाइयों ने तामसी असुर शरीर पाया । हिरण्यकशिपु, और
हिरण्यक्ष यह दोनों राक्षस जगत् में देवराज इन्द्र के गर्व को चूर्ण करने वाले प्रसिद्ध हुए ।

विजयी समर वीर विख्याता * धरि बराह बपु एक निपाता

होइ नरहरि दूसर पुनि मारा * जन प्रह्लाद सुजस विस्तारा

पुढ में विजय पाने वाले दोनों प्रसिद्ध वीर थे । उनमें एक (हिरण्यक्ष) को बाराहरूप
धारण करके विष्णु ने मारा । फिर नृसिंह-अवतार लेकर दूसरे (हिरण्यकशिपु) को मारा
और अपने भक्त-प्रह्लाद का सुयश संसार में फैलाया ।

दोहा—भए निशाचर जाइ तेइ, महावीर बलवान ।

कुम्भकरन रावन सुभट, सुरविजय जग जान ॥१३०॥

फिर वे दोनों राक्षस जाकर महावीर भगवान् कुम्भकर्ण और रावण नाम से महान्
योद्धा देवताओं को जीतने वाले हुए, जिन्हें सब संसार जानता है ।

मैंने तुम्हारा गुण और स्वभाव जान लिया । अब श्रीरामजी की लीला कहता हूँ, उसे मुनो-हे मुने! आज तुम्हारे समागम से जैसा सुख मेरे मन में हुआ है, वह कहा नहीं जाता । रामचरित अति अमित मुनीसा * कहि न सकहि सतकोटि अहीसा तदपि जथा श्रुति कहउँ बखानी * सुमरि गिरापति प्रभु धनुपानी

हे मुनीवर ! श्रीराम-चरित्र अत्यन्त विस्तृत है, उसे सौ करोड़ शेषजी भी नहीं कह सकते । तो भी जैसा मैंने मुना है, उसे वाणी के पति--धनुषधारी श्रीराम का स्मरण करके कहता हूँ। सारद दारुनारि सम स्नामी * राम सूत्रधर अन्तरजामी जेहि पर कृपा करहिं जनु जानी * कवि उर अजरि नचावाहिं बानी

सरस्वतीजी कठपुतली के समान हैं और अन्तर्यामी श्रीरामजी सूत्रधार हैं । अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदयांगण में सरस्वतीजी को नचाया करते हैं । प्रनवउँ सोइ कृपालु रघुनाथा * वरनउँ विसद तासु गुन गाथा परम रम्य गिरिवर कैलासू * सदा जहाँ शिव उमा निवासू

उन्होंने कृपालु श्रीरामजी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के उज्ज्वल चरित्र का वर्णन करता हूँ । पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश बड़ा मनोहर है, जहाँ सदा-पार्वतीजी का निवास है ।

दोहा-सिद्ध तपोधन जोगिजन, सुर किन्नर मुनिवृन्द ।

वसहिं तहाँ सुकृति सकल, सेवाहिं शिव सुखकन्द ॥११४॥

सिद्ध, तपस्वी, योगी देवता, किन्नर और मुनिगण सब कैलाश-पर्वत पर वास करते हैं और ध्यानकन्द शिवजी की सेवा किया करते हैं ।

हरि हर विमुख धर्म रति नाही * ते नर तहँ सपनेहुँ नहिं जाहीं तेहि गिरि परवट विटप विशाला * नित नूतन सुन्दर सब काला

श्रीहरि और शिवजी से जो विमुख हैं और जिनको धर्म में प्रीति नहीं है-वे नर वहाँ सपने में भी नहीं जा सकते । उस पर्वत पर एक विशाल वट-वृक्ष है, जो नित्य नया व सदैव सुन्दर रहता है ।

त्रिविध समीर सुशीतल छाया * शिव विश्राम विटप श्रुति गाया एक वार तेहि तर प्रभु गयऊ * तर विलोकिउर अति सुख भयऊ

वहाँ तीनों प्रकार की शीतल, मन्द, सुगन्धित पवन चला करती है, उसकी छाया बहुत ही शीतल है । वह वृक्ष शिवजी के विश्राम का स्थल है, यह वेदों में कहा है । एक वार उसके नीचे शिवजी गये तो वृक्ष को देखकर मन में बहुत ही प्रसन्न हुए ।

निज कर डालि नागरिपु छाला * बैठे सहजाहिं सभु कृपाला कुन्द इन्दु दर गौर सरीरा * भुज प्रलम्ब परिधन मुनिचीरा

अपने हाथों से बाघम्बर विछाकर सहज स्वभाव से कृपानिधान शिवजी वहाँ बैठ गये । कुन्द के पुष्प, चन्द्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था, लम्बी भुजाएँ थीं और बलकल वस्त्र धारण किये थे ।

यह प्रसङ्ग मोहि कहहुँ पुरारी * मुनि मन मोह अचरज भारी

मुनि ने किस कारण श्रापदिया? लक्ष्मीपति भगवान् ने क्या अपराध किया? हे त्रिपुरारि! यह कथा मुझसे कहिये । नारद-मुनि के मन में मोह उत्पन्न हो जाना—बड़े आश्चर्य की बात है।

दोहा—बोले बिहाँसि महेस तब, ग्यानी मूढ़ न कोइ ।

जेहिजसरघुपतिकरहिजब, सो तस तेहि छन होइ ॥१३२॥

तब शिवजी हँसकर बोले—संसार में न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है । श्रीरघुनाथजी जिसको जब जँसा करदें, यह उस समय वैसा ही हो जाता है ।

सो०—कहउँ राम गुन गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु ।

भव भंजन रघुनाथ, भजु तुलसी तजिमानमद ॥२२॥

याज्ञवल्क्यजी बोले—हे भरद्वाज! मैं श्रीरामजीके गुणोंकी कथा कहता हूँ, आदरसे मुनो, तुलसी दासजी कहते हैं—संसारके बंधन छुड़ाने वाले श्रीरघुनाथजीको ममता, अभिमान त्यागकर भजो ।

हिमगिरि गुहा एकअति पावनि * वह समीप सुरसरी सुहावनि

आश्रम परम पुनीत सुहावा * देखि देवरिषि अति मन भावा

हिमालय पर्वतकी एकअति पवित्र गुफाके पासही सुहावनी देव-नदी(गङ्गाजी)बह रहीहैं । उस परम पवित्र और सुन्दर आश्रम को देखकर देवाँपि नारदजीके मनको बहुत प्रिय लगा ।

निरखि सैलसरि विपिनविभागा * भयउ रमापति पद अनुरागा

सुमिरत हरिहि श्राप गतिवाँधी * सहज विमल मन लागि समाधी

पर्वत, नदीऔर वनके भागोंको देखकर भगवानके चरणोंमेंप्रेम उत्पन्न हुआ। श्रीहरि भगवान का स्मरण करतेही श्रापकी गति रुकगई और स्वभाव सेही निर्मल मन समाधिमें लग गया ।

मुनि गति देखि सुरेस डराना * कामहि बोलि कीन्ह सनमाना

सहित सहाय जाहु मम हेतू * चलेउ हरषि हियँ जलचर केतू

मुनि की समाधि देखकर इन्द्र डर गया और कामदेव को बुलाकर बोला—अपने साधियों समेत मेरे कल्याण के निमित्त जाओ । यह सुनकर कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला ।

सुनासीर मन कहुँ अति त्रासा * चहत देवऋषि मम पुर वासा

जे कामी लोलुप जग माहीं * कुटिल काक इव सर्वाहि डराहीं

इन्द्र मन में बड़ा डरा कि देवाँपि नारदजी मेरे पुर में वास करते हैं । संसार में जो कामी, लोभी और कपटी हैं, वे कीए के समान सबसे डरते हैं ।

दोहा—सूख हाड़ लै भाग सठ, स्वान निरखि मृगराज ।

छीनि लेइ जनिजान जड़, तिमिसुरपतिहिनलाज ॥१३३॥

जैसे मूख-कुत्ता—सिंह को देखकर सूखी हड्डी को लेकर भागे और वह मूख यह जाने कि मुझसे हड्डी को न छीन ले, वैसे ही इन्द्र को लज्जा नहीं आई ।

जेहि आश्रमहि मदनजव गयऊ * निज मायाँ बसन्त

हे स्वामिन् ! श्रीरघुनाथजी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरे अज्ञान को दूर कीजिए ।
जासु भवन्तु सुरतरु तर होई * कहि कि दरिद्रजनित दुख सोई
शशिभूषन अस हृदय विचारी * हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी

जिनका घर कल्प-वृक्ष के नीचे हो, क्या वह भी दरिद्रता का दुःख सहे । हे चन्द्रमौलि!
ऐसा अपने हृदय में विचार कर, हे नाथ ! मेरी मति का भ्रम दूर कीजिए ।

प्रभु जे मुनि परमार्थवादी * कहहि राम कहुं ब्रह्म अनादी
शेष शारदा वेद पुराना * सकल करहि रघुपति गुण गाना

हे प्रभु ! परमार्थवादी मुनि हैं, वे श्रीरामजी को अनादि-ब्रह्म कहते हैं । शेष, शारदा,
वेद पुराण सभी श्रीरघुनाथजी के गुण-गान करते हैं ।

तुम्ह पुनि राम नाम दिन राती * सादर जपहु अनङ्ग आराती
राम सो अवध नृपति सुत सोई * की अज अगुन अलख गति कोई

हे काम के शत्रु ! आप भी दिन-रात आदर सहित राम-नाम जपा करते हैं । यह राम
वही अयोध्या के महाराज के पुत्र हैं, अथवा कोई और अजन्मा, निर्गुण अगोचर राम हैं ।

दोहा—जौं नृप तनयतौ ब्रह्म किमि, नारि विरहँ मति भोरि ।

देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अतिभोरि ॥११७॥

यदि वे राज-पुत्र हैं, तो ब्रह्मा कैसे ? स्त्री के वियोग से उनकी बुद्धि भ्रमित कैसे होगई ?
उनके चरित्र देख और महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यन्त भ्रम में है ।

जौं अनीह व्यापक विभु कोऊ * कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ
अग्य जनि सिर उर जनि धरहु * जेहि विधि मोहमिटै सोइकरहु

यदि कोई अन्य ही व्यापक समर्थ ब्रह्म है तो, हे नाथ ! वह मुझे समझाकर कहिये ।
आप मुझे मुर्ख जान, हृदय में क्रोध न करके, जिस प्रकार मेरा अज्ञान दूर हो वही कीजिए ।

मैं वन दीखि राम प्रभुताई * अतिभय विकलन तुम्हीं सुनाई
तदपि मलिन मन बोधु न आवा * सो फलु भली भाँति हम पावा

मैंने वन में रामजी की प्रभुता देखी और डर से बहुत व्याकुल होकर वह बात आपको नहीं
सुनाई, तो भी मलिन मन होने से मुझे बोध न हुआ, सो उसका फल मैंने भली प्रकार पाया ।

अजहँ कछु संसय मन सोरें * करहु कृपा विनवउँ कर जोरें
प्रभु तव मोहि बहुभाँति प्रबोधा * नाथ सो समुझि करहु जनि क्रोधा

अब भी मन में कुछ सन्देह है, तो आप मुझ पर कृपा करिये, मैं हाथ जोड़कर विनती
करती हूँ । हे प्रभु ! आपने उस समय मुझे बहुत प्रकार से समझाया था, यह समझकर—हे
नाथ ! क्रोध न कीजियेगा ।

तव कर जस विमोह अब नाही * राम कथा पर रुचि मन माहीं
कहहु पुनीत रामगुन गाथा * भुजगराज भूषन सुरनाथा

बार बार विनवउँ मुनि तोही * जिमि यह कथा सुनायहु तोही
तिमि जनि हरहि सुनावहु कबहूँ * चलेहुँ प्रसङ्ग दुराएहु तबहूँ

हे मुनि ! मैं बार-बार तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि जैसे यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, वैसे श्रीहरि-भगवान को कभी मत सुनाना प्रसंग भी चले तो भी इस बात को छुपा लेना ।

दोहा—शम्भु दीन्ह उपदेश हित, नहिं नारद सोहान ।

भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान ॥१३५॥

शिवजी ने मुनि के हित के लिये शिक्षा दी, परन्तु नारदजी को अच्छी न लगी । हे भरद्वाज ! अब आगे का कौतुक मुनो-श्रीहरि की इच्छा बड़ी बलवान है ।

राम कीन्ह चाहहिं सोई होइ * करै अन्यथा अस नहिं कोइ
सम्भु वचन मुनि मन नहिं भाए * तब विरंचि के लोक सिधाए

श्रीरामजी जो कुछ करना चाहते हैं वही होता है ऐसा कोई नहीं है—जो उनके विपरीत करे । शिवजी के वचन मुनि को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से विष्णु-लोक को गये ।

एक वार करतल वर बीना * गावत हरिगुन गान प्रवीना
छीर सिन्धु गमने मुनि गाथा * जहँ वस श्रीनिवास श्रुतिमाथा

एक वार गान-विद्या में निपुण नारदजी हाथ में सुन्दर बीणा लिये, हरि-गुण-गान करते हुए क्षीर-सागर में गये, जहाँ वेद-शिरोमणि-श्रीरामजी निवास करते हैं ।

हरषि मिले उठ राम निकेता * बैठे आसन रिषिहि समेता
बोले बिहँसि चराचर राया * बहुते दिनन कीन्ह मुनिदाया

लक्ष्मी-निवास भगवान प्रसन्न हो, उठकर नारदजी से मिले और ऋषि के साथ आसन पर बैठ गये । चराचर के स्वामी प्रभु हँसकर बोले—हे मुनि ! बहुत दिनों में कृपा की है ।

काम चरित नारद सब भाषे * जद्यपि प्रथम वरजि सिवँ राखे
अति प्रचण्ड रघुपति कै माया * जेहि न मोह असको जग जाया

यद्यपि शिवजी ने पहले ही मना कर दिया था, तो भी नारदजी ने विष्णु भगवान को कामदेव का सारा चरित्र कह सुनाया । श्रीरघुनाथजी की माया बड़ी प्रबल है, संसार में ऐसा कौन जन्मा है—जिसको माया ने मोहित नहीं किया ?

दोहा—रूप बदन करि वचन मृदु, बोले श्री भगवान ।

तुम्हरेँ सुमिरन तेँ मिटाहिं, मोह मार मद मान ॥१३६॥

रुखा मुँह करके श्रोपति-भगवान नारदजी से कोमल वचन बोले—हे नारदजी ! आपके तो स्मरण-मात्र से ही—मोह, काम, मद, घमण्ड वृत्त हो जाते हैं ।

सुनि मुनि मोह होइ मन ताकै * ग्यान विराग हृदयँ नहिं जाकै
ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा * तुम्हहिं कि करइ मनोभव पीरा

हे मुनि ! मुनो, मोह तो उसे होता है, जिसके हृदय में वैराग्य नहीं होता । आप तो ब्रह्मचर्य

जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई * सो दयालु राखहु जनि गोई

श्रीरामजी के और भी जो गूढ़ चरित्र हों, उन्हें भी कहिये । हे नाथ ! आपका ज्ञान निर्मल है । हे प्रभू ! हे दयालु ! मैंने जो न पूछा हो, उसे भी छिपा न रखियेगा ।

तुम्ह त्रिभुवन गुरु बेद बखाना * आन जीव पाँवर का जाना
प्रश्न उमा के सहज सुहाई * छल बिहीन सुनि सिव मन भाई

आपको वेदों ने तीनों लोकों का गुरु कहा है, अन्य तुच्छ जीव इस रहस्य को क्या जानें ? पार्वतीजी के स्वाभाविक सुहावने और छल-रहित वचन शिवजी के मन को भले लगे ।

हर हियँ रामचरित सब आए * प्रेम पुलक लोचन जल छाये
श्रीरघुनाथ रूप उर आवा * परमानन्द अमित सुख पावा

शिवजी के हृदय में श्रीरामजी के सब चरित्रों का स्मरण हो आया, प्रेम से शरीर पुलकित हो नेत्रों में जल भर आया । श्रीरघुनाथजी का रूप हृदय में आगया, जिससे शिवजी को अत्यन्त सुख प्राप्त हुआ ।

दोहा-मगन ध्यान रस दण्ड जुग, पुनि मन बाहेर कीन्ह ।

रघुपति चरित अहेस तब, हरषित बरनै लीन्ह ॥१२०॥

श्रीमहादेवजी दो घड़ी ध्यान के रस में मग्न रहे, फिर मन को ध्यान से हटाया । तब प्रसन्न होकर श्रीरघुनाथजी का चरित्र वर्णन करने लगे ।

झूठेउ सत्य जाहि बिनु जानें * जिमि भुजङ्ग बिनु रजु पहिचानें
जेहि जानें जग जाइ हेराई * जागें जथा सपन भ्रम जाई

जिनको बिना जाने झूठ भी सत्य जान पड़ता है, जैसे रस्सी में साँप का भ्रम होजाता है, जिसको जान लेने से संसार छूट जाता है, जैसे जागने से स्वप्न का भ्रम दूर हो जाता है ।

बन्दउँ बाल रूप सो रामू * सब विधि सुलभ जपति जिसुनाम्
मङ्गल भवन अमङ्गल हारी * द्रवउ सो दशरथ अजिर विहारी

मैं उन्हीं बाल-रूप श्रीरामजी की वन्दना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं । मंगल के घर और अमंगलों के हरने वाले तथा दशरथजी के आंगन में विहार करने वाले मुझ पर कृपा करें ।

करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी * हरषि सुधा सम गिरा उचारी
धन्य धन्य गिरिराज कुमारी * तुम्ह समान नहीं कोउ उपकारी

श्रीरामचन्द्रजी को प्रणामकर शिवजी प्रसन्न हो अमृत के समान वाणी बोले-हे पार्वती ! धन्य है, धन्य है, तुम्हारे समान उपकारी कोई नहीं है ।

पूछेउ रघुपति कथा प्रसङ्गा * सकल लोक जग पावनि गङ्गा
तुम्ह रघुपति चरनन्ह अनुरागी * कीन्हहु प्रश्न जगहित लागी

तुमने रामजी की कथा का प्रसंग पूछा जो सबलोकों को पवित्र करने वाली गंगा के समान

कौतुकी नारद-मुनि उस नगर में गये और नगर-वासियों से सब हाल पूछा । समाचार सुनकर राजमहल में आये, तब राजा ने मुनि को पूजा करके उन्हें आसन पर बंठाया ।

दोहा-आनि देखाई नारदहि, भूपति राजकुमारी ।

कहहु नाथ गुनदोष सब, एहि के हृदयँ बिचारी ॥१३८॥

राजा ने राज-कन्या लाकर नारदजी को दिखाई और कहा-हे नाथ ! अपने हृदय में विचार कर राजकुमारी के दोष व गुण कहिए ।

**देखि रूप मुनि बिरत बिसारी * बड़ी बारि लागि रहे निहारी
लच्छन तासु बिलोक भुलाने * हृदयँ हरष नहिं प्रगटि बखाने**

उसके रूप को देख कर मुनि अपना वंराग्य भूल गये, बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रहे । उसके लक्षण देखकर अपने को भूल गये, मन में बहुत प्रसन्न हुये, पर प्रत्यक्ष में उन लक्षणों को नहीं कहा ।

**जो एहि बरइ अमर सोइ होई * समर भूमि तेहि जीत न कोई
सेवाहि सकल चराचर ताही * बरइ सीलनिधि कन्या जाही**

जो इस कन्या के साथ विवाह करेगा, वह अमर हो जावेगा, रणभूमि में उसे कोई जीत नहीं सकेगा । सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे, जिसे यह शीलनिधि की कन्या बरेगी ।

**लच्छन सब विचार उर राखे * कछुक बनाइ भूप सन भाषे
सुता सुलच्छन कहि नृप पाहीं * नारद चले सोच मन माहीं**

सब लक्षण विचार कर मन में रख लिए, कुछ बनाकर राजा से कहे । राजा से कन्या को सुलक्षणी कहकर नारदजी मन में सोच करते हुए चले ।

**करौं जाइ सोइ जतन विचारी * जेहि प्रकार मोहि वरै कुमारी
जप तप कछुन होइ तेहि काला * हे विधि मिलइकवन विधिवाला**

अब जाकर वही उपाय कहे, जिससे यह कन्या मुझे बर ले । इस समय जप-तप से तो कुछ नहीं हो सकता । हे विधाता ! वह कन्या मुझे किस प्रकार मिलेगी ?

दोहा-एहि अवसर चाहिअ परम, सोभा रूप विसाल ।

जो बिलोकि रीझे कुअँरि, तब मेलै जयमाल ॥१३९॥

उस समय तो बहुत शोभायमान विशाल रूप चाहिए, जिसे देखकर कन्या रोज़ जाय, तब यह जय-माला डालेगी ।

**हरि सन मागौं सुन्दरताई * हौइहि जात गहरु अति भाई
मोरे हित हरि सम नहिं कौऊ * एहि अवसर सहाय सोइ होऊ**

श्रीहरि से सुन्दरता मांगूँ, तो जाने में बहुत देर हो जायगी । श्रीहरि के समान मेरा हितथी और कोई नहीं है, इस समय वे ही मेरे सहायक हो सकते हैं ।

बहुविधिविनय कीन्ह तेहि काला * प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला

देवों ने राम के नाम, गुण सुन्दर चरित्र, जन्म, कर्म सभी असंख्य कहे हैं। जैसे भगवान श्रीरामजी अनन्त हैं, वैसे ही उनकी कथा, कीर्ति और अनेक गुणों का भी अन्त नहीं है।

तदपि जथाश्रुति जसिमत जोरो * कहिहउं देखि प्रीति अति तोरो
उमा प्रश्न तव सहज सुहाई * सुखद सन्त सम्मत मोहि भाई

तो भी जैसी मैंने सुनी है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसके अनुसार तुम्हारी अत्यन्त प्रीति देखकर कहता हूँ। हे पार्वती ! तुम्हारे प्रश्न स्वाभाविक ही सुहावने, सुखदायक और साधु-सम्मत हैं तथा मुझे भी बहुत अच्छे लगे हैं।

एक बात नहीं मोहि सोहानी * जदपि मोह बस कहेहु भवानी
तुम्ह जो कहा राम कोउ आना * जेहिंश्रुति गाव धरहिंमुनिध्याना

हे पार्वती ! एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि तुमसे अज्ञान वश होकर ही कही है, तुमने जो यह कहा कि वे श्रीराम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं।

दोहा—कहहिं सुनिहिं अस अधमनर, ग्रसे जो मोह पिशाच।

पाखण्डी हरिपद विमुख, जानहिं झूठ न सांच ॥१२३॥

ऐसी बात वे अधम मनुष्य ही कहते हैं—जो अज्ञानरूपी पिशाच से ग्रस्त, पाखण्डी और श्रीहरि के चरणों से विमुख है और झूठ-सच कुछ नहीं जानते हैं।

अग्य अक्रोविद अन्ध अभागी * काई विषय मुकुर मन लागी
लम्पट कपटी कुटिल विसेषी * सपनेहुं सन्त सभा नहीं देखी

जो अज्ञानी, मूर्ख, अन्धे और अभागे हैं तथा जिनके मनरूपी दर्पण पर विषयीरूपी काई लग रही है, जो लम्पट, छली और कुटिल हैं, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी सन्त समाज नहीं देखा।

कहहिं ते वेद असम्मत बानी * जिन्ह कें सूझ लाभु नहीं हानी
मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना * राम रूप देखहिं किमि दीना

जिन्हें लाभ-हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद-विरुद्ध बात कहते हैं। जिनका मनरूपी दर्पण मैला है और जिनके ज्ञानरूपी नेत्र नहीं हैं, वे बेचारे श्रीरामजी के रूप को कैसे देखें ?

जिन्ह कें अगुन न सगुन विबेका * जल्पहिं कल्पित वचन अनेका
हरि माया बस जगत भ्रमाहीं * तिन्हहिं कहत कछु अघटित नाही

जिनको निर्गुण और सगुण का ज्ञान नहीं है, जो अनेक प्रकार की मनमानी बातें बकते हैं, जो हरि की माया वश जगत में भ्रमते हैं, उनको कुछ भी कह डालना असम्भव नहीं है।

बातुल भूत विश्व मतवारे * ते नहीं बोलहिं वचन बिचारे
जिन्ह कृत महासोह मद पाना * तिन्ह कर कहा करिअ नहीं काना

जो बाल-रोग से बकवाद करने वाले, सन्नपाती, उत्तम और मतवाले हैं, वे संभल कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने भारी अज्ञानरूपी मदरा को पी लिया है, उनके कहे हुए पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

सो०—अस निज हृदयँ विचारि, तजि संसय भजु रामपद।

दोहा—रहे तहाँ दुइ रुद्रगन, ते जानहिं सब भेउ ।

विप्र वेष देखत फिरहिं, परम कौतुकी तेउ ॥१४१॥

वहाँ शिवजी के दो गण थे, वे सभी भेद जानते थे । वे भी बड़े खिलवाड़ से ब्राह्मण के वेष में वहाँ का कौतुक देखते थे ।

जेहिं समाज बैठे मुनि जाई * हृदयँ रूप अहमित अधिकाई
तहँ बैठे महेश गन दोऊ * विप्र वेष गति लखइ न कोऊ

जिस समाज में नारद मुनि मन में अपने रूपका बड़ा घमंड किये जा बंठे थे, वहाँ महादेवजी के दोनों गण बंठे थे । परन्तु ब्राह्मण वेष में होनेके कारण उन्हें कोई नहीं पहचानता था ।

कराहिं कूटि नारदहि सुनाई * नीक दीन्हि हरि सुन्दरताई
रोझहि राजकुअँरि छवि देखी * इन्हहि वरिहि हरि जानि विशेषी

नारदजी को सुनाकर वे दोनों व्यंग करने लगे कि श्रीहरि ने इनको बड़ी अच्छी सुन्दरता दी है । राजकुमारों इनकी छवि को देखकर रोझ जायेंगे, इन्हीं को साक्षात् श्रीहरि जानकर वरेंगे ।

मुनिहि मोह मन हाथ पराएँ * हँसहिं शम्भु गन अति सचुपाएँ
जदपि सुनहिं मुनि अटपटि वानी * समुझि न परइ बुद्धि भ्रम सानी

मुनि तो मोह के वश थे, क्योंकि उनका मन पराये हाथ में था और शिवजी के गण उनको देखकर उनकी हँसी उड़ा रहे थे । यद्यपि नारद-मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, तो भी कुछ बात उनकी समझ में नहीं पड़ती थी, क्योंकि बुद्धि भ्रम में पड़ी हुई थी ।

काहुँ न लखा सो चरित विसेषा * सो स्वरूप नृपकन्याँ देखा
मरकट बदन भयङ्कर देही * देखत हृदयँ क्रोध भा तेही

यह विशेष चरित्र कोई भी नहीं जान सका । जब स्वयं कन्या ने वह स्वरूप देखा तो-
वन्दर का मुँह और भयंकर शरीर को देखकर उसके हृदय में बड़ा सोच हुआ ।

दोहा—सखी सङ्ग ले कुँवरि तब, चलि जनु राजमराल ।

देखत फिरहि महीप सब, कर सरोज जयमाल ॥१४२॥

तब राजकुमारों सखियों को संग लिए राज-हंसिनी के समान मन्द-गति से चली और कमलरूपी हाथों में जय-माला लिए सब राजाओं को देखते हुई फिरने लगी ।

जेहि दिशि बैठे नारद फूली * सो दिशि तेहि न विलोकी भूली
पुनिपुनि मुनि उकसाहि अकुलाही * देखि दशा हरगन मुसुकाहौ

जिस ओर नारदजी अग्निमान में फूले बंठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी न देखा । तब नारद मुनि बारम्बार ऊपरको उचकते और घबड़ाते थे, यह दशा देखकर शिवजी के गण हँसते थे,

धरि नृप तनु तहँ गयउ कृपाला * कुँवरि हरषि मेलिउ जयमाला
दुलहिन लै गए लच्छि निवासा * नृप समाज सब भयउ निरासा

राजाका वेष बनाकर प्रभु भी वहाँ गये, उन्हें देखते ही राजकुमारों ने प्रसन्न हो गलेमें जय

विषय कर सुर जीव समेता * सकल एक ते एक सचेता
सब कर करम प्रकाशक जोई * राम अनादि अवधपति सोई

विषय, इन्द्रियाँ, इन्द्रियों के देवता और जीव-ये सब एक से एक चेतन हैं। इन सबके परम प्रकाश वही अनादि-ब्रह्म अयोध्यापति श्रीरामजी हैं।

जगत् प्रकाश्य प्रकाशक रामू * मायाधीश ग्यान गुण धामू
जासु सत्यता ते जड़ माया * भास सत्य इव मोह सहाया

जगत् प्रकाश्य है और श्रीरामजी प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी तथा ज्ञान व गुण के धाम हैं, जिसकी सत्यता से जड़ माया भी मोह प्रतीत होती है।

दोहा-रजतसोपमहुँ भास जिमि, जथा भानु करि बारि ।

जदपि मृषा तिहुँ काल सोई, भ्रमनसकइ कोउ टारि ॥१२५॥

जैसे सोप में चाँदी और सूर्य की किरणों में भ्रम से जल प्रतीत होता है। यद्यपि यह तीनों काल में असत्य है, तो भी इस भ्रम को कोई टाल नहीं सकता।

एहि विधि जगहरि आश्रित रहई * जदपि असत्य देत सुख अहई
जाँ सपने सिर काटै कोई * बिनु जागें दुख दूरि न होई

इसी प्रकार जगत् भगवान् के सहारे रहता है। यद्यपि यह असत्य है, तो भी दुःखतो देता ही है। जैसे सपने में कोई सिर काट ले, तो विना जागे दुःख दूर नहीं होता।

जासु कृपाँ अस भ्रम टरि जाई * गिरिजा सोई कृपालु रघुराई
आदि अन्त कोउ जासु न पावा * मति अनुमान निगम अस गावा

हे पार्वती ! जिसकी कृपा से ऐसा भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्रीरघुनाथजी हैं, जिनका आदि-अन्त किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके ऐसा गाया है।

विनु पद चलइ सुनइ बिनु काना * करबिनु करम करइ विधि नाना
आनन रहित सकल रस भोगी * बिनु बानी बकता बड़ जोगी

वह ब्रह्म विना पैरके चलता है, विना कानके सुनता है, विना हाथ भाँतिर के काम करता है, विना मुख के सब रसों का स्वाद लेता है, विना वाणी के योग्य-वक्ता और बड़ा योगी है।

तनु विनु परस नयन विनु देखा * ग्रहइ घ्रान बिनु बास असेषा
असिसव भाँति अलौकिक करनी * महिमा जासु जाइ नहि बरनी

वह विना शरीर के ही स्पर्श करता है, विना नेत्रों के देखता है, विना नासिका के सब प्रकार की गंधों को सूँघता है। उसको करनी सब प्रकार से अलौकिक है, उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता।

दोहा-जेहि राम गावहि वेदबुध, जाहि कराहि मुनिध्यान ।

सोई दशरथ सुत भगतहित, कोसलपति भगवान् ॥१२६॥

जिन श्रीरामजी को वेद और पण्डित इस प्रकार गाते हैं और मुनि जिनका ध्यान करते

असुर को मदिरा और शिवजी को विष दिया, लक्ष्मी और कौस्तुभ-मणि अपने लिए रख ली। तुम अपना स्वार्थ सिद्धि करने वाले, सर्वत्र छल के व्यापार करते हो।

परम स्वतन्त्र न सिर पर कोई * भावइ मनहि करहु तुम्ह सोई भलेहि मन्द मन्दहि भल करहु * विषमय हरष न हियाँ कछु धरहु

तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, जो मन में अच्छा लगता है, वही काम तुम करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला करते हो, मन में कुछ विषाद व हयं नहीं है। डहकि डहकि परिचेहु सब काहु * अति असङ्ग मन सदा उछाहु करम सुभासुभ तुम्हहि न बाधा * अब लगि तुम्हहि न काहु साधा

ठगर कर सबको परीक्षा लेते हो, बहुत ही निडर हो, इसी से सदा प्रसन्न रहते हो। अच्छे-बुरे काम में तुम्हें कोई रोक नहीं, क्योंकि अब तक किसी ने तुमको ठीक नहीं किया।

भले भवन अब बायन दीन्हा * पावहुगे फल आपन कीन्हा वंचेहु मोहि जवनि धरि देहा * सोइ तनु धरहु श्राप मम ऐहा

अब भले घर में बायना दिया है, अपने किये का फल पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझको ठगा है, वही (राजा का) शरीर धारण करोगे—यह मेरा श्राप है।

कपि आकृति तुम्ह कीन्ह हमारी * करिहहिं कीस सहाय तुम्हारी मस अपकार कीन्ह तुम्ह भारी * नारि विरहं तुम्ह होव दुखारी

तुमने हमारी आकृति बन्दर की-सी बनाई थी, इसलिए बन्दर ही तुम्हारी सहायता करो तुमने हमारा बड़ा अहित किया है, इस कारण स्त्री के वियोग से तुम भी दुखी होओगे।

दोहा—श्राप सीसधरि हरषि हियाँ, प्रभु बहु विनती कीन्ह।

निज माया कै प्रबलता, करषि कृपानिधि लीन्ह ॥१४५॥

श्राप को शिरोधार्य कर प्रसन्न मन से प्रभु से मुनि को बहुत विनती की, फिर कृपानिधान प्रभु ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली।

जब हरि माया दूर निवारी * नाहिं तहं रमा न राजकुमारी तब मुनि अति सभित हरि चरना * गहे पाहि प्रनतारित हरना

जब श्रीहरि ने माया दूर करदी तो वहाँ न लक्ष्मीजी रहीं न राजकुमारी रही। तब मुनि ने बहुत डरकर श्रीहरिके चरणपकड़ लिये और बोले—हे भक्तों के दुःख दूर करने वाले, मेरी रक्षा करो।

मृषा होउ मम श्राप कृपाला * मम इच्छा कह दीनदयाला मैं दुर्वचन कहे बहुतेरे * कह मुनि पाप मिटहि किमिमोरे

हे कृपालु ! मेरा श्राप मिथ्या हो जाय। दीनदयालु प्रभु ने कहा—यह मेरी इच्छा से ही हुआ है। (नारदजी बोले—) मैंने आपको बहुत से दुर्वचन कहे हैं, मेरे यह पाप कैसे दूर होंगे?

जपहु जाइ शङ्कर सत नामा * होइहि हृदय तुरत विश्रामा

हे प्रभु! जो आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मैंने पहले पूछा था, वही कहिये। श्रीरामजी साक्षात् ब्रह्म, चिन्मय, अविनाशी, सब प्रपंचों से अलग और सबके हृदयरूपी पुर में वास करते हैं।

नाथ धरेउ नर तनु केहि हेतू * मोहि समुझाइ कहहु वृषकेतू
उमा बचन सुनि परम विनीता * राम कथा पर प्रीति पुनीता

हे नाथ! उन्होंने मनुष्य-शरीर किस कारण से धारण किया? हे वृषकेतु! यह आप मुझे समझाकर कहिये। पार्वती के अति विनम्र बचन सुनकर और श्रीरामजी की कथा पर उनकी पवित्र प्रीति देखकर—

दोहा—हियँ हरषे कामारि तब, शंकर सहज सुजान।

बहुविधि उमहि प्रसंसिपुनि, बोले कृपानिधान ॥१२८॥

कामदेव के शत्रु, स्वभाव से ही बड़े चतुर, कृपानिधान शंकरजी हृदय में प्रसन्न हुए। फिर पार्वतीजी को बहुत प्रकार से बड़ाई करते हुए बोले—

सो०—सुनु शुभ कथा भवानि, रामचरित मानस विमल।

कहा भुसुण्डि बखानि, सुना बिहँग नायक गरुड ॥१७॥

सो सम्वाद उदार, जेहि विधि भा आगे कहब।

सुनहु राम अवतार, चरित परम सुन्दर अनघ ॥१८॥

हरि गुन नाम अपार, कथा रूप अगनित अतित।

में निज मति अनुसार, कहहुँ उमा सादर सुनहु ॥१९॥

हे भवानी! 'रामचरित-मानस' नामक निर्मल और शुभकारी कथा सुनो, जिसको काक भुसुण्डिजी ने वर्णन किया और पक्षिराज गरुडजी ने सुना है। वह उत्तम सम्वाद जिस प्रकार से हुआ, सो आगे कहूँगा। अब तुम श्रीरामजी के अवतार का बहुत सुन्दर और पाप नाशक चरित्र सुनो—हे भवानी! श्रीहरि के गुण, नाम, कथायें और रूप—अपार, असंख्य और असीम हैं। तो भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर सहित सुनो।

सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए * विपुल बिसद निगमागम गाए
हरि अवतार हेतु जेहि होई * इदमित्थं कहि जाइ न सोई

हे पार्वती! सुनो, वेद-शास्त्रों ने हरि के सुन्दर और पवित्र चरित्र वर्णन किये हैं। हरि का अवतार जिस कारण से होता है, वह कारण ठीक नहीं कहा जा सकता कि यह किस प्रकार से है।

राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी * मत हमार अस सुनहु सयानी
तदपि सन्त मुनि वेद पुराना * जसकछुकहहिँ स्वमति अनुमाना

हे भवानी! हमारा मत यह है कि श्रीरामजी बुद्धि, मन और वाणी से विचार में नहीं आते हैं। तथापि-सन्त, वेद पुराण जैसा कुछ अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं।

तस मैं सुमुखि सुनावउँ तोही * समुझि परइ जस कारन मोही

एहि विधि जनमकरमहरि केरे * सुन्दर सुखद विचित्र घनेरे
कल्प कल्प प्रतिप्रभु अवतरहीं * चारु चरित नाना विधि करहीं

इस प्रकार श्रीहरि के जन्म और कर्म अनेक, सुन्दर सुखदायक और बहुत विचित्र हैं। प्रत्येक कल्प में जब-जब भगवान् अवतार लेते हैं और अनेक प्रकार के सुन्दर चरित्र करते हैं।

तब तब कथा मुनीसन्ह गाई * परम पुनीत प्रबन्ध बनाई
विविध प्रसङ्ग अनूप बखाने * करहिं न सुनि आचरजु सयाने

तब-तब पवित्र काव्य रचकर मुनीश्वरों ने कथाओं का वर्णन किया है। उनमें भांति २ के अनुपम प्रसङ्ग वर्णन किये हैं, जिन्हें सुनकर चतुर लोग आश्चर्य नहीं करते हैं।

हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता * कहहिं सुनिं बहु विधि सब सन्ता
रामचन्द्र के चरित सुहाए * कल्प कोटि लगी जाहिं न गाए

श्रीहरि अनन्त हैं और उनकी कथायें भी अनन्त हैं, जिन्हें साधु बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं श्रीरामचन्द्रजी के सुहावने चरित्र करोड़ों कल्पों में भी नहीं गाये जा सकते।

यह प्रसङ्ग मैं कहा भवानी * हरि माया मोहहिं मुनि ग्यानी
प्रभु कोतुकी प्रणत हितकारी * सेवत सुलभ सकल दुखुहारी

हे पार्वती ! यह प्रसङ्ग मैंने तुमको इसलिए सुनाया है कि श्रीहरि की माया से ज्ञानी मुनि भी मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी और भयत हितकारी हैं, सेवा करने से सुलभ और सब दुःखों को हरने वाले हैं।

सो०-सुर नर मुनि कोउ नाहिं, जेहिं न मोह माया प्रबल।

अस विचारि मन माहिं, भजिअ महामाया पतिहिं ॥२१॥

देवता, मनुष्य और मुनि कोई भी ऐसा नहीं है, जिसे भगवान् की प्रबल मायाने मोहित नहीं किया हो। ऐसा मनमें विचार कर महामाया के स्वामी श्रीभगवान् का भजन करना चाहिए।

अपर हेतु सुनु शैलकुमारी * कहउं विचित्र कथा विस्तारी
जेहिं कारन अज अगुन अरूपा * ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा

हे पार्वती ! अब दूसरा कारण सुनो-मैं एक अद्भुत कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण अजन्मा, निर्गुण, रूप रहित, ब्रह्म-अवघ-नरेश हुए।

जो प्रभु विपिन फिरत तुम्ह देखा * बन्धु समेत धरें मुनि वेषा
जासु चरित अवलोकि भवानी * सती शरीर रहिहु वौरानी

जिन प्रभुको वनमें भाई लक्ष्मण सहित मुनि-वेष में फिरते हुए तुमने देखा था और जिनके चरित्रको देखकर, हे भवानी ! तुम सती के शरीर से ऐसे मोह को प्राप्त होगई थीं कि-

जहुं न छाया मिटत तुम्हारी * तासु चरित सुनु भ्रम रुज हारी
लीला कीन्हि जो तेहिं अवतारा * सो सब कहिहुं मति अनुसा

अब भी तुम्हारी भ्रमरूपी छाया दूर नहीं होती, अब उन्हीं के चरित्र सुनो, जो भ्रमरूपी रो-

मुकुत न भए हते भगवाना * तीनि जनम द्विज बचन प्रवाना
एक वार तिन्ह के हित लागी * धरेउ शरीर भगत अनुरागी

दोनों राक्षस यद्यपि भगवान के हाथों से मारे गये, तो भी उनकी मुक्ती नहीं हुई। तीन जन्मों तक राक्षस होने का उनको श्राप था। एक वार उनके हित के लिए भक्तों पर स्नेह करने वाले प्रभु ने जन्म लिया।

कश्यप अदिति तहाँ पितु माता * दशरथ कौसल्या विख्याता
एक कल्प एहि विधि अवतारा * चरित पवित्र किए संसारा

उस अवतार में कश्यप और अदिति माता-पिता-दशरथ और कौसल्या नाम से प्रसिद्ध हुए। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर संसार में बहुत से पवित्र चरित्र किये।

एक कल्प सुर देखि दुखारे * समर जलन्धर सन सब हारे
सम्भु कीन्ह संग्राम अपारा * दनुज महाबल मरइ न मारा

एक कल्प में सब देवता जलन्धरदैत्य से युद्ध में हार गये, तब उन्हें दुखी देख शिवजी ने उससे बहुत युद्ध किया। परन्तु यह दैत्य महाबली था, अतः शिवजी के मारे नहीं मरा।

परम सती असुराधिप नारी * तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी

दैत्यराज जलन्धरकी स्त्री परम सती थी, उसके पतिव्रत-धर्मके बलसे शिवजी उसे न जीतसके।

दोहा-छल करि टारेउ तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन्ह।

जब तेहि जानेउ मरम तब, श्राप कोष करि दीन्ह ॥१३१॥

प्रभु ने छल से उसका व्रत भङ्ग कर देवताओं का कार्य पूरा किया। जब उसी स्त्री ने भेद जाना, तब क्रोध करके श्रीहरि को श्राप दिया।

तासु श्राप हरि कीन्ह प्रमाना * कोतुक निधि कृपाल भगवाना
तहाँ जलन्धर रावन भयउ * रन हति राम परम पद दयउ

उसका श्राप लीला-निधि कृपालु भगवान् ने अङ्गीकार किया। वहाँ वही जलन्धर रावण हुआ, उसे श्रीरामजी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया।

एक जनम कर कारन ऐहा * जेहि लगि राम धरी नर देहा
प्रति अवतार कथा प्रभु केरी * सुनु मुनि वरनी कविन्ह घनेरी

एक जन्म का कारण यह है, जिसके लिए श्रीरामजी ने मनुष्य-शरीर धारण किया। प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा मुनियों से सुनकर कवियों ने विस्तार से कही है।

नारद श्राप दीन्ह एक वारा * कल्प एक तेहि लगि अवतारा
गिरिजा चकित भई सुनि बानी * नारद विष्णु भगत पुनि ग्यानी

एक वार नारदजी ने श्राप दिया, सो एक वार कल्पमें उसी कारणसे अवतार हुआ। यह मुन आश्चर्य चकित होकर पार्वतीजी बोलीं-नारदजी तो श्रीहरि-भक्त और ज्ञानी मुनि हैं।

कारन कवन श्राप मुनि दीन्हा * का अपराध रमापति कीन्हा

तब-मनु जबदंस्ती पुत्र उत्तानपाद को राज्य देकर, स्वयं रानी सहित बन को चल बिये। अति पवित्र और साधक-जनों को सिद्धि देने वाला, तीर्थ में श्रेष्ठ नैमिषारण प्रसिद्ध है।

वसहिं जहाँ मुनि सिद्ध समाजा * तहँ हियँ हरषि चले मनु राजा
पन्थ जात सोहहिं मति धीरा * ग्यान भगति जनु धरें शरीरा

वहाँ सिद्धि-मुनि लोग रहते थे, राजा मनुमन में प्रसन्न होकर वहाँ चले। मार्ग में जाते हुए वे दोनों धीर-बुद्धि ऐसे शोभायमान लगते थे, मानो ज्ञान व भक्ति देह धारण कर जा रहे हों। पहुँचे जाइ धेनुमति तीरा * हरषि नहाने निर्मल नीरा

आए मिलन सिद्ध मुनि ग्यानी * धरम धुरन्धर नृपञ्चूषि जानी
वे दोनों गोमती नदी के किनारे जा पहुँचे, वहाँ प्रसन्न होकर निर्मल जल में स्नान किया। तब फिर उन्हें धर्म-धुरन्धर, राजर्षि जानकर-सिद्धि, मुनि, ज्ञानी उनसे मिलने आये।

जहँ तहँ तीरथ रहे सुहाए * मुनिन्ह सकल सादर करवाए
कृस शरीर मुनिपट परधाना * सत समाज नित सुनिहिं पुराना

जहाँ २ सुन्दर तीर्थ थे, सभी मुनियों ने आदर सहित करवाये। राजा-रानी का शरीर दुबला होगया था, मुनियों के समान वस्त्र धारण कर साधु-जनों की सभा में नित्य पुराण सुनते थे। दोहा-द्वादश अक्षर मन्त्र पुनि, जपहिं सहित अनुराग।

वासुदेव पद पङ्करुह, दम्पति मन अति लाग ॥१४६॥

बारह अक्षर का सुन्दर मन्त्र (ओ३म नमो भगवते वासुदेवाय) स्नेह सहित जपने लगे। भगवान् श्रीवासुदेव के चरणों में दोनों राजा-रानी का मन भली-भाँति लग गया।

करहिं अहार शाक फल कन्दा * समिराहिं ब्रह्म सच्चिदानन्दा
पुनि हरि हेतु करन तप लागे * वारि अधार मूल फल त्यागे

वे शाक, फल और कन्द-मूल-फल का भोजन कर सच्चिदानन्द ब्रह्म का स्मरण करते थे। पुनः वे श्रीहरि के निमित्त तप करने लगे और केवल जल के आधार से रहने लगे। मूल-फल का आधार भी छोड़ दिया।

उर अभिलाषा निरन्तर होई * देखिअ नयन परम प्रभु सोई
अगुन अखण्ड अनन्त अनादी * जेहिं चिन्तहिं परमारथवादी

मन में सदैव यह इच्छा होने लगी कि उन परम प्रभु का नेत्रों से साक्षात् दर्शन करें, जो निर्गुण अनन्त और अनादि हैं, परमार्थवादी पुरुष जिनका सदैव ध्यान करते हैं।

नेति नेति जेहिं वेद निरूपा * निजानन्द निरूपाधि अनूपा
शम्भु विरंचि विष्णु भगवाना * उपजाहिं जासु अंश तें नाना

जिन प्रभु की वेदों ने नेति कहकर निरूपण किया है, जो सर्वदा आनन्द-स्वरूप, उपाधि रहित व अनुपम हैं। जिनके अंश से अनेक शिव, ब्रह्मा और श्रीहरि-भगवान् उत्पन्न होते हैं। ऐसेउ प्रभु सेवक वस अहई * भगत हेतु लौला तनु गहई

कुसुमित विविध विट्य बहुरङ्गा * कुंजहिं कोकिल गुंजहिं भृगा

उस आश्रम में कामदेव गया तो वहाँ उसने अपनी माया से वसन्त-ऋतु को प्रकट किया और भाँति-भाँति के वृक्षों पर रङ्ग-विरंगे फूल खिल गये। उन पर कोयलें मधुर-स्वर से बोलने लगीं और भौरे गुञ्जारने लगे।

चली सुहावनि त्रिविध बयारी * काम कृसानु बढावनिहारी
रम्भादिक सुरनारि नवीना * सकल असमसर कला प्रवीना

तीनों प्रकार की सुहावनी पवन चलने लगीं, जो कामाग्नि को बढ़ाने वाली हैं। रम्भा-दिक युवा देवाङ्गनायें जो सब काम-कलाओं में चतुर हैं।

करहिं गान बहु तान तरङ्गा * बहु विधि क्रीडहिं पानि पतङ्गा
देखि सहाय मदन हरषाना * कीन्हेसि पुनि प्रपंच विधि नाना

वे अनेक प्रकार के गान स्वर से गाने लगीं, हाथ में गेंद लेकर बहुत से खेल करने लगीं अपने सहायकों को देखकर कामदेव प्रसन्न हुआ और उसने अनेक प्रकार के छल किये।

काम कलाकछु मुनिहि न व्यापी * निज भयँ डरेउ मनोभव पापी
सीम कि चाँपि सकइ कोउ तासू * बड़ रखवार रमापति जासू

कामदेव की मायाका प्रभाव मुनि पर कुछ भी न हुआ, तब वह पापी अपने भयसे आपहीमर गया। क्या उसकी सीमा को कोई दबा सकता है, जिसके बड़े रक्षक लक्ष्मीपति भगवान् हों?

दोहा—सहित सहाय सभित अमि * मानि हारि मन मैनि।

गहेसि जाइ मुनि चरन तब, कहि सुनि आरत बैन ॥१३४॥

अपने सहायकों सहित कामदेव ने बहुत ही डरकर मन में हार मानकर दीन वचन कहते हुए नारदजी ने चरण पकड़ लिये।

भयउ न नारद मन कछु रोषा * कहि प्रिय वचन काम परितोषा
नाइ चरन सिर आयसु पाई * गयउ मदन तब सहित सहाई

नारदजी के मनमें कुछ क्रोध न हुआ, मीठे वचन कहकर कामदेव को संतुष्ट किया। तब कामदेव अपने सहायकों सहित मुनि के चरणोंमें सिर नवाकर, आज्ञा पाकर देवलोक को चला गया।

मुनि सुशीलता आपनि करनी * सुरपति सभाँ जाइ सब बरनी
सुनि सबके मन अचरज आवा * मुनिहि प्रसंसहि हरिहिसिर नावा

कामदेव ने नारदजी की सहनशीलता और अपनी करनी इन्द्रकी सभामें जाकर कही-मुन-कर सबके मनमें अचरज हुआ और मुनि की बड़ाई करके सबने हरि-भगवान् को सिरनवाया।

तब नारद गवने सिव पाहीं * जिता काम अह मिति मन माहीं
काम चरित शङ्करहिं सुनाए * अति प्रिय जानि महेस सिखाए

तब नारदजी शिवजी के पास गये, कामदेव को जीतने से मनमें अहंकार भरा था, कामदेव के चरित्र शिवजी को सुनाये, तब नारदजी को बहुत प्रिय जानकर शिवजी ने शिक्षा दी—

तब-मनु जबदंस्ती पुत्र उत्तानपाद को राज्य देकर, स्वयं रानी सहित वन को चल बिये। अति पवित्र और साधक-जनों को सिद्धि देने वाला, तीर्थ में श्रेष्ठ नैमिषारण प्रसिद्ध है।

वसिंहि जहाँ मुनि सिद्ध समाजा * तहँ हियँ हरषि चले मनु राजा
पन्थ जात सोहँहि मति धीरा * ग्यान भगति जनु धरें शरीरा

वहाँ सिद्धि-मुनि लोग रहते थे, राजा मनुमन में प्रसन्न होकर वहाँ चले। मार्ग में जाते हुए वे दोनों धीर-बुद्धि ऐसे शोभायमान लगते थे, मानो ज्ञान व भक्ति देह धारण कर जा रहे हों।

पहुँचे जाइ धेनुमति तीरा * हरषि नहाने निर्मल नीरा
आए मिलन सिद्ध मुनि ग्यानी * धरम धुरन्धर नृपञ्चुषि जानी

वे दोनों गोमती नदी के किनारे जा पहुँचे, वहाँ प्रसन्न होकर निर्मल जल में स्नान किया। तब फिर उन्हें धर्म-धुरन्धर, राजर्षि जानकर-सिद्धि, मुनि, ज्ञानी उनसे मिलने आये।

जहँ तहँ तीरथ रहे सुहाए * मुनिन्ह सकल सादर करवाए
कृस शरीर मुनिपट परधाना * सत समाज नित सुनहि पुराना

जहाँ २ सुन्दर तीर्थ थे, सभी मुनियों ने आदर सहित करवाये। राजा-रानी का शरीर दुबला होगया था, मुनियों के समान वस्त्र धारण कर साधु-जनों की समा में नित्य पुराण सुनते थे।

दोहा—द्वादश अक्षर मन्त्र पुनि, जपहि सहित अनुराग।

वासुदेव पद पङ्कह, दम्पति मन अति लाग ॥१४८॥

बारह अक्षर का सुन्दर मन्त्र (ओ३म नमो भगवते वासुदेवाय) स्नेह सहित जपने लगे। भगवान् श्रीवासुदेव के चरणों में दोनों राजा-रानी का मन भली-भाँति लग गया।

करहि अहार शाक फल कन्दा * समिराहि ब्रह्म सच्चिदानन्दा
पुनि हरि हेतु करन तप लागे * वारि अधार मूल फल त्यागे

वे शाक, फल और कन्द-मूल-फल का भोजन कर सच्चिदानन्द ब्रह्म का स्मरण करते थे। पुनः वे श्रीहरि के निमित्त तप करने लगे और केवल जल के आधार से रहने लगे। मूल-फल का आधार भी छोड़ दिया।

उर अभिलाषा निरन्तर होई * देखिअ नयन परम प्रभु सोई
अगुन अखण्ड अनन्त अनादी * जेहि चिन्तहि परमारथवादी

मन में सदैव यह इच्छा होने लगी कि उन परम प्रभु का नेत्रों से साक्षात् दर्शन करें, जो निर्गुण अनन्त और अनादि हैं, परमार्थवादी पुरुष जिनका सदैव ध्यान करते हैं।

नेति नेति जेहि वेद निरूपा * निजानन्द निरूपाधि अनूपा
शम्भु विरंचि विष्णु भगवाना * उपजाहि जासु अंश ते नाना

जिन प्रभु को वेदों ने नेति कहकर निरूपण किया है, जो सर्वदा आनन्द-स्वरूप, उपाधि रहित व अनुपम हैं। जिनके अंश से अनेक शिव, ब्रह्मा और श्रीहरि-भगवान् उत्पन्न होते हैं।

ऐसेउ प्रभु सेवक वस अहई * भगत हेतु लीला तनु गहई

व्रत पालन करने वाले और धीर-बुद्धि हैं। भला, कहीं आपको कामदेव पीड़ित कर सकत नारद कहेउ सहित अभिमाना * कृपा तुम्हारि सकल भगव

करुना निधि मन दीख विचारी * उर अँकुरेउ गरब तर भ

नारदजी ने अभिमान के साथ कहा—हे भगवान् ! यह सब आपकी ही कृपा है। वृ निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि नारद के हृदय में अब अहंकार-रूपी भ वृक्ष का अंकुर उत्पन्न होगया है।

वेगि सो मैं डारिहउँ उखारी * पन हमार सेवक हितकार

मुनि कर हित मत कौतुक होई * अबसि उपाय करिब मैं सोइ

मैं उसे शीघ्र ही उखाड़ डालूँगा, क्यों कि भक्तों का ही हित हमारा प्रण है। मुनि का हित और मेरा कौतुक हो, मैं अवश्य वही उपाय करूँगा।

तब नारद हरि पद सिर नाई * चले हृदयँ अहिमिति अधिकारि

श्रीपति निज माता सब प्रेरी * सुनहु कठिन करनी तेहि केरी

तब नारदजी श्रीहरि के चरणों में सिर नवाकर हृदय में अभिमान से भरे हुए चल दिये तब श्रीपति भगवान ने अपनी माया को रचा, अब उसने जो कठिन करनी की, उसे सुनो— दोहा—बिचरेउ भग बहु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार।

श्री निवासपुर तें अधिक, रचना विविध प्रकार ॥१३७॥

मार्ग में चौरासी कोस का भवन बना दिया। लक्ष्मी-निवास भगवान के वैकुण्ठ से भी अधिक अनेक प्रकार की वनावट उस नगर में थी।

बसहिं नगर सुन्दर नर नारी * जनु बहु मनसिज रति तनुधारी

तेहि पुर बसहु शील निधिराजा * अगनित हय गय सेन समाजा

जिस नगरमें सुन्दर स्त्री-पुरुष, कामदेव और रतिके समान शरीर धारण किये वास करते थे। उस नगर में शीलनिधि राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और बहुत-सी सेना थी।

सत सुरेस सम विभव विलासा * रूप तेज बल नीति निवासा

विश्वमोहनी तासु कुमारी * श्री विशोह जिसु रूप निहारी

सौ इन्द्रों के समान उसका ऐश्वर्य, सुख था और वह बलनीति का स्थान था। उस राजा विश्वमोहिनी नाम की एक कन्या थी, जिसका रूप देखकर लक्ष्मीजी मोहित होजायें।

गोइ हरि माया सब गुन खानी * सोभा तासु कि जाइ बखानी

र स्वयंवर सो नृपवाला * आए तहँ अगनित सहिपाला

वह सब गुणों की खान हरि-माया थी। क्या उसकी सोभा बखानी जा सकती है? वह कुमारी स्वयंवर करना चाहती, इस कारण वहाँ बहुत से राजा आये हुए थे।

कोतुकी नगर तेहि गयऊ * पुरवासिन्ह सब पूछत भयऊ

सब चरित भूप गहँ आए * करि पूजा नृप मुनि बैठाए

कोतुकी नाम की एक कन्या थी, जिसका रूप देखकर लक्ष्मीजी मोहित होजायें।

जौं अनाथ हित हम पर नेहू * तौ प्रसन्न होइ यह वर देहू-
जो सरूप बस शिव मन माहीं * जेहिं कारन मुनि जतन कराहीं

हे अनाथों के हितकारी ! जो हम पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न हो यह वरदान दो कि आपका जो स्वरूप शिवजी के मतमें वास करता है और जिसके लिये मुनि लोग उपाय करते हैं।

जो भुशुण्डि मन मानस हंसा * सगुन अगुन जेहिं निगम प्रशंसा
देखाहिं हम सो रूप भरिलोचन * कृपा करहु प्रनतारित मोचन

जो स्वरूप काकभुशुण्डिजी के मनरूपो मान सरोवर में हंस के समान विहार करता है, सगुण-निर्गुण कहकर वेदों-में जिसकी प्रशंसा की गई है। हे शरणागत के दुखों का नाश करने वाले प्रभु ! ऐसी कृपा कीजिये कि वह स्वरूप हम नेत्र भरकर देखें।

दम्पति वचन परम प्रिय लागे * मृदुल विनीत प्रेम रस पागे
भगत बछल प्रभु कृपानिधाना * विश्ववास प्रगटे भगवाना

राजा-रानी के वह कोमल, विनय से पूर्ण प्रेम भरे वचन भगवान् को बहुत प्रिय लगे। तब भवत-वत्सल, कृपानिधान, विश्व-व्यापी प्रभु प्रकट हो गये।

दोहा-नील सरोरुह नील मनि, नील नीर धरि श्याम।

लाजाहिं तनु शोभा निरखि, कोटि कोटि सतकाम ॥१५२॥

नील-कमल, नीलमणि, नील-घटा वाले मेघ के समान श्याम शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाते हैं।

शरद मयङ्क वदन छवि सींवा * चारुकपोल चिबुक दर ग्रीवा
अधर अरुण रद सुन्दर नासा * विधुकर निकर विनिन्दक हासा

उनका मुख शरत् के पूर्ण चन्द्रमा की काँति के समान छवि की सीमा स्वरूप था, सुन्दर कपोल, शंख के समान तीन रेखा वाली सुन्दर ग्रीवा थी। होठ लाल, दाँत और नाम सुन्दर थे। चन्द्रमा की किरणों की नीचा दिखाने वाली मनोहर हँसी थी।

नव अम्बुज अम्बक छविनीकी * चितवनि ललित भावती जीकी
भृकुटि मनोज चाप छवि हारी * तिलक ललाट पटल दुतिकारी

नवीन कमल के समान विशाल नेत्रों की सुन्दर शोभा थी, चितवन ऐसी सुन्दर थी कि मन को हर लेती थी कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली भृकुटी थी, विशाल मस्तक पर तिलक बहुत शोभायमान और देवीप्यमान हो रहा था।

कुण्डल मकर मुकुट सिर भ्राजा * कुटिल केश जनु मधुप समाजा
उद श्रीवत्स रुचिर वनमाला * पदिक हार भूषन मणिजाला

मकराकृत-कुण्डल, शोश पर रत्न-जड़ित मुकुट शोभायमान था, घूँघर वाले बाल मानो भौरो के शुण्ड थे, हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह, सुन्दर वन-माला, जड़ाऊ-हार तथा मणियों के आभूषण धारण किये थे।

प्रभु विलोक मुनि नयन जुड़ाने * होइहि काजु हिँ हरषाने

उस समय नारदजी ने श्रीहरि की बहुत प्रकार से विनती की, तब कौतुकी कृपालु प्रभु वहाँ प्रगट हो गये। प्रभु को देखकर नारदजी के नेत्र शीतल होगये और सोचा-अब काम बन जायगा, यह समझकर मन में प्रसन्न हुए।

अति आरति कहि कथा सुनाई * करहु कृपा करि होहु सहाई
आपन रूप देहु प्रभु मोही * आन भाँति नहिं पावौं ओही

बड़ी दीनता से सब कथा सुना दी और कहा-हे प्रभु! मुझ पर कृपा कीजिये और सहायक बनिये। आप अपना रूप मुझको दीजिये, क्योंकि और किसी प्रकार से मैं उसे नहीं पा सकूँगा।

जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा * करहुँ सो बेगि दास मैं तोरा
निज माया बलि देखि विसाला * हिँ हँसि बोले दीनदयाला

हे नाथ! जिस प्रकार मेरा भला हो वही शीघ्र कीजिये, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का अति प्रभाव देखकर दीनों पर दया करने वाले दीनदयालु मन ही मन हँसकर बोले-

दोहा-जेहि विधि होइहि परमहित, नारद सुनहु तुम्हार।

सोइ हम करव न आन कछु, बचन न मृषा हमार ॥१४०॥

हे नारदजी! सुनो-जिस प्रकार से तुम्हारा परम हित होगा, हम वही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, हमारा वचन मिथ्या नहीं है।

कुपथ माँगु रुज व्याकुल रोगी * वैद न देइ सुनहु मुनि जोगी
एहि विधिहित तुम्हार मैं ठयऊँ * कहि अस अन्तरहित प्रभु भयऊँ

हे योगी मुनि! सुनो-जैसे रोग से पीड़ित रोगी कुपथ्य माँगता है, परन्तु बंध नहीं देता। इसी प्रकार मैंने तुम्हारा हित विचारा है। ऐसा कहकर प्रभु अन्तर्धान हो गये।

माया विवस भए मुनि मूढ़ा * समुझी नहिं हरि गिरा निगूढ़ा
गवने तुरत तहाँ रिषिराई * जहाँ स्वयम्बर भूमि बनाई

हरि की माया के बरा में मुनी ऐसे मोहित होगये कि वे भगवान की स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। फिर ऋषिराज नारदजी तुरन्त वहाँ गये-जहाँ स्वयम्बर-भूमि बनी थी।

निज निज आसन बैठे राजा * वहु वनाव करि सहित समाजा
मुनि मन हरष रूप अति मोरें * मोहि तज आनहि वरहिं न भोरें

अपने-अपने आसनों पर राजा लोग बत-ठनकर समाज सहित बैठे हुए थे। नारदमुनि के मन में बड़ी प्रसन्नता थी कि मेरा रूप सबसे सुन्दर है, इसलिए यह राजकुमारी मुझे छोड़ कर किसी दूसरे को भूलकर भी नहीं वरेगी।

मुनि हित कारन कृपानिधाना * दीन्ह कुरूप न जाइ वखाना
सो चरित्र लखि काहुँ न पावा * नारद जानि सर्वाहिं सिरु नावा

मुनि के हित के लिये कृपानिधान श्रीहरि-भगवान ने उन्हें ऐसा कुरूप दिया था-जो कहा नहीं जाता। यह चरित्र किसी ने नहीं जाना और नारद जानकर सभी ने सिर नवाया।

प्रभु के वचन सुन, हाथ जोड़, धीरज धर, मनु मधुर वाणी से बोले—हे नाथ ! आपके चरणों के दर्शन कर हमारी सब कामनायें सिद्ध हो गईं ।

इक लालसा बड़ि उर माहीं * सुगम अगम कहि जात सो नाहीं
तुम्हहि देत अति सुगम गोसाईं * अगम लागि मोहि निज कृपनाईं

परन्तु मेरे मन में एक बड़ी लालसा है, सुगम भी है और कठिन भी, सो कही नहीं जाती । हे स्वामी ! आपके देने में तो सुगम है, परन्तु मुझे अपनी कृपणता से कठिन जान पड़ती है ।

जथा दरिद्र विबुधतरु पाई * बहु सम्पति माँगत सकुचाई
जासु प्रभाउ जान नाहि सोई * जथा हृदय मम संसय होई

जैसे दरिद्री मनुष्य कल्पवृक्ष को पाकर भी बहुत-सी सम्पत्ति माँगने में संकोच करता है । क्योंकि वह उसके अभाव को नहीं जानसकता । इसी प्रकार मेरे मन में सन्देह होता है ।

सो तुम्ह जानहु अन्तरजामी * पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी
सकुच बिहाइ माँगु नृप मोही * मोरें नाहि अदेय कछु तोही

हे स्वामी ! आप अन्तर्यामी हैं, अतः उसे जानते ही हैं, मेरा मनोरथ पूरा करें । भगवान् बोले—हे राजन् ! संकोच छोड़ मुझसे वरमाँग, मेरे पास कोई वस्तु ऐसी नहीं जो तुझे न दे सकूँ ।

दोहा—दानि सिरोमनि कृपानिधि, नाथ कहउँ सतिभाउ ।

चाहउँ तुम्हहि समान सुत, प्रभुसन कवन दुराउ ॥१५५॥

राजा मनु बोले—हे दानियों में शिरोमणि ! हे कृपानिधान स्वामी ! मैं सच्चे भाव से कहता हूँ कि मैं आपके ही समान पुत्र चाहता हूँ । प्रभु से क्या छिपाऊँ ?

देखि प्रीति सुनि वचन अमोले * एवमस्तु करुनानिधि बोले
आपु सरिस खोजों कहँ जाई * नृप तव तनय होव मैं आई

राजा की प्रीति देख और अमूल्य वचन सुन करुणा निधान भगवान् बोले ऐसा ही होगा । मैं अपने समान कहां जाकर खोजूँगा, अतः हे राजन् ! मैं ही आकर तुम्हारा पुत्र होऊँगा ।

सतरूपाहि विलोकि कर जोरें * देवि माँगु वर जो रुचि तोरें
जो वरु नाथ चतुर नृप माँगा * सोइ कृपालु मोहि अतिप्रियलागा

शतरूपा को हाथ जोड़े देखकर भगवान् बोले—हे देवी ! तुम्हें अच्छा लगे सो वर माँगलो । शतरूपा ने कहा—हे नाथ ! जो वर चतुर राजा ने माँगा है, हे कृपालु ! वही मुझे बहुत प्रिय है ।

प्रभु परन्तु सुठि होति ढिठाई * जदपि भगतहित तुम्हहि सुहाई
तुम्ह ब्रह्मादिजनक जग स्वामी * ब्रह्म सकल उर अन्तरजामी

परन्तु, प्रभु ! यह बहुत कठिन है, यद्यपि भक्त के हेतु वह भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप ब्रह्मादिकों के उत्पन्न करने वाले, जगत् के स्वामी साक्षात्ब्रह्म और अन्तर्यामी हैं ।

अस समुद्रुत मन संसय होई * कहा जो प्रभु प्रमान पुनि सोई
जे निज भगत नाथ तव अहहीं * जो सुख पार्वहि जो गति लहहि

माला पहनादी। कुलहिन को लक्ष्मी निवास भगवान ले गए सब राज-समाज निराश होगया।
मुनि अति बिकल मोहँ मतिनाँठी * मनि गिरि गई छूट जनु गाँठी
तब हरगण बोले मुसुकाई * निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई

नारद मुनि मोह से बुद्धि नष्ट होजाने के कारण बहुत व्याकुल हुए; जैसेकि उनकी गाँठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब दोनों रत्न-गण हँसकर बोले कि अपना मुख तो दर्पण में जाकर देखो।

अस कहि दोउ भागे भयँ भारी * बदन दीख मुनि बारि निहारी
वेषु विलोकि क्रोध अति बाड़ा * तिन्हहि सराप दीन्ह अति गाढ़ा
इस प्रकार कहकर वे दोनों बहुत डरकर भागे। मुनि ने जल में झाँककर अपना मुख देखा तो बन्दर का रूप देखकर बहुत ही क्रोध बढ़ा, तब रत्नगणों को महा घोर शाप दिया-
दोहा-होहु निसाचर जाइ तुम्ह, कपटी पापी दोउ।

हँसेउ हमहि सो लेहु फल, बहुरि हँसेहु जनि कोउ ॥४४३॥

तुम दोनों छली और पापी हो, जाकर निशाचर होजाओ। हमको देखकर हँसे हो, उसका फल भोगो, फिर किसी मुनि की हँसी न करना।

पुनि जल दीख रूप निज पावा * तदपि हृदयँ सन्तोष न आवा
फरकत अधर कोष मन माहीं * तदपि चले कमलापति पाहीं

फिर जल में देखा तो अपना स्वरूप पाया। तो भी हृदय में सन्तोष न हुआ। होठ काँपने लगे, मन में क्रोध था, तुरन्त ही कमलापति भगवान के पास चले।

देहुँ श्राप कि मरिहुँ जाई * जगत मोर उपहास कराई
वीचहि पन्थ मिले दनुजारी * सङ्ग रमा सोइ राजकुमारी

(मन में सोचते थे) जाकर श्राप दूँगा या प्राण देदूँगा। उन्होंने मेरी जगत में हँसी कराई है। बीच मार्ग में ही नारायण मिल गये, साथ में लक्ष्मी और वही राजकुमारी थी।

बोले मधुर बचन सुरसाई * मुनि कहं चले बिकल की नाई
सुनत बचन उपजा अति क्रोधा * माया बस न रहा मन बोधा

देवताओं के स्वामी भगवान मीठे बचन बोले-हे मुनि ! व्याकुल हुए कहाँ को चले ? यह सुनते ही मुनि को बड़ा क्रोध आया, माया के वश होने से नारदजी के मन में ज्ञान न रहा।

पर सम्पदा सकहु नहिं देखी * तुम्हरेँ इरषा कपट विसेवी
मथत सिन्धु रद्वहि बौरायहु * सुरन्ह प्रेरि विष पान करायहु

नारदजी बोले-तुम पराई सम्पदा नहीं देख सकते मनमें द्वेष और छल भरा हुआ है। समुद्र मथते समय शिवजी को पागल बना दिया और देवताओं को भेजकर उन्हें विषपान कराया।

दोहा-असुर सुरा विष शङ्करहिं, आपु रमा मनि चारु।

स्वारथ साधक कुटिल तुम्ह, सदा कपट व्यवहार ॥१४४॥

आदि शक्ति जेहि जग उपजाया * सोउ अवतरिहि मोरि यह माया

जिसको आवर सहित सुन भाग्यवान पुरुष माया-मोह को छोड़कर भवसागर से तर जायेंगे। जिस आदि शक्ति ने जगत को पंदा किया है, वह मेरी माया भी अवतार लेगी।

पुरउव मैं अभिलाष तुम्हारा * सत्य सत्य पन सत्य हमारा
पुन पुनि अस कहि कृपानिधाना * अन्तरधान भए भगवाना

मैं तुम्हारा मनोरथ पूरा कहूँगा, मेरा यह प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। बारम्बार ऐसा कहकर कृपानिधान भगवान अन्तर्धान होगये।

दम्पति उर धरि भगति कृपाला * तेहिं आश्रम निवसे कछु काला
समय पाइ तनु तजि अनयासा * जाइ कीन्ह अमरावति वासा

राजा-रानी दोनों कृपात्रु भगवान की भक्ति हृदय में धारण कर कुछ समय तक उसी आश्रम में रहे। समय पाकर-बिना कष्ट देह छोड़, अमरावती में जाकर वास किया।

दोहा-यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कहा वृषकेतु।

भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जनम कर हेतु ॥१५६॥

याज्ञवल्क्यजी बोले-हे भरद्वाज ! इस अत्यन्त पवित्र कथा को पार्वतीजी से शिवजी ने कहा। अब राम-जन्म के और भी अन्य कारण सुनो।

सुनि मुनि कथा पुनीति पुरानी * जो गिरिजा प्रति सम्भु बखानी
विश्व विदित एक कैंकय देसू * सत्यकेतु तहँ वत्तइ नरेसू

हे मुनि ! अब वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो, जो पार्वतीजी से शिवजी ने कही थी। संसार में एक कैंकई देश प्रसिद्ध है, वहाँ सत्यकेतु नामक राजा रहता था।

धर्म धुरन्धर नीति निधाना * तेज प्रताप सील बलवाना
तेहि के भए युगल सुत वीरा * सब गुनधाम महा रनधीरा

वह धर्म में दृढ़ नीति की खान, प्रतापी शीलवान व बलवान था। उस राजा के दो वीर-पुत्र सब गुणों के धाम और बड़े रणधीर हुए।

राजधनी जौ जेठ सुत आही * नाम प्रतापभानु अस ताही
अपर तुम्हहि अरिमर्दन नामा * भुजबल अतुल अचल संग्रामा

राजगद्दी का अधिकारी बड़ा पुत्र था, उसका नाम प्रतापभानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, उसकी भुजाओं में बहुत बल था, वह संग्राम में चलायमान नहीं होता था।

भाइहि भाइहि परम समीती * सकल दोष छल वरजित प्रीती
जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा * हरि हित आपु गवन वन कीन्हा

भाई-भाइयों में परस्पर बहुत मेल और सब दोष व छल रहित प्रीतियो। राजा ने पुत्र प्रताप भानु को राज्य दिया और आप श्रीहरि की आराधना करने के लिए वन को चले गये।

कोउ नहिं शिव समान प्रियमोरें * अस परितीति तजहु जानि भौरें

भगवान ने कहा-हे नारदजी ! तुम शिवजी के सी नाम जपो, जिससे हृदय तुरन्त शांत हो जायगा । शिवजी के समान मुझे कोईभी प्रिय नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी न छोड़ना ।

जेहिं पर कृपा न करहिं पुरारी * सो न पाव मुनि भगति हमारी
अस उर धरि महि बिचरहु जाई * अब न तुम्हहिं माया नियराई

जिस पर शिवजी दया नहीं करते, हे मुनि ! वह मेरी भक्ति नहीं पासकता । ऐसा हृदय में रखकर तुम पृथ्वी पर जाकर विचरो, अब तुम्हारे समीप मेरी माया नहीं आयेगी ।

दोहा-बहुविधि मुनिहि प्रबोध प्रभु, तब भए अन्तरधान ।

सत्यलोक नारद चले, करत राम गुन गान ॥१४६॥

मुनि को इस तरह बहुत प्रकार से समझाकर प्रभु अन्तर्ध्यान हो गये और नारदजी भी श्रीरामजी के गुणों का गान करते हुए सत्य-लोक को चल दिये ।

हरगन मुनिहि जात पथ देखी * बिगत मोह मन हरष विसेषी
अति सभोत नारद पहुँ आए * गहि पद आरत वचन सुनाए

शिवजीके गणोंने नारदजीको जब मोह रहित और बहुत प्रसन्न मन से मार्गमें जातेदेखा तब वे बहुत डरते हुये उनके पास आये और चरण पकड़ कर दुःख से भरे हुए वचन बोले,
हर गन हम न विप्र मुनिराया * बड़ अपराध कीन्ह फल पाया
श्राप अनुग्रह करहु कृपाला * बोले नारद दीनदयाला

हे मुनिनाथ ! हम शिवजी के गण हैं, ब्राह्मण नहीं हमने जो बड़ा अपराध किया, उसका फल पा लिया । हे कृपालु ! अब श्राप दूर करनेकी कृपा करिये । दीनदयालु नारदजी बोले-
निसिचर जाइ होउ तुम्ह दोऊ * वैभव विपुल तेज बल होऊ
भुजबल विश्व जितव तुम्ह जबहीं * धरिहिं विष्णु मनुज तनु तबहीं

तुम दोनों जाकर राक्षस होजाओ, तुम्हारा ऐश्वर्य, तेज, बल बहुत होगा । अपनी भुजाओं के बलसे जब तुम संसार को जीतोगे, तब श्रीहरि-भगवान मनुष्य का शरीर धारण करेंगे ।

समर मरन हरि हाथ तुम्हारा * होइहउ मुकृत न पुनि संसारा
चले जुगल मुनि पद सिर नाई * भए निसाचर कालहि पाई

तवयुद्ध में श्रीहरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, तब तुम मुक्त हो जाओगे, फिर संसार में जन्म न लोगे । तब देवोंनों मुनिके चरणों में सिर नवाकर चले गये और समय पाकर राक्षसहुये ।

दोहा-एक कल्प एहि हेतु प्रभु, लीन्ह मनुज अवतार ।

सुररंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुवि भार ॥१४७॥

देवताओं को आनन्द देने वाले, सत्पुरुषों को सुख देने वाले और भूमि का भार उतारने वाले प्रभु ने एक कल्प में इस कारण से मनुष्य-रूप में अवतार लिया था ।

भूप धरम जे वेद बखाने * सकल करइ सादर सुख माने
दिन प्रति देइ विविध विधि दाना * सुनइ शास्त्र वर वेद पुराना

वेदों में जो राजधर्म कहे हैं, उन सबको आवर सहित सुख मानकर राजा करता था। प्रतिदिन अनेकों प्रकार के दान विधिपूर्वक करता था, श्रेष्ठ-शास्त्र व वेद-पुराणों को सुनाता था।

नाना बापी कूप तड़ागा * सुमन वाटिका सुन्दर बागा
विप्र भवन सुर पवन सुहाए * सब तीरथन्ह विचित्र बनाए

अनेकों बावड़ी, कुआं तालाब, फुलवारी, सुन्दर बाग, ब्राह्मणों के घर सुन्दर देव-मन्दिर सब तीर्थों में बनवाये।

दोहा—जहँ लगी कहे पुरान श्रुति, एक एक सब जाग।

बार सहस्र सहस्र नृप, किए सहित अनुराग ॥१६०॥

वेद पुराणों में जितने यज्ञ कहे हैं, वे सब राजा ने प्रसन्नता पूर्वक हजार २ बार किये। हृदय न कछु फल अनुसन्धाना * भूप विवेकी परम सुजाना
करइ जे धरम करम मन वानी * वासुदेव अपित तृप ग्यानी

राजा के मन में उन यज्ञों के फल की इच्छा नहीं थी। ज्ञानी राजा-मन, कर्म और वाणी से जो कुछ करता था, वह सब भगवान वासुदेव के अर्पण कर देता था।

चढ़ि वर बाजि बार एक राजा * मृगया कर सब साजि समाजा
विन्ध्याचल गंभीर बन गयऊ * मृग पुनीत बहु मारत भयऊ

एक बार राजा सुन्दर घोड़े पर चढ़कर शिकार का सब सामान सजाकर विन्ध्याचल के घने वन में गया, वहाँ बहुत से उत्तम हिरनों का शिकार किया।

फिरत विपिन नृप दीख वराहू * जनु वन दुहेउ ससिहि ग्रसि राहू
बड़ विधु नहि समात मुख माहीं * मनहुँ क्रोध बस उगलित नाहीं

वन में घूमते हुए राजा ने एक सूअर को देखा, जो दाँतो के कारण ऐसा ही दीखता था-मानो चन्द्रमा को पकड़कर राहू वन में आ छिपा हो। परन्तु चन्द्रमा बड़ा होने के कारण मुँह में नहीं समाता और क्रोध के वश उगलता भी नहीं।

कोल कराल दसन छवि गाई * तनु विसाल पीवर अधिकाई
घुरघुरात ह्य आरौ पाएँ * चकित विलोकत कान उठाएँ

सूअर की भयानक दाढ़ों की शोभा कही-उसका शरीर भी ऊँचा और बहुत मोटा था। घोड़े का शब्द सुनकर वह घुर-घुराते हुए चौकन्ना हो इधर-उधर कान उठाकर देखने लगा।

दोहा—नील महीधर सिखर सम, देख विशाल वराहू।

चपरि चलेउहय सदुकि नृप, हाँकि न होइ निवाहू ॥१६१॥

नील पर्वत की चोटी के समान बड़े सूअर को देखकर राजा ने घोड़े की चाबुक मारकर

करने वाले हैं। जो-जो लीला उस अवतार में की हैं, सो सब अपनी बुद्धि के अनुसार

भरद्वाज सुनि शंकर वानी * सकुचित सप्रेम उमा सुर
लगे बहुरि बरनै वृषकेतू * सो अवतार भयउ जेहि

याज्ञवल्क्यजी कहते हैं-हे भारद्वाज ! शिवजीके वचन सुन पार्वतीजी सकुचाई और स्नेह
मुस्कराने लगीं। तब शिवजी-जिस कारण से वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करके
दोहा-सो मैं तुम्हसन कहउ सबु, सुनु मुनीस मन लाइ।

रामकथा कलिमल हरनि, मङ्गल करनि सुहाइ ॥१४

हे मुनीश्वर ! वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो-श्रीरामजी की कथा व
युग के पापों को हरने वाली, मङ्गल करने वाली और सुहावनी है।

स्वायम्भू मनु अरु सतरूपा * जिन्ह ते भइ नरसृष्टि अन
दम्पति धरम आचरन नीका * अजहुँ गावश्रु ति जिन्ह कै लीव

महाराज स्वायम्भू-मनु और रानी सतरूपा-जिनसे मनुष्य की अनौखी सृष्टि हुई
उनका धर्माचरण बहुत अच्छा था। आज भी वेद-जिनकी मर्यादा का गायन करते हैं।

नृप उत्तानपाद सुत तासू * ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासू
लघु सुत नाम प्रियव्रत ताही * वेद पुरान प्रसंसहि जाही

उनके पुत्र-राजा उत्तानपाद थे, जिनके पुत्र-हरि भक्त ध्रुव हुए। मनु के छोटे पुत्र का
नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद-पुराण करते हैं,

देवहृति पुनि तासु कुमारी * जो मुनि कर्दम कै प्रिय नारी
आदिदेव प्रभु दीनदयाला * जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला

देवहृति उनकी कन्या थी, जो कर्दम, मुनि की प्रिय स्त्री हुई। जिसने आदिदेव दीनदयालु
कपिलजी को गर्भ में धारण किया था।

सांख्यशास्त्र जिन्ह प्रगटबखाना * तत्व विचार निपुन भगवाना
तेहि मनुराज कीन्ह बहु काला * प्रभु आयसु सबविधि प्रतिपाला

कपिल भगवान् ने सांख्य-शास्त्र का प्रकट वर्णन किया, क्योंकि वे तत्व-विचार में निपुण
थे। उन स्वायम्भू-मनु ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से प्रभु की आज्ञा
का पालन किया।

गो०-होइ न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपनु।
हृदय बहुत दुख लाग, जनमगयउ हरि भगति बिनु ॥२२॥

घर में रहते हुए चौथापन (बुढ़ापा) आगया, परन्तु विषयों से वैराग्य न हुआ। यह
कारण कर मन में बड़ा दुःख हुआ कि हरि-भक्ति के बिना जन्म यों ही बीत गया।

बस राज सुतही नृप दीन्हा * नारि समेत गवन वन कीन्हा
थ बर नैमिष बिख्याता * अति पुनीत साधक सिधि दाता

भूप धरम जे वेद बखाने * सकल करइ सादर सुख माने
दिन प्रति देइ विविध विधिदाना * सुनइ शास्त्र वर वेद पुराना

वेदों में जो राजधर्म कहे हैं, उन सबको आदर सहित सुख मानकर राजा करता था। प्रतिदिन अनेकों प्रकार के वान विधिपूर्वक करता था, श्रेष्ठ-शास्त्र व वेद-पुराणों को सुनाता था।

नाना बापी कूप तड़ागा * सुमन बाटिका सुन्दर बागा
विप्र भवन सुर पवन सुहाए * सब तीरथन्ह विचित्र बनाए

अनेकों बावड़ी, कुआँ तालाब, फुलवारी, सुन्दर बाग, ब्राह्मणों के घर सुन्दर देव-मन्दिर सब तीर्थों में बनवाये।

दोहा—जहँ लगि कहे पुरान श्रुति, एक एक सब जाग।

बार सहस्र सहस्र नृप, किए सहित अनुराग ॥१६०॥

वेद पुराणों में जितने यज्ञ कहे हैं, वे सब राजा ने प्रसन्नता पूर्वक हजार २ बार किये।

हृदय न कछु फल अनुसन्धाना * भूप विवेकी परम सुजाना
करइ जे धरम करम मन वानी * वासुदेव अर्पित तृप ग्यानी

राजा के मन में उन यज्ञों के फल की इच्छा नहीं थी। ज्ञानी राजा-मन, कर्म और वाणी से जो कुछ करता था, वह सब भगवान वासुदेव के अर्पण कर देता था।

चढ़ि वर बाजि वार एक राजा * मृगया कर सब साजि समाजा
विन्ध्याचल गंभीर बन गयऊ * मृग पुनीत बहु मारत भयऊ

एक बार राजा सुन्दर घोड़े पर चढ़कर शिकार का सब सामान सजाकर विन्ध्याचल के घने वन में गया, वहाँ बहुत से उत्तम हिरनों का शिकार किया।

फिरत विपिन नृप दीख वराहू * जनु वन दुहेउ ससिहि ग्रसि राहू
बड़ विधु नहि समात मुख माहीं * मनहुँ क्रोध वस उगलित नाहीं

वन में घूमते हुए राजा ने एक सूअर को देखा, जो दाँतो के कारण ऐसा ही दोखता था-मानो चन्द्रमा को पकड़कर राह वन में आ छिपा हो। परन्तु चन्द्रमा बड़ा होने के कारण मुँह में नहीं समाता और क्रोध के वश उगलता भी नहीं।

कोल कराल दसन छवि गाई * तनु विसाल पीवर अधिकाई
घुरघुरात ह्य आरौ पाएँ * चकित विलोकत कान उठाएँ

सूअर की भयानक दाढ़ों की शोभा कही-उसका शरीर भी ऊँचा और बहुत मोटा था। घोड़े का शब्द सुनकर वह घुर-घुराते हुए चौकन्ना हो इधर-उधर कान उठाकर देखने लगा।

दोहा—नील महीधर सिखर सम, देख विशाल वराहू।

चपरिचलेउहयसटुकि नृप, हाँकि न होइ निवाहु ॥१६१॥

नील पर्वत की चोटी के समान बड़े सूअर को देखकर राजा ने घोड़े को चायुक मारकर

करने वाले हैं। जो-जो लीला उस अवतार में की हैं, सो सब अपनी बुद्धि के अनुसार कहेंगा।
 भरद्वाज सुनि शंकर वानी * सकुचित सप्रेम उमा मुसुकानी
 लगे बहुरि वरनै वृषकेतू * सो अवतार भयउ जेहि हेतू
 याज्ञवल्क्यजी कहते हैं-हे भारद्वाज ! शिवजीके वचन सुन पावतीजी सकुचाई और स्नेह सहित
 मुस्कराने लगीं। तब शिवजी-जिस कारण से वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे-
 दोहा-सो मैं तुम्हसन कहउँ सबु, सुनु मुनीस मन लाइ।

रामकथा कलिमल हरनि, मङ्गल करनि सुहाइ ॥१४८॥

हे मुनीश्वर ! वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो-श्रीरामजी की कथा कलि-
 युग के पापों को हरने वाली, मङ्गल करने वाली और सुहावनी है।

स्वायम्भू मनु अरु सतरूपा * जिन्ह ते भइ नरसृष्टि अनूपा
 दम्पति धरम आचरन नीका * अजहुँ गावश्रुति जिन्ह कै लीका

महाराज स्वायम्भू-मनु और रानी सतरूपा-जिनसे मनुष्य की अनौखी सृष्टि हुई है,
 उनका धर्माचरण बहुत अच्छा था। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गायन करते हैं।

नृप उत्तानपाद सुत तासू * ध्रुव हरिभगत भयउ सुत जासू
 लघु सुत नाम प्रियव्रत ताही * वेद पुरान प्रसंसहि जाही

उनके पुत्र-राजा उत्तानपाद थे, जिनके पुत्र-हरि भक्त ध्रुव हुए। मनु के छोटे पुत्र का
 नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद-पुराण करते हैं,

देवहृति पुनि तासु कुमारी * जो मुनि कर्दम कै प्रिय नारी
 आदिदेव प्रभु दीनदयाला * जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला

देवहृति उनकी कन्या थी, जो कर्दम, मुनि की प्रिय स्त्री हुई। जिसने आदिदेव दीनदयालु
 कपिलजी को गर्भ में धारण किया था।

सांख्यशास्त्र जिन्ह प्रगटबखाना * तत्व विचार निपुन भगवाना
 तेहि मनुराज कीन्ह बहु काला * प्रभु आयसु सबविधि प्रतिपाला

कपिल भगवान् ने सांख्य-शास्त्र का प्रकट वर्णन किया, क्योंकि वे तत्व-विचार में निपुण
 थे। उन स्वायम्भू-मनु ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से प्रभु की आज्ञा
 का पालन किया।

सो०-होइ न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपनु।

हृदय बहुत दुख लाग, जनमगायउ हरिभगति विनु ॥२२॥

घर में रहते हुए चौथापन (बुढ़ापा) आगया, परन्तु विषयों से विराग्य न हुआ। यह
 विचार कर मन में बड़ा दुःख हुआ कि हरि-भक्ति के बिना जन्म यों ही बीत गया।

वरवस राज सुतही नृप दीन्हा * नारि समेत गवन वन कीन्हा
 तीरथ वर नैमिष विख्याता * अति पुनीत साधक सिधि दाता

क्रोध को मारकर कङ्काल के समान वन में तपस्वी के वेप में रहता था। उसके पास राजा गया तो उसने पहचान लिया कि यह वही प्रतापभानु राजा है।

राजतृषित नहीं सो पहिचाना * देखि सुवेष महामुनि जाना
उतरि तुरग तैं कीन्ह प्रनामा * परम चतुर न कहेउ निज नामा

मारे प्यास के राजा ने उसे नहीं पहिचाना और सुन्दर वेप देखकर उसे महामुनि समझा। घोड़े से उतरकर प्रणाम किया, परन्तु परम चतुर राजा ने अपना नाम नहीं बताया।

दोहा—भूपति तृषित विलोकि तेहि, सरवर दीन्ह दिखाइ।

मज्जन पान समेत हय, कीन्ह नृपति हरषाइ ॥१६३॥

राजा को प्यासा देखकर उस मुनि ने सरोवर दिखला दिया। तब राजा ने प्रसन्न होकर घोड़े सहित स्नान किया और जल-पान किया।

गौश्रम सकल सुखी नृप भयऊ * निज आश्रम तापस लै गयऊ
आसुन दीन्ह अस्त रवि जानी * पुनि तापस बोलेउ मृदुवानी

सब थकावट दूर हुई और राजा सुखी हुआ; तब वह मुनि राजा को अपने आश्रम में ले गया। सूर्यास्त का समय जानकर आसन दिया, फिर कोमल वाणी से वह तपस्वी बोला—
को तुम्ह कस वन फिरहु अकेलें * सुन्दर जुवा जीव परहेलें
चक्रवर्ती के लच्छन तोरें * देखत दया लागि मन मोरें

तुम कौन हो? सुन्दर युवा होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले किस कारण से फिरते हो? चक्रवर्ती के से तुम्हारे लक्षण हैं, तुम्हें देखकर मुझको बहुत दया लगती है।

नामु प्रतापभानु अवनोसा * तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा
फिरत अहेरें परेउँ भुलाई * वड़े भाग्य पद देखेउँ आई

राजा ने कहा—हे मुनि! प्रतापभानु नामक एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ और शिकार खेलता हुआ मार्ग भूल गया हूँ। बड़े भाग्य हूँ, जो आपके चरणों के दर्शन हुए।

हत कहँ दुर्लभ दरस तुम्हारा * जानत हौँ कछु भल होनिहारा
कह मुनि तात भयउँ अँधियारा * जोजन सत्तर नगर तुम्हारा

मुझे आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे मैं जानता हूँ कि कुछ भला होने वाला है। उस मुनि ने कहा—हे तात! अब अन्धेरा होगया है और यहाँ से तुम्हारा नगर सत्तर योजन पर है।

दोहा—निसा घोर गम्भीर वन, पन्थ न सूझ सुजान।

वसहु आजु अस जानितुम्ह, जाएहु होत विहान ॥१६४॥

हे सुजान! रात नयावनी है। रास्ता नहीं मूझता, ऐसा जानकर आज यहीं रहो, प्रातः-काल होते ही चले जाना।

तुलसी जसि भवतव्यता, तैसी मिलइ सहाइ।

जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा * तौ हमार पूजहि अभिलाषा

एते प्रभु सेवक के वश में हैं और अपने भक्तों के निमित्त लीला करने के लिए शरीर धारण करते हैं। यदि वेदों का यह वचन सत्य है, तो प्रभु हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे।

दोहा—एहिविधि बीतेवरष षट, सहस्र वारि अहार।

सम्यत सप्त सहस्र पुनि, रहे समीर अधार ॥१५०॥

इस प्रकार छः हजार वर्ष जल के आहार से तप करते २ बीते गये, फिर सात हजार वर्ष केवल वायु के ही आधार से रहे।

वरष सहस्र दस त्यागेऊ सोऊ * ठाढ़े रहे एक पग दोऊ
विधि हरि हर तप देखि अपारा * मनु समीप आए बहु बारा

दस हजार वर्ष तक वह भी छोड़ दिया। इसी प्रकार एक पैर से दोनों खड़े रहे, उनका अष्ट तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश बहुत बार मनु के पास आए।

माँगहु वर बहु भाँति लोभाए * परम धीर नहि चलहि चलाए
अस्थि मात्र हीन रहे शरीरा * तदपि मनाब मनहि नहि पीरा

'वर माँगो' कहकर बहुत भाँति से उन्हें लुभाया, परन्तु ये परम धैर्यवान् विचलित न हुए। दोनों का शरीर केवल अस्थि-मात्र रह गया था, तो भी उनके मनमें कुछ भी पीड़ा न हुई।

प्रभु सर्वग्य दास निज जानी * गति अनन्य तापस नृप रानी
माँगु माँगु वर भइ नभ वानी * परम गँभीर कृपामृत सानी

सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले उन दोनों तपस्वी (राजा-रानी) को अपना दास जाना, तब कृपापूर्वक अमृत से भरी हुई गम्भीर आकाशवाणी हुई कि 'वर माँगो'।

मृतक जिआवनि गिरा सुहाई * श्रवन रन्ध्र होइ जब उर आई
हृष्ट पुष्ट तन भए सुहाए * मानहुँ अबहि भवन ते आए

मरे हुए को भी जिलाने वाली सुन्दर वाणी कानों में होकर जब हृदय में आई, तब उनका शरीर ऐसा हृष्ट-पुष्ट हो गया-मानों अनी वे घर से आये हैं।

दोहा—भवन सुधासम वचन सुनि, पुलक प्रफुल्लित गात।

बोले सुनि कर दण्डवत, प्रेम न हृदय समात ॥१५१॥

कानों से अमृत के समान वचन सुनकर शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। प्रेम हृदय में नहीं समाता था, तब मनुजी दण्डवत् करके बोले—

सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु * विधि हरि हर वन्दित पद रेनु
सेवत सुलभ सकल सुखदायक * प्रनतपाल सचरचार नायक

हे भक्तों के कल्पवृक्ष व कामधेनुप्रसाविष्णु, महेश आपके पद-रजकी वन्दना करते हैं। आप सेवा से सुलभ सम्पूर्ण सुखों के देने वाले हैं, आप दोनों के पालक व तत्र चरित्र के स्वामी हैं।

जोसि सोसि तव चरन नमामी * मो पर कृपा करिअ अब स्वामी
सहज प्रीति भूपति कै देखी * आपु विषम विश्वास विसेषी

आप जो भी हों-सो हों, आपके चरणों को प्रणाम है। हे स्वामी ! आप मुझ पर कृपा कीजिये। कपटी-मुनि राजा का स्वानाविक प्रेम और अपने में विशेष विश्वास देखकर-

सब प्रकार राजाहि अपनाई * बोलेउ अधिक सनेह जनाई
सुनु सतिभाउ कहउँ महिपाला * इहाँ बसत वीते बहु काला

सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके बोला-हे राजन् ! सुनो, मैं शुद्ध-भाव से कहता हूँ कि यहाँ रहते मुझको बहुत समय बीत गया।

दोहा-अब लगि मोहि न मिलेउ कोउ, मैं न जनायउँ काहु।

लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहु ॥१६७॥

अब तक न तो कोई मुझे मिला और न मैंने किसी को जनाया। क्योंकि तप-रूपी वन को भस्म करने के लिये लोक-प्रतिष्ठा अग्नि के समान है।

सो०-तुलसी देख सुवेषु, भूलहि मूढ़ न चतुर नर।

सुन्दर केकाहि पेखु, वचन सुधासम असन अहि ॥२४॥

तुलसीदासजी कहते हैं-सुन्दर वेष देखकर मूर्ख ही नहीं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। मोर देखने में सुन्दर है, अमृत के समान वाणी है। परन्तु भोजन उसका साँप ही है।

ताते गुपुत रहउँ जग माहीं * हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं
प्रभु जानाहि सब विनाहि जनाएँ * कहहु कवन सिधि लोक रिझाएँ

इसी कारण वन में छिपा रहता हूँ, भगवान को छोड़ और किसी से मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं है। प्रभु तो बिना जाने ही सब कुछ जानते हैं, फिर लोक को रिझाने से कहो-कौन-सी सिद्धि प्राप्त होती है ?

तुम्ह सुचि सुमित परम प्रियमोरें * प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरें
अब जौ तात दुरावहुँ तोही * दारुन दोष लगइ अति मोही

तुम पवित्र व सुन्दर युद्धि वाले मुझे बहुत ही प्रिय हो; क्योंकि मुझ पर तुम्हारी प्रीति और विश्वास है। हे तात ! अब तुमसे बात छिपाऊँ, तो मुझको बड़ा भारी दोष लगेगा।

जिमि जिमि तापस कहइ उदासा * तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा
देखा स्वबस कर्म मन वानी * तव बोला तापस बक ध्यानी

ज्यों २ वह तपस्वी उदासीन वचन कहता था, त्यों २ राजा को विश्वास बढ़ता जाता था। जब राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में देखा, तब बगुला-भगत तपस्वी बोला-

नाम हमार एकतनु भाई * सुनि नृप बोलेउ पुनि सिर नाई
कहहुँ नाम कर अरथ वखानी * मोहि सेवक अति आपन जानी

हे भाई मेरा नाम 'एकतनु' है यह सुन राजा सिर नवाकर बोला-मुझको अपना सेवक

केहरि कन्धर चारु जनेऊ * बाहु बिभूषण सुन्दर तेऊ
करिकर सरिस सुभग भुजदण्डा * कटि निषङ्ग कर सर को दण्डा

तिह के समान ऊँचे कन्धे, सुन्दर यज्ञोपवीत धारण किये हुए, भुजाओं में सुन्दर आभूषण बाँधे हुए, हाथी की सूँड़ के समान सुन्दर भुजायें, कमर में तरकस बाँधे हुए, हाथ में धनुष-बाण लिये हुए हैं ।

दोहा—तड़ित विनिंदक पीतपट, उदर रेख वर तीन ।

नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भँवर छबि छीन ॥१५३॥

विजली की चमक को भी लजाने वाला पीताम्बर है, उदर पर सुन्दर तीन रेखायें हैं । नाभि ऐसी मनोहर है, मानो यमुनाजी की भँवरों की शोभा को छीन ली हो ।

पद राजीव वरनि नहिं जाहीं * मुनिमनमधुपबसहिं जिन्ह माहीं
वाम भाग शोभित अनुकूला * आदिशक्ति छबिनिधि जगमूला

जिनमें मुनियों के मनरूपी भौरे बसते हैं, उन चरणों की शोभा कही नहीं जा सकती । बायी ओर सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की खान, जगत् की मूल कारण शक्ति शोभायमान है ।

जासु अंश उपजहिं गुन खानी * अगनित लच्छि रमा ब्रह्मानी
भृकुटि विलास जासु जग होई * राम वाम दिशि सीता सोई

जिनके अंश से गुणों की खान असंख्य लक्ष्मी, पार्वती, ब्रह्मणी उत्पन्न होती हैं तथा जिनके भोंह के संकेत मात्र से जगत् उत्पन्न होता है वही श्रीसीताजी-श्रीरामजी के बायी ओर विराजमान हैं ।

छबि समुद्र हरि रूप विलोकी * एकटक रहे नयन पट रोकी
चित्तवाहिं सादर रूप अनूपा * तृप्ति न मानहिं मनु शतरूपा

महाराज मनु और शतरूपा शोभा के समुद्र भगवान् के अनीखे रूप को आदर सहित टकटकी बाँधकर देखते हुए नहीं अघाते थे ।

हरष विवश तन दशा भुलानी * परे दण्ड इव गहि पद पानी
सिर परसे प्रभु निज कर कंजा * तुरत उठाए करुणा पुंजा

आनन्द के मारे देह की सुधि भूल गये और दण्डवत् करके प्रभु के चरणों को पकड़ लिया । तब कृपानिधान प्रभु ने अपने कर-कमलों से स्पर्श कर दोनों को उठा लिया ।

दोहा—बोले कृपानिधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानि ।

माँग वर जो भाव मन, महादानि अनुमानि ॥१५४॥

फिर कृपानिधान भगवान् बोले—मुझको बहुत प्रसन्न जानकर और महादानी मानकर जो मन को भावे-वही वरदान माँग लो ।

सुनि प्रभु वचन जोरि जुग पानी * धरि धीरजु बोले मृदु बानी
नाथ देखि पद कमल तुम्हारे * अब पूरे सब काम हमारे

हे तात ! तुम्हारा सोधापन, प्रीति, विश्वास, नीति और चतुरता देखकर तुम्हारे प्रति मेरे मन में ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिये तुम्हारे पूछने पर मैं अपनी कथा सुनाता हूँ ।

अब प्रसन्न मैं संसय नहीं * माँगू भूप जो वस मन माहीं सुनि सुवचन भूपति हरषाना * गहि पद विनय कीन्हविधिनाना

अब मैं निसन्देह प्रसन्न हूँ, हे राजन् ! जो मन में इच्छा हो, वही वर माँगलो । ऐसे सुन्दर वचन सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और चरण पकड़ कर अनेक प्रकार से विनती करने लगा—

कृपासिन्धु मुनि दरसन तोरे * चारि पदारथ करतल मोरे प्रभुहि तथापि प्रसन्न विलोकी * माँगि अगम वर होउँ अशोकी

हे कृपासागर मुनि ! आपके दर्शन से चारों पदारथ (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) मेरे मुट्ठी में आ गये । तथापि प्रभु को प्रसन्न देख कठिन वर माँगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊँ ?

दोहा—जरा मरन दुख रहित तनु, समर जितै जनु कोउ ।

एक छत्र रिपुहीन महि, राज कल्पसत होउ ॥१६६॥

बुढ़ापे और मृत्यु के दुःख से रहित शरीर हो जाय, संग्राम में मुझसे कोई न जीत सके और सौ कल्प तक पृथ्वी पर मेरा अखण्ड (एक-छत्र) राज्य रहे ।

कह तापस नृप ऐसेइ होऊ * कारन एक कठिन सुनु सोऊ कालहु तुम्ह पद नाइहि सीसा * एक विप्रकुल छाँड़ि अहीसा

तपस्वी बोला-हे राजन् ! ऐसा ही होगा, परन्तु एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो । हे राजन् ! एक ब्राह्मण-कुल को छोड़कर, काल भी तुम्हारे चरणों में सिर नवावेगा ।

तप बल विप्र सदा वरिआरा * तिन्हके कोप न कोउ रखवारा जौ विप्रन्ह वश करहु नरेशा * तौ तुम्ह वश विधि विष्णु महेशा

तप के प्रभाव से ब्राह्मण सदैव बलवान् होते हैं, उनके कोप से कोई रक्षा नहीं कर सकता । हे राजन् ! यदि ब्राह्मणों को वश में करलो, तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव भी तुम्हारे वश में हो जायेंगे ।

चल न ब्रह्मकुल सन वरिआई * सत्य कहउँ दोउ भुजा उठाई विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला * तोर नाश नाहि कवनेहुँ काला

ब्राह्मण-वंश से किसी की जबर्दस्ती नहीं चलती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ । हे राजन् ! सुनो-ब्राह्मणों के श्राप के बिना किसी समय भी तुम्हारा नाश नहीं होगा ।

हरषेउ राउ वचन सुनि तासू * नाथ न होई मोर अब नासू तव प्रसाद प्रभु कृपानिधाना * मो कहूँ सर्व काल कल्याना

उस मुनि के वचन सुनकर राजा प्रसन्न होकर बोला-हे नाथ ! अब मेरा नाश नहीं होगा । हे कृपानिधान ! आपकी प्रसन्नता से अब मेरा सदैव कल्याण है ।

दोहा—एवमस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल वहोरि ।

ऐसा समझने से मनमें सन्देह होता है, परन्तु प्रभु ने कहा वही-ठीक है ! हेनाथ ! आपके जो अनन्य भक्त हैं, वे जो सुख पाते हैं और जिस गति को प्राप्त होते हैं ।

दोहा—सोइसुखसोइगतिसोइभगति, सोइ निज चरनसनेहु ।

सोइविवेक सोइरहनिप्रभु,हमहि कृपाकरि देई ॥१५६॥

हे प्रभु वह सुख, वही गति, वही अपने चरणों में स्नेह, वही ज्ञान और वही वर्तव्य आप हमारे लिये कृपा करके दीजिए ।

**सुनि मृदु गूढ रुचिर वर रचना * कृपासिंधु बोले मृदु बचना
जो कछु रुचि तुम्हारे मन माहीं * मैं सो दीन्ह सब संसय नाहीं**

रानी शतरूपा की कोमल और गूढ वाक्य-रचना को सुनकर कृपासिंधु प्रभु हँसकर बोले जो कुछ अभिलाषा तुम्हारे मनमें है, वह सब तुमको मैंने दिया—इसमें सन्देह नहीं है ।

**मातु विवेक अलौकिक तोरें * कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरें
बन्दि चरन मनु कहेउ बहोरी * औरउ नाथ विनय एक मोरी**

हे माता ! मेरी कृपा से तुम्हारा दिव्य-ज्ञान कभी नहीं मिटेगा । मनु ने प्रभु के चरणों को प्रणाम करके फिर कहा—हे प्रभु ! मेरी एक विनती और है कि—

**सुत विषयक तब पद रति होऊ * मोहि बड़ मूढ कहै किन कोऊ
मनिबिनुफनिजिमिजलबिनुमीना * मम जीवन प्रभु तुम्हहि अधीना**

आपके चरणों में मेरी पुत्र-विषयगणों प्रीति होवे, चाहे मुझे कोई महामूर्ख ही क्यों न कहे जैसे मणि के बिना साँप और जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, इसी प्रकार मेरा जीवन आपके आधीन रहे ।

**अस वरु माँगि चरन गहिरहेऊ * एबमस्तु करुणानिध कहेऊ
अस तुम्ह मम अनुसासन मानी * बसहु जाइ सुरपति रजधानी**

ऐसा वर माँगकर भगवान् के चरण पकड़कर चुप हो रहे, तब करुणानिधान भगवान् बोले ऐसा ही हो ! अब तुम मेरी आज्ञा मानकर इन्द्रकी राजधानी (अमरावती) में वास करो ।

सो०—तहँ करि भोग बिलास, तात गएँ कछुकाल पुनि ।

होइहहु अवध भुआल, तब मैं होव तुम्हार सुत ॥२३॥

हे तात ! वहाँ परमानन्द भोग करके फिर कुछ समय बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊँगा ।

**इच्छामय नर वेष सँवारें * होइहउँ प्रकट निकेत तुम्हारें
अंशन्ह सहित देह धरि ताता * करिहउँ चरित भगत सुखदाता**

इच्छा के अनुसार मनुष्य-रूप धारण कर तुम्हारे घर में प्रगट होऊँगा । हे तात ! मैं अपने अंशों सहित देह धारण कर भक्तों को सुख देने वाले चरित करूँगा ।

जे सुनि सादर नर बड़भागी * भव तरिहहि ममता मद त्यागी

जों न जाऊँ तव होउ अकाजू * बना आइ असमञ्जस आजू
सुनि महीस बोलेउ मृदु बानी * नाथ निगम असि नीति बखानी

जो नहीं जाऊँ तो-तुम्हारा काम नहीं बनता, आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा। यह सुन राजा मधुर वाणी से बोला-हे नाथ ! वेद में ऐसी नीति कही है।

बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं * गिरनिज सिरन्हसदातूनधरहीं
जलधि अगाध मौलि बह फेनू * सन्तत धरनि धर सिर रेनू

बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं, पर्वत अपने सिर पर सदैव तिनको को धारण करते हैं, अयाह समुद्र के शिर पर फेन बहता है और पृथ्वी सदा अपने सिर पर रेणु धारण करती है।

दोहा—अस कहि गहे नरेस पद, स्वामी होहु कृपाल।

मोहिलागि दुखसहिअप्रभु, सज्जन दीनदयाल ॥१७२॥

ऐसा कहकर राजा ने तपस्वी के चरण पकड़लिये और कहा-हे स्वामी ! मुझ पर कृपागु हो जाइये। मेरे लिए दुःख सह लीजिए, आप सज्जन एवं दयालु हैं।

जानि नृपहिं आपिन आधीना * बोलेउ तापस कपट प्रवीना
सत्य कहउँ भूपति सुनु तोही * जग नाहिंन दुर्लभ कछु मोही

राजा को अपने आधीन जानकर कपटी-मुनि बोला-हे राजन् ! सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जगत् में मेरे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है।

अवसि काज मैं करिहउँ तोरा * मन क्रम वचन भगत तें मोरा
जोग जुगत तप मन्त्र प्रभाऊ * फलइ तर्वाहिं जब करिअ दुराऊ

मैं अवश्य तुम्हारा काम करूंगा, क्योंकि मन, क्रम और वचन से तुम मेरे भक्त हो। योग की युक्ति, तप और मन्त्र का प्रभाव-ये सभी फल देते हैं, जब छिपाकर किये जायें।

जों नरेश मैं करौं रसोई * तुम्ह परसहु मोहि जान न कोई
अन्न सो जोइ जोइ भोजन करई * सोइ सोइ तव आयसु अनुसरई

हे राजन् ! जो मैं रसोई बनाऊँ और तुम परसो तो मुझे कोई न जान पावेगा। वह अन्न जो कोई भोजन करेगा-वही तुम्हारे वश में हो जायगा।

पुनि तिन्ह के गृह जेवँइ जोऊ * तव वस होइ भूप सुनु सोऊ
जाइ उपाय रचहु नृप ऐहू * सम्बत भरि संकल्प करेहू

फिर उसके घर जो कोई जीयेगा-वह भी तुम्हारे वश में हो जायगा। घर जाकर यही उपाय करो और एक वर्ष तक यही संकल्प करो।

दोहा—नितनूतन द्विज सहस सव, वरेहु सहित परिवार।

मैं तुम्हारे संकल्प लागि, दिनहि करवि जेवनार ॥१७३॥

दोहा—जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दुहाई देश ।

प्रजापाल अति बेद विधि, कतहुँ नहीं अघ लेश ॥१५८॥

जब प्रतापभानु राजा हुआ तो देश में उसकी दुहाई फिर गई । वेद-विधि से वह अपनी प्रजा का भली-भाँति से पालन करने लगा, कहीं भी लेश-मात्र भी पाप नहीं रहा ।

नृप हितकारी सचिवं सयाना * नाम धरमरुचि इन्द्र समाना
सचिव सयान बन्धु बलवीरा * आपु प्रताप पुञ्ज रणधीरा

राजा का हितकारी और चतुर मन्त्री-धर्मरुचि इन्द्र के समान नीतिवान् था । मन्त्री चतुर, भाई-बलवान् और स्वयं महाप्रतापी रणधीर था ।

सेन सङ्ग चतुरङ्ग अपारा * अमित सुभट सब समर जुझारा
सेन विलोकि राउ हरषाना * अरु बाजे गहगहे निशाना

साथ में अपार चतुरङ्गिणी-सेना थी, जिसमें बहुत से योद्धा थे, जो समर में सभी जूझने वाले थे । सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, फिर घोर ध्वनिसे जुझाऊ बाजे बजने लगे ।

विजय हेतु कटकई बनाई * सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई
जहँ तहँ परीं अनेक लराई * जीते सकल भूप बरिआई

दिग्विजय के लिए अपनी सेना सजाकर, शुभ दिन देखकर राजा डंका बजाकर चला । जहाँ-तहाँ बहुत-सी लड़ाइयाँ हुई और सब राजाओं को उसने बलपूर्वक जीत लिया ।

सप्त द्वीप भुजबल बस कीन्हे * लै लै दण्ड छाँड़ि नृप दीन्हे
सकल अवनि मण्डल तेहि काला * एक प्रतापभानु महिपाला

उसने भुजाओं के बलसे सातों द्वीपों को अपने आधीन कर लिया और सब राजाओं को कर ले-लेकर छोड़ दिया । उस समय समस्त पृथ्वी का एक चक्रवर्ती राजा प्रतापभानु ही था ।

दोहा—स्वबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन्ह प्रवेसु ।

अरथ धरम कामादि सुख, सेवइ समय नरेसु ॥१५९॥

उसने अपनी भुजाओं के बल से विश्व को वश में करके अपने नगर में प्रवेश किया । राजा-अर्थ, धर्म और कामादि के सुख समयानुसार भोगने लगा ।

भूप प्रतापभानु बल पाई * कामधेनु भै भूमि सुहाई
सब दुख बरझति प्रजा सुखारी * परम शील सुन्दर नर नारी

राजा प्रतापभानु का बल पाकर पृथ्वी कामधेनु हो गई । सब प्रजा सुखी थी, किसी को कोई दुःख नहीं था, स्त्री-पुरुष धर्मात्मा और सुन्दर थे ।

सचिव धरमरुचि हरिपद प्रीती * नृप हित हेतु सिखव नित नीती
गुरु सुर सन्त पितर महिदेवा * करइ सदा नृप सब कै सेवा

धर्मरुचि मन्त्रीकी श्रीहरि-चरणों में प्रीति थी, वही राजाकी भलाई के लिये उसे नीति सिखाया करता । राजा-गुरु, देवता, साधु, पितर व ब्राह्मण इन सबकी सदा सेवा किया करता था ।

प्रथमहिं भूप समर सब मारे * विप्र सन्त सुर देखि दुखारे

उसके सौ पुत्र और दस भाई थे वे बड़े दुष्ट, अजेय और देवताओं को दुःख देने वाले थे। ब्राह्मण, सन्त और देवताओं को दुःखी देखकर राजाने पहले ही उनको युद्ध में मार दिया था।

तेहिं खल पाछिल वयर समारा * तापस नृप मिलि मन्त्र विचारा

जैहिं रिपुछय सोइरचन्हि उपाऊ * भावी वस न जान कछु राऊ

उस दुष्टने पिछला घेर स्मरण कर उस तपस्वी राजासे मिलकर विचारक्रिया व जिससे शत्रु का नाश हो-वही उपाय रचा, परन्तु होनहार के वश में होने से राजा ने कुछ नहीं जाना।

दोहा-रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करि गनिअ न ताहु।

अजहुँ देत दुख रविससिहि, सिर अवसेषित राहु ॥१७५॥

तेजवान् शत्रु अकेला हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। शिर मात्र शेष रह जाने पर भी राहु आज भी सूर्य और चन्द्रमा को दुःख देता है।

तापस नृप निज सर्काहिं निहारी * हरषि मिलेउ उठि भयेउ सुखारी

मित्रहिं कहि सब कथा सुनाई * जातुधान बोला सुख पाई

तपस्वी राजा अपने मित्र को देख, प्रसन्न हो उठकर सुखपूर्वक मिला, मित्र को सब कथा सुनाई, तब राक्षस सुख पाकर बोला-

अब साधेउँ रिपु सुनहुँ नरेशा * जाँ तुम्ह कीन्ह मोर उपदेशा

परिहर सोच रहहु तुम्ह सोई * विनु औषधि विआध विधिखोई

हे राजा ! सुनो, यदि तुम उपदेश के अनुसार काम करोगे, तो मैं अब इस शत्रु को साथ लूँगा। सोच को त्याग कर अब तुम सो जाओ, विधाता ने विना औषधि के ही व्याधि को नष्ट कर दिया।

कुल समेत रिपु मूल विहाई * चौथे दिवस मिलन में आई

तापस नृपहिं बहुत परितोषी * चला महा कपटी अति रोषी

कुल सहित शत्रु को जड़ से नष्ट करके चौथे दिन में आकर तुमसे मिलूँगा। तपस्वी-राजा को सन्तोष देकर वह महा कपटी और बड़ा क्रोधो राक्षस चला।

भानुप्रतार्पाहिं वाजि समेता * पहुँचाएसि छन माँझ निकेता

नृपहिं नारि पहिं शयन कराई * हय गृहँ बाँधेसि वाजि बनाई

प्रतापमानु को घोड़ा सहित सोते हुए ही घर पहुँचा दिया और राजा को रानी के पास शयन कराकर घोड़े को घुड़साल में बाँध दिया।

दोहा-राजा के उपरोहितहि, हरि लै गयउ बहोरि।

लै राखेसि गिरि खोह महुँ, मायाँ करि मति भोरि ॥१७६॥

फिर राजा के उपरोहित को हर ले गया और एक पर्वत की गुफा में लेजाकर अपनी माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डाल दिया।

दोहा—जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दुहाई देश ।

प्रजापाल अति बेद विधि, कतहुँ नहीं अघ लेश ॥१५८॥

जब प्रतापमानु राजा हुआ तो देश में उसकी दुहाई फिर गई । वेद-विधि से वह अपनी प्रजा का भली-भाँति से पालन करने लगा, कहीं भी लेश-मात्र भी पाप नहीं रहा ।

नृप हितकारी सचिवं सयाना * नाम धरमरुचि इन्द्र समाना
सचिव सयान बन्धु बलवीरा * आपु प्रताप पुञ्ज रणधीरा

राजा का हितकारी और चतुर मन्त्री-धर्मरुचि इन्द्र के समान नीतिवान् था । मन्त्री चतुर, भाई-बलवान् और स्वयं महाप्रतापी रणवीर था ।

सेन सङ्ग चतुरङ्ग अपारा * अमित सुभट सब समर जुझारा
सेन विलोकि राउ हरषाना * अरु बाजे गहगहे निशाना

साथ में अपार चतुरङ्गिणी-सेना थी, जिसमें बहुत से थोड़ा थे, जो समर में सभी जूझने वाले थे । सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, फिर घोर ध्वनिसे जुझाऊ बाजे बजने लगे ।

विजय हेतु कटकई बनाई * सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई
जहँ तहँ परीं अनेक लराई * जीते सकल भूप बरिआई

दिविजय के लिए अपनी सेना सजाकर, शुभ दिन देखकर राजा उंका बजाकर चला । जहाँ-तहाँ बहुत-सी लड़ाइयाँ हुईं और सब राजाओं को उसने बलपूर्वक जीत लिया ।

सप्त द्वीप भुजबल बस कीन्हे * लै लै दण्ड छाँड़ि नृप दीन्हे
सकल अवनि मण्डल तेहिं काला * एक प्रतापभानु महिपाला

उसने नृजाओं के बलसे सातों द्वीपों को अपने आधीन कर लिया और सब राजाओं को कर ले-लेकर छोड़ दिया । उस समय समस्त पृथ्वी का एक चक्रवर्ती राजा प्रतापभानु ही था ।

दोहा—स्ववस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन्ह प्रवेशु ।

अरथ धरम कामादि सुख, सेवइ समय नरेसु ॥१५९॥

उसने अपनी नृजाओं के बल से विश्व को बश में करके अपने नगर में प्रवेश किया । राजा-अर्थ, धर्म और कामादि के सुख समयानुसार भोगने लगा ।

भूप प्रतापभानु बल पाई * कामधेनु भै भूमि सुहाई
सब दुख बरझति प्रजा सुखारी * परम शील सुन्दर नर नारी

राजा प्रतापभानु का बल पाकर पृथ्वी कामधेनु हो गई । सब प्रजा सुखी थी, किसी को कोई दुःख नहीं था, स्त्री-पुरुष धर्मात्मा और सुन्दर थे ।

सचिव धरमरुचि हरिपद प्रीती * नृप हित हेतु सिखव नित नीती
गुरु सुर सन्त पितर महिदेवा * करइ सदा नृप सब कै सेवा

धर्मरुचि मन्त्रीकी श्रीहरि-चरणों में प्रीति थी, वही राजाकी भलाई के लिये उसे नीति सिखाया करता । राजा-गुरु, देवता, साधु, पितर व ब्राह्मण इन सबकी सदा सेवा किया करता था ।

भयउ रसोई भूसुर मांसू * सब द्विज उठे मान विश्वासू
भूप विकल मति मोहें भुलानी * भावी वश न आग मुख बानी

इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है, यह सुनकर विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा घबड़ा गया, उसकी बुद्धि मोह से ऐसी भ्रमित होगई कि होनहार के वश मुख से बात भी नहीं निकली।

दोहा—बोल विप्र सकोप तव, नहीं कछु कीन्ह विचारः।

होहु निसाचर जाई नृप, मूढ सहित परिवार ॥१७८॥

तब ब्राह्मणों ने कुछ भी विचार नहीं किया और कोप करके बोले—हे मूर्ख राजा ! तुम अपने कुटुम्ब सहित राक्षस हो जाओ।

छत्र बन्धु तें विप्र बोलाई * घालै लिए सहित समुदाई
ईश्वर राखा धरम हमारा * जैहसि तें समेत परिवारा

हे अधम क्षत्रिय ! तूने ब्राह्मणों को बुलाकर सपरिवार भ्रष्ट करना चाहा था। परन्तु ईश्वर ने हमारा धर्म बचा लिया, इससे तू परिवार सहित नष्ट होगा।

सम्बत मध्य नाश तव होऊ * जलदाता न रहहि कुल कोऊ
नृपसुनिश्राप विकलअतित्रासा * भै वहोरि वर गिरा अकासा

एक साल के भीतर तेरा नाश हो, तेरे वंश में कोई जल देने वाला भी न रहे। ऐसा घोर श्राप सुनकर राजा डर से व्याकुल हो गया। फिर गम्भीर आकाशवाणी हुई।

विप्रहु श्राप विचार न दीन्हा * नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा
चकित विप्र सब सुनि नभवानी * भूप गयउ जहँ भोजन खानी

हे विप्रो ! तुमनेभी विचारकर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछभी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण भीचरके हो गये, तब राजा वहाँ गया—जहाँ भोजन बनाया था।

तहँ त असन नहीं विप्र सुआरा * फिरेउ राज मन सोच अपारा
सब प्रसङ्ग महिसुरन्ह सुनाई * त्रसित परेउ अवनी अकुलाई

वहाँ न भोजन था न रसोइया-ब्राह्मण था, तब राजा लौट आया, मनमें बड़ा सोच हुआ। फिर राजाने सब वृत्तान्त ब्राह्मणोंको सुनाया और मारे डरके घबड़ा कर पृथ्वी पर गिरपड़ा।

सो०—भूपति भावी मिटइ नहीं, जदपि न दूषन तोर।

किएँ अन्यथा होइ नहीं, विप्र श्राप अति घोर ॥१७९॥

हे राजन् ! होनहार नहीं मिटती, यद्यपि तुम्हारा कुछ भी अपराध नहीं है, तो भी ब्राह्मणों का महाघोर श्राप किसी के किये अन्यथा नहीं हो सकता।

अस कहि सब महिदेव सिधाए * समाचर पुर लोगन्ह पाए
सोचहि दूषन दैवहि देही * विरचित हंस काग किय जेही

ऐसा कहकर ब्राह्मण चले गये। जब यह समाचार नगर के लोगों ने सुना, तो वे

दौड़ाया, क्योंकि साधारण हाँकने से निर्वाह नहीं होता था।

आवत देखि अधिक रव बाजी * चलेउ वराह मरुत गति भाजी
तुरत कीन्ह नृप सर सन्धाना * सहि मिलि गयउ बिलोकत बाना

अधिक शब्द करते हुए घोड़े को देखकर सूअर पवन-गति से चला। राजा ने तुरन्त वाण चढ़ाया तो वाण को देखते ही वह सूअर पृथ्वी से चिपक गया।

तकि तकि तीर महीस चलावा * करि छल सुअर सरीर बचावा
प्रगटत दुरत जाइ मृग भागा * रिसि बस भूप चलेउ संग लागा

राजा ने तकर कर वाण चलाये, पर सूअर ने छल करके अपना शरीर बचा लिया। कभी प्रगट होता, कभी वह छिपता हुआ भागता था, राजा भी मारे क्रोध के उसके पीछे लगा हुआ था।

गयउ दूरि घन गहन बराहू * जहँ नाहिन गज बाजि निवाहू
अति अकेल वन विपुल कलेसू * तदपि न मृग मग तजेउ नरेसू

भागता हुआ सूअर दूर ऐसे वन में चला गया, जहाँ हाथी-घोड़े का निर्वाह नहीं था। राजा अकेला था, वन में कठिनाई बहुत थी, तो भी राजा उस सूअर का पीछा नहीं छोड़ता था।

कोल बिलोकि भूप बड़ धीरा * भागि पैठि गिरि गुहा गँभीरा
अगम देखि नृप अति पछिताई * फिरेउ महावन परेउ भुलाई

सूअर ने राजा को बड़ा धीर देखा तो भागकर पर्वत की एक गहरी गुफा में घुस गया। यहाँ अपनी पहुँच न देखकर राजा पछताकर लौटा और उस घने वन में मार्ग भूल गया।

दोहा—खेद खिन्न छुद्धित तृषित, राजा बाजि समेत।

खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत ॥१६२॥

थकावट से उदास राजा घोड़े समेत भूखा-प्यासा व्याकुलता से नदी-तालाब हूँदते र बिना पानी के अचेत होगया।

फिरत विपिन आश्रम इक देखा * तहँ बस नृपति कपट मुनि वेषा
जासु देश नृप लीन्ह छड़ाई * समन सेन तजि गयउ पराई

फिर वन में फिरते हुए राजा ने एक आश्रम देखा, उसमें एक राजा कपट से मुनि के वेष में रहता था। जिसका देश प्रतापभानु ने छीन लिया था और जो युद्ध में अपनी सेना को छोड़कर भाग गया।

समय प्रतापभानु कर जानी * अपनि अति कुसमत अनुमानी
गयउ न गृह मन बहुत गलानी * मिला न राजहि नृप अभिमानी

प्रतापभानु का अच्छा समय जानकर और अपना कुसमय जानकर यह घर नहीं गया उसके मन में बहुत लज्जा हुई और वह अभिमानी राजा प्रतापभानु को नहीं मिला।

रिस उर मारि रङ्गु जिमि राजा * विपिन बसइ तापस कै साजा
तासु समीप गवन नृप कीन्हा * यह प्रतापरवि तेहि तब चीन्हा

वे सब इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, दुष्ट-स्वभाव, अनेक जाति के टेढ़े, डराबने, महा अज्ञानी दयाहीन, हिंसक, पापी, संसार में सबको दुःख देने वाले थे। उनही बुद्धता कही नहीं जा सकती।

दोहा—उपजे जदपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप।

तदपि महीसुर श्राप बस, भए सकल अघ रूप ॥१८१॥

यद्यपि वे पुलस्त्यजी के पवित्र, शुद्ध और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए थे, तो भी ब्राह्मणों के श्राप के बश वे सब महापापी हुए।

कीन्ह विविध तप तीनहुँ भाई * परम उग्र सो वरनि न जाई

गयउ निकट तप देखि विधाता * माँगहु वर प्रसन्न में ताता

तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से महा कठिन तप किया, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तप को देखकर ब्रह्माजी उनके समीप गये और कहा-हे तात ! वर माँगो, मैं प्रसन्न हूँ।

करि विनती गहि पद दससीसा * बोलेउ वचन सुनहुँ जगदीसा

हम काहू के मरहिं न मारे * वानर मनुज जाति दुइ वारे

तब विनती कर, चरण पकड़कर रावण बोला-हे जगदीश्वर ! वानर और मनुष्य दोनों तुच्छ जातियों को छोड़कर हम किसो के मारे न मरें।

एवमस्तु तुम्ह वड़ तप कीन्हा * मैं ब्रह्मा मिलि तेहि वर दीन्हा

पुनि प्रभुकुम्भकरन पहिं गयऊ * तेहि विलोकि मन विस्मय भयऊ

(शिवजी कहते हैं कि) मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर बरदान दिया कि 'एवमस्तु' तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्माजी कुम्भकर्णके पास गये, तो उसे देखकर मन में आश्चर्य हुआ।

जौं एहि खलनित करव अहारू * होइहिं सब उजारि संसारू

सारद प्रेरि तासु मति फेरी * माँगेसि नौद माँस षट केरी

जो यह दुष्ट नित्य-प्रति भोजन करेगा तो सब संसार उजाड़ हो जायगा। अतः सरस्वती जी को भेजकर उसकी मति फेर दी। तब उसने छः महीने की नौद मांगी-

दोहा—गए विभीषन पास पुनि, कहेउ पुत्र वर माँगु।

तेहि माँगेउ भगवन्त पद, कमल अमल अनुरागु ॥१८२॥

फिर ब्रह्माजी विभीषण के पास गये और कहा-हे पुत्र ! वर माँगो, तब उसने भगवान् के चरण-कमलों में प्रीति मांगी।

तिन्हहि देइ वर ब्रह्म सिधाए * हरषित ते अपने गूह आए

मय तनुजा मन्दोदरि नामा * परम सुन्दरी नारि ललामा

उनको वर देकर ब्रह्माजी चले गये, तब वे भी प्रसन्न होकर अपने घर आये। फिर मय-दानन की कन्या मन्दोदरी स्त्रियों में श्रेष्ठ थी।

सोइ मयँ दीन्हि रावनहि आनी * होइहि जातुधानपति

आपनु आवइ ताहि पहिं, ताहि तहाँ लै जाइ ॥१६५॥

तुलसीदासजी कहते हैं जैसी होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आ जाती है, या उसे ही वहाँ ले जाती है।

भलेहिं नाथ आयसु धरि शीशा * बाँधि तुरँग तरु बैठि महीशा
नृप बहु भाँति प्रसंसेउ ताही * चरन बन्दि निज भाग्य सराही
हे नाथ ! बहुत अच्छा, ऐसा कहकर मुनि की आज्ञा शिरोधार्य कर, घोड़े को वृक्ष से बाँध कर राजा वहाँपर ही बैठ गया। राजा ने बहुत भाँति से मुनि की बड़ाई की और उसके चरणों में प्रणाम कर अपने भाग्य की सराहना की।

पुनि बोलेउ मृदु गिरा सुहाई * जानि पिता प्रभु करउँ ढिठाई
मोहि मुनीस सुत सेवक जानी * नाथ नाम निज कहहु बखानी

फिर कोमल और सुहाबनी वाणी से कहा—हे प्रभु ! मैं आपको पिता जानकर ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर ! मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम बताइये ?

तेहिं नहिं जान नृपाहिं सो जाना * भूप सुहृदय सो कपट सयाना
बैरी पुनि क्षत्रि सो राजा * छल बल कोन्ह चहइ निज काजा

राजाने उसे नहीं जाना, वह राजा को जानता था, राजा का हृदय निर्मल था और वह कपट में चतुर था। एक तो वह शत्रु, क्षत्रिय, जिस पर भी राजा वह छल-बल से काम निकालना चाहता था।

समुझि राजसुख दुखित अराती * अबाँ अनल इव सुलगइ छाती
सरल बचन नृप के सुनि काना * बयरु सँभारि हृदयँ हरषाना

अपने राज्य-सुख को याद कर वह शत्रु दुःखी था, कुम्हार के अवे की अग्नि के समान छाती जलती रहती थी। राजा के सरल बचन सुनकर बैर को याद कर मनमें बहुत प्रसन्न हुआ।

दोहा—कपट बोरि बानी मृदुल, बोलेउ जुगुति समेत।

नाम हमारि भिखारि अब, निर्धन रहित निकेत ॥१६६॥

वह कपट से भरे, कोमल बचन युक्तिपूर्वक बोला—अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन हैं और हमारा घरवार नहीं है।

कह नृप जे विग्यान निधाना * तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना
सदा र्हाहिं अपन पौ दुराएँ * सब विधि कुशल कुवेष बनाएँ

राजा ने कहा—आप सरीखे जो विशेष ज्ञान की खान होते हैं और अभिमान से रहित होते हैं, वे सदैव अपने आपको छिपाये रहते हैं। क्योंकि कुवेष बनाकर रहने में सब प्रकार से मलाई है।

तेहिं तें कहहिं सन्त श्रुति टेरेँ * परम अकिंचन प्रिय हरि केरेँ
तुम्हसस अधम भिखारि अगेहा * होति विरञ्चि शिवहि सन्देहा

इसी से सन्त और वेद पुकार कर कहते हैं कि अकिंचन ही भगवान के प्रिय हैं। आपके समान निर्धन, भिखारी और गृह-हीनों पर ब्रह्मा तथा शिवजी को भी सन्देह होता है।

जेहि जस जोग बाँटि गृह दीन्हे * सुखी सकल रजनीचर कीन्हे
ऐक वार कुवेर पहुँ धावा * पुष्पक यान जीत लै आवा

योग्यतानुसार सबको रहने के लिए घर बांट दिये, सभी राक्षसों को सुखी किया। एक वार कुवेर पर धावा करके उसके पुष्प विमान को जीत कर ले आया।

दौहा—कौतुक ही कैलाश पुनि, लीन्हेसि जाइ उठाइ।

मनहुँ तोल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाइ ॥१८५॥

फिर एक वार खेल में ही जाकर कैलाश पर्वत को उठा लिया और अपनी मुजाओं के बल को तोलकर, बहुत सुख पाकर चला आया।

सुख सम्पति सुत सेन सहाई * जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई
नित नूतन सब बाढ़त जाई * जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई

सुख सम्पदा, पुत्र सेना, सहायक, विजय प्रताप बल, बुद्धि और बढ़ाई ये सब नित्य नये बढ़ते थे, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है।

अतिबल कुम्भकरन असम्नाता * जेहि कहूँ नहिं प्रतिभटजगजाता
करइ पान सोवइ षट माषा * जागत होइ तिहुँ पुर त्रासा

महाबली कुम्भकरण ऐसा भाई था, जिसके जोड़ का दूसरा कोई और शूरवीर संसार में नहीं जन्मा। वह मदिरा पीकर छः महीने सोता था, उसके जागने पर तीनों लोक डर जाते थे।

जोदिन प्रति आहार कर सोई * विश्व वेगि सब चौपट होई
समर धीर नहिं जाइ बखाना * तेहि सम अमित वीर बलवाना

जो वह नित्य प्रति भोजन करता, सम्पूर्ण जगत् जल्दी से ही चौपट हो जाता। यह युद्ध में ऐसा धैर्यवान था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके जैसे अनेक वीर यहाँ और भी थे।

वारिदनाद जेठ सुत तासू * भट महँ प्रथम लोक जग जासू
जेहि न होइ रन सन्मुख कोई * सुरपुर नितिं परावन होई

रावण के बड़े पुत्र मेघनाद की जगत के शूरवीरों में पहली गिनती थी। उसके सामने युद्ध में कोई नहीं आ सकता था, इन्द्रलोक में तो नित्य ही भागा-भाग मची रहती थी।

दोहा—कुमुख अकम्पन कुलसरद, धूमकेतु अतिकाय।

एकाहिं एक जग जीत सक, ऐसे सुभट निकाय ॥१८६॥

दुर्मुष, अकम्पन, वस्त्र, धूमकेतु, अतिकाय आदि अनेक योद्धा ऐसे थे, जो कि संसार भर को अकेले ही जीत सकते थे।

काम रूप जानहिं सब माया * सपनेहुँ जिन्हकें धरम न दाया
दसमुख बैठ सभा एक वारा * देखि अमित आपन परिवारा

सब राक्षस इच्छानुसार रूप बनाने वाले, सब प्रकार की माया जानते थे। सपने में भी उनके

जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिये ।

दोहा-आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भै मोरि ।
नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरि ॥१॥

कपटी-मुनि बोला-जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई, तब ही मेरी उत्पत्ति हुई। तब से दूसरी देह धारण नहीं की, इसी से 'एकतनु' नाम हुआ ।

जनु आचरजु करहु मन माहीं * सुत तप तें दुर्लभ कछु
तपबल तें जग सृजइ विधाता * तपबल विष्णु भए जगत्र

हे पुत्र ! मन में आश्चर्य मत करो । तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, तप के प्रताप से ही सृष्टि रचते हैं, तप के प्रताप से ही विष्णु जगत की रक्षा करते हैं ।

तपबल शम्भु करहि संहारा * तप तै अगम न कछु संसा
भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा * कथा पुरातन कहै सो लाग

तप के प्रताप से ही शंकरजी संहार करते हैं, तप से संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है यह सुन राजा को अत्यन्त स्नेह हुआ, तब वह मुनि पुरानी कथा कहने लगा ।

करम धरम इतिहास अनेका * करइ निरूपन विरति बिवेका
उद्भव पालन प्रलय कहानी * कहेसि अमित आचरज बखानी

उसने कर्म, धर्म, अनेक इतिहास, वैराग्य और ज्ञान का वर्णन किया । उत्पत्ति, पालन और प्रलय की अनेक और आश्चर्य से भरी कथाएँ सुनाईं ।

सुनी महीस तापस बस भयऊ * आपन नाम कहन तब लयऊ
कहँ तापस नृप जानउँ तोही * कीन्हेउ कषट लाग भल सोही

सुनकर राजा उस तपस्वी के वश में होगया और तब अपना नाम बताने लगा । तपसी ने कहा-हे राजा ! मैं जानता हूँ, तुमने कपट किया-सो मुझे अच्छा लगा ।

सो०-सुनु महीस अस नीति, जहँ तहँ नाम न कहहि नृप ।
सोहि तोहि पर अतिप्रीति, परस चतुरता निरखि तब ॥२५॥

हे राजन ! सुनो ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ-तहाँ अपना नाम नहीं बताते । तुम्हारी बड़ी चतुराई को देखकर मुझे अत्यन्त स्नेह हो गया है ।

नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा * सत्यकेतु तब पिता नरेसा
रु प्रसाद सब जानउँ राजा * कहि न आपन जानि अकाजा

तुम्हारा नाम प्रतापभानु है, तुम्हारे पिता राजा सत्यकेतु थे । हे राजन ! गुरु की कृपा से सब जानता हूँ परन्तु अपनी हानि जानकर नहीं कहता ।

व तात तव सहज सुधाई * प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई
जि परी समता मन मोरे * कहउँ कथा निज पूछे तोरे

तुम्हारे पिता राजा सत्यकेतु थे । हे राजन ! गुरु की कृपा से सब जानता हूँ परन्तु अपनी हानि जानकर नहीं कहता ।

जेहि जस जोग बाँटि गृह दीन्हे * सुखी सकल रजनीचर कीन्हे
 एक वार कुवेर पहुँ धावा * पुष्पक यान जीत लै आवा
 योग्यतानुसार सबको रहने के लिए घर बाँट दिये, सभी राक्षसों को सुखी किया। एक
 वार कुवेर पर धावा करके उसके पुष्प विमान को जीत कर ले आया।

दोहा—कौतुक ही कैलाश पुनि, लीन्हेसि जाइ उठाइ।

मनहुँ तोल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाइ ॥१८५॥

फिर एक वार खेल में ही जाकर कैलाश पर्वत को उठा लिया और अपनी नुजाओं के
 बल को तोलकर, बहुत सुख पाकर चला आया।

सुख सम्पति सुत सेन सहाई * जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई
 नित नूतन सब बाढ़त जाई * जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई

सुख सम्पदा, पुत्र सेना, सहायक, विजय प्रताप बल, बुद्धि और बढ़ाई ये सब नित्य नये बढ़ते
 थे, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है।

अतिबल कुम्भकरन असभ्राता * जेहि कहुँ नहिं प्रतिभटजगजाता
 करइ पान सोवइ षट माषा * जागत होइ तिहुँ पुर त्रासा

महाबली कुम्भकरण ऐसा भाई था, जिसके जोड़ का दूसरा कोई और शूरवीर संसार में
 नहीं जन्मा। वह भविरा पीकर छः महोने सोता था, उसके जागने पर तीनों लोक डर जाते थे।

जोदिन प्रति आहार कर सोई * विश्व वेगि सब चौपट होई
 समर धीर नहिं जाइ बखाना * तेहि सम अमित वीर बलवाना

जो वह नित्य प्रति भोजन करता, सम्पूर्ण जगत् जल्दी से ही चौपट हो जाता। वह
 युद्ध में ऐसा धैर्यवान था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके जैसे अनेक वीर
 यहाँ और भी थे।

वारिदनाद जेठ सुत तासू * भट महें प्रथम लोक जग जासू
 जेहि न होइ रन सन्मुख कोई * सुरपुर नितहिं परावन होई

रावण के बड़े पुत्र मेघनाद की जगत के शूरवीरों में पहली गिनती थी। उसके सामने
 युद्ध में कोई नहीं आ सकता था, इन्द्रलोक में तो नित्य ही नागा-भाग मची रहती थी।

दोहा—कुमुख अकम्पन कुलसरद, धूमकेतु अतिकाय।

एकहिं एक जग जीत सक, ऐसे सुभट निकाय ॥१८६॥

दुर्मुँह, अकम्पन, वस्त्र, धूमकेतु, अतिकाय आदि अनेक योद्धा ऐसे थे, जो कि संसार भर
 को अकेले ही जीत सकते थे।

काम रूप जानहिं सब माया * सपनेहुँ जिन्हकें धरम न दाया
 दसमुख बैठ सभा एक वारा * देखि अमित आपन परि...

सब राक्षस इच्छानुसार रूप बनाने वाले, सब प्रकार की माया जानते थे।

मित्तव हमार भुलाव निज, कहहु तौहमहिं नखोरि ॥१७०॥

‘एवमस्तु’ कहकर कपटी-मुनि फिर बोला—सुन हमारा मिलन और वन में मार्ग भूल जाना-किसी से नहीं कहना, और यदि कहोगे तो मेरा दोष नहीं है।

तातेँ मैं तोहि बरजउँ राजा * कहेँ कथा तव परम अकाजा
छठेँ श्रवन यह परत कहानी * नास तुम्हार सत्य मम बानी

हे राजा ! मैं तुमसे इसलिये मना करता हूँ कि इस बात के कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश होजायगा, मेरा यह वचन सत्य जानना।

यह प्रगटेँ अथवा द्विज श्रापा * नास तोर सुनु भानुप्रतापा
आन उपायँ निधन तव नाहीँ * जौँ हरि हर कोपहिं मन माहीं

हे प्रतापभानु ! सुनो, यह बात प्रकट होने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश है। अन्य उपाय-से चाहे श्रीहरि व शिवजी ही मन में कोप करें, तो भी—तुम्हारा नाश नहीं है।

सत्य नाथ पद गहि नृप भाषा * द्विज गुरु कोप कहहु को राखा
राखइ गुरु जो कोप विधाता * गुरुविरोध नहिं कोउ जग त्राता

राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा—हे नाथ ! ब्राह्मण और गुरु के कोप से कौन रक्षा कर सकता है ? जो ब्रह्माजी कोप करें तो गुरु रक्षा कर सकता है, किन्तु गुरु के विरोध से कोई रक्षक नहीं है।

जौँ न चलब हम कहेँ तुम्हारे * होउ नास नहिं सोच हमारे
एकहि डर डरपत मन सोरा * प्रभु सहिदेव श्राप अति घोरा

यदि आपके कहने पर मैं न चलूँ, तो चाहे नाश हो जाय—मुझे इसकी चिंता नहीं है। परन्तु हे प्रभु ! एक ही डर से मेरा मन डरता है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयंकर होता है।

दोहा—होहिं विप्रबस कवन विधि, कहहु कृपा करि सोउ।

तुम्ह तजि दीनदयाल निज, हितू न देखउँ कोउ ॥१७१॥

जिस उपाय से ब्राह्मण वश में हों, वह कृपा करके कहिये। हे दीनदयालु ! आपको छोड़ और कोई मैं अपना हितैषी नहीं देखता।

सुनुनृप विविध जनत जग माहीं * कष्टसाध्य पुनि होहि कि नाहीँ
अहइ एक अति सुगम उपाई * तहाँ परन्तु एक कठिनाई

मुनि बोले—हे राजा ! सुनो, संसार में अनेक उपाय हैं, परन्तु कठिनता से होते हैं, फिर भी वह हों, न हों। एक उपाय बहुत ही सहज है, परन्तु उसमें भी एक कठिनता है।

मम आधीन जुगुति नृप सोई * सोर जाब तब नगर न होई
आजु लगेँ अरु जब तेँ भयऊ * काहू के गृह ग्राम न गयऊ

वह युक्ति मेरे आधीन है, परन्तु मैं तुम्हारे नगर में नहीं जा सकता। जब से मैं जन्मा हूँ, तब से आज तक किसी के घर अथवा गाँव में नहीं गया हूँ।

रत्न मद मत्त फिरह जग धावा * प्रति भट खोजत कतहुँ न पावा

दिकपालों के मुहावने लोकों को रावण ने मूना पाया। वह बारम्बार सिंह के समान गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियाँ देने लगा। युद्ध के मद से मतवाला रावण जगत में दौड़ता फिरा, परन्तु अपने समान योद्धा खोज करने पर भी उसे कहीं नहीं पाया।

रवि ससि पवनवरुन धन धारी * अगिनिकालजम सब अधिकारी
किन्नर सिद्ध मनुज सुन नागा * हठि सबही के पन्थहिं लागा

सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यम आदि सब यज्ञ की आहुति के अधिकारी देवता और किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, नाग-इन सब ही के पीछे हठपूर्वक पड़ गया।

ब्रह्मसृष्टि जहँ लगि तनुधारी * दसमुख वसवती नर नारी
आयसु करसि सकल भयभीता * नवहिं आइ नित चरन विनीता

ब्रह्माजी की सृष्टि में जहाँ तक शरीर धारी नर-नारी थे, सब रावण के आधीन होगये। वे सब रावण की आज्ञाका पालन करते और नित्य आकर नम्रता से चरणों में प्रणाम करते थे।

दोहा—भुजबल विश्व वस्यकरि, राखेसिकोउ न सुतंत्र ।

मण्डलीक मनि रावन, राज करइ निज मन्त्र ॥१८८॥

रावण ने अपनी भुजाओं के बल से विश्व को बश में करलिया था, किसी की स्वाधीन नहीं रखवा। सब राजाओं में चकवर्ती होकर अपनी ही सलाह से राज्य करने लगा।

इन्द्रजीत सन जो कछु कहेऊ * सो सबजनु पहिलेहिं करिरहेऊ
प्रथमहिं जिन्हकहुँ आयसु दीन्हा * तिन्हकरचरित सुनहु जो कीन्हा

रावण ने मेघनाद से जो कुछ कहा, उसने उसे मानो पहले ही कर रखवा था। पहले ही जिनको आज्ञा दी थी, उन्होंने जो किया, उन राक्षसों के भी चरित्र सुनो—

देखत भीमरूप सब पापी * निसिचर निकर देव परितापी
करहिं उपद्रव असुर निकाया * नाना रूप धरहिं करि माया

देखने में वे सब राक्षस-समूह भयंकर रूप, पापी और देवताओं को दुःख देने वाले थे। असुर-गण माया से अनेक रूप धरकर यह उपद्रव करने लगे—

जेहिं विधि होइ धर्म निर्मूला * सो सब करहिं वेद प्रतिकूला
जेहिं जेहिदेश धनु द्विज पार्वहिं * नगर गाउँ पुर आग लगावहिं

जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वही वेद-विरुद्ध सब काम करने लगे। जिस देश में गो और ब्राह्मण पाते, उसी गाँव और नगर में आग लगा देते थे।

शुभ आचरन कतहुँ नहिं होई * देव विप्र गुरु मान न कोई
नहिं हरि भगति जग्य तपग्याना * सपनेहुँ सुनिअ न वेद पुराना

शुभ-कर्म नहीं हो पाते थे, जब ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। हरि नमित यज्ञ, तप वान नहीं होते और वेद-पुराण तो कोई स्वप्न में भी नहीं सुनता था।

नित्य सौ हजार (एक लाख) नित्य-नये ब्राह्मणों को परिवार सहित आमन्त्रित करो । संकल्प कर भोजन बनाऊँगा ।

एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे * होइहाँहि सकल विप्र वश तोरे
करिहाँहि विप्र होम मख सेवा * तोहि प्रसंग सहजहाँ वश देवा

हे राजन् ! इस विधि से बहुत थोड़े ही कष्ट से सब ब्राह्मण वश में हो जायेंगे । वे ब्राह्मण होम, यज्ञ और पूजा करेंगे, इस प्रसंग से सहज ही मैं सब देवता वश में हो जायेंगे ।

और एक तोहि कहउँ उपाऊ * मैं एहि वेष न आउव काऊ
तुम्हरे उपरोहित कहूँ राया * हरि आनव मैं करि निज माया

एक बात तुमको और बतलाये देता हूँ कि इस वेष में मैं कभी नहीं आऊँगा । हे राजन् ! तुम्हारे पुरोहित को मैं अपनी माया से हर लाऊँगा ।

तपवल तेहि करि आपु समाना * रखिहउँ इहाँ वरष परमाना
मैं धरि तासु वेष सुनु राजा * सब विधि तोर सँवारव काजा

तपस्या के बल से उसको अपने समान बनाकर यहाँ एक वर्ष तक रखूँगा । मैं उसका वेष धारण कर सब भाँति से तुम्हारा कार्य समावूँगा ।

गै निसि बहुत शयन अब कीजै * मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजै
मैं तपवल तोहि तुरग समेता * पहुँचैहउँ सोवतहि निकेता

बहुत रात्रि व्यतीत हो गई, अब तुम शयन करो । हे राजन् ! अब तुमसे हमारी तीसरे दिन भेंट होगी । तपोबल से मैं तुमको घोड़ा सहित सोते ही घर पहुँचा दूँगा ।

दोहा—मैं आउव सोइ वेष धरि, पहिचानेउ तव मोहि ।

जब एकान्त बुलाइ सब, कथा सुनावौ तोहि ॥१७४॥

मैं वही वेष धारण कर आऊँगा और जब एकान्त में बुलाकर तुमको सब कथा सुनाऊँ, तब तुम मुझे पहिचान लेना ।

शयन कीन्ह नृप आयसु मानी * आसन जाइ बैठ छल ग्यानी
श्रमित भूप निद्रा अति आई * सो किमि सोव सोच अधिकारी

मुनि को आज्ञा मानकर राजा सो गया तब वह कपटी-मुनि अपने आसन पर जा बैठा । थके हुए राजा को बहुत जल्दी नींद आ गई, परन्तु वह कपटी कैसे सोता—उसे तो बहुत सोचया ?

कालकेतु निसचर तहँ आवा * जेहि सूकर होइ नृपहि भुलावा
परम मित्र तापस नृप केरा * जानइ सो अति कपट घनेरा

उसी समय कालकेतु राक्षस वहाँ आया, जिसने सूअर बनकर राजा को भुलाया था । वह तपस्वी राजा का परम मित्र था, जो स्वयं बहुत प्रकार का कपट जानता था ।

तेहि के शत सुत अरु दस भाई * खल अति अजय देव दुखुदाई

रन मद मत्त फिरह जग धावा * प्रति भट खोजत कतहुँ न पावा

दिकपालों के सुहावने लोकों को रावण ने सूना पाया। वह बारम्बार सिंह के समान गर्जना करके देवताओं को तलकार कर गालियाँ देने लगा। युद्ध के मद से मतवाला रावण जगत में बौड़ता फिरा, परन्तु अपने समान योद्धा खोज करने पर भी उसे कहीं नहीं पाया।

रवि ससि पवनवरुन धन धारी * अगिनिकालजम सब अधिकारी
किन्नर सिद्ध मनुज सुन नागा * हठि सबही के पन्याहिं लागा

सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यम आदि सब यज्ञ की आहुति के अधिकारी देवता और किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, नाग-इन सब ही के पीछे हठपूर्वक पड़ गया।

ब्रह्मसृष्टि जहँ लगि तनुधारी * दसमुख वसवती नर नारी
आयसु करसि सकल भयभीता * नवाहिं आइ नित चरन विनीता

ब्रह्माजी की सृष्टि में जहाँ तक शरीर धारी नर-नारी थे, सब रावण के आधीन हांगये। ये सब रावण की आज्ञाका पालन करते और नित्य आकर नम्रता से चरणों में प्रणाम करते थे।

दोहा-भुजवल विश्व बस्यकरि, राखेसिकोउ न सुतंत्र।

मण्डलीक मनि रावन, राज करइ निज मन्त्र ॥१८८॥

रावण ने अपनी भुजाओं के बल से विश्व को चरा में करलिया था, किसी की स्वाधीन नहीं रखवा। सब राजाओं में चक्रवर्ती होकर अपनी ही सलाह से राज्य करने लगा।

इन्द्रजीत सन जो कछु कहेऊ * सो सबजनु पहिलेहिं करिरहेऊ
प्रथमहिं जिन्हकहुँ आयसु दीन्हा * तिन्हकरचरित सुनहु जो कीन्हा

रावण ने मेघनाद से जो कुछ कहा, उसने उसे मानो पहले ही कर रखवा था। पहले ही जिनको आज्ञा दी थी, उन्होंने जो किया, उन राक्षसों के भी चरित्र सुनो-

देखत भीमरूप सब पापी * निसिचर निकर देव परितापी
करहिं उपद्रव असुर निकाया * नाना रूप धरहिं करि माया

देखने में वे सब राक्षस-समूह भयंकर रूप, पापी और देवताओं को दुःख देने वाले थे। असुर-गण माया से अनेक रूप धरकर यह उपद्रव करने लगे-

जेहिं विधि होइ धर्म निर्मूला * सो सब करीइ वेद प्रतिकूला
जेहिं जेहिंदेश धनु द्विज पारवाहिं * नगर गाउँ पुर आग लगावाहिं

जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वही वेद-विरुद्ध सब काम करने लगे। जिस देश में गौ और ब्राह्मण पाते, उसी गाँव और नगर में आग लगा देते थे।

शुभ आचरन कतहुँ नहिं होई * देव विप्र गुरु मान न कोई
नहिं हरि भगति जग्य तपग्याना * सपनेहुँ सुनिअ न वेद पुराना

शुभ-कर्म नहीं हो पाते थे, जब ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। हरि नवित यज्ञ, तप वान नहीं होते और वेद-पराण तो कोई स्वप्न में भी नहीं सुनता था।

आपु विरचि उपरोहित रूपा * परेउ जाइ तेहि सेज अ
जागेउ नृप अनभाएँ विहाना * देखि भवन अति अचरज म

आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुन्दर सेज पर सो रहा। प्रातः होने से ही राजा जाग पड़ा और अपने को महल में देखकर आश्चर्य करने लगा—

मुनि महिमा मन महुँ अनमानी * उठेउ गवहिं जेहिं जान न रा
कानन गयउ बाजि चढ़ि तेही * पुर नर नारि न जानेउ केह

मुनि की महिमा स्मरण कर राजा चुपचाप उठा, जिससे रानी को भी पता न हो। उस घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया, यह बात नगर के किसी नर-नारी ने भी नहीं जानी।

गए जास जुग भूपति आवा * घर घर उत्सव बाज बधावा
उपरोहितहि देखि जब राजा * चकितविलोकिसुमिरिसोइकाजा

दोपहर होने पर राजा आया, तब घर-घर उत्सव हुआ, आनंद-बधाई बजने लगीं। पुरोहित को जब राजा ने देखा तो चकित होकर देखने लगा और उसी बात का स्मरण हो आया।

जुग सम नृपहिं गए दिन तीनी * कपटी मुनि पद रहिमति लीनी
समय जानि उपरोहित आवा * नृपहि मते सब कहि समुझावा

राजाको तीन दिन-तीनयुग के समान बीते, क्योंकि उसकी मति कपटी-मुनि के चरणों में लीन हो रही थी। समय जानकर पुरोहित-रूपी राक्षस आया और राजा को एकान्त में लेजाकर सब बातें कहकर समझा दिया।

दोहा—नृप हरषेउ पहिचान गुरु, भ्रम बस रहा न चेत।
बरे तुरत सत सहस वर, विप्र कुटुम्ब समेत ॥१७७॥

राजा गुरु को पहिचान कर प्रसन्न हुआ, उसे भ्रम वश कुछ ज्ञान न रहा और तुरन्त एक लाख ब्राह्मणों को सपरिवार न्यौता दिया।

उपरोहित जेवनार बनाई * छरसचारिविधिजस श्रुतिगाई
मायाभय तेहिं कीन्ह रसोई * व्यञ्जन बहु गनि सकइ न कोई

पुरोहितोंने छहों रसोंके चार प्रकारके भोजन, जैसे कि शूप-शास्त्रमें कहे हैं, बनाये और अपनी पक्षी-मायासे अगम्य रसोई तैयार की, उन विभिन्न पकवानोंकी गणना कोई नहीं कर सकता।

त्रैविधि भूगन्ह कर आमिष राँधा * तेहि महुँ विप्र माँसु खाल साँधा
भोजन कहँ सब विप्र बोलाए * पद पखारि सादर बैठाए

अनेक प्रकार के पशुओं का माँस पकाया, उसमें उस दुष्टने ब्राह्मणों का मास भी मिला दिया। उनके लिए जब सब ब्राह्मणों को बुलाया और चरण धोकर आदर सहित सबको बैठाया।

सन जबहिं लाग महिपाला * भै आकाशवानी तेहि काला
बृन्द उठि उठि गृह जाहू * है बड़ि हानि अन्न जनि खाहू

सन्त जबहिं लाग महिपाला * भै आकाशवानी तेहि काला
बृन्द उठि उठि गृह जाहू * है बड़ि हानि अन्न जनि खाहू

राजा के परोसना शुरू करते ही आकाशवाणी हुई—हे ब्राह्मणों ! तुम सब उठ-उठ-ने घर जाओ। यह अन्न मत खाना, क्योंकि इसके खाने से बड़ी हानि है।

संगो तनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय सोका ॥

ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर न कछू बसाई ।

जा करि तें दासी सो अविनासी हमरेउ तोर सहाई ॥

तब देवता, मुनि, गन्धर्व सब मिलकर ब्रह्म-लोक को गये और साथ में गौ रूप धारण करने वाली भय और शोक से व्याकुल विचारी भूमि भी थी। ब्रह्माजी ने सब जान लिया और मन में अनुमान किया कि मेरा कुछ बरा नहीं चलेगा। तब (पृथ्वी से बोले-) जिसको तुम दासी हो, वही अविनाशी भगवान् हमारे सहायक हैं।

सो०-धरनि धरहु मन धीर, कह विरंचिहरिपद सुमिरु ।

जानत जन की पीर, प्रभु भञ्जहि दारुन विपति ॥२७॥

ब्रह्माजी बोले-हे पृथ्वी ! मन में धीरज धरो और श्रीहरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने भक्तों की पीड़ा को जानते हैं, वही इस कठिन विपत्ति को दूर करेंगे।

बैठे सुर सब करहि विचारा * कहँ पाइअ प्रभु करिअ पुकारा

पुर वैकुण्ठ जान कह कोई * कोउ कह पयनिधि बस प्रभु सोई

तब सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें और पुकार करें। कोई वैकुण्ठ-लोक में जाने की कहते, कोई कहते कि वह प्रभु क्षीर-सागर में बसते हैं।

जाके हृदय भगति जस प्रीती * प्रभु तहँ प्रगट सदा तेहि रीती

तेहि समाज गिरजा में रहेऊ * अवसर पाइ वचन एक कहेऊ

जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु सदा उसी प्रकार प्रकट होते हैं। हे पार्वती ! उस समाज में मैं भी था, मैंने अवसर पाकर कहा-

हरि व्यापक सर्वत्र समाना * प्रेम तें प्रगट होहि मैं जाना

देश काल दिशि विदिशहु माही * कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं

श्रीहरि सब जगह समान रूप से व्यापक हैं और प्रेमसे प्रकट हो जाते हैं, यहाँ जानता हूँ। देश, काल, दिशा और विदिशा में-कहो, वह स्थान कहाँ है, जहाँ पर प्रभु नहीं हैं।

अंग जगमय सब रहित विरागी * प्रेम तें प्रभु प्रगटइ जिमि आगी

मोर वचन सबके मन माना * साधु साधु करि ब्रह्म बखाना

सर्वत्र व्यापक, निर्लिप्त, विरक्त प्रभु-प्रेम से अग्नि के समान प्रकट होते हैं। मेरा यह कथन सबके मन को प्रिय लगा और ब्रह्मा ने साधु-साधु कहकर बड़ाई की।

दोहा-सुनि विरंचिमन हरष तनु, पुलक नयन वह नीर ।

अस्तुति करत जोरि कर, सावधान मति धीर ॥१८८॥

यह सुनकर ब्रह्मा मनमें बहुत प्रसन्न हुए और वेह में रोमावली पड़ी होगई, नेत्रों से आँसु बहने लगे। धीर-बुद्धि वाले ब्रह्माजी हाथ जोड़कर सावधान हो स्तुति क-

चिन्ता करने और देव को दोष देने लगे-जिसने हंस बनाकर कौआ बना दिया, अर्थात्-
ऐसे धर्मात्मा राजा को राक्षस बना दिया ।

उपरोहितहि भवन पहुँचाई * असुर तापसहि खबरि जनाई
तेहिं खल जहँ तहँ पत्र पठाए * सजि सजि सेन भूप सब धाए

पुरोहित को घर पहुँचा कर उस असुर ने कपटी-मुनि को सब हाल कह सुनाया । तब
उस दुष्ट ने जहाँ-तहाँ पत्र भेज दिये,जिससे अपनी २ सेना सजाकर सब राजा लोग चढ़आये ।

घेरन्हि नगर निसान बजाई * विविधि भाँति नित होइ लराई
जूझे सकल सुभट करि करनी * बन्धु समेत परेउ नृप धरनी

उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया और अनेक प्रकार से नित्य लड़ाई होने लगी ।
सब योद्धा रण में जूझ गये, तब राजा भाइयों सहित पृथ्वी पर गिर कर मर गया ।

सत्यकेतु कुल कोउ नहिं बाँचा * बिप्र श्राप किमि होइ असाँचा
रिपु जिति सब नृप नगर बसाई * निज पुर गवने जय जसु पाई

सत्यकेतु के वंश में कोई नहीं बचा, ब्राह्मणों का श्राप कैसे झूठा हो सकता? सब राजा शत्रु
को जीत कर, फिरसे नगर बसाकर, विजय और कीर्ति को पाकर, अपने २ नगरों को चले गये ।

दोहा-भरद्वाज सुनु जाहि जब, होइ विधाता बाम ।

धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि व्याल सम दास ॥१८०॥

याज्ञवल्क्यजी कहते हैं-हे भरद्वाज ! सुनो, जब किसीको विधाता विपरीत होता है, तब उसको
धूल-सुमेरु-पर्वत के समान, पिता, यम के समान और रस्सी-सर्प के समान हो जाती है ।

काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा * भयउ निसाचर सहित समाजा
दस सिर ताहि बीस भुजदन्डा * रावन नाम वीर बरिबण्डा

हे मुनि, सुनो, वही राजा प्रतापभानु समय पाकर परिवार सहित राक्षस हुआ । उसके
दस सिर और बीस भुजायें हुईं, वह बड़ा शूरवीर और उसका नाम रावण हुआ ।

भूप अनुज अरिमर्दन नामा * भाइ सो कुम्भकरन बलधामा
सचिव जो रहा धर्मरुचि जासू * भरउ विमात्र बन्धु लघु तासू

राजा का अरिमर्दन नामक छोटा भाई बलवान कुम्भकर्ण हुआ । जो धर्मरुचि नाम का
मन्त्री था, वह उसका सौतेला भाई हुआ ।

नाम विभीषन जेहि जग जाना * विष्णु भगत विग्यान निधाना
रहे जे सुत सेवक नृप केरे * भए निसाचर घोर घनेरे

जिसका विभीषण नाम सब संसार जानता है, वह श्रीहरि-भक्त परम ज्ञानी था । जो
राजा के पुत्र व सेवक थे, वे सब बड़े भयंकर राक्षस हुए ।

कामरूप खल जिनस अनेका * कुटिल भयंकर विगत विवेका
कृपा रहित हिंसक सब पापी * बरनि न जाहि विश्व परितापी

मन्दराचल-रूप, सब प्रकारसे सुन्दर, गुणों के मन्दिर और सुख के तन्त्र हैं। हे नन्द !
मनि सिद्ध और देवता बहुत ही भयानुर होकर आपके चरणारविन्दों को प्रणाम करते हैं।

दोहा-जानि सभय सुर भूमि सुनि, वचन समेत सनेह ।

गगन गिरा गम्भीर भइ, हरनि शोक सन्देह ॥१३०॥

देवताओं और भूमि को भयभीत जानकर तथा सनेह-पूर्ण वचनों को सुनकर शोक और
सन्देह को हरने वाली गम्भीर आकाशवाणी हुई-

जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा * तुम्हहि लागि धरिहउँ नर बेधा
अंसन्ह सहित मनुज अवतारा * लेहउँ दिनकर वंश उदारा

हे मुनि, सिद्ध और इन्द्रादि देवताओ ! उरो मत, मैं तुम्हारे हित के लिए ननुष्य रूप
धारण करूँगा। मैं उदार सूर्य वंश में अपने अंशों सहित ननुष्य-अवतार लूँगा।

कश्यप अदिति महातप कीन्हा * तिन्ह कहूँ मैं पूरव वर दीन्हा
ते दसरथ कौसल्या रूपा * कौसलपुरी प्रगट नरभूपा

कश्यप और अदिति ने महान् तप किया था, तो मैं उनके पहिले ही एक वरदान दे
चुका हूँ। वे अयोध्यापुरी में राजा दशरथ और रानी कौसल्या के रूप में प्रकट हुए हैं।

तिन्ह केँ घर अवतरिहउँ जाई * रघुकुल तिलक सुचारिउ भाई
नारद वचन सत्य सब करिहउँ * परम शक्ति समेत अवतरिहउँ

उनके घर जाकर रघुवंश में श्रेष्ठ हम चारों भाई अवतार लेंगे और नारदजी के सत्य
वचनों को मैं सत्य करूँगा तथा अपनी परम-शक्ति के सहित अवतार लूँगा।

हरिहउँ सकल भूमि गरुआई * निर्भय होहु देव समुदाई
गगन ब्रह्मवानी सुनि काना * तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना

मैं पृथ्वी का सम्पूर्ण भार हूँ, अतः हे देवताओ ! तुम सब निभय रहो। आकाश-
वाणी सुनकर सब देवता तुरन्त लौट आये और उनका हृदय जोतल होगया।

तव ब्रह्मा धरनिहि समुझावा * अभय भइ भरोस जिद्यो आवा
तव ब्रह्माजी ने पृथ्वी को समझाया, तो वह भी निडर हुई और जो मैं भरोसा आया।

दोहा-निज लोकहि विरंचि मे, देवन्ह इहइ सिखाइ ।

वानर तनु धरि धरनि महि, हरिपद सेवहु जाइ ॥१६१॥

देवताओं को यह कहकर कि तुम वानर-शरीर धारण कर पृथ्वी पर जाकर श्रीहरि के
चरणों की सेवा करो, ब्रह्माजी अपने लोक को चले गये।

गए देव सब निज निज धामा * भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा
जो कष्ट आयसु ब्रह्मा दीन्हा * हरषे देव विलम्ब न कीन्हा

भूमि सहित सब देवता मन में शान्तीपाकर अपने-२ स्थानों को गये और ब्रह्माजी ने व

हर्षित भयउ नारि भलि पाई * पुनि दोउ बन्धु बिआहेसि जाई

वह कन्या मय-दानव ने रावण को दी, यह समझकर कि यह राक्षसराज की पटरानी होगी। श्रेष्ठ स्त्री को पाकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ फिर दोनों भाइयों का विवाह किया।

गिरित्रिकूट एक सिन्धु मझारी * बिधि निर्मित दुर्गम अतिभारी

सोइ मयदानव बहुरि सँवारा * कनक रचित मनि भवन अपारा

समुद्रके बीच टापू पर ब्रह्माजी का बनाया हुआ एक अगम त्रिकूट पर्वत है, उसको मय-दानव ने फिर सुधारा और वहाँ बहुत से मणियों से जड़ित सुवर्ण के घर बनाये।

भोगावति जस अहिकुल वासा * अमरावति जस सक्र निवासा

तिन्ह तें अधिक रम्य अतिबंका * जग विख्यात नाम तेहि लंका

जैसे भोगावती पुरी में सर्प-कुल का वास है अमरावती पुरी में इन्द्र का निवास है, इससे भी अधिक रमणीक और बाँकी वह पुरी हुई, उसका नाम 'लंकापुरी' जगत में प्रसिद्ध है।

दोहा-खाई सिंधु गँभीर अति, चारिहु दिसि फिर आव।

कनककोटि मनिखचित दृढ़, बरनि न जाइ बनाव ॥१८३॥

बहुत ही गहरा समुद्र उसके चारों ओर की खाई थी और मणिजड़ित सोने का गढ़ ऐसा दृढ़ था कि जिसके बनाव का वर्णन नहीं हो सकता।

हरि प्रेरित जेहि कल्प जोइ, जातुधान पति होइ।

सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोइ ॥१८४॥

भगवान की इच्छा से जिस कल्प में जो राक्षसों का स्वामी होता है। वह सूर वीर, प्रतापी और महा पराक्रमी राजा अपनी सेना सहित उस पुरी में रहता है।

रहे तहाँ निसाचर भट भारे * ते सब सुरन्ह समर संहारे

अब तहँ रहहिं सक्र के प्रेरे * रच्छक कोटि जच्छपति केरे

पहले वहाँ बड़े वीर राक्षस रहते थे, उन सबको देवताओं ने मार डाला। अब वहाँ इन्द्र की आज्ञा से कुवेर के एक करोड़ रक्षक रहते हैं।

दसमुख कतहुँ खबरि अस पाई * सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई

देखि विकट भट बड़ि कटकाई * जच्छ जीव लै गए पराई

रावण ने कहीं यह खबर सुनी, तो सेना सजाकर लंका गढ़ को जा घेरा। उसके भयंकर योद्धाओं की बड़ी भारी सेना देखकर सब यक्ष प्राण बचाकर भाग गये।

फिर सब नगर दसानन देखा * गयउ सोच सुख भयउ विसेषा

सुन्दर सहज अगम अनुमानी * कीन्ह तहाँ रावन रजधानी

रावण ने वहाँ घूमकर सब लंकापुरी को देखा, सब सोच जाता रहा और बहुत सुखी हुआ लंकापुरी को सुन्दर और दुर्गम अनुमान कर रावण ने वहाँ राजधानी नियत की।

मन्दराचल-रूप, सब प्रकारसे सुन्दर, गुणों के मन्दिर और सुख के समूह हैं। हे नाथ ! मुनि सिद्ध और देवता बहुत ही भयानुर होकर आपके चरणारविन्दों को प्रणाम करते हैं।

दोहा-जानि सभय सुर भूमि सुनि, वचन समेत सनेह।

गगन गिरा गम्भीर भइ, हरनि शोक सन्देह ॥१८०॥

देवताओं और भूमि को भयभीत जानकर तथा स्नेह-पूर्ण वचनों को सुनकर शोक और सन्देह को हरने वाली गम्भीर आकाशवाणी हुई-

**जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा * तुम्हहि लागि धरिहउँ नर वेपा
अंसन्ह सहित मनुज अवतारा * लेहउँ दिनकर वंश उदारा**

हे मुनि, सिद्धि और इन्द्रादि देवताओ ! डरो मत, मैं तुम्हारे हित के लिए मनुष्य रूप धारण करूँगा। मैं उदार सूर्य वंश में अपने अंशों सहित मनुष्य-अवतार लूँगा।

**कश्यप अदिति महातप कीन्हा * तिन्ह कहूँ मैं पूरव वर दीन्हा
ते दसरथ कौसल्या रूपा * कौसलपुरी प्रगट नरभूपा**

कश्यप और अदिति ने महान् तप किया था, तो मैं उनको पहिले ही एक वरदान दे चुका हूँ। वे अयोध्यापुरी में राजा दशरथ और रानी कीशिल्या के रूप में प्रकट हुए हैं।

**तिन्ह केँ घर अवतरिहउँ जाई * रघुकुल तिलक सुचारिउ भाई
नारद वचन सत्य सब करिहउँ * परम शक्ति समेत अवतरिहउँ**

उनके घर जाकर रघुवंश में श्रेष्ठ हम चारों भाई अवतार लेंगे और नारदजी के सब वचनों को मैं सत्य करूँगा तथा अपनी परम-शक्ति के सहित अवतार लूँगा।

**हरिहउँ सकल भूमि गरुआई * निर्भय होहु देव समुदाई
गगन ब्रह्मवानी सुनि काना * तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना**

मैं पृथ्वी का सम्पूर्ण भार हूँगा, अतः हे देवताओ ! तुम सब निर्भय रहो। आकाश-वाणी सुनकर सब देवता तुरन्त लौट आये और उनका हृदय शीतल होगया।

**तव ब्रह्मा धरनिहि समुझावा * अभय भइ भरोस जियँ आवा
तव ब्रह्माजी ने पृथ्वी को समझाया, तो वह नो निडर हुई और जो मैं भरोसा आया।**

दोहा-निज लोकहि विरंचि गे, देवन्ह इहइ सिखाइ।

वानर तनु धरि धरनि महि, हरिपद सेवहु जाइ ॥१८१॥

देवताओं को यह कहकर कि तुम वानर-शरीर धारण कर पृथ्वी पर जाकर श्रीहरि के चरणों की सेवा करो, ब्रह्माजी अपने लोक को चले गये।

**गए देव सब निज निज धामा * भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा
जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा * हरषे देव विलम्ब न कीन्हा**

भूमि सहित सब देवता मन में शान्तीपाकर अपने-अपने स्थानों को गये और ब्रह्माजी ने जो

हर्षित भयउ नारि भलि पाई * पुनि दोउ बन्धु विआहेसि जाई

वह कन्या मय-दानव ने रावण को दी, यह समझकर कि यह राक्षसराज को पटरानी होगी। श्रेष्ठ स्त्री को पाकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ फिर दोनों भाइयों का विवाह किया।

गिरित्रिकूट एक सिन्धु मञ्जारी * विधि निर्मित दुर्गम अतिभारी

सोइ मयदानव बहुरि सँवारा * कनक रचित मनि भवन अपारा

समुद्रके बीच टापू पर ब्रह्माजी का बनाया हुआ एक अगम त्रिकूट पर्वत है, उसको मय-दानव ने फिर सुधारा और वहाँ बहुत से मणियों से जड़ित सुवर्ण के घर बनाये।

भोगावति जस अहिकुल वासा * अमरावति जस सक्र निवासा

तिन्हू तें अधिक रम्य अतिबंका * जग विख्यात नाम तेहि लंका

जैसे भोगावती पुरी में सर्प-कुल का वास है अमरावती पुरी में इन्द्र का निवास है, इससे भी अधिक रमणीक और बाँकी वह पुरी हुई, उसका नाम 'लंकापुरी' जगत में प्रसिद्ध है।

दोहा—खाई सिंधु गँभीर अति, चारिहु दिसि फिर आव।

कनककोटि मनिखचित दृढ़, बरनि न जाइ बनाव ॥१८३॥

बहुत ही गहरा समुद्र उसके चारों ओर की खाई थी और मणिजड़ित सोने का गढ़ ऐसा दृढ़ था कि जिसके बनाव का वर्णन नहीं हो सकता।

हरि प्रेरित जेहि कल्प जोइ, जातुधान पति होइ।

सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोइ ॥१८४॥

भगवान की इच्छा से जिस कल्प में जो राक्षसों का स्वामी होता है। वह सूर वीर, प्रतापी और महा पराक्रमी राजा अपनी सेना सहित उस पुरी में रहता है।

रहे तहाँ निसाचर भट भारे * ते सब सुरन्ह समर संहारे

अब तहँ रहहिं सक्र के प्रेरे * रचछक कोटि जचछपति केरे

पहले वहाँ बड़े वीर राक्षस रहते थे, उन सबको देवताओं ने मार डाला। अब वहाँ इन्द्र की आज्ञा से कुवेर के एक करोड़ रक्षक रहते हैं।

दसमुख कतहुँ खबरि अस पाई * सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई

देखि विकट भट बड़ि कटकाई * जचछ जीव लै गए पराई

रावण ने कहीं यह खबर सुनी, तो सेना सजाकर लंका गढ़ को जा घेरा। उसके भयंकर योद्धाओं की बड़ी भारी सेना देखकर सब यक्ष प्राण बचाकर भाग गये।

फिर सब नगर दसानन देखा * गयउ सोच सुख भयउ विसेषा

सुन्दर सहज अगम अनुमानी * कीन्ह तहाँ रावन रजधानी

रावण ने वहाँ घूमकर सब लंकापुरी को देखा, सब सोच जाता रहा और बहुत सुखी हुआ लंकापुरी को सुन्दर और दुर्गम अनुमान कर रावण ने वहाँ राजधानी नियत की।

और बोले—जो कुछ वशिष्ठजी ने हृदय में विचार किया था, वह तुम्हारा कार्य सिद्ध होगया। हे राजन ! यह धोर लेजाकर यथा-योग्य भाग करके रानियों को बाँट दो।

दोहा—तव अदृश्य पावक भए, सकल सभहि समुझाइ।

परमानन्द मगन नृप, हरष न हृदयँ समाइ ॥१६२॥

तब सम्पूर्ण सभा को समझाकर अग्निदेव अन्तर्धान हो गये। महाराज परमानन्द में मग्न हो गये, उनके हृदय में हर्ष नहीं समाता था।

तवहि रायँ प्रिय नारि बोलाई * कौशल्यादि तहाँ चलि आई

धर्म भाग कौशल्याहि दीन्हा * उभय भाग आधे करि दीन्हा

उसी समय राजा ने प्रिय रानियों को बुलाया, तो कौशल्यादि सब रानियाँ वहाँ चली आईं तब धोर का आधा भाग कौशल्या को दिया और आधे भाग के दो भाग किये।

कैकई कहँ नृप सो दयऊ * रह्यौ सो उभय भाग पुनि भयऊ

कौशल्या कैकई हाथ धरि * दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि

उसमें से एक भाग कैकयी को दिया, शेष भाग के फिर दो भाग किये, उनको कौशल्या और कैकई के हाथ पर धरकर, प्रसन्न मन से सुमित्रा को दे दिया।

एहि विधि गर्भ सहित सब नारी * भई हृदयँ हर्षित सुख भारी

जा दिन ते हरि गर्भहि आए * सकल लोक सुख सम्पति छाए

इस प्रकार सब रानियाँ गर्भवती हुईं, हृदय में प्रसन्नता और बड़ा सुख हुआ। जिस दिन से श्रीहरि गर्भ में आये, तब से सब लोकों में सुख और सम्पत्ति छा गई।

मन्दिर महँ सब राजाहि रानी * सोभा सील तेज की खानी

सुखजुत कछुक कालि चलि गयऊ * जेहिं प्रभुप्रगट सो अवसर भयऊ

शोभा, सील और तेज की खान सब रानियाँ महल में मुशोभित थीं। सुखसे कुसमय व्यतीत हुआ, फिर जब प्रभु प्रकट होने वाले थे, वह अवसर आ पहुँचा।

दोहा—जोग लगन ग्रह वार तिथि, सकल भए अनुकूल।

चर अरु अचर हर्षजुत, राम जनम सुख मूल ॥१६४॥

जोग, लगन, ग्रह, वार और तिथि—सभी अनुकूल हो गये। चर-अचर सभी जीव बहुत ही आनन्दित हुए, क्योंकि श्रीरामजी का जन्म ही समस्त सुखों की जड़ है,

नौमी तिथि मधु मास पुनीता * सुकल पच्छ अभिजित हरिप्रीता

मध्य दिवस अति सीत न घामा * पावन काल लोक विश्रामा

नौमी तिथि, पवित्र चंद्र-मास, शुक्ल-पक्ष, मगवान का प्रिय अभिजित नक्षत्र मध्याह्न-काल, न बहुत शीत, न बहुत धूप, संसार को शान्ती देने वाला पवित्र समय था।

सीतल मन्द सुरभि वह वाऊ * हर्षित सुर सन्तन्ह मन चण्ड

हृदय में दया-धर्म नहीं था। एक बार रावण ने सभा में बैठकर अपना असंख्य परिवार देखा।
सुत समूह जन परिजन नाती * गनै को पार निसाचर जाती
सेन विलोकि सहज अभिमानी * बोला बचन क्रोध मद सानी

पुत्र, पौत्र, कुटुम्बी और सेवक आदि राक्षसों की जाती कौन गिन सकता है ? सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और घमण्ड से भरे वचन बोला-

सुनहु सकल रजनीचर जूथा * हमरे बैरी विबुध बरूथा
ते सन्मुख नहिं करहिं तराइ * देखि सकल रिपु जाहिं पराई

सभी राक्षस लोग सुनो-हमारे बैरी सब देवता हैं, वे सामने होकर लड़ाई नहीं करते और बलवान शत्रु देखकर भाग जाते हैं।

तिन्ह कर मरन एक विधि होई * कहउं बुझाइ सुनहु अब सोई
द्विज भोजन मख होम सराधा * सब कै जाइ करहु तुम्ह बाधा

उनका मरण केवल एक प्रकार से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ, सो सुनो-ब्राह्मण-भोजन, यज्ञ, हवन, श्राद्ध इनमें जाकर तुम बाधा डालो।

दोहा-छुदाछीन बलहीन सुर, सहजहिं मिलिहहिं आइ।

तब मारिहउं कि छाँड़िहउं, भली भाँति अपनाइ ॥१८७॥

फिर भूख से दुर्बल और निर्बल होकर देवता लोग सहज ही में आकर हमसे मिलेंगे। तब मैं उनको मार डालूँगा अथवा अच्छी तरह अपने आधीन करके छोड़ दूँगा।

मेघनाद कहुं पुनि हँकरावा * दीन्ही सिख बलु बयर बढ़ावा
जे सुर समर धीर बलवाना * जिन्हु के लरिवे कर अभिमानी

फिर मेघनाद को बुलाया और शिक्षा देकर उसके बल और देवताओं के प्रतिवैर-भावको बढ़ावा दिया और कहा-जो देवता रणधीर और बलवान है। जिनको अपने लड़नेका घमण्ड है।

तिन्हहिं जीति रन आनेसु बाँधी * उठि सुत पितु अनुसासन काँधी
एहि विधि सबही आज्ञा दीन्हीं * आपुनु चले गदा कर लीन्हीं

उनको युद्ध में जीतकर बाँध लाओ। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा शिरोधार्य की इस प्रकार रावण ने सभी को आज्ञा दी और आप हाथ में गदा लेकर चला।

चलत दसानन डोलति अवनी * गर्जत गर्भ स्रवाहिं सुर रवनी
रावन आवत सुनेउ सकोहा * देवन्ह तके मेरुगिरि खोहा

रावण के चलने से पृथ्वी कांपती थी, गर्जना से देवताओं की स्त्रियोंके गर्भ गिर जाते थे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की कन्दराओं का मार्ग लिया।

दिगपाल के लोक सुहाए * सूने सकल दसानन पाए
पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी * देइ देवतन्ह गारि पचारी

ब्रह्माण्ड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहै ।
मम उर सो वासी यह उपहासी सुनतधीर मति थिर न रहै ॥
उपजाजवग्याना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत विधि कीन्ह चहै ।
कहि कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै ॥

माया से रचे हुए अनेकों ब्रह्माण्ड आपके रोम २ में हैं, ऐसा वेद कहते हैं। उन्हीं आपने मेरे गर्भ में वास किया—यह हास्यप्रद बात सुनकर धीर-पुरुषों की बुद्धि स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान हुआ, तब भगवान् मुस्करा गये और पूर्व-जन्म की कथायें कहकर माता को समझा दिया—जिससे पुत्र स्नेह प्राप्त हो।

माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा ।
कीजै शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा ॥
सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूपा ।
यह चरित जो गावाहि हरिपद ते पावाहि न पराहि भवकूपा ॥

तब माता की बुद्धि पलट गई और बोली—हे तात ! यह रूप त्याग कर, अत्यन्त प्रिय बाल-लीला कीजिये, उसका सुख बहुत ही अनुपम है। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी चतुर श्रीहरि बालक रूप होकर रोने लगे। तुलसीदासजी कहते हैं जो मनुष्य इस चरित्र को गावेंगे—वे मोक्ष पावेंगे और संसार रूपी कुएं में नहीं गिरेंगे।

दोहा—विप्र धेनु सुर सन्त हित, लीन्ह मनुज अवतार ।

निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गो पार ॥१८६॥

ब्राह्मण, गौ, देवता तथा सन्त-जनों के हित के लिए अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले और माया, गुण व इन्द्रियों से परे भगवान् ने मनुष्य रूप में अवतार लिया।

सुनि तिसु रुदन परम प्रिय वानी * संभ्रम चलि आई सब रानी
हरषित जहँ तहँ धाई दासी * आनन्द मगन सकल पुरवासी

बालक के रोने की बहुत ही प्यारी वाणी सुनकर सब रानियां वहाँ आईं और प्रसन्न होकर वासियां जहाँ-तहाँ वीड़ गईं तथा पुरवासी आनन्द में मग्न हो गये।

दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना * मानहुँ ब्रह्मानन्द समाना
परम प्रेम मन पुलक शरीरा * चाहत उठन करत मति धीरा

पुत्र का जन्म कानों से सुनकर महाराज दशरथ मानो ब्रह्मानन्द में मग्न गये। मन में अधिक प्रेम के कारण शरीर रोमांचित हो गया, धीर-बुद्धि राजा उठना चाहते हैं।

जाकर नाम सुनत शुभ होई * मोरै गृह आवा प्रभु सोई
परमानन्द पूरि मन राजा * कहा बोलाइ बजावहु बाजा

जिसका नाम सुनते ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आवे हैं। यह सोच राजा

हृदय में दया-धर्म नहीं था। एक बार रावण ने सभा में बैठकर अपना असंख्य परिवार देखा।
सुत समूह जन परिजन नाती * गनै को पार निसाचर जाती
सेन विलोकि सहज अभिमानी * बोला बचन क्रोध मद सानी

पुत्र, पौत्र, कुटुम्बी और सेवक आदि राक्षसों की जाती कौन गिन सकता है ? सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और घमण्ड से भरे वचन बोला—

सुनहु सकल रजनीचर जूथा * हमरे बैरी बिबुध बरूथा
ते सन्मुख नहिं करहिं लराइ * देखि सकल रिपु जाहिं पराई

सभी राक्षस लोग सुनो-हमारे बैरी सब देवता हैं, वे सामने होकर लड़ाई नहीं करते और बलवान शत्रु देखकर भाग जाते हैं।

तिन्ह कर मरण एक विधि होई * कहउं बुझाइ सुनहु अब सोई
द्विज भोजन मख होम सराधा * सब कै जाइ करहु तुम्ह बाधा

उनका मरण केवल एक प्रकार से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ, सो सुनो-ब्राह्मण-भोजन, यज्ञ, हवन, श्राद्ध इनमें जाकर तुम बाधा डालो।

दोहा—छुदाछीन बलहीन सुर, सहर्जाहिं मिलिहहिं आइ।

तब मारिहउं कि छाँड़िहउं, भली भाँति अपनाइ ॥१८७॥

फिर भूख से दुर्बल और निर्बल होकर देवता लोग सहज ही में आकर हमसे मिलेंगे। तब मैं उनको मार डालूँगा अथवा अच्छी तरह अपने आधीन करके छोड़ दूँगा।

मेघनाद कहुं पुनि हँकरावा * दीन्ही सिख बलु बधरु बढावा
जे सुर समर धीर बलवाना * जिन्हु कें लरिवे कर अभिमाना

फिर मेघनाद को बुलाया और शिक्षा देकर उसके बल और देवताओं के प्रतिवैर-भावको बढ़ावा दिया और कहा-जो देवता रणधीर और बलवान है। जिनको अपने लड़नेका घमण्ड है।

तिन्हहिं जीति रन आनेसु बाँधी * उठि सुत पितु अनुसासन काँधी
एहि विधि सबही आज्ञा दीन्हीं * आपुनु चले गदा कर लीन्हीं

उनको युद्ध में जीतकर बाँध लाओ। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा शिरोधार्य की इस प्रकार रावण ने सभी को आज्ञा दी और आप हाथ में गदा लेकर चला।

चलत दसानन डोलति अबनी * गर्जत गर्भ स्वहिं सुर रवनी
रावन आवत सुनेउ सकोहा * देवन्ह तके मेरुगिरि खोहा

रावण के चलने से पृथ्वी कांपती थी, गर्जना से देवताओं की स्त्रियोंके गर्भ गिर जाते थे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की कन्दराओं का मार्ग लिया।

दिगपाल के लोक सुहाए * सूने सकल दसानन पाए
पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी * देइ देवतन्ह गारि पचारी

अवधपुरी सोहड़ एहि भाँती * प्रभुहि मिलन आई जनु राती
देखि भानु जनि मन सकुचानी * तदपि वनी सन्ध्या अनुमानो

अयोध्यापुरी इस प्रकार शोभित थी, मानो प्रभु से मिलने के लिए रात्रि आई हो, परन्तु दिन होने से सूर्य को देखकर लज्जित हो गई। इसके संकोच से सन्ध्या का अनुमान हो रहा था।

अगर धूप बहु जनु अधियारी * उड़इ अवीर मनहुँ अरुनारी
मन्दिर मनि समूप जनु तारा * नृप गृह कलस सो इन्दु उदारा

अगर और धूप का धुआं ही मानो अग्धकार स्वरूप था और अवीर संध्या को अरुणता थी भवन को मणियां ही मानो तारे और राज-भवन का स्वर्ण-कलश ही मानो चंद्रमा था।

भवन वेद धुनि अति मृदु वानी * जनु खग मुखर समयँ जनु सानी
कौतुक तेखि पतङ्ग भुआला * एक मास तेईँ जात न जाना

मंदिर में मधुर स्वर जो वेद-ध्वनि हो रही थी, मानो संध्या के समय पक्षियों का शब्द था। यह कौतुक देख सूर्यदेव अपनी चाल भूल गये, एक मास बीत गया, परन्तु उन्होंने नहीं जाना।

दोहा—मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानइ कोइ।

रथ समेत रवि थाकेउ, निसा कवन विधि होई ॥१६६॥

महीने भर का एक दिन होगया, यह भेद किसीने नहीं जाना। क्योंकि जब सूर्यनारायण ही कौतूहल बरा रथ सहित रुके रहे, तो रात्रि किस प्रकार होती है ?

यह रहस्य काहू नहिँ जाना * दिनमनि चले करत गुनगाना
देखि महोत्सव सुर मुनि नागा * चले भवन वरनत निज भागा

इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना, तब सूर्यनारायण स्वयं श्रीरामजी का गुणगान करते हुए चले। इस महोत्सव को देखकर देवता, मुनि, नाग अपने-अपने नाग्य की सराहना करते हुए अपने-अपने स्थानों को चले गये।

औरउ एक कहउँ निज चोरी * सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति मोरी
कागभुशुण्डि सङ्ग हम दोऊ * मनुज रूप जानइ नहिँ कोऊ

हे पायँतो ! तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है। अतः एक ओर तो अपनी चोरी कहता हूँ—फाकभुशुण्डिजी और मैं दोनों एक साथ मनुष्य-रूप में वहाँ थे, पर हमें कोई जानता नहीं था।

परमानन्द प्रेमसुख भूले * वीथिन्हु फिरहिँ मगन मन भूले
यह शुभ चरित जानि पै सोई * कृपा राम के जापर होई

परम आनन्द स्वरूप श्रीरामजी के स्नेह में फूले हुए और मन में मग्न होने के कारण भूले हुए गतियों में धूम रहे थे। परन्तु इस उत्तम चरित्र को वही जान सकता है—जिसपर श्रीरामजी की कृपा हो।

तेहि अवसर जो जेहिँ विधि आवा * दोन्ह भूप जो जेहिँ मन भावा
गज रथ तुरँग हेम गौ होरा * दोन्हे नृप नाना विधि चोरा

उस समय जो जिस प्रकार आया व जिसको जो भना लगा—राजाने वहाँ दिया।

छन्द-जप जोग बिरागा तप मख भागा श्रवन सुनइ दससीसा ।
 आपुनु उठि धावइ रहन न पावइ धरि सब घालइ खीसा ॥
 अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिअ नहिं काना ।
 तेहि बहु बिधि त्रासइ देस निकासइ जो कह वेद पुराना ॥

जप, योग, वैराग्य, तप व यज्ञ के भाग-ये जहां कहीं अपने कानों से सुनता, तो रावण स्वयं ही उठ दौड़ता । तब कुछ नहीं रहने पाता, सबका अपने हाथों से विध्वंस कर देता । ऐसा भ्रष्टाचार संसार में हुआ कि कानों से धर्म कहीं भी सुनाई नहीं पड़ता था । जो कोई वेद-पुराण कहता था, उसे बहुत सताया जाता और देश से निकाल देता था ।

सो०-वरनि न जाइ अनीति, घोर निसाचर जो करहिं ।

हिंसा पर अति प्रीति, तिन्हके पापहिं कवन मिति ॥२६॥

भयंकर राक्षस-जो अनीति करते थे, वह वर्णन नहीं की जा सकती । हिंसा में ही जिनकी प्रीति थी, उनके पापों की कोई सीमा नहीं थी ।

❀ मास परायण—छठवां विश्राम ❀

बाड़े खल बहु चोर जुआरा * जे लम्पट परधन परदारा
 मानहिं मातु पिता नहिं देवा * साधुन्ह सन्न करवाबहिं सेवा

दुष्ट, चोर, जुआरी बहुत, बढ़ गये, जो पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाते थे । माता-पिता और देवताओं को नहीं मानते थे साधुओं से सेवा करवाते थे ।

जिन्ह के यह आचरन्ह भवानी * ते जानहु निसिचर सब प्रानी
 अतिसय देखि धर्म के हानी * परम सभीत घरा अकुलानी

(शिवजी कहते हैं—) हे भवानी ! जिनके ऐसे आचरण हों, उन सब प्राणियों को राक्षस जानो । इस प्रकार धर्म की बहुत हानि देखकर पृथ्वी अत्यन्त भयभीत होकर घबड़ाई ।

गिरिसरि सन्धु भार नहिं मोही * जस मोहि गरुअ एक परद्रोही
 सकल धर्म देखइ विपरीता * कहि न सकइ रावन भयभीता

पर्वत, नदी और समुद्र का बोझ मुझे इतना नहीं सताता, जितना कि एक परद्रोही का बोझ । पृथ्वी सब धर्मोंको विपरीत देखती, किंतु रावण के डर से कुछ भी नहीं कह सकती थी ।

धेनु रूप धरि हृदय बिचारी * गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी
 निज संताप सुनाएसि रोई * काहू तें कछु काज न होई

तब गौ का रूप धरकर बेचारी पृथ्वी वहां गई-जहां सब देवता और मुनि थे, उन्हें अपना दुःख रोकर सुनाया, परन्तु किसी से कुछ काम न हुआ ।

छन्द-सुर मुनि गन्धर्वा मिलि करि सर्वा गे बिरंचि के लोका ।

वचन से ही श्रीरामजी को अपना हितकारी जान लक्ष्मणजीने श्रीरामजी के चरणों में प्रीति की। भरत-शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने जैसे स्वामी-सेवक में प्रीति होती है— ऐसी प्रीति बढ़ाई। श्याम गौर सुन्दर दोड़ जोरी * निरखाहि छवि जननी तून तोरी चारिउ सील रूप गुन धामा * तदपि अधिक सुखसागर रामा सांवले ओर गोरे रङ्ग की सुन्दर युगल-जोड़ी की शोभा को मातायें तिनका तोड़कर देखती थीं, (जिससे नजर न लग जाय)। चारों भाई शील, रूप व गुणों के धाम थे, तो भी-श्रीरामजी सबसे अधिक मुख के समुद्र थे।

दोहा—व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुन विगत विनोद।

सो अज प्रेम भगति वस, कौशल्या कें गोद ॥२०२॥

रामजी के हृदय में कृपारूपी चंद्रमाका प्रकाश था, जो मनकी हरने वाली हंसरूपी किरणोंसे प्रगट होता था। कभी गोदमें व कभी सुन्दर पालनेमें 'प्यारे-लाल' कहकर सब मतायें प्यारकरती थीं।

हृदय अनुग्रह इन्दु प्रकासा * सूचत किरन मनोहर हासा कवहुँ उछङ्ग कवहुँ वर पलना * मातु दुलारहि कहि प्रिय ललना

जो सर्वव्यापक, ब्रह्म, माता रहित, निर्गुण, हर्ष-शोक से रहित हैं, वही प्रभु प्रेम और भक्ति के वश कौशल्याजी की गोद में विहार कर रहे हैं।

काम कोटि छवि स्याम सरोरा * नील कंज वारिद गम्भीरा अरुन चरन पंकज नख जोती * कमल दलन्हि बैठे जनु मोती

करोड़ों कामदेवों की शोभा वाला, नील-कमल व गम्भीर मेघ के समान श्रीरामजी का सांवला शरीर है। लाल कमल के समान चरणों के नखों की शोभा है, मानो लाल कमल के पत्तों पर मोती आ बंठे हों।

रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोहे * नूपुर ध्वनि सुनि मुनि मन मोहे कटि किंकनी उदर त्रय रेखा * नाभि गँभीर जानि जेहि देखा

तलवों में ध्वज, ध्वजा और अंकुश आदि रेखायें शोभित हैं और चरणों के आनूपणों की ध्वनि मुनियों के भी मनको मोहती है। कमर में करघनी, उदर पर तीन रेखायें हैं और गम्भीर नाभि की शोभा को वही जान सकता है, जिसने देखो हो।

भुज विसाल भूषण जुत भूरी * हियँ हरिनख अति सोभा रूरी उर मनिहार पदकि की शोभा * विप्र चरन देखत मन लोभा

आभूषणोंसे युक्त विशाल भुजायें एवं हृदयपर बहुतही सुन्दर अघनपाशोभा को बढ़ारहा है। हृदय पर मणियोंकाहार हैं, जिसके बीचमें पदिक और नगु-चरण की शोभाको देख मन सोहता है। कम्बु कण्ठ अति चिबुक सुहाई * आनन अमित मदन छवि छाई

हुइ दुइ दसन अधर अरुनारे * नासा तिलक को वरनै पारे शंघ के समान कण्ठ और सुन्दर ठोड़ी है, मुख पर असंख्य कामदेवों की छवि छाई है। दो-दो बाँत और लाल होठों तथा नासिका एवं तिलक की उपमा कौन दे सकता है ?

छन्द—जय जय सुरनायक जनसुखदायक प्रनतपाल भगवन्ता ।
 गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रिय कंता ॥
 पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानइ कोई ।
 जो सहज कृपाला दीनदयाला करहु अनुग्रह सोई ॥

हे देवताओं के स्वामी ! हे भक्तों को सुख देने वाले ! हे शरणागतों के पालन करने वाले भगवान ! आपकी जय हो ! हे गौ, ब्राह्मणों के हितकारी, असुरों के वैरी और लक्ष्मीजी के प्रिय स्वामी ! आपकी जय हो । हे देवताओं तथा पृथ्वी की रक्षा करने वाले ! आपकी लीला अनीखी है, जिसका भेद कोई नहीं जानता । ऐसे स्वभाव से ही कृपालु और दीनदयालु प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो ।

जय जय अविनासी सब घटवासी व्यापक परमानन्दा ।
 अविनत गोतीत चरित पुनीतं माया रहित सुकन्दा ॥
 जेहि लाग बिरागी अति अनुरागी बिगत मोह मुनिवृन्दा ।
 निसिवासर ध्यावाहिं गुन गन गावाहिं जयतिसच्चिदानन्दा ॥

हे अविनाशी, अन्तर्यामी, सर्वव्यापक, परमानन्द-स्वरूप, अजेय, इन्द्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया-रहित भगवान् ! आपकी जय हो । वैराग्यवान् मुनिगण अत्यन्त प्रीति के साथ रात-दिन जिनका ध्यान करते और गुण गाते हैं, ऐसे सच्चिदानन्द की जय हो ।

जेहिं सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा ।
 सो करउ अघारी चित हमारी जानिअ भगति न पूजा ॥
 जो भवभय भञ्जन मुनिमन रञ्जन गञ्जन विपति बरूथा ।
 मन वच क्रम वानी छाँड़ि सयानी सरन सकल सुरजूथा ॥

जिसने बिना किसी की सहायता से तीनों प्रकार की सृष्टि रची है, वे पाप-नासक प्रभु हमारी सुधि लें, हम भक्ति और पूजा नहीं जानते । जो संसारके भयको नाश करने वाले, भक्तों के मन को आनन्द देने वाले और विपत्ति के समूह को नष्ट करने वाले हैं । मन, वचन, कर्म से चतुराई की वाणी को छोड़कर हम सब देवता-गण उनकी शरण में आये हैं ।

सादर श्रुतिसेषा रिषय असेषा जा कहुं कोउ नहिं जाना ।
 जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवउ सो श्रीभगवाना ॥
 भव बारिधि मन्दिर सब विधि सुन्दर गुन रसि सुखपु जा ।
 मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत ॥

सरस्वती, वेद, शेष सब ऋषियों आदि ने भी भयभीत नहीं जाये । वेद पुकार कर कहते हैं वे श्रीभगवान् हमारे

मातायें उनके बाल-चरित्रों का गान करती थीं ।

एक वार जननी अन्हवाए * करि सिंगार पलना पौढ़ाए
निज कुल इष्टदेव भगवाना * पूजा हेतु कीन्ह असनाना

एक वार माता ने श्रीरामजी को स्नान कराया और शृङ्गार करके पालने में लिता दिया फिर आपने अपने कुल के इष्टदेव भगवान् की पूजा के निमित्त स्नान किया ।

करि पूजा नैवेद्य चढ़ावा * आपु गई जहँ पाँक बनावा
वहुरि मातु तहँवा चलि आई * भोजन करत देख सुत जाई

पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया, फिर आप रसोई, घरमें गईं, फिर माता वहाँ लौटकर आईं तो अपने पुत्र को भोजन करते देखा ।

गै जननी सिसु पहिँ भयभीता * देखा बाल तहाँ पुनि सुता
वहुरि आइ देखा सुत सोइ * हृदयँ कम्प मन धीर न होई

डरती हुई माता बालकके पास आई तो वहाँ बालक को सोते हुए देखा । फिर आकर देखा तो वही बालक (श्रीरामजी) भोजन कर रहा है । तब हृदय कांपने लगा, मन में धीरज न हुआ ।

इहाँ उहाँ बुइ बालक देखा * मति भ्रम मोर कि आन विसेपा
देखि राम जननी अकुलानी * प्रभु हँसि दीन्ह मधुर मुसुकानी

यहाँ और वहाँ दो बालक दिखाई देते हैं, यह मेरा मति का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है ? प्रभु श्रीरामजी-माता कौशल्या को घबड़ाई देखकर मधुर मुस्कान से हँसदिये ।

दोहा-देखरावा मातहि निज, अद्भुत रूप अखण्ड ।

रोम रोम प्रति लागेउ, कोटि कोटि ब्रह्मण्ड ॥२०५॥

माता को अपना अद्भुत और अखण्ड (विराट) स्वरूप दिखलाया जिसके एक एक रोम-रोम में करोड़ों ब्रह्माण्ड बसे हुए थे ।

अगनितरविससिसिवचतुरानन * बहुगिरि सरित सिंधु महि कानन
काल कर्म गुन ग्यान सुभाऊ * सोउ देखा जो सुना न काऊ

अगनित-सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, अनेक पर्वत, नदी, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वरूप आदि देखे और वह भी देखा-जो किसी ने सुना भी नहीं था ।

देखा माया सब विधि गाढ़ी * अति सभित जोरें कर ठाढ़ी
देखा जीव नचावइ जाही * देखी भगति जो छोरइ ताही

सब प्रकार से बलवती माया को भी देखा, जो बहुत ही डरो हुई हाथ जोड़े पड़ी थी । जीव को देखा-जिसे माया नचाती है, नक्ति को देखा-जो जीव को माया के कन्दे से छुड़ाती है ।

तन पुलकित मुख वचननआवा * नयन मूँदि चरनन्ह सिर नावा
विस्मयवन्त देखि महतारी * भए वहुरि सिसु रूप खरारी

छन्द-जय जय सुरनायक जनसुखदायक प्रनतपाल भगवन्ता ।
 गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रिय कंता ॥
 पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानइ कोई ।
 जो सहज कृपाला दीनदयाला करहु अनुग्रह सोई ॥

हे देवताओं के स्वामी ! हे भक्तों को सुख देने वाले ! हे शरणागतों के पालन करने वाले भगवान ! आपकी जय हो ! हे गौ, ब्राह्मणों के हितकारी, असुरों के वैरी और लक्ष्मीजी के प्रिय स्वामी ! आपकी जय हो । हे देवताओं तथा पृथ्वी की रक्षा करने वाले ! आपकी लीला अनौखी है, जिसका भेद कोई नहीं जानता । ऐसे स्वभाव से ही कृपालु और दीनदयालु प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो ।

जय जय अविनासी सब घटवासी व्यापक परमानन्दा ।
 अविनत गोतीत चरित पुनीत माया रहित मुकन्दा ॥
 जेहि लाग बिरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनिवृन्दा ।
 निसिवासर ध्यावाहिं गुन गन गावाहिं जयतिसच्चिदानन्दा ॥

हे अविनाशी, अन्तर्यामी, सर्वव्यापक, परमानन्द-स्वरूप, अजेय, इन्द्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया-रहित भगवान् ! आपकी जय हो । वैराग्यवान् मुनिगण अत्यन्त प्रीति के साथ रात-दिन जिनका ध्यान करते और गुण गाते हैं, ऐसे सच्चिदानन्द की जय हो ।

जेहिं सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा ।
 सो करउ अघारी चित हमारी जानिअ भगति न पूजा ॥
 जो भवभय भञ्जन मुनिमन रञ्जन गञ्जन विपति बरुथा ।
 मन वच क्रम बानी छाँड़ि सयानी सरन सकल सुरजूथा ॥

जिसने बिना किसी की सहायता से तीनों प्रकार की सृष्टि रची है, वे पाप-नासक प्रभु हमारी सुधि लें, हम भक्ति और पूजा नहीं जानते । जो संसारके भयको नाश करने वाले, भक्त जनों के मन को आनन्द देने वाले और विपत्ति के समूह को नष्ट करने वाले हैं । मन, वचन कर्म से चतुराई की वाणी को छोड़कर हम सब देवता-गण उनकी शरण में आये हैं ।

सादर श्रुतिसेषा रिषय असेषा जा कहुं कोउ नाहिं जाना ।
 जेहि दीन पियारे वेद धुकारे द्रवउ सो श्रीभगवाना ॥
 भव बारिधि मन्दिर सब विधि सुन्दर गुन मंदिर सुखपुं जा ।
 मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत्त नाथ पद कंजा ॥

सरस्वती, वेद, शेष सब ऋषियों आदि ने भी जिसको नहीं जाना, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं वे श्रीभगवान् हम पर दया करें । आप संसाररूपी समुद्र के मथने का

बालचरित अति सरत सुहाए * सादर सेष सम्भु श्रुति गाए
जिन्हकर मन इन्हसन नहिं राता * ते जन वंचित किए विधाता

अत्यन्त सरल, सुहावने बाल-चरित्र-सरस्वती, शेषजी, शिवजी और वेदों ने सादरगाये हैं। जिनके मन इनमें नहीं रंगे, उन मनुष्यों को विधाता ने भाग्यहीन बनाया है।

भए कुमार जबहिं सब भ्राता * दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता
गुरु गृह पढ़न गए सब भाई * अल्प काल विद्या सब आई

जब सब भाई कुमार हुए, तब गुरु, पिता और माता ने जनेऊ कर दिया। सब भाई गुरु के घर पढ़ने गये, तो थोड़े समय में ही सब विद्याएं आ गईं।

जाकी सहज स्वांस श्रुति चारी * सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी
विद्या विनय निपुण गुन सीला * खेलहिं खेल सकल नृप लीला

जिन प्रभु की स्वाभाविक श्वास ही चारों वेद हैं, वे प्रभु पढ़ें-यह बड़े आश्चर्य की बात है। चारों भाई विद्या में निपुण, गुणवान, राजाओं की लीला के सब खेल खेलते थे।

करताल वान धनुष अति सोहा * देखत सूप चराचर मोहा
जिन्ह वीथिन्ह विरहहिं सब भाई * थकित होहिं सब लोग लुगाई

हाथों में धनुष-बाण बहुत शोभा देते थे, वह रूप देखकर सब चराचर मोहित हो जाते थे। जिन गतियों में वे सब भाई खेलते थे, उन गतियों के सब स्त्री-पुरुष थकित हो जाते थे।

दोहा-कोसलपुर बासी नर, नारि बृद्ध अरु बाल।

प्रानहुँ ते प्रिय लागत, सब कहुँ राम कृपाल ॥२०८॥

अयोध्यापुरी में रहने वाले पुरुष, स्त्री, बृद्ध और बालक-इन सबको कृपानु श्रीरामचंद्रजी प्राणों से भी अधिक प्रिय लगते थे !

बन्धु सखा संग लेहिं बोलाई * वन मृगया नित खेलहिं जाई
पावन मृग मारहिं जिय जानी * प्रतिदिन नृपहिं देखावहिं आनी

श्रीरामजी-भाइयों वइष्ट-मित्रोंकोबुलाकरसाथ लेकर वनमें प्रतिदिन शिकार खेलने जाते थे, हृदयमें जिस हिरनकोपवित्र समझते, उसे ही मारते और नित्यप्रति लाकर राजा को दिखाते थे।

जे मृग राम वान के मारे * ते तनु तजि सुरलोक सिधारे
अनुज सखा संग भोजन करहौं * मातु पिता आग्या अनुसरहौं

जो हिरन श्रीरामजी के बाण से मारे जाते, वे शरीर त्यागकर स्वर्ग को जाते थे। छोटे भाई और मित्रों के साथ भोजन करते और माता-पिता की आज्ञानुसार चलते थे।

जेहि विधिसुखीं होहिं पुर लोगा * करहिं कृपानिधि सोइ संजोगा
वेद पुरान सुनिहिं मन लाई * आप कहहिं अनुजन्ह समुझाई

जिस तरह नगरवासी मुछी होते, कृपानिधान श्रीरामजी यही लीला करते। वेद-पुराण मन

कुछ आज्ञादी, देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र ही उसका पालन किया ।

वनचर देह धरी छित माहीं * अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीं
गिरि तरु नद्य आयद्यु सब वीरा * हरि मारग चितवाहि मति धीरा

उन्होंने पृथ्वी पर वानर शरीर धारण किया, उनमें अपार बल और प्रताप था । पर्वत वृक्ष और नद्य ही उनके अस्त्र थे, वे घोर-बुद्धि श्रीहरि भगवान के अवतार की बात देखने लगे गिरि कानन जहँ तहँ भरि पूरी * रहे निज निज अनीक रुचि रुरी यह सब रुचिर चरित मैं भाषा * अब सौ सुनहु जो वीचहि राखा ये सब वानर पर्वतों और वनों में भरपूर होकर अपने झुण्डों की टोली बनाकर रहने लगे । यह सब सुन्दर चरित्र नैने कहा, अब वह चरित्र सुनो-जो वीच में ही रहने दिया था ।

अवधपुरी रघुकुलमनि राऊ * बेद विदित तेहि दसरथ नाऊ
धरम धुरन्धर गुननिधि ग्यानी * हृदयँ भगति मति सारङ्गपानी

अयोध्यापुरी के रघुवंश-भूषण राजा दशरथ का वेदों में प्रसिद्ध है । जो धर्म-धुरन्धर, गुण-निधान तथा ज्ञानवान् थे, उनके हृदय में शारङ्ग मणि भगवान की पूर्ण शक्ति थी और उनकी बुद्धि उसी में लगी रहती थी ।

दोहा-कौसल्यादि नारि प्रिय, सब आचरण पुनीत ।

पति अनुकूल प्रेम दूढ़, हरि पद कमल विनीत ॥१६२॥

कौशल्यादि प्रिय रानियाँ सब पवित्र आचरण वाली थीं, पति की आज्ञा में तत्पर तथा श्रीहरि के चरणों में जिनका विनीत-प्रेम था ।

एक वार भूपति मन माहीं * भै गलानि सोरैं सुत नाहीं
गुर गृह गयउ तुरत सहिपाला * चरन लागिकर विनय विसाला

एक वार राजा दशरथ के मन में ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है । तब वह उसी समय गृह के दर गये और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनती की तथा-

निजदुखसुख सब गुरहि सुनायउ * कहि वसिष्ठ बहुविधि समुझायउ
धरहु धीर होइहि सुत चारी * त्रिभुवन विदित भगत भयहारी

अपना सब दुःख-सुख गुरु को सुनाया, तब गुरु वशिष्ठजी ने राजा को समझाकर कहा- हे राजन् ! धर्म धारण करो, तुम्हारे त्रिलोको में प्रसिद्ध, नवत-भयहारी चार पुत्र होंगे ।

शृङ्गी ऋषिहि वशिष्ठ बोलावा * पुत्र काम शुभ जग्य करावा
भगति सहित सुनि आहुत दीन्हे * प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे

तब वशिष्ठजी ने शृङ्गी-ऋषि को बुलाकर कामना के निमित्त पुत्रेष्टि-यज्ञ करवाया । नक्ति के त्राय जब मुनियों ने आहुतियाँ दीं, तब हाथ में चरु (खीर) लिए हुए अग्निदेव प्रकट हुए ।

जो वसिष्ठ कछु हृदय विचारा * सकल काजु भा सिद्धि तुम्हारा
यह हवि वाँटि देहु नृप जाई * जथा जोग जेहि भाग बनाई

मुनि का आगमन जब राजा ने सुना, तब वे ग्राहण-मण्डली को साथ लेकर मिलने गये। राजाने मुनि को दण्डवत् करके आवर पूर्वक अपने आसन पर बंटाया।

**चरन पखारि कीन्ह अति पूजा ✽ मो सम आजु धन्य नहि दूजा
विविध भांति भोजन करवावा ✽ मुनिवर हृदय हरष गति पावा**

चरण धोकर मली-भांति पूजा की और कहा—आज मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाये, मुनिवर ने हृदय में अत्यन्त आनन्द पाया।

**पुनि चरनन्हि मेले सुत चारी ✽ राम देखि मुनि सुरति विसारी
भए मगन देखत मुख शोभा ✽ जनु चकोर पूरन ससि लोभा**

राजा ने चारों पुत्रों को बुलाकर मुनि के चरणों में प्रणाम कराया, तो श्रीरामजी को देखकर मुनि ने देह की मुग्ध छोड़ दी। मुख की शोभा देखकर ऐसे मुग्ध हुए—जैसे चकोर-पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर लुभा जाता है।

**तव मन हरष वचन कह राऊ ✽ मुनि अस कृपा न कीन्हहु काऊ
केहि कारन आगमन तुम्हारा ✽ कहहु सो करत न लावउँ वारा**

मनमें प्रसन्न होकर राजाने यह वचन कहे-हे मुनि! मुझ पर ऐसी कृपा कभी नहीं की। आज किस कारण आपका आगमन हुआ, सो कहिये—मैं उसे करने में देर नहीं लगाऊँगा?

**असुर समूह सतावाहिं मोही ✽ मैं जाचन आयउँ नृप तोही
अनुज समेत देहु रघुनाथा ✽ निसिचर वध मैं होव सनाथा**

विश्वामित्रजी बोले-हे राजन्! राक्षस मुझे सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे यह मांगने आया हूँ कि भाई सहित श्रीरघुनाथजी को दे दो, मैं निशाचरों के मारे जाने से सनाथ हो जाऊँगा।

दोहा—देहु भूप मन हरषित, तजहु मोह अग्यान।

धर्म सुजस नृप तुम्ह कहूँ, इन्ह कहूँ अति कलयान ॥२११॥

हे राजन्! मनमें प्रसन्न होकर मोह, व अज्ञान को त्याग दो, इससे तुम्हारा तो धर्म तथा सुयश बढ़ेगा और इनका भी अत्यन्त कल्याण होगा।

**सुनि राजा अति अप्रिय वानी ✽ हृदय कम्प मुख दुति कुम्हलानी
चौथैपन पायेउँ सुत चारी ✽ विप्र वचन नहि कोउ विचारी**

बहुत अप्रियवचन सुनकर राजाका हृदय कांपने लगा और मुखका तेज फीका पड़ गया, फिर बोले-चौथैपन में मैंने चार पुत्र पाये हैं, हे विप्र! आपने विचारकर वचन नहीं कहा।

**माँगहु भूमि धेनु धन कोषा ✽ सर्वस देउ आजु सहरोषा
देह प्राण तें प्रिय कछु नाहीं ✽ सोउ मुनि देउ निमिष एकमाहीं**

भूमि, गो, धन, पजाना माँगिये, मैं आज सहर्ष ही सर्वस्व दे दूँगा। देह और प्राण मैं अधिक प्यारा कुछ भी नहीं है, हे मुनिनाथ! यह भी अभी पलभर में दे दूँगा।

सवसुत प्रिय मोहि प्राणकीनाई ✽ राम देत नहि वनइ गोसाई

वन कुसुमित गिरिगन मनिआरा * स्वर्वाहं सकल सरिताऽमृत धारा

शीतल, मन्द, सुगन्धित पवन बहने लगी, देवता और साधु-जन प्रसन्न चित्त एवं उत्साह युक्त थे। वन फूल उठे, पर्वतों में मणियों की खान प्रगट हो गई तथा सब नदियों से अमृत के समान धारा बहने लगीं।

सो अवसर विरंचि जब जाना * चले सकल सुर साजि विमाना
गगनि विमल संकुल सुर जूथा * गावाहं गुन गन्धर्व बरूथा

वह समय जब ब्रह्माजी ने जाना, तो सब देवता अपने विमान सजाकर चले और निर्मल आकाश में जाकर देवताओं और गन्धर्वों के हरि-गुण गान करने लगे।

वरषाहं सुमन सुअंजलि साजी * गहिगहि गगन दुन्दुभी बाजी
अस्तुति करहि नाग मुनि देवा * बहु विधिलावाहं निज निज सेवा

सुन्दर अञ्जलियों में फूल भर-भरकर बरसाने लगे, आकाश में धमाधम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने और बहुत प्रकार से अपनी र भेंट करने लगे।

दोहा—सुर समूह विनती करि, पहुँचे निज निज धाम।

जग निवास प्रभु प्रगट भए, अखिल लोक विश्राम ॥१६५॥

देवताओं के समूह विनती कर अपने २ लोकों में जा पहुँचे, तब समस्त लोकों को सुख देने वाले सर्वव्यापी भगवान प्रकट हुए।

छन्द—भए प्रकट कृपाला दीनदयाला कौशल्या हितकारी।

हरषित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी ॥

लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी।

भूषण वनमाला नयन विसाला शोभासिंधु खरारी ॥

कृपालु, दीनदयालु, कौशल्या के हितकारी प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले, अद्भुत स्वरूप को देखकर माता प्रसन्न हुई। सुन्दर नेत्र, मेघ के समान सुन्दर शरीर, चारों हाथों में अपने आयुध लिये, आभूषण पहिने, गले में वन-माला धारण किये, विशाल नेत्र, शोभा के समुद्र, खर राक्षस के शत्रु 'श्रीहरि' प्रकट हुए।

कह दुइ करजोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करौं अनन्ता।

माया गुन ज्याना तीत अमाना बेद पुरान भनन्ता ॥

करुना सुखसागर सब गुन आगर जेहि गावाहं श्रु ति सन्ता।

सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकन्ता ॥

तब दोनों हाथ जोड़कर माता ने कहा—हे अनन्त! मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूँ? वेद और पुराण आपको—माया, गुण और ज्ञान से अतीत कहते हैं। ऐसे जिनको वेद और साधुजन गाते हैं, जो माया और गुणों के समुद्र हैं, वही गुणों के स्थान, लक्ष्मीपति, भवत-वत्सल प्रभु मेरे हित के लिए प्रकट हुए हैं।

तब मुनिनिजनार्थाहिं जियँ चीन्ही * विद्यानिधि कहुँ विद्या दीन्ही
जाते लागि न क्षुधा पिपासा * अतुलित बल तनु तेज प्रकासा

तब मुनि ने अपने प्रभु को सब विद्याओं को खान समझकर भी ऐसी विद्या दी-जितसे
बूख-प्यास न सतावे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो।

दोहा-आयुध सर्व समर्पि कै, प्रभु निज आश्रम आनि।

कन्दमूल फल भोजन, दीन्ह भगति हिम जानि ॥२१३॥

मुनि प्रभु को सब अन्न-शस्त्र दे, अपने आश्रम में ले आये और नपत-भयहारी जानकर
कन्दमूल-फल भोजन के लिए दिये।

प्रात कहा मुनि सन रघुराई * निर्भय जग्य करहु तुम्ह जाई
होम करन लागे मुनि झारी * आपु रहे मख की रखवारी

प्रातः शीरघुनायजी ने मुनि से कहा-अब आप जाकर निर्भय होकर यज्ञ कीजिये। तब
मुनि हवन करने लगे और आप यज्ञ की रक्षा करने लगे।

मुनि मारीच निसाचर क्रोही * लै सहाय धावा मुनि द्रोही
बिनु फर वान राम तेहि मारा * सत योजन गा सागर पारा

क्रोधी राक्षस मारीच ने मुना तो वह मुनि-द्रोही अपने सहायकों को लेकर बोड़ा। तब
रामजी ने बिना फनका बाण उसके मारा, जिससे वह सौ-योजन दूर समुद्रके पार जा गिरा

पावक शर सुबाहु पुनि मारा * अनुज निसाचर कटकु सँधारा
मारि असुर द्विज निर्भयकारी * अस्तुति करहिं देव मुनि झारी

फिर अग्नि-बाण से सुबाहु को भस्म कर दिया और लक्ष्मणजी ने राक्षसों की सेना का
नाश किया। तब असुरों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय करने वाले भगवान की सबदेयता
और मुनि स्तुति करने लगे।

तहँ पुनि कछुक दिवस रघुराया * रहे कीन्ह विप्रन्ह पर दाया
भगति हेतु बहु कथा पुराना * कहे विप्र जद्यपि प्रभु जाना

फिर शीरघुनायजी ने कुछ दिन वहाँ रहकर ब्राह्मणों पर दया की। नपित वश ब्राह्मण
अनेकों कथा-पुराण सुनाते थे, यद्यपि प्रभु सब जानते थे।

तब मुनि सादर कहा बुझाई * चरित एक प्रभु देखिअ आई
धनुष जग्य मुनि रघुकुल नाथा * हरपि चले मुनिवर के साथ

तदनन्तर मुनि ने आवर के साथ समझा कर कहा-हे प्रभो ! अब चलकर एक चरित्र
देखिये। धनुष-यज्ञ सुनकर शीरघुनायजी प्रसन्न होकर मुनिवर के साथ चले।

आश्रम एक दीख मग माहीं * खग मृग जीव जन्तु तहँ नाहीं
पूछा मुनिहि शिला प्रभु देखी * सकल कथा मुनि कटी विमैती

मार्ग में एक आश्रम दीख पड़ा, वहाँ कोई पशु-पक्षी आदि जीव-जन्तु

का परम आनन्द से भर गया और बाजे वालों को बुलाकर कहा कि—बाजे बजाओ ।

गुरु वशिष्ठ कहँ गयउ हँकारा * आए द्विजनु सहित नृप द्वारा
अनुपम बालक देखेन्हि जाई * रूप रासि गुन कहि न रिसाई

गुरु वशिष्ठजी को बुलाया गया, तो वे ब्राह्मणों सहित राजा के द्वार पर आये । अनुपम बालक को जाकर देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने में नहीं आते ।

दोहा—तब नन्दीमुख श्राद्ध करि, जाति कर्म सब कीन्ह ।

हाटक धेनु बसनि मणि, नृप विप्रन्ह कहँ दीन्ह ॥१६७॥

तब नन्दी-मुख श्राद्ध करके राजा ने सभी जाति-कर्म किया तथा सोना, गौ, वस्त्र और मणि आदि ब्राह्मणों को दान दिया ।

ध्वज पताक तोरन पुर छावा * कहि न जाइ जेहि भाँति बनावा
सुमन वृष्टि अकाश तें होई * ब्रह्मानन्द मगन सब कोई

नगर—ध्वजा, पताका, बन्दनवार आदि से सजाया गया, वह सजावट कहते नहीं बनती । आकाश से पुष्प-वर्षा होने लगी, सब कोई ब्रह्मानन्द में मग्न हो गये ।

बृन्द बृन्द मिलि चलीं सुहाई * सहज सिंगार किएँ उठि धाई
कनक कलस मङ्गल भरि थारा * गावत पैठाहि भूप दुआरा

गुण्ड की गुण्ड लियाँ मिलकर साधारण शृङ्गार किये सहज ही उठ दीड़ीं । सोने के थाल और मङ्गल-कलशों को माङ्गलिक वस्तुओं से भरकर स्त्रियाँ राजद्वार के भीतर गईं ।

करि आरती नौछावरि करहीं * बार बार सिसु चरनन्हि परहीं
मागध सूत बन्दिगन गायक * पावन गुन गावाहि रघुनायक

आरती करके न्यौछावर करती और बारम्बार बालक के चरणों में गिरती थीं । मागध सूत, बन्दीजन आदि गायक—श्रीरघुनाथजी के गुणगान करने लगे ।

सर्वस दान दीन्ह सब काहू * जेहि पावा राखा नहिं ताहू
भृगभद चन्दन कुमकुम कीचा * मची सकल वीथिन्ह बिच बीचा

राजा ने सबको सर्वस्व दान दिया और जिसने जो पाया, उसने भी नहीं रक्खा—(दान कर दिया) । कस्तूरी, चन्दन और केशर से नगर ऐसा सौँचा कि सब गलियों में कीच हो गई ।

दोहा—गृह गृह बाज बधाव सुभ, प्रकटे सुषुमा कन्द ।

हरषवन्त सब जहँ तहँ, नगर नारि नर बृन्द ॥१६८॥

घर-घर आनन्द-वधाई बजने लगीं—सुखधाम श्रीरामजी हुए, नगर के सब स्त्री-पुरुषों के गुण्ड जहाँ-तहाँ बहुत प्रसन्न थे ।

कैकेय सुता सुमित्रा दोऊ * सुन्दर सुत जन्मत भै ओऊ

वह सुख सम्पति समय समाजा * कहि न सकाहिं सादर अहिराजा

फिर कैकेई और सुमित्रा ने भी सुन्दर पुत्रों को जन्म दिये । उस सुख, सम्पत्ति, समय और समाज को सरस्वतीजी और शेषजी भी नहीं कह सकते ।

सोइ पद पङ्कज जेहि पूजत अज मम सिर धरेउ कृपाल हरी ॥
एहि भाँति सिधारी गौतम नारी वार वार हरि चरन परी ।
जो अति मन भावा सो वरु पावा गै पतिलोक अनन्द भरी ॥

जिन चरणों से परम पवित्र गंगाजी प्रगट हुईं, जिन्हें शिवजी ने अपने सिर पर धारण किया है और जिन चरणों को ब्रह्माजी जपते हैं। कृपालु ! वे चरण आपने मेरे सिर पर रखे। इस प्रकार स्तुति करके गौतम-पत्नी अहिल्या बारम्बार प्रभु के चरणों में गिर कर मन वांछित वरदान पाकर, आनन्द से भरी हुई पति-लोक को चली गई।

दोहा—अस प्रभु दीनबन्धु हरि, कारन रहित दयाल ।

तुलसीदास सठ ताहि भजु, छाँड़ि कपट जंजाल ॥२१५॥

जो दीनदयालु भगवान बिना कारण ही सब पर कृपा करते हैं। ऐसे प्रभु को-रे मूर्ख तुलसीदासजी ! तू कपट जंजाल को त्यागकर भज ।

❁ मास परायण—सातवाँ विश्राम ❁

चले राम लछिमन मुनि सङ्गा * गए जहाँ जग पावनि गङ्गा
गाधितनय सब कथा सुनाई * जेहि प्रकार सुरसरि महि आई

फिर श्रीरामजी व लक्ष्मणजी मुनि के साथ वहाँ गये—जहाँ जगत को पवित्र करने वाली धोगंगाजी थीं। विश्रामित्रजी ने सब कथा सुनाई—जिस प्रकार गंगाजी पृथ्वी पर आई थीं तब प्रभु ऋषिन्ह समेत नहाए * विविध दान महिदेवन्ह पाए
हरषि चले मुनि वृन्द सहाया * वेगि विदेह नगर निअराया

तब प्रभु ने वहाँ ऋषियों सहित स्नान किया, अनेक प्रकार के दान ब्राह्मणों ने पाये, फिर प्रसन्न होकर वे मुनि-वृन्दों के साथ चले और शीघ्र ही जनकपुरी के निकट जा पहुँचे।

पुर रम्यता राम जव देखी * हरषे अनुज समेत विसेपी
वापीं कूप सरित सर नाना * सलिल सुधा सम मनि सोपाना

श्रीरामजी ने जब नगर की शोभा देखी, तो छोटे भाई सहित बहुत प्रसन्न हुए। अनेक बावली, कुएँ नदी और तालाबों में अमृत के समान जल भरा है और मणियों की सोड़ियाँ बनी है।

गुंजत मंजु मत्त रस भृङ्गा * कूजत कल बहु वरन विहङ्गा
वरन वरन विकसे जलजाता * त्रिविध समीर सदा सुखदाता

गुणन्धित फूलों के रस में भतवाले सुन्दर नौरे गुंज रहे हैं, बहुत रंग के पक्षी मनोहर योती योत रहे हैं। रंग-विरगे कमल छिल रहे हैं, तीनों प्रकार की शीतल, मन्द, गुणन्धित पवन सदैव सुख देने वाली बह रही है।

दोहा—सुमन वाटिका वाग वन, विपुल विहङ्ग निवास ।

रथ, घोड़े, सोना, गौ, हीरा और अनेक प्रकार के वस्त्र राजा ने याचकों को दिये ।

दोहा—मन सन्तोषे सबन्धि के, जहँ तहँ देहिं असीस ।

सकल तनय चिरजीवहु, तुलसीदास के ईस ॥२००॥

राजा ने सबके मन सन्तुष्ट किये, तब सभी जहां-तहां आशीर्वाद देने लगे कि सब राज-कुमार चिरंजीव रहें, जो तुलसीदास के स्वामी हैं ।

कछुक दिवस बीते एहि भाँती * जात न जानिअ दिन अरु राती
नामकरण कर अवसर जानी * भूष बोलि पठए मुनि ग्यानी

कुछ दिन इस प्रकार बीत गये, दिन और रात जाते हुये नहीं जान पड़ते थे । तब नामकरण का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठजी को बुलाया ।

करि पूजा भूपति अस भाषा * धरिअ नाम जो मुनि गुनि राखा
इन्ह के नाम अनेक अनूपा * मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा

राजाने मुनि की पूजा करके कहा—हे मुनिनाथ ! जो आपने विचार रक्खे हों, वह नाम इन बालकों के रक्खिये । मुनि ने कहा—हे राजन् ! जैसे तो इन बालकों के नाम अनेक और उपमा रहित हैं, तो भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, मुनि—

जो आनन्द सिंधु सुख रासी * सीकर तैं त्रैलोक सुपासी
जो सुखधाम राम अस नामा * अखिल लोक दायक विश्रामा

जो आनन्द के समूह, सुख की राशि हैं, जिनकी थोड़ी ही कृपासे तीनों लोक सुखी हो जाते हैं, जो सुख के धाम और सब लोकों को विश्राम देने वाले हैं, उनका 'राम' ऐसा नाम है ।

विश्व भरन पोषण कर जोई * ताकर नाम भरत अस होई
जाके सुभिरन तै रिपु नासा * नाम शत्रुहन वेद प्रकासा

जो जगत् का पालन पोषण करने वाले हैं, उनका 'भरत' ऐसा नाम होगा । जिसके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश हो जाता है, उनका 'शत्रुहन' नाम वेदों में प्रगट है ।

दोहा—लच्छन धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार ।

गुरु वशिष्ठ तेहिं राखेऊ, लछिमन नाम उदार ॥२०१॥

जो अच्छे लक्षणों के धाम, राम के प्यारे और जगत के आधार हैं, उनका नाम गुरु-वशिष्ठ ने श्रेष्ठ नाम 'लक्ष्मण' रक्खा ।

धरे नाम गुरु हृदयँ विचारी * वेद तत्व नृप तव सुत चारी
मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा * बाल केलि रस तेहिं सुख माना

गुरुजी ने हृदय में विचार कर नाम रक्खे और कहा—हे राजन् ! तुम्हारे चारों पुत्र वेदों के तत्व मुनियोंके सर्वस्व और शिवजी के प्राण हैं, उन्होंने बाल-लीला के विनोद को ही सुख माना है ।

बारेहिं ते निज हित पति जानी * लछिमन राम चरन रति मानी
भरत शत्रुहन दूनउ भाई * प्रभु सेवक जसि प्रीति बढाई

के बाहर और तालाब के समीप जहां-तहां अनेकों राजा लोग उतरे हुए थे ।

देखि अनूप एक अँवराई * सब सुपास सब भाँति सुहाई
कौंसिक कहेउ मोर मन माना * इहाँ रहिअ रघुवीर सुजाना

एक सुन्दर और सब भाँति से सुविधापूर्ण सुहावने आम के बगीचे को देखकर विश्वामित्रजी ने कहा—रामजी ! मेरी इच्छा है कि यहाँ रहा जाय ।

भलेहिं नाथ कहि कृपानिकेता * उतरे तहँ मुनिवृन्द समेता
विश्वामित्र महामुनि आए * समाचार मिथलापति पाए

‘बहुत अच्छा’ स्वामी ! ऐसा कहकर कृपानिधान श्रीरामजी मुनिगणों सहित वहाँ उतर गये । जब राजा जनक ने सुना कि महामुनि विश्वामित्रजी आये हैं, तब—

दोहा—सङ्ग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर वर गुरु ग्याति ।

चले मिलन मुनिनाथ कहि, मुदित राउ एहि भाँति ॥२१८॥

साथ में निमल-बुद्धि वाले मंत्री, अनेकों योद्धा, उत्तम ब्राह्मण, गुरु तथा जाति के लोगों को लेकर—इस भाँति प्रसन्न हो राजा जनक—महामुनि से मिलने के लिए चले ।

कोन्ह प्रनामु चरन धरि माथा * दीन्हि असीस मुदित मुनिनाथा
विप्रवृन्द सब सादर वन्दे * जानि भाग्य बड़ राउ अनन्दे

राजा ने चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, तब मुनिने प्रसन्न हो आशीर्वाद दिया, फिर राजाने सब ब्राह्मणोंको आदरसे प्रणाम किया और अपने भाग्य को बड़ा जानकर प्रसन्नहुए।

कुशल प्रश्न कहि वाराहि वारा * विश्वामित्र नृपहि वैठारा
तेहि अवसर आए दोउ भाई * गए रहे देखन फुलवाई

विश्वामित्रजी ने बार-बार कुशल पूछकर राजाको बँठाया । उसी समय दोनों भाईनों जो फुलचारी देखने गये थे, आगये ।

श्याम गौर मृदु वयस किसोरा * लोचन सुखद विश्व चित्तचोरा
उठे सकल जब रघुपति आए * विश्वामित्र निकट वैठाए

वे दोनों श्याम और गौर-वर्ण, कोमल अङ्ग, किशोर अवस्था वाले—नेत्रों को सुख देने वाले और संसार के चित्त को चुराने वाले थे । जब श्रीरघुनाथजी आये, तब सभी लोग उठ खड़े हुए, फिर मुनि ने उन्हें पास बँठा लिया ।

भएसव सुखी देखि दोउ भ्राता * वारि विलोचन पुलकित गाता
मूरति मधुर मनोहर देखी * भयउ विदेहु विदेहु विसेपी

दोनों भाइयोंको देखकर सब सुखी हुए, नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकायमान होगया । मनोहर माधुरी मूर्ति का दर्शन करके विदेह (जनक) विशेष रूप में देहकी मुग्ध प्रसन्नगये ।

दोहा—प्रेम मगन मनु जानि नृप, करि विवेकु धरि धीर ।

बोलेउ मुनि पद नाइ सिरु, गद्गद् गिरा गँभोर ॥२१९॥

सुन्दर श्रवन सुचारु कपोला * अति प्रिय मधुर तोतरे बोला
चिक्कन कच कुंचित गभुआरे * बहु प्रकार रचि मातु सँवारे

सुन्दर कान, बहुत ही सुन्दर कपोल तथा अत्यन्त प्रिय व मधुर तोतली बोली है। जिनके घुँघराले और गभुआरे (गर्भ के जन्मे हुए) वालों को माता ने बहुत प्रकार सँभाला है।

पीत झँगुलिया तनु पहिराई * जानु पानि विचरनि मोहि भाई
रूप सर्काहं नहिं कहि श्रुतिसेषा * सो जानहि सपनेहुँ जेहि देखा

शरीर में पीली झँगुलिया पहिनाई है और घुटनों व हाथों से चलते हुए मुझे सुहावने लगते थे। उस रूप की शोभा को वेद और शेषजी भी नहीं कह सकते, वही जानते हैं— जिन्होंने स्वप्न में कभी उसे देखा हो।

दोहा—सुख सन्दोह मोह पर, ग्यान गिरा गोतीत।

दम्पति परम प्रेम बस, करि सिसुचरित पुनीत ॥२०३॥

जो सुख के समूह, मोह रहित, ज्ञान, वाणी और इन्द्रियों से परे हैं वे दम्पति-दशरथ और कौशल्या के अत्यन्त प्रेम के वश हो बाल-लीला करते हैं।

एहिविधिराम जगत पितु माता * कौसलपुर वासिन्ह सुखदाता
जिन्ह रघुनाथ चरन रति आनी * तिन्हकी यह गति प्रगट भवानी

इस प्रकार जगत के माता पिता श्रीरामचन्द्रजी-अयोध्यावासियों को सुख देने लगे। हे पार्वती! जिन्होंने श्रीरघुनाथजी के चरणों में प्रेम किया, उनकी गति प्रत्यक्ष प्रगट है।

रघुपति विमुख जतन कर कोरी * कवन सकइ भव बन्धन छोरी
जीव चराचर बस करि राखे * सो माया प्रभु सौं भय भाखे

श्रीरघुनाथजी से विमुख रहकर करौड़ों उपाय करके भी संसार के बन्धन को कौन छुड़ा सकता है? चराचर के जीवों को अपने वश में करने वाली माया भी प्रभु से डरती है।

भृकुटि विलास नचावइ ताही * अस प्रभु छाँड़ि भजिअ कहु काही
मन क्रम वचन छाँड़ि चतुराई * भजत कृपा करिहहिं रघुराई

जो प्रभु भृकुटीके विलाससे उस माया को नचाते हैं, ऐसे प्रभुको छोड़ किसका भजन करना चाहिए? मन, कर्म, वचन से चतुराई छोड़कर, भजन करने से वे श्रीरघुनाथजी कृपा करेंगे।

एहिविधिसिसु बिनोद प्रभुकीन्हा * सकल नगर वासिन्ह सुख दीन्हा
ले उछड़ कबहुँक हलरावै * कबहुँ पालनें घालि झुलावै

इस प्रकार प्रभुने बाल-लीला करके सब अयोध्या-वासियोंको सुख दिया। कौशल्याजी कभी उन्हें दुलारती हैं और कभी पालने में झुलाती हैं।

दोहा—प्रेम मगन कौसल्या, निसिदिन जात न जाना।

सुत सनेह बस माता, बाल चरित कर गाना ॥२०४॥

प्रेम में मगन कौशल्याजी रात-दिन वीतते हुए नहीं जान पाती थीं। पुत्र के स्नेह वश

पुनि पुनि प्रभुहि चितव नरनाहू * पुलकि गात उर अधिक उछाहू
मुनिहि प्रसंसहि नाइ पद सीसू * चले लिवाइ नगर अवनीसू

राजा वारम्बार प्रभु को देखकर रोमांचित होगये और हृदयमें अत्यन्त हर्ष हुआ। मुनि को बड़ाई कर, चरणों में सिर नवाकर, जनकजी उन्हें नगर के अन्दर लिवा ले चले।

सुन्दर सदन सुखद सब काला * तहाँ वासु लै दीन्ह भुआला
करि पूजा सब विधि सेवकाई * गयउ राउ गृह विदा कराई

राजा ने उन्हें सदा सुख देने वाले सुन्दर स्थान में ठहराया और सब प्रकार से सेवा-पूजा कर विदा मांग, घर आये।

दोहा-ऋषय सङ्ग रघुवंसमनि, करि भोजन विश्रामु।

बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा भरि जामु ॥२२१॥

ऋषि के साथ रघुवंशमणि (श्रीरामजी) भोजन और विश्राम कर भाई सहित बैठे, उस समय एक पहर दिन शेष रह गया था।

लखन हृदय लालसा विसेषी * जाइ जनकपुर आइउ देखी
प्रभुभय बहुरि मुनिहि सकुचाहीं * प्रगट न कहहिं मनहिं मुसुकाहीं

लक्ष्मणजी के मन में बड़ी लालसा हुई कि जनकपुर देख आवें, परन्तु प्रभु श्रीरामजी के डर और मुनि के संकोच से प्रगट में नहीं कह सके, मन ही मन मुस्कराने लगे।

राम अनुज मन की गति जानी * भगत बछलता हियँ हुलसानी
परम विनीत सकुचि मुसुकाई * बोले गुरु अनुसासन हाई

श्रीरामजी ने लक्ष्मणजी के मनकी बात जानली, मनमें भक्त-वत्सलता हो आई। तब बड़ी नम्रता से संकोच करते हुए, मुस्कराकर गुरु (विश्वामित्रजी) की आज्ञा पाकर बोले-

नाथ लखनु पुर देखन चहहीं * प्रभु संकोच डर प्रगट न कहहीं
जौ राउर आयुस मैं पावौं * नगर देखाइ तुरत लै आवौं

हे नाथ! लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं, परन्तु आपके संकोच से डरकर प्रगट में नहीं कहते। जो मैं आपकी आज्ञा पाऊँ-तो नगर दिखलाकर शीघ्र ही लौटा लाऊँ।

सुनि मुनीस कह वचन सप्रीती * कस न राम तुम्ह राखहु नीती
धरम सेतु पालक तुम्ह ताता * प्रेम बिवस सेवक सुखदाता

यह सुनकर मुनि प्रीति सहित बोलेहे राम! तुम नीति की रक्षा क्यों न करोगे? क्योंकि तुम धर्म की मर्यादा के पालक हो और प्रेम के वश सेवकों को सुख देने वाले हो।

दोहा-जाइ देखि आवहु नगर, सुख निधान दोउ भाइ।

करहु सुफल सबके नयन, सुन्दर वदन देखाइ ॥२२२॥

सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर को देख आओ और अपना सुन्दर मुख दिखला कर सबके नेत्रों को सफल करो।

कौशल्याजीका देह पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं आया, नेत्र बन्द करके श्रीरामजी के चरणोंमें सिर नवाया। माता को अचम्भे में देख श्रीरामजी फिर उसी बालक-रूपमें होगये। अस्तुति करि न जाइ भय माना * जगत पिता मैं सुत करि जाना

हरि जननी बहु विधि समुझाई * यह जनि कतहुँ कहसि सुनु माई

कौशल्याजी से स्तुति नहीं की गई और भतभीत हो गई कि मैंने जगतके पिताको पुत्र करके जाना है। श्रीहरि ने माता को अनेक भाँति से समझाया और कहा—हे माता ! सुनो, इस चरित्र को किसी से नहीं कहना।

दोहा—बार बार कौशल्या, विनय करइ कर जोरि।

अब जनि कबहुँ न व्यापै, प्रभु मोहि माया तोरि ॥२०६॥

कौशल्याजी बारम्बार हाथ जोड़कर विनती करने लगी किहे प्रभु ! मुझे तुम्हारी माया अब कभी न व्यापे।

बालचरित हरि बहुविधि कीन्हा * अति आनन्द दासन्ह कहँ दीन्हा
कछुक काल बीते सब भाई * बड़े भए परिजन सुखदाई

भगवान ने बहुत भाँति से बाल-लीलायें की और भक्तों को बहुत ही आनन्दित किया। कुछ समय बीतने पर कुटुम्बियों को सुख देने वाले सब भाई बड़े हुए।

चूड़ाकरन कीन्ह गुरु जाई * विप्रन्ह पुनि दछिना बहु पाई
परम मनोहर चरित अपारा * करत फिरत चारिउ सुकमारा

तब गुरुजी ने आकर चूड़ाकरण-संस्कार किया और ब्राह्मणों ने फिर बहुत-सी दक्षिणा पाई। बहुत ही मनोहर चारों भाई अपार चरित्र करते फिरते हैं।

मन क्रम वचन अगोचर जोई * दसरथ अजिर विचर प्रभु सोई
भोजन करत बोल जब राजा * नहिँ आवत तजि बाल समाजा

जो प्रभु मन, कर्म वचन से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथजी के आँगन में विहार करते हैं। जब भोजन करते समय राजा बुलाते हैं, तो बाल-मण्डली को छोड़कर नहीं आते।

कौशल्या जब बोलन जाई * ठुमुक ठुमुक प्रभु चलुहिँ पराई
निगम नेति सिव अन्त न पावा * ताहि धरें जननी हठि धावा

धूसरि धूरि भरें तनु आए * भूपति विहँसि गोद बैठाए

जब कौशल्याजीबुलाने जाती हैं, तो प्रभु ठुमक रकर भाग जाते हैं। वेदों ने जिनको 'नेति' (अनन्त) कहा है और शिवजीने जिनका अन्त नहीं पाया, माता कौशल्या उन्हें दौड़कर हठपूर्वक पकड़ने दौड़ती हैं। वे देह में धूल लपेटे हुए आये और राजा ने हँसकर गोद में बैठा लिया

दोहा—भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाइ।

भाजि चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाइ ॥२०७॥

श्रीरामजी चञ्चल चित्त से भोजन करते हैं। अवसर पाकर मुँह पर दही-मात लिपटाये किलकारी मारकर भाग जाते हैं।

लिया है। देवता, मनुष्य, राक्षस, नाग, मुनि-इनमें भी कहीं ऐसी सुन्दरता नहीं सुनो।

विष्णुचारिभुजविधि मुखचारी * विकट वेष मुख पंच पुरारी
अपर देउ अस को जग माहीं * यह छवि मुख पदतरिअ जाही

विष्णु के चार भुजायें, ब्रह्मा के चार मुख, शिवजी का विकट वेष है और उनके पांचमुख हैं। हे सखी ! और कौन ऐसा देवता संसार में है, जिससे इनकी छवि को उपमा दी जाय ?
दोहा-वय किसोर सुषमा सदन, स्याम गौर सुखधाम।

अङ्ग अङ्ग पर वारिअहिं, कोटि कोटि सत काम ॥२२४॥

किसोर-अवस्था, शोभाके घर, श्याम और गौर-वर्ण, मुख के धाम इन दोनों के एक-एक अङ्ग पर करोड़ों कामदेव न्योछावर करने चाहिये।

कहहु सखी अस को तनुधारी * जो न मोह यह रूप निहारी
कोउ सप्रेम बोली मृदु वानी * जो मैं सुना सो सुनहुँ सयानी

हे सखी ! कहो, ऐसा कौन-सा देहधारी है, जो इस स्वरूप को देखकर मोहित न हो जाय ? कोई सखी प्रेम से कोमल वाणी बोली-हे चतुर सखी ! मैंने जो सुना है, सो सुनो।

ए दोऊ दसरथ के ढोटा * बाल मरालन्हि के जल जोटा
मुनि कौसिक मुख के रखवारे * जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे

यह दोनों महाराज दशरथजी के पुत्र हैं, बाल-राज हंसों की-सी जोड़ी है। इन्होंने ही विश्वामित्रजी मुनि के यज्ञ की रक्षा की है और रण में अजित राक्षसों को मारा है।

स्याम गात कलकंज विलोचन * जो मारीच सुभुज मृदु मोचन
कौशल्या सुत सो सुख खानी * नामु रामु धनु सायक पानी

जिनका श्याम शरीर और सुन्दर कमल के समान नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के अहंकार को दूर करने वाले हैं, जो धनुष-बाण हाथ में लिए हुए हैं, और मुख की पान कौशल्या के पुत्र है, इनका नाम 'राम' है।

गौर किसोर वेषु वर काछें * कर सर चाप राम के पाछें
लछिमन नाम राम लघु भ्राता * सुनु सखि तासु सुमित्रा माता

जो गौरवर्ण, किसोर-अवस्था वाले, सुन्दर वेष बनाये, हाथमें धनुष-बाण लिए रामके पीछे जा रहे हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी ! सुनो, ये रामजीके छोटे भाई हैं, इनकी माता सुमित्रा है।

दोहा-विप्र काजु करि बन्धु दोउ, मग मुनि बधू उधारि।

आये देखान चाप मख, सुनि हरषीं सब नारि ॥२२५॥

ये दोनों भाई मुनि का कार्य सिद्ध कर, मार्ग में गौतम-पत्नी अहिल्या का उद्धार करके धनुष-यज्ञ देखने आये हैं। यह सुनकर सब स्त्रियाँ हर्षित हुईं।

देखि राम छवि कोउ एक कहई * जोगु जानकिहि यह वरु अहई
जौं सखि इन्हहि देखि नरनाहू * पन परिहरि हठि करइ विवाह

लगाकर सुनते और छोटे भाइयों को समझाकर कहते ।

प्रातःकाल उठि कै रघुनाथा * मातु पिता गुरु नाबहिं माथा
आयसु माँगि करहिं पुर काजा * देखि चरित हरषइ मन राजा

नित्य प्रातःकाल उठकर श्रीरघुनाथजी माता-पिता और गुरु को मस्तक नवाकर आज्ञा माँगकर नगर का राज-कार्य करते हैं । यह चरित्र देखकर राजा मन में मुदित होते हैं ।

दोहा—व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुन नाम न रूप ।

भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप ॥२०६॥

जो व्यापक, अकल, इच्छा रहित, अजन्मा, निर्गुण और जिनके न नाम है न रूप है, वही महान् भक्तों के लिये बहुत मांति की लीलायें करते थे ।

यह सब चरित कहा मैं गाई * आगिल कथा सुनहु मन लाई
विश्वामित्र महामुनि ग्यानी * बसहिं विपिन सुभ आश्रम जानी

यह सब सुन्दर चरित्र मैंने वर्णन किया, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो । ज्ञानी विश्वामित्र मुनि वन में शुभ आश्रम जानकर रहते थे ।

जहँ जप जग्य जोग मुनि करहीं * अति मारीच सुबाहुहि डरहीं
देखत जग्य निसाचर धावाहिं * करहिं उपद्रव मुनि दुख पावाहिं

वहाँ मुनिजन—जप, यज्ञ, योग करते थे, किन्तु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे । यज्ञको देखते ही राक्षस दौड़ आते और ऐसा उपद्रव करते थे कि जिससे मुनि लोग दुःख पावें ।

गाधि तनय मन चिंता व्यापी * हरिविनुमरहिं न निसिचरपापी
तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा * प्रभु अवतरेंउ हरन महि भारा

विश्वामित्रजी के मन में यह चिन्ता हुई कि श्रीहरि के बिना यह पापी राक्षस नहीं मरेंगे । तब मुनि ने मन में यह विचार किया कि प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है ।

एहि मिस देखौं प्रभु पद जाई * करि विनती आनों दोउ भाई
ग्यान विराग सकल गुन अयना * सो प्रभु मैं देखव भरि नयना

इस बहाने जाकर प्रभुके चरणोंका दर्शन करूँ और विनती कर दोनों भाइयों को ले आऊँ । जो प्रभु ज्ञान-वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभुको मैं अपने नेत्र भरकर देखूँगा ।

दोहा—बहु विधि करत मनोरथ, जात लागि नहिं बार ।

करि सज्जन सरयू जल, गए भय दरवार ॥२१०॥

इस प्रकार मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी, फिर सरयू नदी के जल में स्नान कर राज-सभा में गये ।

मुनि आगमन सुना सब राजा * मिलन गयउ लै विप्र समाजा
करि दण्डवत मुनिहि सनमानी * निज आसन बैठारेहि आनी

तेहि विरंचि रचि सोय सँवारी * तेहि स्यामल वरु रचेउ
गासु वचन सुनि सब हरषानी * ऐसेइ होई कहहिं म

जिस ब्रह्माने सीताजी को संभालकर रचाहै, उसीने विचारकर श्यामसुन्दर व
पह वचन सुनकर सब स्त्रियाँ प्रसन्न हुई और मधुर वाणी से कहने लगी कि ऐ
दोहा—हियँ हरषाहिं वरषाहिं सुमन, सुमुखि सुलोचन वृन्द

जहँ जहँ जाहिं बन्धु दोउ, तहँ तहँ परमानन्द

सुमुखी, सुनयनी स्त्रियों के झुण्ड मन में प्रसन्न हो पुष्प वर्षा करते थे। ज
भाई जाते थे, वहाँ-वहाँ ही परम आनन्द छा जाता था।

पुर पूरव दिसि गे दोउ भाई * जहँ धनुमख हित भ
अति विस्तार चारु गच ढारी * बिमल वेदिका रुचि

फिर दोनों भाई जनकपुर के पूर्वकी ओर गये—जहाँ धनुष-यज्ञ का स्थान बन
बोच में बहुत लम्बा-चौड़ा, सुन्दर, ढालू आँगन बना था, जिस पर सुन्दर स्वच्छ पेरी

चहुँ दिसि कंचन मंच विसाला * रचे जहाँ बैठहिं
तेहि पाछें समीप चहुँ पासा * अपर मंच मण्डली

चारों ओर सोने के सिंहासन राजाओं के बंठने के लिये बने हुए थे। उन
ही चारों ओर दूसरे मञ्च मण्डलाकार बने हुए थे।

कछुक ऊँचि सब भाँति सुहाई * बैठहिं नगर लोग
तिन्ह के निकट विसाल सुहाए * धवल धाम बहु बरत

वह स्थान कुछ ऊँचे और सब प्रकार से सुन्दर थे—जहाँ नगर-निवासी बैठने
के पास बड़े सुहावने उज्ज्वल स्थान रंग-विरले बने थे।

जहँ बैठहिं देखाहिं सब नारी * जथाजोगु निज रूप
पुरवालक कहि कहि मृदु वचना * सादर प्रभुहिं रिखावै

जहाँ स्त्रियाँ अपने-अपने कुल के अनुसार पथाजोग बँडकर बैठतीं, और वे अपने
वचन कहकर आदर सहित प्रभु की रंग-भूमि की रचना सिद्ध करतीं।

दोहा—सब सिसु एहिं मिस प्रेमवत्, परम मनोरुचि भाव।

तनु पुलकाहिं अति हरष हियँ, देखि देखि सोइ भाव।

सब बालक इसी ब्रह्माने से प्रेम बरा हो आनन्द-यज्ञ के लिये अपने-अपने कुल
और दोनों भाइयों को देखकर मन में हर्षित होते थे तथा अपने-अपने कुल के लिये

सिसु सब राम प्रेमवत् जाने * प्रीति समे तिसो नारी

निज निज रुचि सब लोहिं बोलाई * ताहिं सुनि सुनि सोइ भाव

जब सब बालकोंने श्रीरामजी को देखकर अपने-अपने कुल के लिये प्रेम-वत्
अपनी-अपनी रुचि के अनुसार सब कुल में बँडकर बैठतीं, तो वे अपने-अपने

कह निसिचर अति घोर कठोरा * कहँ सुन्दर सुत परम किसोरा

सब पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, तो भी-हे स्वामी! श्रीराम को देते तो कैसे भी नहीं बनता। कहाँ तो बड़े भयंकर कठोर राक्षस और कहाँ मेरे बहुत ही सुकुमार बालक।

सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी * हृदयँ हरष माना मुनि ग्यानी

तव वसिष्ठ बहु विधि समुझावा * नृप सन्देह नाश कहँ पावा

राजा की प्रेम-रस से सनी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि ने मन में बहुत आनन्द माना। तब वसिष्ठजी ने बहुत भाँति से समझाया, तो राजा का सब सन्देह दूर हो गया।

अति आदर दोउ तनय बोलाए * हृदयँ लाज बहु भाँति सिखाए

मेरे प्राण नाथ सुत दोऊ * तुम्ह मुनिपिता आन नहिँ कोऊ

बड़े आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और छातीसे लगाकर बहुत प्रकार से शिक्षा दी और कहा है नाथ यह दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं, हे मुनी! अब आप ही इनके पिता हैं दूसरा कोई नहीं।

दोहा-साँपे भूष रिषिहि सुत, बहु विधि देइ असीस।

जननी भवन गए प्रभु, चले नाइ पद सीस ॥२१२॥

राजा ने बहुत भाँति से आशीर्वाद देकर दोनों पुत्र ऋषि को साँप दिये। तब प्रभुमाता के महल में गये और चरणों में सिर नवाकर चले।

सो०-पुरुष सिंह दोउ वीर, हरषिचले मुनि भय हरन।

कृपासिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारन करन ॥२१॥

पुरुषों में सिंहरूप दोनों वीर जो मुनियों के भय हरने वाले, कृपा के समुद्र, धीर-बुद्धि और सब जगत् के कारणों के कर्ता हैं, वे चले।

अरु नयन उर बाहु विसाला * नील जलज तनु स्याम तमाला

कटि पट पीत कसेँ वर भाथा * रुचिर चाप सायक दुहुँ हाथा

श्रीरामजीके लाल नेत्र, चौड़ी छाती, लम्बी भुजायें, नील-कमल और तमाल के समान सुन्दर श्याम शरीर है। कमरमें पीताम्बर और सुन्दर तर्कस, दोनों हाथोंमें सुन्दर धनुष वाण है।

स्याम गौर सुन्दर दोउ भाई * विश्वामित्र महानिधि पाई

प्रभु ब्रह्म देव मैं जाना * सो हित पिता तजेउ भगवाना

श्याम और सुन्दर दोनों भाई विश्वामित्रजी को महानिधि-रूप प्राप्त हुए। वे सोचने लगे-मैंने जानलिया कि प्रभु ब्रह्माण्य-देव हैं, भगवान ने मेरे लिये पिता को भी छोड़ दिया।

चले जात मुनि दीन्ह देखाई * सुनि ताड़का क्रोध करि आई

एकहिँ बान प्राण हरि लीन्हा * दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा

मार्ग में जाते हुए मुनि ने ताड़का दिखलाई, वह शब्द सुनते ही क्रोध करके दीड़ी तब श्रीरामजी ने एकही वाण से उसके प्राण हर लिये, दीन जानकर उसे अपना पद (अपना लोक) दिया।

चरणकमल हृदय में धारण कर सो गये ।

दोहा—उठेलखाननिसि विगत सुनि, अरुनिसिखाधुनि कान ।

गुरु तें पहिलेहिं जगतपति, जागे रामु सुजानु ॥२३०॥

रात्रि बीते, अरुणोदय जान, अर्थात्-मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मणजी उठे फिर वह गुरु पहले ही जगत्पति चतुर श्रीरामजी जागे ।

सकल शौच करि जाइ नहाए * नित्य निवाहि मुनिहि सिर नाए

समय जानु गुरु आयसु पाई * लेन प्रसून चले दोउ भाई

शौचादिक क्रिया करके, जाकर स्नान किया और नित्य-कर्म करके, मुनि को प्रणाम किया । समय जानकर, गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई पुष्प लेने चले ।

भूप बागु वर देखे जाई * जहँ वसन्त ऋतु रही लोभाई

लागे विटप मनोहर नाना * वरन वरन वर बेलि विताना

उन्होंने जाकर राजा जनक का सुन्दर बाग देखा, जहाँ वसन्त-ऋतु लुभा रही थी । उसमें अनेक मनोहर वृक्ष लगे हुए थे, रङ्ग-विरङ्गी लताओं के मण्डप छाये हुए थे ।

नव पल्लप फल सुमन सुहाए * निज सम्पति सुर रूखलजाए

जातक कोकिल कोर चकोरा * कूजत विहंग नटत कल मोरा

वृक्षों में सुन्दर नये पत्ते, फल और फूल लगे हुए थे, जो अपनी सम्पत्ति से कल्पवृक्ष को भी लज्जित कर रहे थे । पपीहा, कोयल, तोता, मोर, चकोर आदि पक्षी बोल रहे थे और मोर भली-भाँति से नाच रहे थे ।

मध्य बाग सरु सोह सुहावा * मनि सोपान विचित्र बनावा

विमल सलिलु सरसिजबहु रङ्गा * जलखग कूजत गुंजत भृङ्गा

बागके बीचमें मणि-जड़ित विचित्र सीढ़ियों से युक्त एक सरोवर शोभित था । उसके निम्नत जल में अनेक रङ्ग के कमल खिल रहे थे, जलके पक्षी बोल रहे थे और भौंरे गूँज रहे थे ।

दोहा—बागु तड़ागु विलोकि प्रभु, हरषे बन्धु समेत ।

परम रम्य आराम यहु, जो रामहिं सुख देत ॥२३१॥

बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्रीरामजी-लक्ष्मणजी सहित प्रसन्न हुए । यह बाग परम रमणीक था, जो श्रीरामजी को सुख दे रहा था ।

चहुँ दिसि चितइ पूछि मालीगन * लगे लेन दल फूल मुदित मन

तेहि अवसर सीता तहँ आई * गिरिजा पूजन जननि पठाई

चारों ओर देख, मालियों से पूछकर प्रसन्न मन से ये पत्र-पुष्प लेने लगे । उसी समय श्रीपार्वतीजी का पूजन करने के लिए-माता को भेजी हुई सीताजी वहाँ आईं ।

सङ्ग सखी सब सुभग सयानी * गावहिं गीत मनोहर बानी

सर समीप गिरिजा गृह सोहा * वरनि न जाइ देखि मन मोहा

प्रभु ने एक शिला देखकर मुनि से पूछा, तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा सुनाई-
दोहा-गौतस नारि श्राप बस, उपल देह धरि धीर ।

चरन कमल रज चाहति, कृपा करहु रघुवीर ॥२१४॥

गौतम-मुनि की स्त्री श्राप के कारण शिला होगई है, वह धीरज धरते हुए आपके चरण-
कमलों की रज चाहती है, सो-हे श्रीरघुनाथजी ! आप कृपा कीजिए ।

छंद-परत पद पावन सोक नसावन प्रंगट भई तपपुंज सही ।

देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होइ कर जोर रही ॥

अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा मुख नहि आवइ वचन कही ।

अतिसय बड़भागी चरनन्ह लागी जुगल नयन जलधार बही ॥

श्रीरामजी के पवित्र दुःखहारी चरणों का स्पर्श होते ही तपोभूमि अहिल्या सचमुच प्रगट
होगई । भक्तों को सुख देने वाले श्रीरामजी को देखते ही उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी
हो, अत्यन्त प्रेम से अधीर हो रोमांचित होगई, मुख से वचन नहीं निकल सके । तब अत्यंत
बड़भागी अहिल्या प्रभु के चरणों में गिर गई और नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी ।

धीरज मन कीन्हा प्रभु कहँ चीन्हा रघुपति कृपाँ भगति पाई ।

अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी ग्यान गम्य जय रघुराई ॥

मैं नारि अपावन प्रभु जग पावन रावन रिपु जन सुखदाई ।

राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरनहि आई ॥

फिर धैर्य धारण कर उसने प्रभु को पहिचाना तथा श्रीरघुनाथजी की कृपा से भक्ति
पाई । तब बहुत निर्मल वाणी से स्तुति करने लगी-हे ज्ञान से जानने योग्य श्रीरघुनाथजी !
आपकी जय हो । मैं अपवित्र स्त्री हूँ और प्रभु जगत को पवित्र करने वाले, रावण के शत्रु
और अपने भक्तों को सुख देने वाले हैं । हे कमल-नयन ! हे संसार के भय को दूर करने
वाले ! मैं आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा करो ।

मुनि श्राप जो दीन्हा अतिभल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना ।

देखेउँ भरि लोचन हरि भवमोचन इहहिं लाभ शङ्कर जाना ॥

विनती प्रभु सोरी मैं मति भोरी नाथ न मागउँ वर आना ।

पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करै पाना ॥

मुनि ने जो श्राप दिया तो बहुत भला किया, मैंने उसे बड़ी कृपा समझी, क्योंकि संसार से
छुड़ाने वाले-श्रीहरि को नेत्र भर मैंने देखा, इसी को शिवजी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं ।
हे प्रभु ! मैं बुद्धि की भोली हूँ, हे नाथ ! मैं वर नहीं माँगती । विनती करके केवल यही चाहती हूँ;
कि आपके चरणों की रज के रस को मेरा मन भौरे के समान प्रेम से पान किया करे ।

जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता प्रकट भई सिवसीस धरी ।

चरणकमल हृदय में धारण कर सो गये ।

दोहा—उठेलखाननिसि विगतसुनि, अरुनिसिखाधुनि कान ।

गुरु तें पहिलेहिं जगतपति, जागे रामु सुजानु ॥२३०॥

रात्रि बीते, अरुणोदय जान, अर्थात्-मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मणजी उठे फिर वह गुरु पहले ही जगतपति चतुर श्रीरामजी जागे ।

सकल शौच करि जाइ नहाए * नित्य निवाहि मुनिहि सिर नाए समय जानु गुरु आयसु पाई * लेन प्रसून चले दोउ भाई

शौचादिक क्रिया करके, जाकर स्नान किया और नित्य-कर्म करके, मुनि को प्रणाम किया । समय जानकर, गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई पुष्प लेने चले ।

भूप बागु वर देखे जाई * जहँ बसन्त ऋतु रही लोभाई लागे विटप मनोहर नाना * वरन वरन वर बेलि विताना

उन्होंने जाकर राजा जनक का सुन्दर बाग देखा, जहाँ बसन्त-ऋतु तुमा रही थी । उसमें अनेक मनोहर वृक्ष लगे हुए थे, रङ्ग-विरङ्गी लताओं के मण्डप छाये हुए थे ।

नव पल्लप फल सुमन सुहाए * निज सम्पति सुर रुखलजाए जातक कोकिल कीर चकोरा * कूजत विहँग नटत कल मोरा

वृक्षों में सुन्दर नये पत्ते, फल और फूल लगे हुए थे, जो अपनी सम्पत्ति से कल्पवृक्ष को भी लज्जित कर रहे थे । पपीहा, कोयल, तोता, मोर, चकोर आदि पक्षी बोल रहे थे और मोर भली-भाँति से नाच रहे थे ।

मध्य बाग सरु सोह सुहावा * मनि सोपान विचित्र वनावा विमल सलिलु सरसिजबहु रङ्गा * जलखग कूजत गुंजत भूङ्गा

बागके बीचमें मणि-जड़ित विचित्र सीढ़ियों से युक्त एक सरोवर शोभित था । उसके निर्मल जल में अनेक रङ्ग के कमल खिल रहे थे, जलके पक्षी बोल रहे थे और भौरे गुँज रहे थे ।

दोहा—बागु तड़ागु विलोकि प्रभु, हरषे बन्धु समेत ।

परम रम्य आराम यहु, जो रामहिं सुख देत ॥२३१॥

बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्रीरामजी-लक्ष्मणजी सहित प्रसन्न हुए । यह बाग परम रमणीक था, जो श्रीरामजी को सुख दे रहा था ।

चहुँ दिसि चितइ पूछि मालीगन * लगे लेन दल फूल मुदित मन तेहि अवसर सीता तहँ आई * गिरिजा पूजन जननि पठाई

चारों ओर देख, मालियों से पूछकर प्रसन्न मन से वे पत्र-पुष्प लेने लगे । उसी समय धीपावंतोजी का पूजन करने के लिए-माता की भेजी हुई सीताजी वहाँ आई ।

सङ्ग सखी सब सुभग सयानी * गावहिं गीत मनोहर वानी सर समीप गिरिजा गृह सोहा * वरनि न जाइ देखि मन मोहा

फूलत फूलत सुपल्लवित, सोहत पुर चहुँ पास ।

फूलवारी, बाग और वन नगर के चारों ओर शोभा दे रहे हैं। उनमें भाँति २ के पक्षी अपने घोंसले बनाकर वास कर रहे हैं। वृक्षों में फल लटक रहे हैं, सुन्दर कोमल पत्ते निकल रहे हैं।

वनइ न बरनत नगर निकाई * जहाँ जाइ मन तहँई लोभाई
चारु बजारु विचित्र अँबारी * मनमय विधि जनु स्वकरसँवारी

नगरकी शोभा वर्णन करते नहीं बनती, जहाँ मन जाता है, वहीं लुभाजाता है। सुन्दर बाजार और ऐसी विचित्र मणियों से जड़ित अटारियाँ हैं, मानो ब्रह्मा ने हाथों से बनाया हो।

धनिक बनिक वर धनद समाना * बैठे सकल वस्तु लै नाना
चौहट सुन्दर गली सुहाई * सन्तत रहँहि सुगन्ध सिचाई

कुवेर के समान धनी-व्यापारी सब प्रकार की वस्तुयें लेकर बैठे हैं। चौक और सुहावनी गलियाँ सदा सुगन्धित रहती हैं।

मङ्गलमय मन्दिर सब केरे * चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे
पुर नर नारि सुभग सुचि सन्ता * धरमसील ग्यानी गुणवन्ता

सबके धरमङ्गलमय और ऐसे विचित्र हैं, मानो उन्हें कामदेवरूपी चित्रकारने चित्रित किये हों। नगर के सब ली-पुरुष-सुन्दर, पवित्र, बड़े सज्जन, धर्मात्मा, ज्ञानवान और गुणवान हैं।

अति अनूप जहँ जनक निवासू * विथकाँहि बिबुध बिलोक बिलासू
होत चकित चित कोटि विलोकी * सकल भुवन सोभा जनु रोकी

जहाँ महाराज जनक का निवास था, वह स्थान बहुत ही अनुपम था—जिनके ऐश्वर्य को देख देवता भी थक जाते थे। किले को देख चित्त चकित होता था, उसने सब भुवनों की शोभा रोक रखी थी।

दोहा—धवल धाम मनि पुरट पट, सुघटित नाना भाँति ।

सिय निवास सुन्दर सदन, सोभा किमि कहि जाति ॥२१७॥

सफेद महलों में सुन्दर मणि-जड़ित सोने के अनेक भाँति के पर्दे थे और सीताजी का निवास-स्थान तो बहुत ही सुहावना था। उसकी शोभा कैसे कही जा सकती है ?

सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा * भूप भीर नट मागध भाटा
बनी विसाल बाजि गज शाला * हय गय रथ संकुल सब काला

महलों के सब दरवाजे बहुत ही सुन्दर थे, उनमें हीरे जड़े हुए किवाड़ थे। वहाँ राजा नट, मागध और भाटों की बड़ी अपार भीड़ लगी थी। बहुत बड़ी-बड़ी घुड़सालें, गजशालायें बनी हुई थीं, जिनमें सदैव घोड़े, हाथी और रथ भरे रहते थे।

सूर सचिव सेनप बहुतेरे * नृप गृह सरिस सदन सब केरे
पुर बाहेर सरस सरित समीपा * उतरे जहँ तहँ बिपुल महीपा

बहुत-से सूरवीर, मन्त्री, सेनापति थे, इन सबके महल भी राज-भवन के समान थे। नगर

चकितविलोकितसकलदिसि, जनु सिसु मृगी सभोत ॥२३३॥

नारदजी के वचनों को स्मरण करके सीताजी के हृदय में पवित्र प्रेम उत्पन्न हुआ और चकित होकर चारों ओर देखने लगीं, मानो मृगी डरकर इधर-उधर देख रही हो।

कङ्कन किंकिनि नूपुर धुनि * कहत लखनसन रामहृदय गुनि
मानहुँ मदन दुन्दुभी दीन्ही * मनसा विश्वविजय चह कीन्ही

सीताजी के कंकण, कर्धनो और पायजेबों की ध्वनि सुनकर श्रीरामजी हृदय में विचार कर लक्ष्मणजीसे बोले-ऐसा लगता है, मानो कामदेवने विश्व-विजय की इच्छा से डंका बजाया है।

अस कहिफिर चितए तेहिं ओरा * सिय मुख ससि भए नयन चकोरा
भए विलोचन चारु अचंचल * मनहुँ सकुचि निमि तजे दिगंचल

ऐसे कहकर फिर उस ओर देखा-जिस ओर सीताजी के मुखरूपी चन्द्रमा के लिये उनके नेत्र चकोर बने हुए थे। सुन्दर नेत्र स्थिर रह गये, मानो महाराज निमि ने लजाकर उनके पलकों से अपना निवास छोड़ दिया हो।

देखि सीय शोभा सुखु पावा * हृदय सराहत वचनु न आवा
जनु विरंचि सब निज निपुनाई * विरंचि विश्व कहँ प्रगट देखाई

सीताजी की शोभा देखकर श्रीरामजी ने सुख पाया और मनमें बड़ाई की। मुख से कुछ कहते नहीं बना, मानो ब्रह्मा ने अपनी सब चतुरता रचकर संसार में प्रत्यक्ष दिखाई हो।

सुन्दरता कहँ सुन्दर करई * छवि गृह दीप शिखा जनु वरई
सब उपमा कवि रहे जुठारी * केहि पटतरौं विदेह कुमारी

शोभा(सीताजी)सुन्दरता को सुन्दर करती है, मानो कान्तिरूपी भवन में दीपक की ज्योति जल रही हो। सब उपमा तो कवियों ने झूठी कर डाली हैं, सीताजीकी किससे उपमा दें ?

दोहा-सिय सोभा हियवरनि प्रभु, आपनि दसा विचारि।

बोले सुचि मन अनुज सन, वचन समय अनुसारि ॥२३४॥

प्रभु श्रीरामजी-सीताजी की शोभा का मन में वर्णन कर अपनी दशा को विचार कर पवित्र मन से लक्ष्मणजी से समयानुसार वचन बोले-

तात जनक तनया तह सोई * धनुषयज्ञ जेहि कारन होई
पूजन गौरि सखी लै आई * करत प्रकासु फिरइ फुलवाई

हे तात! वही जनक-मुता है, जिसके कारण धनुष-यज्ञ होरहा है। पार्वतीजी का पूजन करने के लिये सखियों के साथ यहां आई है और फुलचारी को प्रकाशित करती फिरती है।

जासु विलोकि अलौकिक सोभा * सहज पुनीत मोर मनु लोभा
सो सबु कारन जानि विधाता * फरकहिं सुभग अङ्ग सुनु भ्राता

जिसकी अलौकिक शोभाको देखकर सहज ही मेरा पवित्र मन धुँध होगया। इसका पूरा-पूरा कारण तो विधाता ही जाने, परन्तु-हे भाई! मुनो, मेरे बाहिन अङ्ग फड़क :

अपने मन को प्रेम में मग्न जानकर, विवेक द्वारा अपनी मति को धीरे-धीरे देकर राजा मुनि को प्रणाम कर गङ्गा और गम्भीर वाणी से बोले-

कहहु नाथ सुन्दर दोउ बालक * मुनिकुलतिलककिन्पकुलपालक
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा * उभय वेष धरि कि सोइ आवा

हे नाथ! कहो-ये दोनों सुन्दर बालक मुनि-कुल-तिलक हैं या राज-कुल के पालक हैं? अथवा वेद जिस ब्रह्म को 'नेति-नेति' कहकर गाते हैं, क्या वही दो स्वरूप धारण करके आये हैं सहज विराग रूप मन मोरा * थकित होत जिमि चन्द्र चकोरा ताते प्रभु पूछउ सतिभाऊ * कहहु नाथ जनि करहु डुराऊ

मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्यरूप है, वह भी इनके दर्शन कर ऐसा मुग्ध होता है, जैसे चन्द्रमा को देखकर चकोर। इससे-हे प्रभु! मैं सच्चे भाव से पूछता हूँ-हे नाथ! इन्हें विलोकित अति अनुरागा * वरवश ब्रह्म सुखहि मन त्यागा कह मुनि विहँसि कहेउ नृपतीका * वचन तुम्हार न होइ अलीका
इन्हें देखते ही मेरे मन ने प्रेम के कारण ब्रह्मानन्द को छोड़ दिया है। मुनि ने हँसकर कहा-हे राजन्! आपने ठीक कहा, आपका वचन झूठा नहीं हो सकता।

ए प्रिय सबही जहाँ लगि प्राणी * मन मुसुकाहि राम मुनि बानी
रघुकुलमनि दशरथ के जाए * मम हित लागि नरेश पठाए

संसार में जितने भी प्राणी हैं, ये उन सभी को प्रिय हैं। यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजी मन में मुस्कराये। मुनि बोले-हे राजन्! यह रघुवंशमणि महाराज दशरथजी के पुत्र हैं, मेरे उपकार के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है।

दोहा-रामु लखनु दोउ बन्धु वर, रूप सील बलधाम।

मख राखेउ सब साखि जगु, जिते असुर संग्राम ॥२२०॥

यह राम और लक्ष्मण दोनों भाई श्रेष्ठ, रूप, शील और बल के धाम हैं। सब जगत् इस बात का साक्षी है कि इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की है और संग्राम में असुरों को जीता है। मुनि तब चरन देखि कह राऊ * कहि न सकउ निज पुन्य प्रभाऊ
सुन्दर स्याम गौर दोउ भ्राता * आनन्द हू के आनन्द दाता
राजा ने कहा-हे मुनि! आपके चरणों के दर्शन करके मैं अपने पुण्य का प्रभाव नहीं कह सकता। यह सुन्दर साँवले और गौर दोनों भाई आनन्द को देने वाले हैं।

इन्हें कै प्रीति परस्पर पाननि * कहि न जाइ मन भाव सुहावनि
सुनहु नाथ कह मुदित विदेह * ब्रह्म जीव इव सहज सनेह

इनका आपस में ऐसा पवित्र प्रेम है कि कहा नहीं जा सकता, वह मनको भाता है और सुहावना है। हे नाथ! मुनिये, ब्रह्म और जीव के समान इनके स्वाभाविक स्नेह हैं।

उसी समय लता-भवन में से दोनों भाई प्रकट हुए, मानो निर्मल चन्द्रमा बादलरूपो पट को धोलकर निकल आये हों ।

शोभा सीवें सुभग दोउ वीरा * नील पीत जलजात शरीरा
मोरपंख सिर सोहत नीके * गुच्छा विच विच कुसम कलीके

दोनों सुन्दर भाई शोभा की सीमा हैं, नीले-पीले कमल के समान शरीर हैं । सिर पर मोर-पंख सुशोभित हैं, उनके बीच-बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे गुथे हुए हैं ।

भाल तिलक श्रमविन्दु सुहाए * श्रवन सुभग भूषण छवि छाए
विकट भृकुटि कच घूँघर वारे * नाम सरोज लोचन रतनारे

माथे पर तिलक व पसोने की वृद्धे सुशोभित हैं, कानों में सुन्दर आभूषणों की छवि छा रही है । देढ़ी भौंहें, घुँघराले बाल, कमल के समान अरुण नेत्र हैं ।

चार चिबुक नासिका कपोला * हास विलास लेत मन मोला
मुखछविकहिन जाइ मोहि पाहीं * जो विलोकि बहु काम लजाहीं

सुन्दर ठोड़ी, नाक और गाल हैं, हँसो की शोभा मन को मोल लिए लेती है । मुख की शोभा तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लज्जित हो जाते हैं ।

उर मनिमाल कम्बु कल ग्रीवा * काल कलभ कर भुज बलसीवा
सुमन समेत वाम कर दोना * साँवर कुँअँर सखी सुठि लोना

हृदय पर मणियों की माला है, शंख के समान सुन्दर कण्ठ है और कामदेव के हाथों के बच्चे की सूँड़ के समान भुजायें हैं, जो बल की सीमा है । जिनके बाँधे हाथ में फूल से भरा हुआ दोना है, हे सखी ! वह साँवला कुँवर ही सुन्दर है ।

दोहा-केहरि कटि पट पीत धर, सुषमा सील निधान ।

देखि भानुकुल भूषणहिं, बिसरा सखिन्ह अपान ॥२३७॥

सिंह की-सी पतली-कमर में पीताम्बर धारण किये, शोभा और शील के स्थान, सूर्य-वंश के भूषण धोरामजी को देखकर सखियाँ अपने आप को भूल गईं ।

धरि धोरजु एक अली सयानी * सीता सन बोली गहि पानी
बहुरि गोरि कर ध्यान करेहू * भूपकिसोर देखि किन लेहू

धीरज धरकर एक चतुर सखी सीताजी का हाथ पकड़कर बोली-पार्वती का ध्यान फिर करती रहना, राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती ?

सकुचि सीयें तव नयन उधारे * सनमुख दोउ रघुसिंह निहारे
नख सिख देखि राम कै शोभा * सुमरि पिता पनु मनु अति छोभा

तब सीताजी ने सकुचाकर आँखें धोलीं और सामने दो रघुवंशो-सिंहों को देखा । नयतेचोटों तक धोरामजी की शोभा को देखकर और पिता का स्मरण करके मन को बहुत दुःख हुआ ।

मुनि पदकमल बन्दि दौड भ्राता * चले लोक लोचन सुखदाता
वालक वृन्द देखि अति शोभा * चले सङ्ग लोचन मन लोभा

मुनि के चरण-कमलों की बन्दना करके लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई चले। तब वालकों के वृण्ड उनकी अत्यन्त शोभा को देखकर उनके साथ में हो लिए, क्योंकि उनके नेत्र और मन लुभा गए थे।

पीत वसन परिकर कटि माथा * चारु चाप शर सोहत हाथा
तनु अनुहरन सुचन्दन खोरी * श्यामल गौर मनोहर जोरी

पीले-वस्त्र पहिने, कमर में तरकस कसे हुए, हाथों में धनुष-बाण शोभित शरीरके, योग्य हैं शोभा देने वाली चन्दन की खीर लगाए, सावले और गोरे-रंग की मनोहर जोड़ी है।

केहरि कन्धर बाहु विसाला * उप अति रुचिर नागमनि माला
सुभग सोन सरसीरुह लोचन * वदन मयङ्क तापत्रय मोचन

सिंह के समान ऊँचे कंधे, विशाल मुजायें, हृदय पर सुन्दर गज-मुक्ताओं की माला है। लाल कमल के समान नेत्र और चन्द्रमा के समान तीनों तापों को दूर करने वाला मुख है।

कानन्हि कनक फूल छवि देहीं * चितवत चितहि चोरि जनु लेहीं
चितवनि चारु भृकुटि वर बाँकी * तिलक रेख सोभा जनु चाँकी

कानों में सोने के फूल शोभा दे रहे हैं, जो देखते ही चित्त को चुरा लेते हैं। सुन्दर चितवन है, तिरछी भीहें हैं और तिलक की रेखा विजली की-सी शोभा दे रही है।

दोहा—रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस।

नखसिख सुन्दर बन्धु दौड, सोभा सकल सुदेस ॥२२३॥

सिर पर सुन्दर चौकोर टोपियां, काले-काले घुँघराले बाल हैं। दोनों भाइयों के नख से चोटी तक सब अंग सुन्दर शोभा वाले हैं।

देखन नगरु भूप सुत आए * समाचार पुरवासिन्ह पाए
धाए धाम काम सब त्यागी * भनहुँ रङ्ग निधि लूटन लागी

दोनों राज-पुत्र नगर देख आए हैं, जब यह समाचार पुरवासियों ने पाया, तो वर का काम छोड़कर ऐसे दौड़े-मानो कङ्गालों को दौलत लुटाई जा रही हो।

निरखि सहज सुन्दर दौड भाई * होहिं सुखी लोचन फल पाई
जुवतीं भवन झरोखिन्ह लागीं * निरखहि राम रूप अनुरागीं

दोनों भाइयों के स्वभाव से ही सुन्दर देखकर, नेत्रों का लाभ पाकर लोग सुखी होने लगे। स्त्रियां-खिड़कियों से झाँक कर प्रेम सहित श्रीरामजी के रूप को देख रही हैं।

कहहिं परस्पर वचन सप्रीती * सखि इन्ह कोटि कोटि छविजीती
सुर नर असुर नाग मुनि माहीं * सोभा असि कहु सुनिअति नाहीं

वे आपसमें प्रेमसे बात कर रही हैं हे सखी! इन्होंने करोड़ों कामदेवों की शोभा को जीत

हे माता ! पति को देवता मानने वाली श्रेष्ठ स्त्रियों में आपकी पहली गिनती है । हजारों सरस्वती और शेषजी भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते ।

सेवत तोहि सुलभ फल चारी * वरदायनी पुरारि पिआरी
देवि पूजि पदकमल तुम्हारे * सुर नर मुनि सब होहि सुखारे

हे वर देने वाली ! हे त्रिपुरारी शिवजीकी प्रियतम ! आपकी सेवा करने से त्वारों फल सुलभ हो जाते हैं । हे देवी ! आपकी चरण-सेवा से देवता, मनुष्य, मुनि सब सुखी होते हैं ।

मोर मनोरथ जानहु नीके * वसहु सदा उर पुर सबही के
अहेउँ प्रगट नहिं कारन तेहीं * अस कहि चरन गहे वैदेहीं

मेरी मनोकामना तो आप भली-भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा ही सबके हृदय-मन्दिर में वास करती हैं, इसी कारण मैंने उनको प्रकट नहीं किया । ऐसा कहकर जानकीजी ने पावंतीजी के चरण पकड़ लिये ।

विनय प्रेम बस भई भवानी * खासी माल मूर्ति मुसुकानी
सादर सियँ प्रसादु सिर धरेऊ * बोली गौरि हरषु हियँ भरेऊ

श्रीपावंतीजी-सीताजी की विनती से प्रेम के वश हो गईं । उनको माला धिसक पट्टी और मूर्ति मुस्कराई । उसको सीताजी ने आबर सहित सिर पर रख लिया । पावंतीजी का हृदय आनन्द से भर गया और वे बोलीं—

सुनु सिय सत्य असीस हमारी * पूजिहि मन कामना तुम्हारी
नारद वचन सदा सुचि साँचा * सो वरु मिलिहि जाहि मनुराँचा

हे सीता ! हमारी सच्ची आशीय सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी । नारदजी का बचन सदा पवित्र और सत्य है, वही वर तुम्हें मिलेगा—जो तुम्हारे मन को भाया है ।

छन्द—मनु जाहि राँचेउ मिलिहि सो वरु सहज सुन्दर साँवरो ।

करुनानिधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो ॥

एहिभाँति गौरि असीस सुनि सिय सहित हियँ हरषीं अली ।

तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मन्दिरचली ॥

जिसमें तुम्हारा मन लगा है—वही स्वाभाविक ही सुन्दर साँवला वर तुमको मिलेगा । क्योंकि वह करुनानिधान तथा सर्वज्ञ हैं, वे तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं । इस भाँति पावंतीजी की आशीय सुनकर सखियों सहित सीताजी हृदय में प्रसन्न हुईं और तुलसी तथा भवानी की बारम्बार पूजकर प्रसन्न मन से अपने घर की चलीं ।

सो०—जानि गौरि अनुकूल, सिय हिय हरषु न जाहि कहि ।

मंजुल मङ्गल मूल, दाम अङ्ग फरकन लगे ॥३४॥

पावंतीजी को अनुकूल जानकर सीताजी के हृदय में जो आनन्द हुआ, यह नहीं कहा जा सकता । सुन्दर मङ्गल के मूल बाँधे अङ्ग पकड़ने लगे ।

श्रीरामजी की छवि देख कोई एक सखी बोली 'जानकीजी के योग्य तो यही वर है। हे सखी ! इन्हें राजा देख लेंगे, तो अपना प्रण छोड़कर हठपूर्वक जानकीजी का विवाह इनके साथ कर देंगे।

कोउ कह ए भूपति पहिचाने * मुनि समेत सादर सनमाने
सखि परन्तु पनु राउ न तजई * विधि बस हठि अविवेकहि भजई

कोई सखी कहने लगी-इन्हें राजा ने पहचान लिया है और मुनि सहित आदर पूर्वक इनका सत्कार किया है। परन्तु, हे सखी ! राजा अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़े गे, वह भाग्य वश हठ से अविचार ही धारण किये हैं।

कोउ कह जाँ भल अहइ विधाता * सब कहँ सुनिअ उचित फलदाता
तौ जानकिहि मिलिहि वरु ऐहू * नाहिंन आलि इहाँ सन्देहू

कोई सखी बोली-यदि विधाता भला है और सुना जाता है कि वह सबको उचित फल देने वाला है, तो सीताजी को अवश्य ही यही वर मिलेगा, हे आली ! इसमें सन्देह नहीं।

जाँ विधि बस अस बनै सँजोगू * तौ कृत कृत्य होइ सब लोगू
सखि हमरें आरति अति ताते * कबहुँक ए आवहिं एहि नाते

जो भाग्यवश ऐसा संयोग बन जाय, तो सब लोग कृतार्थ हो जाँय। हे सखी ! इसी से हमें बड़ी आतुरता है कि इस नाते यह कभी यहाँ आया करेगे।

दोहा-नाहिं तौ हम कहँ सुनहु सखि, इन्ह कर दरसनु दूरि।

यह संघट्ट तब होइ जब, पुन्य पुराकृति भूरि ॥२२६॥

हे सखी ! सुनो-नहीं तो, हमको इनका दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी होगा-जब हमारे पूर्वजन्म के बहुत से पुण्य उदय होंगे।

बोली अपर कहेउ सखि नीका * एहि विआह अति हित सबही का
कोउ कह सङ्कर चाप कठोरा * ए श्यामल मृदुगात किसोरा

दूसरी सखी बोली-तुमने ठीक कहा, यह विवाह सभी के लिए बड़ा हितकारी है। कोई कहनेलगी-शिवजी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार, कोमल व किशोरावस्था वाले हैं।

सबु असमांजस अहइ सयानी * यह सुनि अपर कहत मृदु बानी
सखि इन्ह कहँ कोउकोउ अस कहहीं * बड़ प्रभाउ देखत लघु अहहीं

हे सयानी ! यह बड़ी दुविधा की बात है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी-हे सखी ! कोई २ इनके विषय में ऐसा कहते हैं कि यह देखने में तो छोटे हैं, परन्तु इनका प्रभाव बहुत बड़ा है।

परसि जासु पद पङ्कज धूरी * तरी अहिल्या कृत अघ भूरी
सो कि रहहिं बिनु सिवधनु तोरें * यह प्रतीति परहरिअ न मोरें

जिनके चरण की रज छूकर घोर-पापिनी अहिल्या भी तर गई, क्या वह शंकरजी के धनुष को तोड़े बिना रह सकते हैं ? ऐसा विश्वास भूलकर भी नहीं छोड़ना।

उयउ अरुन अवलोकहुँ ताता * पङ्कज कोक लोक सुखदाता
 बोले लखनु जोरि जुग पानी * प्रभु प्रभाव सूचक मृदु वानी
 हे तात ! देखो, अरुणोदय होगया—जो कमल, चकवा व संसार को मुच देने वाला है ।
 यह सुनकर लक्ष्मणजी हाथ जोड़कर प्रभुके प्रभाव को प्रगट करने वाली मधुर वाणी बोले—
 दोहा—अरुनोदय सकुचे कुमुद, उडुगन जोति मलीन ।

तिमितुम्हारआगमन सुनि, भए नृपति बलहीन ॥२४१॥

जैसे अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई हो और तारागणों की ज्योति मन्द पड़ गई
 हो । इसी प्रकार आपका आगमन सुनकर राजा लोग निर्वन हो गये हैं ।

नृप सब नखत करहिं उजियारी * टारि न सकाहिं चाप तम भारी
 कमल कोक मधुकर खग नाना * हरषे सकल निसा अवसाना

सब राजा लोग तारों के समान उजाला करेंगे, परन्तु धनुषरूपी घोर अन्धकार को दूर
 नहीं कर सकते । कमल, चकवा, भौरे, अनेकों पक्षी रात बीत जाने पर प्रसन्न हो गये हैं ।

ऐसेहिं प्रभु सब भगत तुम्हारे * होइहहिं टूटे धनुष सुखारे
 भयउ भानु विनु श्रम तम नासा * दुरे नखत जग तेज प्रकासा

इसी प्रकार—हे प्रभु ! आपके भक्त धनुष बूटने पर सुखी होंगे । सूर्य के उदय होने से
 बिना परिश्रम ही अन्धकार का नाश हो गया, तारे छिप गये, संसार में प्रकाश फैल गया ।

रवि निज उदय व्याज रघुराया * प्रभु प्रताप सब नृपन्हि दिखाया
 तब भुजबल महिमा उदघाटी * प्रगटी धनु विघटन परिपाटी

हे नाथ ! सूर्य ने अपने उदय होने के बहाने से आपका प्रताप सब राजाओं को दिखलाया
 है । आपकी भुजाओं के बल को प्रकट करने के लिए ही धनुष-यज्ञ की प्रथा चली है ।

बन्धु वचन सुनि प्रभु मुसकाने * होइ सुचि सहज पुनीत नहाने
 नित्य क्रिया करि गुरु पहिं आए * चरन सरोज सुभग सिर नाए

भाई के वचन सुन प्रभु श्रीरामजी मुस्कराये, फिर नित्य-कर्म से निवृत्त होकर स्वभाष से
 ही पवित्र श्रीरामजी ने स्नान किया । नित्य-कर्म कर गुरु के पास आये और उनके चरणों
 में मस्तक नवाया ।

सतानन्द तब जनक बोलाए * कौंसिक मुनि पहिं तुरत पठाए
 जनक विनय तिन्ह आइ सुनाई * हरषे बोलि किए दोउ भाइ

तब राजा जनक ने शतानन्दजी को बुलाया और तुरंत विश्वामित्र मुनि के पास भेजा, उन्होंने
 आकर जनकजी की विनती सुनाई । विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को बुलाया ।

दोहा—सतानन्द पद वन्दि प्रभु, बैठे गुरु पहिं जाइ ।

चलहु तात मुनि कहेउ तब, पठवा जनम बोलाइ ॥२४२॥

शतानन्दजी के चरणों में प्रणाम कर प्रभु श्रीरामजी गुरु के पास जा बंटे । तब मुनि ने

श्रीरामजी की छवि देख कोई एक सखी बोली 'जानकीजी के योग्य तो यही वर है। हे सखी ! इन्हें राजा देख लेंगे, तो अपना प्रण छोड़कर हठपूर्वक जानकीजी का विवाह इनके साथ कर देंगे।

कोउ कह ए भूपति पहिचाने * मुनि समेत सादर सनमाने
सखि परन्तु पनु राउ न तजई * विधि बस हठि अविवेकहि भजई

कोई सखी कहने लगी-इन्हें राजा ने पहचान लिया है और मुनि सहित आदर पूर्वक इनका सत्कार किया है। परन्तु, हे सखी ! राजा अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे, वह भाग्य वश हठ से अविचार ही धारण किये हैं।

कोउ कह जाँ भल अहइ विधाता * सब कहँ सुनिअ उचित फलदाता
तौ जानकिहि मिलिहि वरु ऐहू * नाहिंन आलि इहाँ सन्देहू

कोई सखी बोली-यदि विधाता भला है और सुना जाता है कि वह सबको उचित फल देने वाला है, तो सीताजी को अवश्य ही यही वर मिलेगा, हे आली ! इसमें सन्देह नहीं।

जाँ विधि बस अस बनै सँजोग * तौ कृत कृत्य होइ सब लोग
सखि हमरें आरति अति ताते * कबहुँक ए आवाहिं एहि नाते

जो भाग्यवश ऐसा संयोग बन जाय, तो सब लोग कृतार्थ हो जाँय। हे सखी ! इसी से हमें बड़ी आतुरता है कि इस नाते यह कभी यहाँ आया करेंगे।

दोहा-नाहिं तौ हम कहँ सुनहु सखि, इन्ह कर दरसनु दूरि।

यह संघट्ट तब होइ जब, पुन्य पुराकृति भूरि ॥२२६॥

हे सखी ! सुनो-नहीं तो, हमको इनका दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी होगा-जब हमारे पूर्वजन्म के बहुत से पुण्य उदय होंगे।

बोली अपर कहेउ सखि नीका * एहि विआह अति हित सबही का
कोउ कह सङ्कर चाप कठोरा * ए श्यामल मृदुगात किसोरा

दूसरी सखी बोली-तुमने ठीक कहा, यह विवाह सभी के लिए बड़ा हितकारी है। कोई कहने लगी-शिवजी का धनुष कठोर है और ये साँवले राजकुमार, कोमल व किशोरावस्था वाले हैं।

सबु असमंजस अहइ सयानी * यह सुनि अपर कहत मृदु बानी
सखि इन्ह कहँ कोउकोउ अस कहहीं * बड़ प्रभाउ देखत लघु अहहीं

हे सयानी ! यह बड़ी दुविधा की बात है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी-हे सखी ! कोई २ इनके विषय में ऐसा कहते हैं कि यह देखने में तो छोटे हैं, परन्तु इनका प्रभाव बहुत बड़ा है।

परसि जासु पद पङ्कज धूरी * तरी अहिल्या कृत अघ भूरी
सो कि रहहिं बिनु सिवधनु तौरें * यह प्रतीति परहरिअ न मोरें

जिनके चरण की रज छूकर घोर-पापिनी अहिल्या भी तर गई, क्या वह शंकरजी के धनुष को तोड़े बिना रह सकते हैं ? ऐसा विश्वास भूलकर भी नहीं छोड़ना।

डरे कुटिल नृप प्रभुहिं निहारी * मनहुं भयानक मूरति भारी

बड़े रणधीर राजा ऐसा देख रहे हैं, मानो बोर-रस शरीर धारण किये हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डरे, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो।

रहे असुर नृप जो छल वेषा * तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा
पुरवासिन्ह देखे दौड भाई * नर भूपन लोचन सुखादाई

जो असुर छल से राजाओं के वश में बँडे थे, उन्होंने ने उन्हें प्रत्यक्ष काल के समान देखा। पुरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों में शिरोमणि और नेत्रों को सुख देने वाले रूप में देखा।

दोहा—नारि बिलोकाहिं हरष हियँ, निज निज रुचि अनुरूप।

जन सोहत सिङ्गार धरि, मूरति परम अनूप ॥२४४॥

स्त्रियां हृदय में प्रसन्न होकर अपनी रुचि के अनुसार देख रही हैं, मानो शृङ्गार-रस बहुत ही सुन्दर मूर्ति धारण किये शोभायमान हो।

विदुषन्ह प्रभु विराटमत दीखा * वहु सुख कर पग लोचन सीमा
जनक जाति अवलोकाहिं कैसे * सजन सगे प्रिय लागहिं जैसे

पण्डितों ने प्रभु को विराट-रूप में देखा, जिनके बहुत से मुख, हाथ, चरण, नेत्र और सिर हैं। जनकजी के सजात्रियों ने अपने सगे-सम्बन्धियों के समान देखा।

सहित विदेह विलोकाहिं रानी * सिसु सम प्रीति न जात वखानी
जोगिन्ह परम तत्वमय भासा * शांत शुद्ध सम सहज प्रकासा

जनक सहित रानियां उनको पुत्र के समान देखने लगीं, जिनकी प्रीति का बखान नहीं हो सकता। योगियों को शांत, शुद्ध, एक रस, स्वभाव से ही प्रकाशित परम तत्व के रूप में बोध।

हरि भगतन्ह देखे दौड भ्राता * इष्टदेव सब इव सुखादाता
रामहि चितव भायँ जेहि सीया * सौ सपनेहुँ सुखु नहिं कथनीया

हरि-भक्तों को दोनों भाई इष्टदेव के समान सब सुख देने वाले जान पड़े और सीताजी श्रीरामजी को जिस भाव से देख रही थीं, वह स्नेह और सुख तो कहा ही नहीं जा सकता।

उर अनुभवति न कहिसक कोऊ * कवन प्रकार कहै कवि कोऊ
एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ * तेहि तस देखेउ कोसलराऊ

उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव करती थीं, परन्तु उसे कह नहीं सकतीं। फिर कोई कवि उसको किस प्रकार कहे? जिसका वंसा भाव था, उसने श्रीरामजी को वंसा ही देखा।

दोहा—राजत राज समाज महुँ, कोसलराज किसोर।

सुन्दर स्यामल गोर तनु, विश्व विलोचन घोर ॥२४५॥

साँवले और गोरे शरीर वाले तथा संसार के नेत्रों को चुराने वाले अयोध्या-नरेश के कुमार राज-सभा में सुशोभित हैं।

राम देखावहिं अनु जहिरचना * कहि मृदु मधुर मनोहर वचना
लव निमेष महुं भुवन निकाया * रचइ जासु अनुसासन माया

श्रीरामजी-लक्ष्मणजी को रङ्ग-भूमि की रचना कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर दिखाते थे। जिनकी आज्ञा से माया क्षण-मात्र में अनेकों ब्रह्माण्डों को रच देती है।

भगत हेतु सोइ दीनदयाला * चितवत चकित धनुष मखासाला
कौतुक देखि चले गुरु पाहीं * जानि विलम्बु त्रास मन माहीं

भक्तों के लिए वही दीनदयालु भगवान् धनुष-यज्ञशाला को चकित होकर देखते थे। सब रचना देखकर विलम्ब हुआ जानकर मन में डरते हुए गुरु के पास चले।

जासु त्रास डर कहुं डर होई * भजन प्रभाउ देखावत सोई
कहि बातें मृदु मधुर सोहाई * किए बिदा बालक बरिआई

जिन प्रभु के मय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव दिखाते थे। उन्होंने कोमल, मधुर और सुहावनी बातें कहकर जवरदस्ती सब बालकों को विदा किया।

दोहा-समय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दोउ भाई।

गुरु पदपंकज नाइ सिर, बैठे आयुस पाइ ॥२२८॥

फिर भय, नम्रता, प्रेम और संकोच के साथ दोनों भाई चरणारविंदों में सिर नवाकर प्रणाम कर उनकी आज्ञा पाकर बैठ गये।

निसि प्रवेश मुनि आयसु दीन्हा * सबहीं सन्ध्यावन्दनु कीन्हा
कहत कथा इतिहास पुरानी * रुचिर रजनि जुग जासु सिरानी

रात्रि का प्रवेश जानकर मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने सन्ध्या-वन्दन किया। पुरानी कथा और इतिहास कहते हुए दो पहर रात्रि बीत गई।

मुनिवर सयन कीन्ह तब जाई * लगे चरन चाप दोउ भाई
जिन्ह के चरन सरोरुह लागी * करत विविध जप जोग विरागी

तब श्रेष्ठ मुनि जाकर सोये और दोनों भाई उनके चरण दवाने लगे। जिनके चरणारविंदों की रज के लिए वैराग्यवान् पुत्र्य भी अनेकों प्रकार से जप-योग करते हैं।

तेइ दोउ बन्धु प्रेम जनु जीते * गुरु पद कमल पलोदत प्रीते
बार बार मुनि आग्या दीन्ही * रघुवर जाइ सयन तब कीन्ही

वही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए गुरु के 'चरण-कमल' प्रेम से दवा रहे हैं। मुनि ने बारम्बार आज्ञा दी, तब श्रीरघुनाथजी ने शयन की।

चापत चरन लखानु उर लाएँ * सभय सप्रेम परम सचु पाएँ
पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता * पौढ़े धरि उर पद जलजाता

लक्ष्मणजी भय और प्रीति सहित मन लगाकर परमानन्द का अनुभव करते हुए प्रभु के चरण दवाने लगे। जब श्रीरामजी ने कहा-हे तात ! अब सो जाओ, तब लक्ष्मणजी प्रभु के

राजकुमार हैं, वहाँ वहाँ सब लोग चकित होकर देखने लग जाते हैं।

निजनिज रख रामहि सब देखा * कोउ न जान कछु मरम विसेपा
भलिरचना मुनि नृपसन कहेऊ * राजा मुदित महासुख लहेऊ

अपनी-अपनी ओर ही मुख किये सब लोगों ने श्रीरामजी को देखा, परन्तु यह भेद किसी ने नहीं जाना। मुनि ने राजा से कहा-रंग भूमि की रचना बहुत सुन्दर है, यह सुनकर राजा प्रसन्न हुए और बड़ा सुख पाया।

दोहा—सब मञ्चन्ह ते मञ्च एक, सुन्दर विसद विसाल।

मुनि समेत दोउ बन्धु तहँ, बैठारे महिपाल ॥२४७॥

सब मंचों से सुन्दर, एक उज्ज्वल और विशाल मंच था, उस पर राजा ने मुनि समेत दोनों भाइयों को बैठाया।

प्रभुहि देखि सब नृप हियँ हारे * जनु राकेस उदय भए तारे
असि प्रतीति सबके मन माहीं * राम चाप तोरव सक नाहीं

प्रभुको देख सब राजा मनमें ऐसे निराश होगये जैसे चन्द्रमाके उदय होनेसे तारे मन्दपड़जाते हैं। सबके मनमें ऐसा विश्वास हो गयाकि श्रीरामजी धनुषको अवश्य तोड़ेंगे, इसमें सन्देह नहीं।

विनु भंजेहुँ भव धनुष विसाला * मेलोहिं सिय राम उर माला

अस विचारि गवनहू घर भाई * जसु प्रताप बलु तेज गँवाई

शिवजी के इस बड़े धनुष को तोड़े बिना भी सीताजी श्रीरामजी के गले में ही जयमाला डालेंगी। ऐसा विचार कर यश, प्रताप, बल और तेज को गँवाकर अपने-अपने घरको चलदिये।

विहँसे अपर भूप सुनि वानी * जे अविवेक अन्ध अभिमानी

तोरेहुँ धनुष व्याह अवगाहा * विनु तोरें को कुँवरि विआहा

यह बात सुन दूसरे राजा, जो अज्ञान से अंधे और घमण्डी थे, हँसे और बोले-धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, फिर बिना धनुष तोड़ितो राजकुमारीको व्याह ही कौन सकता है?

एक वार कालउ किन होऊ * सिय हित समरजितव हम सोऊ

यह सुनि अपर महिप मुसुकाने * धरम सील हरिभगत सयाने

एक वार चाहे काल ही क्यों न हो, हम सीता के लिये उसे भी जोतेंगे। यह सुनकर अन्य धर्मात्मा हरि-भक्त और चतुर राजा हँसकर कहने लगे—

सो०—सीय विआहवि राम, गरव दूरकरि नृपन्ह के।

जीति को सक संग्राम, दसरथ के रन वाँकुरे ॥३५॥

राजाओं के घमण्डको दूर करके श्रीरामचन्द्रजी-सीताजी को व्याहेंगे। वशरथ के रण-वाँकुरे पुत्रों को संग्राम में जीत ही कौन सकता है ?

व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई * मन मोदकन्हि न भूख बुझाई

सिख हमारि सुनु परम पुनीता * जगदम्बा जानहु जिहँ सीता

सीताजी के साथ सौभाग्यवती, चतुर सखियाँ मनोहर वाणीसे गीत गारही थीं। सरोवर के पासही पार्वतीजी का मन्दिर सुशोभित था, शोभा कही नहीं जाती, देखकर मन मोहित होता था।

मज्जनु करि सरि सखिन्ह समेता * गई मुदित मन गौरि निकेता
पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा * निज अनुरूप सुभग वर माँगा

सीताजी ने सखियों सहित सरोवर में स्नान किया और प्रसन्न मन से श्रीपार्वतीजी के मन्दिर में गईं। वहाँ बड़े प्रेम से पार्वतीजी की पूजा करके अपने योग्य वर माँगा।

एक सखी सिय संगु बिहाई * गई रही देखन फुलवाई
तेहिं दोउ बन्धु बिलोके जाई * प्रेम विबस सीता पहि आइ

एक सखी सीताजी का साथ छोड़कर, फुलवारी देखने चली गई। वह दोनों भाइयों को देखकर प्रेम में मग्न होती हुई सीताजी के पास आई।

दोहा—तासु दसा देखी सखिन्ह, पुलक गात जलु नैन।

कहु कारननिज हरषकर, पूछाहि सब मृदु बैन ॥२३२॥

उनकी दशा सखियों ने देखी कि शरीर पुलकित है, नेत्रों में जल भरा है। तब सब मधुर वाणी से पूछने लगीं कि अपने आनन्द का कारण कहो ?

देखत बाग कुँवर दुइ आए * यह किसोर सब भाँति सुहाए
श्याम गौर किमि कहौ बखानी * गिरा अनयन नयन बिनु बानी

सखी बोली-बाग देखने दो राजकुमार आये हैं, किशोरावस्था के हैं, सबप्रकार से सुन्दर हैं, श्याम व गौर वर्ण हैं। उनका बखान में कैसे कहूँ ? वाणी के नेत्र नहीं और नेत्र बिना वाणीके हैं।

सुनि हरषीं सब सखीं सयानी * सिय हियँ अति उत्कण्ठा जानी
एक कहहि नृपसुत तेइ आली * सुने जे सुनि संग आए काली

यह सुनकर सीताजी के हृदय में उत्कंठा जानकर सब चतुर सखियाँ प्रसन्न हुईं। एक सखी बोली-हे आली ! ये वही राजकुमार हैं, जिनको सुना है कि कल मुनि के साथ आये हैं।

जिन्ह निज रूप मोहिनी डारी * कीन्हे स्वबस नगर नर नारी
वरनत छवि जहँ तहँ सब लोगू * अवसि देखिअहिं देखन जोगू

जिन्होंने वपकी मोहिनी डालकर जनकपुरके सब स्त्री-पुष्यों को अपने वशमें कर लिया है। उनकी छवि का जहाँ-तहाँ सब लोग वर्णन कर रहे हैं, उन्हें अवश्य देखिए, वे देखने योग्य हैं।

तासु वचन अति सियाहिं सोहाने * दरस लागि लोचन अकुलाने
चली अग्र करि सिय सखि सोई * प्रीति पुरातन लखन न कोई

उसके वचन सीताजी को बहुत सुन्दर लगे, दर्शन करने के लिए, नेत्र अकुलाने लगे। तब उस सखी को आगे करके सीताजी चलीं। पुरानी प्रीति को कोई नहीं जान सकता।

दोहा—सुमिरि सीय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत।

जों छवि सुधा पयोनिधि होई * परम रूपमय कच्छुप सोई
सोभा रजु मन्दर सिंगारू * मथै पानि पंकज निज मारू

जो छविरूपी अमृत का समुद्र हो और दिव्य-रूप का कछुआ हो, शोभाहवी रस्तो हो, शृङ्गार-रस-रूपी मन्दराचल हो और कामदेव स्वयं अपने कर-कमलों से मये ।

दोहा—इहि विधि उपजै लच्छिजव, सुन्दरता सुख मूल ।

तदपि संकोच समेत कवि, कहहिं सीय सम तूल ॥२४६॥

इस प्रकार जब सुन्दरता और सुख की मूल-‘श्रीलक्ष्मीजी’ उत्पन्न हों, तभी कवि लोग सीताजी को संकोच के साथ लक्ष्मीजी के समान कह सकते हैं ।

चली सङ्ग लै सखी सयानी * गावत गीत मनोहर बानी
सोह नवल तन सुन्दर सारी * जगत जननि अतुलित छविभारी

चतुर सखियां सीताजी को साथ लेकर मनोहर वाणी से सुन्दर गीत गातो हुई चलीं । नवल-शरीर पर सुन्दर साड़ी शोभायमान थी, जगत्माता सीताजी की शोभा अतुलनीय है ।

भूषण सकल सुदेस सुहाए * अङ्ग अङ्ग छवि सखिन्ह बनाए
रङ्गभूमि जव सिय पगु धारी * देखि रूप मोहे नर नारी

सभी गहने अंगों में सुशोभित हैं, जिन्हें अङ्गों में सजाकर सखियों ने पहिनाये हैं । रङ्ग-भूमि में जब सीताजी ने चरण रखवा, तो रूपको देखकर सब स्त्री-पुरुष मोहित हो गये ।

हरपि सुरन्ह दुन्दुभी बजाई * वरषि प्रसून अप्सरा गाई
पानि सरोज सोह जयमाला * अवचट चितए सकल भुआला

देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाये, पुष्प बरसाकर अप्सरायें गाने लगीं । सीताजी के कर-कमलों में जयमाला सुशोभित है । सीताजी ने अचानक सभी राजाओं की ओर देखा, (दृष्टि को रोका नहीं) ।

सीय चकित चित रामहि चाहा * भए मोह वस सव नर नाहा
मुनि समीप देखे दोउ भाई * लगे ललकि लोचन निधि पाई

सीताजी चकित चितसे श्रीरामजी को देखने लगीं, सब राजा मोहके वश होगये, फिर मुनि के पास बैठे दोनों भाइयोंको देखा, तो दोनों नेत्र मानो अपनी निधि पाकर वहाँ स्थिर रह गये ।

दोहा—गुरुजन लाज समाजु बड़, देखि सीत सकुचानि ।

लागि विलोकन सखिन्हतनु, रघुवीरहि उर आनि ॥२५०॥

गुरुजनों की लाज से और बड़े समाज को देखकर सीताजी सकुचाईं । वे श्रीरघुनाथजी को हृदय में रखकर सखियों की ओर देखने लगीं ।

राम रूप अरू सिय छवि देखें * नर नारिन्ह परिहरी निमेषें
सोचहि सकल कहत सकुचाहीं * विधिसन विनय करहि मनमाहीं

श्रीरामजी के रूप और सीताजी की शोभा को देखकर नर-नारियोंने पलक मारना छे-

रघुवशिन्ह कर सहज सुभाऊ * मनु कुपन्थ पगु धरइ न काऊ
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी * जेहि सपनेहुँ परनारि न हेरी

रघुवंशियों का तो यह सहज स्वभाव है कि वे मनसे कभी भी बुरे मार्गमें पाँव नहीं रखते। मुझे तो अपने मन पर पूरा भरोसा है कि जिसने स्वप्न में भी कभी पराई स्त्री को नहीं देखा।

जिन्ह कै लर्हाहि न रिपुरन पीठी * नहिं पावहिं परतिय मनु डीठी
मङ्गल लर्हाहि न तिन्ह कै नाहीं * ते नरवर थोरे जग माहीं

जो शत्रु को रणमें पीठ नहीं दिखाते, पराई स्त्री जिनके मन और दृष्टि को नहीं खोंचपाती तथा मांगने वाले जिनके यहाँ 'नाहीं' नहीं पाते-ऐसे उत्तम पुरुष संसार में बहुत थोड़े हैं।

दोहा—करत बतकहीं अनुज सन, मन सिय रूप लुभान।

मुख सरोज मकरन्द छवि, करइ मधुप इव पान ॥२३५॥

श्रीरामजी-वाततो लक्ष्मणजी से कह रहे थे, किन्तु मन सीताजी के रूपपर लुभाया हुआ था। सीताजी के मुखरूपी कमलके शोभा-रूपी रसकी रामजीका मन शीरों के समान पानकर रहा था।

चितवत चकित चहुँ दिसि सीता * कहँ गए नृप किसोर तनु चिंता
जहँ विलोकि भृगसावक नैनी * जनु तहँ बरसि कमल सितश्रे नी

सीताजी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं, मन में चिन्ता है कि राजकिशोर कहाँ गये? वह बाल-मृग-नयनी जिस ओर देखती है, वहाँ मानो सफेद कमलों की पंक्तियों की वर्षा होजाती है।

लता ओट तव सखिन्ह लखाए * स्यामल गौर किसोर सुहाए
देखि रूप लोचन ललचाने * हरषे जनु निज निधि पहिचाने

तव सखियों ने लता की ओट में श्याम व गौर-वर्ण सुन्दर राजकुमार दिखाये। उनका रूप देख सीताजी के नेत्र ललचाये, मानो अपनी सम्पत्ति को पहिचान कर प्रसन्न हुए हों।

थके नयन रघुपति छवि देखें * पलकन्हिहूँ परिहरी निमेधें
अधिक सनेह देह भइ भोरी * सरद ससिहि जनु चितव चकोरी

सीताजी के नेत्र श्रीरघुनाथजीकी छवि देख चकित रह गये, पलकों ने भी लगना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण देह विह्वल होगई, मानो चकोरी शरत्-ऋतु के चन्द्रमा को देख रही हो।

लोचन मग रामहि उर आनी * दीन्हे पलक कपाट सयानी
जव सिय सखिन्ह प्रेम वस जानी * कहिन सकहिं कछु मन सकुचानी

नेत्रों के मार्ग से श्रीरामजी को हृदय में लाकर चतुर सीताजी ने पलकरूपी किवाड़ बन्द कर लिये। जब सखियों ने सीताजी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचाई, परन्तु कुछ कह न सकीं।

दोहा—लताभवन तें प्रगट भए, तेहि अवसर दोउ भाइ।

निकसे जनु जुगविमलविधु, जलद पलट विलगाइ ॥२३६॥

जाँ छवि सुधा पयोनिधि होई * परम रूपमय कच्छुप सोई
सोभा रजु मन्दरु सिंगारू * मथै पानि पंकज निज मारू

जो छविरूपी अमृत का समुद्र हो और दिव्य-रूप का कच्छुप हो, सोभा-रूपी रस्तो हो, शृङ्गार-रस-रूपी मन्दराचल हो और कामदेव स्वयं अपने कर-कमलों से मथे ।

दोहा—इहि विधि उपजै लच्छिजव, सुन्दरता सुख मूल ।

तदपि संकोच समेत कवि, कर्हिहि सीय सम तूल ॥२४६॥

इस प्रकार जब सुन्दरता और सुख की मूल-‘श्रीलक्ष्मीजी’ उत्पन्न हों, तभी कवि लोग सीताजी को संकोच के साथ लक्ष्मीजी के समान कह सकते हैं ।

चली सङ्ग लै सखी सयानी * गावत गीत मनोहर बानी
सोह नवल तन सुन्दर सारी * जगत जननि अतुलित छविभारी

चतुर सखियां सीताजी को साथ लेकर मनोहर वाणी से सुन्दर गीत गाती हुई चलीं । नवल-शरीर पर सुन्दर साड़ी शोभायमान थी, जगत्माता सीताजी की शोभा अतुलनीय है ।

भूषन सकल सुदेस सुहाए * अङ्ग अङ्ग छवि सखिन्ह बनाए
रङ्गभूमि जब सिय पगु धारी * देखि रूप मोहे नर नारी

सभी गहने अंगों में सुशोभित हैं, जिन्हें अङ्गों में सजाकर सखियों ने पहिनाये हैं । रङ्गभूमि में जब सीताजी ने चरण रक्खा, तो रूपको देखकर सब स्त्री-पुरुष मोहित हो गये ।

हरषि सुरन्ह दुन्दुभी वजाई * वरषि प्रसून अप्सरा गाई
पानि सरोज सोह जयमाला * अवचट चितए सकल भुआला

देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाये, पुष्प बरसाकर अप्सरायें गाने लगीं । सीताजी के कर-कमलों में जयमाला सुशोभित है । सीताजी ने अचानक सभी राजाओं की ओर देखा, (दृष्टि को रोका नहीं) ।

सीय चकित चित रामहि चाहा * भए मोह बस सब नर नाहा
मुनि समीप देखे दोउ भाई * लगे ललकि लोचन निधि पाई

सीताजी चकित चित्तसे श्रीरामजी को देखने लगीं, सब राजा मोहके वश होगये, फिर मुनि के पास बैठे दोनों भाइयोंको देखा, तो दोनों नेत्रमानो अपनी निधि पाकर वहाँ स्थिर रह गये ।

दोहा—गुरुजन लाज समाजु वड़, देखि सीत सकुचानि ।

लागि विलोकन सखिन्हतनु, रघुवीरहि उर आनि ॥२५०॥

गुरुजनों की लाज से और बड़े समाज को देखकर सीताजी सकुचाईं । वे श्रीरघुनायजी को हृदय में रखकर सखियों की ओर देपने लगीं ।

राम रूप अरू सिय छवि देखें * नर नारिन्ह परिहरी निमेपें
सोचहि सकल कहत सकुचाहीं * विधिसन विनय करहि मनमाहीं

श्रीरामजी के रूप और सीताजी की शोभा को देखकर नर-नारियोंने पलक मारना छोड़

परबस सखिन्ह लखी जब सीता * भयउ गहरु सब कहहिं सभोता
पुनि आउव एहि बिरिआँकाली * अस कहि मनविहँसीएक आली

सखियों ने जब सीताजी को विवश देखा, तब सब डरकर बोली-बहुत देर हो गई है, कल इसी समय फिर आवेंगे। ऐसे कहकर एक सखी मन में हँसी।

गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी * भयउ बिलम्बु मातु भय मानी
धरि बड़ि धीर रामु उर आने * फिरि अपनपउ पितु बस जाने

सखी की गूढ़ वाणी को सुनकर सीताजी लज्जित हुई और बिलम्ब हुआ जानकर माता का डर माना। फिर भारी धीरज धर श्रीरामजी को हृदय में ले आई और अपने को पिता के वश में जानकर लौटी।

दोहा—देखन मिस मृग बिहंग तरु, फिरइ बहोरि बहोरि।

निरखिनिरखिरघुवीर छबि, बाढ़इ प्रीति न थोरि ॥२३८॥

पशु-पक्षी और वृक्षों को देखने के वहाने से सीताजी वारम्बार लौटती थीं और श्रीरघुनाथजी की छवि देखकर प्रीति बढ़ाती जाती थीं।

जानि कठिन सिवचाय बिसूरति * चली राखि उरि स्यामल मूरति
प्रभु जब तात जानकी जानी * सुख सनेह शोभा गुन खानी

शिवजी के धनुष को कठोर जानकर सीताजी दुःख पाती हुई श्रीरामजीकी साँवली मूर्ति को हृदय में रखकर चली। प्रभु ने जब सुख, स्नेह, गुण की खान जानकी को जाते हुए जाना।

परम प्रेममय मूढु मसि कीन्ही * चारु चित्त भीती लिखि लीन्ही
गई भवानी भवन बहोरी * बन्दि चरन बोली कर जोरी

तब परम प्रेम रूपी उत्तम स्याहो से अपने हृदय-पट पर उनका स्वरूप चित्रित कर लिया। सीताजी फिर पार्वतीजी के मन्दिर में गई और चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोली—

जय जय जय गिरिराज किसोरी * जय महेश मुख चन्द्र चकोरी
जय गजबदन षडाषन माता * जगत जननि दामिन द्रुति गाता

हे गिरिराज-किशोरी पार्वतीजी ! आपकी जय हो। हे शिवजी के मुखरूपी चन्द्रमा की चकोरी ! आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेशजी व छः मुख वाले स्वामीकार्तिकजी की माता ! हे जगदम्बा ! हे विजली के समान प्रकाशित शरीर वाली आपकी जय हो।

नहिं तव आदि मध्य अवसाना * अमित प्रभाव वेद नहिं जाना
भव भव विभव पराभव कारिनि * विश्व विमोहन स्ववस बिहारिनि

आपका आदि, मध्य, अन्त नहीं है, आपकी महिमा को वेद भी नहीं जानते, आप जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार-कर्ता हैं। संसार को मोहित करने वाली, इच्छानुसार विहार करने वाली हैं।

दोहा—पतिदेवता सुतीय महुं, मातु प्रथम तव रेख।

महिमा अमितन कहिसकाहिं, सहस सारदा सेष ॥२३९॥

ताना कर दिना धनुष को पेशी, परकी और पराधी प्रसार में बल करती हैं, तो भी-
धनुष नहीं उठता। फिर राजाओं के मन में गुड़ जान है, ये धनुष के फल भी नहीं जाते।

दोहा—तमकि धरहि धनु मूढ़ नृप, उठइ न चलहि लजाइ।

मनहुं पाइ भट बाहुबलु, अधिकुअधिकु गरुआइ ॥२५२॥

मूर्ख राजा मुँसला कर धनुष को पकड़ते हैं, जब नहीं उठता तो लजाकर चल देते हैं।
मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर धनुष अधिक भारी होता जा रहा है।

**भूप सहस दस एकहि बारा * लगे उठावन टरइ न टारा
डगइ न सम्भु सरासन कैसे * कामी वचन सती मन जैसे**

फिर दस हजार राजा एक साथ मिलकर धनुष को उठाने लगे, परन्तु वह टाले नहीं
टसता। शिवजी का वह धनुष कैसे नहीं डिंगता-जिस प्रकार कामी पुरुष के वचनों से
पतिव्रता स्त्री का मन नहीं डिंगता।

**सब नृप भए जोग उपहासी * जैसे विनु विराग सन्यासी
कीरति विजय वीरता भारी * चले चाप कर सरवस हारी**

सब राजा हंसों के योग्य होगये, जिस प्रकार बिना वैराग्य के सन्यासी हंसों के योग्य हो
जाता है। वे उस धनुष के हाथों अपना २ यश और शूरवीरता हारकर चले गये।

**श्रीहत भए हारि हिये राजा * बैठे निज निज जाइ समाजा
नृपन्ह बिलोकिजनकु अकुलाने * बोले वचन रोष जनु साने**

राजा लोग हृदय में हार मानकर, कान्तहीन होकर अपने २ समाज में जा बंटे। उन
राजाओं को असफल देखकर जनकजी घबड़ाये और ऐसे वचन बोले-मानो क्रोध से भरे हैं।

**द्वीप द्वीप के भूपति नाना * आए सुनि हम जो पनु ठाना
देव दनुज धरि मनुज सरोरा * विपुल वीर आए रणधीरा**

द्वीप-द्वीप के अनेकों राजा मने जो प्रण किया है, उसे सुनकर आये हैं, देवता और
दानव भी मनुष्य-शरीर धारण करके आये हैं, तथा बहुत से रणधीर वीर भी आये हैं।

दोहा—कुअरि मनोहर विजय बड़ि, कीरति अति कमनीय।

पावनिहार विरञ्चि जनु, रचेउ न धनु दमनीय ॥२५३॥

परन्तु धनुष को तोड़कर-मनोहर राजकुमारी, महान् विजय और बहुत ही सुन्दर कीर्ति
को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने रचा ही नहीं।

**कहहु काहु यहु लाभु न भावा * काहु न शंकर चाप चढ़ावा
रहउ चढ़ाउव तोरव भाई * तिलु भरि भूमि न सके छुड़ाई**

कहो-किसी को भी यह लाभ अच्छा नहीं लगा, जो किसी ने भी शिव-धनुष को नहीं
चढ़ाया/हे भाई! चढ़ाना व तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिलभर भी भूमिसे अलग न कर सका।

अब जनि कोउ भाखै भटमानी * वीर विहीन मही में जानी

राम कहा सब कौसिक पाहीं * सरल सुभाउछुअत छल नाहीं

सीताजी की सुन्दरताकी मनमें प्रशंसा करते हुए दोनों भाई गुरुके पास गये। श्रीरामजी ने सब हाल विश्वामित्रजी से कह दिया। क्योंकि वे सरल-स्वभाव के हैं, छलतो उन्हें छूता भी नहीं।

सुमन पाइ मुनि पूजा कीन्ही * पुनि असीस दुहुँ भाइन्ह दीन्ही
सुफल मनोरथ होहुँ तुम्हारे * रामु लखनु सुनि भए सुखारे

फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे सब मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्रीराम-लक्ष्मणजी सुखी हुए।

करि भोजनु मुनिवर विग्यानी * लगे कहन कछु कथा पुरानी
विगत दिवस गुरु आयसु पाई * सन्ध्या करन चले दोउ भाई

भोजन करके ज्ञानी मुनि कुछ प्राचीन-कथा कहने लगे। दिन बीत जाने पर मुनि की आज्ञा पाकर दोनों भाई सन्ध्या करने चले।

प्राची दिसि ससि उयउ सुहावा * सिय मुख सरिस देखि सुखु पावा
बहुरि विचारु कीन्ह मन माहीं * सीय बदन सभ हिंसकर नाहीं

पूर्वदिशा में सुन्दर चन्द्रमा उदय हुआ, उसको सीताजीके मुख के समान देखकर श्रीरामजी ने सुखपाया। फिर मन में विचार किया कि सीताजी के मुख के समान यह चन्द्रमा नहीं है।

दोहा-जनमु सिंधु पुनि बन्धु विष, दिन मलीन सकलङ्क।

सिय सुख सभता पाय किमि, चन्दु बापुरो रङ्क ॥२४०॥

जन्म खारे समुद्र से, फिर विष इसका भाई, दिन में तेज-हीन, सकलंप, ऐसा विचारा चन्द्रमा सीताजी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है ?

घटइ बढ़इ बिरहिनि दुखदाई * प्रसइ राजु निज सन्धिहि पाई
कोक सोकप्रद पङ्कज द्रोही * अवगुन बहुत चन्द्रमा तोही

नित्य घटता-बढ़ता, है विरही लोगों को दुःख देता है, राहु अपनी संधिमें पाकर इसे प्रसलेता है, चकवे को दुःख देने वाला और कमलों का वैरी है। चंद्रमा ! तुझमें बहुत-से अवगुण हैं।

बैदेही मुख पटतर दीन्हे * होइ दोषु बड़ अनुचित कीन्हे
सियमुखछबिबिधु ब्याज बखानी * गुरु पहिं चले निसा बड़ि जानी

सीताजी के मुख की तुझसे उपमा देनेमें अनुचित कर्म करनेका बड़ा दोष होगा। इस तरह सीता जी के मुख की शोभा-चंद्रमा के वहाने वर्णन कर, बहुत रात गई जान, वे गुरुजी के पास चले।

करि मुनि चरन सरोज प्रनामा * आयसु पाइ कीन्ह विश्रामा
विगत निसा रघुनायक जागे * बन्धु विलोकि कहन अस लागे

मुनिके चरणकमलों को प्रणाम कर, आज्ञा पाकर विश्राम किया। रात्रि बीतने पर श्रीरघुनाथजी जागे और भाई को देखकर इस प्रकार कहने लगे।

दोहा—तोरों छत्रके दण्ड जिमि, तव प्रताप बल नाथ ।

जोन करों प्रभुपद सपथ, पुनि न धरों धनु हाथ ॥२५५॥

हे नाथ ! आपके प्रतापके बलसे सपंकी छत्री के समान तोड़ डालूँ । जो ऐसा न कहें तो, हे प्रभु ! आपके चरणोंकी शपथ खाकर कहता हूँ कि फिर मैं हाथमें धनुषधारण नहीं करूँगा ।

लखन सकोप वचन जे बोलै * उगमगानि महि दिग्गज डोले सकल लोक सब भूप डराने * सिय हियँ हरपु जनकु सकुचाने

लक्ष्मणजी ने जब क्रोधितहो यह वचन कहे, तब पृथ्वी हिलने लगी और विश्वाओंके हाथी कांपउठे । सब लोक और राजा डरगये, सीताजी मनमें प्रसन्न हुईं और जनकजी सकुचागये ।

गुरुरघुपति सब मुनि मन माहीं * मुदित भए पुनि पुनि पुलकाहीं सयनहिं रघुपति लखनु नेवारे * प्रेम समेत निकट बैठारे

गुरु विश्वामित्रजी, श्रीरघुनाथजी और सब मुनिजन मनमें प्रसन्न हुए और चारम्बार पुलकित होने लगे । श्रीरामजी ने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मणजी को मना किया और प्रेम से अपने पास बंठा लिया ।

विश्वामित्र समय शुभ जानी * बोले अति सनेह मय वानी उठहु राम भंजहु भव चापा * मेटहु तात जनक परितापा

विश्वामित्रजी शुभ समय जानकर बड़ी प्रेम भरी वाणी से बोले—हे राम ! उठो, शिवजी के धनुष को तोड़ो और जनकजी के सन्ताप को दूर करो ।

सुनि गुरुवचनचरन सिरु नावा * हरपु विपादु न कछु उर आवा ठाढ़ भए उठि सहज सुभाएँ * ठवनि जुवाँ मृगराजु लजाएँ

गुरु के वचन सुनकर चरणों में सिर नवाया, उनके मनमें हर्ष न शोक कुछभी न हुआ । वे अपने सहज स्वभाव से खड़े होने की शान से जवानसिंह को भी लज्जित करते थे ।

दोहा—उदित उदय गिरिमञ्च पर, रघुवर वाल पतङ्ग ।

विकसे सन्त सरोज सब, हरषे लोचन भङ्ग ॥२५६॥

उदयाचल, रूपो मन्व पर वाल-मूर्ध-रूपो श्रीरामचन्द्रजी के उदय होते ही सन्तजन-रूपो कमल खिल गये और भौरा रूपो नेत्र प्रसन्न हुए ।

नृपन्ह केरि आसा निसि नासी * वचन नखत अवली न प्रकासी मानो महिप कुमुद सकुचाने * कपटी भूप उलूक लुकाने

राजाओं की आशा-रूपी रात्रि नष्ट होगई, उनके दुर्वचन-रूपी नक्षत्रों का प्रकाश नहीं रहा । पमण्डो राजा कमोदनी के समान तितुड़ गये तथा कपट-वेपधारी उत्तू के समान छिप गये ।

भए विसोक कोक मुनि देवा * वरपाहिं सुमन जनावहिं सेवा गुरु पद वन्दिसहित अनुरागा * राम मुनिन्ह सन आयसु मांगा

चक्रवा-रूपी मुनि और देवता शोक रहित हो, फूल वर्षाकर अपनी सेवा-जताने लगे । गुरु

कहा हे तात ! चलो, जनकजी ने बुला भेजा है ।

ॐ मास पारायण-आठवाँ विश्राम । नवान्ह पारायण-दूसरा विश्राम ॐ

सीय स्वयम्बर देखिअ जाई * ईस काहि धौं देइ बड़ाई
लखन कहा जस भाजुन सोई * नाथ कृपा तव जापर होई

अब सीताजी का स्वयम्बर जानकर देखना चाहिये, देखें ईश्वर किसको बड़ाई देता है ?
लक्ष्मणजी ने कहा-हे नाथ ! वही यश का पात्र होगा, जिस पर आपकी कृपा होगी ।

हरषे मुनि सब मुनि बर बानी * दीन्ह असीस सबन्हि सुखामानी
पुनि मुनि वृन्द समेत कृपाला * देखान चले धनुष मखाशाला

सब मुनि सुन्दन वाणी सुनकर प्रसन्न हुए, सुख मानकर सबने आशीर्वाद दिया । फिर
मुनि-मण्डली सहित कृपालु श्रीरामजी धनुष-यज्ञशाला देखने चले ।

रङ्गभूमि आए दोउ भाई * असि सुधि सब पुरवासिन्ह पाई
चले सकल गृह काज बिसारी * बालक जुवा जरठ नर नारी

रङ्ग-भूमि में दोनों भाई आये हैं, यह समाचार जब नगर-वासियों ने पाया तो सब
बालक, युवा, बूढ़े, स्त्री-पुरुष घरों का काम छोड़कर चले ।

देखी जनक भीर भै भारी * सुचि सेवक सब लिए हँकारी
तुरत सकल लोगन्ह कहि काहू * आसन उचित देहु सब काहू

जनकजी ने देखा कि बड़ी भीड़ होगई है, तब सब चतुर सेवकों को बुलाकर कहा-तुरत
सब लोगों के पास जाओ और सबको यथायोग्य आसन दो ।

दोहा-कहि मूढु वचन विनीत तिन्ह, बैठारे नर नारि ।

उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज मति अनुहारि ॥२४३॥

उन्होंने विनय पूर्वक मधुर वचन कहकर-उत्तम, मध्यम, नीच, लघु सब स्त्री-पुरुषों को
अपने २ योग्य आसन पर बैठाया ।

राजकुअँर तेहि अबसर आए * मनहुँ मनोहरता तन छाए
गुन सागर नागर वर वीरा * सुन्दर श्यामल गौरि सरीरा

उसी समय राजकुमार आ पहुँचे, मानो मनोहरता उनके शरीर पर छाई हो । वे गुणों
के समूह, चतुर, शूरवीरों में श्रेष्ठ, सुन्दर, ताँवले और गोरे शरीर वाले हैं ।

राज समाज विराजत रूरे * उडुगन महुँ जनु जुगबिधु पूरे
जिन्ह कै रही भावना जैसी * प्रभु मूरति देखी तिन्ह तैसी

वे राजाओं के समाज में ऐसे नुशोभित थे, जैसे तारागणों में दो पूर्ण-चंद्रमा हों । जिनकी
जैसी भावना थी- उन्होंने प्रभु की मूर्ति उसी रूप में देखी ।

देखाहि रूप महा रनधीरा * मनहुँ वीर रस धरें सरीरा

महामत्त गजराज कहूँ, वस कर अंकुस खर्व ॥२५८॥

मन्त्र बहुत छोटा है, परन्तु उसके आधीन-ब्रह्मा, विष्णु, महेशा आदि सब देवता हैं । महा मतवाले गजराज को छोटा-सा अंकुश वश में कर लेता है ।

काम कुसुम धनु सायक लीन्हे * सकल भुवन अपने वस कीन्हे
देवि तजिअ संसय अस जानी * भंजव धनुष राम सुनु रानी

कामदेव ने फूलों का ही धनुष लेकर सब भुवनों को अपने वश में कर रक्खा है । हे देवि ! ऐसा जानकर संशय त्याग दो । हे रानी ! सुनो, वह धनुष श्रीरामजी ही तोड़ेगे ।

सखी वचन सुनि भै परतीती * मिटा विषादु बढी अति प्रीती
तव रामहि विलोकि वैदेही * सभय हृदयें विनवति जेहि तेही

सखी के वचन सुन रानी को विश्वास हुआ, विषाद मिट गया और श्रीरामजी के प्रति बहुत प्रेम बढ़ा । उसी समय श्रीरामजी को देखकर सीताजी मन में उरती हुईं जित तित देवता की विनती करने लगीं—

मन ही मन मनाव अकुलानी * होहु प्रसन्न महेस भवानी
करहु सुफल आपनि सेवकाई * करि हितु हरहु चाप गरुआई

वे मन ही मन घबड़ा गईं और बोली—हे शिव-भावती ! मेरे ऊपर प्रसन्न होइये, मैंने जो आपकी सेवा की है, उसे सफल कीजिये । हित करके धनुष का भारोपन हर लीजिये ।

गननायक वरदायक देवा * आजु लगें कीन्हेउ तुअें सेवा
बार बार विनती सुनि मोरी * करहु चाप गरुता अति थोरी

हे वर देने वाले देवता गणेशजी ! आज तक इसी हेतु मैंने आपकी सेवा की है । बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारोपन बहुत कम कर लीजिये ।

दोहा—देखि देखि रघुवीर तनु, सुर मनाव धरि धीर ।

भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर ॥२५९॥

श्रीरघुनाथजी को देख-देखकर धीरज धर—वे देवताओं को मनाने लगीं । नेत्रों में जल भर आया और शरीर प्रफुल्लित होगया ।

नीकें निरखि नयन भरि शोभा * पितु पुनिसुमिरि बहुरिमनुछोभा
अहह तात दारुन हठ ठानी * समुझत नहि कछु लाभु न हानी

भस्ती भाँति नेत्रभर निहार कर श्रीरामजी की शोभा देखी, परन्तु पिता के प्रणको यादकर फिर मन क्षुब्ध होगया । पिताजी ने कठिन हट ठाना है, ये कुछ लाभ और हानि नहीं समझते हैं ।

सचिव सभय सिखु देइ न कोई * बुध समाज बढ अनुचित होई
कहँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा * कहें स्यामल मृदु गात किसोरा

मंती भी भय के कारण कोई सीख नहीं देते, विद्वजनों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है । कहाँ तो यह वचन से कठोर धनुष और कहाँ यह श्यामसुन्दर कोमल अङ्ग के किशोर हैं ?

सहज मनोहर मूरति दोऊ * कोटि काम उपमा लघु सोऊ
सरद चन्द निन्दक मुख नीके * नीरज नयन भावते जीके

दोनों के रूप सहजही मन को हरने वाले हैं, करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके आगे तुच्छ है। शरद के पूर्ण-चन्द्र को लजाने वाला सुन्दर मुख, कमल के समान-मन भावने नेत्र हैं।

चितवनि चारु मार मनु हरनी * भावति हृदय जाति नहिं वरनी
कल कपोल श्रुति कुण्डल लोला * चिबुक अधर सुन्दर मृदु बोला

कामदेव के घमण्ड को हरने वाली सुन्दर चितवन मन को भली लगती है, परन्तु वाणी से कही नहीं जा सकती। सुन्दर गालों पर कानों के कुण्डल झूल रहे हैं, सुन्दर ठोड़ी और होठ हैं तथा मधुर वाणी है।

कुमुद बन्धु कर निन्दक हासा * भृकुटी विकट मनोहर वासा
भाल विसाल तिलक झलकाहीं * कचविलोकिअलि अबलि लजाहीं

चंद्रमा की किरणों को लजाने वाली हँसी, कमान के समान टेढ़ी भौंहें व मनोहर नासिका है। चौड़े मस्तक पर तिलक झलक रहा है, वालों को देखकर भौरों की पाँति लजा रही है।

पीत चौतनीं सिरन्ह सुहाई * कुसुम कली बिच बीच बनाई
रेखें रुचिर कम्बु कल शीवाँ * जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवाँ

पीली चौकोन टोपी सिरों पर सुशोभित हैं, जिन पर फलों की कलियाँ बनी हुई हैं शंखकेतुल्य सुन्दर कण्ठ में मनोहर तीन रेखायें हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुन्दरता की सीमा हैं।

दोहा-कुञ्जर मनि कण्ठा कलित, उरन्हि तुलसिका माल।

मृषभ कन्ध केहरि ठबनि, बलनिधि बाहु विसाल ॥२४६॥

हृदयों पर गज-मुक्ताओं के कण्ठे व तुलसी की माला सुशोभित हो रही हैं। वालों के से ऊँचे कन्धे, सिंह की-सी चाल और बल की समुद्र जैसी लम्बी भुजायें हैं।

कटि तूनीर पीतपट बाँधे * कर सर धनुष बाम वर काँधे
पीत जग्य उपवीत सुहाए * नख सिख मंजु महाछबि छाए

कमर में तरकस व पीताम्बर बाँधे, हाथों में बाण और कन्धे पर धनुष तथा पीले जनेऊ शोभायमान है। नख से चोटी तक सब अङ्ग महान् शोभा से छाए हुए हैं।

देखि लोग सब भए सुखारे * एकटक लोचन चलत न तारे
हरषे जनकु देखि दोऊ भाई * मुनिपद कमल गहे तब जाई

उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक हैं, तारे भी नहीं चलते। राजा जनक दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न हुए। तब उन्होंने मुनि के चरणकमल जाकर पकड़े।

करि विनती निज कथा सुनाई * रङ्ग अवनि सब मुनिहि देखाई
जहँजहँ जाहि कुअँर वर दोऊ * तहँ तहँ चकित चितव सबु कोऊ

विनती करके अपनी कथा सुनाई, रङ्ग-भूमि की सब रचना मुनि को दिखाई। जहाँ २ दोनों

पुलकित हो पृथ्वी को चरणों से दबाकर इस प्रकार बोले-

दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला * धरहु धरनि धिर धीर न डोला
रामु चहाँहि शंकर धनु तोरा * होहु सजग सुनि आयसु मोरा

हे विष्णुजो, कच्छप, शेषनाग, वाराह! तुम धर्यं धरकर पृथ्वीको धारण किये रहता, कहीं हिल न जाय। श्रीरामजी शिव-धनुष तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुन तुम सावधान होजाओ।

चाप समीप रामु जब आए * नर नारिन्ह सुर सुकृत मनाए
सब कर संसय अरु अग्यानु * मन्द महोपन्ह कर अभिमानु

धनुष के पास जब श्रीरामचन्द्रजी आये, तब सब स्त्री-पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सब स्त्री-पुरुषों का सन्देह और अज्ञान एवं मूर्ख राजाओं का अभिमान तथा-

भृगुपति केरि गरव गरुआई * सुर मुनिवृन्द केरि कदराई
सिय कर सोचु जनक पछितावा * रानिन्ह कर दारुन दुख पावा

परशुरामजी के अहंकार की गहता, देवताओं और मुनियरों की घबराहट, सीताजी का सोच, जनकजी का पछतावा, रानियों का कठिन दुःखरूपी दावानल आदि-

सम्भु चाप बड़ बोहितु पाई * चढ़े जाइ सब संगु बनाई
राम बाहुबल सिंधु अपारु * चहत पारु नहि कोउ कड़हारु

यह सब शिवजीके धनुषरूपी जहाज को पाकर एक साथ उस पर जा चढ़ें। वे श्रीराम की भुजाओं के बलरूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं पर कोई मल्लाह नहीं है।

दोहा-राम विलोके लोग सब, चित्र लिखे से देखि।

चितई सीय कृपायतन, जानी विकल विसेषि ॥२६२॥

श्रीरामचन्द्रजी ने सब लोगों को देखा तो उन्हें चित्र-लिखे से बोधे। जब कृपानिधान प्रभु ने सीताजी की ओर देखा तो उन्हें बहुत विकल जाना।

देखी विपुल विकल वैदेहीं * निमिष विहात कल्प सम तेही
तृषित वारिबिनु जो तनु त्यागा * मुएँ करइ का सुधा तड़ागा

उन्होंने सीताजी को बहुत ही विकल देखा, उनका एक२ क्षण कल्प के समान बीत रहा था। प्यासेने यदि बिना जल पिये शरीर त्याग दिया तो मर जाने पर अमृतका तालाब क्या करेगा?

का वरषा जब कृषी सुखाने * सम चूकि पुनि का पछिताने
अस जियँ जानि जानकी देखी * प्रभु पुलके लखि प्रीति विसेपी

जब घेती सूष जाय, तब वर्षा से क्या लाभ और समय बीत जाने पर पछताने से क्या होता है? ऐसा हृदय में जानकर जानकीजी को देखा और उनकी अधिक प्रीति समझ प्रभु श्रीरामजी बहुत ही प्रसन्न हुए।

गुरहि प्रनाम मनहि मन कीन्हा * अति लाघवँ उठाइ धनु लोन्हा
दमकेउदामिनिजिमि जब लयऊ * पुनि धनु नभ मण्डल सम भयऊ

व्यर्थ ही गाल बजाकर मत मरो, मन के लड़्डुओं से भूख शान्त नहीं होती। हमारी परम पवित्र शिक्षा को सुनकर अपने हृदय में सीताजी को जगत्माता जानो।

जगत पिता रघुपतिहि विचारी * भरि लोचन छवि लेहु निहारी
सुन्दर सुखद सकल गुनरासी * ए दोउ बन्धु सम्भु उर वासी

श्रीरघुनाथजी को जगत्पिता समझकर नेत्र भरकर इनकी छवि को देखो। सुन्दर सुख देने वाले और सब गुणों के धाम-ये दोनों भाई शिवजी के हृदय में वास करते हैं।

सुधा समुद्र समीप बिहाई * मृगजलु निरखि मरहु कत धाई
करहु जाइ जा कहुं जोइ भावा * हम तौ आजु जनम फलु पावा

पासही अमृतके समुद्र को छोड़कर, मृग-तृष्णा के जलको देख दौड़कर क्यों मरने जाते हो? जिसे जो अच्छा लगे सो करो, हमने तौ आज जन्म लेने का फल प्राप्त करलिया।

अस कहि चले भूप अनुरागे * रूप अनूप विलोकन लागे
देखाहिं सुर नभ चढ़े विमाना * वरषाहिं सुमन करहिं कल गाना

इस प्रकार कहकर साधु-राजा प्रेम-मग्न होगये और अनुपम रूप को देखने लगे। देवता भी आकाश में विमानों पर चढ़े हुए देख रहे थे और पुष्प वरसाते हुए मधुर-गीत गारहे थे।

दोहा-जानि सुअवसर सीय तब, पठई जनक बोलाइ।

चतुर सखी सुन्दर सकल, सादर चलीं लिवाइ ॥२४८॥

तब राजा जनक ने शुभ अवसर जानकर सीताजी को बुलवाया, तो सब चतुर और सुन्दर रूप वाली सखियाँ आदर सहित उन्हें लिवाकर ले चलीं।

सिय शोभा नाहिं जाइ बखानीं * जगदम्बिका रूप गुन खानी
उपमा सकल मोहि लघु लागी * प्राकृत नारि अङ्ग अनुरागी

सीताजी की शोभा वर्णन नहीं की जा सकती, क्योंकि वे जगत की माता और रूप व गुणों की खान हैं। सब उपमायें मुझको तुच्छ जान पड़ती हैं, क्योंकि वे सब संसारी-स्त्रियों के अङ्गों में लग चुकी हैं।

सिय वरनिअ तेइ उपमा देई * कुकवि कहाइ अजसु को लेई
जौ पटतरिअ तीय सम सीया * जग असि जुवति कहाँ कसनीया

सीताजीके वर्णनमें उन उपमाओंको देखकर, 'कुकवि' कहा कर कौन अपयश लेगा? जिस किसी स्त्रीके साथ सीताजी की उपमा दी भी जाय, तो संसार में ऐसी ननोहर युवती कहाँ हैं?

गिरा सुखर तनु अरध भवानी * रतिअति दुखित अनङ्ग पतिजानी
विष वारुनी बन्धु प्रिय जेहीं * कहित रमा अस किमि वैदेही

सरस्वतीजी बहुत बोलनेवाली हैं, पार्वतीजी अर्द्धाङ्गिनी हैं (उनका आधा अङ्ग शिवजी का है), रति-पति को 'अनङ्ग' जानकर बहुत दुःखी रहती है। विष तथा वारुणी जिनके प्रिय भाई हैं-उन लक्ष्मीजी को, सीताजी के समान कैसे कहा जा सकता है?

संसार में जय-ध्वनि छा गई, जिससे धनुष-भंग की ध्वनि नहीं जाती। आनन्दित होकर जहाँ-तहाँ स्त्री-पुरुष कहने लगे कि श्रीरामचन्द्रजीने भारी शिव-धनुष तोड़ दिया है।
दोहा—बन्दी मागध सूतगन, विरद कहाँहि मति धीर।

कराँहि निछावरि लोग सब, हय गय धन मनि चीर ॥२६३॥

चतुर भाट, मागध, सूतकोति बखानने लगे और सभी लोग घोड़ा, हाथी, मणि, धन और वस्त्र ग्योछावर करने लगे।

झाँझि मृदङ्ग शंख शहनाई * भेरि ढोल दुन्दुभी सुहाई
बाजहिं बहु बाजने सुहाए * जहाँ तहाँ जुवतिन्ह मङ्गल गाए
झाँझ, मृदङ्ग, शंख, नफीरी, तुरही, ढोल, नगाड़े, दुन्दुभीं आवि सुन्वर २ बाजे बजने लगे और जहाँ-तहाँ युवतियों ने मङ्गल-गीत गाये।

सखिन्ह सहित हरषी अति रानी * सूखत धानु परा जनु पानी
जनक लहेउ सुखु सोच विहाई * पैरत थकें याह जनु पाई
सखियों सहित रानी प्रसन्न हुई, मानो मूखे हुए धान पर पानी पड़ गया हो। राजा जनक ने शोक छोड़कर ऐसा सुख पाया, मानो यकें हुए तैरने वाले ने याह पा ली हो।

श्रीहत भए भूप धनु टूटे * जैसे दिवस दीप छवि छूटे
सीख सुखाँहि वरनिअ केहि भाँती * जनु चातकी पाइ जलु स्वाँती
धनुषके टूटने पर राजालोग ऐसे काँतिहीन हुए, जैसे दिनमें दीपक की शोभा जाती रहती है। सीताजी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाय? जैसे चातकी स्वाँति का जल पा गई हो।

रामहि लखनु विलोकत कैसें * ससिहि चकोर किसोरकु जैसें
सतानन्द तब आयसु दीन्हा * सीता गवनु राम पहि कीन्हा
श्रीरामचन्द्रजी को लक्ष्मणजी ऐसे देखने लगे, जैसे चन्द्रमा को चकोर का बच्चा देखता है। तब शतानन्दजी ने आज्ञा दी तो सीताजी श्रीरामजी के पास चलीं।

दोहा—सङ्ग सखी सुन्दर चतुर, गावाँहि मङ्गलचार।

गवनी बाल मराल गति, सुषमा अङ्ग अपार ॥२६४॥

सङ्ग में सुन्दर सखियां मङ्गल-गीत गाती हुई जा रही हैं। सीताजी बाल-हंसिनी की चाल से चलीं, उनके अङ्गों में अपार शोभा थी।

सखिन्ह मध्य सिय सोहत कैसें * छविगन मध्य महाछवि जैसें
कर सरोज जयमाल सोहाई * विश्व विजय सोभा जैहिं छाई
सखियों के बीच में सीताजी ऐसे शोभित हैं, जैसे सुन्दरताओं के बीच में महा-सुन्दरता शोभित हो। कर-कमलों में सुन्दर जयमाला थी, जिसमें विश्व-विजय की शोभा छारही थी।
मन सँकोचु मन परम उछाहू * गूढ प्रेमु लखि परइ न काहू

दोहा—गोतमतियगतिसुरतिकरि, नहिं परसति पग पानि ।

मन बिहैसे रघुवंसमनि, प्रीति अलौकिक जानि ॥२६५॥

गोतम-श्रुति की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके ये श्रीरघुनाथजी के चरणों को स्पर्श नहीं करतीं। इस अनीची प्रीति को जानकर रघुवंश-मणि श्रीरामचन्द्रजी मन में होंसे।

तव सिय देखि भूप अभिलाषे * कूर कपूत मूढ़ मन माखे
उठि उठि पहिरि सनाह अभागे * जहँ तहँ गाल बजावन लागे

उस समय सीताजी को देखकर कुछ राजा ललचा उठे, वे कुटिल व भ्रष्ट राजा मन में डाह करने लगे। वे अभागे उठकर कवच आदि पहिन कर जहाँ-तहाँ गाल बजाने लगे।

लेहु छुड़ाइ सीय कह कोऊ * धरि बांधहु नृप वालक दोऊ
तोरेँ धनुष चाड़ नहिं सरई * जीवत हमहि कुअरि को बरई

कोई बोला-सीता को छोन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ देने से ही इच्छा पूरी नहीं होगी। हमारे जीते-जी राजकुमारों को कौन ब्याह सकता है ?

जौ विदेह कछु करै सहाई * जीतहु समर सहित दौड भाई
साधु भूप बोले सुनि वानी * राजसमाजहि लाज लजानी

यदि राजा जनक कुछ सहायता करें, तो दोनों भाइयों सहित युद्ध में उन्हें भी जीत लो यह सुनकर साधु राजा बोले—इस राज समाज ने तो लाज को भी लजा दिया।

बलु प्रतापु वीरता बड़ाई * नाक पिनाकाहि संग सिधाई
सोइ सूरत कि अब कहूँ पाई * असि बुधितौविधि मुँह मसि लाई

बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई और मर्यादा—ये धनुष के साथ ही चले गये। यही सूरता यो अथवा अब कहीं से पागये हो ? ऐसी दुष्टि बुद्धि है—तमो तो यद्वा ने तुम्हारे मुँह पर स्याही लगादी है।

दोहा—देखहु रामहि नयन भरि, तजि ईरिया महु कोहु ।

लखन रोषु पावक प्रवल, जानि सलभ जनि होहु ॥२६६॥

बंर, घमण्ड और क्रोध को छोड़कर, नेत्रमर श्रीरामचन्द्रजी को देख लो। लक्षमणजी के क्रोध को प्रचंड अग्नि जानकर उसमें पतझा मत बनो।

बैनतेय बलि जिमि चह कागू * जिमि ससु चहै नाग अरि भागू
जिमि चह कुसल अकारन कोही * सुख सम्पदा चहै सिव द्रोही

जिस प्रकार गरुड़ के भाग को फीआ चाहे सिंह के भाग को परहा चाहे, बिना कारण क्रोध करने वाला फुसलता चाहे, शिवजी का द्रोही सुख-सम्पदा चाहे तथा—

लोभी लोलुप कीरति चहई * अकलङ्कता कि कामी लहई
हरि पद विमुख परम गति चाहा * तस तुम्हार लालचु

लोभी-लालची बड़ाई चाहे, कामी निष्कलंकता चाहे और श्रीहरि

नव सोचते थे, पर कहते हुए सकुचाते थे, मन में विधाता से प्रार्थना करते थे—

हरु विधि बेगि जनक जड़ताई * मति हमारि जसि देहु सुहाई
बिनु विचार पनि तजि नरनाहू * सीय राम कर करै बिवाहू

हे विधाता ! जनकजी के हठको शीघ्र दूर करो, उन्हें हमारी-सी स्वच्छ-निर्मल बुद्धि दो । जिससे वे बिना विचार किये, अपने प्रणको छोड़कर सीताजी का श्रीरामजी से विवाह कर दें ।

जगु भल कहहि भाव सब काहू * हठ कीन्हे अन्तहुँ उर दाहू
एहि लालसा मगन सब लोगू * वरु साँवरो जानकी जोगू

जगत उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह सबको भला ही लगेगा, हठ करने से अन्तमें हृदय में दुःख होगा । इसी लालसा में सब लोग मगन थे कि साँवला वर ही जानकीजी के योग्य है ।

तब बन्दीजन जनक बोलाए * विरदावली कहत चलि आए
कह नृप जाइ कहहु पनु मोरा * चले भाट हियँ हरषु न थोरा

तब जनकजी ने बन्दीजनों को बुलाया, तो वे पूर्वजों का यशगते हुए चले आये । राजा ने कहा—जाकर मेरा प्रण सब राजाओं को सुना दो, तब भाट हृदय में प्रसन्न होकर चले ।

दोहाँ-बोले बन्दी बचन वर, सुनहु सकल महिपाल ।

पन विदेह कर कहहिं हम, भुजा उठाइ विसाल ॥२५१॥

भाट श्रेष्ठ बचन बोले-हे समस्त राजा लोगो ! सुनो-हम अपनी विशाल भुजाओं को उठाकर महाराज जनकजी का प्रण तुमको सुनाते हैं—

नृप भुजबलु बिधु शिवधनु राहू * गरुअ कठोर विदित सब काहू
रावनु बानु महाभट भारे * देखि सरासन गँवहि सिधारे

राजाओं को भुजाओं के बलरूपी चन्द्रमा के लिये-शिवजी का यह धनुष राहू के समान है । यह जितना भारी और कठोर है—यह सबको जली-भाँति विदित है । बड़े भारी योद्धा-रावण और वाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपचाप लौट गये ।

सोइ पुरारि को दण्डु कठोरा * राज समाज आज जोइ तोरा
त्रिभुवन जय समेत बैदेही * बिनहि विचारि वरइ हठि तेही

उत्त शिवजी के कठोर धनुष को-जो आज इस राज-समाज में तोड़ेगा, उसे ही तीनों लोक की विजय सहित श्रीजानकीजी बिना विचारे ही हठ पूर्वक वरेंगी ।

सुनि पन सकल भूप अभिलाषे * भट मानी अतिसय मन माखे
परिकर बांधि उठे अकुलाई * चले इष्टदेवन्ह सिर नाई

प्रण को सुनकर सब राजा ललचा उठे । जो अनिमानो राजा थे, वे क्रोधित होकर कमर कतकर धवड़ाकर उठे और अपने २ इष्टदेवों को सिर नवाकर चले ।

तमकित्तकितकिसिवधनुधरही * उठइ न कोटि भाँति बलुकरहीं
जिन्हके कछु विचार मनमाहीं * चाप समीप महीप न जाहीं

शान्त वेष है, परन्तु करनी कठिन है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ सब राजा थे, वहाँ मानो वीर-रस ही मुनि का रूप धारण करके आया हो।

देखत भृगुपति वेष कराला * उठे सकल भय विकल भुआला
पितु समेत कहिकहि निज नामा * लगे करन सब दण्ड प्रनामा

परशुरामजी का भयानक रूप देखकर सब राजा घबड़ा उठे और पिता समेत अपना नाम कहकर सब उनको दण्डवत्-प्रणाम करने लगे।

जेहि सुभाय चितवत हितु जानी * जोइ जानइ जनु आइ खुटानी
जनक बहोरि आइ सिरु नावा * सीय बुलाइ प्रनामु करावा

जिसे हितू जानकर भी साधारण दृष्टि से देखते, वही जानता कि अब मेरी आयु समाप्त हुई। फिर जनकजी ने आकर मस्तक नवाया और सीताजी को बुलाकर प्रणाम कराया।

आसिष दीन्ह सखी हरषानी * निज समाज लै गई सयानी
विश्वामित्र मिले पुनि आई * पद सरोज मेले दोउ भाई

परशुरामजी ने आशीर्वाद दिया तो चतुर सखी प्रसन्न हो, सीताजी को अपने समाज में ले गई। फिर विश्वामित्रजी आकर मिले और दोनों भाइयों से मुनि के चरणकमलों में प्रणाम कराया।

राम लखनु दशरथ के ढोटा * दीन्हि असीस देखि भल जोटा
रामहि चितइ रहे थकि लोचन * रूप अपार मार मद् मोचन

ये राम-लक्ष्मण-महाराज दशरथजी के पुत्र हैं। उनकी सुन्दर जोड़ी को देखकर परशुरामजी ने आशीर्वाद दिया और कामदेव के अभिमान को भी दूर करने वाले श्रीरामजी के रूप को देखकर नेत्र स्तम्भित रह गये।

दोहा-बहुरि विलोकि विदेह सन, कहहु काह अति भीर।

पूछत जानि अजान जिमि, व्यापेउ कोपु शरीर ॥२६६॥

फिर राजा जनक की ओर देखकर बोले-हे राजा जनक! कहो यह भारी भोज वयों हो रही है? जानते हुए भी अनजान की तरह पूछते हुए शरीर में क्रोध भर जाया।

समाचार कहि जनक सुनाए * जेहि कारन महीप सब आए
सुनत वचन फिरि राम निहारे * देखे चाप खण्ड महि डारे

तब राजा जनक ने वह समाचार कह सुनाया-जिस कारण सब राजा इकट्ठे हुए थे उनके वचन सुनकर फिर दूसरी ओर देखा तो धनुष के वो घण्ट पृथ्वी पर पड़े हुए देखे।

अतिरिस बोले वचन कठोरा * कहु जड़ जनक धनुष केहि तोरा
वेगि देखाइ मद् नत आज * उलटउं महि जहँ लहि तव राजू

अति क्रोध से कठोर वचन बोले-हे मूर्ख-जनक! कहो धनुष किसने तोड़ा है? हे मूर्ख! उसे जल्दी दिखा, नहीं-तो आज में जहाँ तक तेरा राज्य है, वहाँ तककी पृथ्वी को उलट दूंगा।

अति डर उतर देत नृप नाहीं * कुटिल भूप हरये मन माहीं

तजहु आस निज निज गृह जाहू * लिखा न विधि बैदेही विवाहू

अब कोई भी अपने को योद्धा न कहे, मैंने जानलिया कि पृथ्वी वीरों से खाली होगई । अब आप आशा छोड़कर अपने घर जाओ, विधाता ने जानकी का विवाह लिखाही नहीं ।

सुकृत जाइ जाँ पनु परि हरऊँ * कुअरि कुआरि रहउ का करऊँ
जाँ जनतेउँ बिनु भट भुवि भाई * तौ पनु करि करतेउँ न हँसाई

जो अपने प्रणको छोड़ता हूँ, तो पुण्य क्षीण होते हैं, क्या कहूँ? कन्या क्वारी ही रहेगी । हे भाई! जो मैं यह जानता कि पृथ्वी वीरों से हीन होगई है, तो प्रण करके अपनी हँसी न कराता ।

जनक वचन सुनि सब नर नारी * देखि जानकिहि भए दुखारी
माखे लखनु कुटिल भई भौहें * रदपट भरकत नयन रिसोहें

जनकजी के वचन सुनकर सब नर-नारी सीताजी को देखकर दुःखी हुए । लक्ष्मणजीको क्रोध हो आया, भौहें टेढ़ी हो गईं, होठ फड़कने लगे और आंखें क्रोध से लाल होगईं ।

दोहा—कहि नसकत रघुवीर डर, लगे वचन जनु बान ।

नाइ राम पदकमल सिर, बोले गिरा प्रमान ॥२५४॥

श्रीरामजी के डर से कुछ कह नहीं सके, परन्तु जनकजी के वचन उन्हें बाण के समान लगे । श्रीरामजी के चरणों में सिर नवाकर समयानुकूल वचन बोले—

रघुवसिन्ह महँ जहँ कोउ होई * तेहि समाजु अस कहइ न कोई
कही जनक जसि अनुचित बानी * विद्यमान रघुकुल मनि जानी

रघुवंशियों में से जहाँ कोई भी होता है, उस समाजमें ऐसे कठोर वचन कोई नहीं कहता, जैसे अनुचित वचन जनकजी ने रघुवंशमणि श्रीरामचन्द्रजी के उपस्थित होते हुए कहे हैं ।

सुनहु भानुकुल पङ्कज भानू * कहउँ सुभाउ न कछु अभिमानू
जाँ तुम्हार अनुसासन पावाँ * कन्दुक इव ब्रह्माण्ड उठावाँ

हे सूर्यकुल-कमलाभास्कर ! सुनिये मैं अपने स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान से नहीं । जो आपको आज्ञा पाऊँ, तो गेद के समान ब्रह्माण्ड को उठा लूँ ।

काचे घट जिमि डारौ फोरी * सकउ मेरु मूलक जिमि तोरी
तव प्रताप महिमा भगवाना * को बापुरो पिनाक पुराना

और कच्चे बड़ेके समान फोड़ डालूँ तथा सुमेरु पर्वत को मूली के समान उखाड़ लूँ । हे भगवन् ! आपके प्रताप की महिमा के आगे यह विचारापुराना धनुष तो चीजही क्या है ?

नाथ जानि अस आयसु होऊ * कौतुक करउँ विलोकिअ सोऊँ
कमलताल जिमि चाप चढ़ावाँ * जोजन सत प्रमान लै धावाँ

हे नाथ ! ऐसा जानकर यदि आज्ञा हो तो कुछ खेल कहूँ, उसे भी देखिये । कमल की उण्डी के समान धनुष को चढ़ाऊँ और तौ योजन तक लेकर दौड़ा चला जाऊँ ।

एहि धनु पर ममता केहि हेतू * सुनि रिसाइ कह भृगुकुल केतू
 बालकपन में हमने बहुत-सी धनुहों तोड़ों, हे गोसाईं! आपने तब ऐसी रिस कभी नहीं की
 इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण है? यह मुन, परशुरामजी क्रोधित होकर कहनेलगे—
 दोहा—रे नृपु बालक कालवस, बोलत तोहि न सम्हार ।

धनुहों सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार ॥२७१॥

रे राज-पुत्र ! काल के आधीन हो संमल कर क्यों नहीं बोलता ? जगत प्रसिद्ध शिवजी
 का धनुष अन्य धनुषियों के समान या ?

लखन कहा हँसि हमरे जाना * सुनहुँ देव सब धनुष समाना
 का क्षति लाभु जून धनु तोरें * देखा राम नयन के भोरें

लक्ष्मणजी ने हँसकर कहा-हे देव ! सुनिये, हमारे जाने तो सब धनुष बराबर हैं । पुराने
 धनुष को तोड़ने से क्या हानि बलाह है ? श्रीरामचंद्रजी ने तो नया जानकर इसे देखा या ।

छुअत टूट रघुपतिहि न दोषू * मुनि विनु काज करिअ कत रोषू
 बोले चितइ परशु की ओरा * रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा

यह छूले ही टूट गया, इसमें श्रीरघुनाथजी का दोष नहीं है । हे मुनि ! बिना ही कार्य
 क्यों क्रोध करते हैं ? तब परशुरामजी अपने फरसे की ओर देखकर बोले-रे मूर्ख ! क्या
 तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना ?

बालकु बोलि बधउं नहिं तोही * केवल मुनि जड़ जानहि मोही
 बाल ब्रह्मचारी अति कोही * विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही

बालक जानकर मैं तुझे नहीं मारता हूँ । रे मूर्ख ! तूने मुझे केवल मुनि ही जाना है ।
 मैं बाल-ब्रह्मचारी और बड़ा क्रोधी हूँ, और संसार में क्षत्रिय-कुल का बंदी प्रसिद्ध हूँ ।

भुजबल भूमि भूप विनु कीन्ही * विपुल वार महिदेवन्ह दीन्ही
 सहसवाहु भुज छेदनि हारा * परशु बिलोकि महिप कुमारा

बालक के अपराध को क्षमा करोगे । एक दिन परशुरामजी कहीं गये तो बालक-रूपी शेषजी
 ने सारे धनुष तोड़ डाले, केवल एक शिवजी का धनुष रह गया । परशुरामजी घर आने पर
 बड़े विस्मित हुए । परन्तु क्रोध नहीं किया । तब शेषजी ने अपना रूप दिखाया और कहाकि
 इस शिव-धनुष को वेता-पुण में श्रीरामचंद्रजी तोड़ेंगे, तब आपसे वार्ता होगी । इसलिए
 लक्ष्मणजी कहते हैं कि बालकपन में बहुत-से धनुष तोड़े, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया ।

(१) परशुरामजी के पिता जमबग्नि-श्रुषि की कामधेनु को उनका साहू राजा सहस्राजुंन
 चुरा ले गया । जब जमबग्नि ने परशुरामजी को कामधेनु लेने भेजा तो उन्होंने क्रोध करके
 सहस्राजुंन की सब नुजाओं को फरसे से काटकर उसे मार डाला । राजा को मारने के अप-
 राधमें जमबग्नि ने उन्हें प्रायश्चित्तके लिए पृथ्वी की परिक्रमा के लिए भेज दिया । फरसेसे सहस्रा-
 जुंन के पुत्रों ने जमबग्नि को मार डाला । लौटकर आने पर परशुराम ने अत्यन्त क्रोधित होकर
 पृथ्वीको इषकीस बार परिक्रमा करके उसे क्षत्रियोंसे रहित कर दिया, कुक्षेत्र में नौ रक्त के कुण्ड
 नरे । तब ब्राह्मणों को पृथ्वी का राज्य देकर परशुरामजी महेंद्राचल पर तपस्या करने चले गये ।

के चरणों की वन्दना कर, प्रेम सहित मुनियों ने आज्ञा मांगी ।

सहजहिं चले सकल जगस्वामी * मत्त मंजु वर कुञ्जर गामी
चलत राम सब पुर नर नारी * पुलक पूरि तन भए सुखारी

जगत के स्वामी श्रीरामजी मुन्दर मतवाले हाथों के समान चाल से स्वामाविक हो चले । श्रीरामजी के चलते ही सब नगर के नर-नारी रोमांच से भर गये और सुखी हुए ।

वन्दि पितर सुर सुकृति सँवारे * जौं कछु पुन्य प्रभाउ हमारे
तौ सिवधनु मनाल की नाई * तोरहिं रामु गनेश गोसाईं

उन्होंने पितर और देवताओं की वन्दना कर अपने सत्कर्मों को याद किया कि यदि हमारे-पुण्यों का कुछ प्रभाव हो तो-हे गणेश गुसाईं ! श्रीरामजी-शिवजी के धनुष को कमल की डण्डी के समान तोड़ डालें ।

दोहा—रामहिं प्रेम समेत लखि, सखिन्ह समेत बोलाइ ।

सीता मातु सनेहु वस, वचन कहइ विलखाइ ॥२५७॥

श्रीरामचन्द्रजी को प्रेम सहित देखकर और सखियों को बुलाकर सीताजी की माता स्नेह वश विलख कर यह वचन बोलीं ।

सखि सब कौतुक देखनिहारे * जेउ कहावत हितू हमारे
कोउ न बुझाइ कहइ गुरु पाहीं * ए बालक असि हठ भलि नाहीं

हे सखियों ! ये सब तमाशा देखने वाले-जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, उनमें से कोई भी गुरु से समझाकर यह नहीं कहता कि यह बालक है, ऐसा हठ अच्छा नहीं है ।

रावनु वानु छुआ नाहिं चापा * हारे सकल भूप करि दापा
सो धनु राजकुवँर कर देहीं * बाल मराल कि मन्दर लेहीं

रावण और बाणासुर-जिन्होंने धनुषको छुआ तक नहीं, सब राजा बल करके हारगये, वही धनुष इन राजकुमारों के हाथ में देते हैं । क्या हंस का बच्चा भी मंदराचलको उठा सकता है ।

भूप सयानप सकल सिरानी * सखि विधिगति कछु जाति न जानी
बोली चतुर सखी मृदुवानी * तेजवन्त लघु गनिअ न रानी

राजा की चतुरता जाती रही, हे सखी ! ब्रह्मा की गति कुछ जानी नहीं जाती । यह मुन चतुर सखी मधुर वाणी से बोलीं-हे रानी ! तेजस्वी लोगों को छोटा नहीं समझना चाहिए ।

कहँ कुम्भज कहँ सिंधु अपारा * सोषेउ सुजसु सकल संसारा
रविमण्डल देखत लघु लागी * उदयँ तासु त्रिभुवन तम भागा

कहाँ तो छोटे-से अगस्त्य मुनि और कहाँ अपार समुद्र, तो भी उन्होंने उसे सोखलिया । जितने सब संसार में उनका सुप्रसन्न कल रहा है । सूर्य-मण्डल में देखने में छोटा प्रतीत होता है, परन्तु उसके उदय होने पर त्रिलोकी का अन्धकार दूर हो जाता है ।

दोहा—मन्त्र परम लघु जासु वस, विधि हरिहर सुर सर्व ।

तुम्ह हटकहु जौ चहहु उवारा ✽ कहि प्रताप बल रोषु हमारा

क्षणमात्र में कालका प्राप्त हो जायगा, मैं पुकार कर कहता हूँ-फिर मुझे दियो नहीं देना । जो इसे बचाना चाहते हो तो मेरा प्रताप, बल और क्रोध भताकर इससे मना कर दो ।

लखनकहुँउ मुनि सुजसुतुम्हारा ✽ तुम्हहि अछत को वरनै पारा
अपने मुँह तुम्ह आपनि करनी ✽ वार अनेक भाँति बहु वरनी

लक्ष्मणजी ने कहा-हे मुनि ! आपका सुपुत्र आपके रहते कौन वर्णन कर सकता है ? आपने अपने मुख से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है ।

नहि सन्तोषु तौ पुनि कछु कहहु ✽ जनि रिस रोक दुसह दुख सहहु
वीरव्रती तुम्ह धीर अछोभा ✽ गारी देत न पावहु सोभा

जो सन्तोष नहीं हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिये, रिसको रोककर असह्य दुःख न सहिये । आपकी वीरवृत्ति है, आप धैर्यवान् और क्षीम रहित हैं, आप गाली देते शोभा नहीं पाते ।

दोहा-सूर समर करनी करहि, कहि न जनावहि आपु ।

विद्यमान रन पाइ रिप, कायर क्यहि प्रतापु ॥२७४॥

शूरवीर युद्ध-क्षेत्र में अपनी वीरता दिखाते हैं, अपने आपको स्वयं कहकर नहीं जताते । रण में अपने शत्रु को देखकर कायर-पुरुष ही बकवास करते हैं ।

तुम्ह तौ कालु हाँक जनु लावा ✽ वार वार मोहि लागि बोलावा
सुनत लखन के वचन कठोरा ✽ परसु सुधारि धरेउ कर घोरा

मानो आपतो कालकी हँसकर ले आये हैं, जो बारम्बार मुझे गुला रहे हैं । लक्ष्मणजी के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुरामजी ने अपना भयंकर कुठार सुधार कर हाथ में पकड़ा ।

अब जनि देहि दोषु मोहि लोगू ✽ कटुवादी बालकु बध जोगू
बाल विलोकि बहुत मैं बाँचा ✽ अब यह मरनिहार भा साँचा

और बोले-अब लोग मुझे दोष न दें, यह कटु वचन बोलने वाला बालक मारने ही योग्य है । बालक जानकर मैंने इसे बहुत बचाया, परन्तु अब यह सचमुच ही मरना चाहता है ।

कौसिक कहा छमिअ अपराधू ✽ बाल दोष गुन गनहि न साधू
खर कुठार मैं अकरन कोही ✽ आगेँ अपराधो गुरु द्रोही

विश्यामित्र बोले-अपराध क्षमा करिये, बालक के दोष और गुण साधु लोग नहीं गिनते । परशुरामजी बोले-मेरे हाथ में तीक्ष्ण कुठार है और मैं बिना कारण ही क्रोधो हूँ, इस पर भी मेरे सामने यह गुरु-द्रोही है ।

उतर देत छोड़ुँ विन मारें ✽ केवल कौसिक सील तुम्हारे
नत एहि काटि कुठार कठोरें ✽ गुरुहि उरिन होतेउँ श्रम थोरें

जो उत्तर दे रहा है, (इतने पर भी) इसको मैं बिना मारे छोड़ देता हूँ, हे कौसिक ! यह केवल तुम्हारे शीलसे ही, नहीं तो इसे कुठार से काटकर चोड़े ही धर्म से गुरु के श्रेण से उश्रेण हो जाता ।

विधि केहि भाँति धरौं उर धीरा * सिरस सुमन कस बेधिअ हीरा
सकल सभा कै मति भइ भोरी * अब मोहि सम्भु चाप गति तोरो

हे विधाता ! मैं किस प्रकार मनमें धैर्य धरूँ, सिरस के फूल से कैसे हीरा बेधा जायगा ? सारी सभा की बुद्धि भूल गई है, है शिव धनुष ! अब मैं तेरी ही शरण हूँ ।

निज जड़ता लोगन्ह पर डारी * होहु हरुअ रघुपतिहि निहारी
अति परिताप सीय मन माहीं * लव निमेष जुग सत सम जाहीं

अपनी कठोरता लोगों पर डालकर श्रीरामचन्द्रजी की ओर देखकर हल्के हो जाओ । सीताजी के मनमें बहुत दुःख हुआ, लव-निमेष मात्र भी सौ युगों के समान बीतने लगा ।

दोहा—प्रभुहि चितइ पुनि चितव महि, राजत लोचन लोल ।

खेलत मनसिज मीन जुग, जनु विधुमण्डल डोल ॥२६०॥

प्रभु श्रीरामजी की ओर देख, फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई जानकीजी के चंचलनेत्र ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो चंद्र-मंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियाँ खेल रही हों ।

गिरा अलिति मुख पङ्कज रोकी * प्रगट न लाज निसा अबलोकी
लोचन जलु रह लोचन कोना * जैसे परम कृपन कर सोना

सीताजी के मुखरूपी कमल ने लाजरूपी रात को देख बाणीरूपी भ्रमको रोकलिया है । नेत्रों का जल नेत्रों के कोनोंमें ही रह गया, जैसे किसी कंजूस का सोना कोने में गड़ा रह जाता है ।

सकुची व्याकुलता बड़ि जानी * धरि धीरज प्रतीति उर आनी
तन मन वचन मोर पनु साँचा * रघुपति पद सरोज चितु राँचा

सीताजी अपनी व्याकुलता जान सकुचाईं फिर मनमें धैर्य धर विश्वास लाईं कि यदि तन, मन, वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्रीरघुनाथजी के चरणारविंदों में मेरा मन वास्तवमें लगा है ।

तौ भगवानु सकल उर वासी * करिहि मोहि रघुपति कै दासी
जेहि कें जेहि परसत्य सनेहू * सो तेहि मिलन न कछु सन्देहू

तौ सबके हृदय में वास करने वाले प्रभु, मुझे श्रीरघुनाथजी की दासी बनायेंगे । जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, वह उसको मिलता है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ।

प्रभु तन चितइ प्रेम पनु ठाना * कृपानिधान राम सबु जाना
सितहि निलोकितकेउ धनु कैसे * चितव गरुण लघु व्यालहि जैसे

प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देखकर प्रेम का प्रण ठान लिया । कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजी ने सब जान लिया और सीताजीकी तरफ देखकर धनुष को ऐसे देखा—जैसे गरुड़ छोटं साँप को देखता है ।

दोहा—लखन लखेउ रघुवंसमनि, ताकेउ हर को दण्डु ।

पुलकि गात बोले वचन, चरन चापि ब्रह्मण्डु ॥२६१॥

लक्ष्मणजी ने देखा कि श्रीरामचन्द्रजी ने शिवजी के धनुष की ओर ताका है, तब

नाथ करहु बालक पर छोहू * सूध दूध मुख करिअ न कोउ
जो पै प्रभु प्रभाउ कछु जाना * तो करि बरावरि करत अयाना

हे नाथ! बालक पर कृपा करिये, इस सीधे और दूध-मुँहे बच्चे पर क्रोध न करिये। यदि यह आपके प्रभाव को कुछ नहीं जानता तो क्या यह अनजान आपको बराबरी करता ?

जौ लरिका कछु अनुचित करहीं * गुरु पितु माति मोद मन भरहीं
करिअ कृपा सिसु सेवक जानी * तुम्ह सम सील धीर मुनि ज्ञानी

यदि बालक कुछ अनुचित भी करते हैं तो गुरु माता-पिता मनमें प्रसन्न हो होते हैं। आप बालकको अपना सेवक जानकर कृपा करिये, क्योंकि आप समदर्शी, शीलवान्, धीर व ज्ञानी मुनि हैं।

राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने * कहि कछु लखन बहुरि मुसुकाने
हँसति देखिनख सिख रिस व्यापी * राम तोर भ्राता बड़ पापी

श्रीरामजी के बचन सुन वे कुछ शीतल हुए कि कुछ कहकर लक्ष्मणजी फिर मुस्कराये। हँसते देख परशुरामजी के नख से चोटी तक क्रोध छागया, वे बोले-हे राम! तुम्हारा भाई बड़ा पापी है।

गौर सरीर स्याम मन माहीं * काल कूट मुख पय मुख नाहीं
सहज टेड़ अनुहरई न तोही * नीचु मीचु सम देख न मोही

शरीर तो गोरा है, पर मनका काला है। यह बिय-मुख है, दूध-मुँहा नहीं। यह स्वभाव से ही टेढ़ा है, तुम्हारे स्वभाव के अनुसार नहीं। यह नीच मुझको मृत्यु के समान नहीं देखता।

दोहा—लखन कहेऊ हँसिसुनुहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल।

जेहि वस जन अनुचित करहिं, चरहिं विश्व प्रतिकूल ॥२७७॥

लक्ष्मणजी ने हँसकर कहा—हे मुनि! सुनो, क्रोध पाप की जड़ है, जिसके वश में होकर लोग अनुचित कर्म करते हैं और विश्व के प्रतिकूल चाल चलते हैं।

मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया * परिहरि कोप करिय अब दायी
टूट चाप नहिं जुरिहि रिसाने * वैठिअ होइहि पाँय पिराने

हे मुनिराज! मैं आपका सेवक हूँ, क्रोध को दूर कर अब मुझ पर दया करो। टूटा हुआ धनुष रियाने से नहीं जुड़ सकता, बँठ जाइये पाँव दूधते होंगे।

जौ अति प्रिय तौ करिअ उपाई * जोरिअ कोऊ बड़ गुनी बोलाई
बोलत लखानहिं जनक डेराही * मष्ट करहु अनुचित भल नाहीं

जो यह धनुष आपको अत्यन्त ही प्रिय है तो उपाय कीजिये, कोई बड़ा कारीगर बुलवा कर इसे जुड़वा लीजिये लक्ष्मणजी के बोलने से राजा जनकजी ने उठकर कहा—यस करो, अनुचित बात कहना ठीक नहीं है।

थर थर काँपहिं पुर नर नारी * छोट कुमार छोट बड़ भारी
भृगुपति सुनि सुनि निर्मय वानी * रिस तन जरइ होइ बल हानी

नगरके सब नर-नारी धर-धर काँपने लगे और कहने लगे, छोटा राजकुमार बहुत छोटा है।

पुत्र को जन ही मन प्रणाम किया और बहुत कुतूँ से धनुष को उठा लिया। जब उसे उठा लिया तो वह विजयी के समान चमका, फिर धनुष आकाश में मण्डलाकार हो गया।
लेत चढ़ावत खँचत गाढ़े * काहुँ न लखा देखि सब ठाढ़े
तेहि छन मध्य राम धनु तोरा * भरे भुवन धुनि घोर कठोरा

धनुष को लेते, चढ़ाते और दृढ़ता से खँचते हुए किसी ने नहीं देखा, सबने श्रीरामजी को चढ़े ही देखा। उसी क्षण श्रीरामजी ने धनुष को तोड़ दिया और उसको घोर कठोर ध्वनि संसार भर में फँस गई।

छन्द—भरे भुवन घोर कठोर ख रवि वाजि तजि मारगु चले।

चिक्कराहिं दिगाज डोल महि अहि कोल कूरम कलुमले ॥

सुर असुर मुनि कर कान दीन्हें सकल विकल विचारहीं।

कोदण्ड खण्डेउ राम तुलसी जयति वचन उचारहीं ॥

संसार भर में घोर कठोर शब्द भर गया, सूर्य के घोंड़े भागें छोड़कर चलते लगे। दिगाज चिवाड़ने लगे, पृथ्वी हिलने लगी, शेष, कच्छप और बाराह कलमलाने लगे। देवता असुर, मुनिजन सब कानों पर हाथ दे वेचन होकर विचारने लगे। तुलसीदासजी कहते हैं कि जब श्रीरामजी ने धनुष तोड़ डाला तो सभी जय-जयकार करने लगे।

सो०—शङ्कर चापु जहाजु, सागरु रघुवर बाहुवल।

बूढ्यो सकल समाजु, चढ़े जे प्रथमहि मोह वस ॥२३॥

शिवजी का धनुष जहाज है और श्रीरघुनाथजी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष के टूटने से यह समाज दूब गया—'जो मोह वस पहले उस जहाज पर चढ़ा या।

प्रभु दोउ चाप खण्ड महि डारे * देखि लोग सब भए सुखारे

कौंसिक रूप पयोनिधि पावन * प्रेम वारि अवगाहु सुहावन

प्रभु ने धनुष के दोनों खण्ड पृथ्वीपर डाल दिये, यह देखकर सबलोग मुग्ध हुए। विरवाभित्र-रूपी पवित्र समुद्र में प्रेमरूपी अथवा जल भरा है।

राम रूप राकेसु निहारी * बड़त वीचि पुलकावलि भारी

वाजे नभ गहगहे निसाना * देववधू नाचहि करि गाना

श्रीरामजी-रूपी चन्द्रमा को निहार कर पुलकावली-रूपी तरंगें बढ़ने लगीं, आकाश में आनन्द के नगड़े बजने लगे और देवाङ्गनायें गीत गाकर नाचने लगीं।

ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा * प्रभुहि प्रसंसहि देहि असीसा

वरिसहि सुमन रङ्ग बहु माला * गावहि किन्नर गीत रसाला

ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनिश्वर प्रभु की ब ड़ाई करने और आशीर्वाद देने लगे तथा अनेक रङ्ग के पुष्पों की मालायें बरसाने लगे, किन्नर गण रसाले गीत गाने लगे।

रही भुवन भरि जय जय वानी * धनुष भङ्ग धुनि जात न जानी

सुदित कहहि जहँ तहँ नर नारी * भजेउ राम सम्भु धनु भारी

हाथ नहीं चलता, क्रोध से छातो जलती है, राजाओं का घातक फरसा भी भीतरा होगया है । विधाता विपरोत होगया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो मेरे हृदयमें किसी पर दयाकंती?

आजु दया दुख दुसह सहावा * सुनि सौमित्र विहँसि सिर नावा
वाउ कृपा मूरति अनुकूला * बोलत वचन झरत जनु फूला

आज दया दुसह दुःख सहा रही है । यह सुनतेही लक्ष्मणजी ने हँसकर सिर नवाया और कहा-हे नाथ ! आपको कृपारूपी वापु आपको मूर्ति के अनुकूल है, वचन बोलते हैं तो फूल झड़ते हैं ।

जों पै कृपा जरहिं मुनि गाता * क्रोध भएँ तनु राख विधाता
देखु जनक हठि बालक ऐहू * कोन्ह चहत जड़ जमपुर गेहू

हे मुनिनाथ ! जो कृपा करने से आपका शरीर जलता है, तो क्रोध करने पर तो विधाता ही शरीर की रक्षा करेगा । यह सुनकर परशुरामजी ने कहा-हे जनक ! देख, यह मूखंबालक हठ करके जमपुर में जाना चाहता है ।

वेगि करहु किन आँखिन्ह ओटा * देखत छोट छोट नृप ढोटा
विहँसे लखनु कहा मन माहीं * मूँदै आँखि कतहुँ कोउ नाहीं

उसे शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते, यह राजपुत्र देखने में छोटा है, पर बड़ा ही छोटा है । यह सुन लक्ष्मणजी हँसे और बोले-आँखें बंद करने पर तो कोई नहीं है ।

दोहा-परशुराम तव राम प्रति, बोले उर अति क्रोधु ।

सम्भु सरासन तोरि शठ, करसि हमार प्रबोधु ॥२८०॥

परशुरामजी क्रोध सहित तब श्रीरामजी से बोले-रे शठ ! शिवजी का धनुष तोड़कर हमको ही जान सिखाता है ।

बन्धु कहइ कटु सम्मत तोरें * तू छल विनय करत कर जोरें
करि परितोषु मोर संग्रामा * नाहिं त छाँड़ि कहाउव रामा

तेरा भाई तेरी ही सलाह से कटु वचन कहता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनती करता है । युद्ध में मुझे सन्तुष्ट कर, नहीं तो 'राम' कहलवाना छोड़ दे ।

छल तजि करहु समरसिवद्रोही * बन्धु सहित न त मारउँ तोही
भृगुपति वकाहिं कुठार उठाएँ * मन मुसुकाहिं राम सिरु नाएँ

रे शिवद्रोही ! छल छोड़कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई समेत तुझे मारूँगा । परशुरामजी इस प्रकार कुठार उठाए कह रहे हैं और श्रीरामजी सिर नवाये मनमें मुस्करा रहे हैं ।

गुनह लखन कर हम पर रोषू * कतहुँ सुधाईहु ते वड़ दोषू
देड़ जानि शङ्का सब काहू * वक्र चन्द्रमहिं ग्रसइ न राहू

अपराध तो लक्ष्मण का है और क्रोध हमपर करते हैं, कहीं २ तोषेपनमें भी बड़ा दोष होता है । देड़ा जानकर सबको शंका होती है, देड़े चन्द्रमा को राहू भी नहीं प्रसता ।

राम कहेउ रिस तजिअ मुनीसा * कर कुठार आगेँ यह सीसा

जाइ समीप राम छबि देखी * रहि जनु कुअँरि चित्र अवरैखी

शरीर में लाज तथा मनमें बहुत उमंगथी, यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ता। पास जाकर श्रीरामजी की शोभा देखकर राजकुमारी जानकीजी चित्र में लिखी-सी रह गई।

चतुर सखी लखि कहा बुझाई * पहिरावहु जयमाल सुहाई

सुनत जुगल कर माल उठाई * प्रेम चिबस पहिराइ न जाई

यह दशा देखकर चतुर सखी ने समझाकर कहा-सुन्दर जयमाला पहिना दो। सुनते ही दोनों हाथों से माला उठाई, परन्तु प्रेम के वस पहिनाई नहीं जाती।

सोहत जनु जुग जलज सनाला * ससिहि सभित देत जयमाला

गावाहिं छबि अवलोकि सहेली * सियँ जयमाल राम उर मेली

ऐसी शोभा हुई, मानो डण्डियों सहित दो कमल संकुचित होकर चन्द्रमा को जयमाला दे रहे हों। ऐसी शोभा देखकर सखियाँ गाने लगीं, तब सीताजी ने जयमाला श्रीरामचन्द्रजी के गले में पहिना दी।

सो०—रघुवर उर जयमाल, देखि देव वरषहिं सुमन।

सकुचे सकल भुआल, जनु विलोकि रविकुमुदगन ॥२७॥

श्रीरघुनाथजी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता पुष्प बरसाने लगे और राजा लोग ऐसे सकुचाये, जैसे सूर्य को देखकर नलिनियों का समूह मुरझा जाता है।

पुर अरु व्योम बाजने बाजे * खल भए मलिन साधु सब राजे

सुर किन्नर नर नाग मुनीसा * जय जय जय कहि देहिं असीसा

नगर और आकाश में बाजे बजने लगे और दुष्ट उदास तथा सब सज्जन प्रसन्न हुए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय-जयकार कर आशीर्वाद देने लगे।

नार्चाहिं गावाहिं विबुध बधूटीं * बार बार कुसुमांजलि छूटीं

जहँ तहँ विप्र वेद धुनि करहीं * बन्दी बिरदावलि उच्चरहीं

गन्धर्वों की छोटी अवस्था की बधुयें नाचने लगीं और बारम्बार पुष्पों की वर्षा करने लगीं। जहाँ-तहाँ ब्राह्मण वेद-ध्वनि करने लगे तथा भाट वंश की कीर्ति बखानने लगे।

महि पाताल नाक जसु व्यापा * राम वरी सिय भंजेउ चापा

करहिं आरती पुर नर नारी * देहिं निछावरि बित्त बिसारी

भूमि पाताल और स्वर्ग में यश छा गया कि श्रीरामचन्द्रजी ने धनुष को तोड़ा और सीताजी को वर लिया। नगर के स्त्री-पुरुष आरती करने लगे और अपनी सामर्थ्य से अधिक न्योछावर करने लगे।

सोहत सीय राम कै जोरी * छबि सिंगारु मनहुँ एक ठोरी

सखी कहहि प्रभु पद गहु सीता * करति चरन परस अति भीता

श्रीसीता-रामजी की जोड़ी ऐसी सुहाती थी, मानो शोभा और शृङ्गार एकत्र हुए हों। सखियों ने कहा-हे सीता! प्रभु के चरण छुओ, किन्तु सीताजी बहुत डरकर चरण नहीं छूतीं!

समिधि सेन चतुरङ्ग सुहाई * महा महीप भए पशु आई
में एहि परसु काटि बलि दीन्हे * समर जग्य जप कोटिन्ह कीन्हे

सुहावनो चतुरङ्गिनो सेना समिधा है, उसमें बड़े २ राजा आकर बलि के पशु हुए हैं।
मैंने इसी फरसे से काट २ कर उनका बलिदान किया है, ऐसे समर-यज्ञ मैंने करोड़ों किये हैं।

मोर प्रभाउ विदित नाहिं तोरै * बोलसि निदरि विप्र के भोरै

भंजेउ चाप दापु वड़ वाढ़ा * अहमिति मनहुं जीति जग ठाढ़ा

मेरा प्रभाव तुझे मानूम नहीं, इसीसे ब्राह्मणके घोषे निरादर करते बात कर रहा है। धनुष
तोड़नेसे तेरा अहंकार बहुत बढ़ गया है कि 'मैं ही हूँ' मानो जगत् को जीतकर सामने खड़ा है।

राम कहा मुनि कहहु विचारो * रिस अति बड़िलघु चूक हमारो

छुअर्ताहिं टूट पिनाक पुराना * मैं केहि हेतु करौ अभिमाना

श्रीरामजी ने कहा-हे मुनि ! विचार कर कहिए, आपकी रिस बहुत है और हमारो चूक
छोटी-सी है। हाथ से छूते ही पुराना धनुष टूट गया, फिर मैं किसलिए अभिमान करूँ ?

दोहा-जों हम निदरहिं विप्रवदि, सत्य सुनहु भृगुनाथ ।

तौ असको जग सुभट जेहि, भय बस नावहिं माय ॥२८३॥

हे भृगुनाथ ! हम जो आपको ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं, तो मुनिये-संसार में
ऐसा कौन योद्धा है कि जिसके भय से हम सिर झुकावें ?

देव दनुज भूपति भट नाना * समवल अधिक होउ बलवाना

जों रन हमहिं पचारै कोऊ * लरहिं सुखेन काल फिन होऊ

देवता, दानव, राजा, अनेकों योद्धा-ये हमारे समान बलवान् अथवा हमसे अधिक हों, यदि
हमको रणमें कोई सुलाये, तो वह कालही क्यों न हो, हम उससे भी कुछ पूर्वक युद्ध करेंगे।

क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना * कुल कलंकु तेहि पाँवरि जाना

कहउ सुभाउ न कुलहि प्रसंसी * कालहु डरहिं न रन रघुवंशी

क्षत्रिय-शरीर धारणकर जो युद्ध में डर गया, उसे कुल-कलङ्को और नीच जानना चाहिए।
अपना स्वभाव कहता है, कुलकी प्रशंसा नहीं करता, रघुवंशी रणमें कालसे भी नहीं डरते हैं।

विप्रवंश के असि प्रभुताई * अभय होइ जो तुम्हहि डेराई

सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के * उधरे पटल परसुधर मति के

ब्राह्मण-वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो आपसे डरता है, वह अभय हो जाता है। श्रीरघु-
नाथजी के ऐसे कोमल व गूढ़ वचन सुन परशुरामजी की बुद्धि के कपाट खुल गये। वे बोले

राम रमापति कर धनु लेहु * खँचहु मिटै मोर सन्देह

देत चाप आपुहिं चढ़ि गयऊ * परसुराम मन विस्मय भयऊ

हे रमापति-राम ! हाथ में यह धनुष लीजिए और इसे चढ़ाइए, जिससे मेरा संदेह मिट

मुक्ति चाहे, हे राजाओं ! वंसा ही तुम्हारा लालच है ।

कोलाहल सुनि सीय सकानी * सखीं लिवाइ गई जहँ रानी
राम सुभायँ चले गुरु पाहीं * सिय सनेहु वरनत मन माहीं

राजाओं का कोलाहल सुन सीताजी डर गई, तब सखियाँ वहाँ लिवा ले गई जहाँ रानी थी। श्रीरामजी सीधे स्वभाव से सीताजी के प्रेम की मन में बड़ाई करते हुए गुरुजी के पास चले।

रानिन्ह सहित सोचबस सीया * अब धौं विधिहि काय करनीया
भूप वचन सुन इत उत तहहीं * लखनु राम डर बोलि न सकहीं

रानियों समेत सीताजी सोच-विचार में पड़ गईं कि न जाने विधाता को अब क्या करना है ? राजाओं की बात-चीत सुनकर लक्ष्मणजी इधर-उधर देखने लगे, किन्तु श्रीरामजी के डर से कुछ कह नहीं सकते।

दोहा—अरुन नयन भृकुटी कुटिल, चितवत नृपन्ह सकोप ।

मनहुँ मत्त गजगन निरखि, सिंह किसौरहि चोप ॥२६७॥

लक्ष्मणजी के नेत्र लाल और भौंहें टेढ़ी हो गई, वे राजाओं की क्रोध से देखने लगे। मानों मत्तवाले हाथियों के झुण्ड को देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो।

खारभरु देखि विकल पुर नारी * सब मिलि देहिं महीपन्ह गारी
तेहि अवसर सुनि शिवधनु भङ्गा * आयउ भृगुकुल कमल पतङ्गा

हलचल को देख नगर की स्त्रियाँ बेचैन होगई, सब मिलकर राजाओंको गालियाँ देने लगीं। उसी समय शिव-धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुलरूपी कमल के सूर्य परशुरामजी वहाँ आये।

देखि महीप सकल सकुचाने * बाज झपट जनु लवा लुकाने
गौर सरीर भूति भल भ्राजा * भाल विसाल त्रिपुण्ड विराजा

उन्हें देखकर राजा लोग तर्कचा गये, जैसे बाज की झपट से बटेर छिप जाते हैं। गोरे शरीर पर सुन्दर विभूति शोभायमान थी, चौड़े मस्तक पर त्रिपुण्ड विराजमान था।

सौस जटा ससि बदन सुहावा * रिस बस कछुक अरुन होइ आवा
भृकुटी कुटिल नयन रिस राते * सहजहुँ चितवत मनहुँ रिसाते

तिरपर जटाजूट है और चन्द्रमुख क्रोध से कुछ लाल हो गया है, भौंहें टेढ़ी और नेत्र क्रोध से लाल हो रहे हैं। सहज ही देखते हैं, तो भी यही जान पड़ता है कि मानो क्रोध में भरे हैं।

वृषभ कन्ध उर बाहु विसाला * चारु जनेउ माल मृगछाला
कटि मुनि वसन तून दुई बांधे * धनु सर कर कुठार कल कांधे

वृषभ के-से ऊँचे कन्धे, चौड़ी छाती, लम्बी भुजायें, सुन्दर जनेऊ और माला पहिने हैं। तथा मृगछाला लिये हैं। कमर में मुनि-वस्त्र पहिने, दो तर्कस बांधे, धनुषवाण हाथों में लिये और सुन्दर फरसा कन्धे पर है।

दोहा—शान्त वेषु करनी कठिन, बरनि न जाइ सरूप ।

धरि मुनि तनु जनु वीररस, आयउ जहँ सब भूप ॥२६८॥

जनक भवन के सोभा जैसी * गृह गृह प्रति पुर देखिअ तैसी

सय गुणोंके समुद्र धीरामजी जिसमें बूतह होंगे, वह मंडपतीनों लोकोंमें प्रतिष्ठ है। जनक जो के राज-भवन की जैसी सोभा है, वंसी हो सोभा जनकपुर में घर-घर देखने में आती है।

जेहि तेरहुति तेहि समय निहारी * तेहि लघु लगहि भुवन दसचारी

जो सम्पदा नीच गृह सोहा * सो विलोकि सुरनायक मोहा

जिसने उस समय जनकपुरी देखी, उसे चौदहों भवन फीके लगे। जो सम्पदा नीच के घर भी मुशोभित थी, इसको देखकर इन्द्र भी मोहित होगया।

दोहा—वसहिनगरजेहिलच्छिकरि, कपट नारि वर बेषु।

तेहि पुर के सोभा कहत, सकुर्चाहि सारद सेषु ॥२८६॥

जिस नगर में लक्ष्मीजी कपट से सुन्दर स्त्री, का वेप धारण कर बसती हैं। उस नगर को सोभा कहने में सरस्वतीजी और शेषजी भी सकुचाते हैं।

पहुँचे दूत रामपुर पावन * हरषे नगर विलोकि सुहावन

भूप द्वार तिन्ह खबर जनाई * दशरथ नृप सुनि लिये बोलाई

जनकपुर के दूत श्रीरामजी को पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे, तो सुहावने नगर को देखकर वे प्रसन्न हुए। उन्होंने राजद्वार पर खबर दी, राजा दशरथजी ने सुनते ही उन्हें पुत्तलिया।

करि प्रनामु तिन्ह पाती दीन्ही * मुदित महीप आपु उठि लीन्ही

वारि विलोचन वाँचत पाती * पुलक गात आई भरि छाती

प्रणाम करके उन्होंने पत्रिका दी, प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर पत्रिका ली। पत्रिका बाँचते ही नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकायमान होगया और हृदय भर आया।

राम लखनु उर कर वर चीठी * रहि गए कहत न खाटी मीठी

पुनि धरि धीर पत्रिका वाँची * हरषी सभा बात सुनि साँची

राम-लक्ष्मण हृदय में और श्रेष्ठ पत्रिका हाथ में लिये रह गये, बुरी भलीकुछ भी कहते न बनी। फिर धीरज धरकर पत्रिका बाँची, तो सच्ची बात को सुनकर समा प्रसन्न हुई।

खेलत रहे तहाँ सुधि पाई * आए भरतु सहित हितु भाई

पूछत अति सनेह सकुचाई * तात कहाँ ते पाती आई

भरतजी छोटे भाई शत्रुघ्न सहित घेत रहे थे, वहाँ यह पत्रो का समाचार पाकर दोनों भाई आए और बड़े स्नेह से सकुचाकर पूछने लगे—हे पिताजी! पत्रिका कहाँ से आई है।

दोहा—कुसल प्रान प्रिय बन्धु दोउ, अहाँहि कहहु केहि देस।

सुनि सनेहँ साने वचन, वाँची वहरि नरेस ॥२८७॥

हमारे प्राण-प्रिय दोनों भाई कहिये, किस देश में हैं? यह स्नेह भरे वचन सुनकर राजा ने फिर वह पत्रिका पढ़कर मुताई—

मैंने अपनी भुजाओं के बलसे पृथ्वी को राजाओं से ह्रीन करके अनेकों ग्रार ब्राह्मणों को दे दिया है। हे राजकुमार! तू मेरे इस सहस्रबाहु को भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को ब्रेम।

दोहा—मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महीप किसोर।

गर्भन के अर्भक बलन, परसु मोर अति घोर ॥२७२॥

हे राज-किसोर! तू अपने माता-पिताको सोच के बस मत कर, मेरा यह कठोर फरसा गर्भों के बालकों को मारने वाला बड़ा भयङ्कर है, इसके शब्दसे गर्भ के बालक मर जाते हैं।

विहँसि लखन बोले मृदु बानी * अहो मुनीस महा भटमानी
पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारु * चहत उड़ावन फूँक पहारु

तब लक्ष्मणजी हँसकर मधुर वाणी से बोले-अहो, आप मुनि होकर अपने को बड़ा शूर-वीर मानते हैं। इसीसे मुझे चारम्बार फुठार दिखाकर, फूँकसे पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं।

इहाँ कुम्हड़ बतियाँ कोउ नाही * जे तरजनी देखि मर जाहीं

देखि कुठारु सरासन बाना * मैं कछु कहा सहित अभिमाना

हे मुनिनाथ! यहाँ कोई कृई-मुई का पेड़ नहीं है, जो तर्जनी उँगली के देखते ही मुरझा जाता है। आपने धनुषबाण च फरसा धारण किये देखाकर ही मैंने अभिमान से कुछ कहा है।

भृगुसुत समुझि जनेउ विलोकी * जो कछु कहहु कहउँ रिस रोकी

सुर महिसुर हरिजन अरु गाई * हमरे कुल इन्ह पर न सुराई

भृगुवंशी-ब्राह्मण समझ, जनेऊ देखाकर ही जो कुछ आपने कहा, वह मैंने रिस रोककर सहा है। देवता, ब्राह्मण, हरि-भक्त और गाय-इन पर हमारे वंश में शूरता नहीं दिखाई जाती।

बधे पाप अपकीरति हारें * मारतहूँ पा परिअ तुम्हारें

कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा * व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा

पर्योक्त इनको मारने में पाप और हारने में अपयश होता है। आप मारेंगे, तो भी मैं आपके चरणों में ही गिरूँगा। करोड़ों व्यर्थों के समान तो आपके बचन ही हैं, फिर धनुष बाण और फुठार तो बूधा ही धारण कर रखे हैं।

दोहा—जो विलोकि अनुचित कहेउँ, छमहु महामुनि धीर।

सुनि शरोष भृगुवंश मनि, बोले गिरा गम्भीर ॥२७३॥

हे धीर-महामुनि! इनको देखाकर मैंने जो अनुचित कहा है, उसे क्षमा करें। यह सुनकर परशुरामजी क्रोधित होकर गम्भीर वाणी बोले—

कोसिक सुनहु मन्द यह बालक * कुटिल कालवस निजकुल घालक

भानु वंश राकेस कलंकू * निपट निरंकुस अबुध असंकू

हे विश्वामित्र! सुनो, यह बालक-कुबुद्धि और कुटिल, कालवश अपने कुल का नाशक बन रहा है। यह सूर्यवंशक्य पूर्ण-चन्द्रमार्ग कलंक है। बहुत ही स्वतन्त्र, मूर्ख और निडर है।

कासु कवलु होइहि छिन माहीं * कहउँ पुकार खोरि मोहि नाही

तिन्हकहैनायकहिअ किमि चीन्हे * देखिअ रवि कि दीप कर लीन्हे
सीय स्वयम्बर भूप अनेका * समिटे सुभट एक तें ऐका

हे नाय ! उन्हें आप कहते हैं कि कैसे पहिचाना ? क्या सूर्य को कोई हाथ में दीपक लेकर देखता है ? सीता स्वयम्बर में अनेक राजा, एक से एक बड़े योद्धा एकत्र हुए थे ।

सम्भु सरासन काहुँ न टारा * हारे सकल वीर वरिआरा
तीन लोक महँ जे भटमानी * सब कै सकति शम्भु धनु भानी

परन्तु शिवजी का धनुष कितो से न उठा, सब बलवान् वीर हार गये । तीनों लोकों में जो अनिमानी योद्धा हैं, शिव-धनुष ने उन सबकी शक्ति हरण करली थी ।

सकइ उठाइ सुरासुर मेरू * सोउ हियँ हारि गयउ करिफेरू
जेहि कौतुक सिवसैलु उठावा * सोउ तेहि सभाँ परामउ पावा

चाणामुर—जो सुमेरु-पर्वत को उठा सकता है, वह भी मन में हार मानकर धनुष को परिष्कार करके तोड़ गया । जिसने फंताश-पर्वत को घेन में ही उठा लिया, वह रायण भी उस समाज में हार गया ।

दोहा—तहाँ राम रघुवंधमनि, सुनिअ महा महिपाल ।

भंजेउ चाप प्रयास विनु, जिमि गज पङ्कज नाल ॥२६२॥

हे महाराज ! सुनिये, यहां रघुवंश-मणि श्रीरामजी ने बिना प्रयास ही धनुष को ऐसे तोड़ डाला, जैसे हाथो कमल को डण्डो को तोड़ देता है ।

सुन सरोय भृगुनायक आए * बहुत भाँति तिन्ह आँखि देखाए
देखि राम बलु निज धनु दीन्हा * करि बहु विनय गवनु वन कीन्हा

यह सुनकर क्रोधसे भरे हुए परशुरामजी आये, उन्होंने बहुत प्रकारसे आँखें विप्याई फिर श्रीरामजी का बल देखकर उन्हें आपका धनुष दे दिया और विनय करके वन को चले गये ।

राजन राम अतुल बल जैसे * तेज निधान लखनु पुनि तैसें
कम्पहि भूप विलोकत जाकेँ * जिमि गज हरि किसोर के ताकेँ

हे राजन् ! जैसे श्रीरामजी अत्यन्त बली हैं, वैसे ही लक्ष्मणजी भी तेज-निधान हैं । जिन्हें देखते ही राजा लोग कांपते हैं, जैसे हाथो सिंह के बच्चे को देखकर कांपते हैं ।

देवि देखि तव बालक दोऊ * अब न आँखि तर आवत कोऊ
दूत वचन रचना प्रिय लागी * प्रेम प्रताप वीर रस पागो

हे देव ! आपके दोनों राजकुमारों को देखकर अब हमारी दृष्टि में कोई बूसरा नहीं आता । दूतों की वचन-रचना सबको प्रिय लगी, जो प्रेम और वीर-रस से भरी हुई है ।

सभा समेत राउ अनुरागे * दूतन्ह देन निछावर लागे
कहि अनोति ते मूँदहि काना * धरमु विचारि सर्वाहि सुखु माना

सभा सहित राजा प्रेम-मान हो गये और दूतों को न्योछावर देने लगे । यह अनोति है ।

दोहा—गाधिसूनु कह हृदयं हंसि, मुनिहि हरिअरिह सूझ ।

अयमय खाँडेउ ऊख मय, अजहुँ न बूझ अबूझ ॥२७५॥

विश्वामित्र मनमें हँसकर कहने लगे मुनि को हरा ही हरा सूझता है । जिन्होंने वज्र के समान धनुष को गन्ने की तरह तोड़ दिया, मुनि अब भी उनके प्रभाव को नहीं समझ रहे।
कहेउ लखनु सुनि सील तुम्हारा * को नहिं जान विदित संसारा
माता पितहि उरनि भए नीके * गुरु रिनु रहा सोच बड़ जीके

लक्ष्मणजी ने कहा—हे मुनि! आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता, वह संसारमें प्रसिद्ध है। माता-पिता के ऋण से भली-भाँति उच्छ्रण हो चुके, अब गुरु का ऋण रहा है—सो मनमें बड़ा सोच है।
सो जनु हमरेहि माथे काढ़ा * दिन चलि गए ब्याज बहु बाढ़ा
अब आनिअ व्यवहरिआ बोली * तुरत देउँ मैं थैली खोली

वह ऋण मानो हमारे ही माथे काढ़ा है। बहुत दिन बीत गये, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुलवा लीजिये, जिससे मैं तुरन्त थैली खोलकर देदूँ।
सुनि कदु वचन कुठा सुधारा * हाय हाय सब सभा पुकारा
भृगुवर परसु दिखावहु मोही * विप्र विचारि बचउँ नृपद्रोही

लक्ष्मणजी के कदु वचन सुनकर परशुरामजी ने कुठार सुधारा, तब सारी सभा हाय ! हाय ! पुकारने लगी। (लक्ष्मणजी बोले—) हे भृगु-श्रेष्ठ ! आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं और हे राजद्रोही ! मैं आपको ब्राह्मण समझकर आप से वचता हूँ।

मिले न कवहुँ सुभट रन गाढ़े * द्विज देवता घरहि के वाढ़े
अनुचित कहि सब लोग पुकारे * रघुपति सयनहिं लखनु नेवारे

आपको कभी रणधीर योद्धा नहीं मिले, ब्राह्मण और देवता अपने घर के ही बड़े हैं। सब लोग पुकार उठे—यह बात अनुचित है, तब श्रीरामजी ने लक्ष्मण को संकेतसे मना कर दिया।

दोहा—लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृसानु ।

बढ़त देखि जलसम वचन, बोले रघुकुल भानु ॥२७६॥

लक्ष्मणजी का उत्तर आहुति समान और परशुरामजी का क्रोध अग्नि के समान बढ़ते देखकर श्रीरघुनाथजी जल के समान शीतल वचन बोले—

(३) एकवार परशुरामजी के पिता जमदग्नि ऋषि ने अपनी पत्नी रेणुका को जल भरने नदी पार भेजा। रेणुका ने वहाँ एक गन्धर्व-गन्धर्वी को बिहार करते देखने में देर लगा दी। इसी पर जमदग्नि क्रोधित हो गये कि उनकी पत्नी ने पर-पुरुष को बिहार करते देखा। उन्होंने अपने सब पुत्रों से माता का वध करने को कहा। पुत्रों ने अस्वीकार कर दिया। फेरल परशुरामजीने पिताके कहनेसे माता और भाइयों का फरसे से वधकर डाला। पिता के अत्यन्त प्रसन्न होने पर उनको वर माँगने को कहा। परशुरामजी ने उनका जीवन-दान माँगकर उनको जीवित करवा दिया और आप पृथ्वी की परिक्रमा देने चले गये।

रानियां प्रेम से प्रफुल्लित हो ऐसी सुशोभित हुईं—जैसे मोरनी मेघों की गर्जना सुनकर प्रसन्न होती हैं। पुष्प-कुल की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशोर्वाच देने लगीं, मातायें अल्पन्त आनन्द में मग्न हुईं।

लेहिं परस्पर अति प्रिय पाती ✽ हृदयं लगाइ जुड़ावहिं छाती
राम लखन के कीरति करनी ✽ वारहिं वार भूपवर वरनी

और आपस में उस बहुत प्रिय पुत्र को हृदय से लगाकर छाती ठंडी करने लगीं। धीराम-त्तक्ष्मणजी की कीर्ति और करनी का महाराज वशरथजी ने बारम्बार यमन किया।

मुनि प्रसादु कहि द्वार सिधाए ✽ रानिन्ह तव महिदेव बोलाए
दिए दान आनन्द समेता ✽ चले विप्रवर आसिष देता

'यह सब मुनि की कृपा है' ऐसा कहकर वे बाहर चले गये। रानियों ने ग्राह्णियों को बुलाया और आनन्द सहित अनेकों दान दिये, सब धर्म ग्राह्ण आशोर्वाच देते हुए चले।

सो०—जाचक लिए हँकारि, दीन्हि निछावर कोटि विधि।

चिरु जीवहुँ सुत चारि, चक्रवर्ति दपरत्य के ॥ ३८ ॥

फिर याचकों को बुलाकर फरोड़ों भाँति की वस्तुयें न्योछावर में दें। तब उन्होंने कहा—'चक्रवर्ती महाराज वशरथजी के चारों पुत्र चिरंजीवी हों।'

कहत चले पहिरें पट नाना ✽ हरपि हने गहगहे निसाना
समाचार सब लोगन्ह पाए ✽ लागे घर घर होन बधाए

इस तरह कहते हुए वे अनेक प्रकार के वस्त्र पहिन २ कर चले और प्रसन्न होकर आनन्द के नगाड़े बजाने लगे। यह समाचार जब पुर के लोगों ने पाये, तब घर-घर बधाये होने लगे।

भुवन चारिदस भरा उछाहू ✽ जनक सुता रघुवीर विवाहू
सुनि सुभ कथा लोग अनुरागे ✽ मग गृह गली सँवारन लागे

घोबहों भुवनों में आनन्दोत्सव छा गया कि श्री सीताजी और श्री रघुनाथजी का विवाह है। यह सुन समाचार सुन सब लोग प्रसन्न हुए और बाजार, घर तथा गलियां सजाने लगे।

यद्यपि अवध सदैव सुहावनि ✽ रामपुरी मङ्गलमय पावनि
तदपि प्रीति कै रीति सुहाई ✽ मङ्गल रचना रची बनाई

यद्यपि अयोध्या सदैव ही सुहावनी है, क्योंकि वह धीरामजी की मङ्गलमयी पवित्र पुरी है। तथापि यह प्रीति को सुन्दर रीति दिखाने के लिये मङ्गल-रचना से रचकर सजाई गई।

ध्वज पताक पट चामर चारु ✽ छावा परम विचित्र बजारु
कनक कलस तोरन मनि जाला ✽ हरद दूब दधि अच्छत माला

सुन्दर ध्वजा, पताका, वस्त्र और घँवरों से बाजार को बहुत विचित्र रीति से सजामा गया। सोने के कलस, बन्दनवार, मणिपों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से—

दोहा—मङ्गलमय निज निज भवन, लोगन्ह रचे बनाइ।

शरीर लक्ष्मणजी की निर्भय वाणी सुनकर क्रोध से जलता था और उनका बल घटता था ।
बोले रामहिं देत निहोरा * बचउँ विचारि बन्धु लघु तोरा
मनु मलीन तनु सुन्दर कैसें * विष रस भरा कनक घटु जैसें

परशुरामजी-श्रीरामजी को निहोरा देकर बोले-हे राम! तेरा छोटा भाई समझ में इसे बचाता
हूँ । यह मनका मलिन और तनका कंसा सुन्दर है-जैसे सोने के घड़े में विष-रस भरा हो ।

दोहा-सुनिलछिमन बिहँसे बहुरि, नयन तरेरे राम ।

गुरु समीप गवने सकुचि, परिहरि बानी बाम ॥२७८॥

यह सुनकर लक्ष्मणजी हँसे, तो श्रीरामजी ने नेत्रों के संकेत से मना कर दिया । तब
लक्ष्मणजी सकुचाकर विरुद्ध वचन बोलना छोड़ गुरु के पास चले गये ।

अति विनीत मृदु शीतल बानी * बोले रामु जोरि जुग पानी
सुनहुँ नाथ तुम्ह सहज सुजाना * बालक बचनु करिअ नहिं काना

श्रीरामजी दोनों हाथ जोड़ कोमल और शीतल वचन बोले-हेनाथ सुनिये, आप तो
स्वभाव से ही चतुर हैं, बालक के वचनों पर ध्यान न दीजिये ।

वररै बालक एक सुभाऊ * इन्हहि न सन्त विदूषहि काऊ
तेहि नाहीं कछु काजु बिगारा * अपराधी मैं नाथ तुम्हारा

वर और बालक का एक ही स्वभाव है, सन्तजन इन्हें कोई दोष नहीं देते हैं फिर इसने
तो आपका कोई काम भी नहीं बिगाड़ा है, हे नाथ आपका अपराधी तो मैं हूँ ।

कृपा कोपु बधु बंधव गोसाईं * मो पर करिअ दास की नाई
कहिअ वेगि जेहि विधि रिसजाई * मुनिनायक सोइ करौ उपाई

हे गुसाईं! कृपा, कोप, बल और बन्धन जो कुछ करना हो, अपना दास जानकर मुझ
पर कीजिये । जिस प्रकार आपका क्रोध जाय-वह शीघ्र ही कहिये, हे मुनिनाथ ! जिससे
मैं वही उपाय करूँ ।

कह मुनि राम जाइ रिस कैसें * अजहुँ अनुज तव चितव अनैसैं
एहि कै कण्ठ कुठार न दीन्हा * तौ मैं काह कोपु करि कीन्हा

मुनि बोले-हेराम! क्रोध कैसे जाय ? देख, तेरा छोटा भाई तो अब भी टेढ़ी दृष्टि से
ही देख रहा है । यदि इसके कण्ठ में कुठार न मारा तो मैंने क्रोध करके ही क्या किया ?

दोहा-गर्भ स्वर्वाहि अपनि परहि, सुनि कुठार गति घोर ।

परसु अजत देखेउँ जिअत, बैरी भूप किसोर ॥२७९॥

जिस कुठार की भयंकर ध्वनि को सुनकर राजाओं की रानियों के गर्भ गिर जाते हैं,
ऐसे कुठार फरसे के होते हुए भी मैं बैरी राज-पुत्र को जीवित देख रहा हूँ ।

बहइ न हाथु दहइ रिस छाती * भा कुठार कुण्ठित नृप घाती
भयउ बाम विधि फिरेउ सुभाऊ * मोरे हृदयँ कृपा शसि काऊ

सुभग सकल सुठि चंचल करनी * अय इव जरत धरत पग धरनी
नाना जाति न जाहि बखाने * निदरि पवन जनु चहत उड़ाने

सब घोड़े सुन्दर व चंचल चाल वाले थे, पृथ्वी पर ऐसे पर रपते, मानो जलते हुये लोहेपर पर रपते हों। अनेक जाति के अवर्णनीय घोड़े मानो पवन का निरावर कर उड़ना चाहते हैं।

तिन्ह सब छयल भए अवसारा * भरत सरिस वय राजकुमारा
सब सुन्दर सब भूपनधारी * कर सर चाप तून कटि भारी

उन घोड़ों पर भरतजी के समान सब छल-छुबोले राजकुमार सवार हुए। सभी सुन्दर तथा आभूषण धारण किये, हाथों में धनुष-बाण लिये, कमरों में भारी तरफत कसे गए थे।

दोहा—छरे छबीले छलय सब, सूर सुजान नवीन।

जुग पदचर असवार प्रति, जे असि कला प्रवीन ॥२६७॥

सब छंटे हुए, सुन्दर, बांके, धूसवार, चतुर और नवीन थे। प्रत्येक के साम दो-दो पंख लिये हुए थे, जो तलवार चलाने में निपुण थे।

बांधे विरद वीर रन गाढ़े * निकसि भए पुर बाहर ठाढ़े
फेरहि चतुर तुरग गति नाना * हरपहि सुनि सुनि पवन निसाना

शूरता का बाना बांधे हुए, रण-बांकुरे वीर नगर से निकल बाहर जा पड़े हुये। वे चतुर अनेकों प्रकार की गति से घोड़ों को फेरने लगे, दुनुभी की ध्वनि सुनकर प्रसन्न होने लगे।

रथ सारथिन्ह विचित्र बनाए * ध्वज पताक मनि भूपनि लाए
चँवर चारु किंकिन धुनि करहौं * भानु जान सोभा अपहरहौं

सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और गहनों से रथों को नली प्रकार सजाया। उसमें सुन्दर चँवर लगे हुए थे और घण्टियों की मनोहर ध्वनि हो रही थी, वे मानो स्रप के रथ की सोभा को छीन रहे थे।

सावँकरन अगनित हय होते * ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते
सुन्दर सकल अलंकृत सोहे * जिन्हहि विलोकत मुनि मन मोहे

अगणित श्यामवर्ण घोड़े थे, वे सारथियों ने उन रथों में जोत दिये—जो सुन्दर गहनों से सजे हुए शोभायमान थे। जिन्हें देखकर मुनियों के मन मन मोहित हो जाते थे।

जे जल चलहि थलहि की नाई * टाप न बूड़ वेग अधिकाई
अस्त्र सस्त्र सब साजु बनाई * रथी सारथिन्ह लिए बोलाई

जो जल पर भी पल के समान चलते और वेग के कारण जल में उनकी टापें भी नहीं डूबती थीं, अस्त्र शस्त्र आदि सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया।

दोहा—चढ़ि चढ़ि रथ बाहेर नगर, लागी जुरन वरात।

होत सगुन सुन्दर सबहि, जो जेहि कारजु जात ॥२६८॥

रथों पर चढ़कर नगर के बाहर वरात डूकत होने लगी। जो व्रत काम को प्राप्त था, उन सबको ही सुन्दर सगुन होते थे।

जेहि रिस जाइ करिअ सोइ स्वामी * मोहि जानिअ आपन अनुगामी

श्रीरामजी बोले-हे मुनिनाथ ! क्रोधको त्याग दो, आपके हाथ में फरसा है और आगे मेरा यह सिर है । जिस तरह रिस जाय, वही उपाय कीजिए, हे स्वामी ! मुझे अपना सेवक जानिये ।

दोहा—प्रभुहि सेवकहि समरु कस, तजहु विप्रवर रोषु ।

वेषु विलोकें कहेसि कछु, बालकहु नहि दोषु ॥२८१॥

स्वामी और सेवक का युद्ध कैसा ? हे विप्रवर ! क्रोध का त्याग करिये । क्षत्रिय वेष देखकर ही बालक ने कुछ कहा है, वो इस बालक का भी दोष नहीं है ।

देखि कुठारु बान धनु धारी * भै लरकहि रिस वीरु विचारी

नामु जानिपै तुम्हहि न चीन्हा * बंस सुभायँ उतरु तेहि दीन्हा

आपको फरसा एवं धनुष बाण लिए देख और वीर समझ कर बालकको क्रोध होआया । आपका नाम सुना था, परन्तु पहिचाना नहीं, इसीसे वंशके स्वभावके अनुसार इसने उत्तर दिया ।

जौ तुम्ह आतेउ मुनि की नाई * पदरजु सिर सिसु धरत गोसाई

छमहु चूक अनजानन केरी * चहिअ विप्र उर कृपा घनेरी

हे नाथ ! यदि आप मुनियोंके समान वेष में आते तो यही बालक आपको चरण-रजको सिरपर धारण करता । अब अनजानेकी चूक को क्षमा करिये, ब्राह्मणके हृदयमें बहुत ही दया चाहिए ।

हमहि तुम्हहि सरबरिकस नाथा * कहहु न कहाँ चरन कहँ माथा

राम मात्र लघु नाम हमारा * परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा

हे नाथ ! हमारी आपकी कैसी बराबरी ? कहो, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक ? कहाँ तो 'राम' मात्र मेरा छोटा सा नाम और कहाँ 'परशु' सहित आपका बड़ा नाम ।

देव एकु गुनु धनुष हमारे * नव गुन परम पुनीत तुम्हारे

सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे * छमहु विप्र अपराध हमारे

हे देव ! हमारे तो केवल एक धनुष ही गुण है और आपके परम पवित्र नव-गुण हैं । हे विप्र ! सब प्रकार हम आपसे हारे हैं, हमारे अपराध क्षमा करिये ।

दोहा—बार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम ।

बोले भृगुपति सरुष हँसि, तहँ बन्धु सम बाम ॥२८२॥

श्रीरामजी ने परशुरामजी से बारम्बार 'मुनि' विप्रवर' कहा तो वे क्रोधित होकर बोले—तू नो भाई के समान देड़ा है ।

निपटहि द्विजकरि जानहि मोही * मैं जस विप्र सुनावहुँ तोही

चापश्रुवा सर आहुति जानू * कोप मोर अति घोर कसानू

तूने मुझे निरा ब्राह्मण ही जान लिया । मैं जैसा ब्राह्मण हूँ, वैसा ही तुझे सुनाता हूँ । मेरे धनुष को श्रुवा, बाण की आहुति और मेरे क्रोध को प्रचण्ड अग्नि जानो ।

और भाँति २ के मनोहर गीत गा रही हैं, उनका अत्यन्त आनन्द कहा नहीं जा सकता। तब मन्त्री सुमन्तजी ने वो रथ सजाये, उनमें ऐसे घोड़े जोते, जो सूर्य के घोड़ों को भी सजाते थे। दोउ रथ रुचिर भूप पहुँ आने * नहीं सारद पहुँ जाहि बखाने राज समाजु एक रथ साजा * दूसर तेजपुञ्ज अति भ्राजा दोनों सुन्दर रथ वे राजा के पास लाये, उनका वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती। एक रथ राजसो-चिन्हों से सुशोभित था और दूसरा तेज के समूह से बहुत ही शोभित था। दोहा—तेहि रथ रुचिर वसिष्ठ कहूँ, हरषि चढ़ाइ नरेसु।

आपु चढ़ेउ स्पन्दन सुमिरि, हर गुरु गौरि गनेसु ॥३००॥

उस सुन्दर रथ पर राजा ने हृद्य के साथ वसिष्ठजी को चढ़ाया और आप शिव, गुरु, पार्वती और गणेशजी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े।

सहित वसिष्ठ सोह नृप कैसें * सुर गुरु सङ्ग पुरन्दर जैसें करि कुलरोति वेद विधि राऊ * देखि सर्वाहि सब भाँति बनाऊ

वसिष्ठजी सहित राजा दशरथ कंसे शोभित हुए, जैसे वृहस्पतिजीके साथ इन्द्र हों, कुल की रीति और वेद की विधि के अनुसार कार्य करके, सबको इस प्रकार से सजे हुए देखकर—

सुमरि राम गुरु आयसु पाई * चले महीपति शंख बजाई हरषे विद्वध विलोकि वराता * वरषाहि सुमन सुमङ्गल दाता

धीरामचन्द्रजी का स्मरण कर, गुरु की आज्ञा पाकर राजा दशरथजी शंख बजाकर चले। तब देवता वरात को देखकर प्रसन्न हुये और मङ्गलवाक्य कूल बरसाने लगे।

भयउ कोलाहल ह्य गय गाजे * व्योम वरात वाजने वाजे सुर नर नारि सुमङ्गल गाई * सरस रागु वाजाहि सहनाई

बड़ा शब्द हुआ, घोड़े हिनहिनाते, हाथी बिघाड़ने लगे, आकाश में वरात के वाजे बजने लगे। देवताओं व मनुष्यों की स्त्रियाँ सुन्दर मङ्गल गाने लगीं, रसोले स्वर से सहनाई बजने लगीं।

घण्ट घण्टि धुनि वरनि न जाही * सरख करहि पाइक फहराही करहि विद्वपक कौतिक नाना * हास कुसल कल गान सुजाना

घंटा और घंटियों की ध्वनि वर्णन नहीं की जा सकती, सेवक लोग हाथ में झड्डियाँ लेकर फहराते हुए चले जा रहे थे। हँसाने और गाने में चतुर विद्वपक अनेक प्रकार के छेत्त कर रहे थे।

दोहा—तुरंग नचावहि कुँवर वर, अकिन मृदङ्ग निसान।

नागरनट चितवहि चकित, डगाहि न ताल बंधान ॥३०१॥

सुन्दर रात्रकुमार मृदङ्ग नगाड़े के शब्द सुनकर उनकी गति पर घोड़ों को ऐसे नचाने लगे कि वे ताल के बंधान से जरा भी नहीं डिगते, चतुर नट चकित होकर यह वेष रहे हैं।

वनइ न वरुनत वनी वराता * होहि सगुन सुन्दर सुभदाता चारा चापु वाम दिस लेई * मनहुँ सकल मङ्गल कहि टेई

जाय । धनुष देते ही वह आप ही चढ़ गया, तब परशुरामजी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ ।

दोहा—जाना राम प्रभाउ तव, पुलक प्रफुल्लित गात ।

जोरि पानि बोले वचन, हृदयँ न प्रेम समात ॥२८४॥

तब परशुरामजी ने श्रीरामजी का प्रभाव जान लिया, शरीर पुलकायमान और अङ्ग प्रफुल्लित होगये । उनके हृदय में प्रेम नहीं समाता था, वे हाथ जोड़कर यह वचन बोले—

जय रघुवंश वनज वन भानू * गहन दनुज कुल दहन कृसानू

जय सुर प्रिय धेनु हितकारी * जय मद मोह कोह भ्रम हारी

हे रघुकुल-कमल-भास्कर ! हे दानव-कुलरूपी सघन वन के लिए दावाग्नि ! आपकी जय हो । हे देवता, ब्राह्मण व गौओं के हितकारी ! आपकी जय हो । हे अभिमान, ममता क्रोध और भ्रम को हरने वाले ! आपकी जय हो ।

विनय सील करना गुनसागर * जयति वचन रचना अति नागर

सेवक सुखद सुभग सब अङ्गा * जय सरीर छवि कोटि अनङ्गा

हे विनयशील, दया, गुणोंके समुद्र और वचनों की रचनामें बड़े चतुर ! आपकी जय हो । हे मत्त-सुखदायक, हे सब अङ्गोंमें सुन्दर और शरीर में करोड़ों कामदेवोंकी शोभा वाले ! आपकी जय हो ।

करोँ काह मुख एक प्रसंसा * जय महेस मन मानस हंसा

अनुचित बहुत कहउँ अज्ञाता * छमहु छमा मन्दिर कोउ भ्राता

एक मुख से मैं आपको क्या प्रशंसा करूँ ? हे शिवजी के हृदयरूपी मानसरोवर के हंस आपकी जय हो । बिना जाने मैंने (अज्ञान से) बहुत अनुचित वचन कहे हैं, सो हे क्षमा के मन्दिर दोनों भाई ! क्षमा करिये ।

कहि जय जय जय रघुकुल केतू * भृगुपति गए वनहिं तप हेतू

अप भयँ कुटिल महीप डेराने * जहँ तहँ कायर गर्वाहि पराने

हे रघुवंश में ध्वजारूपी श्रीरामजी ! आपकी वारम्बार जय हो । ऐसा कहकर परशुरामजी तप करने के लिए वन को चले गये । तब अपने ही अनुचित वताव के डरसे कुटिल राजा डर गये और वे कायर जहाँ-तहाँ भाग गये ।

दोहा—देवन्ह दीन्ही दुन्दुभी, प्रभु पर वरषहिं फूल ।

हरषे सुर नारि सब, मिटी मोहमय सूल ॥२८५॥

देवताओं ने नगाड़े बजाये और प्रभु पर पुण्य-वृष्टि की । नगर के स्त्री-पुरुष प्रसन्न हुए और मोह, भय एवं दुःख मिट गये ।

अति गह गहे वाजने वाजे * सबहि मनोहर मङ्गल साजे

जूथ जूथमिलि सुमुखि सुनयनों * करहिं गान कल कोकिल वयनों

बड़े आनन्द के वाज बजने लगे और सबने मनोहर मङ्गलमय साज सजाये । सुमुखी, सुनयनी, कोकिल-वयनी स्त्रियों गुण्ड के गुण्ड गीत गाने लगीं ।

सुखु विदेह कर वरनि न जाई * जन्म दरिद्र मनहुं निधि पाई

नित नूतन सुख लखि अनुकूले * सकल वरातिन्ह मन्दिर भूले
उत्तम-उत्तम भोजन पदार्थ, शयन-स्थान और सुन्दर वस्त्रसमीने अपनी २ इच्छानुसार
प्राप्त किये । नित्य-नये प्रकार के सुघ्र मन के अनुकूल पाकर सब वराती अपने घर नृतगये ।

दोहा-आवत जानि वरात वर, सुनि गहगहे निसान ।

सजि गज रथ पदचर तुरंग, चले लेन अगवान ॥३०३॥

नगाड़ों का शब्द, मुन, सुन्दर वरात का आगमन जानकर हाथी, रथ, घोड़ा और
पंखों को सजाकर अगवान लोग वरात को लेने चले ।

* मास परायण दसवाँ विश्राम *

कनक कलस भरि कोपर थारा * भोजन ललित अनेक प्रकारा
भरे सुधा सम सब पकवाने * नाना भाँति न जाहिं बखाने

भरे हुए स्वर्ण के कलस, कटोरे, बाल, अनेकों प्रकार के सुन्दर पात्र यह सब भाँति २
के अमृत के समान पकवानों से भरे हैं, जिनके स्वाद का वर्णन नहीं किया जा सकता ।

फल अनेक वर वस्तु सुहाई * हरिषि भेंट हित भूप पठाई
भूपन वसन महामनि नाना * खगभृगहय गय बहुविधि जाना

उत्तम फल तथा सुहावनी वस्तुएं राजा ने प्रसन्न होकर भेंटके लिए भेजीं । गहने, वस्त्र
यहुत, सी बड़ी २ मणियाँ, पशु, पक्षी, घोड़े, हाथी और बहुत प्रकार की सवारियाँ भेजीं ।

मङ्गल सगुन सुगन्ध सुहाए * बहुत भाँति महिपाल पठाए
दधि चिउरा उपहार अपारा * भरि भरि काँवरि चले कहारा

बहुत प्रकार के मङ्गल और सगुन-दायक, सुगन्ध से युक्त सुन्दर पदार्थ राजाने भिजवाये ।
वही-चिचड़ा और अनेक प्रकार की भेंट की वस्तुएं बहोंगियों में भर-भरकर कहार ले चले ।

अगवानिन्ह जब दीखि वराता * उर आनन्दु पुलक भर गाता
देखि बनाव सहित अगवाना * मुदित वरातिन्ह हने निसाना

अगवानियों ने जब वरात को आती देखी तो हृदय में आनन्द होगया, शरीर प्रकृतित
होगये । अगवानियों की ठाट सहित देखकर वरातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े को बजवाया ।

दोहा-हरषि परस्पर मिलन हित, कष्टुक चले वगमेल ।

मनु आनन्द समुद्र दुइ, मिलत विहाइ सुबेल ॥३०४॥

प्रसन्नतासे आपसमें मिलने के लिए कुछ लोग घोड़ों की यागे डौलीकर बोड़पले मानो
वानन्द के से समुद्र अपनी सुबेल नाम मर्यादा के पर्वत को तोड़कर मिसने जारहे हों ।

वरषि सुमन सुर सुन्दरि गार्वाहि * मुदित देव दुन्दुभी वजावहि
वस्तु सकल राखीं नृप आगे * विनय कीन्हि तिन्ह अति अनुरागे

देवों द्वारा पुष्ट-वृष्टि देष अक्षरायें गाने लगीं, देवता प्रसन्न होकर दुन्दुभी बजाने लगे ।

दोहा—हरित मनिन्ह के पत्र फल, पदुमराग के फूल ।

रचना देखि विचित्र अति, मनु विरंचि कर भूल ॥२८७॥

हरी मणियों (पत्तों)के फल, पत्ते बनाये और पदमराग के फूल बनाये । अनोखी रचना को देखकर ब्रह्मा का मन भूल गया ।

बेनु हरित मनिमय कीन्हे * सरल सपरव परहिं नहिं चीन्हें
कनक कलित अहिवेल बनाई * लखि नहिं परइ सपरन सुहाई

हरी मणियोंके सब बांस ऐसे सीधे और गांठ समेत बनाये, जो पहिचाने नहीं जाते । उन पर सोनेकी सुन्दर नागधेलि पानों समेत ऐसी सुहावनी बनाई, जो पहिचानी नहीं जाती थी ।

जेहि के रचि पचि बन्ध बनाए * विच विच मुकुता दाम सुहाए
मानिक मरकत कुलिस पिरौजा * चीरु कोरि पचि रचे सरोजा

उन्हींके लिये सँभालकर गुँथकर बन्ध बनाए, उनके बीच २ में मोतियों की झालरें लटका दीं । मणिक, नीलम, हीरा, पिरौजा—इनको चीरकर और कोरों को मिलाकर कमल बनाए ।

किए भृङ्ग बहुरङ्ग विहङ्गा * गूँजहिं कूजहिं पवन प्रसङ्गा
सुर प्रतिमा खम्भन्ह गडि काढी * मङ्गल द्रव्य लिएँ सब ठाढी
चौकें भाँति अनेक पुराई * सिन्धुर मनिमय सहज सुहाई

सारे और रंग-विरंगे पक्षी बनाए, जो वायु के लगने से गुँजते तथा बोलते थे । देव-ताओं की मूर्तियाँ खम्भों में गड़ाकर बनाई, जो सब मंगल-द्रव्य लिएँ खड़ी थीं । अनेक प्रकार के स्थाभाविक सुहावने चौक-गज मुक्ताओं से पूरकर बनाये ।

दोहा—सौरभ पल्लव सुभग सुठि, किए नीलमनि कोरि ।

हेम घोर मरकत घवरि, लसत पाटमय डोरि ॥२८८॥

नील-मणि जो कोर कर सुन्दर आम के पत्ते बनाये, उसमें सोनेके घोर और हरी मणियों की अन्वियों के गुच्छे रेशम के धागों से लटके हुए शोभा दे रहे थे ।

रचे रचिर वर बन्द निवारे * मनहुँ मनोभवँ फन्द सँवारे
मङ्गल कलस अनेक बनाए * ध्वजा पताक पट चमर सुहाए

श्रेष्ठ ब्रह्मचर बनाये, मानो काम देव ने अपने हाथों से बाँधे हों । अनेकों मंगलकलस, ध्वजा, पताका बस्त्र और चमर बनाये ।

दीप मनोहर मनिमय नाना * जाइ न वरति विचित्र विताना
जेहि मण्डप दुलहिन वैदेही * सो वरनै असि मति कवि केही

जिनमें मणि के मनोहर दीपक हैं, ऐसे विचित्र मण्डप का वर्णन नहीं किया जा सकता । जिस मण्डप में श्रीजानकीजी दुलहिन हों, उस मण्डप का वर्णन कर सके, ऐसी मति किस कवि की हो सकती है ?

दूलह राम रूप गुन सागर * सो वितानु तिहुँ लोक उजागर

प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को छाती से लगाया, शरीर पुलकित हो गया और नतीं में जल भर आया। फिर जहाँ जनवासे में दशरथजी थे, वहाँ ऐसे चले-मानो प्यासे को लक्ष्य करके सरोवर बहने लगा हो।

दोहा—भूप विलोकेउ जवहि मुनि, आवत सुतन्ह समेत।

उठे हरषि सुखासिधु महुं, चले याह सी लेत ॥३०६॥

राजा ने मुनि को दोनों पुत्रों सहित आते देखा, तब प्रसन्न होकर उठे और मुचकेसुम्र में मानो याह-सी लेते हुए चले, शरीर की मुधि न रही।

**मुनिहि दण्डवत कीन्ह महोसा ✽ वार वार पद रज धरि सीसा
कौंसिक राउ लिए उर लाई ✽ कहि असोस पृष्टी कुसलाई**

मुनि को राजा ने दण्डवत् की ओर वार-वार चरणों को रज सिर पर धरो। विश्वामित्रजी ने राजा को हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल-दोम पूछो।

**पुनि दण्डवत करत दोउ भाई ✽ देखि नृपति उर सुख न समाई
सुत हियँ लाइ दुसह दुख मेटे ✽ मृतक शरीर प्राण जनु भेटे**

फिर दोनों भाइयों को दण्डवत् करते हुए देखा राजा के मनमें सुख नहीं समाया। पुत्रों को हृदय से लगाकर कठिन दुःख मिट गया, मानो मृतक शरीर में प्राण आगये हों।

**पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाए ✽ प्रेम मुदित मुनिवर उर लाए
विप्रवृन्द वन्दे दुहुं भाई ✽ मन भावती असीसँ पाई**

फिर वशिष्ठजी के चरणों में दोनों भाइयों ने प्रणाम किया, मुनिवर ने प्रेम में भग्न होकर उन्हे हृदय से लगाया। दोनों भाइयोंने ब्राह्मण-समूहको प्रणाम किया और उनसे मनभावा आशीर्वाद प्राप्त किया।

**भरत सहानुज कीन्ह प्रनामा ✽ लिए उठाइ लाइ उर रामा
हरषे लखन देखि दोउ भ्राता ✽ मिले प्रेम परि पूरित गाता**

भरतजीने शत्रुघ्नसहित प्रणाम किया, उन्हें धोरामजीने उठारकर हृदयसे लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले।

दोहा—पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मन्त्री मीत।

मिले जयाविधि सर्वाहि प्रभु, परम कृपाल विनीत ॥३०७॥

अयोध्यावासी लोग, कुटुम्बो-जन, जाति के लोग, पाचक और मन्त्रो-इन सबसे परम शृपानु धोरामचन्द्रजी अत्यन्त नम्रता से ययायोग्य मिले।

**रामहि देखि वरात जुड़ानी ✽ प्रीति किरीत न छाइ वखानी
नृप समोप सोहहि सुत चारी ✽ जनु धन धरमादिक तनुधारी**

धोरामजीको देख वरात शीतल हुई, प्रीतिकी रीति कही नहीं जा सकती। राजा के पास बड़े पारों भाई ऐसे शोभित हो रहे हैं, मानो धर्म अर्थ, काम और मोक्ष ही शरीर धारण किये हों।

सुतन्ह समेत दशरथाहि देखी ✽ मुदित नगर नर नारि विसेपी

अनन्त श्रीमहाराज अपराजिताधिराज, सकल महाराजानां शिरस्ताज जगलाज को जहाज गरीबन निवाज, मण्डल महेन्द्र के उपेन्द्र सम करन काज, यश जगत जहान ते जहाज, समान प्रतापवान दान मान सम्मान सुजान, ज्ञान प्रेमनिधान, दशरथ भूप को शोरकेतु भूप को जयजीव ! आप अनूप कुशल स्वरूप हैं, यहाँ आपकी कृपा ही कुशल है। भुवन हितकारी मुनि सङ्ग, अङ्ग-अङ्ग आभा उमंग, अनंग आभा भंग करनहार, आपके युगल-कुमार आये हमने लोचन लाभ पाये। रामचन्द्रजी ने महीपन मद मोरि, महेश धनुष तोरि, कीर्ति जग छाई, महिमा पाई। सजि बरात आइये, व्याहि ले जाइये। आपका— **जनकराज**

सुनि पातो पुलके दोउ भ्राता * अधिम सनेहु सनात न गाता
प्रोति पुनीत भरत कै देखी * सकल सभाँ सुखु लहेउ विशेषी

पत्नी सुनकर दोनों भाई पुलकित होगये और अधिक स्नेह से फूले न समाए। भरतजी का पवित्र प्रेम देखकर सब सभा ने विशेष सुख माना।

तव नृप दूत निकट वैठारे * मधुर मनोहर वचन उचारे
भैया कहहु कुशल दोउ वारे * तुम्ह नीके निज नयन निहारे

तब राजा ने दूतों को पास बिठाया और मधुर व मनोहर वचन कहे-हे भैया ! कहो, दोनों पुत्र कुशल से तो हैं ? क्या तुमने भली नाँति उन्हें अपनी आँखों से देखे हैं।

स्यामल गौर धरे धनु भाथा * वय किसोर कौसिक मुनि साथे
पहिचानहुँ तुम्ह कहहु सुभाऊ * प्रेम विवस पुनि पुनि कह राऊ

साँवले और गौरे शरीर वाले वे धनुष-बाण लिए किशोर अवस्था वाले हैं, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। उनको पहिचानते हो तो, उनका स्वभाव कहो ? प्रेम के विवराही राजा ने बारम्बार यही कहा।

जा दिन तें मुनि गए लिवाई * तब तें आजु साँचि सुधि पाई
कहहु विदेह कवन विधि जाने * सुनि प्रिय वचन दूत मुसुकाने

जिस दिन से मुनि ले गए हैं, तब से आज सच्ची खबर पाई है। कहो, राजा जनकजी ने उनको किस प्रकार पहिचाना ? राजा के प्रिय वचन सुनकर दूत मुस्कराने लगे।

दोहा—सुनहु महीपति मुकुट मनि, तुम्ह सम धन्य न कोउ।

रामुलखनु जिन्हके तनय, विश्व विभूषन दोउ ॥२६१॥

और बोलें-हे राजाओं में शिरोमणि ! सुनो, आपके समान धन्य कोई नहीं हैं, जिनके श्रीराम-लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के भूषण हैं।

पूछन जोगु न तनय तुम्हारे * पुरुष सिंह तिहुँ पुर उजियारे
जिन्ह के जस प्रताप के आगे * ससि मलीन रवि सीतल लागे

आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष-सिंह और त्रिलोकी के प्रकाश-स्वरूप हैं। जिनके पश और प्रताप के आगे चन्द्रमा मलिन और सूर्य शीतल लगता है।

दोहा—चारहि वार सनेह वस, जनक बुलावउ सीय ।

लेन आइहहि बन्धु दोउ, कोटि काम कमनीय ॥३०६॥

राजा जनक स्नेह के पत्र बारम्बार सीताजी को बुलायेंगे, तब करोड़ों कामदेवोंके समान सुन्दर दोनों भाई सीताजी को लिवाने के लिए आया करेंगे ।

विविध भांति होइहि पहुनाई * प्रिय न काहि अस सासुर भाई

तब तब राम लखनहि निहारी * होइहहि सब पुर लोग सुखारी

तब उनकी अनेक भांति से पहुनाई हुंवा करेगो, कही-ऐसी समुरात किसको प्यारी नहीं लगती ? तब श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजी को देखकर सब पुरवासी लोग मुप पायेंगे ।

सखिजसराम लखन कर जोटा * तैसेइ भूप सङ्ग दुइ ढोटा

श्याम गौर सब अङ्ग सुहाए * ते सब कर्हहि देखि जे आए

हे सखी ! जंसी श्रीराम-लक्ष्मणजी को जोड़ी है, ऐसे ही वो राजकुमार राजा के साथ हैं । साँवले और सब अंग सुहावने हैं, सब यही कहते हैं—जो उन्हें देख आये हैं ।

कहा एक मैं आजु निहारे * जनु विरञ्चि निज हाथ सँवारे

भरत रामही को अनुहारी * सहसा लखि न सकाहि नर नारी

एक सखी कहने लगो—मैंने आज ही देखे हैं । इतने सुन्दर हैं—मानो ग्रह्या ने अपने हाथों ही बनाये हैं । भरत और श्रीरामजी की मूर्ति—एक-सी मिसती हैं, कोई नर-नारी उन्हें सहज से पहचान नहीं सकते ।

लखनु शत्रुसूदन एक रूपा * नख सिख ते सब अङ्ग अनूपा

मन भावहि मुखवरनिनजाहीं * उपमा कहूँ त्रिभुवन कोउ नाहीं

लक्ष्मणजी और शत्रुघ्नजी का एक-सा रूप है नख से चोटी तक सब-अंग उपमा रहित हैं । मन में तो भले लगते हैं, परन्तु मुप से कहे नहीं जाते, उनकी उपमा के लिए तीनों लोकों में कोई नहीं है ।

छन्द—उपमा न कोउ कह दास तुलसी कहहुँ, कवि कोविद कहें ।

बल विनय विद्या सील सोभासिधु इन्ह सम एइ अहें ॥

पुर नारि सकल पसारि अञ्चल विधिहि वचन सुनावहें ।

व्याहिअहुँ चारिउं भाइ एहिं पुर हम सुमङ्गल गावहें ॥

सुसतोदासजी कहते हैं कि इनकी उपमा कोई नहीं है, तो कवि-पण्डित कैसे कह सकते हैं ? यह-बल, विनय, विद्या, शील और शोभा के समुद्र हैं, इनके समान यह ही हैं । जनकपुर की स्त्रियाँ—आंचल पसार कर ग्रह्या से यह प्रार्थना करने लगों कि यह चारों भाई इसी नगर में व्याहे जायें और हम सुन्दर मंगल-गीत गावें ।

सो०—कर्हहि परस्पर नारि, वारि विलोचनु पुलक तन ।

सखि सबु करव पुरारि, पुण्यपयोनिधि भूप दोउ ॥३॥

यह कहकर दूतने अपने कान बन्द कर लिये, यह धर्मयुक्त बात समझकर सबने सुख माना।
दोहा-तब उठि भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन्हि पत्रिका जाइ।

कथा सुनाई गुरुहि सब, सादर दूत बोलाइ ॥२६३॥

तब राजा ने वशिष्ठजी के पास जाकर उनको पत्रिका दी और दूतों को आबर सहित बुलाकर गुरुदेव को सब कथा सुनाई।

सुनि बोले गुरु अति सुखु पाई * पुण्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई
जिमि सरिता सागर महूँ जाहीं * जद्यपि ताहि कामना नाहीं

सुनकर गुरु बहुत प्रसन्न हुए और बोले-पुण्यवान् पुरुष के लिए सब पृथ्वी सुखों से भरी है। जैसे नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती हैं, यद्यपि समुद्र को नदियों की कुछ चाह नहीं रहती।

जिमिसुखसंपतिबिनाहिं बोलाएँ * धरमसील पहिं जाहिं सुभाएँ
तुम्ह गुरु विप्र धेनु सुर सेवी * तसि पुनीत कौशल्या देवी

उसी प्रकार सुख और सम्पत्ति बिना बुलाये, स्वभाव से ही धर्मात्मा पुरुष के पास आ जाती हैं। जैसे आप-गुरु, ब्राह्मण, गौ और देवताओं की सेवा करने वाले हैं, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं।

सुकृति तुम्ह समान जग माहीं * भयउ न है कोउ होनेउ नाहीं
तुम्ह ते अधिक पुण्य बड़ काके * राजन राम सरिस सुत जाके

तुम्हारे समान पुण्यात्मा संसार में कोई नहीं है और न हुआ है, न आगे होगा। हे राजन् ! तुमसे अधिक बड़ा पुण्य किसका है ? जिसके श्रीरामजी सरोचे पुत्र हैं।

वीर विनीत धरम व्रत धारी * गुनसागर वर बालक चारी
तुम्ह कहूँ सर्व काल कल्याणा * सजहु बरात बजाइ निसाना

वीर, विनय-शील, धर्म-व्रती और गुणों के समुद्र जिसके चारों पुत्र हैं। तुम्हारा सदैव कल्याण है, अब निशान बजाकर बरात सजाओ।

दोहा-चलहु वेगि सुनि गुरु वचन * भलेहिं नाथ सिरु नाइ।

भूपति गवने भवन तब * दूतन्ह वासु देवाइ ॥२६४॥

गुरु के वचन सुनकर 'हे नाथ ! बहुत अच्छा' ऐसा कहकर, सिर नवाकर और दूतों को बास दिलवाकर राम-महल में गये।

राजा सब रनिवास बोलाई * जनक पत्रिका बाँचि सुनाई
सुनि सन्देशु सकल हरषानीं * अपर कथा सब भूप बखानीं

राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनकजी का पत्र बाँचकर सबको सुना दिया। सन्देश सुनकर सब रानियाँ प्रसन्न हुई, तब राजा ने सब कथा व्यौरे-बार कही, जो दूतों से सुनी थी।

प्रेम प्रफुलित राजहिं रानी * मनहुँ सिन्धिह सुनि वारिद बानी
मुदित असीस देहिं गुरु नारी * अति आनन्द मगन महतारी

कोसलपति कर देखि समाजू ✽ अति लघुलागि तिन्हहि सुरराजू

इस प्रकार आदर से बरात को लेने चले और जनवाते में जहाँ बराती थे, वहाँ गये। राजा दशरथ का समाज देपकर उनको इन्द्र भी तुच्छ लगा।

भयउ समय अब धारिअ पाऊ ✽ यह सुनि परा निसानहि घाऊ

गुरहि पूछि करि कुलनिधिराजा ✽ चले सङ्ग मुनि साधु समाजा

वे बोले-समय होगया, अब पधारिये ! यह मुनकर नगाड़े पर चोटें लगें। राजा दशरथजी-गुप्त पशिष्ठजी से पूछकर अपने कुल की रीति करके मुनियों और साधु समाज के साथ चले।

दोहा—भाग्य विभव अवधेस कर, देखि देव ब्रह्मादि।

लगे सराहन सहस मुख, जानि जनमनिजवादि ॥३११॥

महाराज दशरथ का भाग्य और ऐश्वर्य देपकर ब्रह्मा आदि देवता अपने जन्म को तुच्छ जानकर हजारों मुपों से उनकी प्रशंसा करने लगे।

सुरन्ह सुमंगल अवसर जाना ✽ वरपहि सुमन वजाइ निसाना

सिव ब्रह्मादिक विविध बरूया ✽ चढ़े विमानहि नाना जूया

देवताओं ने जब सुन्दर मङ्गल का समय जाना, तब नगाड़े बजाकर पुष्प बरसाने लगे। शिव और ब्रह्मा आदि देवगणों के शृणु अपने २ विमानों पर जा चढ़े।

प्रेम पुलक मन हृदय उछाहू ✽ चले विलोकन राम विवाहू

देखि जनकपुर सुर अनुरागे ✽ निज निजलोकसर्वाहि लघुलागे

प्रेम से पुलकित हो, हृदय में उत्साह भरकर सब देवता श्रीरामजी के विवाह को देखने लगे। जनकपुर को देखकर देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए, उन सबको अपने २ लोक तुच्छ लगने लगे।

चितवहिचकित विचित्र विताना ✽ रचना सकल श्रलौकिक नाना

नगर नारि नर रूप निधाना ✽ सुधर सुधरम सुसौल सुजाना

मण्डप को अनेक प्रकार की सब अद्भुत रचना देपकर देवता चकित होकर देखने लगे। जनकपुर के सब स्त्री-पुरुष रूप-निधान, मुडोल, धर्मात्मा सुसौल और चतुर थे।

तिन्हहि देख सब सुर नर नारी ✽ भए नखत जनु विधु उजियारो

विधिहि भयउ आचरजु विसेपी ✽ निज करनी कछु फतहू न देखी

उन्हें देखकर सब देवी-देवताओं का तेज ऐसा फोका होगया-जैसे चन्द्रमा के उजाले से तारों का तेज मन्व पड़जाता है। ब्रह्माजी को बहुत आश्चर्य हुआ, उन्हें अपना बनाया हुआ फहों कुछ भी न देख पड़ा।

दोहा—सिबें समुझाए देव सब, जनि आचरजु भुलाहु।

हृदय विचारहु धीर धरि, सिय रघुवीर विवाहु ॥३१२॥

महादेवजी ने सब देवताओं को समझाया कि आश्चर्य में मत पड़ो। धीरज धरकर अपने २ मन में विचार करो कि यह श्रीमतीजी और श्रीरघुनाथजी का विवाह है।

बोथीं सींचीं चतुर सम, चौके चारु पुराइ ॥२६५॥

अपने-अपने घर लोगों ने मञ्जुलमय बनाकर सजाये, गलियों को चतुर-रस से सींचा और अपने आंगनों में सुन्दर चौक पुराए ।

जहँ तहँ जूथ जूथ मिलि भामिनि * सजि नव सप्त सकल दुति दामिनि
विधु वदनी मृगसावक लोचनि * निज स्वरूपरति मानु विमोचनि

बिजली की-सी कान्ति वाली, चन्द्रमुखी, मृग-नयनी और अपने स्वरूप से रति के मान को हरने वाली स्त्रियाँ सोलह-शृङ्गार सजाकर जहाँ-तहाँ शृण्ड बनाकर—

गावहि मञ्जुल मञ्जुल बानी * सुनि कलरव कलकण्ठ लजानी
भूप भवन किमि जाई बखाना * विश्व विमोहन रचेउ बिताना

मधुर वाणी से मञ्जुल-गान गाने लगीं, उनके मनोहर गान को सुनकर कोयल भी लज्जित होगई । राज-भवन की शोभा का वर्णन कैसे किया जाय ? जहाँ जगत् को मोहित करने वाला मण्डप रचाया गया था ।

मञ्जुल द्रव्य मनोहर नाना * राजत वाजत विपुल निसाना
कतहुँ विरिद वन्दी उचरहीं * कतहुँ वेद धुनि भूसुर करहीं

अनेक प्रकार की मनोहर वस्तुयें सुशोभित थीं और बहुत प्रकार से बाजे बज रहे थे । कहीं बन्दीजन वंशावली सुना रहे थे और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कह रहे थे ।

गावहि सुन्दरि मञ्जुल गीता * लै लै नासु रामु अरु सीता
बहुत उछाह भवन अति थोरा * मानहुँ उभगि चला चहुँ ओरा

सुन्दर स्त्रियाँ श्रीरामजी और सीताजीका नाम ले-लेकर मञ्जुल-गीत गारही थीं । राज-भवन बहुत छोटा और उसमें उत्सव बहुत बढ़ा था, अतः मानो उमड़कर चारों ओर फैल गया हो ।

दोहा—सोभा दसरथ भवन कइ, को कवि वरनै पार ।

जहाँ सकल सुर सीसमनि, राम लोन्ह अवतार ॥२६६॥

दसरथजी के भवन की शोभा का वर्णन भला कौन कवि कर सकता है ? जहाँ सब देवताओं के शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजी ने अवतार लिया है ।

भूप भरत पुनि लिए बोलाई * हय गध स्यनन्द साजहु जाई
चलहु वेगि रघुवीर वराता * सुनत पुलक पूरे दोउ भ्राता

फिर राजा ने भरतजी को बुलाकर आज्ञा दी कि जाकर घोड़े, हाथी और रथोंको सजाओ और शीघ्र ही रघुनाथजी की वरात को चलाओ । यह सुनकर दोनों भाई पुलकित होगये ।

भरत सकल साहनीं बोलाए * आयसु दीन्ह मुदित उठि धाए
रचि रचिजीन तुरंग तिन्ह साजे * वरन वरन वर वाजि विराजे

भरतजी ने सेनापतियों को बुलाया और आज्ञा दी वे प्रसन्न होकर उठ बैठे । उन्होंने सुन्दर जीन कसाकर घोड़े को सजाया, रथ-धिरों उत्तम घोड़े सजाकर सुशोभित किये ।

घोड़ों को नचा रहे हैं और बंस को बड़ाई करने वाले नाट लोग बिह्वापत्तो मुना रहे हैं ।
 जेहि तुरङ्ग पर राम विराजे * गमि विलोकि खगनायक लाजे
 कहि न जाइ सब भाँति सुहावा * वाजि वेपु जनु काम बनावा

जिस घोड़े पर श्रीरामजी विराजमान हैं, उसकी चाल को देखकर गधड़जी भी लज्जा गये। वह सब प्रकार से मुन्दर हैं जो कहा नहीं जा सकता मानों घोड़े का बेष बनाये हुए कामदेव ही हैं ।

छन्द-जनु वाजि वेपु बनाइ मनसिज रामहित अति सोहई ।

आपनें वय बल रूप गुन गति सकल भुवन विमोहई ॥

जगमगत जीनु जराव जोति सुमोति मन मानिक लगे ।

किंकिनि ललाम लगाम ललित विलोकि सुर नर ठगे ॥

मानो श्रीरामचन्द्रजी के लिए घोड़े का बेष बनकर कामदेव ही अत्यन्त मुरोमित है । अपनी मुन्दर अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से सब लोगों को मोहित कर रहा है । जिस पर मुन्दर मोतियों की मणि-मणिका आदि से जड़ो हुई जौन जगमगा रहो है । मुन्दर पुंघरु लगी लगाम देखकर देवता, मनुष्य और मुनि ठगे-से रह गये ।

दोहा-प्रभु मनसहिं लयलीन मनु, चलत वाजि छवि पाव ।

भूपित उड़गन तड़ित घनु, जनु वरवाजि नचाव ॥३१७॥

प्रभु के मन से मन लगाये चलता हुआ घोड़ा ऐसी मुन्दर शोभा पा रहा है-मानो तारों और बिजली से शोमित मेघ उत्तम मोर को नचा रहे हैं ।

जेहि वर वाजि रासु असवारा * तेहि सारदउ न वरनै पारा
 सङ्कर राम रूप अनुरागे * नयन पंचदस अति प्रिय लागे

जिस उत्तम घोड़े पर श्रीरामचन्द्रजी सवार हैं, उसका वर्णन कर सरस्वती भी पार नहीं पा सकती हैं । शिवजी-श्रीरामचन्द्रजी के रूप पर ऐसे मोहित हुए कि उन्हें अपने पन्द्रहों नेत्र बहुत ही प्रिय लगने लगे ।

हरि हित सहित रामु जब सोहे * रमा समेत रमापति मोहे
 निरखि रामछवि विधि हरपाने * आठइ नयन जानि पछिताने

भगवान् श्रीहरि ने स्नेह के साथ श्रीरामजी को देखा तो वे रमा सहित मोह गये । श्रीराम जो श्री छवि देखकर ब्रह्माजी प्रसन्न हुए और अपने आठ ही नेत्र जानकर पछिताने लगे ।

सुर सनेप उर बहुत उछाहू * विधि ते डेढ़व लोचन लाहू
 रामहि चितव सुरेस सुजाना * गौतम श्रापु परम हित माना

देवताओं के सेनापति कार्तिकजी के मन में बड़ा आनन्द हुआ, क्योंकि उन्हें ब्रह्माजी से सुयोड़े (शारह) नेत्रों से दर्शन प्राप्त हुआ । चतुर इन्द्र ने अपने हजारों नेत्रों से दर्शन करके गौतम के श्राप को परम हित माना ।

देव सकल सुरपतहिं सिराहहीं * आजु पुरंदर सम कोउ नजें

कलित करिवरन्हि परी अंबारी * कहिन जाहिं जेहि भांति सवारी
चले मत्त गज घण्ट विराजी * मनहुँ सुभग सावन घन राजी

सुन्दर हाथियों पर अम्बारी रखकर ऐसी सुन्दर सजाई कि कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी जब चलते, तब उनके गलों में बजते हुए घण्टों की ऐसी शोभा हुई, मानो सावन के सुन्दर मेघ गरज रहे हैं।

बाहन अपर अनेक विधाना * सिबिका सुभग सुखासन जाना
जिन्ह चढ़ि चले विप्रवर वृन्दा * जनु तनु धरें सकल श्रुति छन्दा

और भी अनेक भांति की सवारियाँ जैसे पालकी, सुख से बैठने योग्य सुखपाल, रथ आदि हैं। उन पर चढ़कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के झुण्ड चले, मानो वेदों के छन्द शरीर धारण किये हैं।

मागध सूत बन्दि गुन गायक * चले जानि चढ़ि जो जेहि लायक
बेसर ऊँट बृषभ बहु जाती * चले वस्तु भरि अगनित भांती

मागध, सूत, वन्दीजन, गुण गाने वाले, जो जिस योग्य थे, वे वंसी ही सवारी पर चढ़कर चले। अनेकों प्रकार के खच्चर, ऊँट और बैल अनगिनती भांति की वस्तुयें लादकर चले।

कोटिन्ह काँवरि चले कहारा * विविध वस्तु को बरनै पारा
चले सकल सेवक समुदाई * निज निज साजु समाजु बनाई

करोड़ों बहेंगी लेकर कहार चले, उनमें अनेक प्रकार की वस्तुयें थीं, जिन्हें कौन वर्णन कर सकता है? सब सेवकों के झुण्ड अपने-अपने समाज के साथ सजकर चले।

दोहा—सबके उर निर्भर हरष, पूरित पुलक शरीर।

कवाहिं देखिहैं नयन भरि, राम लखनु दोउ वीर ॥२८८॥

सबके हृदय में पूर्ण हर्ष है और शरीर पुलकित हैं। (सबको यही लालसा लगी है कि) हम श्रीराम-लक्ष्मण दोनों वीर भाइयों को कब नेत्र भरकर देखेंगे?

गरजाहिं गजघण्टा धुनि घोरा * रथ रव बाजि हिंस चहुँ ओरा
निदरि घनहिं घुम्महिं निसाना * निज पराइ कछु सुनिअ न काना

हाथी गरजने लगे, उनके घण्टों की ध्वनि, रथों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट चारों ओर होने लगी। मेघों का निरावर करते हुए नगाड़े बजने लगे, अपनी-पराई कुछ भी फानों से चुनाई नहीं देती।

महा भीर भूपति के द्वारें * रज होइ जाइ पषान पँडारें
चढ़ीं अटारिन्ह देखिहं नारी * लिएँ आरती मङ्गल थारी

राजा के दरवाजे पर ऐसी भारी मोड़ हुई कि यदि पत्थर भी फेंक दें तो पांवों से पिस कर रेत हो जाय। अटारियों पर चढ़कर स्त्रियाँ मङ्गल-आरती लिए देख रही हैं।

गावाहिं गीत मनोहर नाना * अति आनन्द न जाई बखाना
तब सुमन्त दुइ स्यनन्दन साजी * जोते रवि हय निन्दक बाजी

छन्द—को जान केहि आनन्द वस सब ब्रह्म वर परिछन चलो ।

कल गान मधुर निसान बरपाहि सुमन सुर शोभा भलो ॥

आनन्दकन्द विलोकि दूलह सकल हिये हरपित भई ।

अम्भोज अम्बुक अम्ब उमंगि सुअङ्ग पुलकावलि छई ॥

आनन्द के पस कौन किसको जाने, सब धीरामजी का परिछन करने लगीं । मनोहर गान होरहा है, याजे वज रहे हूँ देवता पुष्प बरसा रहे हूँ । आनन्दकन्द दूलह को देख सच हृदय में प्रसन्न हुई, उनके कमल नेत्रों से जल उमड़ चला और सुन्दर अङ्गों पर पुलकावलि छागई ।

दोहा—जो सुख भा सिय मातु मन, देखि राम वर वैपु ।

सो कहि सकाहि न कल्प सत, सहस सारदा सेपु ॥३१६॥

धीरामजी के दूलह-वेप को देखकर सीताजी की माताजी के मन में जो गुण दृष्टा, उस गुण को हजारों सरस्वती और शेषजी तो कल्पों में भी नहीं कह सकते ।

नयन नीर हठि मङ्गल जानी * परिछन करहि मुदित मन रानी

वेद विदित अरु कुल आचार * कीन्ह भली विधि सब व्यवहार

नेत्रों के जल को मङ्गल-समय जानकर रोककर प्रसन्न मन से रानी परिछन करने लगीं । वेद की रीति और कुल के आचार के अनुसार भली-भांति से सभी व्यवहार विधि पूर्वक किये ।

पंच सबदं धुनि मङ्गल गाना * पट पाँवड़े परहि विधि नाना

करि आरती अरघु तिन्ह दीन्हा * राम गवनु मण्डप तब कीन्हा

पंच-शब्द, पंच-धुनि और मङ्गल-गान हो रहे हैं । अनेक प्रकार के वस्त्रों के पाँवड़े पड़ रहे हैं । रानी आदि ने आरती करके अर्घ्य दिया, तब धीरामजी ने मण्डप में गवन किया ।

दसरथ सहित समाज विराजे * विभव विलोकि लोकपति लाजे

समयें समयें सुर बरपाहि फूला * शांति पढाहि महिसुर अनुकूला

महाराज दसरथजी अपने समाज सहित विराजमान हुए । उनके ऐश्वर्य को देखकर लोकोपास लज्जित हो गये । समय-समय पर देवता पुष्प बरसा रहे हैं और ब्राह्मण समयानु-कूल गान्ति-पाठ कर रहे हैं ।

नभ अरु नगर कोलाहल होई * आपनि पर कछु सुनइ न कोई

एहि विधि रामु मण्डपहि आए * अरघु देइ आसन वैठाए

आकाश और नगर में घुम-घाम हो रही है, अपनी-पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता । इस प्रकार धीरामजी मण्डप में आये और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाये ।

छन्द—वैठारि आसन आरती करि निरखि वर सुख पावहो ।

मनि वसन भूपन भूरि वारहि नारि मङ्गल गावहो

ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेप वनाइ कौतुक देख

बरात की बनावट कहते नहीं बनती, सुन्दर मङ्गलदायक सगुन हो रहे हैं। नीलकंठ बायीं ओर चारा ले रहे हैं, मानो सब मङ्गल कहे देते हैं।

दाहिन काग सुखेत सुहावा * नकुल दरसु सब काहू पावा
सानुकूल वह त्रिविध बयारी * सुघट सबाल आव वर नारी

बाहिनी ओर सुन्दर चेतों में कौआ शोभा दे रहा है और न्यौले का दर्शन सबको हुआ। अनुकूल तीनों प्रकार की पवन चलने लगी, जल से भरा हुआ घड़ा और बालक सहित सुन्दर स्त्री सामने आई।

लोवा फिरि फिरि दरसु दिखावा * सुरभी सन्मुख सिसुहि पिआवा
मृगमाला फिरि दाहिनि आई * मङ्गल गनु जनु दीन्ह दिखाई

लोमड़ी बरम्भार दिखाई देती है, गाय सामने बछड़े को दूध पिला रही है। हिरनों का झुण्ड दाहिनी ओर आ गया, मानो मङ्गलों का समूह दिखाई पड़ा हो।

छेमकरी कहँ छेम विसेयी * श्यामा वाम सुतरु पर देखी
सन्मुख आयउ दधि अरु मीना * कर पुस्तक दुइ विप्र प्रवीना

सगुन-चिरिया विशेष कुशल-ओम कह रही हैं और श्यामा बायीं ओर सुन्दर वृक्ष पर बीच पड़ी। वही, मछली और हाथों में पुस्तक लिए दो चतुर ब्राह्मण सामने बीच पड़े।

दोहा-मङ्गलमय कल्याण मय, अभिमत फल दातार।

जनु सब साँचे होन हित, भए सगुन एक वार ॥३०२॥

मङ्गल और कल्याण का देने वाले तथा इच्छानुसार फल देने वाले सब सगुन नान सत्य होने के लिए एक ही साथ हुए।

मङ्गल सगुन सुगम सब ताकै * सगुन ब्रह्म सुन्दर सुत जाकै
राम सरिस वर दुलहनि सीता * समधी बसरथु जनक पुनीता

इसको मङ्गल और सगुन सब सहज हैं-जिसके स्वयं सगुन-ब्रह्म सुन्दर पुत्र हैं। श्रीरामजी सरोखे ब्रह्मा और सीताजी सरोखी दुलहिन तथा दशरथ व जनक सरोखे पवित्र समधी हैं।

सुन अस व्याहु सगुन सब नाँचे * अब कोन्हे विरंचि हम साँचे
एहि विधि कोन्ह वरात पयाना * हय गय गाजहि हने निसाना

ऐसा विवाह सुनकर सब सगुन नाचने लगेकि अब हमको ब्रह्माने सच्चा कर दिया, इस प्रकार बरात ने कुँच लिया। घोड़े हिनहिना रहे हैं, हाथी चिंवाड़ रहे हैं और नगाड़े बज रहे हैं।

आवत जानि भानुकुल केतू * सरितन्ह जनक वैधाए सेतू
बीच बीच वर वास बनाए * सुरपुर सरिस सम्पदा छाए

बसरथजी को आते जानकर जनकजी ने नदियों पर पुल बंधवा दिये। बीच-बीच में सुन्दर विश्राम-गृह बनवा दिये, जितने देव-लोक के समान सम्पदा छा रही थी।

असन सयन वर वसन सोहाए * पावाहिं सब निजनिज मन भाए

मुनि का पूजन किया। विनती करके जारोवाँद पाया। विश्वामित्र को पूजा करते समय को परम प्रीति कही नहीं जाती।

दोहा—वामदेव आदिक ऋषय, पूजे मुदित महोस।

दिए दिव्य आसन सबहि, सब मन लही असोस ॥३१८॥

वामदेव आदि ऋषियों का पूजन राजा ने बड़ी प्रसन्नता से किया और सबको दिव्य आसन देकर वारोवाँद देकर आसन प्राप्त किया।

**बहुरि कोन्ह कौसलपति पूजा * जानि ईस सम भाउ न हुआ
कोन्हि जोरि कर विनय बड़ाइ * कहि निज भाग्य विभव बहुताई**

किर राजा ने वरारथजी को ईश्वर-भाव से पूजा की, दूसरा कोई भाव नहीं था। अपने भाग्य से वंश को तराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बढ़ाई की।

**पूजे भूपति सकल वराती * समधी सम सादर सब भांती
आसन उचित दिए सब काहू * कही काहू मुख एक उछाहू**

किर राजा ने सभी वरातियों का समधी के समान आदर कर पूजन किया। सबको उचित आसन दिये, उत उत्साह को मैं एक मुख से क्या कहूँ ?

**सकल वरात जनक सनमानी * दान मान विनती वर वानी
विधिहरिहरदिसिपति दिन राऊ * जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ**

राजा जनकजी ने दान, मान, विनय और मधुर वाणी से सब वरातियों का सम्मान किया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लोकपाल, सूर्य देवता—जो धीरामजी के प्रभाय जानते हैं।

**कपट विप्रवर वेप बनाए * कोतिक देखाहि अति सचु पाए
पूजे जनक देव सम जानें * दिए सुआसन विनु पहिचानें**

वेचनावटी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ भेष बनाय बहुत ही सुख प्राप्त करते तमारा देप रहेंगे। जनकजी ने देवताओं के समान जान उनका भी पूजन किया, बिना पहिचाने ही उत्तम आसन दिये।

**छन्द—पहिचान को केहि जान सबहि अपान सुधि भोरी भई।
आनन्दकन्द विलोकि दूलहु उभय दिसि आनंद मई ॥**

सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दए।

अवलोकि सीलु सुभाउ प्रभु की विबुध मन प्रमुदित भए ॥

कौन किसको जाने-पहिचाने? सबको अपनी ही सुधि पूत गई। आनन्दकन्द दूरहें को देखकर दोनों ओर आनन्द छा गया। चतुर धीरामजी ने देवताओं को देखकर मानसिक पूजन करके मानसिक आसन दिये। प्रभु का शील स्वभाव देप देवता मन में बहुत प्रसन्न हुए।

दोहा—रामचन्द्र मुख छविचन्द्र, लोचन चार चकोर।

करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न योर ॥३१९॥

अगवानियों ने सब वस्तुओं राजा दशरथ के आगे रखीं और प्रेम से विनती की ।

प्रेम समेत राई सब लीन्हा * मैं बकसीस जाचकन्हि दीन्हा
करि पजा भाग्यता बढ़ाई * जनवासे कहुं चले लवाई

राजा ने प्रेम सहित सब वस्तुओं ले लीं और याचकों को बकसीस दी । फिर अगवानियों ने बरातियों को बहुत सेवा और बढ़ाई की तथा जनवासे को लिया ले चले ।

बसन विचित्र पाँवड़े परहीं * देखि थनबु धन महु परिहरहीं
अति सुन्दर दीन्हेउ जनवासा * जहँ सब कहुं सब भाँति सुपासा

रंग विरंग वस्त्रों के पाँवड़े बिछाये गये, जिन्हें देखकर कुँवर भी अपनी सम्पत्ति का प्रमण्ड भूल गये । बहुत ही सुन्दर जनवासा दिया, जहाँ सबको सब प्रकार का आनन्द था ।

जानी सियँ बरात पुर आई * कछु निज महिमा प्रकट जनाई
हृदयँ सुभिरि सब सिद्धि बोलाई * भूप पहुँचई करन पठाई

सौताजी ने जनकपुरमें बरात आई हुई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखाई । हृदयमें स्मरण कर सब सिद्धियाँ बुलाई और राजा को पहुँचाई करने के लिए भेज दिया—
दीहा—सिधिसबसिय आयसु सुनत, गई जहाँ जनवास ।

लिए सम्पदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास ॥३०५॥

सब सिद्धियाँ-सौताजी की आज्ञा सुनते ही जनवासे में गईं और यह माया को कि देवलोक का सब भोग-विलास और सुख सम्पदा लेकर उपस्थित करदिया ।

निजनिज वास विलोकि बराती * सुर सुख सकल सुलभ सब भाँती
विभव भेद कछु कोउ न जाना * सकल जनक कर करहिं बखाना

बरातियों ने अपने २ रहने के स्थान देखे तो देवताओं के सब प्रकार के सुखों को वहाँ चुनन पाया । इस ऐश्वर्य का भेद किसी को नहीं जान पड़ा, सब जनकों बढ़ाई करने लगे ।

सिय महिमा रघुनाथक जानी * हरषे हृदय हेतु पहिचानो
पितु आगमनु सुनत दोउ भाई * हृदयँ न अति आनन्दु सभाई

श्रीरघुनाथजी-सौताजी की महिमा को जानकर और प्रेम पहिचान कर हृदय में प्रसन्न हुए । पिताजी का आगमन सुनते ही दोनों भाइयों के हृदयमें महान् आनन्द न समाताथा ।

लकुचन्ह कहिन सकत गुरुपाहीं * पितु दरसन लालच मन साहीं
विश्वामित्र विनय वडि देखी * उपजा उर सन्तोषु विसेपी

पिताजी को देखने की मन में बड़ी लालसा थी, परन्तु गुरु के सङ्कोच वश रुक नहीं सकते—विश्वामित्रजी ने जब बड़ी नम्रता देखी, तब उनके हृदय में अधिक सन्तोष हुआ ।

हरषि बन्धु दोउ हृदय लगाए * पुलक अंग अम्बक जल छाँए
चले जहाँ दशरथ जनवासे * मनहुँ सरोवर तकेउ पियासे

आवत देखि वरातिन्ह सीता * रूप रासि सब भाँति पुनीता

श्रीसीताजी की सुन्दरता वर्णन नहीं की जा सकती, क्योंकि मेरी बुद्धि छोटी है और सुन्दरता अधिक है। रूप की रासि और सब भाँति से परिचय सीताजी की वरातियों ने आती हुई देखा।

सबहि मनहिं मन कोन्ह प्रनामा * देखि राम भए पूरन कामा
हरषे दसरथ सुतन्ह समेता * कहि न जाइ उर आनँदु जेता

सबने मन ही मन प्रणाम किया श्रीरामचन्द्रजी को देख सब काम पूर्ण होगये। राजा बशरप पुत्रों सहित प्रसन्न हुए, उनके हृदय में इतना आनन्द हुआ कि यह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रनाम करि वरसाहिं फूला * मुनि असीस धुनि मङ्गल मूला
गान निसान कोलाहल भारी * प्रेम प्रमोद मगन नर नारी

देवता प्रणाम करके पुष्प वरसाने लगे मङ्गल के मूल मुनियों के आशीर्वाद को ध्वनि पूँज उठी। गानों व बाजों का कोलाहल हो रहा है, नर नारी सब प्रेम और आनन्द में मग्न हैं। एहि विधि सीय मण्डपाहिं आई * प्रमुदित शान्ति पढ़हिं मुनिराई
तेहिअवसर करिविविध व्यवहार * दुहुँ कुलगुरु सब कोन्ह अचारु

इस प्रकार सीताजी मंडप में आईं, तब मुनि प्रसन्ता पूरक स्वस्ति घाचन करने लगे। उस समय दोनों कुल गुरुओं ने वेद की विधि और कुल के व्यवहार के अनुसार सब रीति कीं।

छन्द-आचारु करि गुरु गौरि गनपति मुदित विप्र पुजावहों।

सुर प्रगटि पूजा लेहिं देहिं असीस अति सुख पावहों ॥

मधुपर्क मङ्गल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन चहुँ चहें।

भरे कनक कोपर कलस सो सब लिएहिं परचारक रहें ॥

ब्राह्मण प्रसन्ता पूरक सब रीति करके गुरु, गौरी गणेश की पूजा कराने लगे। देवता प्रकट होकर पूजा लेकर, आशीर्वाद देकर सुप पाने लगे। मधुपर्क व मङ्गल-द्रव्य जो जिस समय मुनि मन में इच्छा करते हैं, वह सब सोनेके कटोरों व कलशों में भरकर सेवक लोग लिये चढ़े रहते हैं।

कुलरीति प्रीति समेत रवि कहुँ देत सब सादर कियो।

एहि भाँति देव पुजाइ सीताहिं सुभग सिंघासनु दियो ॥

सिय राम अवलोकनि परस्पर प्रेम काहु न लखि परै।

मन बुद्धि वर वानी अगोचर प्रगटि कवि कैसें करै ॥

स्वयं मूपदेव ने जो कुल की रीति प्रेम सहित कही, वह सब उसे जाबर सहित करने लगे। इस प्रकार देव-पूजन कराकर सीताजी को मुनियों ने सिंहासन दिया। सीताजी और श्रीरामचन्द्रजी के परस्पर देखने के प्रेम को कोई भी न जान सका। जो मन, बुद्धि और वाणी से परे हैं, जसे कवि कैसें प्रगट करे ?

दोहा-होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेहिं ।

सुमन वरपि सुर हनहि निसाना * नाकनटी नाचहि करि गाना

पुत्रों समेत दशरथजी को देखकर नगर के नर-नारी बहुत प्रसन्न हुए । देवता पुष्प-वृष्टि कर बाजे बजाने लगे और स्वर्ग की नटी (अप्सरायें) गान करती हुई नाचने लगीं ।

सतानन्द अरु विप्र सचिव गन * मागध सूत विदुष वन्दोजन

सहित वरात राउ सनमाना * आयसु माँगि फिरे अगवाना

सतानन्दजी, ब्राह्मण, मन्त्रीगण, मागध, सूत, पण्डित और वन्दोजन—यह सब लोग वरात समेत राजा का सम्मान कर आज्ञा पाकर लौट चले ।

प्रथम वरात लगन तें आई * जातें पुर प्रमोद अधिकारि

ब्रह्मानन्दु लोग सब लहहीं * बढहुँ दिवसनि सि विधिसन कहहीं

वरात लगन से पूर्व आगई, इस कारण जनकपुर में अधिक आनन्द हुआ । सब लोग ब्रह्मानन्द का अनुभव करने लगे और ब्रह्मा से प्रार्थना करने लगे कि दिन-रात बढ़ जायें ।

दोहा—रामु सीय सोभा अवधि, सुकृति अवधि दोउ राज ।

जहँ तहँ पुर जन कहहि अस, मिलि नर नारि समाज ॥ ३० ॥

श्रीरामचन्द्रजी और सीताजी तो शोभा की सीमा हैं, और दोनों राजा पुण्य की सीमा हैं । जनकपुर वासी नर-नारियों के समूह मिलकर वहाँ यही कह रहे हैं—

जनक सुकृत मूरति बैदेही * दसरथ सुकृत राम धरें देही

इन्ह सम काहुँ न सिव अवरधि * काहुँ न इन्ह समान फल साथे

जनकजी के पुण्य की मूर्ति-सीताजी और दशरथजी के पुण्यों की मूर्ति-देह धारण किये श्रीरामजी हैं । इनके समान किसी ने शिवजी की आराधना नहीं की और न किसी ने इनके समान फल ही पाया है ।

इन्ह समकोउ न भयउ जगभाहीं * है नहि कतहुँ अब होनेउ नाहीं

हम सब सकल सुकृत कै रासी * भए जग जनमि जनकपुर वासी

इनके समान संसार में कोई नहीं हुआ, न कोई है और न होने वाला है । हम सब भी पुण्य की राशि हैं, जो जगत् में जन्म लेकर जनकपुर के वासी हुए ।

जिन्ह जानकी राम छवि देखि * को सुकृति हम सरिस विसेषी

पुनि देखव रघुवर विवाह * लेव भली विधि लोचन लाहू

जिन्होंने श्रीजानकीजी और श्रीरामजी की छवि देखी है, हमारे समान पुण्यवान् कौन है ? फिर हम श्रीरघुनाथजी का विवाह देखेंगे और भली-भाँति नेत्रों का फल पावेंगे ।

कहहि परस्पर कोकिल बयनी * एहि विआहँ बड़ लाभु सुनयनी

बड़े भाग्य विधि बात बनाई * नयन अतिथि होइहहि दोउ भाई

कोकिलके समान बोलने वाली स्त्रियाँ आपसमें कहने लगीं—हे सुनयनी ! इस विवाहसे बड़ा लाभ होगा । बड़े भाग्यसे विधाताने यह बात बनाई है, यह दोनों भाई हमारी आँखोंके अतिथि होंगे ।

ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनक जय जय सब कहैं ॥

जिनको छुकर गौतम-श्रुषि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमती थी, उत्तम गति प्राप्त की थी। जिन चरणारविन्दों के मकरन्द (श्रीगंगाजी) की तियजी ने अपने नस्तक पर धारण किया है, जिते देवताओं ने पतिव्रता की सोना कहा है, जिन चरणरामलों की मुनिजन अपने मन का भौरा बनाकर सेवन करके दृष्टानुसार गति पाते हैं, बड़े भाग्यवान् जनकजी उन्हीं चरणों का प्रक्षालन करने लगे, तब तब लोग जय-जयकार करने लगे।

वर कुअँरि करतल कोरि साखोचार दोउ कुलगुरु करै ।

भयौ पानिगहनु विलोकि विधि सुर मनुज मन आनंद भरै ॥

सुखमूल दूलह देखि दम्पति पुलक तनु हुलस्यो हियौ ।

करि लोक वेद विधानु कन्यादानु नृप भूपन कियौ ॥

वर और कन्या के हाथ मिलाकर दोनों कुल-गुरु पापों-चार करने लगे। पाणि-ग्रहण हुआ देखकर सब देवता, मनुष्य और मुनिजन आनन्द में भर गये। आनन्दकन्द दुल्हे को देखकर राजा-रानी का शरीर पुलकायमान हुआ और हृदय उमड़ने लगा। तदनन्तर राज-शिरोमणि जनकजी ने लोक और वेद की विधि से कन्यादान किया।

हिमवन्त जिमि गिरिज महेसहि हरिहि श्री सागर दई ।

तिमि जनक रामहि सिय समरपी विश्व कल कोरति नई ॥

क्यों करै दिनय विदेहु कियो विदेहु मूरति साँवरी ।

करि होम विधिवत गाँठ जोरी होन लागीं भाँदरी ॥

जैसे हिमाचल ने पायँती-नियजी को और समुद्र ने लक्ष्मी-श्रीहरि की थी, वैसे ही जनक ने सोताजी-श्रीरामजी को समर्पण की। यह सुनकर नई कोति संसार में फैल गई। विदेह चिन्तौ कैसे करे, क्योंकि साँवली मूर्ति ने तो उन्हें विदेह कर दिया है? फिर विधि-पूर्वक हवन करके गाँठ जोड़ी गई और भाँवरे होने लगीं।

दोहा—जय धुनि बन्दी वेद धुनि, मङ्गल गान निसान ।

सुनिहरपहिं वरपहिं विबुध, सुरतरु सुमन सुजान ॥३२२॥

जय-धुनि, बन्दी-धुनि, वेद-धुनि, मंगल-गान और बाजों का गन्ध सुनकर चतुर देवता बहुत प्रसन्न हुए और कल्पवृक्ष के पुष्प बरसाने लगे।

कुअँरि कुअँरि कल भाँवरि देहौ * नयन लाभु सब सादर लेहौ

जाइ न धरनि मनोहर जोरी * जो उपमा कछु कहौ सो थोरी

वर और कन्या सुन्दर भाँवरे दे रहे हैं और सब लोग आदर नहिं नेशों का नाम ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जाता, जो भी उपमा दो जाय—यह थोड़ा है।

राम सीय सुन्दर प्रतिछाहौं * जगमगाता मनि खम्भन नाहौं

मनहुँ मदन रति धरि बहुरूपा * देखत राम विजाहु अनूपा

स्त्रियां आपस में नेत्रों में जल भरकर रोमाञ्चित होकर कहने लगीं कि हे सखी । हमारे सब मनोरथ शिवजी पूर्ण करोगे, क्योंकि दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं ।

एहि विधि सकल मनोरथ करहीं * आनंद उमंगि उमंगि उर भरही
जे नृप सीय स्वयम्बर आये * देखि बन्धु सब तिन्ह सुख पाये

इस प्रकार सभी मनोरथ करती हैं और आनन्द से उमंग कर मन को प्रसन्न करती हैं । जो राजा सीता-स्वयम्बर में आये थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर बहुत सुख पाया ।

कहत राम जस विसद विसाला * निज निज भवन गए भहिपाला
गए बीत कछु दिन एहि भाती * प्रभुदित पुरजन सकल बराती

श्रीरघुनाथजी के निर्मल और भारी यश को कहते हुए सब राजा लोग अपने २ घर चले गये । इस भाँति नगर-वासियों और बरातियों के कुछ दिन आनन्द से बीत गये ।

मङ्गल मूल भगन दिनु आवा * हिम ऋतु अगहन मास सुहावा
ग्रह तिथि लगनु जोगु वर वारु * लगन सोधि विधि कोन्ह विचारु

सब मङ्गलों की जड़ लगन का दिन आगया, हेमन्त ऋतु में सुहावना अगहन का महीना था । शुभ-ग्रह, नक्षत्र, योग-उत्तम वार लगन शोध कर ब्रह्माजी ने विचार किया—

पठै दीन्हि नारद वर सोई * गनी जनक के गनकन्ह जोई
सुनी सकल लोगन्ह यह वाता * कहहि ज्योतिषी अहहि विधाता

नारदजी के हाथ यह लगन-पत्रिका भेज दी । जनकजी के ज्योतिषियों ने भी वही लगन विचार रखी थी । जब सब लोगों ने यह बात सुनी तो वह बोले कि ज्योतिषी तो दूसरे विधाता हैं ।

दोहा—धेनु धूरि बेला विमल, सकल सुमङ्गल मूल ।

विप्रन्ह कहेउ विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल ॥३१०॥

सभी सुमङ्गलों की मूल गो-धूलि बेला आई और अनुकूल सगुन होने लगीं, तब ब्राह्मणों ने राजा जनक से कहा—

उपरोहितहि कहेउ नरनाहा * अब विलम्ब कर कारन काहा
सतानन्द तव सचिव बोलाए * मङ्गल सकल साजि सब ल्याए

राजा जनक ने पुरोहित सतानन्दजी से कहा कि अब विलम्ब करने का क्या कारण है? सतानन्दजी ने मन्त्रियों को बुलाया, तो वे सब मान्दलिक वस्तुएं सजाकर ले आये ।

शंख निसान पवन बहु बाजे * मङ्गल सकल सगुन सुभ साजे
सुभग सुआसिनि गावहि गीता * करहि वेद ध्वनि विप्र पुनीता

शंख, नगाड़े, डोल आदि बहुत-से बाजे बजने लगे । सब लोग शुभ-सगुन के लिए मङ्गल-कलश सजाने लगे । सुहागिन-स्त्रियां गीत गाने लगीं, पवित्र ब्राह्मण वेद-ध्वनि करने लगे !

चले लेन सादर एहि भाँती * गए जहाँ जनवास बराती

जेहि नामु श्रुतिकीरति सुलोचनि सुमुखि सबगुन आगरी ।
सोइ दई रिपुसूदनहि भूपति रूप शील उजागरी ॥

जानकीजी की छोटी बहिन उर्मिला सब सुन्दरियों में शिरोमणि जानकर सब प्रकार गम्मान करके लक्ष्मणजी को ब्याह दी । जिसका नाम श्रुतिकीरति था और जो सुन्दर नेत्र एवं सुन्दर मुख वाली, सब गुणों की धान, रूप और शीलमें प्रसिद्ध थी, यह राजाने शत्रुघ्न की ब्याह दी ।

अनुरूप वर दुलहिन परस्पर लखि सकुचि हिये हरपहीं ।
सब मुदित सुन्दरता सराहहिं सुमन सुरगन वरपहीं ॥
सुन्दरी सुन्दर वरन सह सब एक मण्डप राजहीं ।
जनु जीव धरि चारिउ अवस्था विभुन सहित विराजहीं ॥

समान रूप वाले दूल्हा और दुल्हिन एक दूसरे की देखकर सकुचाते हुए मनमें प्रसन्न होने लगे । सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुन्दरता की बड़ाई करने लगे और देवता पुष्प-पर्पा करने लगे । सब सुन्दर दुल्हिन-दूल्हों के साथ एक ही मण्डप में गोनायमान हुईं, मानो चारों अवस्थाएँ अपने स्वामियों के सहित विराजमान हों ।

दोहा—मुदितअवधपतिसकल सुत, वधुन्ह समेत निहार ।

जनु पाए महिपालमनि, क्रियन्हसहितफलचारि ॥ ३२३ ॥

अयोध्या-पति महाराज दत्तवर्ज्यो सब पुत्रों की बहुओं सहित देखकर ऐसे प्रसन्न हुए, मानो नृप-श्रेष्ठ ने क्रियाओं के सहित चारों फल प्राप्त किये हों ।

जस रघुवीरव्याह विधि करनी ✽ सकल कुअर व्याहे तेहिं करनी
कहि न जाइ कष्टु दाइज भूरी ✽ रहा कनक मनि मण्डपु पूरी

जैसी श्रीरामजी के विवाह की विधि कही है, उसी रीतिसे सब राजकुमारों का विवाह हुआ । बहेज इतना अधिक था, जो कुछ कहा नहीं जाता, सुवर्ण और नगियों से मण्डप भर गया ।

कम्बल वसन विचित्र पटोरे ✽ भाँति भाँति बहु मोल न थोरे
रथ गज तुरंग दास अरु दासी ✽ धेनु अलंकृत काम दुहासी

कम्बल, वस्त्र, रंग-धिरंगे कपड़े, भाँति २ के, बहुमूल्य और बहुतन्ते पें । हाथी, रथ, घोड़े, दास और दासियाँ, अलंकारों से सजी-कामधेनु के समान गोयें आदि—

वस्तु अनेक करिअ किमि लेखा ✽ कहि नजाय जानहि जिन्ह देखा
लोकपाल अवलोकि सिहाने ✽ लीन्ह अवधपति सब सुख माने

बहुत-सो वस्तुयें थीं, जिनकी गिनती कहीं तक की जाय ? कहीं नहीं जा सकतीं, क्योंकि जिन्होंने देखा हो-बहो जानें । लोकपाल उन्हें देखकर प्रसन्न हुए, अयोध्यापति दत्तवर्ज्यो ने यह सब वस्तुयें मुँघ मानकर लीं ।

दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि भागा ✽ उवरा सो जनवासेहि आवा

जिन्ह करि नानु लेत जग माहीं * सकल अमङ्गल मूल नसाहीं
करतल होहि पदारथ चारी * तेइ सिय रामु कहेंउ कामारी

संसार में जितका नाम लेते ही सब अमंगलों की जड़ नष्ट हो जाती है और चारों पदारथ हयली पर आ जाते हैं। शिवजी कहते हैंकि यह वही श्रीसीताजी और श्रीरामजी हैं।

एहिविधिसम्भु सुरन्ह समुझावा * पुनि आगे वर बसह चलावा
देवन्ह देखे दसरथु जाता * महामोद मन पुलकित गाता

इस प्रकार शिवजी ने देवताओं को समझाया फिर अपने तन्दोरवर को आगे चलाया। देवताओं ने देखा कि दसरथुजी मन प्रसन्न और पुलकित शरीर चले आ रहे हैं।

साधु समाज सङ्ग महिदेवा * जनु तनु धरें करहिं सुख सेवा
सोहत साथ सुभग सुत चारी * जनु अपवरग सकल तनुधारी

संत-समाज व ब्राह्मण संगमें ऐसे शोभितहें मानो सुख देह धारण किये हुए उनकी सेवा कर रहे हैं। चारों मुन्दर पुत्रऐसे शोभायमान हो रहे हैं, मानो चारों मोक्ष शरीर धारण किये हों।

मरकत कमक वरन वर जोरी * देखि सुरन्ह भै प्रीति न थोरी
पुनि रामहि तिलोकि हियँ हरये * नृपहिं सराहि सुमन तिन्ह वरये

मरकत-मणिव सुवर्णके समान कांतिमान् जोड़ीदेखकर देवताओंको प्रीति हुई, फिर श्रीराम-चन्द्रजी को देखकर हृदयमें बहुतही शोषित हुए और राजाकी बड़ाई करते हुए फूल बरसाये।

दोहा—राम रूप नख सिख सुभग, वारहिं वार निहार।

पुलक गात लोचन सजल, उभा समेत पुरारि ॥३१३॥

श्रीरघुनाथजी का मुख से चोटी तक मुन्दर रूप बारम्बार निहार कर पार्वतीजी सहित शिवजी पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भर लाये।

केकि कण्ठ दुति श्यामलि अङ्गा * तड़ित विनिन्दक वसन सुरङ्गा
व्याह विभूषन विविध बनाए * भंगल सब सब भाति सोहाए

मोर के कण्ठ के समान कान्ति वाला साँवला शरीर और विजली की चमक को भी लज्जित करने वाले मुन्दर पीले रंग के वस्त्र हैं। व्याहके गहने अनेक प्रकार के मंगलमय और सब भांति से सुहावने बने हुए हैं।

सरद विमल विधु वदनु सुहावनु * नयन लवल राजीव लजावन
सकल अलोकिक सुन्दरताई * कहि न जाइ मन ही मन भाई

सरद-शुशुभा के उज्ज्वल चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख और नवीन-कमल को भी लज्जाने वाले नेत्र हैं। अब अनीसी मुन्दरता कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन नाता है।

बन्धु मनोहर सोहाहि संगी * जात नचावत चपल तुरंगा
राजकुअँर वर वाज देखावहिं * वंश प्रसंसक विरिद सुनावहिं

मनोहरभाई तावमें शोभायमान, चंचल घोड़ोंकी नचाते हुए जा रहे हैं। राजकुमार उत्तम

महाराज वंशरथजी जनयात्रे की चले, उस समय देवतागण पुष्प चरनाने लगे। नगाड़े बजने लगे, जय-जयकार और वेद-ध्वनि होने लगे, आकाश और नगर में आनन्दमय श्रुत-तमामे भली प्रकार होने लगे। तब यगिष्ठजी की आता पाकर स्रष्ट्रियां मंगल गान करती हुईं बुलहियों सहित ब्रूहों को कोहवर की ले चली।

दोहा—पुनिपुनिरामहिचितवसिय, सकुचत मन सकुचेन।

हस्त मनोहर मीन छवि, प्रेम पिआसे नैन ॥३२४॥

श्रीसोताजी चारम्बार श्रीरामचन्द्रजी को देखकर सकुचाती हैं, पर मन नहीं सकुचाता। प्रेम प्यासे नेत्र मनोहर मछली की शोभा को हर लेते हैं।

**स्याम शरीर सुभायें सुहावन * सोभा कोटि मनोज जलावन
जावक जुत पद कमल सुहाए * मुनिमन मधुपरहत जिन्ह छाप**

साँवला शरीर स्वभाव से ही सुन्दर है और शोभा करोड़ों कामदेवों को लगाने वाली है। मुहावर लगे हुए चरणकमल बड़े सुहावने हैं, उन पर मुनियों के मनश्ची भीरे छाये रहते हैं।

**पीत पुनीत मनोहर धोती * हरति वालरवि दामिनि जोती
कल किंनिनि कटिसूत्र मनोहर * बाहु विसाल विभूषण सुन्दर**

पीली पवित्र धोती तबेरे के नूर्य और विजली की ज्योति को हरने वाली है। कमर में सुन्दर तगड़ी और कटि-सूत्र हैं, लम्बी भुजाओं में आभूषण शोभायमान हैं।

**पीत जनेऊ महाछवि देई * कर मुद्रिका चोर चित लेई
सोहत व्याह साज सब साजे * उर आयत सब भूषण राजे**

पीत जनेऊ बड़ी शोभा दे रहा है, हाथकी अँगूठी चित्त को चुराये लेती है। विवाह का सय थूंगार सजे हुए शोभायमान हो रहे हैं, जोड़ी छाती पर सय आभूषण शोभा दे रहे हैं।

**पियर उपरना काखा सोती * दुहुँ आँचरन्हि लगे मनि मोती
नयन कमल कल कुण्डल काना * वदनु सकल सौंदर्य निधाना**

जनेऊ की भाँति पीला दुपट्टा कन्धे पर शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मनि और मोती लगे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, कानों में सुन्दर कुण्डल पड़े हैं और मुग्ध मय सुन्दरताओं का निधान है।

**सुन्दर भृकुटि मनोहर नासा * भाल तिलकु रुचिरता निवासा
सोहत मौह मनोहर माये * मङ्गलमय मुकुता मनि गाये**

सुन्दर भौंहे, मनोहर नासिका और मस्तक पर निवसित सुन्दरता का घर ही है। माँचे पर मनको हरने वाली और शोभायमान है, जो मांगलिक माँतो और मणियों से गुणा है।

**छन्द—गाये मनोहर मौह मञ्जुल अंग सब चित चोरहो ।
पुरनारि सुर सुन्दर वरहि विलोकि सब तृन नोरहो ॥**

सुदित देवगन रामहि देखी * नृप समाज दुहुँ हरष विसेषी

सब देवता इन्द्र से ईर्ष्या करने लगे कि आज इन्द्र के बराबर कोई नहीं है। देवता गण श्रीरामजी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और राजाओं के समाज में विशेष आनन्द छागया।

छन्द-अति हरषु राजसमाज दुहुँ दिसि दुन्दुभी बाजहि घनी।

वरषाहि सुमन सुर हरषि कहि जय जयति जय रघुकुलमनी ॥

एहि भाँति जानि बरात आबत बाजने बहु बाजही।

रानी सुआसिन बोलि परिछिन हेतु मङ्गल साजही ॥

घोनों और के राज-समाजों में बड़ा आनन्द छा रहा है, बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न हो रघुवंश-मणि श्रीरामजीकी जय बोलकर पुष्प बरसा कर रहे हैं। इस भाँति बरात को आती जानकर बहुत से बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परिछिन के लिए मङ्गल वस्तुयें सजाने लगीं।

दोहा-सजि आरती अनेक विध, मंगल सकल सँवारि।

चलीं सुदित परिछिन करन, गज गामिनि वर नारि ॥ ३१५ ॥

अनेक प्रकार से आरती सब मङ्गल वस्तुयें सँभाल कर गजगामिनी सुन्दर स्त्रियाँ प्रसन्न हो परिछिन करने चलीं।

विधु बदनो सब सब मृगलोचनि * सबनिजतनुछविरतिमदु मोचनि

पहिरें वरन वरन वर चीरा * सकल विभूषन सजे सरीरा

सब स्त्रियाँ चन्द्रमुखी, मृग-नयनी हैं और अपने शरीर को शोभा से रति के गर्व को भी घटाने वाली हैं। रङ्ग विरंगे सुन्दर वस्त्र पहने हैं, उनके शरीर में सब आभूषण सजे हुए हैं।

सकल सुमङ्गल अङ्ग बनाएँ * करहि गान कलकण्ठ लजाएँ

मङ्गल किविकन नूपर बाजहि * चालि विलोकि कामगजलाजहि

सब अङ्गों को सुन्दर, मङ्गलमय बनाये ऐसा मधुर-गान कर रही हैं कि जिसे सुनकर कोयल भी लज्जित हो रही हैं। कंकण, कर्धनी और विद्युआ बज रहे हैं, उनको चाल को देखकर कामदेव के हाथी भी लज्जित हो रहे हैं।

बाजहि बाजने विविध प्रकारा * नभ अरु नगर मङ्गलचारा

सची शारदा रमा भवानी * जे सुर तिय सुचि सहज सयानी

अनेकों प्रकारके बाजे बज रहे हैं, आकाश और नगर में चारों ओर सुन्दर मङ्गलाचार हो रहा है। इन्द्राणी, सरस्वती लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही चतुर व पवित्र देवाङ्गनायें हैं।

कपट नारि वर वेष बनाई * मिलि सकल रनिवासहि जाई

करहि गान कल मङ्गल वानी * हरष विवस सब काहुँ न जानीं

वे सब बनावटी स्त्रियों का सुन्दर वेष बनाकर रनिवास में जा मिलीं व मनोहर वाणीसे मङ्गल गान करने लगीं। स्त्रियाँ आनन्द में ऐसी प्रसुप्त हो रही थीं कि उन्हें किसी ने नहीं जाना।

सोभा मङ्गल मोद भरि, उमंगेउ जनु जनवास ॥३२५॥

तब तब राजकुमार बहुओं सहित अपने पिता के पास आये। उन समय सोभा, मङ्गल और आनन्द से भरकर जनवासा मानो उमड़ चला।

पुनि जेवनार भई बहु भाँती * पठए जनक बोलाइ बराती
परत पाँवड़े वसन अनूपा * सुतन्ह समेत गवन कियो भूपा

फिर बहुत प्रकार के भोजन बने, जनकजी ने बरातियों को बुलाया भेजा। तब अनुपम वस्त्रों के पाँवड़ों पर अपने पुर्वों सहित दत्तारपत्री चले।

सादर सबके पाँव पखारे * जया जोग पीड़न्हि वैठारे
धोए जनक अवधपति चरना * सीलु सनेहु जाइ नहिं वरना

आदर सहित सबके पाँव धोये और पधोचित पीड़ों पर बँटाया। जनकजी ने दत्तारपत्री के पाँव धोये, उनका गोल और स्नेह कहा नहीं जाता।

वहुरि राम पद पङ्कज धोए * जे हरि हृदय कमल महुं गोए
तीनिउ भाइ राम सम जानी * धोए चरन जनक निज पानी

फिर श्रीरामजी के चरणकमल धोये, जो शिवजी के हृदय-कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्रीरघुनाथजी के समान जानकर जनकजी ने उनके चरण अपने हाथोंसे धोये।

आसन उचित सबहि नृप दीन्हे * बोलि सूपकारी सब लीन्हे
सादर लगे परन पनवारे * कनक कील मनि पान सँवारे

राजा जनक ने सबको उचित आसन दिये, फिर सब परोसने वालों को बुलाया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगीं, जो पत्तल सोने की कीलों से गड़ी हुई व मणियों के पत्तों की थीं।

दोहा—सूपोदन सुरभो सरपि, सुन्दर स्वादु पुनीत।

छन महुं सबके परसि गे, चतुर सुआर विनीत ॥३२६॥

अच्छा, स्वादिष्ट, निर्मल दाल-भात और गाय का घी-चतुर, विनीत रसोइयें सबके आगे दाप नर में परोस गये।

पंच कवल करि जेवन लागे * गारि गान सुनि अति अनुरागे
भाँति अनेक परे पकवाने * सुधा सरिस नहिं जाहिं बखाने

'पंच-पासी' करके सब लोग भोजन करने लगे, गारियाँ सुनकर सब बहुत प्रसन्न हुए। अनेकों प्रकार के अमृत के समान पकवान परोसे गये, जिनका बखान नहीं हो सकता।

परसन लगे सुआर सुजाना * व्यंजन विविध नाम को जाना
चारि भाँति भोजन विधि गई * एक एक विधि वरनि न जाई

चतुर रसोइयें अनेकों प्रकार के व्यञ्जन परोसने लगे, जिनका नाम कौन जान सकता है? चार प्रकार के भोजन की विधि रूठी गई है, जिनमें एक-एक विधि के अनेकों पराणों को पचान नहीं किया जा सकता।

अवलोकित रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखही ॥

आसन पर बंटाकर, आरती कर, दूल्ह को देखकर सब स्त्रियां तृप्त पाने लगीं। वे मणि वस्त्र आदि बहुत-सी वस्तुओं न्यौठावर करके मङ्गल गाने लगीं। ब्रह्मादिक देवता ब्राह्मण का वेष बनाकर तनागा देवने लगे और रघुकुल-कमल-नास्कर श्रीरामजी की छवि को देखकर अपना जन्म सफल मानने लगे।

दोहा-नाळ वारी भट नट, राम निछावरि पाई ।

मुदित असीसहिं नाइ सिर, हरपु न हृदय समाइ ॥३१७॥

नाळ, वारी, भट, नट आदि श्रीरामजी को न्यौठावर पाकर प्रसन्न हो सिर नवाकर आशीर्वाद देने लगे और हृदय में हर्ष से फूले नहीं समाते।

मिले जनक दशरथ अति प्रीती * करि वैदिक लौकिक सब रीती
मिलत महा दोउ राज बिराजे * उपमा खोजि खोजि कवि लागे

राजा जनक और दशरथजी बड़े प्रेम से वैदिक-लौकिक आदि सब रीति करके मिले। मिलते समय दोनों महाराजाओं की जो शोभा हुई, उसकी उपमा खोजकर कवि लज्जित हो गये।

लही न कन्हुं हारि हिये मानो * इन्ह सम एह उपमा उर आनी
शानधि देखि देव अनुरागे * सुमन बरषि जसु गावन लागे

जब कहीं उपमा न पाई, तब मन में हार मानली और मन में यह मान लिया कि इनके समान यही है। दोनों समर्थियों को देखकर देवता प्रसन्न हुए और पुष्प वृष्टि कर यज्ञ गाने लगे।

जगु विरंचि उपजावा जब ते * देखे सुने व्याह बहु तब ते
सकल भांति सम साजु समाजू * सम समधी देखे हम आजू

ब्रह्माजी ने जब से जगत् को उत्पन्न किया है-तब से बहुत-से व्याह देखे और सुने, परन्तु तब भांति से समान साज-समाज के और बराबर के समधी हमने आज ही देखे।

देव गिरा सुनि सुन्दर सांची * प्रीति अलौकिक दुहुंदिशि माची
देत पांवड़े अरघु सोहाए * सादर जनक मण्डपहि लाए

देवताओं की सुन्दर और सच्ची बाणी सुनकर दोनों और अलौकिक प्रीति छागड़े। सुन्दर पांवड़े और अर्घ्य देते हुए राजा जनक आदर सहित महाराज दशरथजी की मण्डप में लाये।

छन्द-मंडपु विलोकि विचित्र रचना रचिरतां मुनि मत हरे ।

निज पानि जनक मुजान सब कहुं आनि सिहासन धरे ॥

कुल इष्ट सरित वसिष्ठ पूजे विनय करि आसिस लही ।

कौसिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति तौ न परै कही ॥

मण्डप ही अपनी रचना और सुन्दरता देखि मुनियों के मन हार गये। मुजान जनकजी ने सब के लिए अपने हाथों से सिहासन लाकर रखे। फिर कुल-गुरु इष्टदेव के समान वसिष्ठ

ये अनेको कतारों विधाते, घोंड़े नचाते, मयुर २ मुस्कराते और परस्पर बात-चीत करते हुए जनवासते पहुँच गये ।

सखन सहित तहँ उतरि तुरंग ते मियिलापति के वारे ।

चारिहु सुत युत अवधराज को सादर जाय जुहारे ॥

मियिलेशकुमार (लक्ष्मीनिधि) ने सद्याओं सहित घोड़ों से उतर कर चारों पुत्रों सहित अयोध्या पति बशरपजी को प्रणाम किया ।

अति सुखनिधि लखि लक्ष्मीनिधि को सखन सहित सत्कारे ।

रघुकुलदोष महीप हाय गहि निज समीप बैठारे ॥

अत्यन्त आनन्द की ध्यान लक्ष्मीनिधि को देखकर रघुकुल-दोषक महाराज बशरप ने सद्याओं सहित उनका सम्मान किया और परकड़कर अपने पास बँठाया ।

तेहि छिन सानुज निरखि रामछवि सखन सहित सुखमाने ।

लक्ष्मीनिधि मुख दरस पाय कै रामहु नयन जुड़ाने ॥

उस समय भाइयों सहित श्रीरामजी की शोभा देखकर सद्याओं सहित लक्ष्मीनिधि ने यड़ा मुग्ध माना और लक्ष्मीनिधि के दर्शन पाकर श्रीरामजी के नेत्र भी शीतल हो गये ।

तब श्रीनिधि कर जोरि भूप सों कोमल वैन उचारे ।

करन कलेऊ हेतु पठावहु चारिहु राजदुलारे ॥

तब लक्ष्मीनिधि ने हाय जोड़कर महाराज से कोमल वचन कहे कि चारों राजकुमारों को कलेऊ करने के लिए भेजिये ।

सुनि मृदु वचन प्रेम रस साने दसरथ मृदु मुसुकाने ।

चारिहु कुँवर बुलाय वेगि ही विदा किये सुख माने ॥

बशरपजी प्रेम से सने हुए कोमल वचन सुनकर मन्द-मन्द मुस्कराये और उन्होंने चारों कुमारों को शीघ्र ही बुलाकर मुग्ध मानकर भेजा ।

जनक नगर को जानि तैयारी सेवक सब सुख पागे ।

निज निज प्रभुहि संवारन लागे लै भूषण वर बागे ॥

जनकपुर जाने की तैयारी जानकर सब सेवक प्रसन्न हुए और धँष्ट वस्त्राभूषण लेकर अपने-अपने स्वामियों को सजाने लगे ।

रघुनन्दन सिर पाग जरकसी लसी त्रिभङ्गी बांधी ।

जिमि नौरङ्गी झुकी कलङ्गी रचि रचि पेचिन सांधी ॥

श्रीरघुनाथजी के सिर पर तीन लठ वाली जरकसी पाग मजारकर बांधी, उतमें भी रङ्ग की कलङ्गी झुकाकर सजाई और सिर-पेची की संनात कर बांधी ।

दोहा—वरनि सकै को राम कौ, अनुपम दूलह वेप ।

जेहिलखि सिवसनकादिको, रहत न तनुहि सरेप ॥ १ ॥

श्रीरामचन्द्रजी के मुख की शोभा को नेत्र रूपी चकोर आदर सहित पान कर रहे हैं। प्रेम और आनन्द थोड़ा नहीं है।

समउ विलोकि वशिष्ठ बोलाए * सादर सतानन्दु सुनि आए
वेगि कुअँरि सब आनहु जाई * चले सुदित सुनि आयसु पाई

समय जानकर वशिष्ठजी ने सतानन्दजी को बुलाया। वे मुनकर आदर सहित आये (वशिष्ठजी ने कहा-) अब जाकर जन्मी राजकुमारी को ले आइए। यह आज्ञा सुनकर वे प्रसन्न मन से चले।

रानी सुनि उपरोहित बानी * प्रसुदि सखिन्हु समेत सयानी
विप्रवधू कुलवृद्ध बोलाई * करि कुल रीति सुमङ्गल गाई

पुरोहित की बात सुनकर सखियों सहित चतुर रानी बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणियों एवं कुल की वृद्ध स्त्रियों को बुलाकर कुल की रीति करके सुन्दर मङ्गल-गीत गाने लगीं।

नारि वेप गै सुरवर वाभा * सकल सुभायँ सुन्दरी स्यामा
तिन्हहि देखि सुख पावहि नारी * विनु पहिचानि प्रानहु ते प्यारी

श्रेष्ठ देवाङ्गनायें जो स्त्री-वेप में वहाँ थीं, वे सब स्वभाव से ही सुन्दर और प्यारी थीं। उनको देखकर स्त्रियाँ प्रसन्न होती और मुग्ध पाती थीं। बिना पहिचाने ही सबको प्राणों से अधिक प्रिय लगती थीं।

वार वार सनमानहि रानी * उभा रभा सारद सम जानी
सीय संवारि सम्राजु बनाई * सुदित मण्डपहि चली लवाई

रानी उनको पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती के समान जानकर उनका वारम्बार सम्मान करती थीं। वे सब जानकीजी का मली-भाँति श्रद्धार करके प्रसन्नता पूर्वक मण्डप में तिया ले चलीं।

छन्द-चलि ल्याइ सीतहि सखी सादर सजि सुमङ्गल भासिनी ।
नव सप्त साजहि सुन्दरी सब भक्त कुँजर गामिनी ॥
कल गान सुनि सुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजहि ।
मंजीर नूपुर कलित कङ्कन ताल गति वर बाजहि ॥

सुन्दर सखियाँ और स्त्रियाँ-सोलह श्रद्धार किये मतवाले हाथों की चाल वाली सुन्दर मङ्गल-गायिका आदर के साथ सीताजी को लिया ले चलीं। उनका मनोहर गान सुनकर मुनियों के भी ध्यान टूट जाते हैं और कामदेव की क्रोयल लज्जित हो जाती है। मंजीरी, नूपुर और सुन्दर कङ्कन ताल और गति के अनुसार बजने लगें।

दोहा-सोहत यनिता वृन्द भहुँ, सहज सुहागन सीय ।

छवि ललता गन मव्य जनु, सुपमा तिय कमनीय ॥३२०॥

स्त्री-रामायण में महज ही सुन्दरी श्रीसीताजी ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो कान्तिरूपी स्त्रियों के गुण्ड के बीच सुन्दर सीमा स्त्री-रूप धारण किये चुनौतित हैं।

सिय सुन्दरता वरनि न जाई * लघु मति बहुरि मनोहर ताई

यदि कहीं तनिक भी हाथ उठाते है, तो यह कई हाथ उठ जाता है और फिर बार-बार पुचकारने पर भी नहीं मानता है।

लखी घोड़ा लखनलाल काँ बाँकी निपट चलाकी।

उड़ उड़ जात वायुमण्डल को परत न पग महि ताकी ॥

श्रीलखनलाल का बाँका घोड़ा 'लखी' बड़ा चालाक है। उसका पैर पृथ्वी पर नहीं पड़ता और बारम्बार वायु-मण्डल में उड़ जाता है।

तरफराय उड़ि जाय परत है लक्ष्मीनिधि हय पाहीं।

उचित विचारि हँसे रघुवंशी रामहुँ मृदु मुसुकाहीं ॥

वह कुछ तड़फड़ा कर लक्ष्मीनिधि के घोड़े के पास जा पड़ता है, इसे उचित विचार कर रघुवंशी हँसते और धोरामजी भी मधुर २ मुस्कराते हैं।

तकि तुरङ्ग की चंचलताई लखन की देखि चढ़ाई।

निमिवंशी रघुवंशी सिंगरे ठगि से रहि बिकाई ॥

घोड़े की चंचलता और लखनलालजी का चढ़ना देखकर सब निमिवंशी और रघुवंशी ठगे-से बिक गये।

राम आदि जे कुँवर लाड़िले तेउ लखि भरें उछाहें।

रीझि रीझि तहँ लखनलाल को वारहि वार सराहें ॥

धोरामचन्द्रजी आदि लाड़िले कुँवर भी देखकर उत्साह भरते हैं और प्रसन्न हो-होकर लखनलालजी की सराहना करते हैं।

इमि मग होत विलास विविध विधि विपुल वाजने वाजें।

सुनत नकीव पुकारि नगर तिय चलि वैठी दरवाजें ॥

इस नाति मार्ग में अनेक प्रकार के आनन्द होते हैं और तरह २ के वाजे बजते हैं। नफीरी की ध्वनि सुनकर नगर की स्त्रियां घर से निकलकर अपने-अपने द्वारों पर भा बंधीं।

कोउ तिय निरखि बदन काँ सुपमा अति सुख महँ सो पागी।

भरी सनेह देह सुधि नाही राम रूप अनुरागी ॥

कोई स्त्री सुघ को गोभा देखकर अत्यन्त सुघ में ऐसी मर गई कि अपनी देह को भी सुधि न रही और रामचन्द्रजी के रूप की अनुरागी हो गई।

कोउ तिय देखि अतूला दूल्हा अति सनेहु तन भूला।

फूला नैन मीन मन भूला लागि प्रीति की हूला ॥

कोई स्त्री उपमा रहित दूल्हे को देखकर अत्यन्त प्रेम से शरीर की सुधि भूल गई और नेत्र गुले के गुले रह गये, मन में काम जागा, प्रीति को लाठी हृदय में भा लगी।

कोउ घूँघट पट खोलि सुन्दरी मणि मुदरी लीं पानी।

देखत दूल्हा रूप राम को आनन्द सिन्धु समानी ॥

विप्र त्रेप धरि वेद सब, कहि विवाह विधि देहि ॥३२१॥

होम के समय शरीर धारण कर अग्निदेव अत्यन्त मुच्य पूर्वक आहुति लेने लगे और प्राण का हय धारण कर सबवेद-विवाह की विधि बतलाने लगे ।

जनक पाट महिषी जग जानी * सीय सातु किमि जाइ बखानी
सुजसु सुकृत सुख सुन्दरताई * सब समेटि विधि रची बनाई

जनकजी की प्राणप्रसिद्ध पटरानी जो सीताजी की माता हैं उनका वर्णन कैसे किया जाय ?
मानो प्रह्लादी ने सुन्दरकीर्ति, सत्कर्म, सुख, सुन्दरता—इन सबको इकट्ठा करके उनको रचा है ?

समउ जानि मुनिवरन्ह बोलाई * सुनत सुआसिन सादर ल्याई
जनक वाम दिति सोह सुनयना * हिमगिरि सङ्ग बनो जनु मयना

समय जानकर मुनिवरों ने उनको बुलाया, सुनते ही मुहागिन स्त्रियाँ आदर सहित उन्हें ले आईं । जनक की बायीं ओर रानी सुनयना ऐसे सुशोभित हुई—मानो हिमाचल के साथ मयना सुशोभित हो ।

कनक कलस मनि कोपर करे * सुचि सुगन्ध मङ्गल जल पूरे
निज कर मुदित रायँ अरु रानी * धरे राम के आगे आनी

पवित्र, सुगन्धित और मङ्गलिक जल से भरे हुए सोने के कलश और मणियों की सुन्दर परात—राजा और रानी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथों से श्रीराम जी के आगे रखी ।

पढ़हि वेद मुनि मङ्गल बानी * गगन सुमन अरि अवसर जानी
वर विलोकि दम्पति अनुरागे * पायँ पुनीत पखारन लागे

पुनि मङ्गल वाणी से वेद पढ़ने लगे, अवसर जानकर आकाश से पुष्पों की झड़ी लग गई । कुम्ह को देखकर राजा-रानी प्रेम में मग्न हो गये और पवित्र चरणों को धोने लगे ।

छन्द—लागे पखारन पायँ पङ्कज प्रेम मनु पुलकावलि ।

नभ नगर गान निसान जब धुनि उमँगि चहुँदिसि ते चली ॥

जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहीं ।

जे सुकृत सुभिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहीं ॥

ये चरणकमलों को धोने लगे, तो दोनों के शरीर में प्रेम से रोनांच हो गया । आकाश और नगर में गानों तथा बाजों की जय-जयकार की ध्वनि चारों ओर फैल गई । जो चरणकमल शिवजी के हृदयस्थान मानसरोवर में सदैव विराजते हैं और जिनका स्मरण करते ही मन निर्मल हो जाता है तथा कलियुग के अत्र पाप दूर हो जाते हैं ।

जे परसि मुनि बनिता लही गति रही जो पातक मई ।

मकरन्द जिन्ह को सम्भु सिर सुचिता अवधि सुर वरनई ॥

करि मधुप मन मुनि जोगिजन जे सेइ अभिसत गति लहैं ।

राजकुँवर रघुवंशिन्ह के तहें भये ठाड़े मतवारै ॥

द्वार के निकट अत्यन्त गुन्दर मणिमय धोक पूरे हुए देखकर ये रघुपग के मतवारै राजकुमार वहां पड़े हो गये ।

उत रजाय लहि सिया मातु की नगर सुआसिन नारी ।

कञ्चन कल्प सजे सिर ऊपर पल्लव दीप सँवारी ॥

उधर धीसोताजी की माता की आज्ञा लेकर नगर को मुहागिन स्त्रियों ने पल्लव-दीपों सहित कंचन के घड़े सजाकर सिरों पर रखे ।

गावत मङ्गल गीत मनोहर कर लै कंचन थारी ।

परिछन चलीं हेतु रघुवर के बहु आरती सँवारी ॥

हाथों में सोने के घात लेकर, आरती संभाल कर ये मनोहर मङ्गल-गीत गाती हुई धोरघुनामजी के परिछन हेतु चलीं ।

जाइ समीप निहारि राम छवि दृग आनन्द जल बाढ़ी ।

छकित रही वर वदन विलकति चकित रही तहें ठाड़ी ॥

समीप जाकर धोरामजी की मुन्दरता को देखकर नेत्रों में आनन्दाभ्र भर आये । वे उनको अनुपम मुन्दरता को देखकर छक गईं और चकित होकर पड़ी रह गईं ।

राम रूप रंग गइँ रँगोली लखि दूलह सुखसारा ।

तन मन रहीं न सरेख काहु को करै को मङ्गलचारा ॥

मुप के मूल दूलह को देखकर ये रँगोली धोरामजी के रूप में रंग गईं । कित्ती को तन-मन की मुग्धि न रही, तो फिर मङ्गलचारा कौन करे ?

प्रेम पयोधि मगन सब प्यारीं धरि पुनि धीरज भारी ।

परिछन चलीं भली विधि कोन्ही रोकि विलोचन वारी ॥

सब प्यारी सधियाँ प्रेम-सागर में मग्न हो गईं, फिर भारी धर्यं धारण कर जोर नेत्रों का जत रोक कर सब भली-भाँति से परिछन करने चलीं ।

लक्ष्मीनिधि तव उतरि तुरँग ते चारिउ कुँवर उतारे ।

पाणि पकरि रघुनन्दनजी कौ भीतर महल सिधारे ॥

तब लक्ष्मीनिधि ने घोड़े से उतरकर चारों राजकुमारों को उतारा और धोरामधन्वजी को हाथ पकड़ कर भीतर महल में ले चले ।

जहँ पिकवैनी सब सुख ऐनी वैठी सुनैना रानी ।

इन्द्रानी की कौन चलावै लखि रति रूप लुभानी ॥

जहाँ समस्त मुषों की धान, मधुर-भाषिणी रानी मुनयना बँधी थी । उनका रूप ही देखकर इन्द्राणी तो क्या, स्वयं रति भी रूप को देखकर मोहित हो जाती थी ।

चन्द्रमुखी चहँ और विराजै कोउ कर चमर डुलावै ॥

राजकुंवर रघुवंशिनह के तहें भये ठाढ़े मतवारे ॥

द्वार के निकट अत्यन्त सुन्दर मणिमय चोक पूरे हुए देखकर ये रघुवंश के मातयाने राजकुमार यहां पड़े हो गये ।

उत रजाय लहि सिया मातु की नगर सुआसिन नारी ।

कञ्चन कलप सजे सिर ऊपर पल्लव दीप सँवारी ॥

उधर श्रीसीताजी की माता की आत्मा लेकर नगर को मुहागिन स्त्रियों ने पल्लव-दीपों सहित कंचन के पड़े सजाकर सिरों पर रखे ।

गावत मङ्गल गीत मनोहर कर लै कंचन धारी ।

परिछन चलीं हेतु रघुवर के बहु आरती सँवारी ॥

हाथों में सोने के धाल लेकर, आरती संनात कर ये मनोहर मङ्गल-गीत गाती हुई धीरधुनायजी के परिछन हेतु चलीं ।

जाइ समीप निहारि राम छवि दृग आनन्द जल बाढ़ी ।

छकित रही वर वदन विलकति चकित रहीं तहें ठाढ़ी ॥

समीप जाकर श्रीरामजी की सुन्दरता को देखकर नेत्रों में आनन्दाब्ध भर आये । ये उनको अनुपम सुन्दरता को देखकर छरु गई और चकित होकर पड़ी रह गईं ।

राम रूप रंग गई रंगीली लखि दूलह सुखसारा ।

तन मन रघौ न सरेख काहु को करै को मङ्गलचारा ॥

सुख के मूल दूलह को देखकर ये रंगीली श्रीरामजी के रूप में रंग गईं । कित्तो को तन-मन की सुधि न रहो, तो फिर मङ्गलचारा कौन करे ?

प्रेम पयोधि मगन सब प्यारीं धरि पुनि धीरज भारी ।

परिछन चलीं भली विधि कोन्ही रोकि विलोचन धारी ॥

सब प्यारी सधियां प्रेम-सागर में मग्न हो गईं, फिर भारी धंभ धारण कर जोर नेत्रों का जल रोक कर सब भली-भांति से परिछन करने चलीं ।

लक्ष्मीनिधि तव उतरि तुरंग ते चारिउ कुंवर उतारे ।

पाणि पकरि रघुनन्दनजी को भीतर महल सिधारे ॥

तब लक्ष्मीनिधि ने घोड़े से उतरकर चारों राजकुमारों को उतारा और धीरामचन्द्रजी को हाथ पकड़ कर भीतर महल में ले चले ।

जहें पिकवैनी सब सुख ऐनी वैठी तुनैना रानी ।

इन्द्रानी की कौन चलावै लखि रति रूप लुभानी ॥

जहां नमस्त सुत्रों की ध्यान, मधुर-भावियो रानी सुनयना बंधी थीं । उनका रूप को देखकर इन्द्राणी तो क्या, स्वयं रति भी रूप को देखकर मोहित हो जाती थीं ।

चन्द्रमुखी चहुँ ओर विराजै कोउ कर चमर बुतावे ॥

तब करजोरि जनकु मृदु बानी * बोले सब बरात सनमानी

उसमें से जो जिसको भला लगा, वह याचकों को दिया और जो बच रहा—वह जनवासे आया। तब हाथ जोड़कर राजा जनकजी मधुर-वाणी से सब बरात का सम्मान करके बोले-

छन्द—सनमानि सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाइ कै ।

प्रसुद्धित महामुदि बृन्द लन्दे पूजि प्रेम लड़ाइ कै ॥

सिंह नाइ देव मनाइ सब सन कहत कर सम्पुट किए ।

सुर साधु चाहत भाव सिन्धु कि तोष जल अंजलि दिए ॥

सब बरात का मान, विनय और बढ़ाई करके सम्मान किया, फिर आनन्दित होकर बड़े-बड़े मुनियों को प्रणाम करके प्रेम सहित पूजन किया। फिर सब देवताओंको सिर नवाकर और सम्मान कर, हाथ जोड़ सबसे कहा कि देवता और साधु-जन तो प्रेम चाहते हैं। क्या समुद्र अंजलि भर जल देने से सन्तुष्ट होता है।

कर जोरि जनकु बहोरि बन्धु समेत कोसलराय सों ।

बोले मनोहर वचन सानि सनेह शील सुभाय सों ॥

सम्बन्ध राजनु रावरें हम बड़े अब सब विधि भए ।

एहि राज साजु समेत विवेक जानिये बिनु गथ लए ॥

फिर जनकजी भाई सहित हाथ जोड़कर महाराज दशरथजी से स्नेहयुक्त शील-स्वभाव से मनोहर वचन बोले-हे राजन् ! आपके साथ सम्बन्ध करके हम अब सब प्रकार से बड़े होगये। आप हमको इस वैभव समेत दिना मोल का अपना दास जानिए।

ए दारिका परिचारिका करि पालवीं करना नई ।

अपराध छुमिबोली पठए बहुत हों ढीठचौ कई ॥

पुनि भानुभूषन नृप सकल सनमान निज समधीं किए ।

कहि जात न नहि विनती परस्पर प्रेम परिपूरन हिए ॥

इन कन्याओं की अपनी दहलनी समझकर इनका पालन करना। आपको जो हमने बुला भेजा, तो हमारा अपराध क्षमा करना, क्योंकि हमने बहुत ढिठाई की। सूर्यकुल-भूषण दशरथजी ने अपने समधी (जनक) का सब प्रकार से सम्मान किया। आपस में प्रेम भरे हृदय से जो विनती की, वह कही नहीं जा सकती है।

चुन्दारका गन सुमन वरधाहि राउ जनवासेहि चले ।

दुन्दुभी जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले ॥

तब नारि अंगल गान करत मुनीस आयसु पाइ कै ।

दूलहदुलहिनिन्ह सहित सुन्दरि चलीं कोहवर ल्याइ कै ॥

रोझि रोझि तहें राम रूप पे विन ही मोल विकानी ॥

रानी उस साँवली मूरत को बंधकर तिनका तोड़ने लगीं और श्रीरामजी के रूप पर रोझ कर विना मोल ही विक गई ।

पुनि कर जोरि निहारि राम सों बोली अति मृदु सोई ।

उठहु लाल अब करहु कलेऊ जो जो रचि हिय होई ॥

फिर हाथ जोड़कर अति मधुर वाणी बोली—हे साजन ! जब उठो, और मन में जो इच्छा हो, सो कलेऊ करो ।

यह सुनि लखन समेत उठे तहें चारिहु राजदुलारे ।

भरी भाग्य अनुराग सुनैना निज कर पाँय पखारे ॥

यह सुनकर चारों राजकुमार सधियों सहित उठे और बड़ भागिनी सुनयना रानी ने प्रेम पूर्वक अपने हाथों से चरण धोये ।

रचना अधिक पदक के पीढ़न्ह वैठारे सब भाई ।

कंचन थारी मृदुल सुहारी परसों विविध मिठाई ॥

विचित्र रचना युक्त सिंहासनों पर सब भाई बंठाये और सोने की धालियों में अनेक प्रकार की पूड़ी व मिठाइयाँ परोसीं ।

रचि अनुरूप भूपसुत जैवत पवन दुलावै सासू ।

वूझि वूझि रचि व्यंजन परसै वरनि न जाइ हुलासू ॥

रचि के अनुसार राजकुमार जोमते हैं, सात पंचा करती हैं और रचि पूछ-पूछ कर पकवान परोसती हैं । उस समय का आनन्द कहा नहीं जा सकता ।

स्वाद सराहि पानि पुनि अँचय सखियन पान खवाये ।

वैठे पहिरि पोशाक सखनयुत विविध सुगन्ध लगाये ॥

स्वाद की सराहना करके राजकुमार जोमते हैं, फिर आचमन किया, सधियों ने पान पिलाये । तब वे सधियों सहित पोशाक पहनकर बैठे, (सधियों) ने अनेक इत्र बस्तियों में लगाये ।

दोहा—राज ऐन सब चैन युत, राजत राजकुमार ।

जिनको हास विलास लखि, लाजहि लाखन मार ॥ ३ ॥

राजकुमार इस प्रकार राज भवन में आनन्द पूर्वक विराजते हैं, तिनका हास-विलास देखकर साधों कामदेव लज्जित हो जाते हैं ।

तेहि औसर सुधि पाय सखी मुख लक्ष्मीनिधि की नारी ।

नाम सिद्धि परसिद्ध जासु गुण रूप शील उजियारी ॥

उस समय गुण, रूप, शील में प्रतिष्ठ लक्ष्मीनिधि की स्त्री (सिद्धि) की एक लगी के मुख ने समाचार पाया ।

भाग सुहाग भरी सुठि सुन्दरि नव यौवन मतवारी ।

रसिकन रीति प्रीति परवीनी रतिहि लजावनिहारी ॥

मनि बसन भूषन वारि आरति करहि मंगल गावहीं ।

सुर सुमन बरषाहि सूत मागध बन्दि सुजस सुनावहीं ॥

बहुमूल्य मणियों से गुँथा हुआ सुन्दर और सभी अंग चित्त को चुरा रहे हैं। नगर की स्त्रियाँ देवाङ्गनायें दूल्हों को देखकर तिनके तोड़ रहीं हैं। मणि, वस्त्र, गहने न्यौछावर करके आरती कर रही हैं। और मंगल गारही हैं। देवता पुष्प बरसा रहे हैं और सूत, मागध व भाट यश सुना रहे हैं।

कोहवरहि आने कुअँरि कुअँर सुआसिनन्ह सुख पाइ के ।

अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाइ के ॥

लहकौरि गौरि सिखाव रामहि सीय सन सारद कहैं ।

रनिवासु हास विलास रस बस जन्म को फलु सब लहैं ॥

सुहागिन स्त्रियाँ प्रसन्न होकर दूल्ह और दुल्हिनों को कोहवर में लाई और बड़े प्रेम से मंगल-गीत गाकर लौकिक रीति कराने लगीं। पार्वतीजी-श्रीरामजीकी लहकौर ग्राम-लेना) सिखा रही है और सरस्वतीजी-सीताजी को लहकौर सिखाती हैं। रनिवास हास-विलास में मग्न हैं, सभी जन्म लेने का फल पाने लगीं।

निज पानि मनि महुँ देखियत मरति सुरूप निधान की ।

चालति न भुजबल्ली विलोकनि विरहँ भय बस जानकी ॥

कोतुक विनोदु प्रमोदु प्रेम न जाइ कहि जानहि अली ।

वर कुअँरि सुन्दर सकल सखीं लिवाइ जनवासेहि चलीं ॥

अपने हाथ को मणि में सुन्दर रूप-निधान श्रीरामचन्द्रजी की परछाहीं देखकर सीताजी दर्शन-वियोग होने के भय से अपने हाथ को नहीं हिलातीं। उस समय का आमोद प्रमोद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, इसे तो वे सखियाँ ही जानें। सब सखियाँ दूल्ह और दुल्हिनों को जनवासे लिवा ले चलीं।

तेहि समय सुनिय असीष जहँ तहँ नगर नभ आनन्दु महा ।

चिरु जिअहुँ जोरीं चारु चारिहु सुदित मन सबहीं कहा ॥

जोगीन्द्र सिद्ध मुनिस देव विलोकि प्रभु दुन्दुभि हनी ।

चले हरषि वरषि प्रसून निजनिज लोक जय जय जय भनी ॥

उस समय आशीर्वाद की ध्वनि जहाँ-तहाँ सुनाई दे रही थीं, नगर व आकाश में महा आनन्द हो रहा था। प्रसन्न मन से सब वही कह रहे थे कि सुन्दर चारों जोड़ी चिरजीवी रहें। योगीराज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्रीरामजी के दर्शन कर नगाड़े बजाये और आनन्द पूर्वक पुष्प बरसाये, फिर वे 'जय-जय' बोलते हुए अपने-अपने २ लोकों को चले।

दोहा-सहित बधूटिन्ह कुअँर सब, तब आए पितु पास ।

श्रीरघुनाथजी के बचन सुनकर मधुर वाणी से मुस्करा कर बातों-हे तातती । तुम्हारे पर को रीति यहाँ चलाये नहीं चलेगी ।

सासु सुनयना के समीप महँ देत जवाब वनै ना ।

पाणि पकरि रघुनन्दनजी कौ गई लिवाय निज एँना ॥

सामु सुनयना रानी के सामने उत्तर देते नहीं बनता; इसलिए वह श्रीरघुनाथजी का हाथ पकड़ कर अपने महलों में लिया लेगई ।

चारि सिंहासन दै तहँ आसन भरी हुलासन प्यारी ।

वारहिं वार निहार वदन छवि बहु आरती उतारी ॥

यहाँ चार सिंहासनों के आसन देकर आनन्दोत्थास से भर गईं और बारम्बार उनके मुख की छवि देख र कर अनेक प्रकार से आरती उतारीं ।

मेलि सुकण्ठ मालती माला वसननि अतर लगायौ ।

आँचर सों मुख पौँछ राम कौं निज कर पान खवायौ ॥

सुन्दर गते में मालती की माला डालकर, कपड़ों में दूध लगाया और श्रीरघुनाथजी का मुख अञ्चल से पौँछ कर अपने हाथों से पान पिलाया ।

ललित लवङ्ग कपूर सङ्ग धरि कोउ सखी पान लगावै ।

कोउ कर पीक-दान लिए ठाढ़ी कोउ सखि चँवर डुलावै ॥

कोई सखी सुन्दर लौंग, कपूर और कस्तूरी रखकर पान लगाती है, कोई पीक-दान हाथ में लिए पड़ी है और कोई सखी चँवर डुलाती है ।

जे निमिराज निवत सुनि आईं कोटिन्ह राजकुमारी ।

राम मिलन को वड़ी लालसा कहि न सकें सकुचारी ॥

राजा निमिराज के यहाँ जो राजकुमारियाँ न्योते में आई थीं, उनको श्रीरामचन्द्रजी से मिलने की इच्छा थी, पर संकोच के कारण कह नहीं सकती थी ।

तिन्ह यह सुन्यौं कि सिद्धि सदन में आये चारिहु भाई ।

तुरतहि पहुँच गईं सब प्यारी जानि सबै सुखदाई ॥

उन्होंने जब यह सुना कि सिद्धि के महल में चारों भाई आये हैं, तो सबके लिए मुख-बापक जानकर तुरन्त ही सब यहाँ पहुँच गईं ।

देखी राजकुँवरि सब आईं राम दरस की प्यासी ।

अति सम्मान कियो सब ही कौं सिद्ध सदन सुखरासी ॥

सिद्धि ने श्रीराम-दर्शन की प्यासी सब राजकुमारियों को भाई देवा तो सबों का बहुत आदर किया, सिद्धि का महल मुख का भण्डार होगा ।

मणिन मोह पर मोतिन कलह्नी अलवेली अति सोहे ।

राज-तियन की कौन चलावै मुनियन की मन मोहे ॥

छरस रुचिर बिजनु बहु जाती * एक एक रस अगनित भाँती
जैवत देहिं मधुर धुनि गारी * लै लै नाम पुरुष अरु नारी

सुन्दर षट्तरस व्यंजन हैं, एक-एक रस अनगिनती प्रकार के हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले-लेकर स्त्रियाँ मधुर स्वर से गारी देने लगीं।

समय सुहावनि गारि विराजा * हँसत राउ सुनि सहित समाजा
एहि बिधि सबहीं भोजन कीन्हा * आदर सहित आचमनु लीन्हा

समय की सुहावनी गारी ऐसी शोभा दे रही हैं कि उनको सुनकर महाराज दशरथजी समाज सहित हँसने लगे। इस तरह सवने भोजन किया और आदर सहित आचमन लिया।

दोहा—देइ पान पूजे जनकु, दशरथु सहित समाज।

जनवासेहि गवने सुदित, सकल भूष सिर ताज ॥३२७॥

जनकजी ने पान देकर दशरथजी को समाज सहित जा पूजा, तब चक्रवर्ती दशरथजी प्रसन्न होकर जनवासे को चले।

❀ अथ राम-कलेवा—क्षेपक ❀

भौरु भये अपने कुमार को जनक बेगि बुलवाये।

सुनि पितु के सन्देश लक्ष्मीनिधि सखन सहित तहँ आये ॥

प्रातः होने पर राजा जनकजी ने अपने पुत्र को बुलाया, पिता का सन्देश सुनकर लक्ष्मीनिधि सखाओं सहित वहाँ आये।

सादर किये प्रणाम चरण छुइ लखि बोले मिथिलेशू।

गवनहु तात तुरत जनवासे जहँ श्री अबध नरेसू ॥

आकर चरण छूकर सादर प्रणाम किया। यह देखकर जनकजी बोले—हे तात ! शीघ्र ही जनवासे में जाओ, जहाँ अयोध्या-पति महाराज दशरथजी हैं।

विनय सुनाय राय दशरथ सों पाय रजाय सचेतू।

आनिहु चारिहु राजकुमारन करन कलेऊ हेतू ॥

राजा दशरथजी को विनय सुनाकर और उनकी आज्ञा पाकर चारों राजकुमारों को कलेऊ करने के लिए बुला लाओ।

यह सुनि शीश नाइ लक्ष्मीनिधि भरि उर मोद उमड़ा।

सखन समेत मन्द हँसि गवने चढि चढि अपल तुरड़ा ॥

यह सुनकर सिर नवाकर लक्ष्मीनिधि सखाओं सहित हृदय में आनन्द की उमंग भरकर मुस्करा कर चंचल घोड़ों पर चढ़कर चल दिये।

कलन दिखावत हय थिरकावत करत अनेक तमासे।

मृदु सुसुकात वरात परस्पर पहुँच गये जनवासे ॥

तहें संयोग होत है ताकों व्याह तो कर्म अधीना ॥
लक्ष्मणजी ने कहा-हे लाडिलो ! मुनो, जिस विधि से-जहाँ अह्या ने लिख रिया है,
यहाँ हो उसका संयोग होता है, और विवाह तो कर्म के आधीन है ।

कहें हम राजकुंवर रघुवंशी कहें विदेह वैरागी ।
भयी हमारौ व्याह तुम्हारे विधि गति गनै को भागी ॥
देखो, कहां तो हम रघुवंशी राजकुमार और कहां वंशराघवान् जनकजी ! तुम वंशराजियों
के यहाँ हमारा व्याह हुआ है, विधाता की गति को कौन जाने ?

औरौ एक हास उर आवै अचरज है सब काहू ।
तुम तौ हौ सिधि वे लक्ष्मीनिधि नारि नारि भौ व्याहू ॥
और भी एक हँसो हृदय में आतो है और सबको आश्चर्य भी है कि तुम 'निधि' और
तुम्हारे पति 'लक्ष्मीनिधि' दोनों स्त्री-वाचक हैं, तो स्त्री का विवाह स्त्री से कैसे हुआ ?

एक सखी कह सुनहु लालजी तुमहि सकै को जीती ।
जाहिर अहै सकल जग माहीं तुम्हरे घर की रीती ॥
एक सखी बोली-हे लालजी ! मुनो, तुमको कौन जीत सकता है ? सारे संगार में
तुम्हारे घर की रीति प्रकट है ।

अति उदार करतूतिदार सब अवधपुरी की वामा ।
खीर खाय पैदा सुत करतौ पति कर कछु नहि कामा ॥
अयोध्या की स्त्रियाँ बड़ी उदार करतूत वाली हैं, जो पति पर प्यार ही पुत्रपंश कर देतीं
हैं पति का तो कुछ भी काम नहीं है ।

सखी वचन सुनि तव रघुनन्दन बोले मृदु मुसुकातें ।
आपिन चाल छिपावहु प्यारी कहहु आन की बातें ॥
तब सखी के वचन सुनकर श्रीरघुनाथजी बोले-हे प्रिये ! अपनी चाल छिपाकर औरों
की बात कहती हो ।

कोउ नहि जन्में मातु पिता विनु बंधी वेद की रीती ।
तुम्हरे तौ महि ते सब उपजें अस हमरें नहि रीती ॥
पेशों में यह रीति बंधी है कि माता-पिता के बिना कोई जन्म नहीं लेता । लेकिन
तुम्हारे यहाँ तो सब पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं । हमारे यहाँ ऐसी नहीं है ।

बोली चन्द्रकला तेहि औसर परम चतुर सुकुमारी ।
सिद्धि कुंवरि की लहुरी भगिनी लक्ष्मीनिधि की सारी ॥
उन समय परमचतुर मुकुमारी 'चन्द्रकला' को रानी सिद्धि की छोटी बहन और
लक्ष्मीनिधि की सखी थी, यह बोली-

लरिकाई ते रहे लालजी तुम तपसिन्ह संग माहीं ।
ये छल छन्द फन्द कहें पायो सत्य कहीं हम पाहें ॥

श्रीरामजी के अनुपम दूल्ह-वेष का वर्णन कौन कर सकता है ? जिसे देखकर शिवजी और सनकादिकों को भी अपने शरीर की सुधि नहीं रहती ।

इमि सलि अनुज सहित रघुनन्दन चारिहुँ राजदुलारे ।

बढ़े उमङ्गन चढ़े तुरङ्गन अङ्गन बसन सँवारे ॥

इस प्रकार छोटे भाइयों सहित सजकर श्रीरघुनाथजी सहित चारों राजकुमार अपने अङ्गों और वस्त्रों को सँभालते हुए घोड़ों पर चढ़कर उमङ्ग में भरकर चले ।

जो रघुवंशी कुँवर लाड़िले प्रभु कहँ प्राण पियारे ।

चढ़े तुरङ्ग सङ्ग तेउ गमने राम रङ्ग मतवारे ॥

जो रघुवंश के कुँवर—प्रभु श्रीरामजी के प्राण-प्रिय थे, वे भी श्रीरामजी के प्रेम में मत-वाले होकर घोड़ों पर चढ़कर साथ चले ।

राम बाम दिसि श्रीलक्ष्मीनिधि सखन सहित तेउ सोहँ ।

चंचल बागें किये तुरग की बातें करत हँसोहँ ॥

श्रीरामजी की बायों ओर लक्ष्मीनिधि भी अपने सखाओं सहित शोभायमान हैं । घोड़ों की बागें ढीली किये, ठठोली करते हुए सब चले जा रहे हैं ।

जग बन्दन जेहि नाम जाहिरौ रघुनन्दन कौ बाजी ।

ताकी गुण छबि कहँ लौं वरणौं जेहि होत मन राजी ॥

श्रीरामजी के जगत-प्रसिद्ध 'जगवन्दन' नामक घोड़े की छबि और गुण कहां तक कहें, उसे देखते ही मन प्रसन्न होजाता है ।

निज रुख पावै तित पहुँचावै क्षण आवै क्षण जावै ।

जमिजमि थमि थमि थिरकि भूमि पर गनित ततिन दरसावै ॥

वह जिधर का रुख पाता है, उधर ही तत्क्षण पहुँच जाता है और थम-थम कर, नाच नाच कर पृथ्वी पर अनेक प्रकार की गति दिखलाता है ।

फाँदत चंचल चारु चौकड़ी चपलहु के चख झाँपै ।

भरत कुँवर कौ तुरग रँगौली वरणि जाइ कहु कापै ॥

फाँदने में चंचल और चौकड़ी भरने में बिजली की भी आंख झपाने वाला भरतजी का रङ्गीला घोड़ा है । कहो, उसका वर्णन कौन कर सकता है ?

चम्पा नाम चाल चटकीली जेहि पर रिपुहन भाये ।

सब समाज के आगे निरतै मोर कुरङ्ग लजाये ॥

जिस घोड़े पर शत्रुधनजी चढ़े हैं, उसका नाम 'चम्पा' है और उसकी चाल चटकीली है । वह हिरन और मोर को भी लजाता हुआ सारे समाज के सामने नाचता हुआ चलता है ।

जो कहँ नैकहु हाथ उठावत कई हाथ उठि जातौ ।

बार बार पुचुकार दुलारत ताहू पै न जुडातौ ॥

इनको मुन्दर देखकर 'ताड़का' नाम की स्त्री कामोन्मत्त होकर जाई, मो ताल में जब यह करतूत न हो सके, तो प्रियता कर उसे मार दिया।

बोले रिपुहन सुनहु भामिनी नाहक दोष न कीजै ।
जो करतूति वनी नहिं उनसे हमसे भरि लीजै ॥
शत्रुघ्नजी बोले-हे भावनी ! मुनो, क्या दोष मत दो । यदि उनसे यह करतूत न हुई हो तो तुम हमारी परीक्षा से लीजिए ।

बिन जाने करतूति सबन को तुम्हरे घर भी व्याहू ।
सोउ पछिताउ न रहै पियारी अब करि लेहु समाहू ॥
बिना करतूत जाने हो तुम्हारे घर हम सबका बियाह हुआ है । अतः हे प्यारी ! अब करतूत की परीक्षा करलो, जिससे बाद में पछताया न रहे ।

जाके हित तुम्ह रोप बढ़ावहु सो मति करहु उपाई ।
वैसिन सेवा में तुम्हरे हम हजारि चारिउ भाई ॥
जिसके कारण तुम रोप बढ़ाती हो, उसका उपाय मत करो । हम चारों भाई बने ही तुम्हारी सेवा में उपस्थित हैं ।

सुनि वाणी रिपुदमनलाल की बोली कोउ कुमारी ।
कहू पाई ऐसी चतुराई कहिये लाल विचारो ॥
शत्रुघ्नजी की वाणी सुनकर कोई सुकुमारी बोली-हे लालजी ! इतनी चतुराई कहाँ से प्राप्त की है, सो विचार कर कहो ?

की कहूँ मिली नारि गुण आगरि की गणिकन संग कीनों ।
तीनों भाइन्हू तें तुम्हरे महें लखियत चिन्हू नवीनों ॥
या तुम्हें कोई गुणों की पान स्त्री मिली है अथवा किनी गणिका का नाथ किया है ? क्योंकि तीनों भाइयों में से तुममें नये चिन्हू पाये जाते हैं ।

रिपुहन कहन भलि कह्यो भामिनी भेदिया भेदहिं जाने ।
गणिका नारिन हूँ तें सौ गुन अधिक तुम्हें हम माने ॥
शत्रुघ्नजी बोले-हे भामिनी ! भली कहती हो, भेदिया हो भेद की बात जानता है । तुम में गणिकाओं से भी सौ गुनो अधिक बात है ऐसा हम मानते हैं ।

हमारो तुम्हारो चिन्हू लाड़िली एकहि भांति लखाई ।
ताते सखो हमारि तुम्हारी चाहिय अबसि सगाई ॥
हे लाड़िली ! हमारे-तुम्हारे चिन्हू एक ही भांति के दिखाई पड़ते हैं । इसलिए, हमारा तुम्हारा सगाई अवश्य होनी चाहिए ।

सुनि नव उक्ति युक्ति की बातें बोली सिद्ध सुकुमारी ।

कोई सुन्दरी घूँघट खोलकर और हाथ में मणि-जड़ित अँगूठी लेकर उसमें श्रीरघुनाथजी का दूल्हा रूप देखकर आनन्द के समुद्र में समा गईं ।

दोहा—कोउ मूरति लखि साँवरी, तोरत तून सुख पाग ।

माधुरी मूरति पें पगी, निज मूरति सुखत्याग ॥ २ ॥

कोई साँवली मूर्ति को देखकर आनन्द में मग्न होकर तृण तोड़ती है । उनकी माधुरी-मूर्ति में मग्न होकर अपने मूर्ति-सुख को भूल गईं ।

कोउ रघुनन्दन छबि विलोकि कै बोली सुन सखी बैना ।

राजकुँवर ये करन कलेऊ जात जनक के ऐना ॥

कोई श्रीरघुनाथजी की शोभा देखकर बोली—हे सखी ! सुनो, ये राजकुमार कलेऊ करने के लिए राजा जनक के घर जाते हैं ।

इनको श्रीनिधि गये लिवावन आये चारिहु बेटा ।

रङ्ग भीने रघुवंशी छैला दशरथराज—दुलहेटा ॥

इनको लक्ष्मीनिधि लिवाने गये थे । ये रङ्ग भरे दूल्हे, रघुवंश के छैला, राजा दशरथजी के चारों बेटा आये हैं ।

धनि यह भाग हमारौ प्यारी निज भरि नयन निहारे ।

न तु दर्शन दुर्लभ दूल्हन के रवि कुल प्राण पियारे ॥

हे प्यारी ! हमारा भाग्य धन्य है, जो कि इन्हें नेत्र भरकर देखा, नहीं तो सूर्यकुल वे प्राण-प्रिय इन दूल्हों के दर्शन दुर्लभ थे ।

भाग सुहाग आज फल पायौ श्रीमिथिलेश की बेटी ।

सुन्दर श्याम माधुरी मूरति निज निज भुज भरि भेंटी ॥

मिथिलेशकुमारी (श्रीसीताजी) ने बड़ा भाग्य और सुहाग पाया है, जिन्होंने इन सुन्दर श्याम माधुरी-मूर्ति को अपनी भुजाओं से भरकर भेंटा है ।

बोली अपर सखीनु सुनु सजनी भली बात बनि आई ।

हमहुँ चलैं सब जनक महल को हँसिये और हँसाई ॥

दूसरी बोली—हे सजनी ! सुनो यह सुन्दर अवसर आ बना है, हम सब भी जनक के महलों को चलें और स्वयं हँसकर इनको हँसावें ।

इमि सब बातें करत परस्पर भई प्रेम वश बासा ।

सुनत जात मुसुकात अनुजयुत कृपासिन्धु श्रीरामा ॥

वे सब स्त्रियाँ इस प्रकार बातें करते हुए प्रेम के वश हो गईं । कृपा के समुद्र श्रीराम भी भाइयों सहित सुनते और मुस्कराते जाते हैं ।

द्वार समीप देखि अति सुन्दर मणिमय चौक सँवारे ।

हम सब भाँति तुम्हारे प्यारी तुम सब भाँति हमारी ।

सत्य सत्य ये सत्य वचन मम मानहु राजकुमारी ॥

हे प्यारी ! हम सब प्रकार से तुम्हारे हैं और तुम हमारी हो । हे राजकुमारी ! हमारा यह वचन तीन बार साथ मानो ।

दोहा—रघुनन्दन के वचन सुनि, खुल गये हृदय फियार ।

बढ्यो प्रेम सब तियन्हु कैं, तनिकहु नहीं सँभार ॥ ६ ॥

श्रीरामचन्द्रजी के ये वचन सुनकर सबके हृदय के कपाट खुल गये और सब स्त्रियों के हृदय में प्रेम पड़ा, तनिक भी होस न रहा ।

पुनि धरि धीरज अली भली विधि जोरि पङ्कहु पानी ।

सिद्धि आदि सब राजकुमारी बोलों अति मृदु बानी ॥

फिर धीरज धरकर, भली भाँति से हाथ जोड़कर सिद्धि आदि सब राजकुमारियों और स्त्रियों अत्यन्त कोमल बानी बोलों ।

धन्य भाग हमारे रघुनन्दन हमते बड़ कोउ नाही ।

बूढ़त रहीं जगत सागर में राखि लीन्हु गहि वारी ॥

हे रघुनन्दन ! हमारे धन्य भाग्य है, हम से बड़कर कोई नहीं । हम संसार-सागर में डूबो जाती थीं, तो आपने बांह पकड़कर रक्ष लिया ।

प्रति उपकार होत नहिं हमते जस तुम्ह कीन्हेउ प्यारे ।

चन्द्र समान होयें नहिं कवहूँ जुरहिं हजारन तारे ॥

हे प्यारे ! जैसे आपने किया है, इसका प्रत्युपकार हमसे नहीं हो सकता । क्योंकि चाहे हजारों तारे चमकें, परन्तु चन्द्रमा के समान नहीं हो सकते ।

जेहि जेहि योनि कर्म बस हमको जन्म विधाता देही ।

तहँ तहँ रसिकराय रघुनन्दन तुम्ही मिलहु सनेही ॥

हमारे कर्मों के अनुसार विधाता हमें जिस-जिस योनि में भी जन्म दे, वहाँ-वहाँ-हे रसिकराय रघुनन्दन ! हमें आप ही स्नेही मिलें ।

वरु विधि कोटिन्हु करै यातना या तनु क्षण छूटै ।

हमरी तुम्हरी लगन लाडिले कौनों जनम न टूटै ॥

चाहे विधाता हमें अनेकों प्रकार के दुःख दे, या पत-में तरोर छूटे । परन्तु, हे लाडिले ! हमारा-आपका प्रेम कभी नहीं छूटे ।

सुनि बानी करुणारस सानी रघुवर अन्तर जानी ।

सनमान्यौ सब राजकुमारिन कहि कहि कोमल बानी ॥

अन्तर्यामी श्रीरामचन्द्रजी ने उनकी यह कृपा-रस में सभी हुई बानी सुनकर संनत वचन कह-कहकर सब राजकुमारियों का सम्मान किया ।

कोई सुन्दरी पुँपट खोलकर और हाथ में मणि-जड़ित अँगूठी लेकर उसमें श्रीरघुनाथजी का मुलाह रूप देखकर आनन्द के समुद्र में समा गई ।

दोहा—कोउ मूरति लखि साँवरी, तोरत तून सुख पाग ।

साधुरी मूरति पेँ पगी, निज मूरति सुखत्याग ॥ २ ॥

कोई साँवली मूर्ति को देखकर आनन्द में मग्न होकर तूण सोझती है । जगती साधुरी-मूर्ति में मग्न होकर अपने मूर्ति-सुख को भूल गई ।

कोउ रघुनन्दन छबि बिलोकि कै बोली सुन सखी बैना ।

राजकुँवर ये करन कलेऊ जात जनक के ऐना ॥

कोई श्रीरघुनाथजी की शोभा देखकर बोली-हे सखी ! सुनो, ये राजकुमार कलेऊ करने के लिए राजा जनक के घर जाते हैं ।

इनको श्रीनिधि भये लिवावन आये चारिहु बेटा ।

रङ्ग भीने रघुवंशी छैला दशरथराज—दुलहेटा ॥

इनको लक्ष्मीनिधि लिवाने भये थे । ये रङ्ग भरे सुलहे, रघुवंश के छैला, राजा दशरथजी के चारों बेटा आये हैं ।

धनि यह भाग हमारी प्यारी निज भरि नयन निहारे ।

न तु दर्शन दुलँभ दूल्हन के रवि कुल प्राण पिघारे ॥

हे प्यारी ! हमारा भाग धन्य है, जो कि इन्हें मेरा भरकर देखा, वही तो सूर्यकुल के प्राण अंग इन सुलहों के दर्शन दुलँभ थे ।

भाग सुहाग आज फल पायो श्रीमिथिलेश की बेटी ।

सुन्दर श्याम साधुरी मूरति निज निज भुज भरि भेंटी ॥

मिथिलेशकुमारी (श्रीसीताजी) ने बड़ा भाग्य और सुहाग पाया है, जिन्होंने इन सुन्दर श्याम साधुरी मूर्ति को अपनी भुजाओं से भरकर भेंटा है ।

बोली अपर सखीनु सुनु सजनी भली बात बनि आई ।

हमहूँ सब जनक सहल को हँसिये और हँसाई ॥

सुसरी बोली-हे सजनी ! सुनो यह सुन्दर अजराह जा बना है, हम सब भी जनकजी के भावों को पाले और स्वयं हँसकर इनको हँसावें ।

इमि सब बातें करत परस्पर भई प्रेम वश बामा ।

सुनत जात सुसुकात अनुजमुत कृपासिन्धु श्रीरामा ॥

ये सब स्तियाँ इस प्रकार बातें करते हुए प्रेम के वश हो गईं । कृपा के समुद्र श्रीरामजी की भाइयों सहित सुनते और मुसकराते जाते हैं ।

द्वार समीप देखि अति सुन्दर मणिमय चौक सँवारे ।

चारि लच्छ वर धेनु मंगई * काम सुरभि सम सील सोहाई

राजा ने सबको बण्डवन्-प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजा करके उत्तम आम्ना पर बैठाया और चार लाख गोये कामधेनु के समान सीधो तथा मुन्दर मंगई ।

सब विधिसकल अलंकृत कोन्ही * मुदित महिप महिदेवन्ह दीन्ही

करत विनय बहु विधि नरनाह * लहेउ आजु जग जीवन लाहू

सब प्रकार में गोओं को सजाकर प्रसन्नतासे राजा ने श्रुतियों को शान में बों, फिर राजा ने बहुत भांति से विनतो करते हुए कहा कि आज हमने संसार के जीवन का लान पाया ।

पाइ असीसु महीसु अनन्दा * लिए वोलि पुनि जाचक वृन्दा

कनकवसनमनि हय गयस्यन्दन * दिए वृक्षि रचि रविकुलनन्दन

आशीर्वाद पाकर राजा प्रसन्न हुए, फिर वाचकों को बुला लिया और सोना वस्त्र, मणि घोड़े, हाथी, रथ आदि रचि के अनुसार पूछकर नृपवंशो महाराज ने सबको रिपे ।

चले पढ़त गावत गुन गाया * जय जय जय दिनकर कुलनाथा

एहि विधि राम विआह उछाहू * सकइ न वरनि सहस मुख जाहू

गुणानुवाद गाते हुए वाचक लोग बोले-नृपवंशियों के स्वामी को जय हो, जय हो । इन भांति श्रीरामजी के विवाह का उत्सव वे शेषजी भी नहीं कह सकते, जिनके हजार मुख हैं ।

दोहा-वार वार कौंसिक चरन, सीसु नाइ कह राउ ।

यह सब सुखु मुनिराज तव, कृपा कटाक्ष प्रभाउ ॥३३६॥

वारम्बार विश्वामित्रजी से घरणों में सिर नवाकर राजा दशरथजी बोले-हे मुनिराज ! यह सब सुख आपके कृपा-कटाक्ष का ही प्रभाव है ।

जनक सनेहु सीलु करतूती * नृप सब भांति सराह विभूती

दिनउठि विदा अवधपति मांगा * राखहि जनकु सहित अनुरागा

जनकजी के स्नेह, सील, करतूति और ऐश्वर्य को बड़ाई महाराज दशरथजी मनों प्रकार से करने लगे । अयोध्यापति दशरथजी नित्यप्रति उठकर विदा मांगते, परन्तु महाराज जनकजी प्रीति सहित रोक लेते ।

नित नूतन आदर अधिकारई * दिनप्रति सहस भांति पहुनाई

नित नव नगर अनन्द उछाहू * दसरथ गवनु सोहाइ न काहू

नित्य-नये ढङ्ग से आदर बढ़ता था, प्रतिदिन हजारों प्रकार ने पहुनाई होनी थी । नगर में नित्य-नया आनन्दोत्साह होता है और दशरथजी का जाना किनों को नहीं नृहाता है ।

बहुत दिवस बीते एहि भांती * जनु सनेह रजु बाधि बराती

कौंसिक सतानन्द तव जाई * कहा विदेह नृपति समुजाई

इसी प्रकार बहुत दिन बीत गये, मानो स्नेह की रस्ती में बराती बंध गये विश्वामित्रजी और मत्तानन्दजी ने जारुद महाराज जनकजी में समझाकर कहा-

कोउ सखि देखि राम की सोभा आरति मङ्गल गावै ॥

चारों ओर चन्द्रमुखी स्त्रियां सुशोभित थीं । कोई चँवर ढुला रहीं थीं, तो कोई श्री-रामचन्द्रजी की शोभा देख आरती-मङ्गल गा रही थीं

तेहि छिन तहाँ गये रघुनन्दन मन फन्दन कर वेषा ।

देखत उठीं सकल रनिवासै रघ्यौ न तनुहि सरेषा ॥

उसी समय सुन्दर भेषधारी, कामदेवों को भी लज्जित करने वाले श्रीरघुनाथजी वहाँ गये । उन्हें देखते ही सारा रनिवास प्रेम-मग्न हो उठा, किसी को भी देह की सुध न रही ।

करि आरती बारि मनि भूषन सादर पाँय पखारे ।

चारि रङ्ग के चारि सिंहासन चारिहु वर बैठारे ॥

आरती करके, मणि और आभूषण न्यौछावर करके आदर सहित पैर धोये और चार रङ्गों के चार सिंहासनों पर चारों ढूल्हों को बैठाया ।

लखि छबि ऐना सासु सुनैना नेकहु पलक तजै ना ।

भूली चैना बौलि सकै ना कहत बनै ना बैना ॥

सौन्दर्य के स्थान-श्रीरामचन्द्रजी को सुनयना रानी पलक विसार कर देखने लगीं । वे सुधि भूल गईं, बोल नहीं सकतीं, मुख से बात कहते नहीं बनती ।

तकि जकि रही तनक नहि डोलै मगन महासुद माहीं ।

राम रूप रँग गई रँगौली आँसू बहे दृग जाहीं ॥

देखकर वे स्थिर रह गईं, जरा भी नहीं हिलीं और अत्यन्त आनन्द से मग्न हो गईं । वे रँगौली-श्रीरामजी के रूप में ऐसी रङ्ग गईं कि आँखों से आँसू बहने लगे ।

इमि तहँ दसा विलोकि सासु को राम गुनत मन माहीं ।

काह भयौ यह आजु रानि को पूछत में सकुचाहीं ॥

सास की यह दशा देख श्रीरामजी मन में विचार करने लगे कि रानी को क्या हो गया है ? परन्तु पूछने में सकुचाते हैं ।

चतुर सखी चित चरित राम सों बोली मधुर बानी ।

यह तुम्हार गुण हैं सब लालन और न कछु उर आनी ॥

तब एक चतुर सखी श्रीरामजी के मन की बात जानकर बोली-हे लालन ! यह सब तुम्हारे ही गुण हैं, और कुछ मन में नहीं आता है ।

सुनत वचन यह तुरत धीर धरि जगी सुनैना रानी ।

बार बार बहु लीन्हि बलैयाँ चूमि कपोलन पानी ॥

यह वचन सुनते ही तुरन्त धीरज धरकर सुनयना रानी जागी और कपोलों को चूमकर बारम्बार हाथों से बलैया लेने लगीं ।

माधुरी मूरति साँवरी सूरत की तून तोरति रानी ।

बिदा होना मुनकर रानियाँ ऐसी घ्याकुल हुईं, जैसे मछलियों कोड़े पानी में पिकल होजाती हैं।
पुनि पुनि सीय गोद करि लेहोँ * देइ असीस सिखावनु देहोँ
होएहु सन्तत पियहि पियारी * चिरु अहिवात असीस हमारी
ये बारम्बार सीता को गोद में बंठाकर आशीष देकर बिदा देने लगी—सब अपने पति को प्यारी होओ, तुम्हारा मुहाग अच्छल रहे, यही हमारी आशीष है।

सासु ससुर गुरु सेवा करेहू * पति रुख लखि आयसु अनुसरेहू
अति सनेह बस सखों सयानी * नारि धरम सिखावहि मृदु बानी
सासु, ससुर और बड़ों को सेवा करना, पति का एउ देखकर उनकी आज्ञा मानकर कार्य करना। अत्यन्त स्नेह के वश चतुर सखियाँ मधुर वाणी से श्री धर्म सिखा रही हैं।

सादर सकल कुअरि समुझाई * रानिन्ह वार वार उर लाई
बहुरि बहुरि भेंटहिं महतारी * कहहि विरंचि रची कत नारी
आबर के साथ सब पुत्रियों को समझाकर रानियों ने बारम्बार हृदय से लगाया। फिर फिर कर मातापै भेंटने और कहने लगीं कि प्रह्ला ने श्री को क्यों बनाया।

दोहा—तेहि अवसर भाइन्ह सहित, रामु भानुकुल केतु।

चले जनकमन्दिर मुदित, बिदा करावन हेतु ॥३३१॥

उसी समय भाइयों सहित धीरामचन्द्रजी—जनकजी के महल को प्रार्थना पूरक बिदा कराने चले।

चारिउ भाइ सुभायं सोहाए * नगर नारि नर देखन आए
कोउ कह चलन चहतहिं आजू * कीन्ह विदेह विदा कर साजू
चारों भाइयों को स्वाभाविक मुन्बरता को नगर के श्री-मुण्ड देखने की बोड़े। सोई कहने लगे कि आज ये जाना चाहते हैं, अतः राजा जनक ने बिदा का सामान सजाया है।

लेहु नयन भरि रूप निहारी * प्रिय पाहुने भूप सुत चारो
को जानै केहिं सुकृत सयानी * नयन अतिपिकीन्हे विधि आनी
नेत्र भरकर इनके रूप के दर्शन करलो, यह चारों रावकुमार प्रिय-पाहुने हैं। हे सयानी ! कौन जानता है कि कित्त पुष्यके प्रभाव से प्रह्ला ने इन्हें तारकर हमारे नेत्रों का अतिपिकि किया है ?

मरनसीलु जिमि पाव पियपा * सुरतरु लहै जनन कर भुखा
पाव नारकी हरिपदु जैसें * इन्ह कर दरसनु हम कहै तैसें
मरने वाला जैसे अमृत या जाज, जन्म का मूया कल्पवृक्ष या आय-नरक वानों को मोक्ष मिल जाय, वैसे ही हमको इनके दर्शन में।

निरखि राम सोभा उर धरहू * निज मनि फनिमूरति मनि करहू
एहि विधिसवहिनयन फलु देता * गए कुअर सब राज निके
निरखि राम सोभा उर धरहू * निज मनि फनिमूरति मनि करहू
एहि विधिसवहिनयन फलु देता * गए कुअर सब राज निके

वह भाग्य और सोहाग से भरी, श्रद्धा सुन्दरी, नव-यौवन में मतवाली, रसिकों को रीति और प्रीति में चतुर रति को भी लजाने वाली—

अति गुणवान् निधान रूप की सब विधि सुभय सयानी ।
लक्ष्मीनिधि की प्राण पियारी निमि कुल की महारानी ॥

अत्यन्त गुणवान् रूप की राशि, सब प्रकार से सुन्दर और चतुर, लक्ष्मीनिधि को प्राण-प्रिया और निमि-कुल की महारानी—

अलवेली सरहज रघुवर की बड़ी सनेह शृङ्गारी ।
प्रीतम प्रीत निवाहनिहारी राम रूप रिझवारी ॥

श्रीरघुनाथजी की अलवेली सरहज बड़े प्रेम से शृङ्गार किये, अपने प्रियतम से प्रीति को निवाहने वाली और श्रीरामजी के रूप पर मुग्ध—

चंचल चपल चहूँ दिशि चितवति देखन को अतुराई ।
भरी उमङ्ग सङ्ग सखियन लै तुरत राम ढिंग आइ ॥

चंचल नेत्रों से चारों ओर देखती हुई दर्शन के लिए आतुर और उमङ्ग से भरी सखियों को लेकर तुरन्त श्रीरामचन्द्रजी के पास आई ।

बदन चन्द अरविन्द लिये कर बिहँसि मन्द सरसोहँ ।
राजकुँवर कर पकरि लाड़िली बोली तकि तिरछोहँ ॥

चन्द्रमा का-सा मुख, हाथ में कमल लिये, मन्द-मन्द मुस्कराती हुई वह लाड़िली तिरछे नेत्रों से देखती हुई राजकुमारों का हाथ पकड़ कर बोली—

होत चितचोर किसोर भूप के बड़े चोर तुम प्यारे ।
सुरति हमारि भुलाय साँवरे सासु समीप सिधारे ॥

हे प्यारे ! तुम चित्त को चुराने में बड़े चतुर हो । हे साँवरे ! हमारी याद भुलाकर सास के पास चले गये ।

उल्टी बात कहौ निज प्यारी आपन दोष डुराई ।
तुमहीं रहिउँ छिपाय छवीली सुनत हमारि अवाई ॥

(तब रघुनाथजी बोले—) हे प्रिये ! अपना दोष छिपा कर उल्टी बात कहती हो । हे छवीली ! हमारा आना सुनकर तुम ही छिप रही थीं ।

हम आये तुम महलन भीतर तुमहि न परयो जनाई ।
भलौ सदन तुम्हारी है प्यारी जहँ सब जाहिं समाई ॥

हम तुम्हारे महलों में आये और तुम्हें मातृम भी न पड़ा । हे प्यारी ! तुम्हारा घर अच्छा है, जहाँ सब समा जाते हैं ।

सुनत राम के वचन लाड़िली बोली मृदु मुसुकाई ।
तुम्हारे घर की रीति लालजू यहाँ न चलाहि चलाई ॥

जन गुनगाहक राम, दोष दलन कल्यायतन ॥ ४० ॥

तुम पूर्ण काम हो, ज्ञान तिरोमणि हो, स्नेह तुमको प्यारा है, सखियों के गुन ग्रहण करने वाले हो, वीर्यों को दूर करने वाले और दया के स्थान हो ।

अस कहिरही चरण गहि रानी * प्रेम पङ्क जनु गिरा समानी
सुनि स्नेह सानी वर वानी * बहु विधि राम सासु सनमानो

इस प्रकार कहकर रानी चरण पकड़ कर रह गई, उनकी वाणी मानो प्रेम की कीच में फँस गई । ऐसी स्नेह भरी मधुर वाणी सुनकर श्रीरामचन्द्रजी ने बहुत भाँति से सागुका सम्मान किया ।

राम विदा मांगत करि जोरो * कीन्ह प्रनामु बहोरि बहोरो
पाइ असीस बहुरि सिर नाई * भाइन्ह सहित चले रघुराई

श्रीरामचन्द्रजी ने हाथ जोड़कर विदा मांगी और बारम्बार प्रणाम किया, फिर आगो-वाँद पाकर सिर नवाकर श्रीरघुनाथजी भाइयों सहित चले ।

मञ्जु मधुर मूरति उर आनी * भई स्नेह सिथिल सब रानी
पुनि धीरजु धरि कुअँरि हँकारो * वार वार भेंटाहि महतारो

सुन्दर माधुरी मूर्ति को हृदय में धारण कर सब रानी स्नेह के मारे तिथित हो गईं । फिर धीरज धरकर माताओं ने कुमारियों को बुलाया और बारम्बार भेंटने लगीं ।

पहुँचावाहि फिर मिलहि बहोरो * बढी परस्पर प्रीति न थोरो
पुनिपुनिमिलतसखिन्हविलगाई * बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई

बारम्बार पहुँचाती और फिर मिलती हैं, इस प्रकार आपस में बहुत प्रेम बढ़ा । सखियों को अलग कर मातायें ऐसे मिल रही हैं जैसे हाल की ब्याही हुई गाय अपने बच्चे से मिलती है ।

दोहा—प्रेम विवस नर नारि सब, सखिन्हसहित रनिवासु ।

मानहुँ कीन्ह विदेहपुर, करना विरह निवासु ॥ ३३४ ॥

सखियों सहित सब स्वो-पुरुष रनिवास में स्नेह के मारे ऐसे अघोर होगये, मांगो बनर-पुर में करना और विरह ने निपात कर लिया हो ।

शुक सारिका जानकी ज्याए * कनक पीजरन्हि राखि पड़ाए
व्याकुल कहहि कहाँ वैदेही * सुनि धीरजु हरिहरइ न केही

जिन तोता-मैना की जानकीजी ने पाला और सोने के पित्रों में रखकर पड़ाया था । ये व्याकुल हो कहने लगे—जानकी कहाँ हैं ? यह सुनकर कौन धीरज नहीं छोड़ देगा ?

भए विकल खग मृगएहि भाँती * मनुज दसा कैसे कहि जाती
बन्धु समेत जनकु तब आए * प्रेम उमँगि लोचन जल छाए

इस प्रकार जब पक्षी और पशु अंचन होगये, तब मनुष्यों की दसा कैसे बहो जा सकती है ? उसी समय भाई सहित बनरजी जाये तो स्नेह ने उमड़कर मैत्री में बन पर आ-

श्रीरामचन्द्रजी के मस्तक पर मणियों का मोर, मोतियों की अनौखी कलङ्गी ऐसी अत्यन्त शोभित है कि राजकुमारियों की तो क्या चले, मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं।

दोहा—मन लोभा शोभा निरखि, भई विवश सुकुमारि ।

चकित छकित सब रह गई, तन मन दसा बिसारि ॥ ४ ॥

सभी सुकुमारियों के मन शोभा को देखकर लुब्ध होगये। वे विवश हो गईं और तन-मन की दशा भुलाकर चकित होकर छकी-सी रह गईं।

जो तिय मान अनूप रूप निज रही स्वरूप गुमानी ।

तेउ लखि राम बदन की शोभा बिन ही मोल बिकानी ॥

जो स्त्रियाँ अपना रूप अनुपम मानकर स्वयं घमण्ड में भरी रहती थीं वे श्रीरामजी के मुख का सौंदर्य देखकर बिना मोल ही विक गईं।

अति सुकुमारी राजकुमारी सिद्धि सहित अनुरागी ।

तहँ प्यारी गारी रघुवर को देन दिलावन लागी ॥

वे अत्यन्त सुकुमारी सिद्धि सहित प्रेम से भर गईं, उस समय सिद्धि श्रीरघुनाथजी को गारी देने और दिलवाने लगीं।

एक सखी कह सुनहु लालजी यह स्वरूप कहँ पायौ ।

कानन सुन्यौ काम अति सुन्दर की तुमको सोइ जायौ ॥

एक सखी कहने लगी-हे लालजी ! सुनो, तुमने यह स्वरूप कहाँ से पाया ? हमने कामदेव को अत्यन्त सुन्दर सुना है, क्या तुम उसी से उत्पन्न हुए हो ?

बोली सिद्धि सुनहु रघुनन्दन तुम हमार नन्दोई ।

एक बात तुम सो हम पूछें लाल न राखहु गोई ॥

सिद्धि बोली-हे रघुनन्दन ! सुनो, तुम हमारे नन्दोई हो, इससे एक बात हम तुमसे पूछती हूँ, सो-हे लालजी ! छिपाना मत।

होत व्याह सम्बन्ध सबन को अपनी ही जातिहि माहीं ।

निज बहिनी शृङ्गी ऋषि को तुम कैसे दियौ विवाहीं ॥

सभी का व्याह अपनी जाति में ही होता है, तो फिर तुमने अपनी बहिन को शृङ्गी ऋषि को कैसे व्याह दिया ?

की उनको सुनीश लै भाग्यौ की बौई संग लागी ।

ऐती बात बतावहु लालन तुम रघुवंश अदागी ॥

क्या उनको वे मुक्ति ले भागे, या वे स्वयं ही उनके साथ लग गईं ? हे लालन ! बस इतनी ही बात बता दो ? क्योंकि तुम्हारा वंश तो निष्कलङ्क है।

लषन कह्यौ यह सुनहु लाड़िली जेहि विधि जहँ लिखि दीना ।

* राजा दशरथ की कन्या 'रामपाद' को अनङ्ग-देश के राजा ने गोद लेकर शृङ्गी-ऋषि को व्याह दी थी।

नृप करि विनय महाजन फेरे * सादर सकल मांगने टेरे
भूपन वसन वाजि गज दोन्हें * प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीन्हें

राजा ने विनती करके महाजनों को लौटा दिया, फिर आदर में सब पाचकों को बुलाया और सबको गहने, वस्त्र, घोड़े, हाथी वरकर प्रेम से लानुष्ट किया।

वार वार विरदावलि भाषी * फिरे सकल रामहि उर राखी
बहुरि बहुरि कोसलपति कहहीं * जनकु प्रेम वस फिरे न चहहीं

उन लोगों ने बारम्बार पंथ की बड़ाई बखान की और धोरामजों को हृदय में रखकर लौटे। राजा दशरथजी ने जनरुजों से बार-बार लौटने को कहा, परन्तु ये प्रेम के पग हो लौटना नहीं चाहते।

पुनि कह भूपति वचन सोहाए * फिरिअ महीस दूरि बड़ि आए
राउ बहोरि उत्तरि भए ठाढ़े * प्रेम प्रवाह विलोचन वाढ़े

फिर राजा दशरथ ने बहुत ही मुन्हावने वचन कहे-हे राजन् ! अब आप लौट जाइये, बहुत दूर आगये। फिर राजा दशरथजी रथ से उतर कर पड़े होगये और मारे प्रेम के नेत्रों से जल की धारा बहने लगे।

तव विदेह बोले कर जोरी * वचन सनेह सुधां जनु बोरी
करो कवन विधि विनय वनाई * महाराज मोहि दीन्ह बड़ाई

तब जनरुजों हाम जोड़कर मानो स्नेह-दृषी जमत से भरे हुए वचन बोले-हे महाराज ! मैं किस प्रकार से आपकी विनती करूँ ? आपने ही मुझे बड़ाई दी है।

दोहा—कोसलपति समधी सजन, सनमाने सब भांति।

मिलन परस्परविनय अति, प्रीति नहृदयों समाति ॥३३७॥

महाराज दशरथ ने समधी का सब प्रकार से आदर किया। आपस में मिलते समय जो अत्यन्त विनय और प्रीति थी, वह हृदय में नहीं समाती।

मुनिमण्डलिहिजनक सिरुनावा * आसिरवाडु सबहि सन पावा
सादर पुनि भेटे जामाता * रूप सोलगुन निधि सब भ्राता

मुनियों की मण्डली को जनरुजों ने सिर नवाया और सबके आलोचनाएं प्राप्त किया। फिर आपस सहित वामारों से मिले, जो रूप, शक्ति और गुणों के निधान सब भाई हैं।

जोरि पङ्कुरुह पानि सोहाए * वाले वचन प्रेम जनु जाए
राम करों केहि भांति प्रशंसा * मुनि महेस मन मानस हेसा

राम के समान हाथ जोड़कर मानो प्रेम से उत्पन्न हुए वचन बोले-हे राम ! स्निग्ध प्रकार से मैं आपकी प्रशंसा करूँ ! क्योंकि आप मुनियों और महादेवजों के मनद्वयों मान-नरोपर के हंस हैं।

करहिं जोग जोगी जेहि लागी * कोहु नोहु नमता महु त्यागी
व्यापक ब्रह्म अलखु अविनासी * चिदानन्दु निरगुन गुन रा...

हे लालजी ! तुम बचपन से ही तपस्त्रियों के सङ्ग में रहे हो, सो हमसे सत्य कहो कि यह छल-छन्द कहां से प्राप्त किये हैं ?

को मुनि नारिन के सँग सीखे की निज भगिनी पासै ।

सीठौ सीठौ स्वाद लालजी विन चाखे नहि भासै ॥

क्या मुनियों की स्त्रियों के साथ से अथवा अपनी बहिन से सीखे हो ? हे कुँवरजी ! सीठे-सीठे का स्वाद तो बिना चाखे कोई नहीं जान सकता ?

बोले भरत भली कह सजनी तुमहुँ तौ सबै कुमारी ।

वरणहु पुरुष सङ्ग की बातें सो कहँ सीखेउ प्यारी ॥

भरतजी बोले—हे प्रिये ! तुम ठीक कहती हो, परन्तु तुम भी तो अभी कुमारी हो ही और पुरुषों के सङ्ग की बातें कहती हो, सो—हे प्रिये ! कहां से सीखी हैं ?

रहे मुनिन सँग ज्ञान सिखन को सो सब सुने सुनाए ।

कामिनी काम-कला अब सीखन हम तुम्हरे ढिंग आए ॥

हे कामिनी ! हम ज्ञान सीखने के लिए मुनि के सङ्ग रहे, सो सभी जानते हैं परन्तु अब हम काम कला सीखने को तुम्हारे पास आये हैं ।

सिद्ध कह्यौ तब सुनहु भरतजी ऐसे तुम न बखानौ ।

तुम्हारी तौ गिनती साधुन से लोक-बात का जानौ ॥

तब सिद्धि बोली—हे भरतजी ! सुनो, तुम ऐसी बातें मत कहो । क्योंकि तुम्हारी तो गिनती साधुओं में है, तुम सांसारिक बातें क्या जानो ?

भरत कह्यौ तुम सांच कहत हौ हम साधू पर-काजी ।

ऐसी सेवा करौ कामिनी जाते होय मन राजी ॥

भरतजी बोले—तुम सत्य कहती हो, हम तो पराया काम करने वाले साधु हैं । इसलिए, हे कामिनी ! ऐसी सेवा करो, जिससे कि हमारा मन खुश होजाय ।

आये ऐन अपूर्व योगी अस निज मन मुनि लीजै ।

अधर सुधारस को दै भोजन अतिथि-पूजन कीजै ॥

तुम्हारे घर में अपूर्व योगी आये हैं, यह अपने मन में जान लीजिए और अपने अधरामृत रस का भोजन देकर हम अतिथियों का पूजन कीजिए ।

एक सखी कह सुनौ सबै मिलि इनकी एक बड़ाई ।

चृषि मख राखन गये कुँवर ये तहँ हम अस सुधि पाइ ॥

एक सखी बोली—तब मिलकर इनकी एक बड़ाई सुनो—ये मुनि के यज्ञ की रक्षा करने गये थे, हमने ऐसी खबर पाई है कि वहां—

इनको सुन्दर देख कामवश त्रिया ताड़का आई ।

सो करतूति न भई लाल सो सारेहु तेहि खिसिआई ॥

जनक गहे कौसकि पद जाई * चरन रेनु सिर नयनन्ह लाई

श्रीरामजी बारम्बार विनती और बढ़ाई करके सब भाइयों को लेकर पाते, फिर जनकजी ने जाकर विद्यामित्रजी के घरण पकड़े और चरण-रज को शिर और नेत्रों में लगाकर बोले-
सुनु मुनीस वर दरसनु तोरे * अगमु न कछु प्रतीत मन मोरे
जो सुख सुजसु लोकपति कहहीं * करत मनोरथ सकुचत अहहीं

हे मुनीश्वर! मुनिवै, आपके मुन्दर बरान से मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है, मेरे मनमें वह विरथात है। जो मुष्ट और मुयस तोकरपात चाहते हैं और जिसका मनोरथ करते हुए सजुचते हैं।

जो सुख सुजसुसुलभ मोहिस्वामी * सब सिधि तव दरसन अनुगामी
कोन्ह विनय पुनि पुनि सिरनाई * फिरे महीसु आसिपा पाई

हे स्वामी! यही मुष्ट व मुयस मुझे सुलभ होगया, क्योंकि सब सिद्धियाँ आपके बरान के पीछे चलने जाती हैं। ऐसे विनती कर बारम्बार प्रणाम कर, आतांवाँइ पाकर राजा जनकजी छोटे।

चली बरात निसान बजाई * मुदित छोट बड़ सब समुदाई
रामहि निरखि ग्राम नरनारी * पाय नयन फल होहि सुखारी

निशान बजाकर बरात चली, छोटे-बड़े सभी प्रसन्न हुए। मार्ग में गाँवों के नर-नारी श्रीरामचन्द्रजी के बरान पाकर मुष्टो होने लगे।

दोहा-बीच बीच वर वास करि, मग लोगन्ह सुख देत।

अवध समीप पुनोत दिन, पहुँची आइ जनेत ॥३४०॥

बीच-बीच में अच्छे मुकामों पर बरात टहरती हुई मार्ग के लोगों को मुष्ट घेती हुई अयोध्यापुरी के निकट शुभ दिन बरात आ पहुँची।

हने निसान पवन वर वाजे * भेरि शंख धुनि ह्य गय गाजे
झाँझि विरम डिमडिमो सुहाई * सरस राग वाजाहि सहनाई

नगाड़ों पर घोंटे पड़ने लगे, मुन्दर डोल बजने लगे, तुरही बजने और मध-ध्वनि होने लगी, घोड़े-हाथी गरजने लगे। झाँझ मृदङ्ग और मुहाबनी दुग्दुग्ग तथा रसोले राग धं सहनाई बजने लगे।

पुरजन आवति अकनि बराता * मुदित सकल पुलकावलि गाता
निज निज सुन्दर सदन संवारे * हाट वाट चौहट पुर द्वारे

अवधपुरवासी-बरात आई जानकर प्रसन्न होगये, सबके शरीर में रोमाष हो आया। ये अपने-अपने घर, बाजार, सड़कें, चौराहें और फाटकों को गुरुर रीति में मजाने लगे।

गली सकल अरगजा सिचाई * जहें तहें चौकें चार पुराई
बना बजार न जाइ बखाना * तोरन केतु पताक विताना

सब पतिवों में गुलाब-रत्न का छिड़काव हुआ, जहाँ-तहाँ धीरे पुराये गये। बाजार एंजा बना जो कहा नहीं जा सकता। गरजनघर, शम्भे-शम्भियों तथा पंजाब जाँइ लपारे

सुनिए रसिकराय रघुनन्दन आनन्दकन्द विहारी ॥

श्रीशत्रुघ्नजी यह नई युक्ति की बातें सुनकर सुकुमारी सिद्धि बोली—हे रसिकराय आनन्दकन्द, विहरणशील श्रीरघुनन्दन ! सुनो—

अति अभिराम कामहू मोहत मूरत देखि तुम्हारी ।

कैसे बची होयँगी तुमसे अवधपुरी की नारी ॥

कामदेव भी तुम्हारी अत्यन्त शोभायमान मूर्ति देखकर मोहित हो जाता है, इसलिये तुमसे अवधपुरी की स्त्रियाँ कैसे बची होंगी ?

यों कहि रही चुपचाप सुन्दरी सिद्धि कुँवर सुख सैना ।

ताकौ हाथ पकरि रघुनन्दन बोले अति मृदु बैना ॥

यह कहकर सुन्दरी और सब सुखों की राशि सुकुमारी सिद्धि चुप हो रही । तब उसका हाथ पकड़कर श्रीरामचन्द्रजी कोमल वचन बोले—

दोहा—जसि मर्यादा जगत की, बाँधि दई करतार ।

राजा रङ्ग यतां सती, करत सोइ व्यवहार ॥ ५ ॥

विधाता ने जगत की जैसी मर्यादा बांध दी है, उसी के अनुसार—राजा, रङ्ग, यती, सती आदि सभी व्यवहार करते हैं ।

अनुचित उचित विचारि लोग सब तहँ तस राखत भावा ।

तुम तो अपने जसि जानति हौ सबही के रस चावा ॥

अनुचित-उचित विचार कर लोग वहाँ वैसा ही भाव रखते हैं । तुम तो अपने ही समान सब में रस का चाव समझती हो ।

यह सुनि भरत लषन रिपुसूदन हँसे सकल दै तारी ।

सिद्धि आदि सब राजकुमारी तेउ अति भई सुखारी ॥

यह सुनकर भरतजी, लक्ष्मणजी और शत्रुघ्नजी सभी तालियाँ बजाकर हँसे और सिद्धि आदि जो राजकुमारियाँ थीं—वे भी अत्यन्त सुखी हुईं ।

ते तुम सबै प्रेम की मूरति सूरति की बलिहारी ।

सिद्धि आदि सब राजकुमारी मोहि प्राणहु ते प्यारी ॥

(फिर श्रीरामचन्द्रजी बोले—) वे तुम सब प्रेम की मूर्ति हो, तुम्हारी मूरत पर बलिहारी जाइये । सिद्धि आदि तुम सब राजकुमारी मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो ।

तुम्हरे हिय अभिलाष आजु जो सो सब भाँति पुजै हौं ।

लोक की लाज बचात लाड़िली तुमसे विलग न होइ हौं ॥

हे प्रिये ! तुम्हारे हृदय में जो अभिलाषा है, सो सब आज पूरी करूँगा । हे लाड़िली ! लोक की लाज बचाकर मैं तुमसे अलग रहूँगा । (अर्थात् लोक-लाज तो बचानी ही पड़ेगी ।)

होगये । धोरामजी के बरान के लिए बड़ी आतुर होकर परिछन का साथ गजाने लगी ।

विविध विधान वाजने वाजे * मङ्गल मुदित सुमित्रा साजे
हरद दूध दधि पल्लव फूला * पान पूंगफल मङ्गल मूला

अनेक वाजे बजने लगे; सुमित्राजी ने प्रार्थन होकर मंगल-साथ गजाये । हल्दी, रूप, बही, आम के पत्ते, फूल, पान, गुपारी आदि मंगल की वस्तुएँ तथा—

अच्छत अंकुर लोचन लाजा * मंजुल मंजरि तुलसि विराजा
छुहे पुरट घट सहज सुहाए * मदन सकुन जनु नौड़ बनाए

घायल, अंकुर, गोरौचन, जौल, मंजरी सहित तुलसी आदि मंगलिक वस्तुएँ तथादं, रंगे हुए, सहज ही गुन्दर सोने के कलम ऐसे लगते, मानो कामदेव ने पक्षियों के घोंसले बनाये हैं ।

सगुन सुगन्ध न जाहि बखानी * मङ्गल सकल सजाहि सब रानी
रची आरती बहुत विधाना * मुदित करहि कल मङ्गल गाना

सगुनके सुगन्धित पदार्थों का बपन नहीं किया जा सकता, सब रानियाँ सब मंगल वस्तुओं की सजा रही हैं । बहुत प्रकार से सजाकर प्रार्थन मन हो गुन्दर मंगल-गान करने लगीं ।

दोहा—कनक थार भरि मङ्गलन्हि, कमलकरन्हिलिएँ मात ।

चलीं मुदित परिछन करन, पुलक पल्लवित गात ॥३४३॥

सोने के चालों में अनेक मंगल पदार्थ भरकर हाथों में लिए हुए सब माता प्रसन्ना पुष्पक पुतकित होने के कारण प्रफुल्लित शरीर होकर धोरामजी का परिछन करने पतीं ।

धूप धूम नभु मेचक भयऊ * सावन घन घमण्डु जनु ठयऊ
सुरतरु सुमन माल सुर वरपाहि * मनहुँ वाल अवलि मनु करपाहि

अगरके धुएँ से आकाश ऐसा न्याम बर्ष होगया, मानो सावनके पने बादल छागये हों । देवता कल्पवृक्ष के पुष्पों की मालायेँ बरसाने लगे, मानो बगुलियों की पंशित मनकी घोंच रही हों ।

मंजुल मनिमय वन्दनिवारे * मनहुँ पाप रिपु चाप संवारे
प्रगटहि दुरहि अटन्ह पर भामिनि * चारु चपल जनु दमकहि दामिनि

गुन्दर मणियों से बड़ी हुई बन्दनवार ऐसी सुगोभित हुई, मानो इन्द्र-धनुष ही हो । अटारियों पर चढ़ी चतुर और चंचल स्थिरा-कर्म प्रकट होती और कभी छिपती हुई ऐसी जान पड़ती थीं मानो विजयियाँ घमक रही हों ।

दुन्दुभि धुनि घन गरजनि घोरा * जाचक चातक दादुर मोरा
सुर सुगन्ध सुचि वरपाहि वारी * सुखी सकल कृपि पुर नर नारी

नगाहों की ज्वनि मानो बादलों की गजंता है । दाचकगन चकोहा, मंड़क और मोर है । देवता आकाश में त्वच्छ, सुगन्धित जल बरसा रहे हैं, सब राजा-धनुष मुषी हो रहे हैं ।

समय जानि गुरु आयसु दीन्हा * पुर प्रवेनु रघुकुलमनि कोन्हा
सुमरि सम्भु गिरिजा गनराजा * मुदित महीमति सहित समाजा

सब सों विदा माँगि रघुनन्दन अनुज सहित पगु धारे ।
निकसे मानहुँ सिद्धि सदन ते चार चन्द्र छबि वारे ॥

फिर सबसे विदा माँग कर धीरघुनाथजी भाइयों सहित चले, मानो सिद्धि के महल से कला-पूर्ण चार चन्द्रमा निकले हों ।

दोहा—बिदा सासु तें होय पुनि, आये सग जनवास ।

बढ़त छिनहि छिन जनकपुर, आनन्द परम हुलास ॥ ७ ॥

फिर सासु से विदा होकर सभी राजकुमार जनवासे आये । जनकपुर में प्रति क्षण आनन्दोल्लास बढ़ता है ।

❀ इति क्षेपक ❀

नित नूतन मङ्गल पुर माहीं * निमिसरिस दिन जामिनी जाहीं
बड़े भोर भूपति मनि जागे * जाचक गुन गन गावन लागे

जनकपुर में नित्य-नये मङ्गल होते थे, एक पल के समान दिन-रात बीते जाते थे । प्रातःकाल ही राजमुकुट-मणि राजा दशरथजी जागे, याचक राजा की गुणावली गाने लगे देखि कुअँरि वर बधुन्ह समेता * किमि कहि जात मोद मन जेता
प्रात क्रिया करि गए गुरु पाहीं * महाप्रमोद प्रेम मन माहीं

चारों पुत्रों को बहुओं समेत देखकर महाराज दशरथजी के मन में जो आनन्द हुआ, वह कैसे कहा जा सकता है ? वे प्रातः क्रिया करके गुरु के पास गये, उस समय उनके मन में बड़ा आनन्द और प्रेम था ।

करि प्रनासु पूजा कर जोरी * बोले गिरा अमिअँ जनु जोरी
तुम्हरी कृपा सुनहु मुनिराजा * भयउ आजु मैं पूरन काजा

हाथ जोड़कर प्रणाम कर और पूजा करके मानो अमृत से भरी हुई वाणी बोले—हे मुनिराज ! सुनिये, आपकी कृपा से मैं आज पूर्णकाम हो गया ।

अब सब विप्र बोलाइ गोसाँई * देहु धेनु सब भाँति बनाई
सुनि गुरु करि सहिपाल बड़ाई * पुनि पठये मुनिवृन्द बोलाई

हे गोसाँई ! अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर सब भाँति से सजाकर गौएँ दीजिए । यह सुनकर गुरु ने राजा की वड़ाई की, फिर सब मुनिगणों को बुला भेजा ।

दोहा—वामदेव अरु देवऋषि, बाल्मीकि जावालि ।

आये मुनिवर निकर तब, कौसिकादि तपसालि ॥ ३२८ ॥

तब वामदेव, नारद, बालमीकि, जावालि और महा तपस्वी विश्वामित्रजी आदि श्रेष्ठ मुनियों का सनूह वहाँ आया ।

दण्ड प्रनाम सर्बाहं नृप कीन्हे * पूजि सप्रेम वरासन दीन्हे

पुनि पुनि सिय राम छवि देखीं * मुदित सफल जग जीवन लेखीं

बहुओं समेत पारों पुत्रों को देखकर मातायें परम आनन्द में मान ही गईं । बारम्बार श्रीरामजी तथा सीताजी को छवि को देख जगत् में सब अपना दोषन मुक्त करने लगीं ।

सखी सिय मुखा पुनि पुनि चाहौं * गान करहिं निज सुकृत सराहीं

वरपाहिं सुमन छनहिं छन देवा * नाचाहिं गावाहिं लावाहिं सेवा

सखियाँ-सीताजी के मुख को बारम्बार देखकर अपने पुत्रों को सराहना कर गीत गाने लगीं । देवता क्षण २ में पूज्य बरताने, नाचने-गाने तथा सेवा प्रदाने लगे ।

देखि मनोहर चारिउ जोरी * सारद उपमा सकल ढेंढोरी

देत न वनहिं निपट लघु लागीं * एकटक रही रूप अनुरागीं

चारों मनोहर जोड़ियों को देख सब उपमा तूँड़ टाँसी किन्तु कोई उपमा देते नहीं बनी और सब छोटी जान पड़ीं, तब अनुरक्त सरस्वतीजी टकटकी लगाये देखती ही रह गईं ।

दोहा—निगम नीति कुलरीति करि, अरघ पाँवड़े देत ।

वधुन्ह सहित सुत परिछि सब, चलीं लिवाइ निकेत ॥३४६॥

वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ्य-पावड़े देती हुईं यशुओं सहित सब पुत्रों को मातायें महल में लियाकर ले गईं ।

चारि सिंहासन सहज सोहाए * जनु मनोज निज हाय बनाए

तिन्ह पर कुअँरि कुअँर वैठारे * सादर पायं पुनीत पदारै

चार सिंहासन स्वाभाविक ही मुहावने मानो कामदेव ने अपने हाथों में बनाये थे, उन पर राजकुमारियों सहित कुँवरों को बँटाया और आदर सहित उनके पवित्र चरण छीए ।

धूप दीप नैवेद्य वेदि विधि * पूजे वर दुलहिन मङ्गलनिधि

वारहिं वार आरती करहीं * व्यञ्जन चारु चमर सिर डरहीं

फिर वेद के अनुसार धूप, दीप, नैवेद्य द्वारा मंगलों को पान कर-बुझिना की पूजा की और बारम्बार आरती करने लगीं । सिर पर मुन्दर पंखे और घंवर दुर रहे हैं ।

वस्तु अनेक निछावरि होही * भरी प्रमोद मातु सब सोही

पावा परम तत्व जनु जोगी * अमृत लहेऊ जनु सन्तन रोगी

अनेक वस्तुयें ग्योछावर हो रही हैं, सब मातायें आनन्द में बरी हुई ऐसी तोभापमान हुईं, मानो योगी ने परम तत्व पाया हो, सब के रोगों को मानो अमृत मिल गया हो ।

जनम रङ्गु जनु पारस पावा * अन्धहि लोचन लानु सुहावा

मूक बदन जनु सारद छाई * मानहुँ तमर सूर जय पाई

जन्म के कंगाल में मानो पारस पाया हो, अन्धों को मानो आँखें मिल गईं हो, मूक के मुख में बँगे सरस्वतीजी या बिराजो हो और मानो बुज में गुरवार ने बिरब पाई हो ।

अब दशरथ कहँ आयसु देहू * जद्यपि छाँड़ि न सकहु स्नेहू
भलेहिं नाथ कहि सचिव बोलाए * कहि जयजीव सीस तिन्ह पाए

अब दशरथजी को आज्ञा दी, यद्यपि स्नेह नहीं छोड़ सकते हैं। जनकजी ने कहा है नाथ !
बहुत अच्छा, यह कह मन्त्रियों को बुलाया। उन्होंने आकर 'जयजीव' कहकर सिर तवाया।

दोहा—अवधुनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाउ।

भए प्रेम बस सचिव सुनि, विप्र सभासद राउ ॥३३०॥

अवधपति दशरथजी जाना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर करदों। जनकजी की
यह बात सुनकर मन्त्री, ब्राह्मण, सभासद और स्वयं राजा स्नेह के वश हो गये।

पुरवासी सुनि चलिहि बाराता * बूझत विकल परस्पर बाता
सत्य गवनु सुनि सब बिलखाने * मनहुँ साँझ सरसिज सकुचाने

जनकपुरवासियों ने जब सुना कि बरात चली जायगी, तब विकल होकर आपस में
बात पूछने लगे। जाना निश्चय सुना, तब सब ऐसे दुखी हुए, मानो सन्ध्या होने से कमल
मुरझा गये हों।

जहँ जहँ आवत बसे बराती * तहँ तहँ सिद्ध चला बहु भांती
विविध भाँति सेवा पकवाना * भोजन साजु न जाय बखाना

जहाँ-जहाँ आते समय बराती ठहरे थे, वहाँ-वहाँ बहुत भाँति का सीधा भेजा गया। अनेकों
भाँति की सेवा पकवान और भोजन का सामान वर्णन नहीं किया जा सकता।

भरि भरि बसहँ अपार कहारा * पठई जनक अनेक सुआरा
तुरग लाख रथ सहज पचीसा * सकल सँवारे नख अरु सीसा

बहुत से बैल लादकर उनमें अपार सामग्री और अनेकों पलङ्ग जनकजी ने भेज दिये।
फिर एक लाख घोड़े, पच्चीस हजार रथ नख-शिख से सजाकर तैयार किये।

भक्त सहस्र दस सिंधुर साजे * जिन्हहि देखि दिसिकुंजर लाजे
कनक बसनमनि भरि भरि जाना * महिषीं धेनु वस्तु विधि नाना

दस हजार मतवाले हाथी सजाये, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा गये। सोना
वस्त्र और मणियों को छकड़ों में भरकर तथा भैंसे, गायों व अनेक प्रकार की वस्तुयें भेजीं।

दोहा—दाइज अभितन सकिय कहि, दीन्ह विदेहँ बहोरि।

जो अवलोकत लोकपति, लोक सम्पदा थोरि ॥३३१॥

अपरमित दहेज जनकजी ने दिया, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर लोक-
पालों के लोक की सम्पदा भी थोड़ी जँचने लगी।

सबु सभाजु एहि भाँति बनाई * जनक अवधपुर दीन्ह पठाई
चलिहि बरात सुनत सब रानीं * विकल मीनगन जनु लघु पानीं

राजा जनकजी ने दहेज की सामग्री इस प्रकार सजाकर अयोध्या को भेज दी। बरातका

ने किया। ब्राह्मणों की भीड़ देख सब रानियों अपने-अपने अहोमाय्य आनकर आहर के साथ उठीं।
पाँच पखारि सकल अन्हवाए * पूजि भली विधि भूप जेवाए
आदर दान प्रेम परितोषे * देत असोप चले मन तोषे

चरण छोकर सबको स्नान कराया और भली प्रकार पूजाकर राजा ने उनकी विन्याया।
आदर दान और प्रेम से सन्तुष्ट किया, ये सब आशोर्वादि बेटे हुए चले गये।

बहुविधि कोन्ही गाधिसुत पूजा * नाथ मोहि सम धन्य न दूजा
कोन्ह प्रसंसा भूपति भूरी * रानिन्ह सहित लीन्ह पग धूरी

फिर महाराज ने विश्वामित्रजी की पूजा की और बोले-हे नाथ! मेरे समान धन्य दूसरा
कोई नहीं है। राजा से उसको बहुत बढ़ाई की और रानियों सहित उसकी चरण-रजाती।

भीतर भवन दीन्ह वर वासू * मन जोगवत रह नृप रनिवात्स
पूजे गुरु पद कमल बहोरी * कीन्हि विनय उर प्रीति न थोरी

महल के भीतर ही रहने का सुन्दर स्थान दिया, जिससे राजा व रनिवात्स मुनिका मन
परपते रहे फिर गुरु षण्णिकों के चरणों का पूजन और पिनती की, उक्त समय राजा के
हृदय में प्रीति थोड़ी नहीं थी।

दोहा—बन्धुह समेत कुमार सब, रानिन्ह सहित महींसु।—

पुनि पुनि बन्दत गुरु चरन, देत असोप मुनीसु ॥३५०॥

बटुओं सहित सब राजकुमारों ने और रानियों सहित राजा ने गुरु के चरणों में धार-
न्धार प्रणाम किया और मुनीश्वर ने आशोर्वादि दिया।

विनय कीन्ह उर अति अनुरागे * सुत सम्पदा राखि सब आगे
नेगु माँगि मुनि नायक लीन्हा * आसिरवाद बहुत विधि दीन्हा

राजा ने पुत्र और सब सम्पदा आगे रखकर बड़े प्रेम के साथ हृदय से विनय की, सब
मुनीश्वर ने अपना नेग माँग लिया और बहुत विधि से आशोर्वादि दिया।

उर धरि रामहि सीय समेता * हरपि कीन्ह गुरु गवनु निकेता
विप्र वध सब भूप बोलाई * चैल चारु भयन पहिराई

सौताजों सहित श्रीरामचन्द्रजों को हृदय में धारण कर गुरु षण्णिकों प्रसन्न होकर अपने
स्थान को चले गये। फिर राजा ने ब्राह्मण-स्त्रियों को बुलाकर गुरुदर परामुषन पहिराये।

बहुरि बोलाई सुआसिनि लीन्ही * रुचि विचारि पहिरावन दीन्ही
नेगो नेग जोग सब लेहीं * रुचि अनुत्प भूप मनि देहीं

फिर मुहागिन स्त्रियों को बुला लिया और उनकी रुचि के अनुसार पहिरावनों की
रानियों ने सब नेग-जोग लिये, महाराज ने सबको उनकी रुचि के अनुसार नेग दिया।

प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने * भूपति भली भाति सतमाने
देखि देखि रघुवीर विवाह * बरपि प्रसून प्रसंसि

श्रीरामचन्द्रजी की शोभा देखकर हृदयमें धरलो, अपने मनरूपी सर्प में इनकी मूर्तिरूपी मणि को धारण करो । इस प्रकार सबके नेत्रोंको फल देते सब राजकुमार राज-भवन में गये ।

दोहा—रूप सिंधु सब बन्धु लखि, हरषि उठा रनिवासु ।

करहि निछावरि आरती, महा मुदित मन सासु ॥३३३॥

रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास प्रसन्न होकर उठा । सासु मनमें बहुत ही प्रसन्न हो न्यौछावर और आरती करने लगीं ।

देखि राम छवि अति अनुरागी * प्रेम विवस पुनि पुनि पद लागी
रही न लाज प्रीति उर छाई * सहज स्नेह वरनि किमि जाई

वे श्रीरामजी की छवि देखकर बहुत प्रसन्न हुईं, मारे प्रेम के वारम्बार चरण छूने लगीं । लाज छूट गई, हृदय में प्रेम भर गया । उस स्वाभाविक प्रेम का वर्णन कैसे किया जाय ?

भाइन्ह सहित उबटि अन्हवाए * छरस असन अति हेतु जेदाए
बोले राम सुअवसर जानी * सील स्नेह सकुचमय बानी

भाइयों सहित श्रीरामजी को उबटन लगाकर स्नान कराया । छहों रस संयुक्त भोजन अधिक स्नेह के साथ जिमाये, श्रीरामजी सुअवसर जानकर शील, स्नेह और सङ्कोच भरी वाणी बोले-

राउ अबधपुर चहत सिधाए * विदा होन हम इहाँ पठाए
सातु मुदित मन आयसु देह * बालक जानि करब नित नेह

महाराज अयोध्यापुरी को जाना चाहते हैं, उन्होंने विदा होने के लिए हमको यहाँ भेजा है । हे माता ! प्रसन्न मन से आज्ञा दो, बालक जानकर हम पर नित्य स्नेह करती रहना ।

सुनत वचन बिलखेउ रनिवास * बोलि न सकहि प्रेम बस सासु
हृदय लगाइ कुअँरि सब लीन्हों * पतिन्ह सौँपि विनती अतिकीन्हों

यह वचन सुनते ही रनिवास उदास होगया, सासु स्नेह वश बोल न सकीं । फिर सब पुत्रियों को हृदय से लगाया और पतियों को सौँपकर बहुत विनय की ।

छन्द—करि विनय सिय रामहि समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहै ।

बलि जाउँ तात सुजान तुम्ह कहूँ विदित गति सबकी अहै ॥

परिवार पुरजन मोहि राजहि प्रानप्रिय जानिबी ।

तुलसी सुसौलु स्नेह लखि निज किंकरी करि मानिबी ॥

रानी विनती कर, सीताजी को श्रीरामजी को समर्पण कर हाथ जोड़कर वारम्बार विनय करने लगीं हे सुजान ! मैं बलिहारी जाऊँ, आपको सबकी गति मालूम है । यह सीता सब कुटुम्बियों को, नगर वासियों को मुझको और राजा को प्राणोंके समान प्रिय है, ऐसा जानना । हे तुलसी के स्वामी ! इसका शील और स्नेह समझकर इसे अपनी दासी मानना ।

सो०—तुम्ह परि पूरन काम, जानि सिरोमनि भाव प्रिय ।

प्रेम प्रमोद विनोदु बड़ाई * समउ समाजु मनोहरताई

धोरामचन्द्रजी के दर्शन कर, आजा पाकर, तिर नयाकर सब अपने-अपने पर गये।

उस समय का प्रेम, आनन्द, उल्लाह, बड़ाई समय और समाज की गुनरता-

कहि न सकाहि सत सारद सेसू * शेष विरञ्चि महेस गनेसू

सो मैं कहों कवन विधि वरनी * भूमि नागुसिर धरइ कि धरनी

संकड़ों सरस्यतो, शेष, यस्या, शिव और गणेश भी नहीं कह सकते। उनका मैं किस

प्रकार वर्णन कर सकता हूँ? क्या केंपुआ जो पृथ्वी को तिर पर धारण कर सकता है?

नृप सब भाँति सबहि सनमानी * कहि मृदु वचन बोलाई रानी

बधू लरकिनी पर घर आई * राखेउ नयन पलक को नाई

राजा दशरथजी ने सब भाँति से सबका आदर किया, फिर रानियों को बुलाकर भागुर बाजी से

कहा-ये बड़े अमी लड़की हैं, पराये घर आई हैं, इनको नेत्रों और पलकों की भाँति रचना।

दोहा-लरिका श्रमितउ नौद वस, सयन करावहु जाय।

अस कहि गे विश्राम गृह, राम चरन चित लाय ॥३५३॥

सड़के मार्ग की पकावट से नौब के पस हो रहे हैं, सो आकर इनको नयन कराओ।

यह कहकर धोरामचन्द्रजी के घरणों में चित्त लगाकर विषाम गृह में घते गये।

भूप वचन सुनि सहज सुहाए * जटित कनक मनि पलंग उसाए

सुभग सुरभि पय फेन समाना * कोमल कलित सुपेती नाना

राजा के मुहायने वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े हुए सोने के पलंग बिछाये। उन पर

गुनवर गी के बूध के फेन के समान उज्ज्वल और कोमल जनेक मनोहर पादरे बिछाये।

उपवरहन वर वरनि न जाहीं * स्रग सुगन्ध मनि मन्दिर माहीं

रतनदीप सुठि चारु चंदोवा * कहत न वनइ जान जेहि जाँवा

गुनवर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता, उस मणिमय मन्दिर में सुगन्धित कृप-

माला लगे हैं। रत्नों के शोषक और गुनवर घंटियों की सोना कहते हुए नहीं बनता, किन्हीं

बेषा है, ये ही जानें।

सेज रुचिर रचि रामु उठाए * प्रेम समेत पलंग पौड़ाए

आग्या पुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही * निज निज सेज सयन तिन्ह कोन्ही

उत्तम रीति से सेज सजाकर धोरामजी को उठाया और स्नेह महित कर्ण पर लिटा दिया।

धोरामजी ने भाइयों को बारम्बार आजा बो, तब उन्होंने भी अपनी-अपनी पर गयन की।

देखि श्याम मृदु मंजुल गाता * कहहि सप्रेम वचन सब माता

मारग जात भयावनि भारी * केहि विधि तात ताड़का मारी

धोरामचन्द्रजी के श्यामगुनवर कोमल गारों को देख कर मातायें स्नेह महित कहने लगी-

हे पुत्र! मार्ग जाने हुए इरावती ताड़का राक्षसों को तुमने किस प्रकार मारा?

सीय बिलोकि धीरता भागी * रहे कहावत परम विरागी
लीन्हि रायें उर लाइ जानकी * मिटी महा मरजाद ग्यान की

जो बड़े विरक्त कहलाते थे, सीताजी को देखकर उनका धीरज छूट गया। राजा ने जानकीजी को हृदय से लगा लिया, ज्ञान की बड़ी मर्यादा मिट गई।

समुझावत सब सचिव सयाने * कीन्ह विचार न अवसरु जाने
बारहिं बार सुता उर लाई * सजि सुन्दर पालकी मँगाई

सब चतुर मन्त्री राजा को समझाने लगे। अधिक प्रीति का समय न जानकर विचार किया। बारम्बार हृदय से पुत्रियों को लगाया, फिर सुन्दर पालकी सजवाकर मँगाई।

दोहा-प्रेम विवस परिवारु सबु, जानि सुलगन नरेस।

कुअँरि चढाई पालकिन्ह, सुमिरे सिद्धि गनेस ॥३३५॥

सब परिवार को प्रेम में विकल देखकर और शुभ-लगन जानकर तथा सिद्धि के दाता गणेशजी का स्मरण करके राजा ने राजकुमारियोंको पालकियों में बैठाया।

बहु विधि भूप सुता समुझाई * नारिधरमु कुलरीति सिखाई
दासी दास दिए बहुतेरे * सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे

राजाने बहुत आँतिसे पुत्रियों को समझाया और स्त्री-धर्म तथा कुल रीति की शिक्षा दी। फिर बहुत से दास-दासी जो सीताजी के प्रिय और विश्वास-पात्र सेवक थे, वे दिये।

सीय चलत व्याकुल पुरवासी * होहिं सगुन सुभ मङ्गल रासी
भूसुर सचिव समेत समाजा * सङ्ग चले पहुँचावन राजा

सीताजी के चलते समय जनकपुरवासी बेचैन होगये, और शुभ-मङ्गलदायक शगुन होने लगे। राजा जनक-ब्राह्मण, मन्त्री और समाज सहित पहुँचाने चले।

मय बिलोकि बाजने बाजे * रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे
दसरथ विप्र बोलि सब लीन्हे * दान मान परिपूरन कीन्हे

समय देखकर बाजे बजने लगे और बरातियों ने पर, हाथी, घोड़े सजाये। महाराज दशरथजी ने सब ब्राह्मण बुला लिये और दान-मान से उनको सन्तुष्ट कर दिया।

चरन सरोज धूरि धरि सीसा * मुदित महीपति पाइ असीसा
सुमिरि गजानन कीन्ह पयाना * मङ्गल मूल सगुन भए नाना

उनके चरण-कमलों की रज को मस्तक पर चढ़ाकर और आशीर्वाद पाकर राजा प्रसन्न हुए। गणेशजी का स्मरण करके प्रस्थान किया, उस समय अनेक मङ्गलदायक शकुन हुए।

दोहा-सुर प्रसून बरषाहिं हरषि, करहिं अपछरा गान।

चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाइ निसान ॥३३६॥

देवता प्रसन्न होकर पुष्प बरसाने लगे, अप्सरा गान करने लगीं, तब अवधपति दशरथ जी प्रसन्नता पूर्वक निशान बजाकर अयोध्या को चले।

यनी लगती हैं। बटुओं को लेकर सामुद्रें सोई, जैसे नागिन मजिचों को दृश्य में छिपा लेती हैं।
 प्रातः पुनीत काल प्रभु जागे * अरुन चूड़ वर बोलन लागे
 वन्दि मागधन्हि गुन गन गाए * पुरजन द्वार जोहारन आए

प्रातःकाल पवित्र मुहूर्त में प्रभु जागे, सुन्दर मुर्गे बोलने लगे। भाट व माण्ड गुना-यती गाने लगे, नगर-निपातो बुहार के लिए राज-द्वार पर जाये।

वन्दि विप्र सुर गुरु पितु माता * पाइ असौप मुदित सब भ्राता
 जननिन्ह सादर वदन निहारे * भूपति सङ्ग द्वार पगु धारे

ब्राह्मण, देवता, गुरु, पिता, माताओं को प्रणामकर जातीबाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आबर से सब पुत्रों के मुख देखे, फिर चारों भाई राजा के संग द्वार पर जाये।

दोहा—कीन्हि सौच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाइ।

प्रातःक्रिया करि तात पहि, आए चारिउ भाइ ॥३५६॥

स्वभाय से ही पवित्र-शौचादि से निवृत्त हो पवित्र सरयू में स्नान कर प्रातः क्रिया करके चारों भाई पिता के पास आए।

भूप बिलोकि लिए उर लाई * बैठे हरपि रजायसु पाई
 देखि राम सब सभां जुड़ानी * लोचन लाम अवधि अनुमानो

राजा ने उन्हें देखते ही दृश्य से लगा लिया। फिर आग्रा पाकर ये प्रसन्न होकर बैठ गये। धीरामजी के वर्णन करके सब सना शीतल होगई। सबने यह मान लिया कि नेत्रों के लाम की सोमा यहीं तक है।

पुनि वशिष्ठ मुनि कौसिकु आए * सुभग आसनन्हि मुनि बैठाए
 सुतन्ह समेत पूजि पद लागे * निरखि रामु दोउ गुरु अनुरागे

फिर वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्रजी आए, राजा ने उत्तम आसनों पर बंठाया, फिर पुत्रों समेत मुनियों की पूजा करके धरम हुए। धीरामजी के वर्णन करके दोनों गुरु प्रेम में मान हांगये।

कहाँहि वसिष्ठु धरम इतिहासा * सुनहि महीसु सहित रनिवासा
 मुनि मन अगम गाधिसुत करनी * मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वरनी

वशिष्ठमुनि धर्म के इतिहास कहने लगे और राजा रनिवास समेत सुनने लगे, फिर मुनियों के मन को भी अगम्य विश्वामित्रजी की करनी को वशिष्ठजी ने प्रान्ता पूरक बहुत भांति से वर्णन किया।

बोले वामदेव सब साँची * कीरति कलित लोक तिहुँ माँची
 सुनि आनन्दु भयउ सब काहू * रामलखन उर अधिक उछाहू

वामदेवजी बोले-ये सब बातें सत्य हैं, विश्वामित्रजी की कौंति दोनों सोई में छेन रखी है। यह सुनकर सबको आनन्द हुआ, धीराम-लखमजी के दृश्य में अधिक जगहा हुआ।

दोहा—मङ्गल मोद उछाह नित, जाहि दिवस एहि भांति।

जिसके लिए योगीश्वर क्रोध, मोह, ममता और अभिमान छोड़कर योग करते हैं । जो सर्वव्यापक, ब्रह्म अलख, अविनाशी, सच्चिदानन्द, निर्गुण और गुणों की राशि हैं ।

मन समेत जेहि जान न बानी * तरकि न सकहि सकल अनुमानी
महिमा निगभु नेति तेहि कहई * जो तिहुँ काल एक रस रहई

मन सहित वाणी जिसको जान नहीं सकती, सब अनुमान से ही जिसको नचाते हैं कोई तर्क नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद 'नेति' कहते हैं और जो तीनों कालों में एक रस रहते हैं।

दोहा—नयन विषय जा कहुँ भयउ, सो समस्त सुख मूल ।

वह लाभ जग जीव कहँ, भएँ ईसु अनुकूल ॥३३८॥

वही सब सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के आगे प्रत्यक्ष हुए ईश्वर अनुकूल होने से जगत् में जीवों को सभी लाभ सुलभ हैं ।

सबहि भाँति मोहि दीन्ह बड़ाई * निज जनि जानि लीन्ह अपनाई
होहि सहस दस सादर सेवा * करहि कल्प भरि कोटिक लेखा

आपने मुझे सब प्रकार से बढ़ाई दी और अपना दास जानकर अपना लिया । जो दस हजार सरस्वती और शेष मिलकर करोड़ों कल्पों तक लेखा करें—

मोर भाग्य राउर गुन गाथा * कहि न सिराहि सुनहु रघुनाथा
मैं कछु कहउँ एक बल मोरें * तुम्ह रीझह स्नेहु सुठि थोरें

तो भी हे रघुनाथजी ! सुनो मेरे भाग्य व आपके गुणोंकी कथा को कहकर अंत नहीं पा सकते । मैं जो कुछ कहता हूँ, सो इसी बल पर कि आप थोड़े से ही निष्कपट स्नेह से प्रसन्न होजाते हैं ।

बार बार भाँगउँ कर जोरें * मनु परिहरें चरन जनि भोरें
सुनि वर वचन प्रेत जनु पोषे * पूरन काम रामु परितोषे

बारंबार हाथ जोड़कर मैं वही माँगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को न छोड़े । इस प्रकार जनकजी ने मानो स्नेह से पुष्ट किये हुए श्रेष्ठ वचन सुनकर श्रीरामजी संतुष्ट हुए ।

करि वर विनय ससुर सनमाने * पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने
विनती बहुरि भरत सन कीन्ही * मिलि सप्रेम पुनि आसिष दीन्ही

उन्होंने ससुर जनकजी को पिता, विश्वामित्रजी व वशिष्ठजी के समान जानकर विनती करके सम्मान किया, फिर राजा ने भरतजी को विनती की और स्नेह के साथ मिलकर आशीर्वाद दिया ।

दोहा—मिले लखन रिपुसूदनहि, दीन्हि असीष महीस ।

मिले परस्पर प्रेम बस, फिर फिर नावहि सीस ॥३३९॥

फिर राजा ने लक्ष्मणजी और शत्रुघ्नजी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया । वे आपस में ऐसे प्रेम के वश हुए कि बारंबार प्रणाम करने लगे ।

बार बार करि विनय बड़ाई * रघुपति चले सङ्ग सब भाई

वहुरे लोग रजायसु भयऊ * सुतन्ह समेत नृपति गृह गयऊ
जहँ तहँ रामु व्याहू सबु गावा * सुजसु पुनीत लोक तिहँ छावा

राजा को आता हुई तब तब सोंग लोटे, महाराज पुत्रों सहित महलों में गये। जहाँ-
तहाँ राम के विवाह का पता चलने लगा, और पवित्र पता तोनों मोहो में छा गया।

आए व्याहि रामु घर जब तें * बसइ अनन्द अवध सब तब तें
प्रभु विवाहें जस भवउ उछाहू * सकाहि न वरनि गिरा अहिनाहू

जब से धीरामजी विवाह करके घर आये, तबने जयोध्या में सब आनन्द पता गये। प्रभु
के विवाह में जैसा आनन्दोत्सव हुआ, उसको सरस्वतीजी और गेयजी भी वर्णन नहीं कर सकते।

कविकुल जीवनु पावन जानी * राम सीय जसु मङ्गल खानी
तेहि ते मैं कछु कहा बखानी * करन पुनीत हेतु निज वानी

धीसोता-रामजी के पता को-कपि-कुत्त के जीवन को पवित्र करने वाला और मङ्गल
की धान जानकर, मैंने अपनी धानी को पवित्र करने के लिए कुछ वर्णन किया है।

छन्द—निज गिरा पावनि करन कारन रामजसु तुलसी कक्षी ।

रघुवीर चरित अपार वारधि पारु कवि कौनें लखी ॥

उपवीत व्याहू उछाहू मङ्गल सुनि जे सादर गावहीं ।

वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुखु पावहीं ॥

तुलसीदासजी कहते हैं कि मैंने अपनी धानी को पवित्र करने के लिए 'राम-पता' वर्णन
किया है। धीरामजी के चरित्र अपार समुद्र हैं, कित्त कवि ने उसका पार पाया है? जो
सोच यज्ञोपवीत और विवाह के मङ्गलमय उत्सव को आदर से घुनकर गावेंगे, ये
धीसोता-रामजी की कृपा से सदा सुख पावेंगे।

सो०—सिय रघुवीर विवाहु, जे सप्रेम गावहि सुनिहि ।

तिन्ह कहूँ सदा उछाहू, मङ्गलायतन रामु जसु ॥११॥

जो धीसोताजी और धोरणुनापजी का विवाह प्रेम में गावेंगे और सुनेंगे, उनका सदा
आनन्द हो आनन्द है। क्योंकि धीरामजी का पता मङ्गल का धाम है।

ॐ मात पारायण—चारहवां विधाम ॐ

॥ इति धीमदरामचरितमानसे तरुतरुतिरुतुष विष्वसे प्रथम सोपान समाप्तः ॥

कतिपुग के सम्पूर्ण पापों को नष्ट करने वाले धीरामचरितमानसे का

यह प्रथम सोपान समाप्त हुआ ॥



सफल पूगफल कदलि रसाला * रोपे बकुल कदम्ब तमाला
लगे सुभग तरु परसत धरनी * मनिसय आलबाल कल करनी

सुपारी,केला,आम,मौलश्री,कदम्ब और तमाल के वृक्ष फल सहित रोपे। वृक्ष ऐसे लगाये गए कि फलों के बोझ से पृथ्वी को छूने लगे, उनके मणियों के थामे कारीगरी के साथ बनाए गए थे।

दोहा—बिवध भाँति मङ्गल कलस, गृह गृह रचे सँभारि।

सुर ब्रह्मादि सिहाहिं सब, रघुबर पुरी निहारि ॥३४१॥

नाना प्रकार के मंगल-कलश सजाकर घर-घर रक्खे गये। ब्रह्मादिक सब देवता-श्रीरघुनाथजी की पुरी को देखकर प्रसन्न होने लगे।

भूष भवन तेहि अवसर सोहा * रचना देहि मदन मन मोहा
मङ्गल सगुन मनोहरताई * रिधि सिधि सम्पदा सुहाई

उस समय राज-भवन ऐसा शोभायमान था कि उसकी रचना देखकर कामदेव का मन मोहित होगया। मंगल-शकुन, मनोहरता, ऋद्धि-सिद्धि, सुख, सम्पदा-ये सब विराजमान थे।

जनु उछाहु सब सहज सुहाए * तनु धरि धरि दसरथ गृहँ छाए
देखन हेतु राम बैदेही * कहहु लालसा होहि न केही

मानो यह सब उत्सव सहित स्वभाव से ही सुन्दर शरीर धर-धरकर राजा दशरथ के घर आये हों। श्रीरामजी और सीताजी को देखने के लिए कहिए किसकी लालसा नहीं होती ?

जूथजूथ मिलि चलीं सुआसिनि * निजछबिनिदरहिंमदनबिलासिनि
सकल सुभङ्गल सजें आरती * गावहि जनु बहु वेष भारती

झुण्ड के झुण्ड मिलकर सुहागिन स्त्रियाँ ऐसे चलीं, मानो अपनी छवि से रतिका निरादर कर रही हों। सब सुमंगलों से आरती सजाकर गा रही हैं, मानो सरस्वती बहुत से रूप लिये गा रही हों।

पति भवन कोलाहल होई * जाइ न वरनि समय सुख सोई
कौशल्यादि राम सहतारी * प्रेम विवस तनु दसा बिसारी

राज-महल में शोर मच रहा है, उस समय का सुख वर्णन नहीं किया सकता। कौशल्यादि श्रीरामचन्द्रजी की माताओं ने प्रेम के कारण देह को सुधि विसार दी।

दोहा—दिए दान विप्रन्ह विपुल, पूजि गनेश पुरारि।

प्रमुदित परस दरिद्र जनु, पाइ पदारथ चारि ॥३४२॥

फिर गणेशजी और शिवजी का पूजन कर, ब्राह्मणों को बहुत से दान दिये। वे सभी प्रसन्न हुए, मानो महादरिद्रो चारों पदार्थ पा गये हों।

भोद प्रमोद विवस सब माता * चलहि न चरन सिथिल भए गाता
राम दरस हिम अति अनुरागी * परिछिन साजु सजन सब लागी

प्रेम और आनन्द के वश सब मातायें वेसुध, होगईं,आगे पाँव नहीं पड़ते, सब अंग शिथिल

गुप्तों के घरणकर्मों को पूति से अपने मनरूपों अपने को साक करके धीरामजी का उज्ज्वल पता वर्जन करता है, जो चारों कर्मों (यमं, दयं, क्षम, मोक्ष,) को देने जाता है। जब तें राम व्याहि घर आए * नित नव मङ्गल मोद वधाए भुवन चारि दस भूधर भारी * सुकृत मेघ वरपाहि सुख वारी

अबसे धीरामजी विवाह करके घर आये, तब से यहाँ नित्य-नये मङ्गल और भाग्य बधाये होने लगे। चौबहों मुपनरूपों बड़े २ पयंतों पर पुण्यरूपों मेघ-मुपनरूपों व्रत को बर्षा करने लगे।

रिधिसिधि सम्पत्ति नदी सुहाई * उमगि अवध अम्बुधि कहूँ आई मनिगन पुर नर नारि सुवाती * सुधि अमोल सुन्दर सब भाँती

श्रद्धा, सिद्धि और सम्पत्ति रूपी मुहायनी नदियाँ उमड़ कर बयोध्या रूपी समुद्र में धा मिलीं। पुर के स्त्रो-पुत्र्य ही ननियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से निमंत, जमोत और गुप्तर हैं।

कहि न जाय कछु नगर विभूती * जनु एतनिअ विरंचि करतूती सब विधि सब पुर लोग सुखारी * रामचन्द्र मुख-चन्दु निहारी

पुरी का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, मानो द्रष्टाओं को शरीरगरी इतनी ही है। नगर निपातो धीरामजी के चन्द्रमूप के बसान करके सब प्रकार से मुग्य हैं।

मुदित मातु सब सखीं सहेली * फलित विलोकि मनोहर बेली राम रूप गुन सील सुमाऊ * प्रमुदित होइ देखि सुनि राज

सब मातायें, सखी-सहेलियाँ अपनी मनोरथरूपी बेलि को फलती देखकर प्रसन्न हैं। धीरामजी के गुण, रूप, उत्तम शील-स्वभाव को देख ब मुनकर राजा बरारयवी बहुत प्रसन्न होते हैं।

दोहा—इक दिन विश्वावसु तहाँ, कियो गान गन्धर्व। सुनि प्रसन्न व्है स्वपुर तेहि, कहीं रहन हित सर्व ॥ १ ॥

एक दिन विश्वावसु गन्धर्व ने यहाँ आकर गायन किया। गाने को मुनकर सबने प्रसन्न होकर उनसे अपने नगर में ही रहने के लिए कहा।

सो कह इन्द्र निदेश विन, मैं रहि सकत न अन्त।

कहीं केकड़ बसत है, हमरे बल सुर कन्त ॥ २ ॥

उसने कहा कि मैं इन्द्र को जाता के बिना कितो अन्य ह्मान पर नहीं रह सकता। तब केकड़ ने कहा कि इन्द्र तो हमारे ही बल पर अपने लोह में बसा है।

हमरे आवत रिस करत, अत तुम्ह गए मुटाइ।

पठइ पत्रिका चांचि कर, सुनि नृप रहे चुपाइ ॥ ३ ॥

हमारे यहाँ आने में इन्द्र झोप करे। ऐसे गुन अभिमान में पून पये हो? ॥ ३ ॥

समय जानकर गुरु वशिष्ठजी ने आज्ञा दी, तब महाराज दशरथजी ने शिव-पार्वती व गणेशजी का स्मरण कर प्रसन्नता पूर्वक समाज सहित नगर में प्रवेश किया।

दोहा-होहिं सगुन वरषाहिं सुमन, सुर दुन्दुभी बजाइ।

बिबुधि बधू नाचाहिं सुदित, मञ्जुल मङ्गल गाइ ॥३४४॥

शकुन होने लगे, देवता दुन्दुभी बजाकर पुष्प वर्षा करने लगे। देवाङ्गनायें प्रसन्नता से सुन्दर मंगल-गीत गाकर नाचने लगीं।

मागध सूत वन्दि नटनागर * गावाहिं जसु तिहुँलोक उजागर
जय धुनि विमल वेद वर बानी * दस दिसि सुनिअ सुमङ्गल सानी

भाट, सूत, मागध, चतुर नट-तीनों लोकों में प्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी का यश गाने लगे। सुन्दर मंगल से युक्त निर्मल जय-ध्वनि वेद की श्रेष्ठ वाणी दिशाओं में सुनाई देने लगी।

विपुल बाजने बाजन लागे * नभ सुर नगर लोग अनुरागे
बने बराती बरनि न जाहीं * महा सुदित मन सुख न समाहीं

बहुत से वाजे बजने लगे, आकाश में देवता, नगर में लोग प्रेम में मग्न होगये। बराती सब ऐसे सजे थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत ही प्रसन्न थे, मन में सुख नहीं समाता था।

पुरवासिन्ह तब राय जोहारे * देखत रामाहिं भए सुखारे
कराहिं निछावरि अनिगन चीरा * बारि बिलोचन पुलक शरीरा

अयोध्या-वासियों ने दशरथजी को नमस्कार किया और श्री रामजी का दर्शन करके सुखी हुए। मणियां और वस्त्र न्यौछावर कर रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे हैं और तन पुलकित हैं।

आरति कराहिं सुदित नरनारी * हरषाहिं निरखि कुँवर वरचारी
विका सुभग ओहार उघारी * देखि दुलहिनन्ह होहिं सुखारी

नगर की स्त्रियां प्रसन्न हो आरती करने और सुन्दर कुमारों को देखकर आनन्द में मग्न होने लगीं। पालकी के सुन्दर परदे खोलकर चारों दुल्हिनों को देखकर सुखी होने लगीं।

दोहा-एहि विधि सबही देत सुख, आए राजदुआर।

सुदित मातु परिछन कराहिं, बधुन्ह समेत कुमार ॥३४५॥

इस प्रकार सबको सुख देते हुए राज-द्वार पर आये। मातायें प्रसन्न होकर दुल्हिनों समेत कुमारों का परिछन करने लगीं।

कराहिं आरती बाराहिं बारा * प्रेम प्रमोदु कहै को पारा
भूषन मणि पट नाना जाती * कराहिं निछावरि अगनित भाँती

बारम्बार आरती करने लगीं, उस समय के प्रेम और आनन्द कौन कह सकता है? आरती कर के अनेक प्रकार के गहने मणि, वस्त्र न्यौछावर करने लगीं, जिनकी गणना नहीं की जा सकती।

बधुन्ह समेत देखि सुत चारी * परमानन्द मगन महतारी

जप तप योग यज्ञ व्रत दाना * विमल विराग ज्ञान विज्ञाना

जो समता रहित, मुक्ति और कल्याण-युक्त हैं, वे ही दशरथजी के सुत के नाम से गाये जाते हैं। जप, योग, यज्ञ, व्रत, दान, निर्मल वैराग्य, ज्ञान-विज्ञान आदि-

करहिं यत्न मुनि पावहिं कोई * देखा प्रकट भक्त बश सोई

हठ बश शठ बहु साधन करही * भक्ति हीन भवसिंधु न तरही

यत्न करके कोई २ मुनि जिसे पाते हैं, उन्हें भक्तों के प्रेम के बश प्रकट होते देखा। मूर्ख हठ करके बहुत से साधन करते हैं, परन्तु भक्तिहीन मनुष्य संसार-सागर से नहीं तर सकते।

दोहा-जानि सकइ ते जानहु, निर्गुन सगुन स्वरूप।

मम हिय पंकज भृङ्ग इव, बसहु राम नररूप ॥ ८ ॥

जो आपके निर्गुण और सगुण स्वरूप को जानने में समर्थ हों, वे ही जानें, परन्तु-हे श्रीरामजी ! आपका यह मनुष्य रूप मेरे हृदय रूपी कमल में भौरे के समान वास करे।

ब्रह्म भवन में रह्यौ कृपाला * गावत तव गुण दीनदयाला

अस इच्छा उपजी तन साहीं * बहु दिन गये लखे पद नाहीं

हे कृपालु ! मैं ब्रह्मलोक में आपके गुणगान करते हुए रहता था, उस समय मेरे मनमें ऐसी इच्छा प्रकट हुई कि बहुत दिन से आपके चरणकमलों के दर्शन नहीं किये।

यद्यपि प्रभु सर्वत्र समाना * सगुण रूप मोरे मन माना

अवधचलतविरञ्चिसोहिजाना * कीन्ही विनय लागि मम काना

यद्यपि प्रभु सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं, तो भी मेरे मन को तो सगुण रूप ही अच्छा लगता है। जब ब्रह्माजी ने मुझे अयोध्यापुरी को आते हुए जाना तो, मुझसे धीरे से विनती करके आपके प्रति कहा है कि-

प्रभु जानत सब अन्तर्यामी * भक्त बछल विनती यह स्वामी

जेहि हित लीन्ह मनुज अवतारा * नाथ ताहि अब करिह सँभारा

प्रभु अन्तर्यामी हैं और सब जानते हैं। हे भक्तवत्सल स्वामी ! मेरी यह विनती है कि जिस कारण आपने मनुष्य अवतार लिया है, हे नाथ ! उस पर अब विचार करिये।

सुनत बचन रघुपति मुसुकाने * मुनि अजहूँ विरञ्चि भय माने

कहेउ तात ब्रह्महि समुझाई * कछु दिन गये देखिहौं आई

यह वचन सुनकर प्रभु मुस्कराये और बोले-हे मुनि ! ब्रह्माजी आज भी भय मानते हैं। हे तात ! ब्रह्माजी से यह समझाकर कहना कि कुछ दिन बाद मैं आपको आकर देखूँगा।

बार बार चरणन सिर नाई * ब्रह्मानन्द न हृदय समाई

रामरूप उर धरि मुनि नारद * चले करत गुणगान विशारद

नारदजी ने बार-बार चरणों में सिर नवाया, उनके हृदय में आनन्द नहीं समाता था। नारदजी-श्रीरामजी के रूप को हृदय में रखकर गुणगान करते हुए चले।

* श्रीरामायण-बालकाण्ड *

हि सुखते सत कोटि गुन, पावहि मातु अनन्दु ।
भाइन्ह सहित बिआहि घर, आए रघुकुल चन्दु ॥३४७॥

सुखों से भी करोड़ गुना आनन्द माताओं को प्राप्त हुआ, क्योंकि श्रीरामचन्द्रजी
सहित ब्याहकर घर आये हैं ।
लोकरीति जननी करहिं, बर दुलहिन सकुचाहिं ।
सोडु बिनोदु बिलोकि बड़, रामु सनाहिं सुसुकाहिं ॥३४८॥

मातायें लोक-रीति कर रही हैं और बर दुलहिन सकुचाते हैं । विनोद और आनन्दको
कर श्रीरामजी मन ही मन मुस्कराने लगे ।
पितर पूजे विधि तीकी * पूजी सकल भावना जी की
कल्याणा

बहि बन्दि सांगहिं वरदाना * भाइन्ह सहित राम कल्याणा
अच्छी विधि से देवताओं और पितरों की पूजा की, मन की सब इच्छा पूरी हुई । सब
वन्दना कर मातायें यही वर मांगने लगीं कि भाइयों सहित श्रीरामजी का कल्याण हो ।
अन्तरहित सुर आसिष देहीं * सुदित मातु अंचल भरि लेहीं
भूपति बोलि बराती लीन्हे * जान बसन मन भूषन दीन्हे

अन्तरिक्ष में छिपे हुए देवता आशीर्वाद देते और मातायें अंचल फेंलाकर प्रसन्नता पूर्वक
लेती हैं । राजा दशरथ ने बरातियों को बुलाया और सवारी, वस्त्र, रत्न, आभूषण दिये ।
आयसु पाइ राखि उर रामहि * सुदित गए सबनिज निज धामहि
पुर नर नारि सकल पहिराए * घर घर बाजन लगे बधाए

राजा को आज्ञा पाकर श्रीरामचन्द्रजी को हृदय में रख सब बराती प्रसन्न होकर अपने
अपने घर को गये । फिर नगर के सब स्त्री-पुरुषों की राजा ने पहिरावनी की । घर-घर में
आनन्द बधाई बजने लगी ।
जाचक जन चाहिं जोइ जोई * प्रसुदित राउ देहिं सोइ सो
सेवक सकल बजनिआ नाना * पूरन किए दान सनमा

याचक लोग कुछ मांगते राजा प्रसन्न होकर वही देते । सब नौकरों और बाजे
को दान और सम्मान से सन्तुष्ट किया ।
दोहा-देहिं असीस जोहारि सब, गावाहिं गुन गन गाय ।
तब गुर भुसुर कहित गूहं, गवनु कीन्ह रघुनाथ ॥३५॥

वे सब राजा को जुहार कर आशीर्वाद देते और गुणगान करने लगे । तब
और ब्राह्मणों सहित महल में गये ।
जो वसिष्ठ अनुसासन दीन्हा * लोक वेद विधि सादर
भूसुर भीर देखि सब रानी * सादर उठी भाग्य ब

वशिष्ठजी ने आज्ञा दी, उसी के अनुसार लोक और वेद की विधिको आदर

जप तप योग यज्ञ व्रत दाना * विमल विराग ज्ञान विज्ञाना

जो ममता रहित, मुक्ति और कल्याण-युक्त हैं, वे ही दशरथजी के सुत के नाम से गाये जाते हैं। जप, योग, यज्ञ, व्रत, दान, निर्मल वैराग्य, ज्ञान-विज्ञान आदि-

करहिं यत्न मुनि पावहिं कोई * देखा प्रगट भक्त वश सोई
हठ बश शठ बहु साधन करही * भक्ति हीन भवसिंधु न तरही

यत्न करके कोई २ मुनि जिसे पाते हैं, उन्हें भक्तों के प्रेम के वश प्रकट होते देखा। मूर्ख हठ करके बहुत से साधन करते हैं, परन्तु भक्तिहीन मनुष्य संसार-सागर से नहीं तर सकते।

दोहा-जानि सकइ ते जानहु, निर्गुन सगुन स्वरूप।

मम हिय पंकज भृङ्ग इव, बसहु राम नररूप ॥ ८ ॥

जो आपके निर्गुण और सगुण स्वरूप को जानने में समर्थ हों, वे ही जानें, परन्तु-हे श्रीरामजी ! आपका यह मनुष्य रूप मेरे हृदय रूपी कमल में भौरे के समान वास करे।

ब्रह्म भवन में रह्यौ कृपाला * गावत तव गुण दीनदयाला

अस इच्छा उपजी मन माहीं * बहु दिन गये लखे पद नाहीं

हे कृपालु ! मैं ब्रह्मलोक में आपके गुणगान करते हुए रहता था, उस समय मेरे मनमें ऐसी इच्छा प्रकट हुई कि बहुत दिन से आपके चरणकमलों के दर्शन नहीं किये।

यद्यपि प्रभु सर्वत्र समाना * सगुण रूप मोरे मन माना

अवधचलतविरञ्चिमोहिजाना * कीन्ही विनय लागि मम काना

यद्यपि प्रभु सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं, तो भी मेरे मन को तो सगुण रूप ही अच्छा लगता है। जब ब्रह्माजी ने मुझे अयोध्यापुरी को आते हुए जाना तो, मुझसे धीरे से विनती करके आपके प्रति कहा है कि-

प्रभु जानत सब अन्तर्यामी * भक्त बछल विनती यह स्वामी

जेहि हित लीन्ह सनुज अवतारा * नाथ ताहि अब करिह संभारा

प्रभु अन्तर्यामी हैं और सब जानते हैं। हे भक्तबत्सल स्वामी ! मेरी यह विनती है कि जिस कारण आपने मनुष्य अवतार लिया है, हे नाथ ! उस पर अब विचार करिये।

सुनत बचन रघुपति सुसुकाने * मुनि अजहूँ बिरञ्चि भय माने

कहेउ तात ब्रह्महि समुझाई * कछु दिन गये देखिहौं आई

यह वचन सुनकर प्रभु मुस्कराये और बोले-हे मुनि ! ब्रह्माजी आज भी भय मानते हैं। हे तात ! ब्रह्माजी से यह समझाकर कहना कि कुछ दिन बाद मैं आपको आकर देखूंगा।

बार बार चरणन सिर नाई * ब्रह्मानन्द न हृदय समाई

रामरूप उर धरि मुनि नारद * चले करत गुणगान विशारद

नारदजी ने बार-बार चरणों में सिर नवाया, उनके हृदय में आनन्द नहीं समाता था। नारदजी-श्रीरामजी के रूप को हृदय में रखकर गुणगान करते हुए चले।

जो प्रिय अतिथि पूज्यनीय थे, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवता—श्रीरामचन्द्रजी का विवाह देख फूलों की वर्षा करके उत्सव की बड़ाई करते हुए—
दोहा—चले निसान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाइ।

कहत परस्पर रामु जिस, प्रेम न हृदयँ समाइ ॥३५१॥

नगाड़े बजाकर और सुख पाकर देवता अपने-अपने लोकों को चले गये। वे आपस में श्रीरामचन्द्रजी का यश कहते थे, आनन्द हृदय में नहीं समाता था।

सब विधि सर्वाहं समदि नरनाहू * रहा हृदयँ भरि पूरि उछाहू
जहँ रनिवासु तहाँ पगु धारै * सहित बधूटिन्ह कुअँर निहारै

महाराज दशरथजी ने सबका सब भांति से सम्मान किया, उनके हृदय में बहुत उत्साह भर गया। फिर वे जहाँ रनिवास था वहाँ पधारे वहाँ बधुओं सहित पुत्रों को देखा।

लिए गोद करि मोद समेता * को कहि सकइ भयउ सुख जेता
बधू सप्रेम गोद बैठारी * बार बार हियँ हरषि दुलारी

और प्रसन्नता पूर्वक गोद में ले लिया, उस समय जितना सुख था, उस सुखको कोन कह सकता है? फिर बधुओं को गोद में बँठाकर बारबार हृदय में प्रसन्न होकर लाड़-चाव किया।

देखि समाजु मुदित रनिवासू * सबके उर आनंद कियो बासू
कहेउ भूपजिमि भयउ विवाहू * सुनि सुनि हरषु होत सब काहू

समाज को देखकर रनिवास प्रसन्न हुआ और सबके मन में आनन्द भर गया। फिर दशरथजी ने जिस प्रकार विवाह हुआ, सो सब हाल कहा। उसे सुनकर सबको प्रसन्नता हुई।

जनकराज गुन सीलु बड़ाई * प्रीति रीति सम्पदा सोहाई
बहुविधि भूपभाट जिमि वरनी * रानी सब प्रमुदित सुनि करनी

राजा जनकजी के गुण, शील, बड़ाई, प्रीतिकी रीति, सुहावनी सम्पत्ति बहुत विधिसे महाराज ने भाटकी भांति वर्णन की, सब रानियां-जनकजी की ऐसी करनी सुन बड़ी प्रसन्न हुई।

दोहा—सुतन्ह समेत नहाइ नृप, बोलि लिए गुरु ग्याति।

भोजन कीन्ह अनेक विधि, घरी पञ्च गइ राति ॥३५२॥

राजा ने पुत्रों सहित स्नान कर ब्राह्मण, गुरु और जाति के लोगों को बुलाकर नाना प्रकार के भोजन कराये, पांच घड़ी रात व्यतीत हो गई।

मङ्गल गान करहिं वर भाषिनि * भै सुखामूल मनोहर जामिनि
अँचइ पान सब काहू पाए * खग सुगन्ध भषित छबि छाए

सौभाग्यवती स्त्रियां गीत गाने लगीं, यह रात सुख की मूल और मनोहर हुई। भो के बाद आचमन कर सबने पान लिये और माला तथा इत्र आदि की सुगन्ध से सुशीर्ष होकर कान्तिमान हुए।

रामहि देखि रजायसु पाइ * निज निज भवन चले सिर

प्रेम पुलकितन सुदित मन, गुरहि सुनायउ जाय ॥ ३ ॥

यह विचार कर मन में शुभ-दिन और सुखवसर पाकर राजा दशरथ ने प्रेम से पुलकित शरीर हो, प्रसन्न मन से गुरु वशिष्ठजी से कहा ।

कहइ भुआल सुनिअ मुनिनायक * भए राम सब विधि सब लायक
सेवक सचिव सकल पुरवासी * जे हमार अरि मित्र उदासी

राजा ने कहा—हे मुनिनाथ ! सुनिये, अब रामचन्द्रजी सब प्रकार से योग्य हो गये हैं और मन्त्री व सब अयोध्यावासी, हमारे शत्रु-मित्र अथवा उदासीन ।

सबहिरामु प्रिय जेहिविधि सोही * प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही
विप्र सहित परिवार गोसाईं * करहि छोहु सब रौरिहि नाई

सभी को श्रीरामजी ऐसे प्रिय हैं—जैसे मुझे हैं, आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण कर सुशोभित हो रहा है । हे स्वामी ! सभी ब्राह्मण-परिवार आप ही के समान स्नेह करते हैं ।

जे गुरु चरन रेनु सिर धरहीं * ते तनु सकल बिनय बस करहीं
सोहि सम यहु अनुभयउ न दूजें * सबु पायउ रज पावनि पूजें

श्री गुरु की चरण-रज को शिरोधार्य करते हैं, वे सब सम्पदाओं को वश में कर लेते हैं । मेरे समान इसका अनुभव दूसरे ने नहीं किया, क्योंकि प्रभु के चरण-रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पाया है ।

अब अभिलाषु एकु मन सोरें * पूजहि नाथ अनुग्रह तोरें
मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेह * कहेउ नरेस रजायसु देह

अब मेरे मन में एक कामना और रह गई है सो हे नाथ ! वस आपकी ही कृपा से पूर्ण होगी । मुनि को सहज स्नेह से प्रसन्न देखकर राजा ने कहा—आज्ञा दें तो कहें ?

दोहा—राजन राउर नामु जसु, सब अभिसत दातार ।

फल अनुगामी सहिपमनि, मन अभिलाषु तुम्हार ॥ ४ ॥

वशिष्ठजी बोले—हे राजन् ! तुम्हारा नाम और यश सब मनोकामनाओं को देने वाला है । राज-शिरोमणि ! तुम्हारी अभिलाषा के पीछे २ सभी फल चलते हैं ।

सब विधि गुरु प्रसन्न जियजानी * बोलेउ राउ रहसि सृदु बानी
नाथु रामु करिअहि जुबराजू * कहिअ कृपा करि करिअ समाजू

राजा अपने मनमें सब प्रकार से गुरुदेव को प्रसन्न जानकर मधुर वचन बोले—हे नाथ ! रामजी को युवराज कीजिए । कृपा करके आज्ञा दीजिए, जिससे राजतिलक की तैयारी की जाय ।

सोह अछत यहु होइ उछाहू * कहहिं लोग सब लोचन लाहू
प्रभु प्रसादसिव सवहि निवाही * यह लालसा एक मन माहीं

मेरे जीते-जी यह उत्सव हो जाय, तो सब लोग अपने-अपने नेत्रों का लाभ पा जायें । प्रभु के प्रसाद से शिवजी ने सब मनोरथ पूरे किये हैं, केवल यही अभिलाषा मन में रह गई है ।

दोहा-घोर निसाचर विकट भट, समर गर्नाहि नहि काहु ।

भारे सहित सहाय किमि, खल मारीच सुबाहु ॥३५४॥

अयंकर राक्षस जो विकट थोड़ा थे, और युद्ध में किसी को नहीं गिनते थे । ऐसे कुष्ठ मारीच और सुबाहु को सहायकों समेत कैसे मारा ?

मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी * ईस अनेक करबरें टारी
अख रखवारी करि दुहुँ भाई * गुरु प्रसाद सब विद्या पाई

हे पुत्र ! मैं तुम्हारी बलैयां लेती हूँ, मुनि की कृपा से ईश्वर ने अनेकों बिघ्न टाल दिये। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रक्षा कर गुरु की कृपा से सब विद्या पाई ।

मुनितिय तरी लगत पग धूरी * कीरति रही भुवन भरि पूरी
कमठ पीठ पवि कूट कठोरा * नृप समाज महुँ शिवधनु तोरा

मुनि-पत्नी चरण-रज लगते ही तर गई, यह कीर्ति जगत् में फैल रही है । कछुए की पीठ, वज्र तथा पर्वत से भी कठोर शिव-धनुष को राजाओं की सभा में तुमने तोड़ डाला ।

विश्व विजय जसु जानकि पाई * आए भवन ब्याहि सब भाई
सकल अमानसु करम तुम्हारे * केवल कौसिक कृपां सुधारे

विश्व विजय के यश और जानकीजी को पाया तथा सब भाइयों को ब्याह कर घर आये । तुम्हारे सब कर्म अमानुषी हैं, केवल विश्वामित्रजी की कृपा से ही सिद्ध हुए हैं ।

आजु सुफल जग जनमु हमारा * देखि तात बिधुबदन तुम्हारा
जे दिन गए तुम्हहि बिन देखें * ते विरंचि जनि पावहि लेखें

हे पुत्र ! तुम्हारा चन्द्रमुख देखकर जगत में आज हमारा, जन्म सफल हुआ । जितने दिन तुम्हें बिना देखे हुए हमारे बीत गये हैं, वे दिन विधाता हमारी मृत्यु के लेखे में न डाले ।

दोहा-राम प्रतोषी मातु सब, कहि विनती वर बैन ।

सुमिरि सम्भु गुरु विप्र पद, किए नींद बस नैन ॥३५५॥

श्रीरामजी ने नम्रता से मधुर वचन कहकर माताओं को संतुष्ट किया, फिर शिवजी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया ।

नींदउँ बदन सोह सुठि लोना * मनहुँ साँझ सरसीरुह सोना
घर घर करहि जागरन नारी * देहि परस्पर मङ्गल गारो

नींद में भी सलौना मुख ऐसा शोभित है, सानो संध्या के समय लाल कमल सुशोभित हो । रात में घर-घर स्त्रियां जागरण कर रही हैं, और आपस में मङ्गल-गीत गा रही हैं ।

पुरी विराजत रजति रजनी * रानी कहहि विलोकहु सजनी
सुन्दर बधुन्ह सासु लै सोई * फनिकन्ह जनु सिर मनि उरगोई

रानियां कहने लगीं-हे सखियो ! अयोध्यापुरी की शोभा को देखो, आज की रात कैसी सुहा-

औषधि मूल फूल फल पाना * कहे नाम गनि मङ्गल नाना

र्षित होकर मुनि मधुर वाणी से बोले-पहले तो संपूर्ण प्रसिद्ध तीर्थों का जल ले आओ। औषधि, जड़, फूल और पत्ते आदि अनेक मङ्गल पदार्थों के नाम गिन कर बताये।

चासर चसर बसन बहु भांती * रोम पाट पट अगनित जाती

सनिसय मङ्गल वस्तु अनेका * जो जग जोगु भूष अभिषेका

चँवर, मृग-चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, अनेक प्रकार के ऊनी और रेशमी वस्त्र, मणितया और भी अनेक माङ्गलिक वस्तुएं जो संसार में राजतिलक के योग्य होती हैं।

बेद विदित कह सकल विधाना * कहेउ रचहु पुर विविध विताना

सफल रसाल पूग फल केरा * रोपहु बीथिन्ह पुर चहुं फेरा

वेद में कहे अनुसार सब सामग्री बताकर कहा कि नगर में अनेक मण्डप बनाओ और फल सहित आम, सुपारी और केले के वृक्ष सड़कों पर नगर के चारों ओर लगादो।

रचहुं सञ्जु सनि चौकें चारु * कहहु बनावन बेगि बजारु

पूजहु गनपति गुरु कुलदेवा * सब विधि करहु भूप सुर सेवा

सुन्दर मणियों के मनोहर चौक पुराओ, बाजार सजाने को शीघ्र कहो। गणेशजी, गुरु व कुल देवता का पूजन करो तथा सब भांति से ब्राह्मणों की सेवा करो।

दोहा—ध्वजपताक तोरण कलस, सजहु तुरग रथ नाग।

सिरधरि मुनिवर बचनसब, निजनिज काजहि लाग ॥ ७ ॥

ध्वजा, पताका तोरण, कलश, घोड़े, रथ, हाथी सजाओ। मुनिवर की आज्ञा शिरो-धार्य कर सब अपने-अपने कामों में लग गये।

जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा * सो तेहि काजु प्रथम जनु कीन्हा

विप्र साधु सुर पूजत राजा * करत राम हित मङ्गल काजा

मुनिवर ने जिसको जिस काम की आज्ञा दी, उसने वह काम मानो पहले से ही कर रक्खा था। राजा-ब्राह्मण, साधु और देवताओं का पूजन करने लगे और श्रीरामजी के हेतु मङ्गल कार्य करने लगे।

सुनत राम अभिषेक सुहावा * बजहिं गहगाह अवध बधावा

राम सीय तनु सगुन जनाए * फरकहिं मङ्गल अङ्ग सुहाए

श्रीरामजी का सुहावना राज्यभिषेक सुनते ही अयोध्या भर में बड़ी धूम से बधाये बजने लगे। श्रीरामजी और सीताजी के शरीर में शकुन प्रकट हुए, मङ्गल-सूचक शुभ अंग फड़कने लगे।

पुलकि सप्रेम परसपर कहही * भरत आगमनु सूचक अहही

भए बहुत दिन अति अवसेरी * सगुन प्रतीति भेंट प्रय केरी

पुलकित होकर दोनों स्नेह पूर्वक कहने लगे-यह शकुन भरतजी के आने की सूचना देने वाले हैं। बहुत दिन होगये, वारम्बार मिलने की मन में आती है। शकुन से निश्चय होता

उमगी अवध अनन्द भरि, अधिक अधिक अधिकाति ॥३५७॥

आनन्द, मङ्गल और उत्साह में दिन व्यतीत होने लगे। अयोध्यापुरी आनन्द में भरकर उमड़ पड़ी, वह आनन्द अधिकाधिक बढ़ता ही गया।

सुदिन सोधि कल कङ्कन छोरे * मङ्गल मोद विनोद न थोरे
नित नव सुख सुर देखि सिहाहीं * अवध जन्म नाचाहि विधि पाहीं

शुभदिन विचारकर कंकण खोले गये, मंगल, आनन्द और विनोद थोड़े नहीं हुए। देवता नित्य-नये सुख देखकर प्रसन्न हो ब्रह्माजी से यही प्रार्थना करते थे कि अयोध्या में हमारा भी जन्म होवे।

विश्वामित्र चलन नित चहहीं * राम स्नेह विनय बस रहहीं
दिन दिन सतगुन भूपति भाऊ * देखि सराह महामुनि राऊ

विश्वामित्रजी नित्य चलना चाहते हैं, परन्तु श्रीरामजी के स्नेह और विनय के वश हो रुक जाते हैं। राजा का दिन पर दिन सौ-गुना प्रेम देखकर महामुनि विश्वामित्रजी ने उनकी बहुत बड़ाई की।

मांगत विदा राऊ अनुरागे * सुतन्ह समेत ठाड़ भे आगे
नाथ सकल सम्पदा तुम्हारी * मैं सेवक समेत सुत नारी

निदानजब विश्वामित्रजी ने विदा मांगी, तब राजा मग्न हो पुत्रों सहित आगे खड़े होगये, और बोले-हे नाथ! यह सब सम्पत्ति आपकी है, पुत्रों व स्त्रियों सहित मैं तो आपका सेवक हूँ।

करव सदा लरिकन्ह पर छोहू * दरसनु देत रहव मुनि मोहू
अस कहि राऊ सहित सुत रानी * परेउ चरन सुख आव न बानी

हे मुनि! लड़कों पर सदैव दया करते रहियेगा, मुझे भी दर्शन देते रहियेगा। ऐसा कहकर राजा-पुत्रों व रानियों सहित-मुनि के चरणों पर गिर पड़े, उनके मुख से बात नहीं निकलती।

दोन्हि असीस विप्र बहु भाँती * चले न प्रीति रीति कहि जाती
सु सप्रेम सङ्ग सब भाई * आयसु पाइ फिरे पहुँचाई

प्रियवर विश्वामित्रजी ने बहुत भाँति से आशीर्वाद दिये और वे चलदिये, प्रीति की रीति कही नहीं जाती। श्रीरामजी सब भाइयों सहित बड़े प्रेम से पहुँचाने गये और आज्ञा पाकर लौट आये।

दोहा-राम रूप भूपति भगति, ब्याहु उछाहु अनन्दु।

जात सराहत मनहि मन, सुदित गाधिकुल चन्दु ॥३५८॥

श्रीरघुनाथजी के स्वरूप, राजा दशरथजी की भक्ति और विवाहोत्सव के आनन्द की बड़ाई मन ही मन मन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक विश्वामित्रजी चले जाते थे।

वामदेव रघुकुल गुरु ज्यानी * बहुरि गाधि सुत कथा बखानी
सुनि मुनि सुजसु मनहि मन राऊ * वरनत आपन पुन्य प्रभाऊ

जानी वामदेवजी और रघुवंश के गुरु वशिष्ठजी ने फिर विश्वामित्रजी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुन्दर यश सुनकर राजा मनही मन अपने पुण्य के प्रभाव का वर्णन करने लगे।

सादर अरघ देइ घर आने * सोरह भाँति पूजि सनमाने
गहे चरन सिय सहित बहोरी * बोले रामु कमल कर जोरी

सादर अर्घ्य देकर घर में आये और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सत्कार किया, फिर सीता सहित उनके चरण स्पर्श किये और कमल के समान दोनों हाथ जोड़कर श्रीराम बोले—
सेवक सदन स्वामि आगमन * मङ्गल मूल अमंगल दमन
तदपित उचित जनु बोलि सप्रीती * पठइअ काज नाथ असि नीती

यद्यपि सेवक के घर स्वामी का आगमन मङ्गलदायक और अमङ्गल नाशक है, तो भी हे नाथ ! उचित तो यह था कि दास को प्रीति पूर्वक बुलाकर कार्य के निमित्त भेज देते—
ऐसी नीति है ।

प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहू * भयउ पुनीति आजु यहू गेहू
आयसु होइ सो करौं गोसाई * सेवकु लहइ स्वामि सेवकाई

हे प्रभु ! आपने प्रभुता को त्याग कर जो स्नेह किया है—इससे आज यह घर पवित्र हो गया । हे गोसाई ! जो आज्ञा हो, मैं वही करूँ, स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है ।

दोहा—सुनि सनेह साने बचन, मुनि रघुवरहि प्रसंस ।

राम कसन तुम्ह कहहु अस, हंस बंस अवतंस ॥१०॥

मुनि ने ऐसे प्रेम भरे वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी की बड़ाई की और कहा—हे राम ! आप ऐसा क्यों न कहेंगे, क्योंकि आप तो सूर्यवंश के भूषण हैं ।

बरनि राम गुन सीलु सुभाऊ * बोले प्रेम पुलकि मुनि राऊ
भूष सजेउ अभिषेक समाजू * चाहत देन तुम्हहि जुवराऊ

श्रीरामजी के गुण, शील और स्वभाव की बड़ाई कर प्रेम से पुलकित होकर मुनिराज बोले—हे राम ! राजा ने राज्यभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज बनाना चाहते हैं ।

राम करहु सब संयम आजू * जौ विधि कुशल निवाहै काजू
गुरु सिख देइ राय पहिं गयऊ * राम हृदय अस विसमय भयऊ

हे राम ! आज आप सब संयम करिये, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस कामको पूर्ण करे । गुरु वशिष्ठ तो शिक्षा देकर राजा के पास गये और श्रीरामचन्द्रजी के मनमें विस्मय हुआ ।

जनसे एक संग सब भाई * भोजन सयन केलि लरकाई
कर्णवेध उपवीत विवाहू * संग संग सब भए उछाहू

सभी भाई एक साथ जन्मे और भोजन, शयन, लड़कपन के खेल-कूद कर्णछेदन, यज्ञोपवीत तथा विवाह आदि सब उत्सव एक साथ ही हुए ।

विसल बंस यहू अनुचित ऐकू * बन्धु बिहाइ बड़ेहि अभिषेकू
प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई * हरउ भगत मन कै कुटिलाई

पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात है कि सब भाइयों को छोड़, बड़े भाई को राज-

* श्रीरामचन्द्रायनमः *



* अथ मङ्गलाचरणम् *

श्लोक

यस्याँ के च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके ।
भाले बालबिधुर्गलै च गरलं यस्योरसि व्यालाराट् ॥

सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा ।
शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातुमाम् ॥ १ ॥

जिन शिवजी की गोद में पार्वतीजी, मस्तक पर गङ्गाजी, माथे पर नवीन चन्द्रमा, कण्ठ में हलाहल विष हृदय पर सर्पराज शोभायमान हैं, ऐसे अस्म से विसूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सभी के स्वामी, संहार कर्ता, सर्व व्यापी, कल्याणरूप, चन्द्रमा के समान गौर-वर्ण श्रीशंकरजी सदैव मेरी रक्षा करें ।

प्रसन्नता या न गताभिषेकतस्तथा न मस्ते वनवास दुःखतः ।
सुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्यमे सदास्तुसा मंजुल मङ्गलप्रदा ॥ २ ॥

श्रीरामजी के मुखारविन्द की शोभा-जो कभी राज्याभिषेक से प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुःख से मलिन हुई वह छवि मेरे लिए सदा ही सुन्दर मङ्गल देने वाली सुखाम्बुज श्रीरघुनाथजी के सदास्तुसा मंजुल मङ्गलप्रदा ॥ २ ॥

नीलाम्बुज श्यामलकोमलांग सीतासमारोह पतिवासभागम् ।
पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंश नाथम् ॥

नील-कमल के समान श्यामवर्ण और कोमल अङ्ग वाले, सीताजी को वाम हाथ में अमोघ बाण और सुन्दर धनुष लिए रघुवंश के विराजमान किये हुए और हाथ में अमोघ बाण और सुन्दर धनुष लिए रघुवंश के श्रीरघुनाथजी को मैं प्रणाम करता हूँ ।

दोहा—श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारि ।
वरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायकु फल चारि ।

जीव करम बस दुख सुख भागी * जाइअ अवध देव हित लागी

श्रीरामजी को न विषाद है, न हर्ष, उनके प्रभाव को आप जानती हैं। जीव अपने कर्मके अनुसार दुःख-सुख का भागी होता है, अतः आप देवताओं के हित के लिये अयोध्या जाइए।

बार बार गहि चरन सङ्कोची * चली बिचारि बिबिधि मति पोची
ऊँच निवास नीचि करतूती * देखि न सकहिं पराइ विभूती

बारम्बार चरण पकड़कर जब देवताओं ने संकोच में डाला, तब सरस्वतीजी यह विचार कर चलीं कि देवताओं की बुद्धि छोटी है। इनका निवास तो ऊँचा है, परन्तु काम नीचा है, ये पराये वैभव को नहीं देख सकते।

आगिल काजु विचारि बहोरी * करिहिं चाह कुसल कविमोरी
हरषि हृदयँ दसरथ पुर आई * जनु ग्रह दसा दुसह दुखदाई

परन्तु आगे का कार्य विचारकर चतुर कवि मेरी चाहना करेंगे, यह विचारकर प्रसन्न मन से सरस्वतीजी अयोध्या में इस प्रकार आईं, मानो कठिन दुःखदेने वाली ग्रहदशा आई हो।

दोहा—नामु मन्थरा मन्दमति, चैरी कैकई केरि।

अजसु पिटारी ताहि करि, गई गिरा मति फेरि ॥१३॥

मन्द बुद्धि वाली मन्थरा नाम की रानी कैकई को एक दासी थी, उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वतीजी उसकी मति फेर कर चली गईं।

दीख मन्थरा नगर बनावा * मञ्जुल मङ्गल बाज बधावा
पूछेसि लोगन्ह काह उछाहू * राम तिलकु सुनि भा उर दाहू

मन्थरा ने नगरकी सजावट देखी, सुन्दर मङ्गलमय बधाई बजरही हैं। उसने लोगों से पूछा कि यह कैसा उत्सव है? श्रीरामचन्द्रजी का राजतिलक सुनकर उसका हृदय जल उठा।

रइ बिचारु कुबुद्धि कुजाती * होइ अकाजु कवन बिधि राती
देखि लागि मधु कुटिल किराती * जिमि गवँ तकइ लेउँ केहिभाँती

वह कुबुद्धि, कुजाति दासी विचार करने लगी कि किस तरह रात में ही काम बिगाड़ा जाय? जैसे खोटी भीलनी शहद का छत्ता देखकर ताकती है कि किस प्रकार से इसे उखाड़ लूँ?

भरत मातु पहिं उइ बिलखानी * काअनमनि हँसि हँसि कह रानी
उतरु न देइ न लेइ उसासू * नारि चरित करि ढारइ आँसू

भरतजीकी माता के पास उदास होकर गई, तब रानी कैकई ने हँसकर पूछा-तू उदास क्यों

मन्थरा की उपकथा-एक बार कैकई के पिता ने वनमें शिकार खेलते समय एक मृग को मारा। उसकी मृगी रोती हुई अपनी माता के पास गई, उसने आकर कहा कि मैं यक्षिणी हूँ और यह मेरा जामाता है। इसे मुक्त करदो, मैं इसे जिला लूंगी। राजा ने उसे भी मार डाला, मरते समय मृगी ने शाप दिया कि तुमने मेरे जामाता को मारा है, सो मैं भी तुम्हारे जामाता के प्राण लूंगी। वही मन्थरा बनी, उसने कैकई को बहका कर दशरथके प्राण लिये।

पत्नी लिखकर भेज दी, जिसे पढ़कर राजा चुप रह गये ।

मन में समझे कैकई, लिख पठये वच अङ्क ।

हमरिउ लागै घात तब, महहूँ देव कलङ्क ॥ ४ ॥

मन में विचार किया कि कैकई ने कठोर वचन लिखकर भेजे हैं । जब हमारी घात लगेगी तब हम भी उसे कलंक देंगे ।

लिख पठयो विश्वाव सुहि, करहु कहैं नृप जोइ ।

बिदा करै तब आइयो, समुझि बूझ मत सोइ ॥ ५ ॥

(यह सोचकर) इन्द्र ने विश्वावसु को लिख भेजा कि जैसा महाराज दशरथ कहें, वैसा ही करो । जब वे बिदा करें, तब तुम समझ-बूझकर यहां आ जाना ।

वर्ष अठारह की सिया, सत्ताईस के राम ।

कीन्हौ मन अभिलाष यह, करनौ है सुरकाम ॥ ६ ॥

जब सीताजी अठारह साल की और श्रीरामजी सत्ताईस साल के हुए, तब मन में अभिलाषा की कि अब देवताओं का कार्य करना चाहिए ।

अति आनन्द अवधपुर बासी * भ्रातन्ह सहित देखि सुखरासी
एक बार जानकी समेता * बैठे प्रभु निज रुचिर निकेता

भाइयों सहित सुख की राशि भगवान श्रीरामचन्द्रजी को देखकर अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हैं । एक बार प्रभु सीताजी समेत अपने सुन्दर महल में विराजमान थे ।

भुज प्रलम्ब उर नयन विशाला * पीत बसन तनु श्याम तमाला
कोटि मनोज देखि छवि मोहा * सीता कर चामर वर सोहा

जिनकी भुजायें लम्बी, छाती तथा नेत्र विशाल, वस्त्र पीले और शरीर श्यामवर्ण है । छवि को देखकर करोड़ों कामदेव भी मोहित हो जाते हैं । श्रीसीताजी के हाथ में सुन्दर चँवर सुशोभित है ।

तेहि अवसर मुनि नारद आये * सुर हित लागि विरञ्चि पठाए
तेज पुञ्ज करतल शुभ बीना * हरि गुण गण गावत लयलीना

उसी समय ब्रह्माजी द्वारा देव-कार्य के लिए भेजे हुए नारदजी वहाँ आये । वे बड़े ही तेजस्वी, हाथ में सुन्दर वीणा लिए तथा श्रीहरि के गुणगान में मग्न थे ।

देखि राम सहसा उठि धाये * करत दण्डवत मुनि उर लाए
सादर निज आसन बैठारे * जनकसुता तब चरण पखारे

उनको देखते ही श्रीरामजी शीघ्र उठकर चले, दण्डवत करते ही मुनि ने हृदयसे लगा लिया । आदर पूर्वक अपने आसन पर बैठाया, तब सीताजी ने नारदजी के चरण धोये ।

तेहि चरणोदक भवन सिंचावा * जग पावन हरि शीश चढ़ावा

हे मधुर-भाषिणी ? मैंने तुझे शिक्षा दी है, मेरा स्वप्न में भी तुझ पर क्रोध नहीं है ।
वही शुभ दिन मंगलदायक होगा, जिस दिन तेरा कहा सत्य होगा ।

जेठ स्वामि सेवक लघु भाई * यह दिनकर कुलरीति सुहाई
राम तिलक जौ साँचेहुँ काली * देउँ माँगु मन भावत आली

बड़ा भाई स्वामी व छोटा भाई सेवक-यह तो सूर्यवंश की सुहावनी रीति है । जो कल
सचमुच ही राम का राजतिलक है, तो हे सखी ! अपनी मन-चाही वस्तु माँगले, मैं वही दूँगी ।

कौशल्या राम सब महतारी * रामहि सहज सुभायँ पिभारी
सो पर करहि सनेहु विसैणी * मैं करि प्रीति परीछा देखी

श्रीरामजी को तो स्वाभाविक ही सब मातायें कौशल्या के समान प्यारी हैं, फिर मुझ
पर तो श्रीरामजी अधिक स्नेह करते हैं, मैंने अपने प्रेमकी परीक्षा करके देख ली है ।

जौ विधि जनसु देइ करि छोह * होहिं राम सिय पूत पतोह
प्राण तैं अधिक रामु प्रिय सोरें * तिन्ह के तिलक छोभु कस तोरें

जो विधाता कृपा करके जन्म दें तो यह भी दें कि रामजी पुत्र और सीता पुत्रवधू हों ।
अपने प्राणों से भी अधिक मुझे श्रीरामजी प्यारे हैं, उनके तिलक से तुझे क्यों दुःख होरहा है ?

दोहा—भरत सपथ तोहि सत्य कहुँ, परिहरि कपट दुराड ।

हरष समय विससउ करसि, कारन सोहि सुनाउ ॥१६॥

तुझे भरत की सौगन्ध है, छल-कपट को त्याग कर सत्य कह । आनन्द के समय तू
जो शोक करती है, इसका कारण मुझे सुना ।

एकहि बार आस सब पूजी * अब कछु कहव जीभ करि दूजी
फोरै जोगु कपारु अभागा * भलेउ कहत दुख रजरेहि लागा

संभरा जोली एक ही बार कहने से मेरी सब आशा पूर्ण होगई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर ही
कुछ कहूँगी । मेरा अभागा प्रायः फोड़ने योग्य है, जो भली बात कहते हुए भी तुमको दुःख लगा ।

कहहि झूठि फुरि बात बनाई * ते प्रिय तुम्हहि करइ मैं भाई
हमहुँ कहबि अब ठकुर सोहाती * नाहिं त मौन रहव दिनु राती

हे भाई ! जो बनाकर झूठ-सच कहे-वही तुम्हें प्यारा लगता है, मैं तो कड़वी बात
कहती हूँ । अब हम भी सुहँ-देखी बात कहेंगी, नहीं तो दिन-रात चुप रहेंगी ।

करि कुरूप विधि परबस कीन्हा * ववा सो लुनिअ लहिअ जो दीन्हा
कोउ नृप होउ हमहि का हानी * चोरि छाँड़ि अब होब कि रानी

विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे पराधीन कर दिया है । मैंने जो बोया, सो काटा और
जो दिया, वही पाया । कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है ? क्योंकि हम दासीपन
छोड़कर, रानी तो होने से रहीं ।

जारै जोग सुभाउ हमारा * अनभल देखि न जाइ तुम्हारा

तव रघुपति सीतहि समुझाई * पूव कवा तव हेतु सुनाई
सुरहित लागि सो करिअ उपाई * चलिए वन परिहरि टकराई

तब श्रीरामजी ने सीताजी ने समझाकर पूव कवा का कारण (राज्य को मारने के हेतु अथवा लेने का वृत्तान्त) कहा। श्रीरामजी ने कहा—जिमसे देवाश्री का जित हो, वही उपाय करिये, राज्य को त्याग वन को चलिये।

दोहा—जग सम्भव स्थिति प्रलय, जाके भृकुटि विलास।

सो प्रभु यत्न विचारत, केहिविधिनिसिचरनास ॥ ६ ॥

जिनके मोह के फेरने मायमे ही जगत् की स्थिति, पावन और प्रलय हो नाशो है, वही प्रभु उपाय विचारने लगे कि राक्षसों का नाश किस प्रकार में हो?

० इति क्षेपक ०

दोहा—सबके उर अभिलाष अत्त, कहाहि मनाइ महेसु।

आपु अछत जुवराज पद, रामहि देउ नरेसु ॥ २ ॥

सबके मन में वही अभिलाषा थी और निवृत्तों को मना कर वही कह रहे थे कि राजा अपने जाते-जो श्रीरामजी को पुवराज पद दे दें।

एक समय सब सहित समाजा * राज सर्वा रघुराज विराजा
सकल सुकृत मूरत नरनाह * राम सुजसु सुनि अतिहि उछाह

एक समय सब समाजों के सहित राज-सभा में महाराज दत्तपथको विराजमान थे, सब गुरुजनों की मूर्ति महाराज-श्रीरामजी के मुखों को मुखर मन में अत्यन्त प्रमान हुए।

नृप सब रहहि कृपा अभिलाषे * लोकप करीहि प्रीति रख राखे
त्रिभुवन तीनि काल जग माहीं * भूरि भाग्य दशरथ सम नाहीं

सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और सोचमान-मान भी उनके स्व को रक्षक प्रीति करते हैं। तीनों लोक और तीनों कालों में दशरथजी के समान बहुभागों कोई नहीं हुआ।

मङ्गल मूल राम सुत जासू * जो कछु कहिअ थोर सब तामू
राय सुभायं मुकुर कर लीन्हा * वदनु विलोकि मुकुट सम कीन्हा

जिनके पुत्र मङ्गल के मूल-श्रीरामजी हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाय, वही सोझा है। महाराज ने महज स्वभाव से स्वयं हाथ में ले, मुख देखकर मुकुट को टोक लिया।

श्रवन समीप भए सित केसा * मनहुँ जरठहनु अत्त उपदेसा
नृप जुवराज राम फहुँ देह * जीवन जनम साहू किन लेहू

(और देखा कि) बान के पास के बान मरेर होयवे हैं, मानो पुत्राने देना उपदेश करता है कि हे राजन् ! रामजी को राजनिमज करके अपने जीवन और जगत्को मरान वही नहीं करते ?

दोहा—यह विचार उर आनि नृप, सुदिन सुअवसर पाइ।

सेवाहिं सकल सवति मोहि नीके * गरवित भरतु मातु बल पीके
सीलु तुम्हार कौसिलहि माई * कपट चतुर नहिं होइ जनाई

सब सौते तो मली-भातिसे मेरी सेवा करती हैं, परन्तु भरत की माता पति के घमण्ड में रहती है।
हे माई! तुम कौशल्या को खटकती हो, परन्तु चतुर लोगों का कपट समझ में नहीं आता।
राजहि तुम्ह पर प्रीति बिसेषी * सवित सुभाउ सकइ नहिं देखी
रचि प्रपञ्च भूपहि अपनाई * राम तिलक हित लगन धराई

राजा का तुम पर विशेष प्रेम है, उसे कौशल्या सौत-स्वभाव के कारण देख नहीं सकती। इस
लिए जाल रचकर और राजा को बशमें करके रामके राजतिलकके लिए मुहूर्त ठहरा लिया है।
यह कुल उचित राम कहूँ टीका * सबहि सुहाइ सोहि सुठि नीका
आगिल बात समुझि डर सोही * देउ दैव फिरि सो फलु ओही

इस सूर्यवंश में यह उचित है कि श्रीरामजी का राजतिलक हो और यह सब को सुहाता
है, और मुझे तो बहुत ही भला लगता है। परन्तु आगे की बात तो विचार कर डर लगता
है, विधाता वह फल उसी को दे।

दोहा—रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन्हिसि कपट प्रबोधु।

कहिसि कथा सत सवित कै, जेहि विधिबाद विरोधु ॥१६॥

इस प्रकार की कुटिलपन की करोड़ों बातें बनाकर कैंकई को कपट सिखा दिया और
सौते की संकड़ों कथायें सुनाई—जिससे विरोध बढ़े।

भावी बस प्रतीति उर आई * पूँछि रानि निज सपथ देवाई
का पूँछहु तुम्ह अबहुँ न जाना * निज हित अनहित पसु पहिचाना

होनहार बश कैंकई के मन में विश्वास होगया, रानी अपनी सांगंध दिलाकर पूँछने लगी। संथरा
वेली-पूँछती क्या हो, तुमने अब भी नहीं जाना? अपना हित-अनहित तो पशु भी पहिचानता है।
भयउ पाखु दिन सजत समाजू * तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू
खाइअ पहिरअ राज तुम्हारे * सत्य कहें नहिं दोषु हमारै

राजतिलक का साज सजते हुए पन्द्रह दिन हो गये, और तुमने आज मुझसे खबर पाई
है। तुम्हारे राज में खाती-पहिनती हैं, अतः तुमसे सच कह देने में मुझको कोई दोष नहीं।
जौ असत्य कह्यु कहव बनाई * तौ विधि देइहि हमहि सजाई
रामहि तिलक कालि जौ भयऊ * तुम्हकहुँ विपति वीजु विधि वयऊ

जो मैं कुछ झूठ बनाकर कहूँ तो विधाता मुझको दण्ड दे। श्रीरामजी को जो कल
राज-तिलक हो गया, तो समझ लेना तुम्हारे लिए ब्रह्मा ने विपत्ति का बीज वो दिया।

रेख खँचाइ कहउँ बल भाषी * भामिनि भइहु दूध कइ माखी
जौ सुत सहित करहु सेवकाई * तौ घर रहहु न आन उपाई

तब रघुपति सीतहि समुझाई * पूयं क्या सब हेतु सुनाई
सुरहित लागि सो करिअ उपाई * चलिए वन परिहरि टकुराई

तब श्रीरामजी ने सीताजी ने समझाकर पूयं क्या का कारण (गदग हो मारने के हेतु धपनार मेने का वृत्तान्त) कहा। श्रीरामजी ने कहा—जिममें देवताओं का दिन हो, यही उपाय करिये, राग्य को त्याग वन को चलिये।

दोहा—जग सम्भव स्थिति प्रलय, जाकेँ मृकृटि विलास।

सो प्रभु यत्न विचारत, केहिविधिनितिचरनास ॥ ६ ॥

जिनकेँ मोह के फेरने मात्रने ही जगत् की स्थिति, पावन और प्रलय हो जाती है, यही प्रभु उपाय विचारने लगे कि राजाओं का नाम किम प्रकार से हो?

ॐ इति क्षेपक ॐ

दोहा—सबकेँ उर अभिलाष अस, कहहिं मनाइ महेसु।

आपु अछत जुवराज पद, रामहि देउ नरेसु ॥ २ ॥

गदकेँ मन में यही अभिलाषा थी और निवृत्तों को मना कर यही कह रहे थे कि राजा अपने जीते-जी श्रीरामजी को युवराज पद दे दें।

एक समय सब सहित समाजा * राज सभां रघुराज विराजा
सकल सुकृत मूरत नरनाहू * राम सुजसु सुनि अतिहि उछाहू

एक समय सब समाजों के सहित राज-गमा में महाराज दगरपजी विराजमान थे, सब मुक्तों की मूर्ति महाराज-श्रीरामजी के मुपग को मुनकर मन में धन्यता प्रगलत हुए।

नृप सब रहहिं कृपा अभिलाषे * लोकप करहिं प्रीति रख राखे
त्रिभुवन तीनि काल जग माहौं * भूरि भाग्य दशरथ सम नाहौं

सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल-मन भी उनके रूप को स्मरण प्रीति करते हैं। तीनों लोक और तीनों जगों में दगरपजी के गमान बढ़मानो कोई नहीं हुआ।

मङ्गल मूल राम सुत जासू * जो कछु कहिअ थोर सब तामू
रायें सुभायें मुकुर कर लौन्हा * वदनु विलोकि मुकृट सम कीन्हा

जिनकेँ पुत्र मङ्गल के मूल-श्रीरामजी हैं, उनकेँ लिए जो कुछ कहा जाय, यही सोचा है। महाराज ने महज स्वभाव से स्वयं हाथ में ले, मुप देवदर मुकुर को दीख दिया।

श्रवन समीप भए सित केसा * मनहुँ जरठहनु अस उपदेसा
नृप जुवराज राम कहूँ देहू * जीवन जनम लाहू किन लेहू

(और देखा कि) दान के पाग के दान गदरेद होयवे हैं, मानो पुत्रापापका उपदेस करता है कि है राजा ! रामजी को राजनिमक करने भरने जीवन और श्रमकी मरत यकी मरी करने ?

दोहा—यह विचार उर आनि नृप, सुदिन सुअवसर पाइ।

अरि बस देउ जिआवत जाही * मरनु नीक तेहि जीवन चाही

नहर में जाकर भले ही जन्म बिता दूँगी, परन्तु जीते-जी सौत की सेवा नहीं करूँगी। शत्रु के वश में रखकर विधाता जिसको जिलाता है, उसका तो मरना ही भला है।

दीन वचन कह बहु विधि रानी * सुनि कुबरी तियमाता ठानी
अस कह कहहु सानि मन ऊना * सुख सोहागु तुम्ह कहुँ दिन दूना

रानी कैकई ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे उन्हें सुनकर मन्थरा ने त्रिया-चरित्र फैलाया। मन्थरा ने कहा—हे स्वामिनी ! मन से ओछापन लाकर ऐसा क्यों कहती हो ? तुम्हारा सुख-सुहाग दिन-दूना बढ़ता रहे।

जोहि राउर अति अनभल ताका * सोइ पाइहि यह फलु परिपाका
जब तै कुमति सुना सैं स्वामिनि * भूख न बासर नींद न जामिनि

जिसने तुम्हारा ऐसा बुरा विचारा है, वही इसके अन्तिम फल को प्राप्त करेगी। हे स्वामिनी ! जबसे मैंने इस कुमति को सुना है, तब से मुझे न दिनको भूख लगती है और न रात को नींद। पूँछेउँ गुनिन्ह रेख तिन्ह खाँची * भरत भुआल होहि यह साँची
आमिनि करहु तो कहां उपाऊ * है तुम्हरी सेवा बस राऊ

मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर कहा कि भरतजी राजा होंगे, यह सत्य है। हे आमिनी ! तुम करो तो उपाय बताऊँ ? राजा तुम्हारी सेवा के वश में हैं ही। दोहा—परउँ कूप तुअ वचन पर, सकउँ पूत पति त्यागि।

कहसि मोर दुखु देखि बड़, कस न करब हितलागि ॥२२॥

कैकई बोली-तेरे कहने से कुएँ में भी कूद सकती हूँ, पुल और पति को भी त्याग सकती हूँ। मेरा बड़ा दुःख देखकर तू मुझसे कह रही है तो अपनी भलाई के लिये उसे क्यों न करूँगी ?

कुबरी करि कबुली कैकई * कपट छुरी उर पाहन टेई
लखइ न रानि निकट दुखु कैसे * चरइ न हरित तून बलिपसु जैसे

मन्थरा ने कैकई को (बलि-पशु बनाकर) कबूलवाकर कपट-छुरी को अपने हृदयरूपी पत्थर पर पत्नी की रानी कैकई अपने निकट आने वाले दुःख को कैसे नहीं देखती जैसे बलि का पशु हरी-हरी-घास चरता है।

सुनत बात सृदु अन्त कठोरी * देति मनहुँ सधु साहुर घोरी
कहइ चेरि सुधि अहइ कि नाही * स्वामिनि कहिहु कथा सोहिपाहीं

मन्थराकी बात सुनने में मीठी है, परन्तु अंत में कठोर है मानो शहद में विष घोलकर देती है। दासी कहती है—हे स्वामिनी ! वह याद है कि नहीं ? तुमने जो कथा मुझसे कही थी।

दुइ वरदान भूप सन थाती * साँगहुं आजु जुड़ावहु छाती
कैकई के वरदानों की कथा दण्डकारण्य वन में त्रैजयन्त नगर में अतिध्वज नाम का राजा

पुनि न सोच तनु रहउ कि जाऊ * जेहि न होइ पाछें पछिताऊ
सुनि मुनि दसरथ वचन सुहाए * मङ्गल मोद मूल मन भाए

फिर घुट पिता नहीं, शरीर रहे या घुट जाय-जिम्मे वोटे पछतावा न रहे । दसरथों के आनन्द और मङ्गल के मूल वचन मुनि को बहुत मने लगे ।

सुनु नृप जासु विमुख पछिताहीं * जासु भजन विनु जरनि न जाहीं
भयउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी * राम पुनीति प्रेम अनुगामी

ये बोले-हे राजन्! तुमने, जिसके विमुख होने में लौन पछताते हैं और जिसके भजन करने से आनन्द की उत्पत्ति नहीं जाती, वही प्रभु श्रीरामको तुम्हारे पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेमके अनुगामी हैं ।

दोहा-वेगि विलम्बु न करिअ नृप, सजिअ सबुइ समाजु ।

सुदिन सुमङ्गल तवहि जव, रामु होहि जुवराजु ॥ ५ ॥

हे राजन् ! अन्ती में सब सामान सजवाइये, विलम्ब न कीजिये । शुभ दिन और सुन्दर मङ्गल तब ही है, जब धोरामको गुवराज हो जायें ।

मुदित महीपति मन्दिर आए * सेवक सचिव सुमन्त बुलाए
कहि जयजीव सीस तिन्ह नाए * भूप सुमङ्गल वचन सुनाए

राजा आनन्दित होकर महल में आये और अपने सेवकों प मन्त्रों मुमन्त को बुलाया । उन्होंने 'जय-जीव' कहकर गिर नवाये, तब राजा ने सुन्दर मङ्गलसमय वचन सुनाये ।

जौ पांचहि मत लागइ नीका * करहु हरपि हियाँ रामहि टीका
परि पंचों को यह विचार भला लगे तो प्रगल्भ हृदयके धोरामचन्द्रको का निम्न कहोनि ।

मन्त्री मुदित सुनत प्रिय वानी * अभिमत विरवें परेउ जनु पानी
विनती सचिव करहि कर जोरी * जिअहु जगतपति वरनि किरोरी

यह प्रिय वानी सुनते ही मन्त्री आनन्दित हो गये, मानो उनके मनोरथपूर्तों की पर पानी पड़ गया हो, और हाथ जोड़कर विनती करने लगे-हे जगन्नाथ ! आर करोड़ों वरें दिये ।

जग मङ्गल भल काजु विचारा * वेगि अनाय न लाइअ बारा
नृपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा * बढत वीडु जनु लही सुसाषा

राजने जगन् के मङ्गल के लिए शुभ काम सोचा है । हे माय ! जन्मो कीजिये, विलम्ब न करिये । मन्त्री के यह वचन सुन राजा को ऐसा आनन्द हुआ, मानो डेन सुन्दर भाषा का सहारा पा गई हो ।

दोहा-कहेउ भूप मुनिराज कर, जोइ जोइ आयसु होइ ।

राम राज अभिपेक हित, वेगि करइ सोइ सोइ ॥ ६ ॥

राजा ने कहा-मुनिराज की जो-जो आशा हो, धोरामको के रामविभक्त के लिए पूरी-पही संघारो मुमन्त करो ।

हरपि मुनीस कहेउ मृदु वानी * आनहु सकल सुतीरथ पानी

कोप समाजु साजि सब सोई * राजु करत निज कुमति बिगोई
राउर नगर कोलाहलु होई * यह कुचालि कछु जान न कोई

कोप का सब साज सजा केकई जा सोई, राज करते हुए उसे कुबुद्धि ने नष्ट कर दिया।
राजमहल और नगर में धूम हो रही थी, इस कुचाल को कोई भी नहीं जानता था।

दोहा—प्रसुदित पुर नर नारि सब, सबहिं सुमङ्गल चार।

एकप्रविसहि एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार ॥२४॥

अयोध्यापुरी में सब नर-नारियों ने आनन्दपूर्वक सुन्दर-मङ्गलमय साज सजाये। कोई
अन्दर जाता है, कोई बाहर आता है, इस प्रकार से राज-दरवार में बड़ी भीड़ होगई।

बाल सखा सुनि हियँ हरषाहीं * मिलि दस पाँच राम पहि जाहीं
प्रभु आदरहिं प्रेसु पहिचानी * पूछाहिं कुसल क्षेम मृदु बानी

श्रीरामजी के बाल-सखा राजतिलक सुन मन में बहुत प्रसन्न होते हुए दस-पाँच मिलकर
श्रीरामजी के पास जाते। प्रभु उनका प्रेम पहिचानकर आदर करते और कुशल-क्षेम पूछते।

फिरहिं भवन प्रिय आयसु पाई * करत परस राम बड़ाई
को रघुवीर सरिस संसारा * सीलु सनेह निवाहनिहारा

अपने प्रिय सखा श्रीरामजी को आज्ञा पाकर लौटते और आपसमें श्रीरामजी की बड़ाई
करते कि संसार में श्रीरघुनाथजी के समान शील और स्नेह को निवाहने वाला कौन है?

जेहिजेहिजोनि करम बस भ्रमहीं * तहँ तहँ ईसु देउ यह हमहीं
सेवक हम स्वामी सियनाहू * होउ नाथ यह ओर निवाहू

ईश्वर हमको यही दें कि हम कर्मवश जिसर योनि में जन्म लें, वहाँ-वहाँ हम सेवक हों
और सीतापति श्रीरामजी हमारे स्वामी हों और अन्त तक यह नाता निभ जाय।

अस अभिलाषु नगर सब काहू * कैकयसुता हृदयँ अति दाहू
को न कुसङ्गति पाइ नसाई * रहइ न नीच मते चतुराई

नगर में सबकी ऐसी ही इच्छा थी, परन्तु कैकई के मन में अति जलन थी। कुसंगति
से कौन नहीं विगड़ता? ओछे की सलाह से चतुराई नहीं रहती।

दोहा—साँझ समय सानन्द नृप, गयउ कैकई गेहँ।

गवनु निठुरता निकट किय, जनु धरि देह सनेहँ ॥ २५ ॥

सन्ध्या समय महाराज दशरथ आनन्दपूर्वक कैकई के सहल में गये, मानो स्नेह ही देह
धारण कर निठुरता के पास गया हो।

कोप भवन सुनि सकचेउ राऊ * भय बस अगहुड़ परइ न पाऊ
सुरपति बसइ बाहँबल जाके * तरपति सकल रहहिं रुख ताके

कोप-भवन सुनकर राजा सहम गये, डर के मारे पैर आगे नहीं बढ़ते। इन्द्र भी जिसके

है कि किन्ही प्रिय में भद्र होगा ।

भरत सरित्त प्रियको जगमाहों * इहइ सगुन फल दूसर नाहों
रामहि बन्धु सोच दिन राती * अण्डन्हि कमठ हृदय जेहि भाती

भरतजी के समान जगत् में हमें कौन प्यारा है ? प्रधान- (कोई नहीं) इस श्रुति का यही फल है, दूसरा नहीं । श्रीरामजी को भाई (भरत) का दिन-रात सोच रहता है । जैसे बट्टए का मन धर्यों में रहता है ।

दोहा—एहि अवसर मङ्गल परम, सुनि रहैसेउ रनिवासु ।

सोभितलखिविधुबढतजनु, वारिध वीच विलासु ॥ ८ ॥

जमी समय यह मंगल समाचार सुनकर मारा रनिवास देना प्रशंसन हुआ, तबमें पण्डितों को बढ़ते हुए देखकर मनुष्य की महरो का आनन्द मुक्तोन्मित होता है ।

प्रयम जाइ जिन्ह वचन सुनाए * भूपन वसन भूरि तिन्ह पाए
प्रेम पुलकि तनु मन अनुरागी * मङ्गल कलस सजन सब लागी

मयमें पहुँचे जाकर जिन्होंने समाचार सुनाया, उन्होंने पण्डितोंको पाये । रामी प्रेम में प्रयुक्तित होगई और मन प्रेम में मग्न होगया, सब मंगल-जनम मगाने लगीं ।

चौकैं चारु सुमित्राँ पूरी * मनिमयविविध भाँतिअतिहरी
आनन्द मगन राम महतारी * दिए दान बहु विप्र हँकारी

सुमित्रा रामी ने अनेक प्रकार की बहुत-सी मणियों में मनोहर चौर पूरे । श्रीरामजी की माता कीमत्याजी ने आनन्द-मग्न हो ब्राह्मणों को सुनारकर बहुत-से दान दिये ।

पूजा ग्रामदेवि सुर नागा * कहेउ बहोरि देन बलि भागा
जेहि विधि होइ राम कल्याण * देहु दया करि सो वरदान

ग्राम-देवी, देवता, नागों को पूजा की, फिर बलि का प्राण देने की मनोनी की । अन्त में यही प्रार्थना कि जिन प्रशार श्रीरामजी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान हो ।

गावहि मङ्गल कोकिल वयनी * विधु वदनी मृगसावक नयनी
कोकिल-वयनी, पण्डितोंको, मृग-नयनी सिद्धी मंगल-मान करने लगीं ।

दोहा—राम राज अभिषेक सुनि, हिये हरये नर नारि ।

लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुफल विचारि ॥ ९ ॥

श्रीरामपण्डितों का राज-वितर सुनकर नर-नारों मन में बहुत प्रशंसन हुए और ब्रह्मणों को अनुकूल समझकर सब सुन्दर मंगल-मान मगाने लगे ।

तव नरनाहें वसिष्ठ बोलाए * राम धाम सिध देन पठाए
गुरु आगमनु सुनत रघुनाया * द्वार आइ पद नायड माया

तब राजा ने वसिष्ठजी को बुलाया और श्रीरामजी के महान में सिद्धा देने के लिए देखा । गुरु का आगमन सुनी ही श्रीरामपण्डितों ने द्वार पर भाकर उतरने लगीं ।

जानसि सोर सुभाउ बगेरु * मनु तब आनन चन्द्र चकोरु

तुम्हारा बैरी यदि कोई देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ, फिर कीड़े के तुल्य स्त्री-पुरुष क्या चीज हैं ? प्रिय! तुम मेरा स्वभाव जानती हो, मेरा मन तुम्हारे चन्द्रमुखका चकोर है।

प्रिया प्राण सुत सरवसु सोरै * परिजन प्रजा सकल बस तोरै
जो कछु कहौं कपटु करि तोही * भामिनि राम सपथ सत मोही

हे प्रिये ! मेरे प्राण, पुत्र, धन, कुटुम्ब, प्रजा सब तुम्हारे आधीन हैं। हे भामिनी ! यदि मैं तुमसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो मुझे श्रीरामजी की सौ बार सौगन्ध है।

बिहँसि साँगु मनभावति बाता * भूषन सजहु मनोहर गाता
घरी कुघरी समुझि जिय देखू * बेगि प्रिया परिहरहु कुबेषू

अपनी मनचाही बात हँसकर माँगलो और अपने सुन्दर अङ्गों को आभूषणों से सजाओ। हे प्रिये ! समय-कुसमय को तो मन में समझकर देखो और शीघ्र ही इस कुवेष को दूर करो।

दोहा—यह सुनि मन गनि सपथ बड़ि, बिहँसि उठी मति मन्द ।

भूषन सजति विलोकि मृग, मनहुँ किरातिनि फन्द ॥ २६ ॥

यह सुनकर मंद-बुद्धि कैकई सौगन्ध को बड़ी जान-हँसकर उठी और गहने पहिने लगी। मानो हिरन को देखकर भीलनी फन्दा डाल रही हो।

पुनि कह राउ सुहृद जियाँ जानी * प्रेम पुलकि मृदु मञ्जुल बानी
भामिनि भयउ तोर मन भावा * घर घर नगर आनन्द बधावा

फिर राजा अपने मनमें उसको सुहृदय जानकर प्रेम से पुलकायमान होकर कोमल और मधुर वाणी से बोले-हे भामिनी ! तुम्हारा मन-चाहा होगया, नगर में घर-घर आनन्द मङ्गल हो रहा है।

रामहि देउँ काल जुवराजू * सजहुँ सुलोचनि मङ्गल साजू
दधकि उठेउ सुनि हृदय कठोरु * जनु छुड़ गयउ पाक बरतोरु

हे सुनयनी ! श्रीराम को कल में युवराज-पद दूँगा, तुम मङ्गल साज सजाओ। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय धधक उठा, मानो पका हुआ बाल-तोड़ छू गया हो।

ऐसिउ पीर बिहँसि तेहि गोई * चोर नारि जिमि प्रगट न रोई
लखाहि न भूष कपट चतुराई * कोटि कुटिल मनि गुरु पढाई

इस प्रकारकी पीड़ाको भी हँसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकटमें नहीं रोती। राजा ने उसका यह कपट नहीं समझा, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलोंकी गुरु-मन्थरा की सिखाई थी।

जद्यपि नीति निपुन नरनाहू * नारिचरित जलनिधि अवगाहू
कपट सनेहु बढाइ बहोरी * बोली बिहँसि नयन मुँहु मोरी

यद्यपि राजा नीति में निपुण थे, परन्तु स्त्री-चरित्र रूपी समुद्र भी अथाह है। फिर कपट से स्नेह बढ़ाकर कैकई मुस्कराकर कटाक्ष फँक कर मुँह मटका कर बोली।

तिसर हो रहा है । तनेट महि प्रमु धीरामजी का पञ्जाया मन्त्रों के मन की बुद्धि का दूर रहे ।

दोहा-तेहि अबस आए लखन, मगन प्रेम वानन्द ।

सनमाने प्रिय वचन कहि, रघुकुल कैरव चन्द ॥११॥

जो गमय प्रेम और वानन्द में मगन सधमजो यहाँ जाये । रघुवंशजो दुर को गिताने वाले चन्द्रमा धीरामजी ने प्रिय वचन बहुर उनका सम्मान किया ।

वार्जहि वाजने विविध विधाना * पुर प्रमोद नहि जाइ बराना
भरत आगमनु सकल मनावहि * आवहुँ बैगि नयन फलु पावहि

अनेक प्रकार के जाने बज रहे हैं । नगर का वानन्द वर्णन नहीं किया था मगना । भरतजी का आगमन सब मना रहे हैं, भरतजी जसो आये और नेत्रों का लाभ प्राप्त करें ।

हाट वाट घर गली अवाई * कर्हि परस्पर लोग तुगई
कालि लगन भलि फेतिक वारी * पूजिहि विधि अभिलापु हमारी

बाजार, राह, घर गली और अथाइयों में सब नर-नारी आपस में यहाँ बर्षा करने लगे कि शुभ लगन किस गमय होगी ? जब विधाता हमारे मनोरथ पूरा करेगे ।

फनक सिंहासन सीय समेता * वैठहि रामु होइ चित चैता
सकल कर्हि कव होइहि काली * विघन मनावहि देव कुचाली

जब सोने के सिंहासन पर सीताजी महि धीरामजी बैठेगे, तब हमारा मन चाला होगा । सब यही कह रहे हैं कि क्या सबेरा होगा ? परन्तु पुष्याजी देवता विघ्न मना रहे हैं ।

तिन्हहि सोहाइ न अवध बधावा * चोरहि चन्दिनि राति न भावा
सादर बोलि विनय सुर करहौं * वारहि वार पायँ लै परहौं

उनको अक्षय की बघाई ऐसे नहीं मुशायी, जैसे चोर को चोरनी रात नहीं मुशायी । देवताओं ने सरस्वती को सुसागर बिनती की, वार २ उनके चरणों पर मगनक रचना ।

दोहा-विपति हमारि विलोकि बड़ि, मातु करिअ सोइ आजु ।

रामु जाहि बन राजु तजि, होइ सकल सुर फाजु ॥१२॥

हे माता ! हमारी बड़ी विपति को देखकर आज यही उपाय करे, जिनको धीरामजसो राज्य को त्याग बन की जाय और देवताओं के लक्ष्मी बार्ज गिट हों ।

सुनि सुर विनय ठाड़ि पछितातां * भइउँ सरोज विपिन हिमराती
देखि देव पुनि कर्हि निहोरी * मातु तोहि नहि चोरिउ घोरी

देवताओं की बिनती सुन सरस्वतीजी पड़ी २ पछिताने लगी कि मैं ब्रह्मण बन के विघ्न हंमन-शत्रु की राति हुई । देवता सरस्वतीजी को पछिताने देखकर फिर ब्रह्मण बन के बिनती-हे माता ! इसमें आपकी तनिक भी शेष नहीं मरेगा ।

विसमय हरप रहित रघुराऊ * तुम्ह जानहुँ सब राम प्रनाऊ

तपस्वी का वेष धारण कर, विशेष उदासीन भाव से चौदह वर्ष पर्यन्त श्रीरामजी वन में वास करें। ऐसे वचन सुनकर राजा के मन में ऐसा दुःख हुआ, जैसे चक्रवा चन्द्रमा की किरणों को छूते ही व्याकुल हो जाता है।

गयउ सहसि नहिं कछुकहिआवा * जनु सचान वन झपटेउ लावा
विवरन भयउ निपट तरपालू * बामिति हनेउ मनहुँ तर तालू

राजा ऐसे सहस गये कि कुछसी कह न सके, जिस प्रकार वाजके झपटने से वनमें बटेर सहस जाता है। राजा का रंग बिल्कुल बिगड़ गया, मानो बिजली का मारा ताड़ का वृक्ष हो।

माथें हाथ मूँद दोउ लोचन * तनु धरि सोचु लागि जनु सोचन
सोर मनोरथ सुरतर फला * फरत करिति जिमि हतेउ समला
अवध उजारि कीन्हि कैकई * दीन्हेसि अचल विपति कै नई

हाथ माथे पर रखकर, आंखें मूँद कर राजा ऐसे सोचने लगे-मानो सोच ही शरीर धारण कर सोच रहा है, वे सोचने लगे-हाय ! मेरा मनोरथ-रूपी कल्पवृक्ष फल चुका था, परन्तु फल लगते ही कैकई ने उसे हथिनो की तरह जड़ सहित उखाड़ कर फेंक दिया। कैकई ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और अचल विपति की नींव जमा दी।

दोहा-कवनें अवसर का भयउ, गयउ नारि विश्वास।

जोगसिद्धि फल समय जिमि, जतिहि अबिद्या नास ॥ २६ ॥

क्या होने वाला था, क्या होगया-इतने स्त्री का विश्वास ही जाता रहा। जैसे योग की सिद्धि के फल के समय अबिद्या-योगी का नाश कर देती है।

एहि विधिरास मनहि मनझाँखा * देखि कुभाँति कुसति मन माखा
भरत कि राउर पूत न होहीं * आनेहु सोल बेसाहि कि मोहीं

इस प्रकार राजा मन ही मन दुःखी हुए, तब दुरी भाँति से देखकर डुबुँटि कैकई मनमें क्रोध करके बोली-क्या भरत आपका पुत्र नहीं, क्या आपने मूल्य देकर मुझे खरीदा था ?

जो सुनिसरु अस लागि तुम्हारे * काहे न बोलहु बचनु सँवारे
देहु उत्तर अनु करहु कि नाही * सत्यसिंधु तुम्ह रघुकुल माहीं

जो सुनते ही आपके वाण-सा लगा तो आप सोच-विचार कर वचन क्यों नहीं बोले ? उत्तर दीजिए और 'हाँ' या 'ना' कौजिये, आप तो रघुवंश में सत्य के समुद्र हैं।

देन कहेहु अब जनि बर देहु * तजहु सत्य जग अपजस लेहु
सत्य सराहि कहेउ वर देना * जानेहु लेइहि माँगि चबेना

आपने वरदान देने को कहा था, अब मत दीजिए, सत्य को त्याग कर जगत में अपयज्ञ लीजिए। सत्यकी प्रशंसा करके वर देनेको कहा था, जाना था-यह कोई चना-चबेना माँगलेगी।

सिवि दधीचि बलि जो कछु भाषा * तनु धन तजेउ वचनु पनु राखा
अति कहु वचनु कहत कैकई * सानहुँ लौन जरे पर देई

हे ? यह उत्तर न देकर जाता सता है और प्रिया-प्राय करके लागू रहती है ।

हंसि कहि रानि गालु बड़ि तोरे * दोन्ह लखन सिख असमन मोरे
तबहुं न बोलि चेरि बड़ि पापिनी * छांडइ स्वांस कारिजनु सांपिनि

तब रानी ने हंसकर कहा तू बहुत बोलती है, इससे तेना मत होता है कि कल्प
ने तुम कुछ गिरा दो है । फिर भी यह महा पापिनी नहीं बोलो और ऐसे स्वांस छोड़ने
सगो, मानो नागिन कुंसाचारमी हो ।

दोहा—समय रानि कह कहसि किनि, कुसल रामु नहिपालु ।

लखन भरत रिपुदमनु सुनि, भा कुबरी उर सालु ॥१४॥

तब रानी ने टरकर कहा-अरो, बोलती क्यों नहीं ? धोरामजी, राजा, गणपत, मरु
और मनुष्य दुगान मे तो हैं ? यह मुनकर बुझी के हृदय में क्या ही दुःख हुआ ।

कत सिख देइ हमहि कोउ माई * गालु करव केहि कर बलु पाई
रामहि छांडि कुसल केहि आजु * जेहि जनेसु देइ जुवराजु

गन्यरा बोलो हे माई ! हमसे कोई क्या गिरा देगा और हम शिखा बन पाकर
गत बनायेंगे ? धोरामजी को छोड़कर-आज और किसी दुगान हो मरती है, जिन्हें कि
राजा मुपराज पद दे रहे हैं ?

भयजकोसिलहिविधिअतिदाहिन * देखत गरव रहत उर नाहिन
देखहु कस न जाइ सब शोभा * जो अवलोकि मोर ननु छोभा

कोमल्या को विधाता आज बहुत ही अनुकूल है, यह देखकर उनसे हृदय में घनप
नहीं समाता । स्वयंही जाकर सब शोभाकी ब्यो न देखे, जिसे देखे मेरे मनमें धाम होता है ।

पूतु विदेस न सोचु तुम्हारे * जानति हहु बस नाहु हमारे
नौद बहुत प्रिय तेज तुराई * लखहु न भूप कपट चतुराई

मुझारा पुत्र परदेस में है, इसका कुछ सोच नहीं-यह जानती हो कि राजा मेरे काम में है, मुझे तो
तोपक तेज पर नौद लेना बहुत प्रिय लगता है, राजारी कपटमरी चतुराई को गुम नहीं देखती ।

सुनि प्रिय वचन मलिनमनु जानी * झुकी रानि अब रहु अरगानी
पुनि अस कबहुं कहसि घरफोरी * तौ धरि जीभ कड़ाबडे तोरी

प्रिय वचन सुनकर और उत्तरा मन मलिन जानकर रानी मुनकर बोलो अब पुत्र रह !
फिर कभी घर में फूट डालने वाला बना रहेंगे तो पकड़कर तेरी जीभ निकाला मुझे ।

दोहा—काने खोरे कुबरे, फुटिल फुचाली जानि ।

तिय विसेपि पुनि चेरि कहि, भरत मातु नुसुजानि ॥१५॥

काने,संगड़े,बुझड़े-यह बड़े बुटिल और कुबरी माने गये हैं, उनमें भी गरी और दान
कर दातो । यह बहकर भरतजी की माता मुनकराई ।

विप्रवादि निसिख दोन्हिउं तोही * सपनेहुं तो पर कोषु न मोही
सुदिनु सुमङ्गल दायकु सोई * तोर कहा फुर जेहि दिन

अब क्रोधको त्यागकर संगल-साज सजाओ, कुछ दिन बाद भरत युवराज होंगे, पर तुम्हारी एक ही बात से मुझे दुःख हुआ कि तुमने दूसरा वर बड़ा ही द्विविधा वाला मांगा है।

अजहूँ हृदयँ जरत तेहि आँचा * रिस परिहास कि साँचेहुँ साँचा
कहु तजि रोषु राम अपराधु * सब कोउ कहइ रामु सुठि साधु

अभीतक उसकी आगसे हृदय जल रहा है, क्या यह क्रोधमें हँसीमें, या सचमुचमें सत्य है? क्रोध को त्यागकर रामका अपराध तो बताओ, रामकोतो सब कहते हैं कि बहुत ही सीधे हैं।

तुहँ सराहसि करसि सनेहू * अब सुनि मोहि भयउ संदेहू
जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला * सो किसि करइ मातु प्रतिकूला

तुमभी तो रामजीकी बड़ाई कर, स्नेह करती थीं, परन्तु अब सुनकर मुझे संदेह हुआ। जिसका स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल हो, वह माता के विरुद्ध कोई बात कैसे कर सकता है।

दोहा—प्रिया हास रिस परिहरहु, माँगु विचारि विवेकु।

जेहि देखौं अब नयन भरि, भरत राजअभिषेकु ॥ ३२ ॥

हे प्रिये ! हँसी और क्रोध का त्याग करो और ज्ञान से विचार कर-वर मांगो, जिससे अब मैं भरत का राज्यभिषेक नेत्र भरकर देख सकूँ।

जिए सीन बरु बारि बिहीना * मनि बिनु फनिकु जिए दुख दीना
कहउँ सुभाउ न चलु मन माहीं * जीवनु मोर राम बिनु नाहीं

मछली चाहे जलके बिना जीती रहे, मणि के बिना सर्प भलेही दीन-दुःखी होकर जीता रहे। परन्तु मैं स्वभाव से निष्कपट होकर कहता हूँ कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है।

समुझि देखु जियँ प्रिया प्रबीना * जीवनु राम दरस आधीना
सुनि मृदु वचनकु मति अति जरई * मनहुँ अनल आहुति घृत परई

हे चतुर-प्रिये ! अपने जी में समझ देखो, मेरा जीवन श्रीराम-दर्शन के आधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकई जल उठी, मानो आग में घी की आहुति पड़ी हो।

कहइ करहु किन कोटि उपाया * इहाँ न लागहि राउरि माया
देहु कि लेहु अजसु करि नाहीं * सोहि न बहुत प्रपंच सोहाही

कैकई बोली-हे राजन् ! करोड़ों उपाय क्यों न करो, पर यहाँ आपकी माया नहीं चलेगी, या तो मेरा मांगा वरदान दो, अथवा 'नाहीं' करके अपयश लो मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाता।

रामु साधु तुम्ह साधु सयाने * राम मातु भलि सब पहिचाने
जस कौसिला मोर भल ताका * तस फलु उन्हहि देउ करि साका

श्रीरामचन्द्रजी सीधे हैं, आप भी सीधे और चतुर हैं तथा राम की माता भी बहुत भोली हैं मैंने सबको पहिचान लिया। कौशल्या ने जैसा मेरा भला चाहा है, मैं भी उसी प्रकार उसे फल दूँगी—जो याद रहेगा।

दोहा—होत प्रातु मुनिवेष धरि, जाँ न राम बन जाहिं।

तार्त कष्टक वात अनुसारो * छमिअ देवि वडि चक हमारो
हमारा तो इयमाव जताने के योग्य है, क्योंकि हमने तुम्हारी बुराई नहीं देखी जाती।
इसोमे बृष्ट बात ऐसी थी, हे देवी। रामा करो, मेरी बड़ी भूख हुई।

दोहा—गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनि, तीय अधर बुधि रानि।

सुरमाया वस वैरनिहि, सुहृद जानि पति आनि ॥१७॥

सिपर मुठि की म्त्री कंकरई ने देवताओं की माया के यम में होने के कारण मंगररा के पुत्र, कपट-
मरे प्रिय वचन सुनकर धरिन मंगररा की अपनी सुहृद जानकर उस पर विश्वास कर लिया।

सादर पुनि पुनि पूछत ओही * सवरो गान मृगी जनु मोही
तसि मति फिरि अहइ जसि भावी * रहसो चेरि घात जनु फावी

रानी आदर सेवार २ पूछने लगी, मानो हिरनी मोलनी का गान सुनकर मोहित होगई है।
जैती होनहार है, पैसो ही मति होगई। बातों अपना तोर सगा जानकर प्रमत्त हुई।

तुम्ह पूछहु मैं कहत डेराऊं * धरेहु मोर घरफोरी नाऊं
सजिप्रतीतिवहु विधि गड़ि छोली * अवध साढ़साती तव वौली

(मंगररा बोली-) तुम पूछती हो, परन्तु मुझे कहने में डर लगता है, क्योंकि तुमने मेरा
'घर फोड़ी' नाम रख दिया है। बात बनाकर और विश्वास जमाकर अवध की साड़-गाड़ी
(साड़े-सात धपं की गानि-बना-रूपी) मंगररा बोली—

प्रिय सिय रामु कहा तुम्ह रानी * रामहि तुम्ह प्रिय सो फुरि वानी
रहा प्रथम अब ते दिन बीते * समउ फिरें रिपु होहि पिरौते

हे रानी! तुमने जो कहा कि धीमोना-राम मुझे प्रिय है और राम की तुम प्रिय हो, यह ठीक
है। परन्तु जो दिन पहले ये-ये अब बीत गये, समय पकट जाने में निज भी मरु हो जाते हैं।

भानु कमल कुल पोष निहारा * विनु जल जारि करइ सोह छारा
जरितुम्हारि चह सवति उखारो * रूँधहु करि उपाय बर वारो

सूर्य-कमल-कुल का पोषण करने वाला है, परन्तु बिना जल के वहाँ सूर्य अपनी जलाकर राख
करकेता है। तुम्हारी जड़को मोल की मत्स्या उपाड़ना चाहती है, उसे तुम सुन्दर बाड़ में रोखरो।

दोहा—तुम्हहिन सोचु सोहाग बल, निज वस जानहु राड।

मन मलीन मुख मीठ नूप, राउर सरल सुभाड ॥१८॥

तुमको अपने सुहाग के बल से बृष्ट मोष नहीं है, राजा की धरने बग में घातों हो।
परन्तु राजा मन के मलिन और मुँह के मीठे हैं, राजा का स्वभाव मोठा है।

चतुर गंभीर राम महतारी * वीचु पाइ निज वात सेभारी
पठए नूप भरतु ननिअउरें * राम मातु मत जानव रउरें

धीरामनी की माता बड़ी चतुर और गंभीर है, समय पाकर उसके अन्तरी बात बता
ती। राजा ने भरतजी को ननिहाव भेज दिया, इसमें राम की माता की मन्तव्य मन्तव्य

दुइ कि होइ इक समय भुआला * हंसव ठोह फुलउब गाला
दानि कहावउ अरु कृपनाई * होइ कि खेम कुशल रौताई

हे राजन् ! दोनों काम क्या एकही समय में हो सकते हैं-खिल-खिलाकर हंसना व गाल फुलाना दानी कहलाना और कंजूसी करना ? क्या वीरता के साथ कुशलता भी हो सकती है ?

छाँड़हु वचन कि धीरज धरहु * जनि अबला जिमि करुना करहु
तनु तिय तनय धामु धनु धरनी * सत्यसिंधु कहुं तून सम बरनी

या तो वचन छोड़ दीजिये या धीरज धरिये, स्त्रियों की तरह करुणा न करिये । देह, स्त्री, पुत्र, मकान, धन और पृथ्वी-यह सभी सत्य-प्रतिज्ञों को तिनके के समान कहे हैं ।

दोहा-भरस वचन सुनि राउ कह, कछुक दोष नहि तोर ।

लागेउ तोहि पिशाच जिमि, काल कहावत मोर ॥३५॥

ऐसे धर्म-पूर्ण वचन सुनकर राजा ने कहा-तुम्हारा कुछ दोष नहीं है, तुम्हें तो मानो मेरा काल-रूपी पिशाच लगा है, वही तुमसे यह सब कहलवा रहा है ।

चहत न भरत भूपतिहि भोरें * विधि बस कुमति बसी जित तोरें
सो सबु मोर पाप परिनासू * भयउ कुठाहर जेहि विधि बामू

भरततो भूलकर भी राज-तिलक नहीं चाहते,होनहार वश ही यह कुबुद्धि तुम्हारे हृदय में बसी है । यह सब मेरे पापों का ही फल है,जिससे कुसमय में विधाता विपरीत होगया ।

सुबस बसहि फिर अवध सुहाई * सब गुनधाम राम प्रभुताई
करिहिं भाइ सकल सेवकाई * होइहि तिहुं पुर राम बड़ाई

सुहावनी अयोध्या फिर सुन्दर रीतिसे बसेगी और सब गुणों के धाम श्रीरामजी की प्रभुता भी होगी । सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोको में श्रीरामजी की बड़ाई होगी ।

तोर कलङ्क मोर पछताऊ * मुएहुं न मिटिहिं न जाइहि काऊ
अब तोहि नोक लाग करु सोई * लोचन ओट बैठु मुंह गोई

परन्तु तेरा कलंक व मेरा पछितावा मारने पर भी नहीं मिटेगा,न कभी दूर होगा । अब तुझे जो कुछ अच्छा लगे,सोकर । परन्तु मुंह छिपाकर मेरी आँखों के आगे से हटकर बैठ ।

जब लगि जिऔं कहउं करजोरी * तब लगि जनि कछु कहसि बहोरी
फिर पछितैहसि अन्त अभागी * मारसि गाय नहारू लागी

मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ,तबतक फिर कुछ भी मत कहना । अरी अभागिन ! अन्त में फिर तू ऐसे पछतावेगी,जैसे तांत के लिए कोई गाय को मारे ।

दोहा-परेउ राउ कहि कोटि विधि, काहे करसि निदानु ।

कपट सथानि न कहति कछु, जागति मनहुं मसानु ॥३६॥

राजाने करोड़ों भाँतिसे समझाकर कहा कि बना हुआ काम क्यों बिगाड़ती है ? फिर थककर पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपटमें चतुर केकई ने कुछ नहीं कहा-मानो श्मशान जगारही हो ।

हे रानी ! मैं निरपय पूर्वक बहती हूँ कि तुम रूप में गिरो हुई मरजी हो जाओगी । जो तुम पुत्र चाहित सोत हो मेवा करोगी तो घर में रहूँ मरोगी, दूसरा साथ बनाय नहीं है ।

दोहा—कद्रू विनितहि दोन्ह दुख, तुम्हहि फौसिलाँ देव ।

भरत वन्दिगृह सेइहहि, लखनु राम केँ नेव ॥२०॥

मेरे कद्रू ने विनिता को बुःप दिया था, वैसे ही तुमही शौमन्ना देणो । भरत कर्षी गृह का सेवन करेगे और सधमन-राम के मुहवाधिरारो होंगे ।

**कंकयसुता सुनत कद्रु वानी * कहि न सकइ कद्रु सहमि सुधानी
तन पसेउ कदली जिमि काँपी * कुचरी दसन जोम तय चाँपी**

कंकई-मन्थरा की कठोर बात सुन डरकर मेरी सुरता गई कि कुछ भी बोल न मकी । शरीर पसीने में भीग गया और बेचने के गुश की मानि काँपने लगी । तब कुचरी ने हाँसते हाँसते जोम दया सो ।

**कहिकहि कोटिक कपट कहानी * धीरजु धरहु प्रवोधिसि रानी
फिरा करमु प्रिय लागि फुचाली * बकिहि सराइह मान मराली**

कुचरीने करोड़ों कपट भरो बहानियाँ बहकर रानी को सप्तायाया कि धारत्रधरो । कंकई का भाग्य पतल गया, कुपान्त उगे प्रिय लगी । बगुलो को हंगिनी मानकर मरारने लगे ।

**सुनु मन्थरा वात फुर तोरी * दाहिनि आँखि नित फरकइ भोरी
दिन प्रति देखउँ राति कुसपने * कहउँ न तोहि मोहवस अपने**

सुन, मन्थरा ! तेरी बात ठीक है, मेरी दाहिनी आँख निरप पड़रगी है । मैं राति को नित्य पुरे स्वप्न देखता हूँ, परन्तु अपने मोहवस तुमने नहीं बहती ।

**कहा करौँ सखि सूध सुभाऊ * दाहिन वाम न जानउँ फाऊ
हे तापो ! क्या करुँ, मेरा तो शीघ्र स्वभाव है मैं मित्र व मनु कुछ भी नहीं जानतां ।**

दोहा—अपने जानि न आजु लागि, अनमल काहुक फौन्ह ।

फेहिँ अघ एकहि वार मोहि, दैव दुतह दुयु दोन्ह ॥२१॥

मेने तो अपने जाने आज तक किसी का विवाह नहीं किया, फिर न जाने किस वार के कारण विवाहा मे मुझे अपनाय वट बुःसाह बुःप दिया ?

नैहर जनमु भरव वरु जाई * जिअत न फरवि सवति सेवकाई

कद्रू विनिता को कद्रू-कद्रू माणों की माता और विनिता परदरही माता की, दोनों ही कद्रव-श्रुति की पत्नी थीं । उनमें विचार हुआ कि पुत्र के घोड़े बँगे हैं ? तब वट हुई कि जो हारे, वह शमी बने । कद्रू ने कहा कि घोड़े स्वामयण हैं और विनिता मे बहू स्वयं हैं । कद्रू मे अपने पुत्र माणों को गिया दिया, वे आरर घोड़ों के शरीर मे निपट लगे । पदंन परने देखते पर घोड़े स्वामयण के शीते तो विनिता मे हाँसिय पात गिया । तब होने पर परदरही मे लगी मे समत जाने की प्रणिता की, उसे पुत्र कररे अपनी माता को दाँसिय मे पड़ना ।

पूछने पर कोई उत्तर नहीं देता, तब वे वहाँ गये-जिस महल में महाराज और कैकईये । 'जय-जीव' कहकर सिर नवाकर सुमन्तजी बैठे और महाराज की दशा देखकर सूख गये ।

सोच विकल विवरन सहि परेऊ * मानहु कमल मूल परिहरेऊ
सवित सभित सकइ नहि पूछी * बोली अशुभ भरी सुभ छूछी

राजा चिन्ता से व्याकुल विदीर्ण हुए पृथ्वी पर पड़े थे, मानो कमल-जड़ से उखड़ पड़ा हो । संती मारे डरके कुछ पूछ नहीं सकते, इतने में ही अशुभ से और शुभ से छूँछी कैकई बोली-
दोहा-परी न राजहि नींद निसि, हेतु जानि जगदीसु ।

रामु रामु रट भोर किय, मरसु न कहेऊ महीसु ॥३८॥

महाराज को रात भर नींद नहीं आई इसका कारण भगवान ही जानता है । राजा ने राम-राम रटकर सवेरा कर दिया, परन्तु इसका भेद महाराज ने कुछ नहीं बताया ।

आनहु रामहि बेग बोलाई * समाचार तब पूछेहु आई
चलेऊ सुमन्त राय रुख जानी * लखी कुचालि कीन्ह कछु रानी

श्रीरामजी को शीघ्र बुला लाओ, तब आकर हाल पूछ लेना, सुमन्त राजा की अनुमति जानकर चले और मनमें समझ लिया कि रानी ने कुछ खोटाई की है ।

सोच विकल सग परइ न पाऊ * रामहि बोलि कहहि का राऊ
उर धरि धीरजु गयउ दुआरे * पूछहि सकल देखि मनु मारे

सोच के कारण सुमन्त के पाँव आगे नहीं बढ़ते, 'श्रीरामजी को बुलाकर महाराज न जाने क्या कहेंगे ?' यह सोचते जाते थे । फिर मन में धैर्य धरकर द्वारपर गये तो सुमन्त को मन मारे देखकर सब लोग पूछने लगे ।

समाधानु करि सो सबही का * गयउ जहाँ दिनकर कुल टीका
राम सुमन्त्रहि आवत देखा * आदरु कीन्ह पिता सम लेखा

सब लोगों को समझाकर सुमन्त फिर वहाँ गए जहाँ सूर्यवंश में श्रेष्ठ श्रीरामजी थे । श्रीरामजी ने सुमन्तजी को आते देखा तो पिता के समान जानकर आदर किया ।

निरखि बदनु कहि भूप रजाई * रघुकुल दीपहि चलेऊ लवाई
रामु कुभांति सचिव संग जाहीं * देखि लोग जहँ तहँ बिलखाहीं

उन्होंने श्रीरामजी के मुख की ओर देखकर राजा की आज्ञा सुनाई, फिर रघुकुल के दीपक श्रीरामजी को अपने साथ लिवाकर चले । श्रीरामजी बुरी तरह सुमन्तजी के साथ जा रहे हैं, यह देखकर सब लोग जहाँ-तहाँ दुःखी होगये ।

दोहा-जाइ दीख रघुवंस सनि, नरपति निपट कुसाजु ।

सहनि परेऊ लखि सिंघनिहि, मनहँ वृद्ध गजराजु ॥३९॥

रघुवंश-भणि श्रीरामचन्द्रजी ने जाकर देखा कि महाराज बुरी तरह से पड़े हैं, जैसे बूढ़ा हाथी सिंहनी को देखकर सहम कर गिर जाता है ।

सुतहि राजु रामहि बनवासू * देहु लेहु सब सबति हूनासू
 शो परदान राजा के पास धरोहर है, उन्हें मोगहर आर हूदय को मान्य करी। पुत्र
 को राजतिसर और राम को बनवासू देकर मोन का गव आनन्द मोन मो।

भूपति राम सपथ जब करई * तब मोगेज जेहि बचनु न टरई
 होइ अकाजु काजु निसि वीते * बचनु मोर प्रिय मानहुँ जाते
 राजा जब भीरामजी को मोगेज पाये तब परदान मोगना, तिसरे पथन न टरे। आठवीं
 रात व्यतीत हो जाने पर राम विगड़ जायगा, यह मेरो बात प्राणो मे प्यारी मानना।

दोहा—बड़ कुघात करि पातकिनि, कहेसि कोपगूहें जाहु।

काजु सँवारेहु सजगु सबु, सहसा जनि पति आहु ॥ २३ ॥

पापिनो कुबड़ी ने बड़ा घृणान कर कहा-शीत-भवन में जाओ और गावधानों में गव
 काम बनाना। एकाग्र राजा का विस्मास मत करना।

कुबरिहि रानि प्रानप्रिय जानी * वार वार बटि बुद्धि बखानी
 तोहि सम हित न मोर संसारा * वहेँ जात कड भइसि अधारा

रानीने कुबड़ी को प्राणों में प्यारी जानकर वार-वार उमरी बुद्धिरी बधाईरी और बजा-
 सेरे समान मेरा हिनयोसंगारमें कोई नहीं है। दुःख सागर में सुत बरती हुई जो कु बहारा हुई।

जौ विधि पुरव मनोरयु काली * करौ तोहि चख पूतरि आली
 बहु विधि चेरिहि आदर देई * कोप भवन गवनी कैकेई

हे सखी ! जो बह्या कल मेरी इच्छा पूरी करदे तो मैं तुम माँचों की पुतली की तरह
 रहूँगी। इस प्रकार मेरी का आदर कर बंजरई कोप-भवन में गई।

विपति बीजु वरषा प्ररुतु चेरी * भइ भुइँ कुमति कैकेइ केरी
 पाइ कपट जलु अँकुर जामा * वर दौड दल दुख फल परिनामा

विपति मोन है, कर्षा शत्रु पश्यर है, कैकेई को कुमति-कृषी हुई, बरदहवी जन पाकर
 अँकुर जमा, दोनों परदान पते हैं, आम में मयकी दूख जरी पत परिनामा होना।

यहाँ इन्द्र और शम्बर देव में युद्ध हुआ। राजा रामाय बंजरई का साथ लेकर
 इन्द्रपुरी की महापत्नार्य पहुँचे। यहाँ युद्ध करने २ रात हो जाने पर राक्षसों में बहुरीकी
 की मार दिया। द्वापरधवी भी घायल होकर स्वयं निर पडे, उनका मायवीकी मारा मर।
 उम समय रानी बंजरई रथ हीचकर दूर ले गई। मूर्छा दूर होने पर राजा उममे बहुर प्रमत्त
 हुए और शो परदान माँगने को कहा। उम समय बंजरई ने यह कहा कि "दर परदान प्राणों
 के रूप में आर अपने पास रखिये, प्रथमर पहुँचे पर माँग दूँगी।" महापत्नार्य ने इसे 'कपटयु'
 बहुरर म्योहार दिया था। शीरे यह बतने है कि उमयुद्ध में द्वापरधवी के स्वयं पहुँचे की
 पूरी टूट गई थी, तब रानी ने अपनी शो उर्वरियों की धुरीकी उमर मयाकर उनको महापत्नार्य
 की थी। तब राजा ने प्रमत्त होकर शो परदान दियो भी सम-देने का समय दिया।

सुनु जननी सोइ सुत बड़भागी * जो पितु मातु वचन अनुरागी
तनय मातु पितु लोष निहारा * दुर्लभ जननि सकल संसारा

हे माताजी ! सुनो, वही पुत्र बड़भागी है—जो माता-पिता के वचनों में अनुराग रखता हो। ऐसा माता-पिता को प्रसन्न करने वाला पुत्र संसार में दुर्लभ है।

दोहा—मुनिगन मिलनु विसेषि वन, सबहि भाँति हित मोर।

तेहि सहँ हितु आयसु बहुरि, सम्मत जननी तोर ॥४१॥

मुनि-मण्डली से मिलाप होने के कारण वन में सब प्रकार सेरा विशेष हित होगा। उसमें पिताजी की आज्ञा और हे माता ! तुम्हारी सम्मति है।

भरत प्राणप्रिय पार्वहिं राजू * विधिसबविधिसोहि सन्मुख आजू
जौं न जाड वन ऐसेहु काजा * प्रथम गनिअ सोहि मूढ समाजा

प्राण-प्रिय भरतजी राज्य पावेंगे, आज विधाता सब प्रकार से मुझ पर प्रसन्न है। यदि मैं ऐसे कार्य के लिये भी वन को न जाऊँ तो सूखों के समाज में मेरी प्रथम गणना होगी।

सैवहिं अरण्डु कल्पतरु त्यागी * परिहरि अमृत लेहि विषु माँगी
तेड न पाइ अस समय चुकाहीं * देखु विचारि सातु मन माहीं

जो कल्पवृक्ष को छोड़कर, अरण्य की सेवा करते हैं, जो अमृत को छोड़कर विष मांग लेते हैं, वे भी ऐसा सुअवसर पाकर नहीं चूकते। हे माता ! मन में विचार कर देख लो।

अम्ब एक दुख सोहि विसेषी * निपट बिकल नरनायकु देखी
थोरिहिं बात पितहिं दुखु भारी * होति प्रतीति न सोहि अवतारी

हे माता ! एक ही बात का मुझे विशेष दुःख है कि महाराज को मैं बहुत व्याकुल देख रहा हूँ। हे माता ! बात तो छोटी-सी है, परन्तु पिताजी को भारी दुःख होरहा है, इसलिये मुझे विश्वास नहीं होता।

राड धीर गुन उदधि अगाधू * भा सोहि तें कछु बड़ अपराधू
जातें कछु न कहत सोहि राजू * सोरि सपथ तोहि कहु सतिभाऊ

महाराज तो धैर्यवान् और गुणों के अगाध समुद्र हैं, मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है। इसीलिए मुझसे राजा कुछ नहीं कहते। हे माता ! तुम्हें मेरी सौगन्ध है, तुम सत्य कहो।

दोहा—सहज सरल रघुवर वचन, कुसति कुटिल कर जान।

चलइ जौंक जल बरुगति, जद्यपि सलिल समान ॥४२॥

श्रीरामजी के वचन स्वभाव से ही सीधे थे, तो भी डुबुँडि-केकई को टेढ़े ही जान पड़े जिस प्रकार पानी एक समान होने पर भी जौंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है।

रहसी रानि राम रुख पाई * बोली कपट सनेहु जनाई
सपथ तुम्हार भरत कै आना * हेतु न दूसर में कछु जाना

रानी केकई श्रीरामजी की इच्छा समझकर प्रसन्न हुई और ऊपर से स्नेह जताकर बोली—हे

बाहू-वन में निभय बगना है, सब राजा साय तिमर हनु पर बने है ।

सो सुनितियरिस गयउ सुखदाई * देखहु काम प्रताप बड़ाई
सूल फुलिस अस्ति अंगवनिहारे * ते रतिनाय सुमन सर मारे

ऐसे महाराज बहारपत्नी स्त्रीका शोध मुनकर मूय मये, बापदेवका प्रताप बड़ाई सो देखो ।
जो जिनुय, पय, तमवार सो भी सहने वाले हैं, ये भी रतिनाय के पुत्र-बापोंके मारे जाते हैं ।

सभय नरेश प्रिया पहि गयऊ * देखि दशा दुगु दारन भयऊ
भूमि सयन पट्ट मोट पुराना * दिए डारि तनु भूयन नाना

महाराज डरते ० प्रिया के पान मये, उमरो दशा देख जहाँ पोर दुःख हुआ । यह मूयो
पर पट्टो मोटा और पुराना कपड़ा पहने थी । अनेक प्रकार के महाने उपायकर पैंरु रिये थे ।

कुमतिहि कस कुवेपता फावी * अन अहियातु सूच जनु भावी
जाइ निकट नृप कह मृदु वानी * प्राणप्रिया केहि हेतु रितानी

दुखुंदि केकईका कुपेय बंगला मना, मानो भायो विषयारन सो मूयना दे रह्यो । निन्द
जाकर राजा कोमल वानी में बोले-हे प्राणप्यारी ! तुम दिन बारन बोधित ही ।

छन्द-केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि निवारई ।

मानहुँ सरोप भुअंग भामिनि विषम भांति निहारई ॥

दोउ वासना रसना दसन वर मरमु ठाहर देखई ।

तुलसी नृपति भवतव्यता वस काम कौतुक लेखई ॥

रानी ! किस कारण नाराज हो ? यह बहकर राजा ने क्यों ही केकई को वामांशिया, लो
ही उसने शपथ कर शोध सहित हटा दिया और ऐसे देखने लगे, मानो नागिन का ह-हृत्ति में देख
रहो है । दोनों बरोंकी वासनाउम नागिनकी दो जीभें हैं दोनों बरदान दीन हैं, जो बाले के
विषे मर्म-मयमदेय रहो है । तुलसीदासजी कहते हैं कि होनहार बेवग होकर महाराज इत-
रय इमे वाम-शोदा ही ममता रहे हैं ।

सो०-बार बार कह राउ, समुखि सुलोचनि पिक वचनि ।

कारन मोहि सुनाउ, गजगामिनि निज कोष कर ॥ १ ॥

राजा ने बार-बार कहा-हैं मुमुयो ! हे मुतांपनी ! हे निर-वयनी ! हे पत्र-गामिनी !
अपने शोध का कारण तो मुते मुनाओ,

अनहित तोर प्रिया केहि कीन्हा * केहि दुइतिरकेहि जमु चहलोन्हा

कह केहि रङ्गहि करौ नरेसू * कह केहि नृपहि निरानो देसू

हे प्रिये ! किन्हे तुम्हारा अनहित किन्हे है ? किन्हे दो गिर हैं ? किन्हे दो कमल
सेना थाहता है ? क्यों किन्हे बहानावरी राजा बना हूँ, किन्हे राजा को देन मे किन्हे हूँ ?

सकउँ तोरि अरि अमरउ मारी * काह कोट यपुरे नर

शिवजी का स्मरणकर प्रार्थना करने लगे-हे सदाशिव! मेरी विनती सुनिये। शीघ्र प्रसन्न होने वाले आप ओषध-दानी हैं। मुझको अपना दोन-सेवक जानकर मेरा संकट दूर कीजिए।

दोहा-तुम्ह प्रेरक सबके हृदय, सो कति रामहि देहु।

वचनु सौरि तजि रहहि घर, परिहरि सीलु सनेहु ॥४४॥

आप सभी के अन्तःकरण के प्रेरक हैं, आप श्रीरामजी को ऐसी वृद्धि दीजिए कि वह मेरे वचन को न मानकर, घर में ही रह जाय और शील व स्नेह को त्याग दें।

अजसु होउ जग सुजसु नसाऊ * नरक परौ बर सुरपुर जाऊ
सब दुख दुस्तह सहाकहु सोही * लोचन ओट रामु जनु होही

इससे चाहे जगत् में अपयश हो, सुयश का नाश हो जाय, चाहे मैं नरक में गिरूँ, चाहे स्वर्ग छूट जाय व सब दुख मुझे सहने को मिले, परन्तु श्रीराम मेरी आंखों से अलग न हों।

अस मन गुनइ राउ नहि बोला * पीपर पात सरिस मन डोला
रघुपति पितहि प्रेम बस जानी * पुनि कछु कह न मातु अनुमानी

राजा इस प्रकार मन में सोचकर रहे थे, इसी से नहीं बोले। उनका हृदय पीपल के पत्ते के समान हिल रहा था। श्रीरघुनाथजी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और मनमें यह अनुमान कर कि माता कुछ कह न बैठे।

देश काल अवसर अनुसारी * बोले वचन विनीत विचारी
तात कहउँ कछु करउँ दिठाई * अनुचित छमवि जानि लरिकाई

देश, काल और समय के अनुसार विचार कर नत्र वचन बोले-हे पिताजी! मैं दिठाई करके कुछ कहता हूँ, उसमें जो अनुचित हो, तो लड़कपन जानकर मुझे क्षमा करना।

अति लघु बात लागि दुखु पावा * कहुँ न सोहि कहि प्रथम जनावा
देखि गोसाईंहि पूँछिउ माता * सुनि प्रसंग भए शीतल गाता

बहुत छोटी-सी बातके लिए आपने दुःख पाया, यह बात मुझे कहीं किसीने पहिले नहीं बताई। स्वामी को देखकर माता से मैंने पूछा, उनसे ठीक बात सुनकर मेरे अंग शीतल हुए।

दोहा-सङ्गल समय सनेह बस, सोच परिहरिअ तात।

आयसु देइअ हरषि हियँ, कहि पुलके प्रभु गात ॥४५॥

हे पिताजी! सङ्गल के समय प्रेम के वश न होकर, इस सोचको त्यागकर, प्रसन्न हृदय से मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी पुलकित होगये।

धन्य जनसु जगतीतल तासू * पितहि प्रसोदु चरित सुनि जासू
चारि पदारथ करतल ताके * प्रिय पितु मातु प्रात सम जाके

इस पृथ्वी पर उसी का जन्म धन्य है, जिसके चरित्र को सुनकर पिता को परम आनन्द हो। चारों पदारथ उसकी सुट्ठी में हैं जिसे अपने माता-पिता प्राणों के समान प्यारे हैं।

आयसु पालि जनम फल पाई * ऐहउँ वेगिहि होऊ रजाई

दोहा—मांगु मांगु पै कहहु पिय, कवहुँ न देहु न लेहु ।

दैन कहेउ वरदान दुइ, तेउ पावत सन्देहु ॥२७॥

हे प्राणनाथ ! आप 'मांग मांग' तो कहा करते हैं, परन्तु कभी कुछ देने-लेते नहीं । जो वरदान देने को कहे थे, उनके मिलने में भी मन्देह है ।

जानेउ मरमु राउ हंस कहई * तुम्हहि कोहाव परमप्रिय अहई
थातो राखि न मांगेउ काऊ * विसरि गयउ मोहि भोर सुभाऊ

राजा हंसकर बोले-अब मैंने तुम्हारा भेद जाना मुम्हें तो कठना ही बहुत प्रिय है । जो वरदान तुमने धरोहर रखे थे, उनको कभी मांगा नहीं, मैं भोले स्वभावके कारण भूल गया ।

झूठेहुँ दोषु हमहिं जनि देहु * दुइ कै चारि मांगि किन लेहु
रघुकुल रीति सदा चलि आई * प्राण जाहुँ पर वचनु न जाई

हमको झूठा दोष मत दो, चाहे दो के बदले चार मांगलो । हे प्रिये ! रघुवंशियों की तो सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले हो चले जायें, परन्तु वचन नहीं जाने ।

नहिं असत्य सम पातक पुञ्जा * गिरिसमहोहिं कि कोटिक गुञ्जा
सत्यमूल सब सुकृत सुहाए * वेद पुरान विदित मुनि गाए

झूठ के बराबर-पाप के समूह भी नहीं होते, करोड़ों पुष्पचिपों क्या पहाड़ के समान हो सकती हैं ? सत्य ही सब मुद्दतों की जड़ है, यह वान वेद-पुराणों में विदित है और मुनि भी ऐसा ही कहते हैं ।

तेहि पर राम शपथ करि आई * सुकृत सनेहु अवधि रघुराई
वात दृढाइ कुमति हंसि बोली * कुमतिकुविहंगकुलहु जनु खोली

इतने पर भी मैंने धीरामजी की सौगन्ध घ्राई है, जो सब मुकर्म और स्नेह की मोमा है । इस प्रकार वात को दृढ़ करके दुष्ट-बुद्धि कंकई हंसकर कहने लगी-मांगी कुमति-रूपी याज की टोपी पोत दी हो ।

दोहा—भूप मनोरथ सुभग वनु, सुख सुविहङ्ग समाजु ।

भिल्लिनिजिमि छाँड़न चहत, वचन भयङ्कर वाजु ॥ २८ ॥

राजा का मनोरथ सुन्दर वन है और सुख-मनोरथ पक्षियों का झुण्ड है, उस पर कंकई रूपी मौलनी अपना वचन रूपी भयङ्कर याज छोड़ना चाहती है ।

सुनहुँ प्राणपति भावत जी का * देहु एक वर भरतहि टीका
मांगेउ दूसर वर कर जोरी * पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी

हे प्राणनाथ ! मुनिथे, मेरा मन-चाहा एक वरदान तो यह दोजिए कि 'मरतको राजनिनर हो' और दूसरा वरदान मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मो-हे-नाथ ! मेरे उस मनोरथको प्रसारिये ।

तापस वेप वितेधि उदासी * चीदहु वरस रामु वनवासी
सुनि कट्टु वचन भूप हिय सोकू * ससिकरछुअतविकलजिमिकोकू

दोहा-काह न पावकु जाँरि सक, काह न समुद्र समाइ ।

काह न करै अबला प्रबल, केहि जगु काल न खाइ ॥४७॥

अग्नि किसको नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता और प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती तथा संसार में काल किसको नहीं खाता ?

काह सुनाइ बिधि काह सुनावा * काह देखाइ चह काह देखावा
एक कहइ भल भूष न कोन्हा * वरु विचारि नहिं कुमतिहि दीन्हा

क्या सुनाकर, ब्रह्मा वे क्या सुना दिया और क्या दिखाकर क्या दिखाना चाहता है ?
कोई बोले-राजा ने अच्छा नहीं किया, जो विचार कर दुर्बुद्धि कैंकेई को वर नहीं दिया ।

जो हठि भयउ सकल दुखभाजनु * अबला बिबस ग्यानु गुन गाजनु
एक धरम परिसति पहिचाने * नृपहि दोषु नहिं देहिं सयाने

जो हठ के कारण सब दुःखों के पात्र हुए, स्त्री के वश में होकर राजा का ज्ञान और गुण जाता रहा । जो धर्म-मर्यादा जानते थे, वे चतुर लोग राजा को दोष नहीं देते थे ।

सिबि दधीचि हरिचन्द कहानी * एक एक सन कहहिं बखानी
एक भरत कर सस्मृत कहहीं * एक उदास भायँ सुनि रहहीं

वे एक दूसरे से-राजा शिवि, दधीचि और हरिश्चन्द्र की कहानी कहते थे । कोई कहने लगे कि इसमें भरत की सलाह है, कोई यह सुनकर उदास होकर रह जाते थे ।

कान मूँदिकर रइ गहि जीहा * एक कहहिं यह बात अलीहा
सुकृत जाहिं अस कहत तुम्हारे * रासु भरत कहँ प्रान पिआरे

कोई हाथों से कान मूँदकर और दांतों से जीभ दबाकर कहने लगे कि यह बात झूठी है । ऐसा कहने से तुम्हारे सत्कर्म नष्ट हो जायेंगे, श्रीरामजी तो भरतजीको प्राणोंसे अधिक प्यारे हैं ।

दोहा-चन्दु चवै वरु अनल कन, सुधा होइ विष तूल ।

सपनेहुँ कबहुँ न कहहिं कछु, भरत राम प्रतिकूल ॥४८॥

चाहे चन्द्रमा से आग की चिनगारियां गिरने लगे, चाहे अमृत विष के समान हो जाय परन्तु भरतजी-श्रीरामजी के विरुद्ध स्वप्न में भी कुछ नहीं कह सकते ।

एक विधातहिं दूषनु देहीं * सुधा देखाइ दीन्ह विषु जेही
खरभरु नगर सोचु सब काहू * दुसह दाहु उर मिटा उछाहू

कोई विधाता को दोष देने लगे कि उसने अमृत दिखाकर विष दे दिया । नगर भर में खलबली मच गई, सबको सोच हुआ, हृदय में दुःसह जलन होने लगी उत्साह भङ्ग होगया ।

विप्रबधू कुलमान्य जठेरी * जे प्रिय परम कैकेइ केरी
लगीं देन सिख सीलु सराही * बचन बान सम लागहिं ताही

ब्राह्मण-स्त्रियां, कुल में मान्य वृद्धी स्त्रियां-जो कैंकेई को बहुत प्यारी थीं, वे उसके स्वभाव

राजा निधि, बधोच न बसि ने जो कहा, तन और धन को त्यागकर वचन को पाना ।
इस प्रकार बहुत से पट्टु वचन कहने लगे-मानो जले पर नमक छिड़क रहो है ।

दोहा—धरम धुरन्धर धीर धरि, नयन उधारे राय ।

सिर धुनिलीन्हि उसास अस, मारेसि मोहि कुठायें ॥ ३० ॥

धर्म धुरन्धर दशरथजी ने धर्म धारण कर नेत्र घोने और सिर पुनकर, लम्बी-साम सेते
टुप बोले तूने मुझे कुठोर मारा है ।

आगे दीखि जरत रिस भारी * मनुहुँ रोष तरवारि उधारी

मूठि कुबुद्धि धार निठुराई * धरी क्वरी सान बनाई

बोधसे जलती हुई केरुई इस प्रकार दिखाई पड़े-मानो त्रीपक्षी नंगी तनपार पड़ी हो ।
कुमति तलपार को मूठ है, निष्ठुरता धार है, जिसे कुबुद्धी रूपी सान पर तेज किया गया है ।

लखी महीप कराल कठोरा * सत्य कि जीवनु लेइहि मोरा

बोले राउ कठिन करि छाती * बानी सविनय तासु सोहाती

राजा ने उसे भयंकर और कठोर देखकर सोचा कि क्या यह सचमुच मेरा जीवन लेगी ?
राजा कठोर छाती कर नम्रता से केरुई को प्रिय लगने वाली धानी बोले—

प्रिया वचन कस कहसि कुभांती * भीर प्रतीति प्रीति कर हांती

मोरें भरतु रामु दुइ आंखी * सत्य कहउँ करि शंकर साखी

हे प्रिये ! क्या विश्वास और प्रेम को नष्ट करके बुरी भांति से वचन क्यों कहती हो ? मेरे
लिए भरत और श्रीराम दोनों नेत्र (समान) हैं, मैं शिष्यजी को साक्षी करके सत्य कहता हूँ ।

अवसि दूत मैं पठइव प्राता * ऐहांहि वेगि सुनत दोउ भ्राता

सुदिन सोधि सबु साजु सजाई * देउं भरत कहूँ राजु बजाई

कल प्रातः मैं अवश्य दूत भेजूंगा, सुनते ही तुरन्त दोनों भाई आ जायेंगे । फिर अच्छा
दिन विचारकर सब साज सजाकर प्रेम-धाम के साथ भरत को राज-गुरु दे दूंगा ।

दोहा—लोभु न रामहि राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति ।

मैं बड़ छोट विचारि जिये, करत रहेउं नृप नीति ॥ ३१ ॥

श्रीरामजी को राज्य का सातव नहीं है और भरत के ऊपर उनका बड़ा प्रेम है । पह
तो मैं ही अपने मन में छोटे-बड़े का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था ।

राम सपथ सत कहउँ सुभाऊ * राम मातु कछु कहेउ न काऊ

मैं सबु कोन्ह तोहि विनु पूछें * तेहि तें परेउ मनोरथ छूटें

मैं श्रीरामको सी धार मोर्गंध्याकर अच्छे भाव से कहता हूँ कि श्रीराम की माता ने कभी
बुछ नहीं कहा । मैंने सब काम मुझसे बिना पूछे किये, इसी से मेरा मनोरथ टामी गया ।

रिस परिहरि अब मङ्गल साजू * कछु दिन गएं भरत जुवराजू

एकहि वात मोहि दुखु लागा * वर दूसर असमंजस मांगा

जिमि भानु बिनु दिनु प्रात बिनु तनु चन्द बिनु जिमि जामिनी ।

तिमि अबध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझि धौं जिय भामिनी ॥

जिस तरह दुःख और कलंक दूर हो, वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। हठ करके श्रीरामजी को वन में जाने से लौटाओ, और दूसरी बात मत चलाओ। जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राणों के बिना देह और चन्द्रमा के बिना रात होती है, तुलसीदासजी कहते हैं कि इसी प्रकार प्रभु श्रीरामजी के बिना अयोध्या सूनी हो जायगी। हेरानी! तुम अपने हृदय में निश्चय जानो।

सो०—सखिन्ह सिखावन दीन्ह, सुनत मधुर परिनाम हित ।

तेइ कछु कारन कीन्ह, कुटिल प्रबोधी कूबरी ॥ २ ॥

सखियों ने ऐसी शिक्षा दी—जो सुनने में सीठी और परिणाम में हितकारी थी। परन्तु कैंकेई ने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह खोटी कुबड़ी—मंथरा की सिखाई हुई थी।

उतर न देइ दुसह रिस रूखी * सृगन्हि चितवजनि बाघिनि भूखी

व्याधिअसाधि जानि तिन्हत्यागी * चलीं कहत मतिमन्द अभागी

कैंकेई कुछ उत्तर नहीं देती, दुःसह क्रोध से रूखी होगई है और ऐसे देख रही है—जैसे भूखी सिंहनी—हिरणियों को देखती हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य जानकर छोड़ दिया और वह उसे मन्द-बुद्धि, अभागिनी कहती हुई चल दीं।

राजु करत यह दैअँ बिगोई * कौन्हेसि अस जस करइ न कोई

एहिविधि विलपाहिं पुर नरनारी * देहिं कुचालिहि कोटिक गारी

इस दैव की मारी हुई कैंकेई ने राज्य करते हुए ऐसा किया—जैसा कि कोई भी न करेगा। इस तरह अयोध्या के सब स्त्री-पुरुष विलाप करने लगे और उस कुचालिनी को करोड़ों गालियाँ देने लगे।

जरहिं विषम ज्वर लेहिं उसासा * कवनि राम बिनु जीवन आसा

विपुल वियोग प्रजा अकुलानी * जनु जलचर गन सूखत पानी

वे सब विषम ज्वर से जलने लगे और लम्बी साँस लेते हुए बोले—श्रीरामजी के बिना जीने की क्या आशा है? भारी वियोग से प्रजा घबड़ा उठी, मानो जल सूखने से सब जलचर घबड़ा उठे हों।

अति विषाद बस लोग लोगई * गए मातु पहिं रामु गोसाई

मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ * सिटा सोचु जनि राखै राऊ

अयोध्यापुरी के सब नर-नारी बड़े दुःखी होगये, स्वामी श्रीरामजी माता कौशल्या के पास गये। उनका मुख प्रसन्न था, मन में चौगुना चाव था, राजा रोकन लें—यह सोच भी मिट गया था।

दोहा—नव गयन्द रघुगंस मति, राजु अलान समान ।

छूट जानि वन गवनु सुनि, उर आनन्द अधिकान ॥५०॥

श्रीरामचन्द्रजी नवीन हाथी के समान हैं और राज्यजंजीर के समान है। वन को जाना बन्धन से छूट जाने के समान जानकर उनके हृदय में अधिक आनन्द छा गया।

मीर मरनु राउर अजस, नृप समुक्तिज मन माहि ॥३३॥

प्रातःकाल होते ही मुनि वेप धारण कर जो धीराम बन को नहीं जायेंगे तो, हे रामन ! मेरा मरना और आपका अपवश होगा, ऐसा मन में समझ लें ।

असकहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी * मानहुँ रोप तरङ्गिनि वाढ़ी
पाप पहार प्रगट भइ सोई * भई क्रोध जल जाई न जोई

ऐसा कहकर कुटिल-कंकाई उठकर पड़ी हो गई, मानो प्रोघरूपी नदी उमड़ी हो । यह पापरूपी पहाड़ से उत्पन्न हुई, प्रोघरूपी जल से भरी है । जो देखी नहीं जाते ।

दोउ वर कूल कठिन हट धारा * भँवर कूवरी वचन प्रचारा
ढाहत भूप रूप तर मूला * चली विपति वारिधि अनुकूला

दोनों 'वर' उस नदी के दो किनारे हैं, कंकाई का बटोर हट उसकी धारा है, कुपड़ों के वचनों की प्रेरणा उसको तरंगें हैं । यह दशरथरूपी वृक्ष को जड़ में उखाड़ती हुई विपति-रूपी समुद्र की ओर चली ।

लखी नरेस वात फुरि सांची * तिय मिस मीचु सीस पर नाची
गहि पद विनय कीन्ह वैठारी * जनि दिनकर कुल होसि कुठारी

राजा ने समझलिया कि वात सच्ची है, स्त्री के बहाने से मेरी मायु सिर पर नाच रही है । चरण पकड़ कंकाई को बँटाया और विनती करके बोले कि सूर्यवंश के लिए कुन्हाड़ी मत बन ।

माँगु माथ अवहीं देउं तोही * राम विरह जनि मारेसि मोही
राखु राम कहे जेहि तेहि भाँती * नाहित जरहि जनम भरि छाती

यदि मेरा मस्तक मांगे तो अभी दे दूँ, पर धीराम के वियोग से मुझे मत मार । जिस प्रकार घने-धीराम को रख सं, नहीं तो जन्म भर दुःख से तेरा हृदय जलता रहेगा ।

दोहा-देखी व्याधि असाधि नृप, परेउ धरनि धुनि माय ।

कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाय ॥३४॥

जब राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब माया धुनकर पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यन्त दोन वाणी से हा राम ! हा रघुनाय ! कहने लगे ।

व्याकुल राउ सिथिल सब गाता * करिनि कलपतरु मनहुँ निपाता
कण्ठु सूख मुख आव न वानी * जनु पाठीनु दीन विनु पानी

व्याकुल होने से राजा के सब अंग सिथिल पड़ गये, मानो हृषिको ने कल्पवृक्ष को उखाड़ दिया । गला सूख गया, मुँहसे बात नहीं निकलती, जैसे पिना जल के मछली दुःखी होगई हो ।

पुनि कह कडु कठोर कैकई * मनहुँ धाय महुँ माहुर देई
जौ अन्तहुँ अस करतवु रहेऊ * माँगु माँगु तुम्ह केहि बल कहेऊ

कंकाई फिर बन्दुबे और बटोर वचन बोली-मानो पाव में विय लगा रही हो । जो मन्त्र में ऐसा ही करना था, तो आपने 'माँग-माँग' किस बल पर कहा था ?

धर्म-धुरन्धर श्रीरामजी धर्म की गति को जानकर माता से मधुर वाणी बोले-हे माता! पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा कार्य बनेगा।

आयसु देहु सुदित मन माता * जेहि मुद मङ्गल कानन जाता
जनि सनेह बस डरपय भोरें * आनन्दु अम्ब अनुग्रह तोरें

हे माता ! प्रसन्न चित्त होकर आज्ञा दो, जिससे वन में मुझे आनन्द-मङ्गल हो। स्नेह वश झूलकर भी मत डरना, हे मैया ! तुम्हारी कृपा से आनन्द ही होगा।

दोहा—बरस चारिदस विपिन बसि, करि पितु वचन प्रमान।

आइ पाँय पुनि देखिहौं, मनु जनु करसि मलान ॥५२॥

चौदह वर्ष वन में वास कर पिताजी का वचन पालन करके लौटकर आऊँगा, तब फिर आपके चरणों के दर्शन करूँगा, अपना मन उदास मत करना।

वचन विनीत सधुर रघुवर के * सर सम लगे सातु उर करके
सहसि सूखि सुनि सीतल बानी * जिमि जवास परें पावस पानी

श्रीरामजी के नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में वाण के समान लगकर कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर भी कौशल्याजी सहन कर ऐसी सूख गईं, जैसे वर्षा पड़ने पर जवासा सूख जाता है।

कहि न जाइ कछु हृदय विषादू * मनहुँ सृगी सुनि केहरि नादू
नयन सजल तन थर थर काँपी * साजहि खाइ सीन जनु माँपी

हृदय का दुःख कुछ कहा नहीं जाता, मानो हिरणी सिंह का नाद सुन, व्याकुल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर-थर काँपने लगा, मानो सांजा खाने से मछली तड़फ रही हो।

धरि धीरजु सुत बदनु निहारी * गदगद वचन कहति महतारी
तात पितहि तुम्ह प्राण पिआरे * देखि सुदित नित चरित तुम्हारे

फिर धीरज धरकर पुत्र का मुख देख माता गद-गद वाणी से बोली-हे बेटा ! तुम तो पिता को प्राणों के समान प्यारे हो, वे सदैव तुम्हारे आचरणों को देखकर प्रसन्न होते हैं।

राजु देन कहूँ शुभ दिन साधा * कहेउ जान वन केहि अपराधा
तात सुनावहु सोहि निदानू * को दिनकर कुल भयउ कृसानू

तुमको राज्य देने के लिए अच्छा दिन निश्चय किया था, अब किस अपराध से वन जाने को कहा है ? हे पुत्र ! मुझे इसका कारण सुनाओ, सूर्यवंश को जलाने के लिए कौन अग्नि बना ?

दोहा—निरखि राम रुख सचिवसुत, कारनु कहेउ बुझाइ।

सुनि प्रसंगु रहि मूक जिमि, दसा वरनि नहि जाइ ॥५३॥

श्रीरामजी का रुख समझकर मन्त्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसङ्ग को सुन कौशल्याजी गूँगी के समान चुप रह गईं, उनकी दशा कही नहीं जा सकती।

राखि न सकइ न कहि सक जाहू * दुहँ भाँति उर दारुन दाहू

राम राम रट विकल भुआलू * जनु विनु पंख विहंगि बेहाल
हृदय मनाव भोरु जनि होई * रामहि जाइ कहैं जनि कोई

'राम-राम' रटते हुए राजा ऐसे ध्यापुल हुए, जैसे बिना पंखों पक्षी बेचेन हो जाता है। अपने हृदय में मनाने लगे कि सचेरा न हो और जाकर धीरामजीसे कोई यह ममापारन करे।

उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुरु * अवध विलोकि सूल होइहि उर
भूप प्रीति कैकइ कठिनाई * उभय अवधि विधि रचौ बनाई

हे रघुवंशके गुरुसूर्यदेव। आप उदय नहीं, क्योंकि अयोध्या को दगा देकर हृदय में दुःख होगा। राजा को प्रीति और कैकई को निष्ठुरता दोनों को यद्वा ने सोमा पर्यन्त बनाया है।

विलपति नृपहि भयउ भिनुसारा * वीना वेनु शंख धुनि द्वारा
पढ़हि भाट गुन गावाहिं गायक * सुनत नृपहि लागहिं जनु सायक

राजा को इस प्रकार बिलाप करते हुए सचेरा हो गया। वीणा, घांमुरी शंख आदि की ध्वनि राज-द्वार पर होने लगी। भाट लोग यश बघानने लगे, गर्वया गाने लगे, उनका स्वर राजा को बाण के समान लगता।

मङ्गल सकल सोहाहि न कैसे * सह गामिनिहि विभूषन जैसे
तेहि निसि नौद परी नहिं काहू * राम दरस लालसा उछाहू

राजा को सम्पूर्ण मङ्गल कैसे अच्छे नहीं लगते-जैसे पति के साथ लगी होने वाली स्त्री को गहने अच्छे नहीं लगते। उस रात किसी को नौद नहीं आई, उनके हृदय में धीरामजी के दर्शन की इच्छा और उमङ्ग थी।

दोहा-द्वार भीर सेवक सचिव, कहहि उदित रवि देखि।

जागे अजहुँ न अवघपति, कारन कवन विसेपि ॥३७॥

राजद्वार पर सेवकों और मन्त्रियोंकी भीड़ लग गई, सूर्य को उदय हुआ देखे सब कहने लगे कि अवघपति महाराज बगवन्जी आज अभी तक नहीं जागे, इसका क्या विशेष कारण है ?

पिछले पहर भूप नित जागा * आजु हमहि वड़ अचरजु लागा
जाहु सुमन्त जगावहु जाई * कोजिअ काजु रजायसु पाई

नित्य तो पिछले पहर ही महाराज जागते थे, आज हमको बड़ा आश्चर्य है। हे सुमन्तजी, जाओ और जाकर राजा को जगाओ, जिसमें आना पाकर हम लोग कार्य आरम्भ करें।

गए सुमन्त तव मन्दिर माहीं * देखि भयावनु जात डेराही
धाइ खाइ जनु जाइ न हेरा * मानहुँ विपति विपाद बसेरा

यह सुन, सुमन्त राज-मन्दिर में गये, उसे भयावना देखकर जाने हुए डरते हैं। मानो यह पानेके लिए बोझता है, जो देना भी नहीं जाता, मानो विपत्ति ने अरुणा डेरा दान दिया हो।

पछें कोउ न ऊतर देई * गए जेहि भवन भूप कैकई
कहि जयजीव वैठ सिरु नाई * देखि भूप गति गयउ सुखाई

पूत परम प्रिय तुम्ह सबही के * प्रान प्रान के जीवन जी के
ते तुम्ह कहहु मातु बन जाऊँ * मैं सुनि बचन बैठि पछिताऊँ

हे पुत्र ! तुम सबही के बहुत प्रिय हो, तुम प्राणों के भी प्राण और जीवन के भी जीवन हो। ऐसे तुम कहते हो कि हे माता ! बन को जाता हूँ, मैं यह सुनकर बंठी पछताती हूँ।

दोहा—यह बिचारि नहिं करउँ हठ, झूठ सनेहु बढाइ।

साति मातु कर नात बलि, सुरति विसरि जनि जाइ ॥५५॥

मैं यह विचार कर झूठा स्नेह बढ़ाकर हठ नहीं करती। मैं तुम्हारी बलैयाँ लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुधि मत भूल जाना।

देव पितर सब तुम्हहिं गोसाईं * राखहिं नयन पलक की नाई
अवधि अम्बु प्रिय परिजन सीता * तुम्ह करुनाकर धरम धुरीना

हे पुत्र ! देवता, पितर सब तुम्हारी ऐसे रक्षा करें, जैसे पलकें नेत्रों की रक्षा करती हैं। वन-वास की अवधि जल है और प्रिय-परिजन सछलियाँ हैं। तुम दया की खान, धर्म-धुरन्धर हो।

अस बिचारि सोइ करहु उपाई * सबहिं जिअत जेहि भेंटहु आई
जाहु सुखेन वनहिं बलि जाऊँ * करि अनाथ जन परिजन गाऊँ

ऐसा विचार कर वही उपाय करो, जिससे सबके जीते-जी आकर मिल सकें, हे पुत्र ! मैं बलिहारी जाऊँ, तुम सेवक, कुटुम्बी और पुरजनों को अनाथ करके सुख से वन को जाओ।

सबकर आजु सुकृत फल बीता * भयउ कराल काल विपरीता
बहुविधि विलापि चरुन लपटाली * परस अभागिनि आपहु जानी

आज सबका पुण्य-फल बीत गया, भयंकर काल विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप कर अपने को बहुत ही भाग्यहीन जानकर माता श्रीरामजी के चरणों में लिपट गई।

दाखन दुसह दाहु उर व्यापा * बरनि न जाहिं विलाप कलापा
रास उठाइ मातु उर लाई * कहि मृदु बचन बहुरि समुझाई

फठिन और दुःसह जलन हृदयमें छा गई, उस समय के विलापों का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्रीरामजी ने माता को उठा हृदय से लगा लिया और उन्हें कोमल वाणी से समझाया।

दोहा—समाचार तेहिं समय सुनि, सीय उठी अकुलाइ।

जाइ सासु पद कमल जुग, बन्दि बैठि सिह नाइ ॥५६॥

उसी समय यह समाचार सुनकर सीताजी अकुला उठीं और जाकर सासु के चरण-कमलों में प्रणाम कर नीचा सिर करके बैठ गईं।

दीन्ह असीस सासु मृदु बानी * अति सुकुमारि देखि अकुलानी
बैठि नमित मुख सोचति सीमा * रूप रासि पति प्रेम पुनीता

सासु ने मधुर वाणी से आशीर्वाद दिया। सीता को अत्यन्त सुकुमारी देख वे व्याकुल होगईं,

सूखहि अघर जरहि सब अंग * मनहुं दीन मनिहीन भुअंग
सरूप समीप देखि कैकेई * मानहुं मोचु घरो गनि लेई

देखा कि राजा के होठ सूख रहे हैं और सब अंग जल रहे हैं, मानो मणि के बिना सपं कुर्गा हो रहा है। पात ही क्रोध से भरो हुई कैकेई बंटी देखी, मानो राजा को मृत्युची घड़ियाँ गिन रही है।

करनामय मृदु राम सुमाऊ * प्रथम दीख दुख सुना न काऊ
तदपि धीर धरि समय विचारो * पछी मधुर वचन महतारो

श्रीरामजी का दयामय कोमल स्वभाव है, उन्होंने प्रथमही यह दुःख देखा, इससे पहले दुःख सुना भी न था। तो भी धीरज धर और विचार कर मोठे पचनों से माता कैकेई से पूछा-

मोहि कहु मातु तात दुख कारन * करिअ जतन जेहि होइ निवारन
सुनहु राम सब कारन ऐह * राजहि तुम्ह पर बहुत सनेहु

हे माता! पिता के दुःख का कारणतो मुझसे कहो, जिससे उसे दूर करने का उपाय किया जाय? कैकेई बोली-मुनो, राम! सब कारण यही है कि राजा का तुम पर अधिक स्नेह है।

देन कहेउ मोहि दुइ वरदाना * मांगेउ जो कछु मोहि सोहाना
सो सुनि भयउ भूप उर सोच * छाँड़ि न सकहि तुम्हार संकोच

उन्होंने मुझे दो वरदान देने को कहा था, सो जो कुछ मुझे अच्छा लगा, वह मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हुआ है। यह तुम्हारे संकोच को छोड़ नहीं सकते।

दोहा—सुत सनेहु इत वचन उत, सङ्कट परेउ नरेसु।
सकहु तौ आयसु धरहु सिर, मिटेहु कठिन कलेसु ॥१०॥

एक ओर तो पुत्र का स्नेह और दूसरी ओर प्रतिज्ञा, इससे राजा धर्म-संकट में पड़ गये हैं। हो सके तो पिता की आज्ञा को तिरौथाय कर राजा का कठिन कलेसु मेंट रो।

निधरक वैठि कहइ मृदु वानी * सुनत कठिनता अति अकुलानी
जीभ कमान वचन सर नाना * मनहुं महिप मृदु लच्छ समाना

निधरक बंटी हुई कैकेई कठोर वचन कहती है, जिन्हें सुनकर निडुरता भी ध्यानुन हो गई। जोम कमान के समान है, कटु-वचन अनेक बाण हैं और राजा का कोमल हृदय निगान के समान है।

जनु कठोरपनु धरें सरीरु * सिखइ धनुष विद्या वर वीरु
सबु प्रसंगु रघुपतहि सुनाई * वैठि मनहुं तनु धरि निठुराई

मानो कठोरपन धीर योद्धा का शरीर धारण कर धनुष-विद्या सीख रहा है। सब प्रसंग रामजी को सुनाकर ऐसे बंटी है, मानो साराव निडुरता धारण किये बंटी हो।

मन मुसुकाइ भानुकुल भानू * रामु सहज आनन्द निधानू
बोले वचन विगत सब दूपन * मृदु मंजुल जनु वाग विभूपन

सूर्यवंशके सूर्य स्वभाव से ही आनन्द-निधान श्रीरामजी मनमें मुस्कराकर सब शेषों से रहित ऐसे कोमल और मनोहर वचन बोले-जो मानो वाचो को भालो-मार्ति प्रीति कर रहे हैं।

चन्द्रकिरण रस रसिक चकोरी * रवि रुख नयनसकड़ किमिजोरी

वही सीता तुम्हारे संग वन को जाना चाहती है। हे राम! क्या आज्ञा है? चंद्रमा की किरणों के रस का स्वाद लेने वाली चकोरी सूर्य के सामने टकटकी लगाकर देख सकती है?

दोहा-करिकेहरि निसिचर चरहि, दुष्ट जन्तु वन भूरि।

विष वाटिका कि सोह सुत, सुभब संजीवन मूरि ॥५८॥

वन में हाथी, सिंह, राक्षस आदि बहुत से दुष्ट जीव फिरा करते हैं। हे पुत्र! विषकी! वाटिका में सुहावनी-संजीवनीबूटी क्या शोभा देती है?

वन हित कोल किरात किशोरी * रची विरंचि विषय रस भोरी

पाहनकूमिजिसि कठिन सुभाऊ * तिन्हहि कलेसु न कानन काऊ

ब्रह्मा ने वनमें रहने के लिए तो कोल-भीलों की कन्याओं को बनाया है, जो विषय-सुख जानती ही नहीं। पत्थर के कीड़ों की भाँति जिनका कठोर स्वभाव है, उनको वनमें कष्ट नहीं होता।

कै तापस तिय कानन जोगू * जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू

सिय वन बसिहि तात केहि भाँती * चित्रलिखित कपि देखि डेराती

अथवा तपस्वियों की स्त्रियाँ वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोगों को त्याग दिया है। हे तात! वह सीता किस प्रकार वन में रह सकती है, जो चित्र में लिखे वन्दर को देखकर ही डर जाती है।

सुरसर सुभग वनज वन चारी * ढावर जोगु कि हंसकुमारी

अस विचार जस आयसु होई * मैं सिख देउँ जानकिहि सोई

मानसरोवर के कमल-वन में बिहार करने वाली राज-हंसिनी, क्या तलैया के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी आज्ञा हो, वैसी ही सीख मैं सीता को दूँ।

जौ सिय भवन रहै कह अम्बा * मोहि कहँ होइ बहुत अवलम्बा

सुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी * सील सनेह सुधाँ जनु सानी

माता कहती है-जो सीता घर में रहे, तो मुझे बहुत सहारा हो जाय। श्रीरघुनाथजी ने मानो शील, स्नेह-रूपी अमृत से सने हुए वचन सुनकर-

दोहा-कहि प्रिय बचन बिबेक मय, कीन्हि मातु परितोष।

लगे प्रबोधन जानकिहि, प्रगट विपिन गुन दोष ॥५९॥

ज्ञानमय प्रिय वचन कहकर माता को सन्तुष्ट किया। वन के गुण व दोष प्रकट करके जानकीजी को समझाने लगे।

❀ सास परायण-चौदहवाँ विश्राम ❀

मातु समीप कहत सकुचाहीं * बोले समउ समुझि मन माहीं

राजकुमारि सिखावनु सुनहू * आनि भाँति जियाँ जनि कछु गुनहू

वे माता के आगे जानकी से कहते हुए सकुचाते हैं, फिर ऐसा ही समय मनमें जानकर

श्रीराम! तुम्हारी ओर भरत की सौगन्ध पाकर कहती है कि दूमरा कोई कारण नहीं जानती।

तुम्ह अपराध जोगु नहीं ताता * जननी जनक बन्धु सुखदाता

राम सत्य सबु जो कछुक कहहू * तुम्ह पितु मातु वचन रत अहहू

हे ताता! तुम अपराध के योग्य नहीं हो यरन् माता-पिता और भाइयों को गुप्त देने वाले हो,

हे राम ! तुम जो कहते हो तो सब ठीक है, माता-पिता के वचनों में तुम सदैव तत्पर हो।

पितहि बुझाइ कहहु बल सोई * चौथेपन जेहि अजसु न होई

तुम्ह सम सुअन सुकृत जेहि दोन्हे * उचित न तासु निरादर कोन्हे

मैं तुम्हारी यत्नयाँ सेती हूँ, तुम अपने पिता से समझाकर यही बात कहो-जिससे युद्ध में

अपयश न हो। जिस उत्तम कर्म ने तुम सरीसृप पुत्र दिये—उम सत्कर्म का निरादर करना उचित नहीं है।

लागहि कुमुखा वचन सुभ कैसें * मगध गयादिक तीरथ जेसें

रामहि मातु वचन सब भाए * जिमि सुरसरि गत सलिल सुहाए

केकई के मुँह से ये शुभ-वचन फंसे लगते थे जैसे मगध-देग में गयादिक तीर्थों में। श्रीरामजी को

माता केकई के वचन ऐसे अच्छे सगे-जैसे अपवित्र जल भी गंगाजी में पवित्र हो जाता है।

दोहा—गइ मूरछा रामहि सुमिर, नृप फिरि करवट कोन्ह।

सचिव राम आगमन कहि, विनय समय सम कोन्ह ॥४३॥

उसी समय राजा की मूर्छा दूर हुई और उन्होंने श्रीरामजी का स्मरणकर फिर करवट

बदली। तब मन्त्री ने श्रीरामचन्द्रजी का आगमन सुनकर समय के अनुसार विनती की।

अवनिप अकनि रामु पगु धारे * धरि धोरजु तव नयन उधारे

सचिव सँभारि राउ वैठारे * चरन परत नृप राम निहारे

राजा ने श्रीरामजी का आना सुना, तब धीरज धरणर नेच खोल दिये। मन्त्री ने राजा

को उठाकर भली भाँति बँटा दिया, राजा ने श्रीरामजी को अपने घरनों में गिरते देखा तो

लिए सनेह विकल उर लाई * गँ मनि मनहुँ फनिक फिर पाई

रामहि चितइ रहेउ नरनाहू * चला चिलोचन वारि प्रवाहू

स्नेह से विकल राजा ने श्रीरामजी को देखते ही हृदय में लगा निषा मानो, कोई मणि

सपं ने फिर पाई हो। श्रीरामजी की ओर देखते ही रह गये, मेरों से अध्र धारा बह पत्तों।

सोक विवस कछु कहै न पारा * हृदय लगवत वारिह वारा

विधिहि मनाव राउ मनमाहीं * जेहि रघुनाथ न कानन जाहीं

गारे दुःख के राजा कुछ कह नहीं सकते, धारम्भार श्रीरामजी को हृदय में लगाते थे।

राजा अपने मन ही मन विधाता को मनाने सगे, जिससे कि श्री रघुनाथजी वन को आवें।

सुमरि महेसहि कहइ निहोरी * विनती सुनहु सदाशिव मोरी

आसुतोप तुम्ह अवडर दानी * आरति हरहु दीन जनु जानी

पहाड़ों की गुफायें, खोहें, नदी एवं नालें ऐसे अगम और गहरे हैं कि देखे नहीं जाते। रीछ, वाघ, भेड़िया, सिंह, हाथी ऐसा घोर शब्द करते हैं कि जिसे सुनकर धीरज छूट जाता है।
दोहा—भूमि सयन वल्कल बसन, असन कन्द फल मूल ।

तेकि सदा सब दिनमिलहि, समय समय अनुकूल ॥ ६१ ॥

भूमि पर सोना, वृक्षों की छाल पहिनना और कन्दमूल फल का भोजन मिलेगा। वह भी क्या सदा और दिनभर मिलते हैं? अर्थात् समय-समय के अनुसार ही मिलते हैं।

नर अहार रचनीचर चरहीं * कपट बेष बिधि कोटि धरहीं
लागइ अति पहार कर प्रानी * बिपिन बिपित नहिं जाइबखानी

मनुष्यों का आहार करने वाले राक्षस घूमा करते हैं, वे करोड़ों भाँति के बनावटी रूप धारण करते हैं। पहाड़ का पानी बहुत लगता है, वन की विपत्ति कही नहीं जा सकती।

व्याल कराल विहंग वन घोरा * निसचर निकर नारि नर चोरा
डरपहिं धीर गहन सुधि आएँ * मृगलोचनि तुम्ह भीरु सुभाएँ

भयंकर सर्प एवं पक्षी घोर वनमें रहते हैं, स्त्री पुरुषोंको चुराने वाले बहुत से राक्षस रहते हैं। ऐसे वनकी सुधि आने पर धीर-जनभी डर जाते हैं हे मृगनयनी! फिर तुमतो स्वभावसे ही भीरु हो।

हंसगवनि तुम्ह नहिं वन जोगू * सुनि अपजसु मोहि देइहि लोगू
सानस सलिल सुधाँ प्रतिपाली * जिअइ कि लवन पयोधि मराली

हे हंस-गामिनी! तुम वनके योग्य नहीं हो, तुम्हारा वनमें जाना सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे। मानसरोवर के अमृत-तुल्य जलसे पाली हुई हंसिनी क्या खारे समुद्र में जी सकती है?

नव रसाल वन विहरन सीला * सोह कि कोकिलु विपिन करीला
रहु भवन अस हृदय विचारी * चन्द्र बदनि दुखु कानन भारी

नये आमों के बाग में बिहार करने वाली कोयल-क्या करीलके वनमें शोभा पा सकती है? ऐसा हृदय में विचारकर घर पर ही रहो। हे चन्द्रमुखी! वन में भारी दुःख हैं।

दोहा—सहजसुहृद गुरुस्वामिसिख, जो न करइ सिरमानि ।

जो पछिताइ अघाइ उर, अवसि होइ हित हानि ॥ ६२ ॥

स्वभाव से ही अपने हितैषी, गुरु और स्वामी की शिक्षा को जो सिर पर चढ़ाकर नहीं मानता, वह पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है।

सुनि मृदु वचन मनोहर प्रिय के * लोचन ललित भरे जल सिय के
शीतल सिख नाहक भइ कैसे * चकइहि सरद चन्द निसि जैसेँ

पतिके मधुर व मनोहर वचनसुन सीताजी के सुन्दर नेत्रों में जल भर आया। शीतल सीख भी उन्हें किस प्रकार जलाने वाली हुई जैसे कि चकवी को शरद-ऋतुकी चाँदनी होती है।

उतरु न आव विकल बैदेही * तजन चहत सुचि स्वामि सनेही
बरबस रोकि बिलोचन बारी * धरि धीरजु उर अवनि कुमारी

विदा मातु सन आवउँ मांगी * चलिहउँ वनहि बहुरि पग लागी

आपकी आज्ञा का पालन कर, जन्म का पत्र पाकर मैं शीघ्र ही मोट आऊँगा, मुझको आज्ञा दीजिए। मैं माता मे विदा मांग आऊँ, फिर आपके घरण छूकर वन की आऊँगा।

अस कहि रामु गवनु तव कीन्हा * भूप सोक बस उतर न दीन्हा

नगर व्यापि गइ वात सुतीछी * छुअत चढी जनु सब तन चौछी

ऐसे कहकर श्रीरामजी यहाँ से चल दिये, राजा ने शोक बग कोई उत्तर नहीं दिया। यह शीघ्र ही वात नगर में ऐसी जल्दी फैल गई, जैसे बिच्छू के डंक मारते ही शरीर में बिच चढ़ जाता है।

सुनि भए विकल सकल नरनारी * वेलि बिटप जिमि देखि दवारी

जो जहँ सुनइ धुनइ तिर सोई * बड़ विपादु नहि धोरजु होई

यह सुनकर सब स्त्री-पुरुष ऐसे स्थाकुल हुए, मानो आग की देपकर देलि और दूध झुमूला गये हों। जो जहाँ सुनता है, वहाँ तिर धुनने लगता है, सबको महान् दुःख हुआ मन में धँपे नहीं होता है।

दोहा—मुख सुखाहि लोचन स्रवहि, शोक न हृदय समाइ।

मनहुँ करुन रस कटकई, उतरी अवध बजाइ ॥४६॥

सबके मुख सूझने लगे, आँखों से आँसू बहने लगे, हृदय में शोक नहीं समाता। मानो करुणा-रस रूपी राजा की सेना अयोध्या में झुका बजाकर उतरी हो।

मिलेहि माझ विधिवात विगारी * जहँ तहँ देहि कैकैइहि गारी

एहि पापिनिहि सूझ का परेऊ * छाइ भवन पर पावक धरेऊ

विधाता ने वात बनाकर विगाड़ दी, जहाँ-तहाँ लोग फँकेई को गानी देने लगे कि इन पापिनी को क्या सुनो, जो इसने बसे हुए घर पर अग्नि रण दी ?

निजकर नयनकाढ़ि चह दोखा * डारि सुधा विष चाहत चौखा

कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी * भइ रघुवंस वेनु वन जागी

यह अपने हाथ से अपनी आँखें निकालकर देपना चाहती है, अमृत को फँक कर विष घणना चाहती है। कुटिल, कठोर, दुबुद्धि, अभागी फँकेई रघुवंस-रघुवंस को वन के लिए अग्नि हो गई।

पालव वैठि पेडु एहि काटा * सुख महुँ सोक ठाटु धरि ठाटा

सदा राम एहि प्रान समाना * कारन कवन कुटिलपन ठाना

पत्ते पर घँटकर इसने पेड़ को काट डाला, गुण में दुःख का टाट रच दिया। इसे तो श्रीरामचन्द्रजी सदा ही प्राणों के समान प्यारे थे, अब किस कारण से घोटाने ठाना है ?

सत्य कहहि कवि नारि सुभाऊ * सब विधि अगम अगाध दुराऊ

निज प्रतिविम्बु वरकु गहिजाई * जानि न जाइ नारि गति भाई

कवि सत्य कहते हैं कि इसी का स्वभाव सब प्रकार में दुर्गम, असाह और गुन्य होता है। अपनी परछाईं चाहे कोई मते ही पकड़ से, परन्तु हे भाई ! राजी की गति नहीं —

हे नाथ ! आपके साथ पशु-पक्षी मेरे कुदुम्बी होंगे, वन ही नगर होगा, वृक्षों की छाल ही उज्वल वस्त्र होंगे और पर्ण-कुटी ही स्वर्ग के समान सुन्दर सुख देने वाली होगी ।

वनदेवी वनदेव उदारा * करिहहिं सासु ससुर सम सारा
कुस किसलय साँथरी सुहाई * प्रभु संग मञ्जु मनोज तुराई

वनदेवी एवं वन-देवता जो उदार हैं, वे ही सास-ससुर के समान सार-सँभार करेंगे । प्रभु के साथ कुस और पत्तों का सुहावना विछौना ही कामदेव की तोषक-सेज के समान होगा ।

कन्दमूल फल अमिअ अहारू * अवध सौध सत सरिस पहारू
छिनु छिनु प्रभु पदकमल विलोकी * रहिहउँ सुकित दिवस जिमि कोकी

कन्द-मूल फल ही अमृत के समान भोजन होगा, पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों महलों के तुल्य होंगे । क्षण २ प्रभु के चरणकमल देख में ऐसी प्रसन्न रहूँगी-जैसे दिन में चकवी रहती है ।

वन दुख नाथ कहे बहुतेरे * भय बिषाद परिताप घनेरे
प्रभु वियोग लवलेश समाना * सब मिलि होहिं न कृपानिधाना

हे स्वामी ! आपने वन के बहुत-से दुख, भय, शोक और बहुत-से सन्ताप कहे । परन्तु हे कृपानिधान ! ये सब मिलकर भी प्रभु के बहुत थोड़े समय के लिए होने वाले वियोग के बराबर नहीं हैं ।

अस जियँ जानि सुजान सिरोमनि * लेइअ सङ्ग तोहि छाँड़िय जनि
विनती बहुत करौं का स्वामी * करुनामय उर अन्तरजामी

हे चतुर-शिरोमणि! ऐसा मनमें जानकर मुझे अपने साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए हे प्रभु ! मैं अधिक विनती क्या करूँ, आप तो दया के रूप और हृदय की बात जानने वाले हैं ।

दोहा—राखिअ अवध जो अवध लागि, रहत न जनिअहिं प्रान ।

दीनबन्धु सुन्दर सुखद, शील स्नेह निधान ॥६५॥

हे दीनबन्धु ! हे सुन्दर सुख देने वाले ! हे शील और स्नेह के निधान ! जो अवधि तक अयोध्या में रखेंगे, तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे, यह जान लीजिए ।

मोहि मग चलत न होइहिहारी * छिनु छिनु चरन सरोज निहारी
सबहि भाँति पिय सेवा करिहौ * सारग जनित सकल श्रम हरिहौ

क्षण-क्षणमें आपके चरणारविन्दों का दर्शन करने से मुझे मार्ग की थकावट नहीं व्यापेगी । मैं सब प्रकार से स्वामी की सेवा करूँगी और मार्गकी सारी थकावट को दूर किया करूँगी ।

पाँय पखारि बैठि तरु छाहीं * करिहहुँ बाउ सुदित मन माहीं
श्रसकन सहित श्याम तनु देखे * कहँ दुख समय प्रानपति लेखे

मैं चरण धोकर वृक्ष की छाया में बैठकर, मन में प्रसन्न हो आपकी हवा किया करूँगी । पसीने की बूँदों सहित आपके श्याम शरीर को देखने से अर्थात् प्राणनाथ के दर्शन करने से दुःख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ मिलेगा ?

सम महि तृन तरु पल्लव डासी * पाँव पलोटिहि सब निसि दासी

की बढ़ाई करके उते समझाने लगीं, परन्तु उनके बचन उतको बाप के समान लगते थे ।

भरतु न प्रिय मोहि रामसमाना * सदा कहहु यह सबु जगु जाना
करहु राम पर सहज सनेह * केहि अपराध आजु वन देह

ये कहने लगीं—तुम तो सदा कहती थीं कि मुझे श्रीराम के गमान भरत मो प्रिय नहीं, यह सब संसार जानता है । रामजी पर तो सहज स्नेह था, फिर आज उन्हें वन किस अपराध में बेंतो हो ?

कवहुँन कियहु सबति आरेसू * प्रीति प्रतीति जान सबु देसू
कौसल्या अब काह विगारा * तुम्ह जेहि लागि वज्र पुर मारा

तुमने तो कभी सीतिया-शाह नहीं किया, तुम्हारे परस्पर प्रेम-विश्वास को सारा देना जानता है । अब कौसल्या ने क्या विगाड़ा है, जिसके कारण तुमने सब नगर पर वय्रगिरा किया ?

दोहा—सीय कि पियसंगु परिहरिहि, लखनु कि रहिहहि धाम ।

राजु कि भूँजव भरत पुर, नृप कि जिअहिं विनु राम ॥४६॥

यया सीताजी पति का सङ्ग छोड़ सकेंगी, यया लक्ष्मणजी घर में रह सकेंगे, यया भरतजी अयोध्यापुरी का राज्य करेंगे और यया राजा बिना रामजी के जीवित रह सकेंगे ?

अस विचारि उर छाँड़हु कोहू * सोक कलङ्क कोटि जनि होहू
भरतहि अवसि देहु जुवराजू * कानन काह राम कर काजू

ऐसा विचार कर हृदय से शोक को दूर करो और शोक से बलशु की ध्यान मत बनो । भरतजी को अवश्य युवराज बनाओ, परन्तु श्रीरामजी का वन में क्या काम है ?

नाहिन रामु राज के भूखे * धरम धुरीन विषय रस रूखे
गुरु गृह वसहिं राम तजि गेहू * नृप सन अस वर दूसर लेहू

श्रीरामचन्द्रजी राज्य के भूषे नहीं हैं, यह तो धर्म-धुरन्धर और सांसारिक सुखों में उदासीन हैं । इस पर भी तुम्हारी शङ्का दूर न हो तो, श्रीरामजी पर छोड़कर गुण के घर में वास करें—यह दूसरा बरदान राजा से माँग लो ।

राम सरिस सुत कानन जोगू * काह कहहिं सुन तुम्ह कहें लोगू
जौं नहिं लगीहहु कहें हमारे * नहिं लागहिं कछु हाय तुम्हारे

यया श्रीरामजी सरीये पुत्र वन के योग्य हैं, सुनकर लोग तुमको क्या बहेंगे ? हमारा कहना नहीं मानोगे, तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा ।

जौं परिहास कीन्हि कछु होई * तो कहि प्रगट जनावहु सोई
उठहु वेगि सोइ करहु उपाई * जेहि विधि सोक कलंकु नसाई

यदि इस समय तुमने कुछ हँसी को हो, तो उसे प्रकट में कह दो । अब मोक्ष उठो, और यही उपाय करो, जिससे कि सबका शोक और दुःख दूर हो जाय ।

छन्द—जेहि भाँति सोकु कलंकु जाइ उपाय करि कुल पालही ।

हठि फेर रामहि जाति वन जनि वात दूसर चालहे ॥

हे नाथ ! आपके साथ पशु-पक्षी मेरे कुटुम्बी होंगे, वन ही नगर होगा, वृक्षों की छाल ही उज्वल वस्त्र होंगे और पर्ण-कुटी ही स्वर्ग के समान सुन्दर सुख देने वाली होगी ।

वनदेवी वनदेव उदारा * करिहहि सासु ससुर सम सारा
कुस किसलय सांथरी सुहाई * प्रभु संग मञ्जु मनोज तुराई

वनदेवी एवं वन-देवता जो उदार हैं, वे ही सास-ससुर के समान सार-सँभार करेंगे । प्रभु के साथ कुश और पत्तों का सुहावना बिछौना ही कामदेव की तोषक-सेज के समान होगा ।

कन्दमूल फल अमिअ अहारु * अवध सौध सत सरिस पहारु
छिनु छिनु प्रभु पदकमलविलोकी * रहिहउं मुक्ति दिवस जिमि कोका

कन्द-मूल फल ही अमृत के समान भोजन होगा, पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों महलों के तुल्य होंगे । क्षण २ प्रभु के चरणकमल देख मैं ऐसी प्रसन्न रहूँगी-जैसे दिन में चकवी रहती है ।

वन दुख नाथ कहे बहुतेरे * भय बिषाद परिताप घनेरे
प्रभु वियोग लवलेश समाना * सब मिलि होहि न कृपानिधाना

हे स्वामी ! आपने वन के बहुत-से दुख, भय, शोक और बहुत-से सन्ताप कहे । परन्तु हे कृपानिधान ! ये सब मिलाकर भी प्रभु के बहुत थोड़े समय के लिए होने वाले वियोग के बराबर नहीं हैं ।

अस जियँ जानि सुजान सिरोमनि * लेइअ सङ्ग तोहि छाँड़िय जनि
विनती बहुत करौं का स्वामी * करुनामय उर अन्तरजामी

हे चतुर-शिरोमणि! ऐसा मनमें जानकर मुझे अपने साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए हे प्रभु ! मैं अधिक विनती क्या करूँ, आप तो दया के रूप और हृदय की बात जानने वाले हैं ।

दोहा—राखिअ अवध जो अवध लागि, रहत न जनिअहिं प्रान ।

दीनबन्धु सुन्दर सुखद, सील सनेह निधान ॥६५॥

हे दीनबन्धु ! हे सुन्दर सुख देने वाले ! हे शील और स्नेह के निधान ! जो अवधि तक अयोध्या में रखेंगे, तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे, यह जान लीजिए ।

सोहि सग चलत न होइहिहारी * छिनु छिनु चरन सरोज निहारी
सबहि भाँति पिय सेवा करिहौ * सारग जनित सकल श्रम हरिहौ

क्षण-क्षणमें आपके चरणारविन्दों का दर्शन करनेसे मुझे मार्ग की थकावट नहीं ब्यापेगी । मैं सब प्रकार से स्वामी की सेवा करूँगी और मार्गकी सारी थकावट को दूर किया करूँगी ।

पाँय पखारि बैठि तरु छाहीं * करिहहुँ बाउ मुदित मन माहीं
श्रमकन सहित श्याम तनु देखें * कहँ दुख समय प्रानपति लेखें

मैं चरण धोकर वृक्ष की छाया में बैठकर, मन में प्रसन्न हो आपकी हवा किया करूँगी । पसीने की बूँदों सहित आपके श्याम शरीर को देखने से अर्थात् प्राणनाथ के दर्शन करने से दुःख के लिए मुझे अबकाश ही कहाँ मिलेगा ?

सम महि तून तरु पल्लव डासी * पाँव पलोटिहि सब निसि दासी

रघुकुलतिलक जोरि दोउ हाथा * मुदित मातु पद नायउ माथा
दीन्हि असीस लाइ उर लीन्हे * भूपन वसन निछावर कोन्हे

रघुवंश-भूपन श्रीरामजी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता से माता के चरणों में गिर नवाया, माता ने आशीर्वाद दिया और हृदय से लगाकर गहने धोर घस्त्र म्योछावर रिये ।

वार वार मुख चुम्बति माता * नयन नेह जल पुलकित गाता
गोद राखि पुनि हृदय लगाए * स्रवत प्रेमरस पयद सुहाए

माता वार २ पुँह पूँमने लगी, आँखों में प्रेमाश्रु भर आये, शरीर पुलकित हो गया । गोद में बँटाया फिर हृदय से लगाया । प्रेम के मारे माता के स्तनों में दूध टपकने लगा ।

प्रेम प्रमोद न कछु कहि जाई * रङ्ग घनद पदवी जनु पाई
सादर सुन्दर वदनु निहारी * बोली मधुर वचन महतारी

जिनका प्रेम और आनन्द कुछ कहा नहीं जाता, मानो कङ्काल ने कुवेर की पदधोपासी हो । फिर आदर सहित पुण्य देणकर माता मधुर वचन बोली—

कहहु तात जननी बलिहारी * कबहिं लगन मुद मङ्गलकारी
सुकृत सील सुख सीवें सोहाई * जनम लाभु कइ अवधि अघाई

हे पुत्र ! माता बलियाँ सेती है, यह आनन्द की मङ्गलकारी घड़ी कब है, जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुन्दर सीमा है और संसार में जन्म पाने की पूर्ण अवधि है ?

दोहा—जेहि चाहत नरनारि सब, अति आरत एहि भाँति ।

जिमि चातकि चातक तपित, वृष्टि सरदभ्रतु स्वाँति ॥५१॥

जिस मुन घड़ी की सब स्त्री-पुरुष बड़ी दीनता के साथ इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार मे प्यासे चकया-चकयी को शरद काल में स्वाँति नदर को वर्षा को बूँद को चाहना होती है ।

तात जाउं बलि वेगि नहाहू * जो मन भाव मधुर फल खाहू
पितु समीप जव जाएहु भैया * भइ वडि वारि जाइ बलि भैया

हे पुत्र ! मैं तुम्हारी बलियाँ सेती हूँ, जल्दी स्नान करके जो कुछ मन में चाये, यह मधुर फल पासो । हे तात ! तब पिता के पास जाना, बड़ी बेर हो गई, भैया तुम्हारी बलिहारी जानो है ।

मातु वचन सुनि अति अनुकूला * जनु सनेह सुरतरु के फूला
सुख मकरन्द भरे श्रियमला * निरखि राम मनु भँवर न भूला

माता के अत्यन्त अनुकूल वचन सुनकर—जो मानो स्नेहकयी बन्धुपुत्र के रूप से । जो सुपुत्रकी पुष्प-रस से भरे हुए थे और राज-सदमी जिनकी जड़ थी । ऐसे पुष्प को देखकर श्री श्रीरामजी का मनरूपी मोरान वन पर न सुभाया ।

धरम धुरीन धरमपति जानी * कहेउ मातु सन अति मृदुवाणी
पिता दीन्ह मोहि कानन राजू * जहे सब भाँति मोर चड काजू

लगाऊंगी और प्रसन्न होकर शरीर को देखूंगी ।

लखि स्नेह कातर सहतारी * वचनु न आव विकल भइ भारी
राम प्रबोधु कीन्ह विधि नाना * समय स्नेह न जाइ बखाना

माता मारे स्नेह के अधीर होगई हैं, मुख से वचन नहीं आता, बड़ी व्याकुल हो गई हैं। ऐसी दशा देखकर श्रीरामजी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, उस समय का स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता ।

तब जानकी सासु पग लागी * सुनिअ मातु मैं परम अभागी
सेवा समय देव वनु दीन्हा * और मनोरथ सफल न कीन्हा

तब जानकीजी सास के पाँवोंमें पड़कर बोलीं—हे माता ! मैं बड़ी अभागिनी हूँ। विधाता ने आपकी सेवा के समय मुझे वन दे दिया, मेरी मनोकामना सफल नहीं की।

तजब छोभु जनि छाँड़िअ छोहू * करन कठिन कछु दोषु न मोहू
सुनि सिय वचनु सासु अकुलानी * दसा कवन विधि कहो बखानी

अब दुःखको त्याग दीजिये, परन्तु स्नेह को न छोड़ना। कर्म की गति कठिन है, मेरा भी कुछ दोष नहीं। सीताजी के यह वचन सुन सास बहुत व्याकुल हुई, उसको दशा किस विधिसे वर्णन करें ?

बारहिं बार लाइ उर लीन्हीं * धरि धीरजु सिख आसिष दीन्हीं
अचल होउ अहिवातु तुम्हारा * जब लगि गङ्ग जमुन जलधारा

उन्होंने सीताजी को बारम्बार हृदय से लगाया और धैर्य धरकर शिक्षा दी तथा यह आशीर्वाद दिया कि जब तक गङ्गा-यमुना की जल-धारा रहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे।

दोहा—सीतहि सासु असीस सिख, दीन्हि अनेक प्रकार ।

चली नाइ पद पडुम सिख, अति हित बारहिं बार ॥६८॥

सास ने सीताजी को अनेक प्रकार से शिक्षा और आशीर्वाद दिया। वे बारम्बार प्रेम से सासु के चरण कमलों में सिर नवाकर चलीं।

समाचार जब लछिमनु पाए * व्याकुल विलख बदन उठि धाए
कम्प पुलक तनु नयन सरीरा * गहे चरन अति प्रेम अधीरा

जब लक्ष्मणजी ने यह समाचार पाया, तब वे भी व्याकुल हो उदास मुँह उठ दौड़े। शरीर काँप रहा है, रोमाँच खड़े हो गये हैं, नेत्रों में जल भरा है। उन्होंने अत्यन्त प्रेम से अधीर होकर श्रीरामजी के चरण पकड़ लिये।

कहि न सकत कछु चितवइ ठाढ़े * मीनु दीन जनु जल तें काढ़े
सोचु हृदय विधि का होनिहारा * सबु सुख सुकृत सिरान हमारा

कुछ कह नहीं सकते, खड़े ही देखते रह गये, मानो जल से निकली हुई मछली दुःखी हो गई हो। वे सोचने लगे—हे विधाता ! अब क्या होने वाला है ? क्या हमारा सब सुख व पुण्य समाप्त हो चुका ?

मो कहूँ काह कहब रघुनाथा * रखिहहि भवन कि लेहहि साथी

लिखत सुधाकर गा लिखि राहू * विधिगति वाम दसा सब काहू

ये न तो रण ही सकती हैं और न यह कह सकती हैं कि जाओ। दोनों प्रकार से उनके हृदय में बड़ा दुःख हुआ। प्रज्ञा की गति सबके लिए उत्ती है, चन्द्रमा तिगते २ रात्र तिघ रिघा।

धरम सनेह उभय मति घेरी * भइ गति साँप छट्टंदर केरी

राखहु सुतहि करउ अनुरोधू * धरमु जाइ अरु वन्धु विरोधू

धर्म व सनेह दोनों ने कीगल्पाजी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी गति साँप-छट्टंदर की-सी हो गई। यदि हृष्ट पूर्वक पुत्र को रोक लें तो धर्म जाता है और मादर्यों में विरोध बढ़ता है, वे ऐसे सोचने लगीं।

कहउ जान वन तौ बड़ हानी * सङ्कट सोच विवस भई रानी

बहुरि समुझितियधरमु सयानो * राम भरतु दौड सुत सम जानो

वन में जाने की कहती हैं तो बड़ी हानि है, इस प्रकार सङ्कट और सोच में पड़कर रानी व्याकुल हो गई। फिर रानी ने स्त्री-धर्म समझ तथा श्रीराम और भरत दोनों को समान जाना।

सरल सुभाउ राम महतारी * बोली वचन धीर धरि भारी

तात जाउ वलि कोन्हेहु नीका * पितु आयसु सब धरमक टोका

श्रीरामजी की माता सोधे स्वभाव से बड़े घोरज के साथ बोली-हे पुत्र! मैं तुम्हारी बर्नवा सेती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा पालन करना सब धर्मों में बड़ा धर्म है।

दोहा—राजु देन कहि दीन्ह वनु, मोहि न सो दुखु लेसु।

तुम्ह विनु भरतहि भूपतिहि, प्रजहि प्रचण्ड कलेसु ॥५४॥

राज्य देने की कहकर तुम्हें वन दिया, इस बात का मुझे सेनामात्र भी दुःख नहीं है। परन्तु तुम्हारे बिना भरत, महाराज तथा प्रजा को बड़ा बर्नवा होगा।

जौ केवल पितु आयसु ताता * तौ जनि जाहु जानि बड़ि माता

जौ पितु मातु कहेउ वन जाना * तौ कानन सत अवध समाना

हे तात! जो केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को बड़ी जान वन की मत्त जाओ। सिधु माता-पिता दोनों ने वन जाने की आज्ञा दी हो तो वन भी तुम्हारे लिए ही अयोध्या के समान है।

पितु वनदेव मातु वनदेवी * खग भृग चरन सरोरुह सेवी

अन्तहु उचित नूपहि वनवासू * वय विलोकि हिये होइ हरांतू

वन के देवी-देवता माता-पिता होंगे, पशु-पक्षी तुम्हारे चरण-बनलों की सेवा करेंगे। राजाओं को अन्त में वनवास तो उचित ही है, परन्तु तुम्हारी व्यवस्था बेचकर दुःख होता है।

बड़भागी वनु अवध अभागी * जो रघुवंश तिलक तुम्ह त्यागी

जौ सुत कहीं सङ्ग मोहि लेहू * तुम्हरे हृदये होइ सन्देहू

वन बड़भागी है और अयोध्या भाग्यहीन है, जो रघुवंश-सूदन (तुमने) त्याग दी है। प्रिय! जो मैं बट्टे कि मुझकी भी अपने साथ से चलो, तो तुम्हारे मन में संदेह होगा।

दीन्ह सोहि सिख नीकि गोसाँई * लागि अगम आपनि कदराई
नरवर धीर धरम धुर धारी * निगम नीति कहूँ ते अधिकारी

हे प्रभु ! आपने मुझे बहुत अच्छी सोख दी, परन्तु मुझे अपनी कायरता से कठिन जान पड़ती है । जो थोष्ठ पुरुष धीर व धर्म-धुरन्धर हैं, वे ही नीति और शास्त्र के अधिकारी हैं ।

मैं सिसु प्रभु सनेहँ प्रतिपाला * मन्दरु मेरु कि लेहि मराला
गुरु पितु मातु न जानउँ काहू * कहउँ सुभाउ नाथ पतिआहू

मैं तो प्रभु के स्नेह से पाला हुआ बालक हूँ । कहीं हंस भी मन्दराचल व सुमेरु पर्वत को उठा सकता है ? मैं गुरु व माता-पिता किसी को नहीं जानता, हे नाथ ! मैं स्वभाव से ही कहता हूँ. आप विश्वास करें ।

जहँ लागि जनत सनेह सगाई * प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई
सोरें सबइ एक तुम्ह स्वामी * दीनबन्धु उर अन्तरजामी

संसार में जहाँ तक स्नेह व सम्बन्ध हैं, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेदों ने गाया है, हे दीनबन्धु ! हे अन्तर्यामी प्रभो ! मेरे तो सब कुछ एक आप ही हैं ।

धरम नीति उपदेशिअ ताहो * कीरति भूमि सुगति प्रिय जाई
मन क्रम वचन चरन रत होई * कृपासिंधु परिहरिअ कि सोई

धर्म व नीति का उपदेश तो उसीको देना चाहिए—जिसे यश, ऐश्वर्य और मुक्ति प्रिय हो । हे कृपासिंधु ! जो मन, कर्म, वचन से आपके चरणों में प्रेम करता हो—क्या वह भी छोड़ने योग्य है ?

दोहा—कृपासिंधु सुबन्धु के, सुनि मूढु वचन पुनीत ।

समझाए उर लाइ प्रभु, जानि सनेह सभौत ॥७१॥

कृपासिंधु श्रीरामजी ने अपने प्रिय भाई के विनय-युक्त वचन सुनकर उन्हें स्नेह से डरा हुआ जानकर, हृदय से लगाकर समझाया ।

साँगहु विदा मातु मन जाई * आवहु बेगि चलहु वन भाई
सुदित भए सुनि रघुवर वानी * भयउ लाभ बड़ गइ बड़ हानी

हे भाई ! जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी से वन को चलो । श्रीरघुनाथजी की यह बात सुनकर लक्ष्मणजी प्रसन्न हुए कि बड़ा लाभ हुआ और बड़ी हानि दूर हुई ।

हरषित हृदयँ मातु पहिँ आए * मनहुँ अन्ध फिरि लोचन पाए
जाइ जननि पग नायउ साथी * मन रघुनन्दन जानकि साथी

लक्ष्मणजी—माता सुमित्रा के पास ऐसे प्रसन्न होते हुए आये, मानो अन्ध को फिर नेत्र मिल गये हों । जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, परन्तु मन—श्रीरघुनाथजी और जानकीजी के साथ में था ।

पूँछे मातु सलिन मन देखी * लखन कही सब कथा विसेपी
गई सहमि सुनि वचन कठोरा * मृगी देखि दद जनु चहुँ ओरा

परम रूपयती व पति स तदा प्रम कर्ने वान्नी सीताजी नाचा मुंह किये बढा साव रहा है।

चलन चहत वन जीवननाथू * केहि सुकृत सन होइहि सायू

की तनु प्राण की केवल प्राणा * विधि करतव कछु जाइ न जाना

जीवन-नाथ (श्रीरामजी) घन को जाना चाहते हैं, न जाने किम पुष्य के प्रभाव में उनका साव होगा ? शरीर और प्राण दोनों ही साव जायेंगे या केवल प्राण ही साव जायेंगे ? विधाता की गति कुछ जानी नहीं जाती।

चार चरन नख लेखति वरनी * नूपुर मुखर मधुर कवि वरनी

मनहुं प्रेम वस विनती करहीं * हमहि सीयपद जनि परिहरहीं

सीताजी अपने सुन्दर चरण के नख से भूमि को कुदरेद रही हैं उम समय उनके नूपुरों का जो मधुर शब्द हुआ, उसका वर्णन कवि इस प्रकार करते हैं कि-नूपुर मानो प्रेम के दम होकर प्रार्थना कर रहे हैं कि सीताजी के चरण हमें छोड़ न दें।

मंजु विलोचन मोचति वारी * वोलीं देखि राम महतारी

तात सुनहु सिय अति सुकुमारी * सासु ससुर परिजनहि पिआरी

सीताजी सुन्दर नेत्रों में आँसू बहा रही हैं, उनकी बना देण श्रीरामजी को माना शोकमन्वाजी वोलों-हे पुत्र! सुनो, सीताजी अति सुकुमारी हैं तथा सासु-नसुर और कुटुम्बो-जनों को प्रिय हैं।

दोहा—पिता जनक भूपालमणि, ससुर भानुकुल भानु।

पति रविकुल कैरव विहिन, विधुगुन रूप निधान ॥ ५७ ॥

इनके पिता जनकजी-राजाओं में श्रेष्ठ हैं, समुद्र-सूर्यवंत के सूर्य और पति-सूर्यकुमारजी कुमुदनी के घन को पिलाने वाले चन्द्रमा के समान और गुण व रूप के निधान हैं।

मैं पुनि पुत्रवधू प्रिय पाई * रूपरासि गुन सील सुहाई

नयन पुतरि करि प्रीति बढाई * राखेउं प्राण जानकिहि लाई

किर मैंने रूपकी रासि, गुणयती और शीलयती प्यारी पुत्र-वधू पाई है। इने में नेत्रों को पुत्रकी मानकर, प्रीति बढ़ाकर प्राणों के समान रखती हैं।

कलपवेलिजितिवहु विधि लाली * सोचि सनेह सलिल प्रतिपाली

फूलत फलत भयउ विधि वामा * जानि न जाइ काह परिनामा

कल्पवेलि के समान बहुत विधि से मैंने इने स्नेहरूपी जगत्तें मोचकर पाया है, अब इम वेलि के फलने-फलने के समय विधाता विपरीत होगया, जाना नहीं जाता कि क्या परिणाम होगा?

पलंग पीढी तजि गोद हिंडोरा * सीयन दीन्हि पगु अयनि कठोरा

जिअन मरि जिमि जोगवत रहउं * दीप चाति नहि टारन कहउं

पलंग, गोद, हिंडोलाको छोड़ सीताने कठोर भूमि पर कभी पाँव भी नहीं रक्का। मंजीपती सूँटी के समान समानकर में इने रखती हैं और दीपक की यती उबमाने को भी नहीं रक्ती।

सो सिय चलन चहत वन साया * आयसु काह होइ रघुन

न तरु वाँझि भलि वादि बिआनी * राम विमुख सुत ते हित हानी

संसार में वही स्त्री पुत्रवती है—जिसका पुत्र 'राम-भक्त' हो, नहीं तो वाँझ ही भली है, उसका ध्याना व्यर्थ है। श्रीरामजी से विमुख-पुत्र होने में तो हित की हानि ही होती है।

तुम्हरेहिं भाग्य रामु वन जाहीं * दूसर हेतु तात कछु नाहीं
सकल सुकृत कर बड़ फल ऐहू * राम सीय पद सहज सनेहू

हे पुत्र! तुम्हारे ही भाग्य से श्रीरामजी वन को जा रहे हैं, दूसरा कारण कुछ नहीं है। सब पुण्यों का फल यही है कि श्रीसीता-रामजी के चरणों में स्वाभाविक स्नेह हो।

रागु रोषु इरिषा मद मोहू * जनि सपनेहुँ इन्ह के बस होहू
सकल प्रकार बिकार बिहाई * मन क्रम वचन करेहू सेवकाई

राग, रोष, ईर्ष्या, मद व मोह—इनके वश स्वप्न में भी न होना और सब प्रकार के विकारों को त्यागकर—मन, कर्म, वचन से श्रीरामजी की सेवा करना।

तुम्ह कहूँ वन सब भाँति सुपासू * सँग पितु मातु रामु सिय जासू
जेहिं न रामु वन लहहिं कलेसू * सुत सोइ करेहू इहहु उपदेसू

तुमको वन में सब प्रकार का आराम है, जिसके साथ पिता—श्रीरामजी और माता—सीताजी। जिस प्रकार से श्रीरामजी को वन में क्लेश न हो—हे पुत्र! तुम वही उपाय करना—यही मेरा उपदेश है।

छन्द—उपदेसु यहु जेहिं तात तुम्हरेँ राम सिय सुख पावहीं ।

पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति वन बिसरावहीं ॥

तुलसी सुतहि सिख देइ आयसु दीन्ह पुनि आसिष दई ।

रति होउ अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नई ॥

हे तात! मेरा यही उपदेश है कि तुमसे जिस प्रकार श्रीसीता रामजी सुख पावें और पिता-माता, प्रिय-परिवार और पुरी के सुख की चुधि न करें, तुम वही करना। तुलसीदासजी कहते हैं कि इस प्रकार पुत्र को शिक्षा देकर माताने आज्ञा दे दी, फिर आशीर्वाद दिया कि श्रीसीता-रामजी के चरणों में तुम्हारे अटल और पवित्र प्रीति नित्य-नवीन हो।

सो०—मातु चरन सिर नाइ, तुरत चले संकित हृदयें ।

वारग विषम तोराइ, मनहुँ भाग मृगु भाग्य वस ॥ ३ ॥

माता के चरणों में सिर नचाकर मन में शंका करते हुए लक्ष्मणजी ऐसे जल्दी चले—जैसे भाग्यवत मृग कठिन जाल को फूँडकर भाग चला हो।

गए लखनु जहँ जानको नाथू * भे मन मुदित पाइ प्रिय साथू
बन्दि राम सिय चरन सुहाए * चले सङ्ग नृप मन्दिर आए

लक्ष्मणजी वहाँ गये—जहाँ श्रीरामजी थे, प्रिय का साथ पाकर मनमें बहुत प्रसन्न हुए। श्रीसीता-रामजी के सुन्दर चरणों में प्रणाम करके उनके साथ चले और राज-मन्दिर में आये।

बोले-हे राजकुमारी ! मेरी सुन्दर शिक्षा को सुनो, मन में दूगरी धीरे कुछ मन लगाना ।

आपन मोर नीक जौं चहहूँ * वचनु हमार मानि गृह रहहूँ
आयसु मोर सासु सेवकाई * सब विधि भामिनि भवन भलाई

जो तुम अपनी और मेरी भलाई चाहती हो, तो मेरा यवन मानकर घर रहो । हे भामिनी ! मेरी आज्ञा का पालन, रामु को सेवा तथा सब प्रकार में भलाई घर पर रहने में ही है ।

एहि ते अधिक धरम नहिं दूजा * सादर सासु ससुर पद पूजा
जब जब मातु करहिं सुधिमोरी * होइहि प्रेम विकल मति भोरी

इससे बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है कि आदर में माता-नागुर के घरणों की सेवा करना और जब-जब माता मेरी सुधि करके प्रेम से व्याकुल होकर भोली मति में घबड़ा उठे-

तब तब तुम्ह कहि कया पुरानी * सुन्दरि समुझाएहु मृदु वानी
कहउ सुभाउ सपय सत मोही * सुमुखि मातु हित राखउ तोही

तब-तब तुम पुरानी कथायें कहकर-हे सुन्दरी ! कोमल वानों में माताजी को गप-झाना । हे सुमुखी ! मुझे संकष्टों से गन्ध हैं, मैं अपने निष्कपट-भाव में कहना हूँ कि मैं तुमसे यहाँ माता के हित के लिए ही रहता हूँ ।

दोहा-गुरुश्रुति सम्मत धरम फलु, पाइअ विनहि कलेस ।

हठ वश सब सङ्कट सहे, गालव नहुप नरेस ॥ ६० ॥

तुम गुरु और वेद से सम्मत धर्म-फल को बिना क्लेश ही पा जाओगी । हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुप ने भी अनेकों कष्ट सहे थे ।

मैं पुनि करि प्रवान पितु वानी * वेगि फिरव सुनु सुमुखि सयानी
दिवस जात नहिं लागिहि वारा * सुन्दरि सिखवनु सुनहु हमारा

हे सुमुखि ! हे सुनयनी ! सुनो, मैं पिता के यचनों को प्रमाणित कर सौम्य नाद भाऊंगा । बिन जाते वेर नहीं लगती । हे सुन्दरी ! मेरी सुन्दर शिक्षा सुनो-

जौं हठ करहु प्रेम वस वामा * तौ तुम्ह दुखु पाउव परिनामा
कानन कठिन भयङ्कर भारी * घोर घाम हिम वारि वयारी

हे प्रिये ! जो प्रेम वश हठ करोगी, तो दुःख पाओगी । वन बढ़ा कठिन और भयङ्कर होता है । वहाँ धूप, सरदी और पवन-ये बहुत क्लेशदायक हैं ।

कुस कण्टक मग काँकर नाना * चलव पयादेहिं विनु पदत्राना
चरन कमल मृदु मंजु तुम्हारे * मारग अगम भूमिघर भारे

मार्ग में कुस, काँटे और बहुत से कंकण हैं, उनमें बिना जूतियों के चलना ही चलना होगा । तुम्हारे चरण-कमल कोमल और सुन्दर हैं, रास्ते में अति दुर्गम पहाट हैं ।

कन्दर खोह नदी नद नारे * अगम अगाध न जाहिं निहारे
भालु बाघ वृक केहरि नागा * करहिं नाद सुनि घोरजु

मोताजी दुःखित हो गईं, कुछ उत्तर नहीं आया और मानते लगे कि पाँचवें स्नेह करने वाले स्वामी मुझे छोड़कर यत्र को जाना चाहते हैं। भूमि-मुता जानसोंको मेत्रों के आमुओं को रोक कर और धँपें धारण कर-

लागि सासु पद कह कर जोरी * छमवि देव बड़ि अविनय मोरी
दीन्हि प्राणपति मोहि सिख सोई * जेहि विधि मोर परम हित होई

सासु के पाँव लगकर, हाथ जोड़कर बोली-हे माता ! मेरी इत बड़ी जिंदाई को धमा करना ! प्राणनाथ ने मुझे यही शिक्षा दी है, जितते मेरा परम हित हो।

मैं पुनि समुझि दीख मन माहीं * पिय वियोग सम दुखु जग नाहीं
परन्तु मैंने अपने मन में समझकर देखा तिया है कि पति के वियोग के समान स्वों को संगार में दूसरा दुःख नहीं है।

दोहा-प्राणनाथ करना यतन, सुन्दर सुखद सुजान।

तुम्ह विनुरघुकुलकुमुदविधु, सुरपुर नरक समान ॥ ६३ ॥

हे प्राणनाथ ! हे करुणा के धाम ! हे सुन्दर गुण देने वाले, चतुर रामजी ! हे रघुबंश, रघो कमल के छिलाने वाले चन्द्रमा ! आपके बिना मुझे स्वयं-लोक भी नरकके समान है।

मातु पिता भगिनी प्रिय भाई * प्रिय परिवार सुहृद समुदाई
सासु ससुर गुरु सुजन सहाई * सुत सुन्दर सुसौलु सुखदाई

माता, पिता, बहिन प्यारे कुटुम्बी, मित्रगण, सासु, ससुर, गुरु, स्वजन, सहायक, सुन्दर, सुसौलु और सुप्रदायक पुत्र भादि-

जहँ लगि नाथ नेह अरु नाते * पियविनु तियहि तरनिहुते ताते
तनु धनु धाम धरति पुर राजू * पति विहीन सबु सोक समाजू

हे स्वामी ! जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, ये सब पति के बिना स्वों को मृत से भी अधिक तपाने वाले हैं, देह, धन, धर, भूमि, नगर और राज्य-ये सब पति के बिना दुःख के समूह हैं।

भोग रोग सम भूषन भारू * जम जातना सरिस संसार
प्राणनाथ तुम्ह विनु जग माहों * मो कहूँ सुखद कतहूँ कष्टु नाहों

भोग-रोग के समान, गहने-भोज के समान और संसार-यम पातना के समान है। हे प्राणनाथ ! आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुप्रदायक नहीं है।

जिय विनु देह नदी विनु चारो * तैसेइ नाथ पुरुष सम नारो
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारें * सरद विमल विधु वदनु निहारें

हे नाथ ! जैसे जीवन के बिना देह और जम के बिना नदी हो, धँपे हो पति के बिना स्वों। हे नाथ ! आपके साथ में शरद-शत्रु के निर्मल चन्द्रमा के समान आरने गुण को देखने से मुझे सब सुख होंगे।

दोहा-खग मृग परिजन नगर वनु, बलकल विमल डुकूल।

नाथ साथ सुर सदन सम, परनताल सुख मूल ॥ ६४ ॥

सोइ तुम्ह उपाय करेहु सब, पुरजन परम प्रवीन ॥७८॥

हे परम चतुर अयोध्यावासियो! सब लोग मिलकर वही प्रयत्न करना-जिससे मेरी सब मातायें मेरे वियोग के दुःख से दुःखी तथा दीन न हों।

एहि विधि रात सबहि समझाना * गुरु पद पदुम हरषि सिरु नावा
गनपति गौरि गिरीसु मनाई * चले असीस पाइ रघुराई

श्रीरामजीने इस प्रकार सबको समझाया और आनन्द पूर्वक गुरुजी के चरण-कमलोंमें सिर नवाया फिर गणेश, गौरी और शिवजी को मनाकर और आशीर्वाद पाकर श्रीरामजी चले।

रासु चलत अति भयउ विषादू * सुनि न जाइ पुर आरत नादू
कुसगुन लङ्क अवध अति सोकू * हरष विषाद बिबस सुरलोकू

श्रीरामजीके चलते ही सबको बड़ा दुख हुआ, हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में अशकुन हुए और अयोध्या में अति शोक छागया। देवलोकमें देवता हर्ष और विशादके वश हो गये।

गइ सुरछा तब भूपति जागे * बोलि सुमन्त कहन अस लागे
रासु चले वन प्रान न जाहीं * केहि सुख लागि रहत तनु माहीं

सुर्छा दूर हुई, तब राजा जागे और सुमन्त को बुलाकर ऐसे बोले-श्रीरामजी तो वनको जा रहे हैं, परन्तु मेरे प्राण नहीं जाते। न जाने किस सुख के लिये शरीर से अटक रहे हैं?

एहि तें कवन व्यथा बलवाना * जो दुखु पाइ तजहि तनु प्राना
पुनि धरि धीर कहइ नरनाहू * लै रथ सङ्ग सखा तुम्ह जाहू

इससे अधिक बलवान और कौनसी व्यथा होगी-जिस दुखको पाकर प्राण इस शरीर को छोड़ेंगे? फिर धैर्य धरकर राजा ने मन्त्री से कहा-तुम रथ लेकर श्रीरामजी के साथ जाओ।

दोहा-सुठि सुकुमार कुमार दोउ, जनकसुता सुकुमारि।

रथ चढ़ाइ देखराइ बन, फिरेहु गएँ दिन चारि ॥७९॥

दोनों सुन्दर पुत्र सुकुमार हैं और जानकीजी तो बहुत ही सुकुमारी हैं। तुम उन्हें रथ पर चढ़ाकर वन दिखलाकर चार दिन बाद लौट आना।

जाँ नहिं फिरिहिं धीर दोउ भाई * सत्यसिंधु दृढ व्रत रघुराई
तौ तुम्ह विनय करहु कर जोरी * फेरिअ प्रभु मिथिलेस किसोरी

यदि धैर्यधारी दोनों भाई न लौटें, क्योंकि श्रीरघुनाथजी सत्यके समुद्र और दृढ प्रतिज्ञ हैं, तो तुम हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करना कि हे प्रभु! जानकीजी को तो लौटा दीजिये।

जब सिय कानन देखि डेराई * कहेहु मोर सिख अवसर पाई
सासु ससुर अस कहेउ सँदेसू * पुत्रि फिरिअ वन बहुत कलेसू

जब सीताजी वनको देखकर डरें-तब अवसर पाकर मेरी सीख कहना कि तुम्हारी सासु और ससुर ने यह सन्देश कहा है कि हे पुत्री! तुम लौट आओ, वन में बहुत क्लेश हैं।

वार वार मृदु मूर्ति जोही ❀ लागहि ताति वयारि न मोही
 समतल भूमि पर पात और वृषों के पत्तों बिछाकर यह दासों रातभर आपके गरम
 दबाया करेगी । वारम्बार आपको मधुर मूर्ति को देखने में मुताबकी गरम ह्या नहीं लगेगी ।
 को प्रभु संग मोहि चितवनिहारा ❀ सिंह बधुहि जिमि ससक सियारा
 मैं सुकुमारि नाथ वन जोगू ❀ तुम्हहि उचित तपमो कहूँ भोगू
 प्रभु के साथ रहते हुए मेरी ओर देखने पाता कौन है ? जंगे निहनों को पहरा, गियार
 आदि नहीं देख सकते । हे नाथ ! क्या मैं सुकुमारो और आप वन के योग्य हैं ? क्या आपको
 तपम्या और मुझको भोग-विलास उचित है ?

दोहा—ऐसेउ वचन कठोर सुनि, जो न हृदय विलगान ।

तौं प्रभुविषम वियोग दुखु, सहिहहि पाँवर प्राण ॥६६॥

हे प्रभु ! जो ऐसे कठोर वचन सुनकर मो मेरा कठोर हृदय नहीं फटा, तो ये मोच प्राण
 आपके वियोगके कठिन दुःख को भी सह लेंगे ।

अस कहि सिय विकल भइ भारी ❀ वचन वियोग न सकी संभारी

देखि दसा रघुपति जियेँ जाना ❀ हठ राखेँ नहिँ राखिहि प्राणा

ऐसे कहकर सोताजी बहुत व्याकुल होगई, वियोगके वचनों को भी न संभार सकी । ऐसी
 दसा देखकर रघुनाथजी ने अपने हृदय में जाना कि यहाँ रहने से यह प्राण नहीं रखेगी ।

कहेउ कृपालु भानुकुल नाथा ❀ परिहरि सोचु चलहु वन नाथा

नहिँ विपाद कर अवसर आजू ❀ वेगि करहु वन गवन समाजू

तब सूर्यबंध के स्वामी दयालु श्रीरामजी ने कहा कि मोचको छोड़कर हमारे साथ वनको
 चलो । आज दुःख करने का अवसर नहीं, शीघ्र ही वन को चलने का गामान दूर टूटा करो,

कहि प्रिय वचन प्रिया समुझाई ❀ लगे मातु पद आसिप पाई

वेगि प्रजा दुख भेटव आई ❀ जननी निरुर विसरि जनि जाई

ऐसे प्रिय वचन कहकर प्रिया जानकीजी को समझाया, फिर माता के चरण दूर धोर
 आसोबादि प्राप्त किया । माता बोलो-हे बेटा ! जन्मो लौटकर प्रजा का दुःख दूर करना तथा

निष्कुर माता को भूल न जाना ।

फिरिहिदसा विधि बहुरि किमोरी ❀ देखिहुँ नयन मनोहर जोरी

सुदिन सुधरी तात कब होइहि ❀ जननी जियत बदनविधु जोइहि

हे बिधाता ! क्या फिर कभी मेरी दगा कियेगी, जो मैं नेत्र करकर मनोहर जोरी देखूँगी ? हे
 पुत्र ! वह शुभ दिन व शुभ घड़ी कब होगी, जबकि माता जोतेभी मुझको पश्यमुख को देखेगी ?

दोहा—बहुरि बच्छ कहिलाल कहि, रघुपति रघुवर तात ।

कबहिँ बोलाइ लगाइ उर, हरपि निरचिहुँ गात ॥६७॥

हे पुत्र ! फिर हे 'पाम' 'नाम' 'रघुपति' 'रघुवर' कहकर कब मुझको मुताबक हृदय में

सारस, हंस, चकोर आदि जीव-

राम वियोग बिकल सब ठाढ़े * जहँ तहँ मनहुँ चित्र लिखि काढ़े
नगरु सफल वनु गहवर भारी * खग मृग विपुल सकल नरनारी

श्रीरामजी के वियोग में व्याकुल जहाँ-तहाँ सब ऐसे खड़े रह गये, मानो चित्र में लिख दिये हों। सम्पूर्ण संसार मानो भारी सघन-वन होगया, उसमें सब नर-नारी ही मानो बहुत से पशु-पक्षी हैं।

विधि कैकई किरातिनि कोन्ही * जेहिं द्रव दुसह दसहुँ दिसि दोन्ही
सहि न सके रघुवर बिरहागी * चलै लोग सब व्याकुल भागी

विधाता ने कैकई को मीलनी बनाया, जिसने वन की दशों दिशाओं में दुःसह द्वाग्नि लगादी। जब श्रीरामजी की बिरहरूपी अग्नि को न सह सके, तब सब लोग घबड़ाकर भाग चले।

सबहिं विचार कोन्ह मन साहीं * राम लखन सिय बिनु सुख नाही
जहाँ राम तहँ सबुइ समाजू * बिनु रघुवीर अवध नहिं काजू

सबने अपने-अपने मन में विचार किया कि श्रीरामजी, लक्ष्मणजी व सीताजी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्रीरामजी हैं-वहाँ ही सारा समाज रहेगा, बिना श्रीरघुनाथजी के अयोध्या में क्या काम है ?

चले साथ सब मन्त्रु हृदाई * सुर दुर्लभ सुख सदन विहाई
राम चरन पङ्कज प्रिय जिन्हही * विषयभोग बस करहिं कि तिन्हही

इस तरह पक्का विचार करके देवताओं को भी दुर्लभ ऐसे सुखदायक घरों को त्याग कर श्रीरामजी के साथ चले। जिन्हें श्रीरामजी के चरणारविंद प्यारे हैं, उन्हें क्या विषय-भोग वश में कर सकते हैं ?

दोहा-बालक वृद्ध बिहाय गृहँ, लगे लोग सब साथ।

तमसा तीर निवासु किय, प्रथम दिवस रघुनाथ ॥८२॥

बालकों और वृद्धों को घर में छोड़कर सब लोग श्रीरामचन्द्रजी के साथ चले। पहले दिन श्रीरामजी ने तमसा-नदी के किनारे निवास किया।

रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी * सदय हृदय दुख भयउ विशेषी
करुनाशय रघुनाथ गोसाँई * बेगि पाइअहिं पीर पराई

प्रजा को प्रेम के दश देखकर श्रीरामजी के दयालु हृदय में बहुत दुःख हुआ। दया से परिपूर्ण स्वामी श्रीरघुनाथजी पराये दुःख को जल्दी समझ लेते हैं।

कहि सप्रेम मृदु बचन सुहाए * बहुविधि राम लोग समुझाए
किए धरम उपदेश धनैरे * लोग प्रेम बस फिरहिं न फेरे

श्रीरामजी ने प्रेम भरे मधुर और सुहावने बचन कहकर बहुत प्रकार से लोगों को समझाया। और धर्म-सम्बन्धी अनेक उपदेश सुनाये, परन्तु प्रेम के मारे लोग लौटाने से भी नहीं लौटते।

सीलु सनेहु छाँड़ि नहिं जाई * असमंजस अस भे रघुराई

वार वार मृदु मूर्ति जोही * लागहि ताति वयारि न मोही

समतल भूमि पर घास और वृक्षों के पत्ते बिछाकर यह दासी रातभर आपके चरण दबाया करेगी। वारम्बार आपकी मधुर मूर्ति को देखने से मुझको गरम हवा नहीं लगेगी।

को प्रभु सँग मोहि चितवनिहारा * सिंह वधुहि जिमि ससक सियारा
मैं सुकुमारि नाथ वन जोगू * तुम्हहि उचित तप मो कहूँ भोगू

प्रभु के साथ रहते हुए मेरी ओर देखने वाला कौन है? जैसे सिंहनी को खरहा, सियार आदि नहीं देख सकते। हे नाथ! क्या मैं सुकुमारी और आप वन के योग्य हूँ? क्या आपको तपस्या और मुझको भोग-विलास उचित है?

दोहा—ऐसेउ वचन कठोर सुनि, जौ न हृदय विलगान।

तौं प्रभुविषम वियोग दुखु, सहिहहि पाँवर प्रान ॥६६॥

हे प्रभु! जो ऐसे कठोर वचन सुनकर भी मेरा कठोर हृदय नहीं फटा, तो ये नीच प्राण आपके वियोगके कठिन दुःख को भी सह लेंगे।

अस कहि सियविकल भइ भारी * वचन वियोग न सकी सँभाली

देखि दसा रघुपति जियँ जाना * हठ राखें नहिं राखिहि प्राना

ऐसे कहकर सीताजी बहुत व्याकुल होगई, वियोगके वचनों को भी न सँभाल सकीं। ऐसी दशा देखकर रघुनाथजी ने अपने हृदय में जाना कि यहाँ रहने से यह प्राण नहीं रक्खेगी।

कहेउ कृपालु भानुकुल नाथा * परिहरि सोचु चलहु वन साथा

नहिं विषाद कर अवसरु आजू * वेगि करहु वन गवन समाजू

तब सूर्यवंश के स्वामी दयालु श्रीरामजी ने कहा कि सोचको छोड़कर हमारे साथ वनको चलो। आज दुःख करने का अवसर नहीं, शीघ्र ही वन को चलने का सामान इकट्ठा करो,

कहि प्रिय वचन प्रिया समुझाई * लगे मातु पद आसिष पाई

वेगि प्रजा दुख मेटव आई * जननी निठुर विसरि जनि जाई

ऐसे प्रिय वचन कहकर प्रिया जानकीजी को समझाया, फिर माता के चरण छुए और आशीर्वाद प्राप्त किया। माता बोली—हे बेटा! जल्दो लौटकर प्रजा का दुःख दूर करना तथा निठुर माता को भूल न जाना।

फिरिहिदसा विधि बहुरि किमोरी * देखिहुँ नयन मनोहर जोरी

सुदिन सुघरी तात कव होइहि * जननी जियत वदनविधु जोइहि

हे विधाता! क्या फिर कभी मेरी दशा फिरेगी, जो मैं नेत्र फरकर मनोहर जोड़ी देखूँगी? हे पुत्र! वह शुभ दिन व शुभ घड़ी कब होगी, जबकि माता जीतेजी तुम्हारे चन्द्रमुख को देखेगी?

दोहा—बहुरि बच्छ कहिलाल कहि, रघुपति रघुवर तात।

कवहि बोलाइ लगाइ उर, हरषि निरखिहुँ गात

हे पुत्र! फिर हे 'वत्स' 'लाल' 'रघुपति' 'रघुवर' कहकर कब तुमको बुलाकर

उतरे राम देवसरि देखी * कीन्ह दण्डवत हरष विसेषी

दोनों भाई सीता और मन्त्री सुमन्त सहित शृङ्गवेरपुर पहुँचे । गङ्गाजी को देखकर श्रीरामजी रथ से उतर पड़े और बड़े आनन्द के साथ दण्डवत की ।

लखन सच्चिदं सियँ किए प्रनामा * सबहि सहित सुखु पायउ रामा

गङ्ग सकल सुद सङ्गल मूला * सब सुखु करनि हरनि सब सूला

लक्ष्मणजी, सुमन्त व सीताजी ने भी प्रणाम किया । सबके साथ श्रीरामजी ने सुख पाया । गङ्गाजी सम्पूर्ण मङ्गलों की जड़ हैं, वे सब सुखों को करने वाली और सब दुःखों को हरने वाली हैं ।

कहि कहि कोटिक कथा प्रसङ्गा * रामु विलोकहि गङ्ग तरङ्गा

सच्चिदहि अनुजहि प्रियहि सुनाई * बिबुध नदी महिमा अधिकारि

करोंडों कथाओं के प्रसंग कहकर श्रीरामजी गङ्गाजी की तरङ्गों को देखने लगे । उन्होंने सुमन्त, लक्ष्मणजी व सीताजी को देव-नदी (गंगाजी) की बड़ी महिमा सुनाई ।

सज्जनु कीन्ह पन्थ श्रम गयऊ * सुचि जल पिअत सुदितमन भयऊ

सुमिरत जाहि मिटइ श्रम भारू * तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू

फिर उन्होंने स्नान किया, तो मार्ग का श्रम जाता रहा और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न होगया जिसके स्मरण मात्र से संसारका श्रम मिट जाता है, उनके लिए 'श्रम' कहना यह सांसारिक रीति है ।

दौहा-शुद्ध सच्चिदानन्द सय, चन्द भानुकुल केतु ।

चरित करत नर अनुहरत, संसृत सागर सेतु ॥८५॥

श्रीरामजी तो शुद्ध सत-चित्त-आनन्द से परिपूर्ण और सूर्यवंशियों में श्रेष्ठ हैं । उनके मनुष्यों के अनुसार चरित्र भवसागर को पार करने के लिए पुल के समान हैं ।

यह सुधि गुहँ निषाद जब पाई * सुदित लिए प्रिय बन्धु बोलाई

लिए फल मूल भेंट भरि भारा * मिलन चलेउ हियँ हरषु अपारा

जब यह समाचार निषादराज ने पाया, तब उसने प्रसन्न होकर अपने बन्धुओं को बुलाया । भेंट के लिए फल और कंद-मूल वहाँगियों में भरकर मिट्टने चला, उसके हृदयमें अपार आनन्द पा ।

करि दण्डवत भेंट धरि आगे * प्रभुहि विलोकत अति अनुरागे

सहज सनेह बिबस रघुराई * पूछी कुशल निकट बैठाई

दण्डवत कर भेंट आगे रखकर बड़ी प्रीति के साथ प्रभु की ओर देखने लगा । स्वाभाविक प्रेम के दश में होकर श्रीरघुनाथजी ने गुह निषाद को अपने निकट बैठाकर कुशल पूछी ।

नाथ कुशल पद पङ्कज देखे * भयउँ भाग्य भाजन जन लेखे

देवि धरनु धनु धामु तुम्हारा * मैं जनु नीचु सहित परिवारा

(गुहबोला-) हे नाथ ! आपके चरणकमलों के दर्शन से सब कुशल है । आज मैं भाग्यवान् मनुष्यों में गिने जाने योग्य होगया । हे देव ! यह भूमि और धन-धाम सब आपका ही है ।

राम बिलोकि बन्धु कर जोरें * देह गेह सब सन तूनु तोरें

मेरे लिए श्रीरघुनाथजी क्या कहेंगे ? घर ही रखेंगे अथवा साथ ले जावेंगे ? श्रीरामजी ने देखा कि भाई लक्ष्मण हाथ जोड़े खड़े हैं और देह तथा घर सबसे नाता तोड़ दिया है।

श्रोले वचन राम नय नागर * सील सनेह सरल सुखसागर
तात प्रेम बस जनि कदराहू * समुद्धि जियँ परिनाम उछाहू

तब नीति में निपुण, शील, स्नेह, सरल और सुख के समुद्र श्रीरामजी यह वचन बोले- तात ! अपने हृदय में अन्त में आनन्द समझ कर, प्रेम के वश होकर दुखी मत होओ।

शोहा—मातु पिता गुरु स्वामि सिख, सिरधरि करहि सुभायँ।

लहेउ लाभु तिन्ह जनम कर, नतरु जनमु जग जायँ ॥६८॥

जो माता-पिता, गुरु और स्वामी की शिक्षा को शिरोधार्य कर स्वभाव से ही उसका पालन करते हैं, वे जन्म लेने का लाभ पाते हैं—नहीं तो संसार में जन्म ब्रथा ही है।

अस जियँ जानि सुनहु सिख भाई * करहु मातु पितु पद सेवकाई
भवन भरतु रिपुसूदन नाहीं * राउ वृद्ध मम दुखु मन माहीं

हे भाई ! जी में ऐसा जानकर मेरी शिक्षा सुनो और माता-पिता के चरणों की सेवा करो। पर पर भरत और शत्रुघ्न नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं, उनके मनमें मेरे बन जाने का दुःख है।

मैं बन जाऊँ तुम्हहि लेइ साथ * होइ सबहि विधि अवध अनाथा
गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु * सब कहूँ परइ दुसह दुख भारु

यदि तुम्हें साथ लेकर बन को जाऊँ तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जायगी। गुरु, माता-पिता और कुटुम्बी—इन सबको भारी दुसह दुःख सहना पड़ेगा।

रहहु करहु सब कर परितोषू * नतरु तात होइहि बड़ दोष
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी * सो नृप अवसि नरक अधिकारी

तुम घर पर रहकर सबको सन्तुष्ट करते रहना, नहीं तो—हे तात ! बड़ा दोष होगा। जैसेके राज्य में प्रिय-प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है।

रहहु तात असि नीति विचारी * सुनत लखनु भए व्याकुल भारी
सिअरें वचन सूखि गए कैसें * परसत तुहिन ताम रसु जैसें

हे तात ! ऐसी नीति विचारकर यहाँ रहो। यह सुनते ही लक्ष्मणजी बहुत व्याकुल होगये। इन गीतल वचनों से लक्ष्मणजी ऐसे सूख गये, जैसे पाला पड़ने से कमल सूख जाता है।

शोहा—उतरु न आवत प्रेम बस, गहे चरन अकुलाइ।

नाथ दासु मैं स्वामि तुम्ह, तजहु तौ काह बसाइ ॥७०॥

प्रेम के मारे लक्ष्मणजी से उत्तर देते नहीं बनता, धवरा कर श्रीरामजी के चरण पकड़ लिये और कहा हे नाथ ! मैं सेवक हूँ और आप स्वामी हैं, यदि आप छोड़ ही दें, तो मेरा क—

कष्टक दरि सजि वान सरासन * जागन लगे वैठि वीरासन

प्रभु को सोते हुए जानकर लक्ष्मणजी उठे और मन्त्री सुमन्त को सोने के लिए मधुर वाणी से कहकर कुछ दूर पर धनुष-बाण सजाकर वीर वीरासन से दँठकर जागने लगे ।

गुहँ बोलाइ पाहुरु प्रतीती * ठाँव ठाँव राखे अति प्रीती
आपु लखन पहि बैठेउ जाई * कटि भाथी सर चाप चढ़ाई

गुह ने विध्वंसो पहरेदार बुलाकर बड़े प्रेम से जगह २ पर खड़े कर दिये और आप भी कमर में तरकस फसल, धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मणजी के पास जाकर बैठ गया ।

सोवत प्रभुहि निहारि निषाद * भयउ प्रेम बस हृदयँ निषाद
तन पुलकित जलु लोचन बहई * बचन सप्रेम लखन सन कहई

निषादराज-प्रभु श्रीरामजी को सोते हुए देखकर स्नेह बस अपने मन में बहुत दुःखी हुआ । शरीर में रोमांच हो आया, नेत्रों से आंसू बहने लगे और प्रेम के साथ लक्ष्मणजी से यह वचन कहने लगा--

भूपति भवन सुभायँ सुहावा * सुरपति सदन न पटतर आवा
सनिषय रचित आरु चौबारे * जनु रतिपति निज हाथ सँवारे

दमारथजी का राजमहल तो स्वभाव से ही ऐसा सुन्दर है कि इन्द्र-भवन भी उसकी गमता नहीं कर सकता । मणियों से जड़े हुए उसके चौबारे हैं, मानो कामदेव ने अपने हाथों से सजाये हों ।

दोहा-सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगन्ध सुवास ।

पलङ्ग संजु सति दीप जहँ, सब विधि सकल सुपास ॥८८॥

स्वच्छ, विचित्र, सुन्दर, भोग्य-पदार्थ से परिपूर्ण, सुन्दर पुष्पों से सुगन्धित, जहाँ सुन्दर फलों विष्टे हुए हैं और मणियों के दीपक हैं तथा हर प्रकार का आराम है ।

विविध वसन उपधान तुराई * छीर फेन बृदु विषद सुहाई
तहँ सियरामु सयन निद्रि करहीं * निज छद्विरति मनोज मदु हरहीं

जहाँ अनेक प्रकार के वस्त्र, सुन्दर तकियों और तोपक हैं, दूध के फेन के समान सफेद, कोमल और सुन्दर शैया हैं, उन पर श्रीसीता-रामजी रात्रि को शयन करते हुए अपनी शोभा से रति और कामदेव के अस्मिमान को भी हरते हैं ।

ते सिय राम साथरी सोए * श्रमित बसन विनु जाहि न जोए
मातु पिता परिजन पुरवासी * सखा सुसील दास अरु दासी

यहाँ श्रीसीता-रामजी भक्ति हो, पिना विछोने के कुछ और पत्तों की सेज पर सो रहे हैं, जो देखे नहीं जाते । माता, पिता, कुटुम्बी, नगर-निवासी, लडा, सुन्दर स्वभाव वाले दास और दासियाँ-जोयर्वाहे जिन्हेंहि प्राण की नाई * सहि सोवत सोइ राम गोसाई

पिता जनक जग विदित प्रभाऊ * ससुर सुरेश सखा रघुराऊ
ये सब प्राणों के समान जिनको रखा करते थे, वही प्रभु श्रीरामजी पृथ्वी पर सो रहे हैं ।

उदास मन देष माताने कारण पूछा, लक्ष्मणजी ने विस्तार में सब बताया कर सुनाई। ऐसे कठोर
 वचन सुनकर माता ऐंसे धबड़ाई, जैसे वन में धारों और बाग सगो देखकर शिरको मरम जाती है।
 लखन कहेउ भा अनरथ आजू * एहि सनेह बस करव अकार
 मांगत विदा भयऊ सखुचाही * जाउं सङ्गविधि कहहि कि नाहं

लक्ष्मणजी ने कहा कि धाज अनर्थ हुआ यह स्नेह के बस काम बिगाड़ देंगे। इस कारण
 के मारे विदा मांगते हुए सखुचाने लगे-हे विधाता ! सङ्ग जाने की माता करेंगे या नहीं ?

दोहा-समुझि सुमित्रा राम सिय, रूप सुतील सुभाड।

नृप सनेह लखि धुनेऊ सिर, पापिन्ह कीन्ह कुदाउ ॥७२॥

सुमित्रा ने श्रीरामजी व सीताजी के सुन्दर रूप, शोभ और म्भभाव को ज्ञान व गम
 के स्नेह को देखकर सिर धुना और कहा-पापिनी कंकई ने दुरा राय किया।

धीरजु धरेउ कुअवसर जानी * सहज सुहृद वोलि मृदुवानं
 तात तुम्हारि मातु वैदेही * पिता रामु सब भांति सनेहं

स्वाभाविक सुन्दर हृदय वाली सुमित्रा ने कुममय जानकर धर्ये धारण किया और कामल भाव
 से बोली-हे पुत्र ! जानकी तुम्हारी माता हैं, सब भांति से स्नेह करने वाले श्रीरामजी तुम्हारे सखा
 अवध तहाँ जहाँ राम निवासू * तहँड दिवस जहाँ भानु प्रकार
 जी पै सोय रामु वन जाहौं * अवध तुम्हार काजु कष्ट नाहं

वही अपोष्मापुरी है, जहाँ श्रीरामका निवास है। वही दिन होता है जहाँ मृषे का प्रकाश हो
 यदि सोता और श्रीरामजी निरचय हो वन जाते हैं, तो अपोष्मा में तुम्हारा कुछ काम नहीं है।

गुरु पितु मातु बन्धु सुर साई * सेइय सकल प्रान की ना
 रामु प्रानप्रिय जीवन जी के * स्वारथ रहित सखा सबही के

गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और म्यामी-इन सबकी प्राणों के ममान सेवा करना
 चाहिए। श्रीरामचन्द्रजी तो सबही के प्राण-प्रिय, हृदय के जीवन और बिना स्वार्थ के मगज हैं।

पूजनीय प्रिय परम जहाँ तें * सब मानिअहि राम के नाते
 अस जियँ जानि सङ्ग वन जाहू * लेहु तात जग जीवन लाहू

जहाँ तक पूजनीय व प्रियजन हैं, वे सबही श्रीरामचन्द्रजी के सम्बन्ध में ही माने जाते हैं। हे पुत्र !
 ऐसा मनमें जानकर श्रीरामजी के साथ-वन को जाओ और जगत में जीवन का साम लो।

दोहा-भूरि भाग्य भाजन भयहु, मोहि समेत वलि जाउं ।

जी तुम्हरे मन छाँड़ि छल, कीन्ह रामपद ठाउं ॥७३॥

मैं बतैया सेती हूँ। मुझ समेत तुम बड़े ही भाग्यवान हो, जो उन-बन्द छोड़कर अपने
 मन ने श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है।

पुत्रवती जुवती जग सोई * रघुपति भगति जासु सुत

ऐसा विचार कर श्रेय नहीं करना चाहिए और किसी को व्यर्थ में दोष भी नहीं देना चाहिए। सब मोहकरी रात्रि में सोने वाले हैं, उन्हीं में भाँति-भाँति के स्वप्न देखते हैं।

गृहि जग जागिनि जागहि जोगी * परमार्थी प्रपञ्च वियोगी
जानिअ तवहि जीव जग जाना * जब सब विषय विलास विरागा

इस प्रकारकरी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थ और प्रपञ्च से त्यागे हुए हैं। जगत में जीव को तब ही जागता हुआ जानना चाहिए, जब वह विषयों से विरक्त हो जाय।

होइ विवेकु मोह भ्रम भ्रमा * तव रघुनाथ चरन अनुरागा
सखा परस परमार्थ ऐह * मन क्रम वचन राम पद नेह

जान होने से मोह और भ्रम जाता रहता है तब श्रीरघुनाथजी के चरणों में अनुराग होता है। हे भ्रमा ! परमार्थ यही है कि मन, क्रम और वचन से श्रीरामजी के चरणों में लनेहो।

राम ब्रह्म परमार्थ रूपा * अविगत अलख अनादि अनपा
सकल विकार रहित गत भेदी * कहि नित नेति निरुपाहि वेदी

श्रीरामनाथजी ब्रह्म और मोक्ष-स्वरूप हैं। वे अविगत, अदृश्य, अनुपम सभी विकारों से रहित और नेद मुक्त हैं। वेद 'निति-नेति' कहकर उनका निरूपण करते हैं।

बोहा-भगत भूसि भूसुर सुरभि, सुर हित लागि कृपाल।

दारत चरित धरि तनुज तनु, सुनत सिटहि जग जाल ॥३१॥

नदस, पृथ्वी, वायुण, गौ और देवता—इनके निमित्त कृपालु जगदान अनुपम-बेह धारण कर जाता करते हैं। जिनके चरित्र सुनने से संसार के बन्धन दूर हो जाते हैं।

जखा सनुषि अन्न परिहरि मोह * सिय रघुवीर चरन रत होह
कहत राम गुन भा भिनुसारा * जागे जग मङ्गल सुखदारा

इसका ऐसा सनत, मोह को त्यागकर श्रीसीतारामजी के चरणों में मन लगाओ। इस प्रकार श्रीरामजी के गुण-गान करते हुए सखेरा हुआ और जगत के मंगल-दाता श्रीरामजी जागे।

सकल शौच करि राम तहावा * शुचि सुजान बट क्षीर मँगावा
अनुज सहित सिर जटा बनाए * देखि सुमन्त्र नयन जल छाए

परम पवित्र श्रीरामजी ने शौच किया करके स्नान किया, फिर बट-दूध का दूध मँगाया और सभ्यता सहित सिर पर जटा बनाई, यह देखाकर सुमन्त्रजी के नेत्रों में जल भर आया।

हृष्ये वाहु अति वदन सलीना * कह कर जोरि वचन अति दीना
नाथ कहेउ अन्न कोसलनाथा * लै रथु जाहु राम के साथ

हृष्य में भरी वचन पूर्व, मुख यकीन हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यन्त दीन वचन बोले—हे नाथ ! कोसलनाथान दशरथजी ने मुझसे ऐसा कहा है कि तुम रथ लेकर श्रीरामजी के साथ जाओ।

कहहिं परस्पर पुर नर नारी * भलि बनाइ विधि बात बिगारी
तनु कृस मन दुखु बदन मलीने * बिकल मनहुं माखी मधु छीने

नगर के स्त्री-पुरुष आपस में कहने लगे कि विधाता ने बात बनाकर बिगाड़ दी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास होगये हैं। ऐसे दुखी हैं—जैसे राहद के छिन जाने से मधु-मखियाँ दुखी हो जाती हैं।

कर मीजाहिं सिर धुनि पछिताही * जनु विनु पंख विहंग अकुलाहीं
भइ बड़ि भीर भूप दरवारा * वरनि न जाइ विषाद अपारा

सब हाथ मलने और सिर धुनकर पछताने लगे, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राज-द्वार पर बड़ी मीड़ होगई, उनका अपार दुःख कहा नहीं जाता।

सचिवँ उठाइ राउर बैठारे * कहि प्रिय वचन राम पगुधारे
सिय समेत दोउ तनय निहारी * व्याकुल भयउ भूमिपति भारी

मन्त्री ने महाराज दशरथजी को यह मधुर वचन कहकर कि 'श्रीरामजी आये हैं,' उठा कर बैठाया। सीताजी समेत दोनों भाइयों को देखकर राजा बड़े व्याकुल हुए।

दोहा—सीय सहित सुत सुभग दोउ, देखि देखि अकुलाइ।

वारहिं वार सनेह बस, राउ लेइ उर लाइ ॥७४॥

सीताजी सहित दोनों सुन्दर पुत्रों को देख-देखकर धमड़ा कर महाराज दशरथजी वारम्बार स्नेह के वश होकर उन्हें हृदय से लगाने लगे।

सकइ न बोलि विकल नरनाहू * सोक जनित उर दारुन दाहू
नाइ सीसु पद अति अनुरागा * उठि रघुवीर विदा तव मांगा

राजा व्याकुल थे, बोल नहीं सकते, शोक से उत्पन्न फठिन जलन हृदय में है। उसी समय श्रीरामचन्द्रजी ने उठकर बड़े प्रेमसे चरणों में मस्तक नवाकर वन जाने के लिये विदामांगी।

पितु आसीस आयसु मोहि दीजै * हरष समय विसमउ कत कीजै
तात किए प्रिय प्रेम प्रसादू * जसु जग जाइ होई अपवादू

और बोले—हे पिताजी! मुझे आशीर्वाद देकर आज्ञा दीजिए। आनन्द के समय आप दुःखियों करते हैं? हे तात! प्रिय के प्रेम से मोह करने से जगत में यश जाता रहेगा व आपकी निन्दा होगी।

सुनि सनेह बस उठि नरनाहाँ * बैठारे रघुपति गहि बाहाँ
सुनत तात तुम्ह कहूँ मुनि कहहीं * रामु चराचर नायक अहहीं

यह सुनकर स्नेह वश राजा ने उठकर श्रीरामजी की बांह पकड़ कर उन्हें बँटा लिया। (और बोले) हे राम! सुनो, मुनिजन कहते हैं कि श्रीरामजी चराचर के स्वामी हैं।

सुभ अरु असुभ करम अनुहारी * ईसु देइ भलु हृदय विचारी
करइ जो करम पाव फल सोई * निगम नीति अस कह सबु कोई

भले और बुरे कर्मों के अनुसार मन में विचार कर ईश्वर फल देता है। जो जैसा कर्म करता है, वंसा ही फल पाता है! ऐसी वेदों की नीति है और सब यही कहते हैं।

गन्ता है कि सब प्रकारसे आपका भी कर्तव्य है कि जिससे पिताजी हमारे सोचमें दुःख न पावें।
 सुनि रघुनाथ सचिव सस्वादा * शयउसपरिजन विकल निषादा
 पुनि कष्टु लखन कही कटु बानी * प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी

श्रीरामजी और सुमन्त का सम्वाद पुन कुटुम्ब सहित निषाद व्याकुल हो गया। फिर नन्दनजी ने कुछ कटु वचन कहे, तो प्रभु ने बहुत ही अनुचित जानकर उन्हें रोक दिया।
 सकुचि राम निज सपथ देवाई * लखन सँदेसु कहिअ जनिजाई
 कह सुमन्त पुनि भूप सँदेसू * सहिनसकिय सिय विपिनकलेसू

श्रीरामजी ने सकुचाकर सुमन्त को अपनी सीगन्ध दिलाई कि लक्ष्मण का संदेश वहाँ जाकर नहीं पहुँचा। सुमन्त ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीताजी वनके कष्टोंको न सह सकेंगी।
 जेहि विधिअवधआवफिर सीया * सोइ रघुवरहि तुहहि करनीया
 नतर निपट अवलम्ब बिहीना * सैन जिअब जिमि जल बितुसीना

अतः जिस तरहसे सीतापुरी को लौट आवें, वही तुमको और श्रीरामजीको करना चाहिए। नहीं तो कुछ भी उधारा होने से मैं ऐसे नहीं जीऊँगा, जैसे जल के बिना मछली नहीं जीती।
 दोहा—मइकेँ ससुरेँ सकल सुख, जबहिं जहाँ सनु भान ।

तव तहँ रहहि सुखेन सिय, जब लगि विपति दिहान ॥६४॥

श्रीसीताजी के माय के और ससुराल में सब प्रकार के सुख हैं, अतः जब जहाँ मन करे, वहाँ गुरु पूर्वक रहें—जब तक विपत्ति का समय निकल जाय।

बिनती भूप कीन्ह जेहि भाँती * आरति प्रीति न सो कहि जाती
 पितु सँदेसु सुनि कृपानिधाना * सियहिदीन्ह सिख कोटि विधाना

राजा ने जिस दुःख और प्रेम के साथ प्रार्थना की है, हे रामजी ! वह कही नहीं जाती। पिता का संदेश सुनकर कृपानिधान श्रीरामजी ने जानकीजी को करोड़ों भाँतिसे मिथ्यादी।

सानु ससुर सुप्रिय परिवारु * फिरहु तौ सब कर सिटै खभारु
 सुनि पति वचन कहत वैदेही * सुनहु प्रानपति परस सनेही

यदि तुम घर को लौट जाओ तो सानु, ससुर, गुरु और प्रिय कुटुम्बो-इन सबका दुःख दूर हो जाय। पति के वचन सुन सीताजी कहने लगीं—हे प्राणनाथ ! हे परमस्नेही ! सुनिये—
 प्रभु कल्पनालय परस विवेकी * तनु तजि रहित छाँह किसिछेकी
 प्रभा जाइ कहँ भानु बिहाई * कहँ चन्द्रिका चन्दु तजि जाई

आप क्यालय और परम मानवान हैं। परन्तु, हे प्रभो ! छाया शरीर को छोड़कर कैसे भ्रमण कर सकती हैं ? तप को छोड़कर प्रभा कहाँ जा सकती है ? चन्द्रिका चंद्रमा को छोड़कर भाँति जा सकती है ?

पतिहि प्रेमलय बिनय सुनाई * कहत सचिव लन गिरा सुहाई
 तुन्ह पितु ससुरसरित हितकारी * उतर वेउँ फिरि अनुचित भारी

हे श्रीराम! तुम राजा को प्राणों के समान प्रिय हो, दुर्बल राजा शील व स्नेह नहीं छोड़ेंगे।
चाहे पुण्य, उत्तम यश और परलोक नष्ट हो जाय, पर राजा तुमसे वन जाने के लिए नहीं कहेंगे।
अस विचारि सोइ करहु जो भावा * राम जननि सिख सुनि सुख पावा
भूपहि बचन वान सम लागे * करहि न प्रान पयान अभागे

ऐसा विचारकर वही करो, जो तुम्हें भला लगे। श्रीरामजीने माता की सोख सुन सुख पाया, राजा
को यह वचन बाण के समान लगे। वे बोले-हाय! अभागे प्राण अब भी नहीं निकलते।

सोक बिकल मूरछित नरनाहू * काह करिअ कछु सूझ न काहू
राम तुरत मुनि वेष बनाई * चले जनक जननिहि सिर नाई

शोक से व्याकुल हो राजा मूर्छित हो गये। किसी को कुछ नहीं मूझ पड़ा कि क्या
करें। श्रीरामजी तुरत मुनियों का-सा वेप बनाकर माता-पिता को सिर नयाकर चलदिये।

दोहा—सजि वन साजु समाजु सबु, वनिता वन्धु समेत।

बन्दि विप्र गुर चरन प्रभु, चले करि सवहि अचेत ॥७७॥

पत्नी और भ्राता सहित प्रभु श्रीरामजी वन का सब सामान सजाकर, ब्राह्मण और
गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करके सबको अचेत करके चले।

निकसि वसिष्ठ द्वार भए ठाढ़े * देखे लोग विरह दव दाढ़े
कहि विप्र वचन सकल समुझाए * विप्र वृन्द रघुवीर बोलाए

राज-भवन से निकलकर श्रीरामजी-वशिष्ठजी के द्वार पर आ खड़े हुए। वहां देखा
कि लोग विरहाग्नि से दग्ध हो रहे हैं। तब श्रीरघुनाथजी ने सबको प्रिय वचन कहकर
समझा दिया और ब्राह्मणों की मण्डली को बुलाया।

गुरु सन कहि वरषासन दीन्हे * आदर दान विनय बस कीन्हे
जाचक दान मान सन्तोषे * मीत पुनीत प्रेम परितोषे

गुरुजी से कहकर उन्हें चौदह वर्ष के लिए भोजन दिए और आदर, दान, विनय से सबको प्रव्रत
किया। याचकों को दान व मान से सन्तुष्ट किया और मित्रों को सच्चे प्रेम से प्रसन्न किया।

दासी दास बोलाए बहोरी * गुरहि सौपि बोले कर जोरी
सब कै सार सँभार गोसाई * करवि जनक जननी की हरी

फिर दासी और सेवकों को बुलाकर गुरुजी को सौंप, हाथ जोड़कर बोले-
इन सबको देख-भाल आप माता-पिता के समान करते रहियेगा।

बारहिं बार जोरि जुग पानी * कहत रामु सब सन
सोइ सब भाँति मोर हितकारी * जेहि ते रहैं भुआ

फिर बारम्बार हाथ जोड़कर श्रीरामजी सबसे मधुर वाणी से कहने लगे
से मेरा हितकारी वही होगा—जिससे राजा सुखी रहेंगे।

दोहा—मातु सकल मोरे विरहें, जेहि न होहिं ३

नयन सूत्रि नहिं सुनइ न काना * कहिन सकइ कछु अति अकुलाना
 सीताजी की शीतल वाणी सुन सुमन्त ऐसे घबड़ा गये, जैसे मणि के खोजाने से सर्प घबड़ा जाता
 है। आँखों से दीखता नहीं कानों से सुनाई नहीं देता, कुछ कह नहीं सकते, बहुत दुःखी होगये।
 राम प्रबोधु कीन्ह बहु भाँती * तदपि होति नहिं सीतल छाती
 जलन अनेक साथ हित कीन्हे * उचित उत्तर रघुनन्दनु दीन्हे

श्रीरामजी ने बहुत समझाया, तो भी सुमन्त की छाती ठण्डी न हुई। सुमन्त ने साथ
 ले जाने के लिए अनेक उपाय किए, परन्तु श्री रघुनाथजी ने सबके उचित उत्तर दिये।

येटि जाइ नहिं राम रजाई * कठिन करस गति कछु न बसाई
 राम लखन सिय पद सिरु नाई * फिरेउ बनि क जिमि मूरि गँवाई

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा टाली नहीं जाती। कर्म की गति बड़ी प्रबल है, उससे कोई
 बश नहीं चलता। वे श्रीराम-लक्ष्मण और सीताजी के चरणों में सिर नवाकर इस प्रकार
 लीटे—जैसे कोई दणिक अपना घन गँवाकर लोटता है।

दोहा—रथ हाँकेउ हय राख तन, हेरि हेरि हिहिनाहिं।

देखि निषाद निषाद बस, धुनहिं सीस पछिताहिं ॥६७॥

सुमन्त ने रथ हाँका-तब घोड़े श्रीरामजी की ओर देख-देखकर हिनहिनाने लगे। यह
 देखकर निषाद दुःखी हो, सिर धुन-धुनकर पछताने लगे।

जासु वियोग विकल पशु ऐसों * प्रजा मातु पितु जिइहिं कैसें

बरवस राख सुमन्त पठाए * सुरसरि तीर आपु तब आए

जिनके वियोग में पशु ऐसे व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा और माता-पिता कैसे
 जियेंगे? श्रीरामजी ने जैसे-तैसे सुमन्त को लौटाया फिर आप गङ्गाजी के तट पर आये।

साँगी नाव न केवटु आना * कहइ तुम्हार सरसु में जाना

चरनकमल रज कहें सब कहई * शानुष करति मूरि कछु अहई

उन्होंने केवट से नाव लाने को कहा, पर वह नहीं लाया और बोला—मैं आपके भेदको जानता
 हूँ। आपके चरण-कमलों की रज को सब लोग कहते हैं कि यह मनुष्य बनाने वाली वूँटी है।

छुअत सिला भइ नारि सोहाई * पाहन ते न काठ कठिनाई

तरनिउ मुनि घरनी होइ जाई * वाट परइ सोरि नाव उड़ाई

इसके छूते ही शिला सुन्दर स्त्री होगई। पत्थर से कठोर तो काठ नहीं होता, नाव भी मुनि
 की स्त्री हो जायगी। यदि मेरी नाव उड़ गई-तो मेरी जीविका की राह मारी जायगी।

एहि प्रतिपालउँ सब परिवारु * नहिं जानव कछु अउर कबारु

जौ प्रभु पार अवसि गा चहहू * मोहि पद पदुष पखारन कहहू

इसी नाव से मैं सारे कुटुम्ब का पालन करता हूँ, दूसरा हुनर कुछ नहीं जानता। हे
 प्रभु! यदि आप अवश्य ही गङ्गाजी के पार जाना चाहते हैं, तो मुझको अपने चरणकमलों
 की धोने की आज्ञा दीजिये।

पितु गृह कवहुँ कवहुँ ससुरारी * रहेहु जहाँ रचि होइ तुम्हारी
एहि विधि करहु उपाय कदम्बा * फिरइ तौ होइ प्रान अवलम्बा

कभी पिता के घर, कभी ससुराल में—जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, वहाँ रहना। इस प्रकार बहुत से उपाय करना, जो सीता लौट आवें तो प्राणों को सहारा हो जायगा।

नाहिँ तौ मोर मरनु परिनामा * कछु न वसाइ भएँ विधि वामा
अस कहि मूर्छि परा महि राऊ * रामु लखनु सिय आनि देखाऊ

नहीं तो अन्त में मेरा मरण है। कुछ वश नहीं, भाग्य उल्टा होगया। श्रीराम-लक्ष्मण सीता को लाकर दिखाओ, ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े।

दोहा—पाइ रजायसु नाइ सिरु, रथ अति बेगि बनाइ।

गयउ जहाँ बाहेर नगर, सीय सहित दोउ भाइ ॥८०॥

राजा की आज्ञा पा, सिर नवाकर, शीघ्र ही रथ तैयार कर सुमन्त वहाँ गये—जहाँ नगर के बाहर सीता समेत दोनों भाई थे।

तब सुमन्त्र नृप वचन सुनाए * करि विनती रथु रामु चढ़ाए
चढ़ि रथ सीयसहित दोउ भाई * चले हृदयँ अवर्धाहिँ सिरु नाई

तब सुमन्त ने राजा के वचन सुनाये और प्रार्थना करके श्रीरामजी को रथ पर चढ़ाया। सीता समेत दोनों भाई रथ पर चढ़कर मन में अयोध्यापुरी को प्रणाम कर वन की चले।

चलत रामु लखि अवध अनाथा * विकल लोग सब लागे साथी
कृपासिंधु बहु विधि समुझावाहिँ * फिरहिँ प्रेमवस पुनि फिरि आवहिँ

श्रीरामजी के चलते ही अवधपुरी को अनाथ देखकर सब लोग दुःखित होकर साथ चलने लगे। कृपा के समुद्र श्रीरामजी उन्हें बहुत भाँति से समझाते हैं, समझने पर लौटने लगते हैं, किन्तु प्रेम के वश ही वे फिर लौट आते हैं।

लागति अवध भयावनि भारी * मानहुँ कालराति अँधियारी
घोर जन्तु सम पुर नर नारी * डरपाहिँ एकाहिँ एक निहारी

अयोध्यापुरी बहुत डरावनी प्रतीत होने लगी, मानो अँधेरी काल-रात्रि हो। नगर के सब नर-नारी भयंकर जीवों के समान एक दूसरे को देखकर डरने लगे।

घर मसान परिजन जनु भूता * सुत हित मीत मनहुँ जन्मूता
वागन्ह विटप वेलि कुम्हलाहीं * सरित सरोवर देखि न जाहीं

घर मरघट, कुटुम्बी भूत-प्रेत, पुत्र, हित व मित्र-मानो यमदूत हैं। वनों में वृक्ष लतायें मुरझा गईं, नदी और तालाब देखे नहीं जाते।

दोहा—हय गय कोटिन्ह केलि मृग, पुर पसु चातक मोर

पिक रथाङ्ग सुक सारिका, सारस हंस चकोर

करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के हिरन, नगर के पशु, पपीहा, मोर, कोयल, ५१

पितर पार करि प्रभुहि पुनि, सुदित गयउलेइ पार ।

केवट चरण धोकर अपने कुटुम्ब सहित चरणामृत पान कर, उसके प्रभाव से अपने पितरों का उद्धार कर, प्रसन्न होकर प्रभु को गङ्गाजी के पार ले गया ।

उतरि ठाढ़ भए सुरसरि रेता * सीय राम गुह लखन समेता
केवट उतरि दण्डवत कीन्हा * प्रभुहिसकुचिएहिनहिंकछुदीन्हा

नाव से उतरकर सीता-रामजी, गुह व लक्ष्मणजी सहित गंगाजी की रेती में खड़े होगये। तब केवट ने उतरकर दंडवत्की तो श्रीरामजी को बड़ा संकोच हुआ कि इसको कुछ नहीं दिया ।

पिय हिय की सिय जाननिहारी * सनि सुदरी सन सुदित उतारी
कहेउ कूपाल लेहु उतराई * केवट चरन गहे अकुलाई

तब पति के हृदय की जानने वाली-सीताजी ने मड़ि-जड़ित अंगूठी प्रसन्न मन से अपनी उगली में से उतार कर दी । तब कूपालु प्रभु श्रीरामजी ने केवट से कहा-उतराई लो । तब केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिये ।

नाथ आजु मैं काह न पावा * मिते दोष दुख दारिद दावा
बहुत काल मैं कीन्ह मजूरी * आजु दीन्हि विधि सब भरपूरी

केवट बोला-हे नाथ ! आज मैंने क्या नहीं पाया ! मेरे पाप, दुख व दरिद्रता की अग्नि शान्त होगई । बहुत समय तक मैंने मजूरी की, सो आज विधाता ने मेरी सब मजूरी भरपूर दे दी ।

अब कछु नाथ न चाहिअ सोरे * दीनदयालु अनुग्रह तोरे
फिरती बार नाथ जो देवा * सो प्रसादु मैं सिर धरि लेवा

हे नाथ ! हे दीनदयालु ! आपकी दया से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए । लौटते समय मुझे जो कुछ आप देंगे-वह प्रसाद में सस्तक चढ़ाकर लूँगा ।

दोहा-बहुत कीन्ह प्रभु लखन सियँ, नहिं कछु केवट लेइ ।

बिदा कीन्ह करना यतन, भगति विसल वर देइ ॥६६॥

प्रभु श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजी ने बहुत कहा, परन्तु केवट ने कुछ नहीं लिया । तब कर्णानिधान श्रीरामजी ने उसे निर्मल भक्ति का वरदेकर विदा किया ।

तब सज्जनु करि रघुकुल नाथा * पूजि पारथिव नायउ साथ
सियँ सुरसरिहि कहेउकर जोरी * सातु मनोरथ पुरउवि सोरी

तब श्रीरघुनाथजी ने स्नान कर, पार्थिव (शिवजी) का पूजन करके नमस्कार किया । सीताजी ने गङ्गाजी से हाथ जोड़कर कहा-हे माता ! मेरा मनोरथ पूर्ण करना ।

पति देवरसँग कुशल बहोरी * आई करों जेहि पूजा तोरी
सुनि सिय बिनय प्रेमरस सानी * भइ तब विसल बारि वरबानी

जिससे मैं पति और देवर के साथ सकुशल लौटकर फिर तुम्हारा पूजन करूँ । सीताजी की ऐसी प्रेम-रस भरी प्रार्थना को सुनकर निर्मल-जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई-

लोक सोक श्रम बस गए सोई * कछुक देवभायाँ मति मोई

शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता, श्रीरघुनाथजी द्विविधा में पड़ गये। रात में लोग दुःख और थकावट के मारे सो गये और कुछ देवभाया ने भी उन्हें मोहित कर दिया।

जबहिं जामजुग जामिनि बीती * राम सचिव सन कहेउ सप्रीती

खोजि मारि रथु हाँकहु ताता * आन उपायँ बनिहि नहिं वाता

दो पहर रात बीत गई, तब श्रीरामजी ने मन्त्री सुमन्त से प्रेम के साथ कहा—हे तात ! रथ को इस प्रकार हाँकिये कि चिन्ह दिखाई न पड़े, क्योंकि अन्य उपाय से बात नहीं बनेगी।

दोहा—राम लखन सिय जान चढ़ि, सम्भु चरन सिरु नाइ ।

सचिव चलायउ तुरत रथु, इत उत खोज दुराइ ॥८३॥

श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजी—शिवजी के चरणों में नमस्कार कर रथ पर चढ़े। तब सुमन्त ने इधर-उधर खोज छिपाकर, तुरन्त रथ हाँक दिया।

जागे सकल लोग भए भोरू * गे रघुनाथ भयउ अति सोरू

रथ कर खोज कतहुँ नहिं पावहिं * राम राम कहि चहुँदिसि धावहिं

सबेरा होने पर सब लोग जागे, तो बहुत शोर मचा कि 'श्रीरघुनाथजी चले गये।' रथ की खोज कहाँ न मिली, तब सब 'राम-राम' कहकर चारों ओर बौड़ने लगे।

मनहुं बारिनिधि बूढ़ जहाजू * भयउ विकल बड़ वनिक समाजू

एकहि एक देहि उपदेशू * तजे राम हम जानि कलेशू

मानो समुद्र में जहाज डूब जाने से वणिकों का समाज व्याकुल होगया हो। एक दूसरे को उपदेश देने लगे कि श्रीरामजी ने हमें 'कलेश' जानकर त्याग दिया।

निन्दहि आप सराहहिं सीना * धिक जीवनु रघुवीर विहीना

जाँ पै प्रियवियोग विधिकोन्हा * तो कस मरनु न माँगें दीन्हा

वे सब अपनी निन्दा और मछलियों की बड़ाई करने लगे कि—श्रीरघुनाथजी के बिना हमारे जीवन को धिक्कार है ! जो विधाता ने प्रिय का वियोग ही किया तो माँगने से हमको मरण ही क्यों नहीं देता ?

एहि विधि करत प्रलाप कलापा * आए अवध भरे परितापा

विषम वियोगु न जाइ वखाना * अवधि आस सब राखहि प्राना

इस प्रकार बहुत से विलाप करते, दुःख से भरे हुए वे सब अयोध्या में आये। उनका कठिन वियोग दुःख कहा नहीं जाता, अवधि की आशा से ही सब अपने प्राणों को रख रहे हैं।

दोहा—राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारि ।

मनहुं कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारि ॥८४॥

श्रीरामजी के दर्शन के निमित्त सब नर-नारी नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दीन होगये, मानो चकवा-चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो गये हों।

सीता सचिव सहित दोउ भाई * शृङ्गवेरपुर पहुँचे

सखा गुह, साई लक्ष्मण और जानकीजी सहित वन को प्रस्थान किया ।

तेहि दिन भयउ विटपतर बासू * लखन सखाँ सब कोन्ह सुपासू
प्रात प्रातकृत करि रघुराई * तीरथराजु दीख प्रभु जाई

उस दिन एक वृक्ष के नीचे निवास हुआ, वहाँ लक्ष्मणजी व सखा गुह ने सब सुभीता कर दिया। प्रातःकाल प्रातः कर्म करके प्रभु ने जाकर तीर्थराज प्रयाग के दर्शन किये ।

सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी * साधव न सरिस मातु हितकारी
चारि पदारथ भरा भंडारू * पुण्य प्रदेश देस अति चारू

तीर्थराज का सत्य मन्त्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है तथा वेणीसाधव सरीखे हितैषी हैं । चारों पदार्थों से भरा हुआ भण्डार है और पुण्य-प्रदेश ही बहुत सुन्दर देश है ।

क्षेत्रु अगस गढु गाढ सुहावा * सपनेहुँ नहिं प्रतिपच्छिन्ह पावा
सेन सकल तीरथ वर वीरा * कलषु अनीक दलन रनधीरा

जिसका क्षेत्र ही आगमन, दृढ़ और सुन्दर किला है, जिसे (पापरूपी) स्वप्न में नहीं जीत सकते, वह तीर्थ ही उत्तम वीरों की सेना है, जो पाप की सेना को नाश करने के लिए रणधीर हैं ।

सङ्गमु सिंहासन सुठि सोहा * छत्रु अक्षयवटु मुनि मनु मोहा
चँवर जमनु अरु गङ्गा तरङ्गा * देखि होहिं दुख दारिद भङ्गा

सङ्गम ही उनका श्रेष्ठ सिंहासन है, अक्षयवट ही छत्र है, जो मुनियों के मन को मोहित करता है । यमुनाजी और गङ्गाजी की लहरें ही उनके चँवर हैं, जिनके दर्शन से दुःख का नाश होता है ।

दोहा—सैवहिं सुकृति साधु सुचि, पार्वहिं सब मन काम ।

बन्दी वेद पुरान गन, कहहिं विमल गुन ग्राम ॥१०२॥

पुण्यात्मा, पवित्र, साधु-जन उनकी सेवा करते हैं और कामनाओं को प्राप्त करते हैं । वेद और सब पुराण ही बन्दीजन हैं, जो तीर्थराज के निर्मल गुणों का गान करते हैं ।

को कहि सकइ प्रयाग प्रभाऊ * कलुष पुञ्ज कुञ्जर मृगराऊ
अस तीरथपति देखि सुहावा * सुखसागर रघुवर सुख पावा

प्रयाग के प्रभाव को कौन कह सकता है ? जो पाप-समूह-रूपी हाथियों को नष्ट करने के लिए सिंह के समान है । मनोहर तीर्थराज का वर्णन करके सुख के समुद्र श्रीरामचन्द्रजी ने सुखपाया ।

कहिसिय लखनहि सखाहि सुनाई * श्रीमुख तीरथराज बड़ाई
करि प्रनासु देखात वन बागा * करत महात्म्य अति अनुरागा

सीताजी, लक्ष्मणजी तथा गुह को श्रीरामजी ने अपने मुखसे तीर्थराज की बड़ाई सुनाई । फिर प्रणाम कर वहाँ के वन और वाग देखते और बड़े प्रेम से माहात्म्य कहते हुए चले ।

एहि विधि आई विलोकी बैनी * सुनिरत सकल सुमङ्गल देनी
सुदित नहाइ कोन्ह सिव सेवा * पूजि जथा विधि तीरथ देवा

में परिवार सहित आवका नीच दास हूँ ।

कृपा करिअ पुर धारिअ पाऊँ * थापिअ जनु सबु लोगु सिहाऊँ
कहेउ सत्य सबु सखा सुजाना * मोहि दीन्ह पितु आयसु आना

मुझ पर कृपा करके पुर में पधारिये और मुझे अपना भक्त बनाइये, जिससे सब लोग प्रसन्न होकर मेरे भाग्य की सराहना करें। श्रीरामचन्द्रजी ने कहा—हे चतुर सखा ! तुमने यह सब ठीक कहा है, परन्तु पिताजी ने मुझे और ही आज्ञा दी है।

दोहा—वरष चारिदस वासु वन, मुनि व्रत वेषु अहार ।

ग्रामवासु नहिं उचित सुनि, गुहहि भयउ दुखु भार ॥८६॥

मुझे मुनियों के समान नियम, वेप और आहार करते हुए चौदह वर्ष वनमें निवास करना है। इस कारण गांव में वास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुःख हुआ।

राम लखन सिय रूप निहारी * कर्हिं सप्रेम ग्राम नर नारी
ते पितु मातु कहहु सखि कैसे * जिन्ह पठए वन वालक ऐसे

श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजी के रूप को देखकर गांव के सब स्त्री-पुरुष प्रेम सहित कहने लगे—हे सखी ! कहो, वे माता-पिता कैसे हैं, जिन्होंने ऐसे बालक वन में भेज दिये ?

एक कर्हि भल भूपति कीन्हा * लोचन लाभु हमहि विधि दीन्हा
तब निषादपति उर अनुमाना * तरु सिसुपा मनोहर जाना

कोई बोले—महाराज ने अच्छा किया, जो ब्रह्मा ने हम लोगों को नेत्रों का लाभ दिया। तब निषादराज ने अपने मन में एक शीशम के वृक्ष को मनोहर जानकर—

लै रघुनार्थहिं ठाउँ देखावा * कहेउ राम सब भाँति सोहावा
पुरजन करि जोहारु घर आए * रघुवर सन्ध्या करन सिधाए

वहाँ श्रीरघुनाथजी को लेजाकर स्नान दिखाया, श्रीरामजी ने उसे सब प्रकार से सुन्दर बताया। गांव के लोग जुहार करके अपने २ घर चले गये, तब श्रीरामजी संध्या करने पधारे।

गुहँ सँवारि साँयरी डसाई * कुस किसलय मय मृदुल सुहाई
शुचि फल मूल मधुर मृदु जानी * दोना भरि भरि राखेसि आनी

गुह ने भली-भाँति संभाल कर कुश और नये पत्तों की कोमल और बहुत सुन्दर सेम बनाई और पवित्र फल-फूल और पानी, मोठे और कोमल देखकर दोना भर-भरकर न्याकर रख दिये।

दोहा—सिय सुमन्त्र भ्राता सहित, कन्दमूल फल खाइ ।

सयन कीन्ह रघुवंसमनि, पायँ पलोटत भाइ ॥८७॥

सीताजी, सुमन्त और भाई (लक्ष्मण) सहित कन्द-मूल-फल खाकर श्रीरामचन्द्रजी ने शयन की, तब भाई लक्ष्मण उनके चरण दवाने लगे।

उठे लखनु प्रभु सोवत जानी * कहि सचिवहि सोवन मृदुवानी

तव रघुवर मुनि सुजसु सुहावा * कोटि भाँति कहि सबहि सुनावा

मुनि के वचन सुनकर श्रीरामजी सकुचाये तथा मुनि को भाव-भक्ति से सन्तुष्ट हुए। तब श्रीरघुनाथजी ने मुनि का मुख सुन करीबों भाँति से कहकर सबको सुनाया।

सो बड़ सो सब गुनगन गेहू * जेहि सुनीस तुम्ह आवर वेहू
मुनि रघुवीर परस्पर तवहीं * वचन अगोचर सुखु अनुभवहीं

हे मुनिवर! बड़ी बड़ा और गुणों का स्थान है, जिसका आप आदर करें। भरद्वाज-मुनि और रघुनाथजी आपस में मग्न होने लगे और मुख का अनुभव करने लगे, जो कहा नहीं जाता।

यह सुधि पाइ प्रयाग निवासी * बहु तापस मुनि सिद्ध उदासी
भरद्वाज आश्रम सब आए * देखत दशरथ सुअन सुहाए

प्रयाग-निवासी, ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्धि व उदासियों ने जब यह समाचार पाया, तो वे सब दशरथ-नन्दन आनन्दकण्ठ श्रीरामजी के दर्शन के लिये भरद्वाज मुनि के आश्रम पर आये।

राम प्रनाम कीन्ह सब काहू * सुदित भए लहि लोचन लाहू
देहिं असीस परम सुखु पाई * फिरे सराहत सुन्दरताई

श्रीरामजी ने सबको प्रणाम किया। वे सब नेत्रों का फल पाकर प्रसन्न हुए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे, फिर श्रीरामजी के रूप की बड़ाई करते हुए वे लौट गये।

दोहा—राम कीन्ह विश्राम निसि, प्रात प्रयाग नहाइ।

चले सहित सिय लखनु जनु, सुदित मुनिहि सिरनाइ ॥१०५॥

श्रीरामजी ने रात्रि को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयाग में स्नान कर, प्रसन्नता पूर्वक मुनि को नमस्कार कर, सीता-लक्ष्मण और निषादराज सहित वे आगे को चले।

राम सप्रेम कहेउ मुनि पाहीं * नाथ कहिअ हम केहि मयु जाहीं
मान मनविहँसिराम सन कहों * सुगम सकल मगु तुम्ह कहँ अहँहीं

(चलते समय) श्रीरामजी ने मुनि से सप्रेम पूछा—हे नाथ! कहिये, हम किस मार्ग से जायें? मुनि ने मन में हँसकर श्रीरामचन्द्रजी से कहा—आपको तो सभी मार्ग सुगम हैं।

साथ लागि मुनि सिष्य बोलाए * सुनि सन सुदित पचासक आए
सबहिं राम पर प्रेम अपारा * सकल कहँहि मगु दीख हसारा

फिर मुनि ने शिष्यों को साथ के लिये बुलाया, तो सुनकर मनमें आनन्दित हो पचासों शिष्य आ गये। तबका श्रीरामजी से अपार प्रेम है, वे सब कहने लगे कि मार्ग हमारा देखा हुआ है।

मुनि बहु चारि सङ्ग तब दीन्हे * जिन्ह बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे
करि प्रनाम ऋषि आयसु पाई * प्रसुदित हृदय चले रघुराई

तब मुनि ने उनमें से चार ब्रह्मचारियों को श्रीरामजी के साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सुकृत किये थे। ऋषि को प्रणाम कर आज्ञा पाकर, आनन्दित हो श्रीरघुनाथजी चले।

ग्राम निकट जब निकसहिं जाई * देखहिं दरसु नारि नर धाई

जिनके पिता जनकजी हैं, जिनका प्रभाव संसार में प्रगट है व. समुर दशरथजी हैं, जो इन्द्रके सखा हैं।

रामचन्द्र पति सो बैदेही * सोवत महि विधि बाम न केही
सिय रघुवीर कि कानन जोगू * करम प्रधान सत्य कहँ लोगू

श्रीरामचन्द्रजी जिनके पति हैं, वही जानकीजी पृथ्वी पर सो रही हैं। विधाता किसको विवरीत नहीं होता? श्रीसीताजी और श्रीरघुनाथजी क्या वन के योग्य हैं? कम ही प्रधान है, ऐसा लोग कहते हैं—ठीक है।

दोहा—कैकयनन्दिनि मन्द मति, कठिन कुटिल पनु कोन्ह।

जोहिं रघुनन्दन जानकिहि, सुख अवसर दुखु दीन्ह ॥८८॥

मन्द-मति कैकेई ने बड़ा कठिन प्रण किया, जिसने श्रीरघुनाथजी व जानकीजी को सुख के समय दुःख दिया।

भइ दिनकर कुल विटप कुठारी * कुमति कोन्ह सब विश्व दुखारी

भयउ विषाद निषादहि भारी * राम सीय महि सयन निहारी

वह सूर्यवंश-रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी हुई, उस दुबुद्धि ने सब संसार को दुःखी कर दिया। श्रीरामजी और सीताजी को पृथ्वी पर शयन करते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुःख हुआ।

बोले लखन मधुर मृदु बानी * ग्यान विराग भगति रस सानी

काहु न कोउ सुख दुखकर दाता * निज कृत करम भोग सबु भ्राता

तब लक्ष्मणजी ज्ञान-वैराग्य और भक्ति-रस से युक्त मधुर व कोमल वाणी से बोले-हे भैया! कोई किसी को सुख-दुःख देने वाला नहीं है, सब अपने-२ किये कर्मों के फल भोगते हैं।

जोग वियोग भोग भल मन्दा * हित अनहित मध्यम भ्रम फन्दा

जनमु मरमु जहँ लगि जग जालू * सम्पति विपति करमु अरु कालू

मितना-विच्छेदना, भले-बुरे भोग, मित्र व शत्रु—यह सब भ्रम रूपी अज्ञान के फन्दे हैं। जन्म से मरण पर्यन्त जितने संसार के जाल, सम्पत्ति, विपत्ति कर्म और काल—

धरनि धाम धनु पुर परिवारू * सरगु नरकु जहँ लगि व्यवहारू

देखिअ सुनिअ गुनिअ मन माहों * माया कृत्य यथारथु नाहों

भूमि, घर, द्रव्य, कुटुम्ब, स्वर्ग-नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं। वे सब देखे-सुने और मन में विचारे जाते हैं, यह सब माया की रचना है—वास्तव में कुछ नहीं।

दोहा—सपने होइ भिखारि नृप, रङ्क नाकपति होइ।

जागें लाभु न हानि कछु, तिमि प्रपंच जियँ जोइ ॥८९॥

जिस प्रकार स्वप्न में राजा भिखारी हो जाय और कङ्काल-इन्द्र हो जाय, परन्तु जागने पर लाभ-हानि कुछ नहीं होती। इसी प्रकार माया-कृत विस्तार को हृदय में देखना चाहिए।

अस विचारि नहिं कीजिअ रोषू * काहुहि बादि न देइअ दोषू

मोह निसाँ सबु सोवनिहारा * देखिअ सपन अनेक

और सीताजी समेत दोनों भाई प्रसन्न होकर सूर्य-पुत्री यमुनाजी की बड़ाई करते हुए चले।
पथिक अनेक मिलहिं भग जाता * कर्हिं सप्रेम देखि दोउ भ्राता
राम लखन सब अङ्ग तुम्हारे * देखि सोच अति हृदय हमारे

मार्ग में जाते हुए बहुत-से यात्री उन्हें मिलते हैं वे दोनों भाइयों को देखकर स्नेह सहित कहते हैं कि तुम्हारे अङ्गों में राज-चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच है।

मारग चलहु पयादेहि पाएँ * ज्योतिषु झूठ हमारे भाएँ
अगसु पन्थु गिरि कानन भारी * तेहि सहँ साथ नारि सुकुमारी

तुम मार्ग में नंगे पांव चल रहे हो, इसे देखकर हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष-शास्त्र झूठा है। भारी वन एवं पहाड़ों के मार्ग दुर्गम हैं, उसपर भी तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है।

कर केहरि वनु जाइ न जोई * हम सँग चलहिं जो आयसु होई
जाब जहाँ तहँ लगि पहुँचाई * फिरव बहोरि तुम्हहि सिरुनाई

हाथी और सिंहों से भरा यह वन देखा नहीं जाता, जो आपको आज्ञा ही तो हम साथ चलें ? जहाँ तक आप और जावेंगे—वहाँ तक पहुँचा कर सिर नवाकर हम लौट आवेंगे।

दोहा—एहि विधि पूँछहिं प्रेमबस, पुलकगात जलु नैन।

कृपासिंधु फेरहिं तिन्हहि, कहि विनीत मृदु बैन ॥१०८॥

इस प्रकार प्रेम से पुलकित हो, जल भरे नेत्रों से लोग पूछते हैं, तो कृपासिंधु श्रीराम-चन्द्रजी उन्हें नम्र और कोमल वचन कहकर लौटा देते हैं।

जे पुर गाँव बसहिं भग साहीं * तिन्हहि नाग सुर नगर सिहाहीं
केहि सुकृति केहि घरी बसाए * धन्य पुन्यसय परम सुहाए

मार्गमें जो गाँव नगर बसे हैं, उनकी बड़ाई नागलोक व देवलोक भी करते हुए सिहाते हैं कि ये किस पुण्यात्मा ने किस घड़ी में बसाये हैं, जो यह आज इतने पुण्यरूप व सुहावने हो रहे हैं ?

जहँ जहँ राम चरन चलि जाहीं * तिन्ह सयान अमरावति नाही
पुन्यपुंज भग निकट निवासी * तिन्हहिं सराहहिं सुरपुर वासी

जहाँ-जहाँ श्रीरामजी के चरण जाते हैं, वहाँ के बराबर अमरावती भी नहीं है। उस मार्ग के समीप रहने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं, उनकी बड़ाई—देवलोक-वासी भी करते हैं।

जे भरि नयन विलोकहिं रामहि * सीता लखनु सहित घनश्यामहि
जे सर सरित राम अवगाहहिं * तिन्हहि देव सर सरित सराहहिं

जो लोग सीताजी व लक्ष्मणजी सहित घनश्याम श्रीरामजी को नेत्र भरकर देखते हैं। जिन तालाबों व नदियों में श्रीरामजी स्नान करते हैं—उनकी मानसरोवर और गङ्गाजी भी बड़ाई करते हैं।

जेहि तरु तर प्रभु बैठहिं जाई * करहि कल्पतरु तासु बड़ाई
परसि राम पद पदुस परागा * मानति भूमि भूरि निज भागा

वनु देखाइ सुरसरि अन्हवाई * आनेहु फेरि बेगि दोउ भाई
लखनु राम सिय आनेहु फेरी * संसय सकल सँकोच निबेरी

वन दिखाकर व गङ्गा-स्नान कराकर दोनों भाइयों को जल्दी से लौटा लाना। संव संशय और सङ्कोच को त्याग लक्ष्मणजी, श्रीरामचन्द्रजी और जानकीजी को लौटा लाना।

दोहा—नृपअस कहेउ गोसाईं जस, कहइ करौं बलि सोइ।

करि विनती पाँयन्ह परेउ, दीन्ह बाल जिमि रोइ ॥ ६२ ॥

महाराज ने ऐसा कहा था, हे स्वामी! अब आप जैसा कहें, वही कहूँ-मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्रीरामजी के चरणों पर गिरपड़े और बालक की भाँति रोने लगे।

तात कृपा करि कीजिअ सोई * जातें अवध अनाथ न होई

मन्त्रिहि राम उठाइ प्रबोधा * तात धरम मतु तुम्ह सब सोधा

(फिर कहा—) हे तात! कृपा करके वही उपाय कीजिये-जिससे अयोध्या अनाथ न हो। मन्त्री सुमन्त को उठाकर श्रीरामजी ने समझाया कि हे तात! आपने तो धर्म के सभी मार्ग को जाना है।

शिवि दधीचि हरिचन्द नरेसा * सहे धरमु हित कोटि कलेसा

रन्तिदेव बलि भूप सुजाना * धरम धरेउ सहि सङ्कट नाना

राजा शिव, दधीचि व हरिश्चन्द्रने धर्म की रक्षा के लिए करोड़ों बलिेश सहे थे। परम चतुर राजा रतिदेव और बलि ने अनेकों प्रकार सङ्कट सहकर भी धर्म को धारण किया था।

धरमु न दूसर सत्य समाना * आगम निगम पुरान बखाना

मैं सोइ धरमु सुलभ करि पावा * तजें तिहुँ पुर अपजसु छावा

सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है-यह वेद, शास्त्र और पुराणों में कहा है। मैंने यह धर्म सहज ही मैं पालिया है, उसे छोड़ देने से तीनों लोकों में अपयश छा जायगा।

सम्भावित कहूँ अपजसु लाहू * मरन कोटि सम दारुन दाहू

तुम्ह सन तात बहुत का कहऊँ * दिऐँ उतरु फिरि पातक लहऊँ

सत्पुरुष को अपयश प्राप्त होना करोड़ों मृत्यु के समान दारुण दुःख उत्पन्न करता है। हे तात! आपसे अधिक क्या कहूँ, उत्तर देने में पाप का भागी होऊँगा।

दोहा—पितु पद गहिकहि कोटि नति, विनय करब करजोरि।

चिंता कवनिहु बात कै, तात करिअजनिमोरि ॥ ६३ ॥

आप पिताजी के चरण छूकर करोड़ों प्रणाम कह करके हाथ जोड़कर विनती करना कि पिताजी आप मेरी किसी बात की चिन्ता न करें।

तुम्हपुनिपितु समअति हित मोरें * विनती करउँ तात कर जोरें

सब विधि सोइ कर्तव्य तुम्हारे * दुख न पाव पितु सोच हमारे

फिर आपभी पिताजी के समान बड़े हितैषी हैं। हे तात! आपसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना

सुदित नारि नर देखहिं सोभा * रूप अनूप नयन मन लोभा

मन में सीताजी को थकी हुई जानकर धड़ी नर वट की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर शोभा देखते हैं, अनुपम रूप ने सबके नेत्र और मन लुभा लिये हैं।

एकटक सब सोहिं चहुँ ओरा * रामचन्द्र मुख चन्द्र चकोरा
तरुन तमाल वरन तनु सोहा * देखत कोटि मदन मन मोहा

श्रीरामजी के चन्द्र-मुख को चकोर के समान देखते हुए वे सब चारों ओर शोभायमान हो रहे हैं। तमाल के समान शरीर ऐसा शोभित हो रहा है कि देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं।

दासिनि वरन लखनु सुठि लीके * नख सिख सुभग भावते जी के
सुनि पट कटिन्ह कसैं तूतीरा * सोहिं कर कमलन्ह धनुतीरा

विजली के सुन्दर रंग के लक्ष्मणजी, जो नख से शिख तक सुन्दर हैं, मन को बहुत भाते हैं। मुनियों के वस्त्र पहने, दोनों आई कमर में तरकस कसे कमलरूपी हाथों में धनुष-बाण लिए शोभायमान हैं।

दोहा—जटासुकुट सीसन्ह सुभग, उर भुज नयन विशाल।

सरद परव बिधु बदन बर, लसत स्वेद कन जाल ॥१११॥

सिरों पर जटा-सुकुट है, छाती, भुजायें व नेत्र विशाल हैं और शरद-पूर्णिमा के चन्द्रमा के तुल्य सुन्दर मुखों पर पत्तीने की बूँदें शोभा को प्राप्त हो रही हैं।

वरनि न जाइ मनोहर जोरी * सोभा बहुत थोरि मति मोरी
राम लखन सिय सुन्दरताई * सब चितजाहिं चित मनमतिलाई

मनोहर जोड़ी की शोभा वर्णन नहीं की जा सकती, क्योंकि शोभा बहुत है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजी की सुन्दरता को सब मन, चित्त और बुद्धि लगाये देख रहे हैं।

एके नारि नर प्रेम पिआसे * मनहुँ मृगी मृग देखि दिआसे
सिय समीप प्राप्तिय जाहीं * पूछत अति सनेह सकुचाहीं

प्रेम के प्यासे स्त्री-पुरुष थककर ऐसे खड़े होगये, मानो मृग दीपक को देख स्तब्ध खड़े रह गये हों। सीताजी के पास गांव की स्त्रियाँ जाती हैं, परन्तु अधिक स्नेह के कारण पूछने में सकुचाती हैं।

बार बार सब लागहिं पाएँ * कहहिं वचन मूढु सरल सुभाएँ
राजकुमारि विनय हम करहीं * तिय सुभायँ कछु पूछत डरहीं

धे बारम्बार सीताजी के पांव लगती और कोमल, सरल तथा सुहावने वचन कहती हैं। है राजकुमारी! हम विनती करती हैं, किन्तु स्त्री-स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं।

स्वासिनि अविनय छसविहमारी * बिलुग न मानव जानि गंवारी
राजकुअँर दोउ सहज सलोने * इन्ह तें लही दुति मरदत सोने

हे स्वामिनी! हमारी छिटाई क्षमाकरना और हमें गंवारी जानकर बुरा न मानना। यह

इस प्रकार पति को प्रेमभरी विनय सुनाकर, मन्त्री सुमन्त से सुहावनी वाणी से बोली- आप मेरे पिता व ससुर के समान हितैषी हैं, आपको उत्तर दूँ, तो बहुत अनुचित होगा।

दोहा—आरति वस सन्मुख भइउँ, बिलगु न मानव तात।

आरज सुत पद कमल विनु, बादि जहाँ लगि नात ॥८५॥

मैं विपत्ति वश आपके सम्मुख हुई हूँ, अतः हे तात ! बुरा न मानना। आर्य-पुत्र के चरणकमलों के बिना-जहाँ तक जितने भी नाते हैं, वे सब व्यर्थ हैं।

**पितु वैभव विलास मैं दीठा * नृप मनि मुकुट मिलत पद मोठा
सुख निधान अस पितु गृह मोरे * पिय विहीन मन भाव न भोरें**

मैंने पिताजी के ऐश्वर्य का सुख देखा है-जिनके चरणों से वड़े राजाओं के मुकुट लग जाते हैं। ऐसा सब सुखों का धाम, पितृ-गृह भी पति के बिना भूलकर भी मेरे मन को नहीं सुहाता।

**ससुर चक्कवइ कोसलराऊ * भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ
आगे होइ जेहि सुरपति लेई * अरघ सिंहासन आसनु देई**

मेरे ससुर चक्रवर्ती महाराज कोशलाधीश हैं, जिनका प्रभाव चौदहों भुवनों में विद्यमान है। जिनका इन्द्र भी आगे आकर स्वागत करते हैं और अपने आगे सिंहासन पर आसन देते हैं।

**ससुर एताइस अवध निवासू * प्रिय पहिवारु मातु सम सासू
बिनु रघुपति पदुम परागा * मोहिकोउ सपनेहुँ सुखदन लागा**

ऐसे ससुर, अयोध्यापुरी का वास, प्रिय कुटुम्ब और माता के समान सासुर्य यह सब श्रीरघुनाथजी के चरणकमलों की रज के बिना मुझे कोई स्वप्न में भी सुखदायी नहीं लगते।

**अगम पन्थ वन भूमि पहारा * करि केहरि सरि सरित अपारा
कोल किरात कुरङ्ग विहङ्गा * मोहि सब सुखद प्रानपति सङ्गा**

कठिन मार्ग, वन-भूमि, पहाड़, हाथी, सिंह सरोवर, नदियाँ, कोल, भोल, हिरन एवं पक्षी-यह सब प्राणपति के साथ सुख देने वाले होंगे।

दोहा—सासु ससुर सन मोरहुँति, विनय करिअपरि पायँ।

मोर सोचु जनि करिअकछु, मैं वन सुखी सुभायँ ॥८६॥

मेरी ओर से सासु और ससुर के चरणों में गिरकर प्रार्थना करना कि वे मेरे लिए कुछ भी चिन्ता न करें, मैं वन में स्वभावतः ही सुखी हूँ।

**प्राननाथ प्रिय देवर साथी * वीर धुरीन धरे धनु भाथा
नाहि मगश्रमुभ्रमदुख मन मोरें * मोहलगि सोचुकरि अजनि भोरें**

इस पर भी प्राणनाथ और प्रिय-देवर मेरे साथ हैं, जो वीरों में श्रेष्ठ और धनुष-बाण धारण किये हैं। मार्ग की थकावट का संदेह और दुःख मेरे मन में कुछ नहीं है, इससे मेरे लिए भूलकर भी चिन्ता न कीजिए।

सुनि सुमन्त सिय सीतल बानी * भयउ विकलजनु फनु मनि हानी

दरसन देव जानि निज दासी * लखीं सीयँ सब प्रेम पिआसी
मधुर वचन कहि कहि परतोपीं * जनु कुमुदनी कौमुदी पोषीं

हमें अपनी दासी जानकर दर्शन देना। सीताजी ने सबको प्रेम की प्यासी देखा तो, मधुर वचन कहकर उन्हें ऐसा सन्तुष्ट किया, मानो चांदनी ने कमलनी को प्रफुल्लित किया हो।

तवहिं लखन रघुवर रख जानी * पूँछेउ मगु लोगन्ह मृदु बानी
सुनत नारि नर भए सुखारी * पुलकित गात बिलोचन वारी

उसी क्षण लक्ष्मणजी ने श्रीरामजी का रूख देखकर कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री-पुरुष डुखी होगये, उनका शरीर पुलकित होगया, नेत्रों में आंसू भर आये। सिटा सोडु मन भए सलीने * विधि निधि दीन्ह लेत जनु छीने समुझि करय गति धीरजु कीन्हा * सोधि सुभग जगुमगु कहिकीन्हा

आनन्द जाता रहा, मन में उदास होगये, मानो दो हुई सम्पदा विधाता ने छीन ली हो। कर्म की गति को समझाकर धैर्य धारण किया और विचारकर सीधा मार्ग उन्हें बतला दिया। दोहा—लखन जानकी सहित तब, गवन कीन्ह रघुनाथ।

फेरे सब प्रिय वचन कहि, लिए लाइ मन साथ ॥११४॥

तब लक्ष्मणजी और सीताजी समेत श्रीरघुनाथजी चले और मधुर वचन कहकर सबको लौटा दिया, परन्तु उनके मन अपने साथ ही लगा लिये।

फिरत नारि नर अति पछिताहीं * दैवहि दोषु देहिं मन माहीं
सहित विषाद परस्पर कहहीं * विधि करतव उलटे सब अहहीं

लौटते हुए स्त्री-पुरुष बहुत पछताने लगे और मन में विधाता को दोष देने लगे। डुखी होकर परस्पर कहने लगे कि विधाता के सभी कार्य उलटे हैं।

निपट निरंकुस निठुर निसंकू * जेहिं ससि कीन्ह सरुज सकलंकू
रुख कल्पतरु सागर खारा * तेहि पठए बन राजकुमारा

वह बिल्कुल स्वतन्त्र, निठुर और निडर हैं, जिसने चन्द्रमा को धय-रोगी और कलङ्की बनाया, कल्पवृक्ष को पेड़ एवं समुद्र को खारी बनाया, उसीने इन राजकुमारों को बन में भेजा है।

जाँ पै इन्हहि दीन्ह बनवासू * कीन्ह वादि निधि भोग बिलाषू
एहिं विचरहि मग वितुपदत्राना * रचे वादि विधि वाहन नाना

जो इनको ही बनवास दिया तो ब्रह्मा ने भोग-विलास वृथा ही बनाये। जब वही मार्ग में बिना जूतों के पैदल जा रहे, तो ब्रह्माने अनेकों प्रकार की सवारियों को व्यर्थ ही रचा।

ए महि परहिं डालि कुस पाता * सुभग सेज कत सृजत विधाता
तरवर वास इन्हहि विधि दीन्हा * धवल धाम रचि कत असु कीन्हा

जब वही भूमिपर कुश एवं पत्ते बिछाकर सोते हैं, तो ब्रह्माने सेज क्यों बनाई? विधाता ने

छन्द-पद कमल धोइ चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहौं ।
 मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साँची कहौं ॥
 वरु तीर मारहु लखनु पै जब लगि न पाँय पखारिहौ ।
 तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारिहौ ॥

हे नाथ ! चरण-कमल धोकर नाव पर झड़ा लूँगा, उतराई में नहीं चाहता । हे श्रीराम चन्द्रजी ! मुझको आपकी दुहाई और दशरथजी की सीगन्ध है, मैं सत्य कहता हूँ । तुलसीदासजी कहते हैं कि केवट बोला-चाहे लक्ष्मणजी मुझे वाण ही क्यों न मारे, परन्तु जबतक मैं आपके चरण नहीं धो लूँगा, तब तक-हे कृपालु ! पार नहीं उतारूँगा ।

सो०-सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे ।

बिहँसे करुना ऐन, चितइ ज्ञानकी लखन तनु ॥ ४ ॥

केवट के प्रेम भरे अटपटे वचन सुनकर करुणानिधान श्रीरामजी-ज्ञानकीजी और लक्ष्मणजी की ओर देखकर हँसे ।

कृपासिंधु बोले मुसुकाई * सोइ करु जेहि तव नाव न जाई
 बेगि आनि जल पाँय पखारु * होत बिलम्बु उतारहि पारु

कृपानिधान (श्रीरामजी) मुस्कराकर बोले-अच्छा, भाई ! वही कार्य करो, जिससे तुम्हारी नाव न जाय । शीघ्र ही जल लाकर पाँव धो लो, देर हो रही है-शीघ्र पार उतार दो !

जासु नाम सुमिरत एक बारा * उतराहि नर भवसिंधु अपारा
 सोइ कृपालु केवटहि निहोरा * जेहि जगु किय तिहुँ पगहुँ तेथोरा

जिनका एक वार ही नाम स्मरण करने से मनुष्य अथाह संसार-सागर से पार हो जाते हैं । जिन प्रभु ने तीन पग से भी जगत को छोटा कर दिया-वही कृपालु प्रभु केवट से निहोरा कर रहे हैं ।

पद नख निरखि देवसरि हरषी * सुनि प्रभु वचन मोहँ मतिकरषी
 केवट राम रजायसु पावा * पानि कठवता भरि लेइ आवा

प्रभु के वचन सुनकर गङ्गाजी बुद्धि मोह से खिच गई थी, परन्तु (समीप आने पर) चरणों के नख देखकर गङ्गाजी प्रसन्न हो गई । केवट ने जब श्रीरामजी की आज्ञा पाई, तो कठोता में जल भरकर ले आया ।

अति आनन्द उमँगि अनुरागा * चरन सरोज पखारन लागा
 वरषि सुमन सुर सकलसिहाहीं * एहि सम पुन्यपुञ्जकोउ नाहीं

परम आनन्द के साथ प्रेम में मग्न होकर चरण कमल धोने लगा । उस समय पुण्य वर्षा करके सभी देवता सिंहाने लगे कि इसके समान पुण्यात्मा कोई नहीं है ।

दोहा-पद पखारि जलु पान करि, आपु सहित परिवार ।

इनके कोमल तथा लाल चरणों को छूने से पृथ्वी ऐसे सकुचाती है, जैसे हमारे हृदय सकुचाते हैं। जो जगदीश्वर ने इनको वन-वास दिया तो मार्ग को फूलों का ही क्यों न बना दिया ?

**जौं माँगा पाइअ विधि पाहीं * ए रखि अहिंसखि आँखिन्हमाहीं
जे नर नारि न अवसर आए * तिन्ह सिय राम न देखन पाए**

जो ब्रह्मा से मांगा जाय और वही पावे तो इनको अपनी आँखों में ही रखें। जो नर-नारी अवसर पर नहीं आ सके, उन्होंने श्रीसीता-रामजी को नहीं देखा।

**सुनि सरूपु बूझाहि अकुलाई * अब लगि गए कहाँ लगि भाई
समरथ धाइ विलोकाहि जाई * प्रमुदित फिरहि जनम फलु पाई**

वे सब रूप की बड़ाई सुनते ही घबड़ा कर पूछने लगे कि भाई। अब वे कहाँ तक गये होंगे ? जो उनमें से समर्थ लोग हैं, वे दौड़कर दर्शन कर लेते हैं और प्रसन्न होकर जन्म का फल पा लौट आते हैं।

दोहा-अवला बालक वृन्दजन, कर मीजहि पछिताहि।

होहि प्रेमबस लोग इमि, रामु जहाँ जहँ जाहि ॥११७॥

अवला-स्त्री, बालक, और वृद्ध लोग हाथ मलकर पछताने लगे। इस प्रकार जहाँ-जहाँ श्रीरामजी जाते हैं, वहाँ-वहाँ लोग प्रेम में मग्न हो जाते हैं।

**गाँव गाँव अस होइ अनन्दू * देखि भानुकुल कैरव चन्दू
जे कछु समाचार सुनि पावाहि * ते नृप रानिहि दोषु लगावाहि**

सूर्यवंशरूपी कुमुदनी के लिए चन्द्रमा के समान श्रीरामजी का दर्शन करके गाँव में इसी प्रकार आनन्द होता है, जो लोग कुछ समाचार सुन पाते हैं, वे राजा-रानी को दोष लगाते हैं।

**कहहि एक अति भल नरनाहू * दीन्ह हमहि जे लोचन लाहू
कहहि परस्पर लोग लुगाई * बातें सरल सनेहँ सुहाई**

कोई कहने लगे-राजा बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने हमारे नेत्रों का लाभ दिया। नर-नारी में सीधी स्नेह भरी और सुहावनी बात कहते हैं।

**पितु मातु धन्य जिन्ह जाए * धन्य सो नगरु जहाँ तें आए
धन्य सो देसु सैलु वन गाऊँ * जहँ जहँ जाहि धन्य सो ठाऊँ**

वे माता-पिता धन्य हैं, जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर भी धन्य हैं, जहाँ से यह आये हैं। वह देश, पर्वत, वन, गाँव और जहाँ-जहाँ यह जाते हैं, वह स्थान धन्य हैं।

**सुखु पायउ विरंचि रचि तेही * ए जेहि के सब भाँति सनेही
राम लखन पथ कथा सुहाई * रही सकल मग कानन छाई**

उसको रचकर ब्रह्मा ने सुख प्राप्त किया, जिसके ये सब स्नेही हैं। श्रीरामजी और लक्ष्मणजी तथा जानकीजी की सुन्दर कथा वन के सब मार्ग में फँल गई।

दोहा-एहि विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन्हसुख देत।

सुनु रघुवीर प्रिया बैदेही * तव प्रभाव जगं विदित न केही
लोकपहोहिं विलोकत तोरें * तोहिसेवाहिं सब विधि कर जोरें

हे श्रीराम की प्रियतमा सीताजी ! सुनो, जगत में तुम्हारा प्रभाव किसे मालूम नहीं है ?
तुम्हारी कृपा दृष्टिसे लोग लोकपाल होजाते हैं, सब सिद्धियाँ हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं।

तुम्ह जोहमहिं बड़ि विनय सुनाई * कृपा कीन्हि मोहि दीन्हि बड़ाई
तदपि दैवि मैं देवं असोसा * सफल होन हित निज वागोसा

तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई है, यह तो मुझ पर कृपा करके मुझे बड़ाई दी है।
तो भी-हे देवी! अपनी वाणी सफल होने के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ-

दोहा-प्राणनाथ देवर सहित, कुसल कोसला आइ।

पूजाहिं सब मन कामना, सुजस रहहि जगु छाइ ॥१००॥

तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या में लौटोगी। तुम्हारी
मनोकामनायें पूरी होंगी और संसार में तुम्हारा यश छा जायगा।

गङ्गा वचन सुनि मङ्गल मूला * मुदित सीय सुरसरि अनुकूला
तब प्रभु गुहहि कहे उघर जाहू * सुनत सूख मुख भा उर दाहू।

गङ्गाजी के मङ्गलमय वचन सुनकर और गंगाजी को अपने अनुकूल जानकर सीताजी
बहुत प्रसन्न हुईं। तब प्रभु ने गुह से कहा-अब तुम घर लौट जाओ। यह वचन सुनते ही
उसका मुँह सूख गया और मन में दुःख हुआ।

दीन वचन गुह कह कर जोरी * विनय सुनहुँ रघुकुलमनि मोरी
नाथ साथ रहि पन्थ देखाई * करि दिन चारि चरन सेवकाई

गुह हाथ जोड़कर दीन वचन कहने लगा-हे रघुवंश-भूषण ! मेरी विनय सुनिये, मैं
स्वामी के साथ रहकर, मार्ग दिखलाता हुआ चार दिन आपकी चरण सेवा करूँगा।

जेहि बन जाइ रहव रघुराई * परनकुटी में करवि सोहाई
तब मोहि कहँ जसि देव रजाई * सोइ करिहउँ रघुवीर दोहाई

हे श्रीरघुनाथजी ! जिस बन में जाकर आप रहेंगे, वहाँ मैं सुहावनी पर्णकुटी बनाऊँगा।
तब मुझे आप आज्ञा देंगे, मैं वही करूँगा। हे श्रीरघुनाथजी ! मुझे आपकी दुहाई है।

सहज सनेहुँ राम लखि तासू * सङ्ग लीन्ह गुह हृदय हुलासू
पुनि गुहँ ग्याति बोलु सब लीन्हे * करि परितोषु विदा तब कीन्हे

श्रीरामजी ने उसका स्वाभाविक स्नेह देखकर उसे साथ ले लिया, तब गुह हृदय में बहुत
प्रसन्न हुआ। फिर उसने सब जाति वालों को बुलाकर उन्हें-समझा बुझाकर विदा किया।

दोहा-तब गनपति सिवसुमिरिप्रभु, नाइ सुर सरिहि माथ।

सखा अनुज सिय सहित वन, गवनु कीन्ह रघुनाथ ॥१०१॥

तब प्रभु श्रीरामजी ने गनेराजी और शिवजी का स्मरण कर गङ्गाजी को भस्त

देखात वन सर सैल सुहाए * बालमीकि आश्रम प्रभु आए
राज दीख मुनि बास सुहावन * सुन्दर गिरि काननु जलु पावन

प्रभु श्रीरामजी वन में सुहावने सरोवर और पर्वतों को देखते हुए बाल्मीकिजी के आश्रम में आये। श्रीरामजी ने देखा कि मुनि का स्थान सुन्दर है, वहाँ सुन्दर पर्वत, वन और निर्मल जल है।

सरनि सरोज द्विष्य वन फुले * गुञ्जत मज्जु मधुर रस भूले
खग सूर्य त्रिपुलकोलाहल करहीं * विरहित वैर सुदित मन चरहीं

तालायों में कमल और वन में पुष्प खिल रहे हैं, उनके रस में भूले हुए सुन्दर और गुँज रहे हैं। बहुत से पशु-पक्षी कोलाहल कर रहे हैं, वैर को छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक घूम रहे हैं।

दोहा—सुचि सुन्दर आश्रम निरखि, हरषे राजिव नैन।
मुनि रघुवर आगसनु मुनि, आगे आयउ लैन ॥१२०॥

पवित्र और सुन्दर आश्रम को देखकर कमल-नयन श्रीरामचन्द्रजी बहुत प्रसन्न हुए। बाल्मीकिजी-श्रीरामजी का आगमन सुनकर उन्हें लेने के लिए आगे आये।

मुनि कहँ नास दण्डवत कीन्हा * आसिरबाहु द्विप्रवर दीन्हा
देखि राख छवि नयन जुड़ाने * करि सनमान आश्रमहि आने

श्रीरामजी ने मुनि को प्रणाम किया तो ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि ने आशीर्वाद दिया। श्रीरामजी की गोभा को देखकर मुनि के नेत्र शीतल होगये और आदर पूर्वक उन्हें आश्रम में लिवा लाये।

मुनिवर अतिथि प्राणप्रिय पाए * कन्द मूल फल मधुर मँगाए
सिय सौमित्र राख फल खाए * तब मुनि आश्रम दिए सुहाए

मुनिवर ने प्राण-प्रिय अतिथि पाकर मोठे कन्द-मूल-फल मँगवाये। सोताजी, लक्ष्मणजी और श्रीरामजी ने फल खा लिये, तब मुनि ने उनको सुन्दर विश्राम-स्थल बता दिये।

बाल्मीकि मन आनँदु भारी * मङ्गल मूरति नयन निहारी
तब कर कमल जौरि रघुराई * बोले वचन श्रवन सुखदाई

श्रीरामजी की मंगल-मूर्ति को नेत्रों से देख बाल्मीकिजी के मन में बड़ा ही आनन्द हुआ तब कमल-स्वरूप हाथों को जोड़कर श्रीरघुनाथजी कानों को सुखदेने वाले वचन बोले—

तुम्ह त्रिकालदरसी मुनिनाथा * विश्व बंदर जिलि तुम्हारे हाथा
अस कहि प्रभु सब कथा बखानी * जेहि जाँति दीन्ह वनु रानी

हे मुनिनाथ! आप त्रिकालदर्शी हैं, यह संसार आपको हाथ पर रखे हुए वेर के समान है। ऐसा कहकर प्रभु को जिस प्रकार रानी कैकई ने वनवास दिया, वह सब कथा मुनि से कही।

दोहा—तात वचन पुनि सातु हित, भाइ भरत अस राउ।

भो कहँ दरस तुम्हार प्रभु, सब सस पुन्य प्रभाउ ॥१२१॥

हे प्रभो! पिता की आज्ञा, माता का हित, भरत सरोचे भाई को राज्य और मुझे आपके

इस प्रकार आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से सब आनन्द-मंगलों को देने वाली है। वहाँ आनन्द पूर्वक स्नान कर, शिवजी का पूजन किया व यथायोग्य तीर्थ-देवों की पूजा की।

तब प्रभु भरद्वाज पहि आए * करत दण्डवत् मुनि उर लाए
मुनि मन मोद न कछुकहि जाई * ब्रह्मानन्द रासि जनु पाई

तब प्रभु श्रीरामजी भरद्वाज के पास आये, उनको दण्डवत् करते हुए मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनिके मन का आनन्द कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानन्द की रासि मिल गई हो।

तोहा-दीन्हि असीस मुनीस उर, अति अनंदु अस जानि ।

लोचन गोचर सुकृत फल, मनहुँ किए विधि आनि ॥१०३॥

मुनिश्वर ने आशीर्वाद दिया, ऐसा जानकर अपने मनमें आनन्दित हुए। मानो आज सब कर्मों का फल ब्रह्माजी ने लाकर आँखों के सामने रख दिया।

कुशल प्रश्न करि आसन दीन्हें * पूजि प्रेम परिपूरन कीन्हें
मूद मूल फल अंकुर नीके * दिए आनि मुनि मनहुँ अमीके

मुनि ने कुशल पूछकर उनको आसन दिये, और प्रेम से पूजन करके परिपूर्ण किया। फेर मानो अमृत के बने-कन्द, मूल और अंकुर लाकर मुनि ने दिये।

नीय लखन जन सहित सुहाए * अति रुचि राम मूल फल खाए
मए विगतश्रम रामु सुखारे * भरद्वाज मृदु वचन उचारे

सोताजी, लक्ष्मणजी और सेवक गृह सहित श्रीरामजी ने सुन्दर फल बड़ी रुचि से खाये। काष्ठ दूर होने से श्रीरामजी सुखी होगये, तब भरद्वाजजी कोमल वचन बोले-

आजु सुफल तपु तीरथ जागू * आजु सुफल जप जोग विरागू
सफल सकल सुभ साधन साजू * राम तुम्हहि अवलोकत आजू

आज मेरा तप, तीर्थ-सेवन, यज्ञ, जप, योग और वंराग्य सफल होगया। हे श्रीरामजी! आज मेरे सब शुभ-कर्मों के समूह भी आपके दर्शन करते ही सफल होगये।

नाभ अवधि सुख अवधि न दूजी * तुम्हरेँ दरस आस सब पूजी
प्रव करि कृपा देहु वर ऐहू * निज पद सरसिज सहज सनेहू

इससे बढ़कर कोई दूसरी लाभ और सुख की सीमा नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब माशायें पूरी होगईं। अब आप कृपा करके यह वरदान दीजिये कि आपके चरणारविंदों में मेरा स्वाभाविक स्नेह हो।

तोहा-करम वचन मन छाँड़ि छलु, जब लगि जनु न तुम्हार ।

तब लगि सुख सपनेहुँ नहीं, किए कोटि उपचार ॥१०४॥

कर्म, वचन और मन से कपट को त्यागकर प्राणों जव तक आपका भक्त नहीं होता- तब तक करोड़ों उपाय करने पर भी सुख नहीं पाता।

मुनि मुनि वचन रामु सकुचाने * भाव भगति आनन्द अघाने

तेउ न जानत मरमु तुम्हारा * और तुम्हहि को जाननिहारा

संसार अदृश्य है और आप देखने वाले हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भी नचाने वाले हैं। वे भी आपका मरम नहीं जानते, तब आपको जानने वाला और कौन है ?

सौइ जानइ जेहि देहु जनाई * जानत तुम्हहि तुम्हइ होउजाइ
तुम्हरिहि कृपां तुम्हहिरघुनंदन * जानहि भगत भगत उर चंदन

वही जान सकता है, जिसको आप जना दें और जानते ही वह आपके समान हो जाता है। भक्त के हृदय को चन्दन के समान शीतल करने वाली आपकी कृपा से ही भक्त आपको जानते हैं।

चिदानन्दमय देह तुम्हारी * विगत विकार जान अधिकारी
नर तनु धरेहु सन्त सुर काजा * कहहु करहु जस प्राकृत राजा

जो चिदानन्दमय आपका शरीर है, वह विकार रहित है, यह अधिकारी ही जानते हैं। आपने मनुष्य-शरीर तो सन्त और देवताओं के कार्य के लिये धारण किया है और आप प्राकृत राजाओं की तरह करते और कहते हैं।

राम देखि सुनि चरित तुम्हारे * जड़ मोहहि बुध होहि सुखारे
तुम्हहि जो कहहु करहु सबुसाँचा * जस काछिअ तस चाहिअ नाचा

हे श्रीराम! आपके चरित्र देख व सुनकर मूर्खजन तो मोहित हो जाते हैं और ज्ञानी सुखी होते हैं, आप जो कुछ कहते और करते हैं, वह सब ठीक है, जैसा स्वांग बने, वैसा ही नाचना चाहिए।

दोहा-पूछेउ मोहि कि रहौं कहँ, मैं पूछत सकुचाउँ।

जहँ न होहु तहँ देहु कहि, तुम्हहि देखावौं ठाउँ ॥१२२॥

आपने मुझसे पूछा कि मैं कहा रहूँ ? परन्तु मैं यह पूछते हुए सकुचाता हूँ कि 'जहाँ आप न हों, वह स्थान बता दीजिये'—मैं वही स्थान आपको दिखा दूँ।

सुनि मुनि वचन प्रेमरस साने * सकुचि राम सन महँ मुसुकाने
ाल्मोकि हँसि कहेउ बहोरी * बानी सधुर अमिअ रस बोरी

मुनि के प्रेम-रस से सने हुए वचन सुन श्रीरामचन्द्रजी मन में सकुचा कर मुस्कराये। तब वाल्मीकिजी हँसकर अमृत-रस से भरी हुई वाणी से बोले—

सुनहु राम अब कहउँ निकेता * जहाँ बसहु सिय लखन समेता
जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना * कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना

भरतहि निरन्तर होहि न पूरे * तिन्हके उर तुम्ह कहँ गृह खरे

हे श्रीरामजी! सुनिये, अब मैं आपको वह स्थान बताता हूँ—जहाँ आप सीताजी और लक्ष्मणजी सहित वास करिये। जिनके 'कान' समुद्र के समान—आपकी सुन्दर कथारूपी अनेक नदियों से भरते हैं, परन्तु तृप्त नहीं होते—उनके हृदय आपके सुन्दर घर हैं।

लोचन चातक जिन्ह करि राखे * रहहि दरस जलधर अभिलाषे
निरदाहि सरित सिन्धु सर भारी * रूप बिन्दु जल होहि सुखारी

होहिं सनाथ जन्म फलु पाई * फिरहिं दुखित मनु सङ्ग पठाई

जब वे किसी गांव के निकट होकर निकलते थे, तो स्त्री-पुरुष दौड़कर इनके दर्शन करने लगते थे। जन्म लेने का फल पाकर वे सनाथ हो जाते थे और मन को उन्हीं के साथ भेजकर, दुःखी होकर लौट आते थे।

दोहा—विदा किए बटु विनयकरि, फिरे पाइ मनु काम।

उतरि नहाए जमुन जल, जो सरीर सम श्याम ॥१०६॥

फिर श्रीरामजी ने ब्रह्मचारियों को विनती करके लौटा दिया, वे मन-चाहा फल पाकर लौट आये। फिर सबने यमुनाजी के जल में उतरकर स्नान किया, जो श्रीरामजी के शरीर के समान ही श्याम-रङ्ग का था।

सुनत तोरबासी नर नारी * धाए निज निज काज बिसारी
लखनु राम सिय सुन्दरताई * देखि करहिं निज भाग्य बड़ाई

यह सुनकर यमुना-तट-वासी स्त्री-पुरुष अपने-अपने काम-काज छोड़कर दौड़-पड़े और लक्ष्मणजी, श्रीरामजी व सीताजी को सुन्दरता को देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे।

अति लालसा बसाहिं मन माहीं * नाउं गाउं वृक्षत सकुचाहीं
जे तिन्ह महुं वयविरिध सयाने * तिन्ह करि जुगुति राम पहिचाने

सबके ही मनमें परिचय पाने की बड़ी लालसा थी, परन्तु नाम-गांव पूछने में सकुचाते थे। उनमें जो बड़े और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्रीरामजी को पहिचान लिया।

सकल कथा तिन्ह सर्वाहिं सुनाई * वनहि चले पितु आयसु पाई
सुनि सविषाद सकल पछिताहीं * रानी रायं कीन्ह भल नाहीं

तब सब कथा उन्होंने सबको कह सुनाई कि ये पिता की आज्ञा से वन को जा रहे हैं। यह सुनकर वे सब दुःखी हो पछताने लगे कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया।

ते पितु मातु कहहु सखि कैसे * जिन्ह पठए वनु बालक ऐसे
राम लखनु सिय रूप निहारी * होहिं सनेहं विकल नर नारी

(स्त्रियाँ बोलीं-) हे सखी! वे माता-पिता कैसे हैं, जिन्होंने ऐसे बालक वन में भेज दिये? रामजी लक्ष्मणजी व सीताजी के रूप को देखकर स्त्री-पुरुष सोच व स्नेह से व्याकुल हो रहे थे।

दोहा—तव रघुवीर अनेक विधि, सखहि सिखावनु दीन्ह।

राम रजायसु सीस धरि, भवन गवनु तेई कीन्ह ॥१०७॥

तब श्रीरामचन्द्रजी ने सखा निपादराज को बहुत प्रकार से शिक्षा दी। श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा शिरोधार्य कर वह अपने घर को चला गया।

पुनि सियँ रामु लखनु करजोरी * जमुनहि कीन्ह प्रनामु वहोरी
चले ससीय सुदित दोउ भाई * रवितनुजा कइ करत बड़ाई

फिर सीताजी, श्रीरामजी व लक्ष्मणजी ने हाथ जोड़कर यमुनाजी को वारम्बार प्रणाम किया।

जिनके हृदय में काम, क्रोध, अहंकार और मोह नहीं है और न लोभ, न क्षोभ, न राग है न द्वेष है, न कपट है, दम्भ व माया ही है, हे श्रीरघुनाथजी ! आप उनके हृदय में वास करें। सबके प्रिय सबके हितकारी * दुख सुख सरिस प्रसंसा भारी कहहिं सत्य प्रिय वचन उचारी * जागत सोवत सरन तुम्हारी

जो सबको प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, दुःख-सुख और बड़ाई तथा गाली जिन्हें एक समान है, जो सच्चे एवं प्रिय वचन विचार कर बोलते हैं तथा जो सोते जागते आपकी शरण हैं।

तुम्हहि छाँड़ि गति दूसर नाहीं * राम बसहु तिन्हके मन माहीं जननी सस जानहिं पर नारी * धनु पराय विष तें विष भारी

आपको छोड़कर जिनकी दूसरी गति नहीं, हे रामजी ! आप उनके हृदय में वास करें। जो पराई स्त्री को माता के समान मानते हैं तथा पराया धन-विष से भी बढ़कर विष समझते !

जे हरषहिं पर ससपति देखी * दुखित होहिं पर विपति विसेषी जिन्हहिं राम तुम्ह प्राण पिआरे * तिन्हके मन सुभ सदन तुम्हारे

जो दूसरे के वैभव को देखकर प्रसन्न और दूसरे की विपत्ति को देखकर बहुत दुःखी होते हैं। जिन्हें आप प्राणों के तुल्य प्रिय हैं। हे श्रीरामजी ! उनके हृदय आपके सुन्दर घर हैं।

दोहा—स्वामि सखा पितु मातुगुरु, जिन्हके सब तुम्ह तात।

मन मन्दिर तिन्हके बसहु, सीय सति दोउ भ्रात ॥१२५॥

हे तात ! जिनके स्वामी, सखा, माता, पिता, गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मनरूपी मन्दिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए।

अवगुन तजि सबके गुन गहहीं * विप्र धेनु हित सङ्कट सहहीं

नीतिनिपुन जिन्हकहँ जगलीका * घर तुम्हार तिन्हकर मनु नीका

जो सबके अवगुण छोड़कर गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण व गौ के लिए सङ्कट सहते हैं, नीति-निपुणता में जिनकी जगत् में मर्यादा है—उनका मन आपका उत्तम घर है।

गुन तुम्हार ससुझइ निज दोसा * जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा

राम भगति प्रिय लागहि जेही * तेहि उर बसइ सहित बैदेही

जो आपके गुण और अपने दोष समझते हैं, जिन्हें सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और जिन्हें श्रीराम-भक्त प्रिय लगते हैं, उनके मन में सीता सहित आप वास कीजिए।

जाति पाँति धनु धरसु बड़ाई * प्रिय परिवार सदन सुखदाई

सब तजि तुम्हहिरहइ उर लाई * तेहि के हृदयँ रहहु रघुराई

जाति, पाँति, धन, धर्म-बड़ाई, प्यारा कुटुम्ब, सुख देने वाला घर—इन सबकों छोड़कर जो आप ही का हृदय में ध्यान करते हैं, हे रघुनाथजी ! आप उनके हृदय में रहिये।

सरगु नरकु अपवरगु समाना * जहँ तहँ देख धरें धनु बाना

जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जाकर बैठते हैं—कल्पवृक्ष भी उस वृक्ष को बढ़ाई करते हैं। श्रीरामजी के चरणारविंदों की रज को छूकर भूमि अपना बड़ा भाग्य मानती है।

दोहा—छाँड़ करहिं धन बिबुधगन, वरषाहिं सुमन सिहाहिं।

देखत गिरि वन बिहँघ मृग, रामु चले मग जाहिं ॥१०६॥

मार्ग में मेघ छाया करते जाते हैं, देवता पुष्प बरसाते और सराहना करते हैं। पर्वत, वन और पशु-पक्षियों को देखते हुए श्रीरामजी मार्ग में चले जा रहे हैं।

सीता लखन सहित रघुराई * गाँव निकट जब निकसहिं जाई
सुनि सब बाल बृद्ध नर नारी * चलहिं तुरग गृहकाजु विसारी

सीताजी और लक्ष्मणजी सहित श्रीरघुनाथजी—जब गाँव के पास निकलते हैं, तब सुनकर सब बालक-बूढ़े, नर-नारी घर का काम छोड़कर देखने चले आते हैं।

राम लखन सिय रूप निहारी * पाइ नयनफलु होहिं सुखारी
सजल बिलोचन पुलक सरीरा * सब भए मगन देखि दोउ वीरा

श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजी के रूप को देखकर, नेत्रों का फल पाकर वे मुग्ध होते हैं। नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकित हो गये। दोनों भाइयों को देखकर सब परमानन्द में मग्न हो गये।

वरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी * लहि जनु रङ्गन्ह सुरमनि ढेरी
एकन्ह एक बोलि सिख देहीं * लोचन लाहु लेहु छन ऐहीं

उन सबकी दशा कही नहीं जाती, मानो कंगालों को चित्तमणि की ढेरी मिल गई हो। एक दूसरे को बुलाकर सीख दे रहे हैं कि इसी क्षण नेत्रों के पाने का लाभ ले लो।

रामहि देखि एक अनुरागे * चितवत चले जाहिं सँग लागे
एक नयन मग छवि उर आनी * होहिं सिथिल तन मन वरबानी

कोई श्रीरामजी को देखकर ऐसे प्रेम-मग्न हो गये कि देखते हुए ताय ही चले जा रहे हैं और नेत्रों के मार्ग से उनकी हृदय में लाकर—तन, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं।

दोहा—एक देखि बट छह भलि, डासी मृदुल तून पात।

कहहिं गेवाइअ छिनुकुश्रम, गवनव अर्बाहिं कि प्रात ॥११०॥

कोई वट-वृक्ष की घनी छाया देखकर वहाँ पर कोमल घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि कुछ समय यहाँ बैठकर थकावट दूर कर लीजिये फिर अभी या प्रातः चले जाना।

एक कलस भरि आनहिं पानी * अँचइअ नाध कहिअ मृदु वानी
सुनि प्रिय वचन प्रीति अति देखी * परम कृपालु सुसील विसेधी

कोई घड़ा भरकर जल ले आते हैं और मधुर वाणी से कहते हैं—हे नाथ! आचमन तो करिये। बड़े दयालु और सुशील श्रीरामजी ने उनके प्रिय वचन सुनकर और उनकी प्रीति देखकर—जानी श्रमित सीय मन माहीं * धरिक विलम्बु कोन्ह बढ छाहीं

नदी पनच सर सस दस दाना * सकल कलुषु कलि साउज नाना
चित्रकूट जनु अचल अहेरी * चुकड़ न घात मार मुठभेरी

नदी मानो उस धनुष की डोरी है, शम-दम व दान उसके बाण हैं, कलियुग के सब पाप अनेक निशाने हैं और चित्रकूट अचल शिकारी है। उसका निशाना कभी नहीं चूकता जो सामने से मारता है।

अस कहि लखन ठाउँ देखरावा * थलु विलोकि रघुवर सुख पावा
रमेउ रास सनु देवन्ह जाना * चले सहित सुर थपति प्रधाना

ऐसा कहकर लक्ष्मणजी ने स्थान दिखलाया, स्थान देखकर रामजी ने सुख पाया। तब देव-ताओं ने जाना कि यहाँ श्रीरामजी का मन रम गया, तब अपने प्रधान थवई के साथ चले। कोल किरात वेष सब आए * रचे परन तून सदन सोहाए वरनि न जाहिं अंजु दुइ साला * एक ललित लघु एक विसाला

वे कोल-मौलों के रूप में आये और सुन्दर पत्तों तथा घास से सुहावने घर बनाये। दो ऐसी सुन्दर कुटियां बनाईं, जिनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, उनमें एक छोटी और एक बड़ी थी।

दोहा—लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत।

सोह सदन सुनि वेष जनु, रति रितुराज समेत ॥१२८॥

प्रभु श्रीरामजी—लक्ष्मणजी और सीताजी समेत उस स्थान में ऐसे शोभायमान हुए—मानो कामदेव—रति और ऋतुराज वसन्त सहित मुनि के वेष में शोभायमान हों।

असर नाग किन्नर दिसिपाला * चित्रकूट आए तेहि काला
राम प्रनामु कीन्ह सब काहू * सुदित वेद लहि लोचन लाहू

उस समय देवता, नाग, किन्नर, दिग्पाल आदि सब चित्रकूट पर आये, श्रीरामचन्द्रजी ने सबको प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर प्रसन्न हुए।

वरणि सुसन कह देव समाजू * नाथ सनाथ भए हम आजू
करि विनती दुख दुसह सुनाए * हरषित निज निज सदन सिधाए

देवतागण पुष्प वरसाकर बोले—हे नाथ ! आज हम सनाथ होगये। फिर प्रार्थना करके अपने दुसह दुःख सुनाकर प्रसन्न हो अपने २ स्थानों को चले गये।

चित्रकूट रघुनन्दन आए * समाचार सुनि सुनि सुनि आए
आवत देखि सुदित मुनिवृन्दा * कीन्ह दण्डवत रघुकुल चन्दा

श्रीरघुनाथजी चित्रकूट में आकर बसे हैं, यह सुनकर मुनि लोग आये। मुनि-समूह को आगे देखकर श्रीरामचन्द्रजी ने प्रसन्नता से दण्डवत् प्रणाम किया।

मुनि रघुवरहि लाइ उर लेहीं * सुफल होन हित आसिष देहीं
सिय सौमित्र राम छवि देखाहिं * साधन सकल सफल कर लेखाहिं

दोनों राजकुमार स्वामाविक सुन्दर हैं, मरकत-मणि और सोने ने कान्ति इनसे ही पाई है ।
दोहा—स्यामल गौर किशोर वर, सुन्दर सुषमा ऐन ।

सरद सर्वरीनाथ मुखु, सरद सरोरुह नैन ॥११२॥

ये श्याम और गौर वर्ण हैं, सुन्दर और किशोर-अवस्था वाले हैं और दोनों ही सुन्दर शोभा के स्थान हैं । शरद-पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान मुख वाले हैं और शरद के कमल के समान इनके नेत्र हैं ।

❀ मास पारायण—सोलहवा विश्राम । नवान्ह पारायण—चौथा विश्राम ❀

कोटि मनोज लजावनिहारे * सुमुखि कहहु को अर्हाहि तुम्हारे
सुनि सनेहमय मञ्जुल बानी * सकुचि सोय मन महँ मुसुकानी

ये दोनों राजकुमार करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले हैं । हे सुमुखी! कहो यह तुम्हारे कोन हैं ? ऐसी प्रेममयी मधुर वाणी सुनकर सीताजी सकुचाकर मन में मुस्कराई ।

तिन्हहि बिलोकि बिलोकतधरनी * दुहुँ सँकोच सकुचितं वरवरनी
सकुचि सप्रेम वाल मृगनयनी * बोली मधुर वचन पिकवयनी

सुन्दरी सीताजी दोनों ओर के सङ्कोचते सकुचाकर उनकी ओर देखकर पृथ्वीकी ओर देखने लगीं । हिरन के बच्चे के समान नेत्रों वाली, कोयल के समान वाणी वाली सीताजी सकुचाकर मधुर वचन बोलीं—

सहज सुभाय सुभग तनु गोरे * नामु लखनु लघु देवर मोरे
बहुरि बदनु बिधु अंचल ढाँकी * पिय तन चितइ भौह करि बाँकी

जो सरल स्वभाव के गोरे शरीर वाले हैं, जिनका नाम लक्ष्मण है—ये मेरे छोटे देवर हैं । फिर अपने चन्द्रमुख को आंचल से ढककर टेढ़ी भाँह करके पति की ओर देखकर—

खंजन मंजु तिरिछे नयननि * निजपतिकहे उतिन्हहिसियँ सयननि
भई मुदित सब ग्राम बधूटों * रङ्गन्ह राय रासि जनु लूटों

खंजन के समान सुन्दर नेत्रों की तिरछी चितवन से सीताजी ने उन्हें इशारा करके अपना पति बतलाया । तब गाँव की सब स्त्रियाँ ऐसी प्रसन्न हुईं, मानो कंगालों ने धन-राशि लूटली हो ।

दोहा—अति सप्रेम सिय पायँ परि, बहु विधि देहिँ असोस ।

सदा सोहागिन होऊ तुम्ह, जबलगिमहिअहि सोस ॥११३॥

वे बड़े प्रेम से सीताजी के पाँव पकड़ बहुत प्रकार से आशीर्वाद देने लगीं कि जब तक शेषजी के मस्तक पर पृथ्वी है, तब तक तुम सुहागिन रहो ।

पारवती सम पति प्रिय होहू * देवि न हम पर छाँड़व छोहू
पुनिपुनि विनय करिअ करजोरी * जाँ एहि मारग फिरिअ बहोरी

पार्वती के समान अपने पति की प्यारी होओ । परन्तु, हे देवी! हम पर कृपा करती रहना हम बारम्बार हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हैं कि इसी मार्ग से ८

कीन्ह वासु भल ठाउँ विचारी * इहाँ सकल रितु रहव सुखारी

हम सब परिवार सहित घन्य हैं, जो नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने अच्छा स्थान विचार कर नाम किया है, यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहेंगे।

हम सब भाँति करव सेवकाई * करि केहरि अहि बाघ बराई
वन वेहड़ गिरि कन्दर खोहा * सब हमारि प्रभु पग पग जोहा

हम हाथी, सिंह और बाघों से बचाकर सब प्रकार से आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु! यहाँ के वन, ऊँची-नीची भूमि, पहाड़, गुफायें और खोहें सब पग-पग हमारे देखे हुए हैं।

जहँ तहँ लुख्हि अहेर खेलाउव * सर निरझर जल ठाउँ देखाउव
हम सेवक परिवार समेता * नाथ न सकुचव आयसु देता

हम आपको जहाँ-तहाँ शिकार दिलावेंगे और सरोवर, झरने आदि जलाशय दिखावेंगे। हे नाथ! हम सब परिवार सहित आपके सेवक हैं, अतः आज्ञा देते हुए सङ्कोच न करिये।

दोहा-वेद वचन मुनि सन अगम, ते प्रभु करना ऐन।

वचन किरातन्ह के सुनत, जिसि पितु बालक बैन ॥१३१॥

जो वेद-वाणी और मुनियों के मन को भी अगम हैं, वे करुणाधाम प्रभु श्रीरामजी नीलों के वचन इस प्रकार सुनते हैं, जैसे पिता-बालकों के वचनों को सुनता है।

रामहि केवल प्रेम पिआरा * जानि लेउ जो जाननिहारा
राम सकल वनचर तब तोषे * कहि मृदु वचन प्रेम परितोषे

श्रीरामजी को केवल प्रेम प्रिय है, जो जानने वाला हो-वह जान ले। श्रीरामजी ने कोमल वचन कहकर उन सब वन-वासियों को सन्तुष्ट किया।

विदा किए सिर नाइ सिधाए * प्रभु मुन कहत सुनत घर आए
हिविधि सिय समेत दोउ भाई * बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई

उनको विदा किया तो वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुणानुवाद कहते हुए घर आये। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता समेत वन में निवास करने लगे।

जब तँ आइ रहे रघुनायक * तब तँ भयउ वनु मङ्गलदायक
फूलहि फलहि विटपविधि नाना * संजु बलित वर बेलि विताना

जब से श्रीरघुनायक वन में आकर रहे, तब से वह वन मंगलदायक होगया। अनेक प्रकार के वृक्ष फलने-फूलने लगे, उन पर लिपटी हुई बेलों के मंडप तने हैं।

सुरतर सरित सुभायँ सुहाए * मनहुँ विबुध वन परिहरि आए
गुञ्ज संजु तर मधुकर श्रेणी * त्रिविध वयारि बहइ सुख देनी

ये कल्पवृक्ष के समान स्वभाव से ही सुन्दर हैं, मानो नन्दन-वन को छोड़कर आगए हों। सुन्दर नौरों की पंक्तियाँ मधुर शब्द से गुंजार रही हैं और सुख देने वाली शीतल, मन्द, सुगन्धित पवन बहती है।

इन्हें ही वृक्ष के नीचे वास दिया, तो फिर सुन्दर भवन बनाकर क्यों परिधम किया ?

दोहा—जौं ए मुनिपट धर जटिल, सुन्दर सुठि सुकुमार ।

विविध भाँति भूषन बसन, बादि किए करतार ॥११५॥

जो ये सुन्दर और सुकुमार ही मुनियों के वस्त्र धारण किये और जटाओं को रखाये हैं, तो फिर ब्रह्मा ने भाँति-भाँति के भूषण और वस्त्र वृषा ही बनाये ।

**जौं ए कन्द मूल फल खाहीं * बादि सुधादि असन जग माहीं
एक कर्हाहि ए सहज सुहाए * आपु प्रगट भए विधि न बनाए**

जो यह कन्द-मूल-फल खाते हैं, तो जगत् में अमृत आदि के भोजन व्यर्थ हैं । एक कहने लगे कि ये स्वभाविक ही सुहावने हैं, ये स्वयं प्रकट हुए हैं, इन्हें ब्रह्मा ने नहीं बनाया ।

**जहँ लगि वेद कही विधि करनी * श्रवन नयन मन गोचर वरनी
देखाहु खोजि भवन दस चारी * कहँ अस पुरुष कहाँ अस नारी**

जहाँ तक वेदों ने ब्रह्मा की करनी कही है, जो कानों, नेत्रों और मन के अनुभव में आने वाली हैं, वहाँ तक चौदहों भुवनों में ढूँढ़कर देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्री कहाँ हैं ?

**इन्हहि देखि विधि मनु अनु रागा * पटतर जोगु वनावै लागा
कीन्ह बहुत श्रम एक न आए * तेहि इरिसा वन आनि दुराए**

इनको देखकर ब्रह्मा का मन मोह गया, तो इनकी उपमा के समान दूसरा जोड़ा बनाने लगा । बहुत परिश्रम करने पर भी ऐसे बने, तब उसने ईर्ष्यासे इन्हें वन में लाकर छिपा दिया ।

**एक कर्हाहि हम बहुत न जानहि * आपुनि परम धन्य करि मानहि
ते पुनि पुन्य पुञ्ज हम लेखे * जे देखिर्हाहि आगे जिन्ह देखे**

कोई कहने लगे कि हम बहुत नहीं जानते हैं, परन्तु अपने को परम धन्य मानते हैं । हमारी समझ में तो वे बड़े पुण्यवान् हैं, जो इनको देखते हैं, देखेंगे और देख चुके हैं ।

दोहा—एहि विधि कहि कहि प्रिय वचन, लेहि नयन भरि नौर ।

किमि चलिर्हाहि मारग अगम, सुठि सुकुमार सरीर ॥११६॥

इस प्रकार प्रिय वचन कहकर वे आँखों में आंसू भर लाये और बोले कि यह सुन्दर कोमल अंग वाले राजकुमार कठिन रास्ते में कैसे चलेंगे ।

**नारि सनेह विकल वश होहीं * चकई साँझ समय जनु सोहीं
मृदु पदकमल कठिन मगु जानी * गहवरि हृदयँ कर्हाहि वर वानी**

स्त्रियाँ स्नेह वश व्याकुल हो गईं, जैसे सन्ध्या के समय चकवी हो जाती है । चरण-कमलों को कोमल और मार्ग को कठिन जानकर गद्गद् हृदय से मधुर वाणी में बोलीं—

**परसत मृदुल चरन अरु नारे * सकुचित महि जिमि हृदयँ हमारे
जौं जगदीस इन्हहि बन्य दीन्हा * कस न सुमनमय मारगु कीन्हा**

महिमा कहिअ कवनविधि तासू * सुख सागर जहँ कीन्ह निवासू

वह वन और पहाड़ स्वाभाविक सुहावना, मंगलरूप, पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाय, जहाँ सुख के समुद्र श्रीरामजी ने निवास किया।

पय पयोधि तजि अवध विहाई * जहँ सिय लखनु रामु रहे आई
कहिनसर्काहिं सुषमा जसि कानन * जौं सत सहस होहिं सहसानन

क्षीर-सागर को त्याग कर और पुरी को छोड़कर श्रीसीता-रामजी व लक्ष्मणजी जहाँ आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजारों मुख वाले एक लाख शेषजी भी नहीं कह सकते।

सो सैं बरनि कहौं विधि केही * डाबर कमठ कि मन्दर लेही
सेवाहिं लखनु करस मन बानी * जाइ न सीलु सनेहु बखानी

मैं उसे किस प्रकार वर्णन कर सकता हूँ? क्या गड्ढे का कछुआ मन्दराचल को उठा सकता है? लक्ष्मणजी मन, कर्म, वचन से रामजी की सेवा करते हैं, उनका शील व प्रेम कहा नहीं जाता।

दोहा—छिनुछिनु लखि सियरास पद, जानि आपु पर नेहु।

करत न सपनेहुँ लखनु चित, बन्धु मातु पितु गेहु ॥१३४॥

क्षण-क्षण में श्रीसीता-रामजी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनके स्नेह को जानकर लक्ष्मणजी—स्वप्न में भी भाई, माता-पिता और घर की याद नहीं करते।

रामु सङ्ग सिय सहित सुखारी * पुर परिजन गृह सुरति बिसारी
छिनुछिनु पिय बिधुबदनु निहारी * प्रमुदित मनहुँ चकोर कुमारी

श्रीरामजी के साथ सीताजी-अवधपुरी, कुदुम्बी और घर की सुधि भुलाकर रहने लगीं। क्षण २ में पति के चंद्रमुख को देख के ऐसी प्रसन्न रहती हैं, जैसे चकोरी—चन्द्रमा को देख प्रसन्न होती है।

नाह नेहु नित बढ़त बिलोकी * हरषित रहति दिवस जिमिकोकी
सिय मनु रास चरन अनुरागा * अवध सहस सम बनु प्रिय लागा

सीताजी अपने ऊपर स्वासी का स्नेह नित्य बढ़ता हुआ देखकर ऐसी प्रसन्न रहती हैं, जैसे दिन में चकवी। सीताजी का मन श्रीरामजी के चरणों का ऐसा प्रेमी हो गया कि वन उन्हें हजारों अयोध्या के समान प्यारा लगता है।

परनकुटी प्रिय प्रियतम सङ्गा * प्रिय परिवारु कुरङ्ग बिहङ्गा
सासुससुर सम मुनितिय मुनिवर * असनु अमिअ सम कन्दमूल फर

पर्णकुटी पति के साथ प्रिय लगती है। पशु व पक्षी कुदुम्बीजनों के समान प्रिय लगते हैं, मुनियों की स्त्रियाँ व मुनिवर सासु-ससुर के समान और कंद-मूल-फल के भोजन अमृत जैसे लगते हैं।

नाथ साथ साँथरी सुहाई * सदन सयन सय सम सुखदाई
लोकप होहिं विलोकत जासू * तेहि कि सोहसक विषय विलासू

पति के साथ सुन्दर साथरी ही कामदेव की सैकड़ों सेजों के समान सुखदायक है, जिनकी

जाहिं चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत ॥११८॥

इस प्रकार रघुवंशरूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य श्रीरामजी, मार्ग में लोगों को सुख देते हुए और वन को देखते हुए सीताजी और सुमित्रानंदन लक्ष्मणजी सहित चले जा रहे हैं।

आगे रामु लखनु पुनि पाछे * तापस वेष विराजत काछे
उभय बीच सिय शोभित कैसे * ब्रह्म जीव विच माया जैसे

आगे श्रीरामजी व पीछे लक्ष्मण तपस्वी का वेष बनाये हुए शोभायमान हैं। दोनों के बीच में सीताजी कंसो शोभा दे रही हैं जैसे प्रह्ला और जीव के बीच में माया शोभित होती है।
बहुरि कहउं छबि जसि मन बसई * जनु मधु मदन मध्य रति लसई
उपमा बहुरि अहउं जियं जोहीं * जनु बुध विधु विचरोहिनिसोहीं

मैं उस छबि को कहता हूँ जैसे मेरे मनमें बसो है, मानो वसंत और कामदेव के बीच में रति ही शोभित हो। मनमें खोजकर उपमा कहता हूँ, मानो बुध व चन्द्रमाके बीचमें रोहिणी शोभित हो।
प्रभु पदरेख बीच बिच सीता * धरति चरन मग चलति सभिता
सीय राम पद अङ्क वराएँ * लखन चलाहिं मगु दाहिन लाएँ

प्रभु श्रीरामजी के चरण-चिन्हों के बीच-बीच में सीताजी अपने पांव रखती हैं, और डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। श्रीसीता-रामजी के चरण-चिन्हों को बचाते हुए, दाहिने रखते हुए लक्ष्मणजी चलते हैं।

राम लखन सिय प्रीति सोहाई * वचन अगोचर किमि कहि जाई
खग मृग मगन देखि छबि होहीं * लिए चोर चित्त राम बटोहीं

श्रीराम, लक्ष्मण व सीताजी की सुन्दर प्रीति कैसे कही जाय, वाणी नेत्रहीन हैं। पशु-पक्षी भी उनकी छबि देख प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि बटोही श्रीरामजीने उनके चिरा चुरा लिए हैं।
दोहा—जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दोउ भाइ।

भव मगु अगमु अनन्दु तेइ, विनु श्रम रहे सिराइ ॥११९॥

जिन-जिन प्यारे पथिकों ने सीताजी समेत दोनों भाइयों को देखा, वे संसार के कठिन मार्ग को आनन्द पूर्वक बिना परिश्रम ही पार कर गये।

अजहुँ जासु उर सपनेहुँ काऊ * बसहु लखनु सिय रामु बटाऊ
राम धाम पथ पाइहि सोई * जो पथ पाव कबहुँ मुनि कोई

अबभी जिनके हृदयमें कभी स्वप्न में भी बटोही श्रीराम-सीता व लक्ष्मणजी वास करते हैं। वह श्रीरामजी के परमधाम के उपमार्ग को पाता है, जिसको विरले मुनिजन ही कभी पाते हैं।

तब रघुवीर श्रमित सिय जानी * देखि निकट वटु सीतल पानी
तहुँ बसि कन्द मूल फल खाई * प्रात नहाय चले रघुराई

श्रीरामजी ने सीताजी को थकी हुई जाना, तब पासही वट-वृक्ष और ठंडा पानी देखकर बड़ा ठहर गये। वहाँ कंद, मूल, फल का भोजन करके, प्रातःकाल स्नान कर श्रीरघुनाथजी वहाँसे

इस प्रकार पशु, पक्षी, देवता व तपस्वियों के हितकारी प्रभु वन में सुख से रहने लगे। (तुलसीदास दासजी कहते हैं) सुन्दर श्रीराम-वनगमन मैंने कहा, अब जिस प्रकार सुमंतजी पुरीमें आये, सो सुनो-
फिरेउ निषादु प्रभुहि पहुँचाई * सचिव सहित रथ देखेसि आई
मन्त्री विकल विलोकि निषादू * कहि न जाइ जस भयउ विषादू

प्रभु को पहुँचाकर निषादराज लौटा, तब आकर उसने सुमन्त सहित रथ को वहीं देखा। मन्त्री को व्याकुल देखकर निषादराज को जो दुःख हुआ, वह कहा नहीं जा सकता।

राम राम सिय लखन पुकारी * परेउ धरनि तल व्याकुल भारी
देखि दखिनदिसि हय हिहिनाही * जनु बिनु पंख विहँग अकुलाही

सुमन्त—राम र ! सीता ! लक्ष्मण ! पुकार कर बहुत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख ऐसे हिनहिनाने लगे, जैसे बिना पंख के पक्षी दुःखी होते हैं।

दोहा—नहिं तून चरहिं न पिअहिं जलु, सोचहिं लोचन बारि ।

व्याकुल भयउ निषाद तब, रघुबर बाजि निहारि ॥१३७॥

न तो वे घास चरते हैं, न पानी पीते हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं। श्रीरघुनाथजी के घोड़ों की दशा देख निषाद व्याकुल होगया।

धरि धीरजु तब कहइ निषादू * अब सुमन्त्र परिहरहु विषादू
तुम्ह पण्डित परमारथ ग्याता * धरहु धीर लखि विमुख विधाता

तब निषाद ने धीरज धरकर कहा—हे सुमन्त ! शोक को त्याग दो, क्योंकि आप पंडित और परमार्थ के ज्ञाता हो। विधाता को विमुख जानकर धीरज धरो।

विविधकथा कहि कहि मृदुवानी * रथ बैठारेउ बरबस आनी
सोक सिथिल रथु सकइ न हाँकी * रघुबर बिरह पीर उर बाँकी

निषाद ने मधुर वाणी से अनेक कथाएँ कहकर सुमन्त को बरबस लाकर रथ में बैठाया। परन्तु वे शोक के कारण शिथिल हो जाने से रथ को नहीं हाँक सके, श्रीराम-विरह की उनके हृदय में बड़ी पीड़ा थी।

तरफराहिं मग चलहिं न घोरे * वनसृग मनहुं आनि रथ जोरे
अहुकि परहिं फिरि हेरहिं पीछें * राम वियोग विकल दुख तीछें

घोड़े तड़फड़ाते हैं, सीधे मार्ग पर नहीं चलते, मानो जङ्गली हिरन लाकर रथ में जोत दिये हों। कभी अटक जाते और पीछे को घूमकर देखते हैं। श्रीराम के विरह से बड़े ही व्याकुल होगये।

जो कह रामु लखनु बैदेही * हिकरि हिकरि हित हेरहिं तेही
बाजि बिरहगति किसि कहि जाती * बिनुमनिफनिक विकलजेहिभांती

जो कोई राम-लक्ष्मण व सीता का नाम लेता है, तो हींस-हींस करके उसकी ओर देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह-दशा कैसे कही जाय ? ऐसे व्याकुल हैं—जैसे मणि के बिना सर्प।

दोहा—भयउ निषादु विषाद बस, देखात सचिव तुरङ्ग ।

दर्शन होना-यह सब मेरे पुष्यों का प्रभाव है ।

देखि पाँय मुनिराय तुम्हारे * भए सुकृत सब सुफल हमारे
अब जहाँ मुनिवर आयसु होई * मुनि उदवेगु न पावै कोई
हे मुनिनाय ! आपके चरणों के दर्शन करने से हमारे सब पुष्य सफल होंगे । अब
जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग व पावै ।

मुनि तापस जिन्हतेँ दुखु लहहीं * ते नरेस विनु पावक दहहीं
मङ्गल मूल विप्र परितोषू * दहइ कोटि कुल भूसुर रोषू
क्योंकि जिन राजाओं से मुनि और तपस्वी लोग दुःख पाते हैं, वे बिना आग ही जल
जाते हैं । ब्राह्मण का प्रसन्न होना ही सब मंगलों की जड़ है और ब्राह्मणों का कोप करोड़ों
कुलों को जला देता है ।

असजियंय जानि कहिअ सोइ ठाऊँ * सिय सोमित्र सहित जहँ जाऊँ
तहँ रचि रुचिर परन तृनशाला * वासु करौ कष्ट काल कृपाला
ऐसा मन में जानकर वही स्थान बतलाइये, जहाँ में जानकी और लक्ष्मण सहित जाऊँ
और वहाँ पत्तों व धास से सुन्दर कुटी बनाकर, हे कृपालु मुनि ! कुछ समय तक वास करें ।

सहज सरल सुनि रघुवर वानी * साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी
कस न कहहु अस रघुकुल केतू * तुम्ह पालक सन्तति श्रुतिसेतू
श्रीरामजी की सहज व सीधी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकिजी बोले-धन्य है, धन्य है !
हे रघुवंश में ध्वजा ! आप ऐसा क्यों न कहेंगे ? आप सर्व वेद की मर्यादा के रक्षक हैं ।

छन्द-श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी ।
जो सृजति जगु पालति हरति रुख पाइ कृपानिधान की ॥
जो सहस सीस अहीसु महिधरु लखनु सचराचर धनी ।
सुरकाज धरि नरराज तनु चले दलन खल निसिचर अनी ॥

हे रामजी ! आप वेदों की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं, जानकीजी माया हैं । वह
आप कृपानिधान की इच्छा पाकर जगत् को रचती, पालती और संहार करती हैं । जो
हजार मस्तक वाले शेषनाग रूप से पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, वही चराचर के स्वामी
लक्ष्मणजी हैं । ऐसे आप देव-कार्य के लिये राजा का शरीर धारण कर, दुष्ट रत्नों की
सेवा का विध्वंस करने के लिए चले हैं ।

सौ०-राम सरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर ।
अवगति अकथ अपार, नेति नेति नित निगन कह ॥ ५ ॥
हे रामजी ! आपका स्वरूप अनिबन्धनीय, बुद्धि से परे, अविगत, अकथनीय और अपार
है । वेद सर्व उसे 'नेति-नेति' कहते हैं ।
जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे * विधि हरि शम्भु नचावनहारे

क्योंकि अवधरूपी किवाड़ हृदय में लगे हैं ।

विवरन भयउ न जाइ निहारी * मारेसि मनहुं पिता महतारी
हानि गलानि विपुल मन व्यापी * जमपुर पन्थ सोचि जिमि पापी

मुख कारंग बदल गया, जो देखा नहीं जाता, मानो माता-पिता को मारा हो । मनमें त्रियोगरूपी हानि से बहुत ही उदासी छा गई, जैसे पापी जमपुरीके मार्ग में मारे सोचके उदास हो जाते हैं ।

वचनु न आव हृदयँ पछिताई * अबध काह मैं देखव जाई
राम रहित रथ देखहि जोई * सकुचिहि सोहि बिलोकत सोई

मुँह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछता रहे हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूँगा ? जो लोग बिना श्रीरामजी के रथ को देखेंगे, वे मुझे देखने में भी संकोच करेंगे ।

दोहा-धाइ पूँछिहहि सोहि जब, विकल नगर नर नारि ।

उतरु देव मैं सर्वाहि तब, हृदय बज्जु बैठारि ॥१४०॥

नगर के व्याकुल स्त्री-पुरुष दौड़कर जब मुझसे श्रीरामजी के समाचार पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको क्या उत्तर दूँगा ।

पूँछहि दीन दुखित सब माता * कहब काह मैं तिन्हहि विधाता
पूँछहि जबहि लखन महतारी * कहिहउँ कवन सँदेश सुखारी

हे विधाता ! जब दीन-दुःखी सब मातायें मुझसे समाचार पूछेंगीं, तब मैं उनको क्या कहूँगा ? जब लक्ष्मणजी की माता मुझसे पूछेंगीं, तब मैं कौन सा सुख सन्देश उनसे कहूँगा ?

राम जननि जब अइहहि धाई * सुमिरि वचछु जिमि धेनु लवाई
पूँछत उतरु देव मैं तेही * गे वनु राम लखन बौदेही

श्रीरामजी की माता जब दौड़कर मेरे पास आयेंगी, जैसे हाल की व्याही हुई गाय बछड़े को याद करके दौड़ आयी है । तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यही उत्तर दूँगा कि श्रीराम-लक्ष्मण व जानकीजी वन को गये ।

जो पूँछहि तेहि उतरु देवा * जाइ अबध अब यहु सुखु लेवा
पूँछहि जबहि राउ दुखु दीना * जिवनु जासु रघुनाथ अधीना

जो मुझसे पूछेगा, उसको यही उत्तर दूँगा, अयोध्या में जाकर अब सुख लेना है । परन्तु जब दीन-दुःखी राजा-जिनका जीवन श्रीरामजी के ही आधीन है, मुझसे पूछेंगे ।

देउँ उतरु कवन मुँह लाई * आयउँ कुसल कुअँर पहुँचाई
सुनत लखन सिय राम सँदेसू * तून जिमि तनु परिहरिहि नरेसू

तो मैं राजासे कोन-सा मुँह लेकर उत्तर दूँगा कि कुमारों को सकुशल पहुँचाकर लौटा आया हूँ । श्रीराम-लक्ष्मण व सीता का समाचार सुनकर, महाराज तिनके को भाँति देह को त्याग देंगे ।

दोहा-हृदयँ न बिदरेउ पङ्कजिमि, बिछुरत प्रीतमु नीर ।

जानत हौँ सोहि दीन्ह विधि, यम जातना शरीर ॥१४१॥

तिन्ह के हृदय सदन सुखादायक * बसहु बन्धु सिय सह रघुनायक
 तथा जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रक्खा है और आपके दर्शनरूपी मेघ की इच्छा किये रहते हैं तथा समुद्र, नदी और सरोवर का निरादर कर आपके रूप के विन्दुको पाकर सुखी होते हैं, उनके सुखदाई 'हृदय-मन्दिर' में—हे श्रीरघुनायजी ! आप लक्ष्मण और सीताजी सहित वास कीजिए ।

दोहा—जसु तुम्हार मानस विमलु, हंसिनि जीहा जासु ।

मुक्ताहल गुन गन चुगइ, राम बसहु हिय तासु ॥१२३॥

आपके यशरूपी निर्मल मानसरोवर में जिनकी जीभ हंसिनी बनकर—आपके गुण-समूह रूपी मोतियों की चुगती रहती है, हे श्रीरामजी ! आप उनके हृदय में वास करिए ।

प्रभु प्रसाद सचि सुभग सुवासा * सादर जासु लहइ नित नासा
तुम्हांहि निवेदित भोजन करहीं * प्रभु प्रसाद पट भूषन धरहीं

आपके पवित्र सुन्दर प्रसाद की सुगन्ध को आदर सहित प्रतिदिन जिनकी नासिका सूँघती हैं, एवं जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं तथा आपके ही प्रसाद कपड़े-गहने पहिनते हैं ।

सीस नवहि सुर गुर द्विज देखी * प्रीति सहित करि विनय विसेषी
कर नित करहि राम पद पूजा * राम भरोस हृदय नहि दूजा

जिनके सिर देवता, गुरु, ब्राह्मणों को देख प्रीतिपूर्वक नम्रता से झुकजाते हैं, जिनके हाथ नित्य आपके चरणों का पूजन करते हैं और मन में आपका ही भरोसा करते हैं, दूसरे का नहीं ।

चरन राम तीरथ चलि जाहीं * राम बसहु तिन्ह के मन माहीं
मन्त्र राजु नित जपहि तुम्हारा * पूजहि तुम्हहि सहित परिवारा

तथा जिनके चरण आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं—हे श्रीरामजी ! आप उनके मनमें वास करिये । जो आपका मन्त्र-राज (राम-नाम) नित्य जपते हैं और परिवार समेत आपकी पूजा करते हैं, तथा—

तरपन होम करिहि विधि नाना * विप्र जेवाइ देहि बहु दाना
तुम्हते अधिक गुरहि जिय जानी * सकल भायँ सेवहि सनमानी

जो अनेक प्रकार से तर्पण बह्वन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत सा दान देते हैं और आप से भी अधिक गुरु को हृदय में जानकर सब प्रकार से आदर करके सेवा करते हैं ।

दोहा—सबु कर मांगहि एक फलु, रामचरन रति होउ ।

तिन्हके मन मन्दिर बसहु, सिय रघुनन्दन दोउ ॥१२४॥

जो इन सब कर्मों का एक ही फल मांगते हैं कि श्रीरामजी के चरणों में हमारा प्रेम हो, उनके 'मन-मन्दिर' में सीताजी और रघुकुल के आनन्दरूप आप दोनों वास कीजिए ।

काम कोहँ मद मान न मोहा * लोभ न छोभ न राग न द्रोहा
तिन्हके कपट दम्भ कहि माया * तिन्हके हृदय बसहु

लेउ उसासु सोच एहि भाँती * सुरपुर तेँ जनु खाँसेउ जजाती

राजा-आसन, शैल्य और आभूषणों से हीन, बहुत उदास मुख हुए भूमि पर पड़े हैं। वे दीर्घ-श्वास ले-लेकर इस प्रकार सोच कर रहे हैं, मानो राजा ययाति देवलोक से गिरने पर पंछता रहे हों।

लेत सोचभरि छिनु छिनु छाती * जनु जरि पंख परेउ सम्पाती
राम राम कह राम सनेही * पुनि कह राम लखन बैदेही

सोच के कारण क्षण,क्षण में छाती भर आती है। राजा ऐसे व्याकुल पड़े हैं मानो पंखों के जल जाने से सम्पाती गिर पड़ा हो। बारम्बार-हे राम, हे राम, हे स्नेही-राम! कहते हैं, फिर हा राम! हा लक्ष्मण! हा सीता! कहकर पुकारते हैं।

दोहा-देखि सचिवँ जयजीव कहि, कीन्हेउ दण्ड प्रनामु।

सुनत उठउ व्याकुल नृपति, कहु सुमन्त कहँ रामु ॥१४३॥

सुमन्त ने राजा को देख, 'जय-जीव' कहकर दण्डवत् प्रणाम किया। तब सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले-हे सुमन्त! कहो राम कहां हैं?

भूप सुमन्त्र लीन्ह उर लाई * बूढ़त कछु अधार जनु पाई
सहित सनेह पास बैठारी * पूँछत राउ नयन भरि बारी

राजा ने सुमन्त को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए ने कुछ सहारा पालिया हो। सप्रेम अपने पास बैठकर आंखों में आंसू भरकर राजा ने पूछा।

राम कुशल कह सखा सनेही * कहँ रघुनाथ लखनु बैदेही
आने फेरि कि बनहि सिधाए * सुनत सचिव लोचन जल छाए

हे स्नेही-सखा! रामकी कुशल कहो, बताओ-रघुनाथ, लक्ष्मण और सीता कहां हैं? तुम उन्हें लौटा लाये हो, या वे वन को चले गये। यह सुन मंत्री के नेत्रों में जल भर आया।

शोक बिकल पुनि पूँछ नरेसू * कहु सिय राम लखन सन्देशू
राम रूप गुन शील सुभाउ * सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ

शोक से व्याकुल हो राजा ने फिर पूछा-सीता, राम लक्ष्मण का सन्देश तो कहो। राजा-राम के रूप, गुण, शील और स्वभाव को याद करके मन में सोच करते हैं।

राउ सुनाइ दीन्ह बनवासू * सुनि मन भयउ न हरषु हराँसू
सो सुत बिछुरत गए न प्राणा * को पापी बड़ सोहि समाना

राज-तिलक सुनाकर, बनवास दिया। यह सुनकर भी जिनके मनमें न हर्ष हुआ और न शोक ही, उस पुत्र के विछुड़ने पर भी ये प्राण नहीं गये। मेरे समान महापापी कौन है?

दोहा-सखा राम सिय लखनु जहँ, तहाँ सोहि पहुँचाउ।

नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहउँ सतिभाउ ॥१४४॥

हे सखा! जहां राम, सीता और लक्ष्मण हैं, वहाँ मुझे पहुँचादो, नहीं तो मेरे प्राण अब

करम बचन मन राउर चेरा * राम करहु तेहि के उर डेरा

जिन्हें स्वर्ग, नरक अथवा मोक्ष एक समान हैं, जो जहां-तहां धनुष धारण किये आपको ही देखते हैं और मन, कर्म, बचन से आपके सेवक हैं, हे श्रीरामजी ! आप उनके हृदय में डेरा करिये ।

दोहा—जाहि न चाहिअ कबहुँ कछु, तुम्हसन सहज सनेहु ।

बसहु निरन्तर तासु मन, सो राउर निज गेहु ॥१२६॥

जिन्हें कभी कुछ नहीं चाहिए और आपसे जिनका स्वाभाविक स्नेह है, उनके हृदय में आप वास कीजिये—वह आपका ही घर है ।

एहि विधि मुनिवर भवन देखाए * बचन सप्रेम राम मन भाए

कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक * आश्रम कहउँ समय सुखदायक

इस प्रकार मुनि वाल्मीकिजी ने स्थान दिखाये, उनके प्रेमपूर्ण वचन श्रीरामजी के मन को भाये । फिर मुनि बोले—हे स्वामी ! सुनिए, अब इस समय के लिए सुखदायक आश्रम बताता हूँ—

चित्रकूट गिरि करहु निवासू * तहँ तुम्हारि सब भाँति सुपासू

सैल सुहावन कानन चारू * करि केहरि मृग विहंग विहारू

चित्रकूट पर्वत पर आप निवास कीजिए, वहाँ आपको सब प्रकार का सुभोग होगा, वह पर्वत सुहावना और वन सुन्दर है । उसमें हाथी, सिंह, हिरण आदि पशु-पक्षी विहार करते हैं ।

नदी पुनीत पुरान बखानी * अत्रिप्रिया निज तपबल आनी

सुरसरि धार नाउँ मन्दाकिनि * सो सब पातक पोतक डाकिनि

वहाँ की पवित्र नदी पुराणों ने बखानी है, उसे अत्रि-ऋषि की पत्नी 'अनुसुमाजी' अपने तपोबल से लाई थी । उस धारा का नाम 'मन्दाकिनी' है, जो पापरूपी पातकों को खाने के लिए डाकिन रूप है ।

अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहीं * करहिं जोग जप तप तन कसहीं

चलहु सफल श्रम सबकर करहु * राम देहु गौरव गिरिवरहु

अत्रि आदि मुनिवर वहाँ रहते हैं और योग, जप करते हुए शरीर को कसते हैं । हे श्रीरामजी ! वहाँ चलिये और सब ऋषियों के परिश्रम को सफल करिये तथा पर्वत श्रेष्ठ को गौरव दीजिए ।

दोहा—चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाइ ।

आए नहाए सरित बर, सिय समेत दोउ भाइ ॥१२७॥

इस प्रकार श्रेष्ठ महामुनि वाल्मीकिजी ने चित्रकूट की महिमा बखानी, तब सीताजी समेत दोनों भाई आकर पवित्र नदी में नहाए ।

रघुवर कहेउ लखन भल घाट * करहु कतहुँ अब ठाहर ठाट

लखन दीख पय उतर करारा * चहुँदिसि फिरेउ धनुषजिमिनारा

श्रीरामजीने कहा—हे लक्ष्मण ! बड़ा सुन्दर घाट है, वहाँ कहीं रहने की व्यवस्था करो, तब नै जल के उत्तर की ओर किनारे की देखा कि उसके चारों ओर धनुष के समान नाला फिरा है

फिर मुझे विकल देखकर श्रीरामजी धीरज धरकर मधुर वचन बोले—हे तात ! मेरा प्रणाम पिताजी से कहना और मेरी ओर से बारम्बार उनके चरणकमल छूना ।

करवि पायँ परि विनय बहोरी * तात करिअ जनि चिन्ता मोरी
वन मग सङ्गल कुशल हमारे * कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारे

फिर पाँव पकड़कर विनती करना कि हे तात ! आप मेरी चिन्ता न करें। आपकी कृपा अनुग्रह तथा पुन्य के प्रभाव से हमारे लिये वन का मार्ग सङ्गल और कुशलदायक ही होगा छन्द—तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सबु सुखु पाइ हौं ।

प्रतिपाल आयसु कुसल देखन पाँय पुनि फिरि आइ हौं ॥

जननी सकल परितोषी परि परि पायँ करि विनती धनी ।

तुलसी करेहु सोइ यत्न जेहि विधि कुसल रहि कोशलधनी ॥

हे पिताजी ! आपके अनुग्रह से मैं वन में जाकर सुख पाऊँगा। आज्ञा का पालन कर फिर आपके चरणों के दर्शन करके सकुशल लौट आऊँगा। फिर सब माताओं के चरणों में गिरकर उन्हें सन्तुष्ट करके बहुत प्रकार से विनती करना। तुलसीदासजी कहते हैं—आपवही उपाय करना, जिससे कौशलपति महाराज सकुशल रहें।

सो०—गुरुसन कहब सँदेसु, बार बार पद पदुम गहि ।

करब सोइ उपदेसु, जेहि न सोचु मोहि अवधपति ॥ ६ ॥

गुरु वशिष्ठजी के चरणारविंदों को बारम्बार छूकर मेरा संदेश कहना कि आप वही उपदेश अवधपति को देते रहें—जिससे पिताजी मेरा सोच न करें।

पुरजन परिजन सकल निहोरी * तात सुनाएहु विनती मोरी
सोइ सब भाँति मोर हितकारी * जातें रह नरनाहु सुखारी

हे तात ! सब पुरवासियों और कुटुम्बियों से प्रार्थना करके मेरी विनती सुनाना कि वही सब प्रकार से मेरा हितकारी है, जिससे महाराज सुखी रहें।

कहव सँदेसु भरत के आए * नीति न तजिअ राजपदु पाए
पालेहु प्रजहि करस मन बानी * सेवहु मातु सकल सम जानी

भरत के आने पर उनसे यह संदेश कहना कि वे राज्य को पाकर नीति को न त्याग दें। मनसा, वाचा, कर्मणा—तीनों से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवाकरना।

और निबाहेहु भायप भाई * करि पितु मातु सुजन सेवकाई
तात भाँति तेहि राखव राऊ * सोच मोर जेहि करै न काऊ

और हे भाई ! माता-पिता तथा बड़ों की सेवा करके भाईपन को निवाहना हे तात ! महाराज का भी उसी प्रकार ध्यान रखना—जिससे वे कभी मेरा सोच न करें।

लखन कहे कछु बचन कठोरा * बरजि राम पुनि मोहि निहोरा

मुनिजन श्रीरामजी को हृदयसे लगा लेते हैं और सफल होने के निमित्त आशीर्वाद देते हैं। वे सीताजी, लक्ष्मणजी तथा श्रीरामजी की छवि को देख अपने सब साधनों को सफल समझने लगे।

दोहा—जथा जोग सनमानि प्रभु, बिदा किए मुनिवृन्द।

करहिं जोग जप जाग तप, निज आश्रमहिं सुछन्द ॥१२८॥

यथा योग्य सम्मान कर प्रभु ने मुनिगणों को विदा किया। अपने आश्रमों में इच्छानुसार योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे।

**यह सुधि कोल किरातन्हु पाई * हरषे जनु नव निधि घर आई
कन्द मूल फल भरि भरि दोना * चले रङ्क जनु लूटन सोना**

जब यह खबर कोल-भोलों ने पाई तो वे ऐसे प्रसन्न हुए, मानो नवों-निधियां उनके ही घर में आ गई हों। दोनों में कन्द, मूल, फल भर-भरकर इस प्रकार चले, मानो कङ्काल सोना लूटने जाते हैं।

**तिन्हुमहँ जिन्हु देखे दोउ भ्राता * अपर तिन्हुहिं पूँछहिं मगु जाता
कहत सुनत रघुवीर निकार्ई * आइ सवन्हि देखे रघुराई**

उनमें से जिन्होंने दोनों भाइयों के दर्शन किए थे, उनसे दूसरे लोग राह में पूछने लगे। वे श्रीरामजी की शोभा कहते-सुनते आये और सभी ने श्रीरघुनाथजी के दर्शन किये।

**करहिं जोहार भेंट धरि आगे * प्रभुहिं बिलोकाहि अति अनुरागे
चित्र लिखे जनु जहँ तहँ ठाढ़े * पुलक शरीर नयन जल बाढ़े**

आगे भेंट रखकर प्रणाम किया और बड़े प्रेम से प्रभु को देखने लगे, मानो चित्रलिखे-से जहाँ के तहाँ छड़े रह गये। उनके शरीर पुलकित हो गये और आंखों में जल भर आया।

**राम सनेह मगन सब जाने * कहि प्रिय वचन सकल सनमाने
प्रभुहि जोहारि बहोरि बहोरी * वचन विनीत कहहि कर जोरी**

श्रीरामजी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना तो प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे प्रभु श्रीरामजी को बारम्बार प्रणाम कर हाथ जोड़कर नम्र वचनों में बोले—

दोहा—अब हम नाथ सनाथ सब, भए देखि प्रभु पाय।

भाग हमारें आगमनु, राउर कोसलराय ॥१३०॥

हे नाथ ! अब हम सब प्रभुके दर्शन करके सनाथ होगये। हे कौशलपति ! हमारे भाग्य से ही आपका आगमन हुआ है।

**धन्य भूमि वन पन्थ पहारा * जहँ जहँ नाथ पाउँ तुम्ह धारा
धन्य विहग मग कान्त चारी * सफलजनम भए तुम्हहिं निहारी**

हे स्वामी ! ये पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं, जहाँ-जहाँ आपने चरण रखे हैं। वे पक्षी और वनवासी धन्य हैं, जो आपके दर्शन करके सफल जन्म हो गये हैं।

हम सब धन्य सहित परिवारा * दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा

फिर मुझे विकल देखकर श्रीरामजी धीरज धरकर मधुर वचन बोले—हे तात ! मेरा प्रणाम पिताजी से कहना और मेरी ओर से बारम्बार उनके चरणकमल छूना ।

करवि पायँ परि विनय बहोरी * तात करिअ जनि चिन्ता मोरी
वन मग मङ्गल कुशल हमारें * कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारें

फिर पाँव पकड़कर विनती करना कि हे तात ! आप मेरी चिन्ता न करें। आपकी कृपा अनुग्रह तथा पुन्य के प्रभाव से हमारे लिये वन का मार्ग मङ्गल और कुशलदायक ही होगा छन्द—तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सबु सुखु पाइ हौं ।

प्रतिपाल आयसु कुशल देखन पाँय पुनि फिरि आइ हौं ॥

जननी सकल परितोषी परि परि पायँ करि विनती घनी ।

तुलसी करेहु सोइ यत्न जेहि विधि कुशल रहिं कोशलधनी ॥

हे पिताजी ! आपके अनुग्रह से मैं वन में जाकर सुख पाऊँगा। आज्ञा का पालन कर फिर आपके चरणों के दर्शन करके सकुशल लौट आऊँगा। फिर सब माताओं के चरणों में गिरकर उन्हें सन्तुष्ट करके बहुत प्रकार से विनती करना। तुलसीदासजी कहते हैं—आपवहीं उपाय करना, जिससे कौशलपति महाराज सकुशल रहें।

सो०—गुरुसन कहब सँदेसु, बार बार पद पदुम गहि ।

करब सोइ उपदेसु, जेहिं न सोचु मोहि अवधपति ॥ ६ ॥

गुरु वशिष्ठजी के चरणारविंदों को बारम्बार छूकर मेरा संदेश कहना कि आप वही उपदेश अवधपति को देते रहें—जिससे पिताजी मेरा सोच न करें।

पुरजन परिजन सकल निहोरी * तात सुनाएहु विनती मोरी
सोइ सब भाँति मोर हितकारी * जातें रह नरनाहु सुखारी

हे तात ! सब पुरवासियों और कुटुम्बियों से प्रार्थना करके मेरी विनती सुनाना कि वही सब प्रकार से मेरा हितकारी है, जिससे महाराज सुखीरहें।

कहब सँदेसु भरत के आए * नीति न तजिअ राजपदु पाए
पालेहु प्रजहि करम मन बानी * सेवहु मातु सकल सम जानी

भरत के आने पर उनसे यह संदेश कहना कि वे राज्य को पाकर नीति को न त्याग दें। मनसा, वाचा, कर्मणा—तीनों से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवाकरना।

और निवाहेहु भायप भाई * करि पितु मातु सुजन सेवकाई
तात भाँति तेहि राखब राऊ * सोच मोर जेहि करै न काऊ

और हे भाई ! माता-पिता तथा बड़ों की सेवा करके भाईपन को निवाहना हे तात ! महाराज का भी उसी प्रकार ध्यान रखना—जिससे वे कभी मेरा सोच न करें।

लखन कहे कछु बचन कठोरा * बरजि राम पुनि मोहि निहोरा

दोहा—नीलकण्ठ कलकण्ठ सुक, चातक चक्क चकोर ।

भाँति भाँति बोलाहिं बिहँग, श्रवण सुखद चितचोर ॥१३२॥

नीलकण्ठ, कौकिल, तोते, पपीहे, चकवा, चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली, और चित्त को चुराने वाली भाँति २ की सुन्दर बोली बोल रहे हैं ।

करि केहरि कपि कोल कुरङ्गा * बिगत वैर विचरहिं सब सङ्गा
फिरत अहेर राम छवि देखी * होहिं मुदित मृगवृन्द विसेषी

हायी, सिंह, बन्दर, सूअर, हिरण आदि पशु सब बँर छोड़कर एक साथ घूमते हैं । शिकार के लिए वन में घूमते हुए श्रीरामजी की छवि देखकर हिरनों के झुण्ड बहुत प्रसन्न होते हैं ।

बिबुध विपिन जहँ लगी जगमाहीं * देखि राम वनु सकल सिहाहीं
सुरसरि सरसइ दिनकर कन्या * मेकलसुता गोदावरि धन्या

संसार में जितने देव-वन हैं वे श्रीरामचन्द्रजी के वन को देखकर सिहाया करते हैं । गङ्गा, सरस्वती, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य नदियाँ—

सब सर सिन्धु नदी नद नाना * मन्दाकिनि कर करहिं बखाना
उदय अस्त गिरि अरु कैलास * मन्दर मेरु सकल सुरवासू

सब सरोवर, समुद्र, नदियाँ अनेकों नाले यह सब मन्दाकिनी की प्रशंसा करते हैं । उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मन्दराचल और सुमेरु आदि पर्वत जो देवताओं के निवास स्थान हैं ।

सैल हिमाचल आदिक जेते * चित्रकूट जसु गावाहिं तेते
विन्ध्य मुदित मन सुखु न समाई * श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई

और हिमालय आदि जितने पहाड़ हैं वे सभी चित्रकूट का यश गाते हैं । विन्ध्याचल बड़ा प्रसन्न हुआ, उसके मन में सुख नहीं समाता, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ाई पाली है ।

दोहा—चित्रकूट के बिहँग मृग, बेलि बिटप तृन जाति ।

पुन्य पुंज सब धन्य अस, कर्हाहिं देव दिन राति ॥१३३॥

देवता दिन-रात यही कहते हैं कि चित्रकूट के पशु, पक्षी, लता, वृक्ष और घास आदि सब पुण्य के समूह हैं और धन्य हैं ।

नयनवन्त रघुवरहिं विलोकी * पाइ जनम फल होहिं विसोकी
परसि चरन रज अचर सुखारी * भए परम पद के अधिकारी

नेत्र वाले जीव श्रीरामजी के दर्शन कर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर श्रीरामजी के चरणों की रज को छूकर सुखी होते हैं, सभी मोक्ष के अधिकारी हो गये हैं ।

सो वनु सैल सुभायँ सुहावन * मङ्गलमय अति पावनि पावन

कौशल्या नृप दीख मलीना * रतिकूल रवि अंथयउ जियँ जाना
उर धरि धीर राम सहतारी * बोली वचन समय अनुसारी

कौशल्याजी ने राजा को उदास देखकर जान लिया कि सूर्यकुल का सूर्य अब अस्त हो
चला । तब श्रीरामजी की माता मनमें धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली—

नाथ समुद्रि मन करिअ विचारू * राम वियोग पयोधि अपारू
करन धार तुम्ह अवध जहाजू * चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजू

हे नाथ ! आप मनमें समझकर ऐसा विचार कीजिए कि राम का वियोग तो अपार
समुद्र है और अवध जहाज है, उसके आप ही कर्णधार हैं और सब प्रियजन उसपर यात्रियों
के झुण्ड के समान चढ़े हैं ।

धीरज धरिअ तौ पाइअ पारू * नाहिं त बूढ़िहि सबु परिवारू
जौं जियँ धरिअ विनय प्रभुमोरी * राम लखन सिय मिलहिं बहोरी

आप धीरज धरेंगे, यो पार उतर जायेंगे, नहीं तो-सभी परिवार डूब जायगा । हे नाथ ! जो
आप मेरी विनती को मन में धारण करेंगे, तो राम, लक्ष्मण, सीता फिर आ मिलेंगे ।

दोहा—प्रिया वचन मृदु सुनत नृप, चितयउ आँखि उधारि ।

तलफत धीन मलीन जनु, सींचत सीतल बारि ॥१४८॥

प्रिय रानी कौशल्या के मधुर वचन सुनकर राजा ने आँखें खोल कर देखा, मानो
तड़फती हुई दीन मछली पर ठण्डा पानी छिड़क दिया हो ।

धरि धीरजु उठि बैठि भुआलू * कहु सुमन्त्र कह राम कपाल
कहाँ लखन कह राम सनेही * कह प्रिय पुत्रबधू बैदेही

राजा धैर्य धरकर उठ बैठे और बोले-हे सुमन्त ! कहो, कपालु सनेही-राम कहाँ हैं ?
लक्ष्मणजी कहाँ हैं और प्यारी पुत्र-वधू जानकीजी कहाँ हैं ?

बिलपत राउ विकल बहु भाँती * भइ जुगसरिस सिराति न राती
तापस अन्ध साप सुधि आई * कौशल्यहि सब कथा सुनाई

राजा बेचैन होकर बहुत प्रकार से विलाप करने लगे, वह रात युगके समान होगई, पूरी नहीं
होती । राजा को अन्धे तपस्वी के श्राप की याद आई, तब कौशल्या को वह कथा सुनाई—

❀ अथ क्षेपक-श्रवणकुमार की कथा ❀

एक समय सुनि प्रिये सयानी * मृगया की मेरे मन आनी
सब मृगया कर साज सजाई * गयउं वनहि संग सेन सुहाई

हे चतुर प्रिये ! सुनो, एक समय मेरे मनमें शिकार खेलने की इच्छा हुई । तब मैं
वन-मृगया का साज सजाकर सुन्दर सेना के साथ वन को गया ।

रात समय बेतस वन तीरा * बैठो सरवर तट मति धीरा
ताही समय लिए घट कर में * सरवन आयौ जल हित सर में

कृपा-दृष्टि से मनुष्य लोकपाल हो जाते हैं। क्या उनको भोग-विलास मोहित कर सकता है?

दोहा—सुमिरत रामहि तर्जाहि जन, तृनसम विषय विलासु।

रामप्रिया जगजननि सिय, कछु न आचरजु तासु ॥१३५॥

श्रीरामजी का स्मरण करने से भक्त-जन विषय-भोग की तृण के समान त्याग देते हैं। श्रीरामजी की प्रिया और जगत्माता सीताजी के लिये—इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है।

सीय लखन जेहिविधि सुखलहहीं * सोई रघुनाथ करहि सोइ कहहीं
कहहि पुरातन कथा कहानी * सुनिहिलखनु सिय अतिसुखु मानी

सीताजी व लक्ष्मणजी जिस भाँति से सुख पावें, श्रीरामजी वही करते और वही कहते हैं। पुरातन कथा-कहानी विस्तार से कहते हैं और लक्ष्मणजी व सीताजी बड़ा सुख मानकर सुनते हैं।

जबजब रामु अवध सुधि करहीं * तब तब वारि विलोचन भरहीं
सुमिरि-मातु पितु परिजन भाई * भरत सनेहु सीलु सेवकाई

श्रीरामजी जब-जब अयोध्याजी की सुधि करते हैं, तब-तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता, कुटुम्बी और भाई भरत के स्नेह, शील व सेवा-भाव की स्मरण करके—

कृपासिन्धु प्रभु होहि दुखारी * धीरजु धरहि कुसमय विचारी
लखि सियलखनु विकल होइ जाहीं * जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहीं

कृपासिन्धु प्रभु दुःखी होते हैं, परन्तु कुसमय विचार कर धीरज घर लेते हैं। प्रभु की दशा देख लक्ष्मणजी और सीताजी ऐसे व्याकुल हो जाते हैं, जैसे मनुष्य को छाया उसी के अनुसार चलती है।

प्रिया बन्धु गति लखि रघुनन्दनु * धीर कृपालु भगत उर चन्दनु
लगे कहन कछु कथा पुनीता * सुनिसुखलहहि लखनु अरु सीता

सीताजी और लक्ष्मणजी की दशा देखकर धीर, दयालु तथा भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चन्द्ररूपी श्रीरामचन्द्रजी कोई पवित्र कथा कहने लगते हैं, जिसे सुन वे दोनों सुख पाते हैं।

दोहा—राम लखन सीता सहित, सोहत परन निकेत।

जिमि बासव बस अमरपुर, सची जयन्त समेत ॥१३६॥

श्रीरामजी—लक्ष्मणजी और सीताजी के सहित पणकुटी में ऐसे सुशोभित हैं, जैसे इन्द्र-शची और पुत्र जयन्त के सहित अमरावती में वास करता है।

जोगवहि प्रभु सियलखनहिकैसें * पलक विलोचन गोलक जैसें
सेवाहि लखनु सीय रघुवीरहि * जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि

प्रभु—सीताजी और लक्ष्मणजी को कैसे रक्षा करते हैं, जैसे पलक आँखों की पुतलियों की। लक्ष्मण व सीता—श्रीरामजी की ऐसी सेवा करते हैं, जैसे अज्ञानी पुरुष शरीर की करते हैं।

एहिविधि प्रभु वनवसाहि सुखारी * खग मृग सुर तापस हितकारी
कहेउ राम वन गवनु सुहावा * सुनहु सुमन्त्र अवध जिमि अ

छाती से बाण निकाला, त्यों ही उसने 'ओंकार' कहकर प्राण त्याग दिये ।

नृप दशरथ घट लियो उठाई * तेहि के सातु पिता ढिंग जाई
प्यावन लगे नीर बिनु बानी * तव बोले दम्पति दुख मानी

(शिवजी बोले-) राजा दशरथ ने घड़ा उठा लिया और उसके माता-पिता के पास जाकर बिना बोले पानी पिलाने लगे, तब दुःख मानकर वे दम्पति बोले-

दोहा-पुत्र न बोलत आज तुम, हमसे सुन्दर बैन ।

कारन कवन सो कहहु तुम, जासों होइ जिय चैन ॥ २ ॥

हे पुत्र ! आज तुम हमसे सुन्दर वचन नहीं बोलते, इसका क्या कारण है सो कहो ? जिससे हृदय में चैन हो ।

बिनु बोले हम पियहिं न नीरा * सुनिभए दशरथ अधिक अधीरा
समाचार सब दिए सुनाई * परे धरणि दोऊ अकुलाई

'हम बिना बोले-पानी नहीं पियेंगे-यह सुनकर दशरथ अत्यन्त व्याकुल हुए । तब (दशरथजी बोले-) मैंने सब समाचार सुना दिये, तो वे दोनों अकुलाकर पृथ्वी पर गिर पड़े ।

पुत्र पुत्र कह रोवन लागे * सो सन कहन लगे सो अभाग
जहाँ पुत्र तहँ देहु दिखाई * तबसँ तिन्ह कहँ गयउँ लिवाई

वे दोनों 'पुत्र-पुत्र' कहकर रोने लगे और मुझसे बोले कि-अरे अभाग ! जहाँ हमारा पुत्र है-वह स्थान हमें दिखा दे, तब मैं उनको वहाँ ले गया ।

पुत्र उठाय गोद सहतारी * रोवन लगी शब्द करि भारी
पुनि दोउन यह बात सुनाई * दीजै नृपति चिता बनवाई

माता-पुत्र को गोद में उठाकर भारी शब्द करके रोने लगी, फिर उन दोनों ने यह बात कही कि-हे राजन् ! चिता बनवा दीजिये ।

पुनि मैंने रचि चिता बनाई * बैठे पुत्र सहित दोउ जाई
योग अग्नि सँ निज तनु जारा * सरण समय अस वचन उचारा

यह सुनकर मैंने चिता बना दी, तब वे दोनों पुत्र सहित उस पर जा बैठे और उन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर भस्म कर दिये तथा मरते समय मुझसे यह वचन कहे-

दोहा-जिसि हम पुत्र वियोग सँ, दशरथ त्यागहिं प्राण ।

ऐसे ही तनु तजहु तुम, मानहु वचन प्रसान ॥ ३ ॥

हे दशरथ ! जैसे हम पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही तुम भी अपना शरीर छोड़ोगे, हमारे यह वचन सत्य मानना ।

अस कहि तापस गे सुरलोका * मेरे सन छायो अति सोका
पुनि सँ निजसनकीन्ह विचारा * बिनु ससङ्गै ऋषि वचन उचारा

बोलि सुसेवक चारि तव, दिये सारथी सङ्ग ॥१३८॥

सुमन्त व घोड़ों की दशा देख निपादराज दुःखित होगया । तब उसने अपने चार अच्छे सेवक बुलाकर सारथी सुमन्त के साथ कर दिये ।

गुहँ सारथिहि फिरेउ पहुँचाई * विरहु विषादु वरनि नहि जाई
चले अवध लेइ रथहि निषादा * होहि छनहि छन मगन विषादा

सारथी (सुमन्त) को पहुँचाकर निपादराज लौटा, उस समय की विरह व्याख्या कही नहीं जाती । चारों निपाद-सेवक रथ लेकर अयोध्या को चले, वे भी क्षण-क्षण में दुःखी हो जाते हैं ।

सोच सुमन्त्र विकल दुख दीना * धिग जीवन रघुवीर विहीना
रहहि न अन्तहुँ अधम शरीरु * जसु न लहेउ विछुरत रघुवीरु

व्याकुल और दुःख से दीन सुमन्त सोचने लगे कि श्रीरघुनाथजी के बिना जीवन को धिक्कार है । यह अधम शरीर तो अन्त में भी न रहेगा, फिर श्रीरघुनाथजी के बिछड़ते ही इसने यश क्यों न ले लिया ?

भए अजस अघ भाजन प्राणा * कवन हेतु नहि करत पयाना
अहह मन्द मनु अवसर चूका * अजहुँ न हृदयँ होत दुइ टूका

यह प्राण अपयश और पाप के पात्र हुए । किस कारण यह शरीर से नहीं निकलते ? अहा ! यह मूर्ख मन अवसर चूक गया, आज भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं होते ।

मीजि हाथ सिरु धुनि पछिताई * मनहुँ कृपन धन राशि गँवाई
विरिद बाँधि वर वीरु कहाई * चलेउ समर जनु सुभट पराई

सुमन्त हाथ मलकर और सिर धुनकर पछता रहे हैं, मानो कंजूस धनकी डेरी गवां बैठा हो । वे ऐसे चले, जैसे कोई अच्छा योद्धा बाना बांधकर वह शूरवीर कहलाकर रण से भाग चला हो ।

दोहा—विप्र विवेकी वेद विद, सम्मत साधु सुजाति ।

जिमि धोखें मद पान करि, सचिव सोच तेहि भाँति ॥१३९॥

जिस प्रकार कोई ज्ञानवाद्, वेद का ज्ञाता, साधुओंके अनुकूल ब्राह्मण धोके से मदिरा-पान करके पछतावा करे, इसी प्रकार सुमन्त सोच कर रहे हैं ।

जिमि कुलीन तिय साधु सयानी * पति देवता करत मन वानी
रहै करम वस परिहरि नाहू * सचिव हृदयँ तिमि दारुन दाहू

जैसे कोई कुलीन, साधु, चतुर और मन व वाणी से पति को देवता मानने वाली स्त्री कर्म-गति से पति को छोड़कर दुःखी रहे, इसी प्रकार सुमन्त के हृदय में कठिन दुःख था ।

लोचन सजल डीठि भइ थोरी * सुनइ न श्रवन विकल मति भोरी
सूखहि अधर लागि मुँह लाटी * जिउ न जाइ उर अवधि कपाटी

नेत्रों में आंसू भरे हैं, दृष्टि मन्द होगई, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता, व्याकुल कारण बुद्धि ठिकाने नहीं है, हीठ सूख गये हैं, मुँह उतर गया है, किन्तु प्राण नहीं नि

जिअन मरन फलु दसरथ पावा * अण्ड अनेक विमल जसु छावा
जिअत राम बिधुवदनु निहारा * राम विरहं करि मरनु संभारा

दशरथजी ने अपने जीवन-मरण का फल पा लिया, अनेकों ब्रह्माण्डों में उनका यश छा गया। जीते जी तो-श्रीरामजी के चन्द्रमुख के दर्शन किये और श्रीरामजी के विरह में मर कर मरण सुधार लिया।

सोक बिकल सब रोवाहिं रानी * रूप शील बलु तेज बखानी
कराहिं विलाप अनेक प्रकारा * पराहिं भूमितल बाराहिं बारा

सब रानियाँ शोक से व्याकुल होकर राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान करके रोने लगीं। वे अनेक प्रकार से विलाप करने और बारम्बार पृथ्वी पर गिरने लगीं।

बिलपहि सकल दास अरु दासी * घर घर रुदन कराहिं पुरवासी
अँथयउ आजु भानुकुल भानू * धरस अबधि गुन रूप निधानू

दास और दासियाँ व्याकुल होकर विलाप करने लगे, सब पुरवासी घर-घर रोने लगे कि आज धर्म की ध्वजा, सूर्यवंश के सूर्य और रूप व गुण का स्थान अस्त हो गये।

गारी सकल कैकेइहि देहीं * नयन विहीन कीन्ह जग जेहीं
एहि विधि बिलपत रैन बिहानी * आए सकल महासुनि ग्यानी

सभी उस कैकेई को गालियाँ देते हैं—जिसने समस्त संसार को नेत्र-हीन कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात्रि व्यतीत होगई, प्रातःकाल होते ही महा-ज्ञानी मुनि आये।

दोहा—तब बसिष्ठ मुनि समय सम, कहि अनेक इतिहास।

सोक निवारेउ सबहि कर, निज विग्यान प्रकास ॥१५०॥

उस समय मुनिवर वशिष्ठजी ने समय के अनुसार बहुत-सी कथायें कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका दुःख दूर किया।

तेल नाबँ भरि नृप तनु राखा * दूत बोलाइ बहुरि अस भाषा
धावहु बेगि भरत पाहिं जाहू * नृप सुधि कतहुँ कहहु जनि काहू

वशिष्ठजी ने नाव में तेल भरकर उसमें महाराज दशरथजी के शरीर को रखवा दिया, फिर दूतों को बुलाकर उनसे कहा कि तुम लोग दौड़कर भरतजी के पास जाओ, परन्तु राजा के मरने का समाचार किसी से नहीं कहना।

एतनाहु कहेइ भरत सन जाई * गुरु बोलाइ पठयउ दोउ भाई
सुनि सुनि आयसु धावन धाए * चले बेग वर बाजि लजाए

भरतजी से जाकर इतना ही कहना कि गुरुजी ने दोनों भाइयों को बुलाया है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े, उन्होंने अपने वेग से श्रेष्ठ घोड़ों को भी लजा दिया।

अतरथु अबध अरम्भे जब तें * कुसुगुन होहिं भरत कहूँ तब तें
देखहिं राति भयानक सपना * जागि कराहिं कटु कोटि कलपना

प्रियतम (राम) हृषी जल के विछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़की भांति क्यों न फट गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे कठोर 'यम-दण्ड' भोगने को ही यह शरीर दिया है।
एहि विधि करत पन्थ पछितावा * तमसा तीर तुरत रथ आवा
विदाकिये करि विनय निषादा * फिरे पायँ परि विकल विषादा

इस भांति मार्गमें पछतावा करते हुए सुमन्त रथ समेत तुरन्त तमसा नदी के तटपर पहुँचे। सुमन्त ने चारों निपादों को नम्रता से विदा किया, तो वे सुमन्तके पांव पकड़कर दुखित हो लोटचले।

पैठत नगर सचिव सकुचाई * जनु मारेसि गुरु वांमन गाई
वैठि विटप तर दिवस गँवावा * साँझ समय तव अवसर पावा

अयोध्या में घुसते हुए मंत्री ऐसे सकुचाये, मानो गुरु, ब्राह्मण व गौ को मारकर आयेहों। एक पेड़ के नीचे बैठकर दिन बिता दिया, तब संध्या-समय पुरी में घुसने का अवसर पाया।

अवध प्रवेशु कीन्ह अँधियारें * पैठि भवन रथु राखि दुआरें
जिन्हजिन्ह समाचार सुनि पाये * भूप द्वार रथु देखन आए

सुमन्त ने, अवध में अँधेरा होते ही प्रवेश किया और रथको द्वार पर खड़ाकर आप भीतर चले गये। जिन २ लोगों ने यह समाचार पाया, वे राज द्वार पर रथ को देखने आये।

रथु पहिचान विकल लखि घोरे * गरहिं वात जिमि आतप ओरे
नगर नारि नर व्याकुल कैसें * निघटत नीर मोनगन जैसें

रथको पहिचान तथा घोड़ों को व्याकुल देख, उनके अंग इस प्रकार गलने लगे, जैसे धूप में ओले। नगर के स्त्री-पुरुष ऐसे घबड़ाये, जैसे पानी घटजाने से मछलियां तड़फड़ाने लगती हैं।

दोहा—सचिव आगमनु सुनत सब, विकल भयउ रनिवासु।

भवन भयङ्कर लाग तेहि, मानहुँ प्रेत निवासु ॥१४२॥

मन्त्री का अकेला आना सुनकर सब रनिवास व्याकुल हो गया। उन्हें राज-भवन ऐसा भयावना लगा, मानो प्रेतों का निवास-स्थान हो।

अति आरति सब पूछहिं रानी * उतरु न आव विकल भइ वानी
सुनइ न श्रवन नयन नहिं सूझा * कहहु कहाँ नृप जेहि तेहि वूझा

सब रानियां बड़े दुःख से पूछने लगीं, परन्तु सुमन्त के मुख से कोई उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी रुक गई, कानों से सुनाई नहीं देता और आँखों से दीखता नहीं। वे प्रत्येक से यह पूछते हैं— महाराज कहाँ हैं ?

दासिन्ह दीख सचिव विकलाई * कौसल्या गृहं गई लवाई
जाइ सुमन्त्र दीख कस राजा * अमिअ रहित जनु चन्दु विराजा

दासियां सुमन्त को बहुत व्याकुल देखकर कौसल्याजी के भवन में लिवा ले गईं। वहाँ जाकर सुमन्त ने महाराज को कंसा देखा—मानो बिना अमृत का चन्द्रमा हो।

आसन सयन विभूषन हीना * परेउ भूमितल निपट मल

आवत सुत सुनि कैकेयनन्दिति * हरषो रत्निकुल जलकह चन्दिति

बाजार और रागों देखे नहीं जाने, मानो नगर में दशों विधाओं में आय लगी हो। पुत्र को आते सुनकर सुयंत्रणस्वी कश्यप को चाँदनी कपी कहते प्रसन्न हुई।

सज आरती सुदित उठि धाई * द्वारेहि भेदि भवन लड आई

भरत दुखित परिवार निहाय * मानहुँ लहित बनज वनु माया

प्रसन्न हो आरती मजाकर उठ दौड़ी और द्वार पर हो मिलकर राज-भवन में से धाई भरतजी ने कुट्टीस्वयों को ऐसा दुःखी देखा, मानो कमलों के वन को पाना बार गया हो।

कैकेई हरषित एहि भाँती * सन्हुँ सुदित दव लाइ किराती

सुतहि सजोच देखि सनु सारें * पूछत नेहर कुसल हमारे

कहते ऐसा प्रसन्न दिखाई देती थी मानो सोलहों वन में आय लगीकर प्रसन्न हुई हो। पुत्र भरत को सोच के कारण अचिन देखकर रागी पूछने लगी-इसारे नेहर में कुसल तो है?

सकल कुसल कहि भरत सुनाई * पूछी निज कुल कुसल भन्दाई

कह कहै तात कहाँ सब साता * कहै सिय राम लखन प्रिय साता

भरतजी ने सभी कुसल-शेष कह सुनाई। फिर अपने कुसल को कुसल पूछी-कहो, पिताजी कहाँ है? सब सातार्ये कहाँ है? साताजी और प्रिय जाई राम-लक्ष्मण कहाँ है?

दोहा--सुनि सुत वचन सनेह सग, कपट नीर भरि नैन।

भरत श्रवन सन सूलसस, पापिन बीनी नैन ॥१५३॥

पुत्र के प्रेम सरे वचन सुनकर, कपट के आँसु आँखों में भरकर भरतजी के कानों और मन को गुल के समान लुभने वाले वचन पापिनी कहते दोली-

तात बात सँ सकल बैचारी * भँ सख्यरा सहाय विचारी

कलुक काज विधि बीच विचारेउ * भूपति सुरपति पुर यमु धारेउ

हे पृथ! सने आरों बात-बनानी थी, बैचारी सख्यरा श्री सहायक हुई। परन्तु बीच में ही विधाता ने कुछ बात बिगाड़ी, यह यह है कि राजा देवनाग को विधाय सखे।

सुनत भरत भाग विवस विषादा * जनु सहमेउ करि केहरि नादा

तात तात हा तात पुकारी * परेउ भसितल व्याकुल भारी

भरत सुनते ही सारे दुःख के चयदा सखे, मानो किसी सिद्ध की गर्जना सुनते ही हाथों सहस गया हो। तात-तात हा तात! पुकार कर, व्याकुल हो भूमि पर गिर पड़े।

चलत न देखन पायडें तोही * तात न रासहि सपिहु सोही

वहुरि धीर धरि उठे सँभारी * कहु पितु सरत हेतु सहतारी

हा पिताजी! चलते समय भी मैं आपको न देख सका और न आप मुझे श्रीरामजी को ही सोप सखे। फिर ये धीरे धर सँभलकर उठे और बोले-हे माता! पिताजी के सरने का कारण तो कही?

निकलना चाहते हैं, यह मैं सत्य भाव से कहता हूँ।

पुनि पुनि पूछत मन्त्रिहि राऊ * प्रियतम सुअन सँदेस सुनाऊ
करहु सखा सोइ वेगि उपाऊ * राम लखन सिय नयन देखाऊ

मन्त्री से राजा बारम्बार पूछते हैं-मेरे परम प्रिय पुत्रों का समाचार सुनाओ? हे सखा! जल्दी-से उपाय करो, जिससे राम लक्ष्मण और सीता को मैं नेत्रों से देखूँ।

सचिब धीर धरि कह मृदुबानी * महाराज तुम्ह पण्डित ज्ञानी
वीर सुधीर धुरन्धर देवा * साधु समाज सदा तुम्ह सेवा

सुमन्त ने धर्म धरकर मधुर वाणी से कहा-हे महाराज! आप विद्वान और ज्ञानी हैं। हे देव! आप शूरवीर और धीर-धुरन्धर हैं, आपने सदैव ही साधुओं की सेवा की है।

जनम मरन सब दुख सुख भोगा * हानि लाभु प्रिय मिलन वियोगा
कालि करम वस होहि गोसाई * वरवस राति दिवस की नाई

संसार में जन्म-मरण, सब दुःख सुःखोंके भोग हानि-लाभ व प्रियोंका मिलना-विछुड़ना-हे गुसाई! यह सब काल और कर्म के अनुसार रात-दिन की तरह वरवस होते रहते हैं।

सुखु हरषाहिं जड़ दुख विलखाहीं * दोउ सम धीर धरहिं मन माहीं
धीरज धरहु विवेकु विचारी * छाँड़िअ सोच सकल हितकारी

मूर्ख लोग सुख में प्रसन्न होते हैं और दुःख में रोते हैं, परन्तु धीर पुरुष दोनोंको एक समान समझते हैं। आप सबके हितकारी हैं, इसलिए ज्ञान से विचार कर धर्म धारण कीजिये और शोक त्याग दीजिए।

छन्द-प्रथम वास तमसा भयउ, दूसर सुरसरि तीर।

न्हाइ रहे जलुपान करि, सिय समेत दोउ वीर ॥१४५॥

श्रीरामजी का पहला निवास-तमसा नदी के तट पर और दूसरा गङ्गाजी के किनारे हुआ, वहाँ सीताजी सहित दोनों भाई स्नान कर, केवल जल-पान करके ही रह गये।

केवट कीन्ह बहुत सेवकाई * सो जामिन सिंगरौर गँवाई
होत प्रात वट क्षीर मँगावा * जटा मुकुट निज सीस बनावा

वहाँ केवट ने बहुत सेवा की और वह रात्रि शृङ्गवेरपुर में ही बिताई, फिर प्रातः काल होते ही वड़ का दूध मँगाकर अपने शिर पर जटाओं का मुकुट बनाया।

राम सखा तब नाव मंगार्ई * प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई
लखनु वानु धनु धरे बनाई * आपु चढ़े प्रभु आयसु पाई

तब रामजीके सखा निपादने नाव मंगार्ई, उस पर सीताजी को चढ़ाकर श्रीरामजी चढ़े, फिर लक्ष्मण जीने धनुष-बाण सँभालकर हाथोंमें लिया और प्रभुको आज्ञा पा आपसी नावपर चढ़े।

विकल विलोकि मोहि रघुवीरा * बोले मधुर वचन धरि धीरा
तात प्रनामु तात सन कहेऊ * बार बार पद पङ्कज गहेऊ

ऐसा वर मांगते हुए तेरे मनमें कुछ भी दुःख न हुआ, जोम भी न जली व मुँहमें कोई भी न पड़े?
भूप प्रतीति तोरि किसि कीन्ही * मरन कालविधि मति हरिलोन्ही
विधहुँन नारि हृदयँ गतिजानी * सकल कपट अघ अवगुन खानी

राजाने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? विधाताने मरते समय उनकी बुद्धि हरली। स्त्री के हृदय की गति (चाल) ब्रह्माजी भी नहीं जान सकते। स्त्री-छल, पाप और दोषोंकी खान है। सरल सुशील धरम रत राऊ * सो किसि जानै तीय सुभाऊ

अस को जीव जन्तु जग माहीं * जेहि रघुनाथ प्रान प्रिय नाहीं

महाराज तो सीधे, सुशील और धर्मात्मा थे, वे स्त्री के स्वभाव को किस प्रकार जानते ? संसार में ऐसा कोन शरीरधारी है, जिसे श्रीरघुनाथजी 'प्राण-प्रिय' नहीं है।

झे अति अहित रामु तेउ तोही * को तू अहसि सत्य कहु मोही
जो हसिसो हसिसुँह मसिलाई * आँखि ओटि उठि बैठहि जाई

ऐसे श्रीरामजी भी तेरे शत्रु हो गये, तू कौन है-मुझसे सत्य कह ? तू जो भी है, सो है, परन्तु अब तू मुँह पर स्याही लगाकर मेरी आँखों की ओट में जाकर बैठ जा।

दोहा—राम विरोधी हृदय तें, प्रकट कीन्ह विधि मोहि ।

सो समान को पातकी, बादि कहेउ कछु तोहि ॥१५६॥

श्रीरामजी के विरोधी-हृदय से विधाता ने मुझे प्रकट किया है, इससे मेरे समान पापी कौन है ? मैं तुमसे व्यर्थ ही कुछ कह रहा हूँ।

सुनि शत्रुघ्न सातु कुटिलाई * जरहिं गात रिस कछु न बसाई
तेहि अदसर कुबरी तहँ आई * बसन विभूषन विविध बनाई

माता को कुटिल मुनकर शत्रुघ्नी के अङ्ग-क्रोध के मारे जलने लगे, परन्तु कुछ बश नहीं चलता। उसी समय अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से अपनेको सजाकर कुबड़ी मन्यरा वहाँ आई।

लखिरिस भरेउ लखनु लघु भाई * बरत अनल कृत आहुति पाई
हुयगि लात तकि कुबरि सारा * परि सुँह भर महि करत पुकारा

उसे देखते ही क्रोध में भरे हुए शत्रुघ्न ने जलती हुई आग में घी की आहुति पाकर, एक लात तमक कर उसके कुबड़ पर मारी, तब वह मुँहके बल धूमि पर गिरकर चिल्लाने लगी।

कुबर दूटेउ फूट कपारु * दलित दसन मुख रधिर प्रचारु
आइ दइअ मैं काह नसावा * करत नीक फलु अनइस पावा

उसका कुबड़ टूट गया, माथा फूट गया, दाँत टूट जानेसे मुँह से खून बहने लगा। वह बोली-हाय विधाता ! मैंने क्या बिगाड़ा था-जो भलाई करते हुए, बुरा फल प्राप्त हुआ।

सुनिरिपुहनलखिनखसिखखोटी * लगे घसीटन धरि धरि शोटी
भरत दयानिधि दोन्ह छड़ाई * कौसल्या पहिं रे दोउ भाई

बार बार निज शपथ दिवाई * कहव्रि न तात लखन लरिकाई

लक्ष्मणजी ने कुछ कड़े वचन कहे तो उन्हें रोककर श्रीरामजी ने फिर मुझे समझाया और चारम्बार अपनी शपथ दिलाकर कहा—हे तात ! लक्ष्मण का लड़क पन वहाँ न कहना ।

दोहा—करि प्रनामु कछु कहन लिय, सिय भइ सिथिल सनेह ।

थकित वचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह ॥१४६॥

सीताजी भी प्रणाम करके कुछ कहने को हुई, किन्तु स्नेह वश शिथिल होगई । मुखसे वचन नहीं निकले, नेत्रों में जल भर आया तथा शरीर रोमांचित हो गया ।

तेहि अवसर रघुवर रुख पाई * केवट पारहि नाव चलाई

रघुकुल तिलक चले एहि भांति * देखउं ठाढ़ कुलिस धरि छाती

उसी समय श्रीरघुनायजी का रुख पाकर केवट ने उस पार ले जाने के लिये नाव चला दी । इस प्रकार श्रीरघुनायजी चले और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा देखता ही रहा ।

मैं आपन किमि कहौं कलेसू * जिअत फिरेउं लेइ राम संदेसू

असकहि सचिव वचन रहि गयऊ * हानि गलानि सोच वस भयऊ

मैं अपना क्लेश कैसे फूँ ? श्रीरामजी का संदेश लेकर जोता ही लौट आया । ऐसा कहकर वे चुप रह गये और विरह को अग्नि वश सोच में डूब गये ।

सूत वचन सुनतहि नरनाहू * परेउ धरनि उर दारुन दाहू

तलफत विषम मोह मन मापा * माँजा मनहुँ मीन कहूँ व्यापा

राजा सुमन्त के वचन सुनते ही भूमि पर गिर पड़े और उनके हृदयमें बड़ी पीड़ा हुई । मन में मोह बढ़ जाने के कारण व्याकुल होकर ऐसे तड़फने लगे, मानो मछली को माँजा व्याप गया हो ।

करि विलाप सब रोवहि रानी * महा विपति किमि जाइ बखानी

सुनि विलाप दुखहूँ दुखु लागा * धीरजहू करि धीरजु भागा

सब रानियाँ विलाप करके रोने लगीं । वह विपत्ति किस प्रकार कही जाय ? उस विलाप को सुनकर दुःख को भी दुःख लगा और धीरज का भी धीरज छूट गया ।

दोहा—भयउ कोलाहलु अवधपति, सुनि नृप राउर सोरु ।

विपुल विहंग वन परेउ निसि, मानहुँ कुलिस कठोर ॥१४७॥

राज, महल में रोने का शोर सुनकर अपोष्या में ऐसा कुहराम मचगया, मानो पक्षियों के वन में रात के समय कठोर वज्र आ गिरा हो ।

प्राण कण्ठगत भयउ भुआलू * मनि विहीन जनु व्याकुल व्यालू

इन्द्री सकल विवस भई भारी * जनु सर सरजित वनु विनुवारी

महाराज के प्राण कण्ठ में आ गये, मानो मणि के बिना सर्प विकल होगया हो । इन्द्रियाँ ऐसे शिथिल हो गईं, जैसे सरोवर में जल न रहने से कमलों का घन मूक गया

माताँ भरतु गोद बैठारे * आँसु पौँछि मृदु वचन उचारे

कौशल्याजी का स्वभाव देख सब लोग बोले कि श्रीरामजी की माता ऐसी क्यों न हों? माता ने भरतजी को गोद में बैठा लिया और आँसू पोंछकर मधुर वचन बोलीं—

अजहुँ बच्छ बलि धीरज धरहू * कुसमउ समुन्नि सोक हरिहरहू
जनि मानहु हियँ हानि गलानी * काल करमगति अघटित जानी

हे पुत्र! मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ, अब धीरज धारण करो। कुसमय जान शोक त्याग दो। मन में काल और कर्म की गति को अमिट जानकर हानि और ग्लानि मत मानो।

काहुहि दोषु देहु जनि ताता * भा सोहि सब विधि बामविधाता
जो एतहु दुखु सोहि जिआवा * अजहुँ को जानइ का तेहि भावा

हे तात! किसीको दोष मत दो, मुझे तो विधाता सब भाँति से उल्टा होगया, जो इतने दुःख पर भी मुझे जीवित रख रहा है। अब भी कौन जान सकता है कि उसे क्या भा रहा है?

दोहा—पितु आयसु भूषण बसन, तात तजे रघुवीर।

विसमउ हरषु न हृदयँ कछु, पहरे बल्कल चीर ॥१५६॥

हे तात! पिता की आज्ञा से श्रीरघुनाथजी ने वस्त्राभूषण उतार डाले और मनमें कुछ भी विस्मय एवं हर्ष न करके बल्कल वस्त्र पहिन लिये।

मुख प्रसन्न मन रङ्ग न दोषु * सब कर सब विधि करि परितोषु
चले विपिन सुनि सियँ संगलागी * रहइ न राम चरन अनुरागी

उनका मुख प्रसन्न था, मन में राग-द्वेष कुछ भी न था। वे सबको सब प्रकारसे संतुष्ट करके वन को चले। सुनकर सीताजी भी सङ्ग लग गईं, श्रीरामजी के चरणों में अनुरक्त वे किसी भी प्रकार यहाँ न रही।

सुनतीहं लखनु चले उठि साथ * रहिह न जतन किए रघुनाथा
तब रघुपति सबही सिरु नाई * चले सङ्ग सिय अरु लघु भाई

सुनते ही लक्ष्मणजी भी उठकर साथ चल दिये, वे श्रीरामजी के यत्न करने पर भी न रहे तब श्रीरघुनाथजी सबको मस्तक नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले।

राम लखन सिय वनहि सिधाए * गइउँ न सङ्ग न प्राण पठाए
यहु सबु भाइन्ह आँखिन्ह आगे * तउ न तजा तनु जीव अभागो

राम, लक्ष्मण, सीता वन को चले गये, पर मैं न तो उनके साथ गई और न प्राण ही साथ भेजे। यह सब इन आँखों के आगे हुआ, तो भी इस अभागो शरीर को प्राण नहीं त्यागते।

सोहि न लाज निज नेहु निहारी * राम सरिस सुत मैं सहतारी
जिअन सरन भल भूपति जाना * सोर हृदय सत कुलिस समाना

अपना स्नेह देख मुझे लाज नहीं आती कि राम सरोखे पुत्र की मैं माता हूँ। जीना और मरना तो राजा ने ही बलीभाँति जाना, मेरा हृदय तो संकड़ों वज्रों के समान कठोर है।

बार बार निज शपथ दिवाई * कहवि न तात लखन लरिकाई
लक्ष्मणजी ने कुछ कड़े वचन कहे तो उन्हें रोककर श्रीरामजी ने गिर गुधे रामनामा और

बारम्बार अपनी शपथ दिलाकर कहा—हे तात ! लक्ष्मण का सड़क पन यहाँ न कहना ।
दोहा—करि प्रनामु कछु कहन लिय, सिय भइ सिथिल सनेह ।
थकित वचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह ॥१४६॥

सोताजी भी प्रणाम करके कुछ कहने को हुईं, किन्तु स्नेह वश शिथिल होगईं । मुखसे
वचन नहीं निकले, नेत्रों में जल भर आया तथा शरीर रोमांचित हो गया ।
तेहि अवसर रघुवर रुख पाई * केवट पारहि नाव चलाई
रघुकुल तिलक चले एहि भांति * देखउं ठाढ़ कुलिस धरि छांती

उसी समय श्रीरघुनाथजी का रुख पाकर केवट ने उस पार ले जाने के लिये नाव चला
दी । इस प्रकार श्रीरघुनाथजी चले और मैं छाती पर बज्र रखकर बड़ा देखता ही रहा ।
मैं आपन किमि कहाँ कलेसू * जिअत फिरेउं लेइ राम संदेसू
असकहि सचिव वचन रहि गयऊ * हानि गलानि सोच बस भयऊ

मैं अपना क्लेश कैसे कहूँ ? श्रीरामजी का संदेश लेकर जीता ही लौट आया । ऐसा
कहकर वे चुप रह गये और विरह की अग्नि वश सोच में डूब गये ।
सूत वचन सुनतहि नरनाहू * परेउ धरनि उर दारुन दाहू
तलफत विषम मोह मन मापा * माँजा मनहुँ मीन कहूँ व्यापा

राजा सुमन्त के वचन सुनते ही भूमि पर गिर पड़े और उनके हृदयमें बड़ी पीड़ा हुई ।
मन में मोह बढ़ जाने के कारण व्याकुल होकर ऐसे तड़फने लगे, मानो मछली को गाँजा
व्याप गया हो ।
करि विलाप सब रोवहि रानी * महा विपति किमि जाइ बखानी
सुनि विलाप दुखहूँ दुखु लागा * धीरजहू करि धीरजु भागा

सब रानियाँ विलाप करके रोने लगीं । वह विपत्ति कितना प्रकार कहो जाय ? उ
विलाप को सुनकर दुःख को भी दुःख लगा और धीरज का भी धीरज छूट गया ।
दोहा—भयउ कोलाहलु अबधपति, सुनि नृप राउर सोर ।
विपुल विहंग वन परेउ निसि, मानहुँ कुलिस फठोर ॥१४७॥

राज, महल में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में गेता कुहराम रामनामा, मानो पति
के वन में रात के समय कठोर वज्र आ गिरा हो ।
प्राण कण्ठगत भयउ भुआलु * मनि विहीन जनु व्याकुल व्य
इन्द्री सकल विवस भई भारी * जनु सर सरजित वनु विनुत

महाराज के प्राण कण्ठ में आ गये, मानो मणि के बिना सपं भिकर होगया ही ।
इन्द्रियाँ ऐसे शिथिल हो गईं, जैसे सरोवर में जल न रहने से कमलों का सम शून्य गया

इस काम में मेरी सलाह हो तो मैं उनकी भयानक गति पाऊँ ।

जे नहिं साधु सङ्ग अनुरागे * परमार्थ पथ विमुख अभागे
जे न भर्जाहिं हरि नर तनु पाई * जिनिहिं न हरिहर सुजसु सोहाई

जो सत्सङ्ग में अनुरक्त नहीं हैं, जो अभागे परमार्थ-पथ से विमुख हैं, जो मनुष्य देह पाकर हरि-भजन नहीं करते तथा जिन्हें श्रीहरि-हर का सुयश नहीं सुहाता ।

तजि श्रु तिपन्थ बाम पथ चलहीं * वचक विरचि वेष जगु छलहीं
तिन्ह कै गति सोहि शङ्कर देऊ * जौ जननी यहु जानौ भेऊ

जो वेद-मार्ग को छोड़कर बाम-मार्ग पर चलते हैं, ठगों का-सा वेष बनाकर संसार को छलते हैं । शङ्करजी उनकी गति मुझे दें ! हे माता ! जो मैं यह भेद जानता हूँ ।

दोहा—मातु भरत के वचन सुनि, साँचे सरल सुभाय ।

कहत रामप्रिय तात तुम्ह, सदा वचन मन काय ॥१६२॥

माता भरत के सच्चे और स्वभाव से ही सीधे वचनों को सुनकर कहने लगीं—हे तात ! तुम तो वचन, मन और शरीर से सदैव श्रीरामजी के प्रिय हो ।

राम प्रानहुँ तैं प्रान तुम्हारे * तुम्ह रघुपतिहि प्रानहुँ तैं प्यारे
बिधु विष चवै खवै हिनु आगी * होइँ वारिचर वारि विरागी

श्रीराम तुम्हारे प्राणों के प्राण हैं और तुम श्रीराम को प्राणों से प्रिय हो । चन्द्रमा चाहे विष टपकाने लगे, बर्फ से चाहे आग बरसने लगे और जलचर चाहे जल छोड़ दें ।

भएँ ग्यानु वरु मिटै न मोहू * तुम्ह रामहि प्रतिकूल न होहू
सत तुम्हार यहु जो जग कहहीं * सो सपनेहुँ सुखु सुगति न लहहीं

ज्ञान होने पर भी चाहे मोह न मिटे, परन्तु तुम श्रीरामजी के विरुद्ध कभी नहीं हो सकते । इसमें हर मत है' ऐसा जो कोई जगत में कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख व उत्तम गति नहीं पावेंगे ।

कहि मातु भरत हियँ लाए * थन पय खवाहिं नयन जल छाए
करत विलाप बहुत यहि भाँती * बैठेहि वीति गई सब राती

ऐसा कहकर कौशल्या माता ने भरतजी को हृदय से लगा लिया, उनके स्तनों से दूध टपकने लगा, नेत्रों में जल भर आया । इस तरह बहुत विलाप करते हुए बंठे सब रात वीत गई ।

वासदेव वशिष्ठ तब आए * सचिव महाजन सकल बोलाए
सुनि बहु भाँति भरत उपदेशे * कहि परमार्थ वचन सुदेशे

तब वासदेवजी व वशिष्ठजी आये, उन्होंने सब मंत्रियों और महाजनों को बुलाया । मुनियों ने भरतजी को समयानुसार परमार्थ के सुन्दर वचन कहकर बहुत प्रकार से उपदेश दिया ।

दोहा—तात हृदय धीरज धरहु, करहु सो अवसर आजु ।

उठे भरत गुर वचन सुनि, करन कहेउ सबु काजु ॥१६३॥

रात्रि के समय बँतों के वन के समीप सुन्दर सरोवर के किनारे में बैठा था। उसी समय हाथ में घड़ा लिए श्रवणकुमार पानी लेने को सरोवर पर आया।

तूबाँ जल में जबहिं डुबायो * भयो शब्द मेरे मन आयो
जान्यो मृग तब धनुष सँवारो * लक्ष्य बेधि सर तेहि उर मारो

उसने तूँवे को ज्यों ही जल में डुबोया तो शब्द हुआ। मैंने उसे मन में मृग जानकर धनुष सँभाल कर लक्ष्य-बेधी वाण उसके हृदय में मारा।

लाग्यो हिये शब्द हा कीन्हो * यह मानुष तब मैंने चीन्हो
गयो निकट तब अति दुख पायो * सरवन मोसे वचन सुनायो

हृदय में वाण लगते ही उसने 'हाय' शब्द किया, तब मैंने उसे पहिचाना कि यह मनुष्य है। उसके निकट जाने पर उसे देखकर मुझे बड़ा दुःख हुआ, तब श्रवण ने मुझसे यह वचन कहे-

सोच करहु मत नृपति हमारा * जो मैं कहउँ करहु यहि वारा
मैं सरवन सेवहुँ पितु माता * नयन विहीन दोउ सुखदाता

हे राजन्! मेरा सोच मत करो, बल्कि जो मैं कहता हूँ, उसे करो। मैं श्रवण हूँ, अपने माता-पिता की सेवा करता हूँ, जो दोनों सुखदायी और नेत्रों से हीन हैं।

तिन्हहि तृपा ने अधिक सतायो * लैन हेतु जल को यहाँ आयो
उनको प्यास ने अधिक सताया था, सो मैं उनके लिए जल लेने आया था।

दोहा—सो तुमने अज्ञान वश, नृप मम मारेउ वान।

याहि खँचिए देह सो, निकसन चाहत प्राण ॥ १ ॥

हे राजन्! आपने जो अनजाने में मेरे वाण मारा है, इसको मेरी देह से निकाल लीजिए। क्योंकि अब प्राण निकलना ही चाहते हैं।

अब तुम मन शङ्का मत मानो * मेरी कही सत्य ही जानो
पर इक बात हिये मम लावहु * ममपितु मातु निकट तुम्हजावहु

अब आप अपने मन में सन्देह न करो, मेरी कही-बात सत्य मानिये। परन्तु आप मेरी एक बात अपने हृदय में मानिए कि आप मेरे माता-पिता के पास जाइये।

तिन्ह को हित से नीर पिवाई * पाछें कहिए मम समुझाई
करहिं न सोच करहु उपदेसा * सत्यसिधु रघुवंश नरेसा

पहिले उनको प्रेम से जल पिलाना, फिर बाद में मेरा हाल सुना देना और उन्हें ऐसा उपदेश देना-जिससे वे मेरा सोच न करें। हे रघुवंश-मणि! आप सत्य के समुद्र हैं।

अब तुम दीजै वान निकारी * सुनि व्याकुल भएदशरथ भारी
हिय से जबहिं निकासो वाना * ओंकार कहि छाड़यो प्राणा

अब आप वाण निकाल लीजिए, यह सुनकर दशरथजी बड़े, दुःखी हुए। ज्यों ही

मुनिवर ने प्रथम तो वह सब कथा सुनाई, जिस प्रकार कैकई ने खोटी करनी की थी, फिर महाराज के धर्म, सत्य और व्रत की बड़ाई की, जिन्होंने देह त्यागकर प्रेम को निभाया।

कहत राम गुन सील सुभाऊ * सजल तयन पुलकेउ मुनिराऊ
बहुरि लखन सिय प्रीति बखानी * सोक सनेह सगन मुनि ग्यानी

श्रीरामजी के गुण और स्वभाव का वर्णन करते २ मुनिराज के नेत्रों में जलझर आया और शरीर पुलकित होगया। फिर लक्ष्मणजी एवं सीताजी की प्रीति का वर्णन करते हुए ज्ञानी-मुनि शोक व स्नेह में सग्न होगये।

दोहा-सुनहुँ भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ।

हानि लाभु जीवन मरनु, जस अपजस बिधि हाथ ॥१६५॥

मुनिनाथ ने विलख कर कहा-हे भरत ! सुनो, भावी (होनहार) प्रबल है। हानि-लाभ, जीवन-मरण, यश-अपयश-ये सब विधाता के हाथ में हैं।

अस बिचारि केहि देइअ दोष * व्यर्थ काहि पर कीजिअ रोष
तात बिचार करहु मन माहीं * सोचु जोगु दसरथु नृप नाहीं

ऐसा विचार कर किस को दोष दिया जाय और किस पर व्यर्थ क्रोध किया जाय ? हे तात ! मन में विचार करो, महाराज दशरथजी सोच करने योग्य नहीं हैं।

सोचिअ बिप्र जो वेद बिहीना * तज निज धरसु बिषय लयलीना
सोचिअ नृप जो नीति न जाना * जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना

सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए, जो वेद नहीं पढ़ा हो और अपना धर्म छोड़कर विषयों में फँसा हो। उस राजा का सोच करना चाहिये, जो नीति नहीं जानता और जिसे प्रजा प्राणप्रिय न हो।

सोचिअ बयसु कृपन धनवान् * जो न अतिथि सिब भगतिसुजान्
सोचिअ सूद्र बिप्र अपमानी * सुखर सान प्रिय ग्यान गुमानी

उस वंशय का सोच करना चाहिये, जो धनवान होकर भी कंजस हो और अतिथि-सेवा व शिव-भक्ति करने में चतुर न हो। वह शूद्र सोच करने योग्य है, जो ब्राह्मणों, का आदर न करता हो, बहुत बोलता हो, जिसे सान बड़ाई प्रिय हो और जो ज्ञान का घमण्डी हो।

सोचिअ पुनि पतिबंचक नारी * कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी
सोचिअ बटु निज व्रतु परिहरई * जौ नहिं गुरु आयसु अनुसरई

फिर यह स्त्री सोच करने योग्य है, जो अपने पतिको छलने वाली, खोटी कलह-प्रिय और स्वेच्छाचारिणी हो उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए, जिसने अपने व्रत को छोड़ दिया हो और गुरु की आज्ञानुसार न चलता हो।

दोहा-सोचिअ गृही जो मोह बस, करइ करस पथ त्याग।

सोचिअ जती प्रपञ्च रत, बिगत बिवेक बिराग ॥१६६॥

उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए, जो मोह वश धर्म-मार्ग को त्याग देता है। उस सन्यासी

ऐसे कहकर वे तपस्वी स्वर्ग को चले गये, तब मेरे मन में अत्यन्त शोक हुआ। फिर मैंने अपने मन में विचारा कि तपस्वी ने बिना समझे ही मुझे श्राप दिया है।

**पुत्र नहीं कोउ गेह हमारे * किमि त्यागहिं तनु वचन तुम्हारे
सोच विहाय गेह मैं आयौ * अब तक तुमको नहीं सुनायौ**

हमारे घर में तो कोई पुत्र नहीं है, फिर आपके वचन से यह शरीर कैसे छूटेगा ? यह सोचकर शोक दूर करके घर को आया, यह वृत्तान्त अब तक मैंने तुम्हें नहीं सुनाया था।

**साँच भई वस अब सब वाता * गए वनु सीय राम दोउ भ्राता
प्राणपियारे वनहिं सिधारे * अब तक प्राण न गए हमारे**

अब वह सब बातें सत्य हुईं। सीता सहित श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाई वन को गये। प्राण-प्यारे तो वन को गये, किंतु हमारे प्राण अभी तक नहीं गये।

**अबसुख कौनमिलसिजगु माहीं * जेहि ते प्राण न तनु ते जाहीं
राम लखन सिय कानन जाहीं * अब लगि प्राण रहे तनु माहीं**

अब जगत् में कौन-सा सुख मिलेगा, जिसके कारण प्राण शरीर से नहीं निकलते ? राम-लक्ष्मण और सीता तो वन को गये और प्राण अभी तक शरीर में ही रह रहे हैं ?

दोहा—प्रिय सरवन की कथा ते, अब मोहि रह्यौ न धीर।

पुत्र बिना जे नहिं जिये, धन धन ते नर वीर ॥ ४ ॥

हे प्रिये ! श्रवण की कथा से अब मुझे धैर्य नहीं रहा। जो पुत्रके बिना नहीं जिये, उन प्राणियों को धन्य है ! धन्य है !!

॥ इति क्षेपक ॥

**भयउ विकल वरनत इतिहासा * राम रहित धिग जीवन आसा
सौ तनु राखि करव मैं काहा * जेहि न प्रेम पनु मोर निवाहा**

उस इतिहास का वर्णन करते हुए राजा व्याकुल होगये और बोले कि अब बिना राम के जीने की आशा को धिक्कार है ! इस शरीर को रखकर क्या कहेंगा ? जिसने मेरी प्रतिज्ञा को नहीं निवाहा।

**हा रघुनन्दन प्राण पिरीते * तुम्ह विनुजिअतबहुत दिन बीते
हा जानकी लखन हा रघुवर * हापितु हितचित चातक जलधर**

हा प्राण-प्रिय रघुनाथ ! तुम्हारे बिना देखे जाते हुए मुझे बहुत दिन बीत गये। हा जानकी ! हा लक्ष्मण ! हा रघुवीर ! हा पिता के चित्तहवीपवीहे को हित करने वाले मेघ !

दोहा—राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम।

तनु परिहारि रघुवर विरहें, राउ गयउ सुरधाम ॥१४८॥

राम-राम कहकर, फिर राम कहकर, राम-राम और पुनः राम कहकर श्रीरामजी के विरह में देह त्याग कर महाराज दशरथ देव-लोक को चले गये।

परशुराम पितृ अग्न्या राखी * सारी सातु लोक सब साखी
तनय जजातिहि यौवन दयऊ * पितृ अग्न्या अघ अजसु न भयऊ

परशुरामजी ने पिता की आज्ञा का पालन किया (अर्थात्-माता को मार डाला) इसके सब लोक साखी हैं। ययाति के पुत्र ने पिता को अपना यौवन दे दिया, पिता की आज्ञा के कारण उन्हें पाप व अपयश नहीं हुआ।

दोहा-अनुचित उचित विचारि तजि, जे पालहि पितृ बैन।

ते भोजन सुख सुजसु के, बसहि असरपति ऐन ॥१६८॥

उचित व अनुचित का विचार त्याग कर, जो पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, वे सुख और यश सुयश के भागी होकर स्वर्ग-लोक में वास करते हैं।

अवसि नरेस बचन फुर करहु * पालहु प्रजा सोकु परिहरहु
सुरपूर नृपु पाइहि परितोषू * तुम्ह कहँ सुकृत सुजसु नाहि दोषू

राजा के वचन को अपयश सत्य करो, प्रजा का पालन करो, शोक का परित्याग करो। राजा को देवलोक में सन्तोष होगा और तुमको सुयश व पुण्य मिलेगा, दोष नहीं लगेगा।

वेद विदित सम्मत सबही का * जेहि पितृ देइ सो पावइ टीका
करहु राजु परिहरहु बलानी * सानहु सोर दचन हित जानी

यह वेद के अनुसार हैं और इसमें सबकी सम्मति भी है कि जिसे पिता दे, वह राजतिलक प्राप्त करता है। अतः तुम राज्य करो, बलानि त्याग दो और हित जानकर मेरे वचन मानो।

सुनि सुख लहव राम वैदेही * अनुचित कहव न पण्डित केही
कौसल्यादि सकल सहतारी * तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी

श्रीरामजी और सीताजी भी इस बात को सुनकर सुख पावेंगे, कोई भी पण्डित इसको अनुचित न कहेगा। कौशल्यादि सब नातायें भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी।

प्रेम तुम्हार राम करि जानहि * सोसबद्विधितुम्ह सन भल मानहि
सौपेहु राजु राम के आएँ * सेवा करेहु सनेहँ सोहाएँ

जो तुम्हारा और श्रीरामजी का स्नेह जानता है, वह सब प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्रीरामजी के जाने पर उन्हें राज्य सौंप देना और आदर प्रेम से उनकी सेवा करना।

दोहा-कीजिअ गुरु आयसु अवसि, कहाँहि सचिव कर जोरि।

रघुपति आएँ उचित जस, तस तव करव बहोरि ॥१६९॥

मन्त्री हाथ जोड़कर कहने लगे-गुरुजी की आज्ञा का अवश्य पालन करिये। श्रीरघुनाथजी के लौट आने पर जैसा उचित हो, तब वैसा ही करना।

कौसल्या धरि धीरजु कहई * पूत पथ्य गुरु आयसु अहई
सो आदरिअ करिअ हित सानी * तजिअ विषाडु कालगति जानी

कौशल्याजी धैर्य धरकर बोलीं-हे पुत्र! गुरुजी की आज्ञा हितकारी है, उसका सम्मान

अयोध्या में जब से अनर्थ प्रारम्भ हुए, तभी भरतजी को अशकुन होने लगे। वे रात के समय भयङ्कर स्वप्न देखते थे, जागने पर मन में अनेकों दुष्कल्पनायें करते थे।

विप्रजेबाँइ देहि बहु दाना * सिव अभिषेक करहि विधि नाना
माँगहि हृदयँ महेस मनाई * कुशल मातु पितु परिजन भाई
ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते और नाना प्रकारकी विधिसे उद्भाषिक करते थे। शिवजी से प्रार्थना कर हृदय में माता, पिता, कुटुम्बी और भाइयों की कुशलता मांगते थे।
दोहा—एहि विधिसोचत भरत मन, धावन पहुँचे आइ।

गुर अनुसासन श्रवन सुनि, चले गनेसु मनाइ ॥१५१॥

भरतजी मन में ऐसा सोच कर ही रहै थे कि दूत आ पहुँचे। गुरुजी की आज्ञा कानों से सुनते ही दोनों भाई गणेशजी को मनाकर चले।

जल समीर वेग हय हाँके * नाँघत सरित सैल वन वाँके
हृदयँ सोचु वड़ कछु न सौहार्द * अस जानिहिं जियँ जाउँ उड़ाई

वायुके समानवेगसे धोड़ोंको हाँकते हुए वे नदी, पहाड़, दुर्गम बनोंको लांघते हुए चले। मन में बड़ा सोच था, कुछ अच्छा नहीं लगता था, मन में ऐसा आता कि उड़कर चले जायें।

एक निमेष वरष सम जाई * एहि विधि भरत नगर निअराई
असगुन होहिं नगर पैठारा * रटहिं कुभांति कुखेत करारा

एक पल-एक वर्ष के समान बीतता था, इसी प्रकार चलते हुए भरतजी नगर के समीप आये। नगर में घुसते ही अपशकुन होने लगे-कौएयुरे स्थान में बँठकर बुरी भांति से शब्द करने लगे।

खर सिआर बोलहिं प्रतिकूला * सुनिसुनि होइ भरत मन सूला
श्रीहत सर सरिता वन वागा * नगर विसेषि भयावनि लागा

गधे व सियार अशुभ-सूचक शब्द बोलने लगे, यह सुनकर भरत के मन में दुःख हुआ। तालाब, नदी, वन व वाग सब शोभाहीन होगये हैं, अयोध्या बहुतही डरावनी लगती है।

खग मृग हयगय जाहिं न जोए * राम वियोग कुरोग विगोए
नगर नारि नर निपट दुखारी * मनहुँ सबन्हि सब सम्पति हारी

श्रीरामजी के वियोगरूपी रोग से सताये हुए पशु, पक्षी, हाथी, घोड़े देखे नहीं जाते। अयोध्या के सब स्त्री-पुरुष बड़े ही दुःखी हो रहे हैं, मानो सबने अपनी सम्पत्ति हारदी हो।

दोहा—पुरजनमिलहिंन कहहिं कछु, गँवहिं जोहारहि जाहिं।

भरत कुसल पूछिन सकहिं, भयविषाद मन माहिं ॥१५२॥

अयोध्यावासी मागं में मिलते हैं, परंतु वे कुछ कहते नहीं, चुपचाप प्रणाम करके चले जाते हैं। मन में भय और दुःख के कारण भरतजी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते।

हाट वाट नहिं जाइ निहारी * जनु पुर दहँ दिसि लागि द्वारी.

गुरुपितृ मातृ स्वामि हित वानी * सुनिमन सुदित करिअ फल जानी
उचित किअनुचित किअ विचारू * धरसु जाइ सिर पातक भारू

गुरु, पिता, माता, स्वामी, मित्र का वाणी सुनकर उसे अच्छी जानकर प्रसन्न मन से करना चाहिए। उचित व अनुचित विचार करने से धर्म जाता और फिर पर पापों का बोझ होता है।

तुम्ह तो देहु सरल सिख सोई * जो आचरण सोर भल होई
जद्यपि यह समुजत हउं नीके * तदपि होत परितोषु न जीके

आप, तो सब मुझे वही सरल सीख दे रहे हैं, जिनके आचरण करने में मेरा भला ही। यद्यपि मैं वह भली प्रकार समझता हूँ, परन्तु मेरे जी में सन्तोष नहीं होता।

अब तुम्ह विनय सोरि सुन लेहू * मोहि अनुहरत सिखावनु देहू
ऊतर देउं छसव अपराधू * दुखित दोष गुन मनहि न साधू

अब आप लोग मेरी प्रार्थना सुनिये, फिर मुझे उचित शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर देता हूँ इस अपराध को क्षमा करें, क्योंकि साधु-पुरुष दुखियों के दोष और गुणों को नहीं गिनते।

दोहा—पितृ सुरपुर सिध रामवन, करन कहहु मोहिराजु।

एहि तें जानहु सोर हित, कै आपन बड़ काजु ॥१७०॥

पिताजी स्वयं में हैं, श्रीसीता-रामजी वन में हैं और आप मुझे राज करने के लिए कह रहे हैं। क्या इसी में आप मेरा कल्याण समझते हैं, अथवा अपना बड़ा काम ?

हित हमार सिधपति सेवकाई * सो हरि लीन्ह सातु कटिलाई
मैं अनुमानि दीखु मन साहीं * आन उपायँ सोर हित नाही

मेरा भला तो सीतापति श्रीरामजी की सेवा में है, उसे माता की कृतिवता से छीन लिया। मैंने अपने मन में भली प्रकार समझ लिया है कि दूसरे अन्य उपाय से मेरा भला नहीं है।

सोक समाज रागु केहि लेखें * लखन राम सिध विनु पद देखें
बादि वसन विनु भूपन भारू * बादि विरत विनु ब्रह्म विचारू

लक्ष्मणजी और श्रीरामजी तथा सीताजी के चरणों के देखे बिना शोक-समाज रूप यह राज्य किस गिनती में है ? जैसे बरखों के बिना गहनों का बोझ बृथा है, ब्रह्म-ज्ञान के बिना वैराग्य बृथा है।

सरुज सरौर बादि वह भोगा * विनुहरि भगति वृथा जगजोगा
वृथा जीव विनु देइ सुहाई * बादि सोर सबु विनु रघुराई

रोगी शरीर के लिए बहुत से भोग व्यर्थ हैं, श्रीहरि-भक्ति के बिना जप और योग बृथा हैं, जीवन के बिना सुन्दर देह बृथा है, जैसे ही श्रीरामजी के बिना तो मेरा सब व्यर्थ है।

जाउं राम पहि आयसु देहू * एककि आँक सोर हित ऐहू
मोहि नृप करि भल आपन चहहू * सोउ सनेह जड़ता बस कहहू

आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं श्रीरामजी के पास जाऊँ। इस एक ही बात में मेरा कल्याण

सुनि सुत वचन कहति कैकई * मरमु पाँछि जनु माहुर देई
आदिहुँ तै सब आपिन करनी * कुटिल कठोर मुदित मन बरनी

पुत्र के वचन सुन कैकई ऐसे कहने लगी, मानो मर्म-स्थल को काटकर उसमें विष भर रही हो। आदि से ही अपनी सब करतूत कुटिल कैकई ने प्रसन्न मन से भरत को सुनादी।

दोहा—भरतहि विसरेउ पितु मरन, सुनत राम बन गौनु।

हेतु अपन पउ जानि जियँ, थकित रहे धरि मौनु ॥१५४॥

श्रीरामचन्द्रजी का मन में जाना सुनकर भरतजी को पिता का मरण भूल गया। हृदय में अपने को ही कारण जानकर वे स्तम्भित होकर चुप हो गये।

विकल बिलोकिसुतहिसमुझावति * मनहुँ जरे पर लोन लगावति
तात राउर नहिँ सोचन जोगू * बढइ सुकृत जसु कीन्हेउ भोगू

पुत्र को व्याकुल देखकर वह ऐसे समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। हे पुत्र ! महाराज सोच करने योग्य नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने पुण्य और यश संचय करके, उनका पर्याप्त भोग किया था।

जीवत सकल जनम फल पाए * अन्त अमरपति सदन सिधाए
अस अनुमानि सोच परिहरहू * सहित समाज राज पुर करहू

जीते-जी जन्मके सभी फल पाये और अन्त में (भरकर) इन्द्रलोक को गये। ऐसा मन में विचारकर सोच का परित्याग कीजिए और समाज सहित अयोध्या का राज्य कीजिए।

सुनि सुठि सहमेउ राजकुमारू * पाकें छत जनु लाग अँगारू
धर धीरज भरि लेहिँ उसासा * पापिन सबहिँ भाँति कुल नासा

यह सुनकर राजकुमार बहुत ही सहम गये, मानो पके घाव पर अँगारा लगा हो, फिर धैर्य धरकर लम्बी श्वांस लेकर कहने लगे-हे पापिनी ! तूने सब प्रकार से वंश का नाश कर दिया।

जौँ पै कुरुचि रही अति तोही * जनमत काहे न मारेउ मोही
पेड़ काटि तँ पल्लव सीचा * मीन जिअन हित बारि उलोचा

जो तेरे हृदय में ऐसी बुरी इच्छा थी, तो तूने मुझे जन्मते ही क्यों न मार डाला ? वृक्ष को काटकर तूने पत्तों को सौँचा और मछली के जीने के लिए पानी को उलोच डाला।

दोहा—हंस वंस दसरथु जनकु, राम लखन से भाइ।

जननी तूँ जननी भई, विधिसन कछुनवसाइ ॥१५५॥

हंस के समान उज्ज्वल सूर्यवंश में तो मैं जन्मा व श्रीराम-लक्ष्मण जैसे भाई मिले। परन्तु हे माता ! तुझ जैसी मेरी जन्म-दात्री हुई, (तो क्या कहें) विधाता से कुछ पेश नहीं चलता।

जवतौँ कुमति कुमति जियँ ठयऊ * खण्ड खण्ड होइ हृदय न भयऊ
वर मांगत मन भइउ न पीरा * गरि न जीहँ मुँह परेउ न कीरा

अरी कबुद्धे ! जब तूने यह दुष्ट-विचार ठाना, तभी तेरे हृदय के टुकड़े २ क्यों न होगये ?

श्रीराम-लक्ष्मण और सीताजी को वन दिया, पति को देवलोक भेजकर उनका हित किया और स्वयं ने वैधव्य एवं अपयश लिया तथा प्रजा को शोक व दुःख दिया ।

सोहि दीन्ह सुख सुजसु सुराजू * कोन्ह कैकई सब कर काजू
एहि तैं सोर काह अब नीका * तेहि पर देन कहहु तुम्ह टीका

मुझे सुख, सुन्दर यश और उत्तम राज्य दिया ! कैकई ने सबका कार्य कर दिया । इससे बढ़कर मेरा भला अब और क्या होगा ? उस पर भी आप लोग मुझे राजतिलक देने की कह रहे हैं ।

कैकई जठर जनसि जग माहीं * यह सोहि कहँ कछु अनुचित नाही
सोरि बात सब विधिहि बनाई * प्रजा पाँच कत करहु सहाई

कैकई के गर्भ से जन्म लेकर संसार में यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है । मेरी सब बात तो ब्रह्मा ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच (आप) क्यों कर सहायता करते हैं ?

दोहा—ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार ।

तेहि पिआइअ बारुनी, कहहु काह उपचार ॥१७३॥

जो बुरे ग्रहों वश, बात रोगी और बिचलू के डंक का मारा हो, और फिर उसे मदिरा पिला दी, जाय, तो कहो—कैसे उपचार होगा ?

कैकई सुअन जोगु जग जोई * चतुर विरंचि दीन्ह सोहि सोई
दशरथ तनय रामु लघु भाई * दीन्ह सोहि विधि बादि बड़ाई

संसार में कैकई के पुत्र के योग्य जो था, वही चतुर प्रजा ने 'मुझे दिया । परन्तु दशरथजी का पुत्र' व 'श्रीराम का छोटा भाई' होने की बड़ाई ब्रह्मा ने मुझे वृथा ही दी ।

तुम्ह सब कहहु कढ़ावन टीका * राज रजायसु सब कहँ नीका
उतर देउँ केहि विधि केहि केही * कहहु सुखेन जथा रुचि जेही

आप सब राजतिलक कराने को कहते हैं, राजा की आज्ञा सबको भली है । मैं किस प्रकार से किस-किसको उत्तर दूँ ? जैसी जिसकी रुचि हो, वह सब सुख पूर्वक कहें ।

सोहि कुमातु समेत बिहाई * कहहु कहिहि को कोन्ह भलाई
सो बिनु को सचराचर माहीं * जेहि सिय रामु प्रानप्रिय नाही

मुझे कुमाता समेत छोड़कर, कहो—कौन कहेगा कि यह भला किया गया ? चर और अचर जीवों में मेरे सिवा ऐसा कौन है, जिसे श्रीसीता-रामजी प्राण-प्यारे नहीं हैं ?

परस हानि सब कहँ बड़ लाहू * अदिनु सोर नहि दूषन काहू
संसय शील प्रेम बस अहहू * सबुइ उचित सब जो कछु कहहू

जो बड़ी हानि है, उसी में सबको बड़ा लाभ जान पड़ता है । यह मेरा कुभाग्य है, इसमें किसी का दोष नहीं है । आप लोग संसय, शील और स्नेह के वश में हैं, जो कुछ भी कहें, सो सब उचित है ।

दोहा—राम सातु सुठि सरल चित, सो पर प्रेम विसेषि ।

यह सुनकर शत्रुघ्नजी उसे नख-शिप से छोटी समझकर उसका झोंटा पकड़कर घसीटने लगे, तब दयासागर भरतजी ने उसे छुड़ा दिया। दोनों भाई कौशल्या माता के पास गये।
दोहा—मलिन वसन विवरन विकल, कृस सरीर दुख भार।

कनक कल्प वर वेलि वन, मानहुँ हनी तुषार ॥१५७॥

कौशल्याजी के वस्त्र मलीन हैं, चेहरा उतरा हुआ है, बहुत व्याकुल हैं, दुःख के भार से शरीर दुबला होगया है, मानो सोने की सुन्दर कल्प-लता को वन में पाला मार गया हो।

**भरतहि देखि मातु उठि धाई * मुरछित अवनि परी झई आई
 देखत भरत विकल भए भारी * परे चरन तनु दसा विसारी**

भरतजी को आते देख कौशल्याजी उठ दौड़ी, परन्तु बीचमें ही चक्कर आ जाने से अचेत हो भूमि पर गिर पड़ी। यह देख भरतजी धबड़ाये, देह की सुधि भुलाकर चरणों में गिर पड़े।

**मातु तात कहँ देहु दिखाई * कहँ सिय रामु लखनु दोउ भाई
 कैकेइ कत जनमी जग माँझा * जौँ जनमित भइ काहे न वाँझा**

वे बोले—हे माता! पिताजी कहाँ हैं? मुझे दिखाओ। सीताजी तथा दोनों भाई श्रीराम-लक्ष्मण कहाँ हैं? केकई संसार में क्यों जन्मी और जन्मी भी तो वह निपुत्री ही क्यों न हुई।

**कुल कलंकु जेहि जनमेउ मोही * अपजस भाजन प्रियजन द्रोही
 कोत्रिभुवन मोहि सरिस अभागी * गति अस तोरि मातु जेहि लागी**

जिसने कुल कलंक, अपयश के पात्र, प्रियजन-द्रोही 'मुक्ष' जैसे पुत्र को जन्म दिया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन हैं? जिसके कारण, हे माता! तुम्हारी ऐसी दशा हुई।

**पितु सुरपुर वन रघुवर केतु * मैं केवल सब अनरथ हेतु
 धिग मोहि भयउँ वेनु वन आगी * दुसह दाह दुख दूपन भागी**

पिता स्वर्ग को एवं श्रीरामजी वन को गये, इन सब अनर्थों का कारण मैं ही हूँ, मुझे धिक्कार है। मैं वाँस के वन को जलाने के लिये अग्नि हुआ, मैं कठिन दाह, दुःख और दोष का भागी हूँ।

दोहा—मातु भरत के वचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभारि।

लिए उठाइ लगाइ उर, लोचन मोचित वारि ॥१५८॥

भरतजी के मधुर वचन सुनकर कौशल्या फिर सम्हल कर उठीं और भरतजी को उठाकर हृदय से लगा लिया, आँखों से जल बहाने लगीं।

**सरल सुभायँ मातु हियँ लाए * अति हित मनहुँ राम फिरि आए
 भेंटेउ बहुरि लखन लघु भाई * सोकु सनेह न हृदयँ समाई**

माता ने सरल स्वभाव से भरतजी को बड़े स्नेह से छाती से लगा लिया, मानो श्रीरामजी वन से लौट आये हों। फिर लक्ष्मणजी के छोटे भाई शत्रुघ्नजी से मिलीं। उनका दुःख और स्नेह हृदय में नहीं समाता।

देखि सुभाउ कहत सबु कोई * रामु मातु अस कात्रे न होई

सील सकुच सुठि सरल सुभाऊ * कृपा सनेह सदन रघुराऊ

अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा * मैं सिसु सेवक जद्यपि बामा

क्योंकि श्रीरामजी, शील, सकुच, सुन्दर, सीधे स्वभाव व स्नेह के स्थान हैं। श्रीरामजीने शत्रु के साथ भी बुराई नहीं की, मैं तो उनका बालक और सेवक हूँ, यद्यपि उनके प्रतिकूल हूँ।

तुम्ह पै पाँच सोर भल मानी * आयसु आसिष देहु सुवानी

जेहि सुनि विनय मोहि जनजानी * आर्वाहिं बहुरि रामु रजधानी

आप भी मेरी भलाई मानकर मधुर वाणी से आज्ञा देकर आशीर्वाद दीजिये। जिससे वे मेरी प्रार्थना सुन और मुझे अपना दास जानकर फिर अपनी राजधानी को लौट आवें।

दोहा—जद्यपि जन्म कुमातु तैं, मैं सठ सदा सदोष।

आपन जानि न त्यागहिं, मोहि रघुवीर भरोस ॥१७६॥

यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं सदा दुष्ट तथा दोषयुक्त भी हूँ, तो भी श्री रघुनाथजी मुझे अपना दास जानकर नहीं त्यागेंगे, यह मुझे रघुवीर पर भरोसा है।

भरत वचन सब कहँ प्रिय लागे * राम सनेह सुधा जनु पागे

लोग वियोग विषय विष दागे * मन्त्र सबीज सुनत जनु जागे

भरत के वचन सबको ऐसे प्रिय लगे, मानो श्रीरामजी के प्रेमरूपी अमृत में डूबे हुए हैं। सब लोग श्रीरामजी के वियोगरूपी कठिन विष से जले हुए थे, सो मानो बीज सहित मन्त्र सुनते ही जाग उठे हैं।

मातु सच्चिव गुरु पुर नर नारी * सकल सनेह विकल भए भारी

भरतहिं कर्हिं सराहि सराही * राम प्रेम मूरति तनु आही

माता, मन्त्री, गुरु और नगर के स्त्री-पुरुष सब स्नेह-विवहल होगये। भरतजी की बड़ाई करके वे सब कहने लगे कि भरतजी का शरीर मानो श्रीराम-प्रेम की साक्षात् मूर्ति ही है।

तात भरत अस काहे न कहहू * प्राण समान राम प्रिय अहहू

ो पाँवरु अपनी जड़ताई * तुम्हहि सुगाइ मातु कुटिलाई

हे प्रिय भरतजी ! आप ऐसा क्यों न कहेंगे ? आप श्रीरामजी के प्राण प्यारे हैं। जो नीच मूर्खता से माता की कुटिलता का तुम पर सन्देह करेगा—

सो सठु कोटिक पुरुष समेता * बसिहि कल्प सतनगर निकेता

अहिअघअवगुन नहिं मनि गहई * हरइ गरल दुख दारिद दहई

वह मूर्ख करोड़ों पुरुषों समेत नौ कल्पों तक नरक कुण्ड में वास करेगा। सर्प की मणि, सर्प के विष और पाप को ग्रहण नहीं करती, वरन, वह विष, दुख व दरिद्र को दूर करती है।

दोहा—अवसि चलिअवन रामु जहँ, भरत मन्त्रु भल कीन्ह।

सोक सिंधु बूढ़त सबहि, तुम्ह अवलम्बनु दीन्ह ॥१७७॥

हे भरत ! श्रीरामजी के पास वन को अवश्य चलिये। आपने अच्छा विचार किया, जो

दोहा—कौसल्या के वचन सुनि, भरत सहित रनिवासु ।

व्याकुल विलपत राजगृह, मानहुँ सोक निवासु ॥१६०॥

कौशल्याजी के वचन सुनकर भरत सहित रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा । राज-भवन मानी शोक का निवास-स्थान बन गया ।

विलपहि विकल भरत दोउ भाई * कौशल्याँ लिए हृदयँ लगाई
भाँति अनेक भरतु समुझाए * कहि विवेकमय वचन सुहाए

भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई व्याकुल होकर विलाप करने लगे, तो कौशल्याजी ने उन्हे हृदय से लगा लिया । अनेक भाँति से भरतजी को समझाया और ज्ञान से भरे वचन कहे ।

भरतहुँ मातु सकल समुझाई * कहि पुरान श्रुति कथा सोहाई
वल विहीन सुचि सरल सुवानी * बोले भरत जोरि जुग पानी

भरतजी ने भी पुराण और वेदों की सुन्दर कथायें कहकर सब माताओं को समझाया, फिर छल रहित, पवित्र, सीधी और मधुर वाणी से भरतजी दोनों हाथ जोड़कर बोले—

जे अघ मातु पिता सुत तारें * गाइ गोठ महिसुर पुरं जारें
जे अघ तिय बालक वधु लीन्हें * सीत महीपति माहुर दीन्हें

जो पाप माता-पिता और पुत्र को मारने से, गौशाला व ब्राह्मणों के नगर जलाने से होता है, जो पाप स्त्री और बालक को वध करने से तथा मित्र व राजा को विष देने से होता है ।

जे पातक उपपातक अहहीं * करम वचन मन भव कवि कहहीं
ते पातक मोहि होहु विधाता * जाँ यहु होइ मोर मत माता

जितने भी पातक व उपातक—कर्म, वचन और मन से उपजे हुए संसार के कवि लोग कहते हैं वे पातक—जो इस काम में मेरा मत हो तो, हे माता ! विधाता मुझे लगादे ।

दोहा—जे परिहरि हर चरन रत, भजहि भूतगन घोर ।

तेहि कै गति मोहि देइ विधि, जाँ जननी मत मोर ॥१६१॥

जो श्रीहरि के चरणों को छोड़कर, भयङ्कर भूतगणों को भजते हैं हे माता ! जो इसमें मेरी सम्मति हो तो, उनकी गति मुझे दे ।

वेचहि वेद धरम दुहि लेहीं * सुनहि पराय पाप कहि देहीं
कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी * वेद विदूषक विश्व विरोधी

जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दुह लेते हैं, चुगल-बोर हैं और दूसरे के पाप को कह देते हैं, तथा जो छली, छोटे, कलह-प्रिय क्रोधी, वेदों के निन्दक और जगत के विरोधी हैं ।

लोभी लम्पट लोलुपचारा * जे ताकहि परधनु परदारा
पावों मैं तिन्ह कै गति घोरा * जाँ जननी यहु सम्मतु मोरा

जो लोभी, विषयी, लालचो, परायण धन व पराई-स्त्रियों को ताकने वाले हैं, हे माता !

ऐसा विचार कर विश्वासी सेवकों को बुलाया, जो सपने में अपने धर्म से नहीं डिगे थे ।
 करि सबु सरसुधरसुभल भाषा * जो जेहि लायक सो तेहि राखा
 करि सबु जतनु राखि रखवारे * रास मातु पहि भरतु सिधारे
 भरतजी ने उन सबको सब भेद समझाकर धर्म का उपदेश दिया, और जो जिस लायक था, उसे वहीं रख दिया । सब प्रकार से प्रबन्धकर रखवालों को रखकर भरतजी श्रीरामजी की माता के पास गये ।

दोहा—आरत जननी जानि सब, भरत स्नेह सुजान ।

कहेउ बनावन पालकी, सजन सुखासन जान ॥१७८॥

स्नेह के सुजान भरतजी ने सब माताओं को दुखित जानकर पालकी तैयार करने और सुखपाल सजाने के लिये कहा ।

चकक चक्रिक जिमि पुर नरनारी * चहत प्रान उर आरत भारी
 जागत सब निसिभयउ बिहाना * भरत बोलाए सचिव सुजाना

नगर के स्त्री-पुरुष चकवे चकवी की भाँति व्याकुल होकर चाहने लगे कि सवेरा ही जाय । सबको रात भर जागते सवेरा होगया, तब भरतजी ने चतुर मन्त्रियों को बुलाया ।

कहेहु लेहु सब तिलक समाजू * बनहि देव मुनि रामहि राजू
 बेगि चलहु सुनि सचिव जोहारे * तुरत तुरंग रथ नाग सँवारे

और बोले राजतिलक का सब सामान ले चलो, वनमें ही मुनि श्रीरामजी को राज्य देंगे, शीघ्र चलो । यह सुनकर मन्त्रियों ने प्रणाम किया, और तुरन्त घोड़े, रथ, हाथी सजाकर तैयार किये ।

अरुनधती और अग्नि समाऊ * रथ चढ़ि चले प्रथम मुनिराऊ
 विप्र वृन्द चढ़ि वाहन नाना * चले सकल तप तेज निधाना

सबसे पहले अरुनधती और अग्निहोत्र की सामग्री लेकर मुनिराज वशिष्ठजी रथपर चढ़कर चले । फिर तप और तेज के निधान सब ब्राह्मणों के समूह अनेक सवारियों पर चढ़कर चले ।

नगर लोग सबसजि सजि नाना * चित्रकूट कहँ कीन्ह पलाना
 सिबिकासुभग न जाहि बखानी * चढ़ि चढ़ि चलत भई सब रानी

नगर के लोग सवारियाँ सजा कर चित्रकूट के लिए चले । जिनकी सुन्दरता का वखान नहीं किया जा सकता, ऐसी सुन्दर पालकियों में चढ़-चढ़कर सब रानियाँ चलीं ।

दोहा—सौपि नगर सुचि सेवकनि, सादर सकल चलाइ ।

सुसिरि राससिय चरनतब, चले भरत दोउ भाइ ॥१८०॥

नगर को पवित्र सेवकों को सौंपकर, आदर सहित सबको आगे करके, भरत-शत्रुघ्न दोनों भाई श्रीसीता-रामजी के चरणों का स्मरण करके चले ।

राम दरस बस सब नर नारी * जानु करि करिनि चलेत किवारी
 वन सियरामु ससुजि मन साहीं * सानुज भरत पयादेहि जाहि

हे पुत्र! मन में धीरज धरो और आज जो अवसर है—वह काये करो। गुरुजी के वचन सुनकर भरतजी उठे और उन्होंने तैयारी करने की आज्ञा दी।

नृप तनु वेद विदित अन्हवावा * परम विचित्र विमान बनावा गहि पद भरत मात सब राखीं * रही राम दरसन अभिलाषीं

राजा के शरीर को वेदों में कही हुई रीति से स्नान कराया और बहुत ही अद्भुत विमान बनाया गया। भरतजी ने सब माताओं के पांव पकड़ कर उन्हें (सती होने से) रोका, तब वे श्रीरामजी के दर्शनों की इच्छा से रह गईं।

चन्दन अगर भार बहु आए * अमित अनेक सुगन्ध सुहाए सरजू तीर रचि चिता बनाई * जनु सुरपुर सोपान सुहाई

चन्दन और अगर के बहुत से बोझ आये तथा अनेकों प्रकार के सुन्दर, सुगन्धित पदार्थ भी मंगाये। सरयू के किनारे रचकर ऐसी चिता बनाई, मानो देवलोक की सीढ़ियां ही हों।

एहि विधि दाहक्रिया सबकीन्ही * विधिवत न्हाइ तिलांजलि दीन्ही सोधि सुमृति सब वेद पुराना * कीन्हु भरत दसगात विधाना

इस प्रकार भरतजीने सब दाह-क्रिया की, फिर विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर सब वेद-पुराण और स्मृतियों को शोधकर भरतजी ने दश-गात्र-कर्मविधान से किया।

जहँ जस मुनिवर आयसु दीन्ही * तहँ तस सहस भांति सब कीन्ही भए विशुद्ध दिए सब दाना * धेनु वाजि गज दाहन नाना

जहाँ जैसी आज्ञा मुनिवर ने दी, वहाँ वैसा ही हजारों भांति से सब कर्म किया और शुद्ध होने पर यह सब प्रकार के दान दिये-गाय, घोड़े, हाथी और अनेकों सवारियां आदि।

दोहा—सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरनि धन धाम।

दिए भरत लहि भूमिसुर, भे परिपूरन काम ॥१६४॥

सिंहासन, गहने, वस्त्र, अन्न, धन, घर भरत ने विप्रों को दान दिये, ब्राह्मण पाकर संतुष्ट हुए।

पितुहितु भरतकीन्ही जस करनी * सो मुख लाख जाइ नहिं वरनी सुदिनु सोधि मुनिवर तब आए * सचिव महाजन सकल बोलाए

पिता के निमित्त भरतजी ने जैसी करनी की, उसका लाख मुखों से भी वर्णन नहीं हो सकता। फिर शुभ दिन शोधकर मुनिवर वशिष्ठजी ने मन्त्री और सब महाजनों को बुलाया।

बैठे राजसभाँ सब जाई * पठए बोलि भरत दोउ भाई भरत बसिष्ठ निकट वैठारे * नीति धरममय वचन उचारे

वे सब राज-सभा में जाकर बैठे, तब मुनि ने भरत-शत्रुघ्न दोनों भाइयों को भी बुलवा लिया। भरतजी को वशिष्ठजी ने पास बैठाया और नीति तथा धर्म सम्बन्धी वचन कहे—

प्रथम कथा सब मुनिवर वरनी * कैकेइ कुटिल कीन्ही जस करनी भूप धरमव्रत सत्य सराहा * जहिं तनु परिहरि प्रेम निबाहा

सब देयता व राक्षस मिलकर लड़े, तो भी युद्ध में श्रीरामजी को जीतने वाला कोई नहीं है। भरतजी ऐसा करें तो आश्चर्य ही क्या है, विष की बेल में अमृत के फल कभी नहीं लगते।

दोहा—अस विचारिगुहँ ग्यात सन, कहेउ सजग सब होहु।

हथवाँसहु बोरेहु तरनि, कीजिअ घाटा रोहु ॥१८२॥

ऐसा विचार कर गुह ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ। नावों को हथ-वाँसों सहित डुबो दो और घाट बन्द कर दो।

होहु सँजोइल रोकहु घाटा * साजहु सकल मरन कर ठाटा
सनमुख लोह भरत सन लेऊँ * जिअत न सुरसरि उतरन देउँ

सुसज्जित होकर सब घाटों को रोक लो और मरने का साज सजा लो। मुकाबिला करके भरत से युद्ध में लोहा लूँगा और जीते-जी गङ्गाजी के पार नहीं होने दूँगा।

समर मरनु पुनि सुरसरि तीरा * राम काजु छनभंगु सरीरा
भरत भाइ नृपु मैं जन नीचू * बड़े भागु अस पाईअ मीचू

युद्ध में मरना, फिर गंगाजी के किनारे, राम-काज के निमित्त, क्षण-भंगुर शरीर, भरत राजा व श्रीरामचन्द्रजी के भाई, और मैं नीच-सेवक—इस प्रकार की मृत्यु बड़े भाग्य से मिलती है।

स्वामि काजु करिहउँ रन रारी * जस धवलिहउँ भुवन दसचारी
तजउँ प्राण रघुनाथ निहोरें * दुहँ हाथ मुद मोदक मोरें

स्वामी के कार्य के लिये रण में युद्ध करूँगा, चौदहों भुवनों को घबल यश से उज्ज्वल करूँगा। श्रीरघुनाथजी के निमित्त प्राण त्यागूँगा, मेरे दोनों हाथों में आनन्द वायक लड़्डू हैं।

साधु समाज न जाकर लेखा * राम भगत महुँ जासु न रेखा
जाय जिअत जग सो महि भारू * जननी यौवन विटप कुठारू

साधु-समाज में किसका सम्मान नहीं है और श्रीरामजी के सबतों में जिसकी गिनती नहीं है, वह संसार में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन को काटने के लिये फुल्हाड़ी ही है।

दोहा—विगत विषाद निषादपति, सबहि बढाइ उछाहु।

सुषिरि राम माँगेउ तुरत, तरकस धनुष सनाहु ॥१८३॥

फिर शोक को दूर कर निषाद ने सभी का उत्साह बढ़ाया और श्रीरामचन्द्रजी का स्मरण कर अपना तरकस, धनुष और बछ्तर माँगा।

बेगहु भाइहु सजहु सँजोऊ * सुनि रजाइ कदराइ न कोऊ
भलेहि नाथ सब कहहिं सहर्षा * एकहिं एक बढावाहिं हर्षा

और कहा—हे भाइयो! शीघ्र ही युद्ध का साज सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई भी मन में डरना नहीं। वे सब प्रसन्न होकर बोले—हे नाथ! बहुत अच्छा, ऐसा कहकर आपस में एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने लगे।

का सोच करना चाहिए, जो सांसारिक झगड़ों में फँसकर ज्ञान-व्यराग्य से होन हो जाता है।

**वैखानस सोइ सोचन जोगू * तपु विहाइ जेहि भावइ भोगू
सोचिअ पिसनु अकारन क्रोधी * जननि जनक गुरु बन्धु विरोधी**

वही वानप्रस्थ सोच करने योग्य है, जिसे तप छोड़कर भोग अच्छा लगे। सोच करने योग्य वह भी होता है—जो घुगलखोर, बिना कारण ही क्रोधी, माता-पिता, गुरु और अपने बन्धुओं का विरोधी हो।

**सब विधि सोचिय पर अपकारी * निज तनु पोषक निरदय भारी
सोचनीय सबही विधि सोई * जो न छाँड़ि छलु हरिजनु होई**

वह सब भाँति से सोचनीय है—जो पराया अनिस्ट करता हो, अपने हीगरीर का पोषक ब निदंयों हो। वही सब भाँति से सोच करने योग्य है, जो छल छोड़कर हरि-नस्त नहीं हो सोचनीय नहीं कौसलराऊ * भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ

**भयउ न अहइ न अब होनिहारा * भूप भरत जस पिता तुम्हारा
विधि हरिहरु सुरपति दिसनाथा * वरनहिं सब दसरथ गुनगाथा**

कौशलपति महाराज सोच करने योग्य नहीं हैं, जिनका प्रताप चौदहों लोकों में प्रतिद्व है। हे भरत! तुम्हारे पिता के समान राजा न कोई हुआ है, न अब है न आगे होने वाला है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्र और दिग्पाल सब दशरथजी के गुणों को क्या कहते हैं।

दोहा—कहहु तात केहि भाँति कोउ, करिहि बड़ाई तासु।

राम लखन तुम्ह सत्बहन, सरिस सुअन सुचि जासु ॥१६७॥

हे तात! कहो, किस प्रकार कोई उनकी बड़ाई कर सकता है—जिनके श्रीरामचन्द्रजी, लक्ष्मणजी, तुम और शत्रुघ्न सरोखे पुत्र हैं?

**सब प्रकार भूपति बड़भागी * वादि विषादु करिअ तेहिं लागी
यह सुनि समुझि सोच परिहरह * सिर धरि रायँ रजायसु करह**

महाराज सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए सोचकरना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग करदो और राजा की आज्ञा शिरोधार्य कर तदनुसार करो।

**रायँ राजपदु तुम्ह कहँ दीन्हा * पिता वचन फुर चाहिअ कीन्हा
तजे रामु जेहि वचनहिं लागी * तनु परिहरेउ राम विरहागी**

महाराज ने राजगद्दी तुमको दी है, इससे पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिये। जिनके हेतु उन्होंने श्रीरामजी को त्याग दिया और उनकी विरहाग्नि से अपना देह भस्म कर दिया।

**नृपहि वचन प्रिय नहिं प्रिय प्राणा * करहु तात पितु वचन प्रमाना
करहु सोस धरि भूप रजाई * हइ तुम्ह कहँ सब भाँति भलाई**

राजा को अपने वचन प्रिय थे, प्राण नहीं। अतः हे तात! पिता के वचनों को प्रमानित करदो। राजा की आज्ञा सिर पर रखकर पालन करो, इसी में तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है।

है। भरतजी के शील स्वभाव को बिना सोचे-समझे लड़ाई करने से हित की बड़ी हानि होगी।

दोहा—गहहु घाट भट सिमित सब, लेउँ मरम मिलि जाइ।

बूझि मित्र अरि मध्य गति, तस तब करिहउँ आइ ॥१८५॥

अतः तुम सब मिलकर घाटों को जाकर रोको और मैं भरतजी से मिलकर, उनका भेद लेता हूँ। शत्रु, मित्र और उदासीन भाव से पूछकर, तब वैसा ही उपाय करूँगा।

लखव सनेहु सुभायँ सुहाएँ * बैरु प्रीति नहिं दुरइ दुराएँ

अस कहि भेंट सँजोवन लागे * कन्द मूल फल खग मृग माँगे

मैं भरत के भले स्वभाव से ही उनके प्रेम को पहिचान लूँगा, क्योंकि बैर व प्रीति छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर गुह भेंट के लिये साज सजाने लगा, उसने कंद, मूल, फल, पक्षी व मृग मँगवाये।

मीन पीन पाठीन पुराने * भरि भरि भार कहारन्ह आने

मिलनसाजु सजि मिलन सिधाए * मङ्गल मूल सगुन सुभ पाए

मोटी और पुरानी 'पाठीन' नामक मछलियों के भार भर-भरकर कहार ले आये। सब मिलने का सामान सजाकर मिलने के लिये चले, तो मङ्गल दायक शकुन हुए।

देखि दूरि ते कहि निज नामू * कीन्ह मुनीसहिं दण्ड प्रनामू

जानि राम प्रिय दीन्ह असीसा * भरतहि कहेउ बुझाइ मुनीसा

गुह ने मुनिराज को देखकर दूर से ही अपना नाम बतलाकर दण्डवत प्रणाम किया। उसे श्रीराम-प्रिय जानकर मुनीश्वर ने आशीर्वाद दिया और भरतजीसे समझाकर कहा कि यह श्रीरामजी का मित्र है।

रामसखा सुनि स्यन्दन त्यागा * चले उतरि उमगत अनुरागा

गाँउँ जाति गुहँ नाउँ सुनाई * कीन्ह जोहारु माथ महि लाई

भरत उसे श्रीराम का सखा सुन, रथसे उतर पड़े और प्रेम से उमंगते हुए चले। निषाद पति गुह ने अपना गाँव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर सिर नवाकर प्रणाम किया।

दोहा—करत दण्डवत देखि तेहि, भरत लीन्ह उर लाइ।

सनहुँ लखन सन भेंट भइ, प्रेमु न हृदयँ समाइ ॥१८६॥

भरतजी ने उसे दण्डवत करते देख, उठाकर हृदय से लगा लिया प्रेम हृदय में नहीं समाता, मानो लक्ष्मणजी से भेंट होगई हो।

भेंटत भरत ताहि अति प्रीती * लोग सिहाहिं प्रेम कै रीती

धन्य धन्य धुनि मङ्गल मूला * सुर सराहाहिं तेहि बरसाहिं फूला

भरतजी उससे बड़े प्रेम से मिले, प्रीति की रीति को देख सब लोग बड़ाई करने लगे। मंगल की मूल 'धन्य-धन्य' की ध्वनि होने लगी, सब देवता उनकी प्रशंसा करके पुष्प बरसाने लगे।

लोक वेद सब भाँतिहि नीचा * जासु छाँह छुइ लेइअ सींचा

तेहि भरि अङ्क राम लघु भ्राता * मिलत पुलक परिपूरित गाता

करो और हित मानकर बँसा ही करो। काल की गति जानकर दुःख को दूर कर दो।

वन रघुपति सुरपुर नरनाहू * तुम्ह एहि भाँति तात कदराहू
परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा * तुम्हहि सुत सब कहँ अवलम्बा

हे पुत्र ! श्रीराम वन में हैं, राजा स्वर्ग में हैं और तुम इस भाँति कायर हो रहे हो।
हे पुत्र ! कुटुम्बी, मन्त्री और सब माताओं के तुम ही हितयोगी हो।

लखि विधि वाम कालुकठिनाई * धीरजु धरहु मातु बलि जाई
सिर धरि गुरु आयसु अनुसरहू * प्रजा पालि परिजन दुख हरहू

विधाता को उल्टा और काल की कठिनता को समझकर धीरज धरो, माता तुम्हारी
बर्लया लेती हैं। गुरु की आज्ञा मानकर उसी के अनुसार प्रजा का पालन कर नगरवासियों
के दुःख को दूर करो।

गुरु के वचन सचिव अभिनन्दनु * सुने भरतहिय हित जनु चन्दनु
सुनि बहोरि मातु मृदु बानी * सील सनेह सरल रस सानी

भरतजी ने गुरु के वचन और मन्त्रियों के अनुमोदन को सुना। जो हृदय के लिए चन्दन के तुल्य
शीतल हैं। फिर माता की कोमल वाणी सुनी, जो शील, स्नेह तथा सरलता के रस से भरी हुई है।

छन्द—सानी सरल रस मातु बानी सुन भरत व्याकुल भए।

लोचन सरोरुह स्रवत सींचत विरह उर अंकुल नए ॥

सो दसा देखत समय तेहि विसरी सबहि सुधि देह की।

तुलसी सराहत सकल सादर सीव सहज सनेह की ॥

माता की सरलता के रस से भरी हुई वाणी सुनकर भरतजी विकल होगये। उनके
कमल नेत्रों से चहता जल मानो हृदय के विरहदुःखों तथा पीधों को सौंचने लगा। भरत
जो की ऐसी दशा देखकर उस समय सबको अपनी देह की सुघ-बुघ न रही। तुलसीदासजी
कहते हैं कि सब लोग स्वाभाविक स्नेह की सीमा को सादर सराहने लगे।

सो०—भरत कमल कर जोरि, धीर धुरन्दर धीर धरि।

वचन अमिअँ जनु बोरि, देत उचित उत्तर सबहि ॥ ८ ॥

धर्म की धुरी को धारण करने वाले भरतजी धीरज धारणकर और कमल-स्वरूप हाथों
को जोड़कर मानो अमृत से भरे हुए वचनों से सबको उचित उत्तर देने लगे।

⊗ मासपारायण—अठारहवाँ विश्राम ⊗

मोहि उपदेशु दीन्ह गुर नोका * प्रजा सचिव सम्मत सबही का
मातु उचित धरि आयसु दीन्हा * अबसि सीस धरि चाहउँ कीन्हा

गुरुजी ने मुझे बहुत सुन्दर उपदेश दिया, जो प्रजा, मन्त्री आदि सब ही से सम्मत है। फिर माता
जो ने भी उचित आज्ञा दी है, उसे सिर पर अवश्य धारण करके मैं बँसा ही करना चाहता।

दोहा—समुझि मोरि करतूति कुल, प्रभु महिमा जियँ सोइ ।

जो न भजइ रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोइ ॥१८७॥

अपना वंश व कर्म देख और प्रभु की महिमा को हृदय में विचारकर मैंने समझ लिया कि जो श्रीरामजी के चरणों का भजन नहीं करता, वह संसार में ब्रह्माजी द्वारा ठगा गया है ।

कपटी कायर कुटिल कुजाती * लोक वेद बाहेर सब भाँती
राम कीन्ह आपन जबही तें * भयउँ भुवन भूषन तबही तें

मैं कपटी कायर, कुबुद्धि, कुजाति हूँ और सब प्रकार से लोक तथा वेद से बाहर हूँ । परन्तु जब से मुझे श्रीरामजी ने अपनाया है, तभी से मैं लोक का भूषण होगया हूँ ।

देखि प्रीति सुनि विनय सुहाई * मिलेउ बहोरि भरत लघु भाई
कहि निषाद निज नाम सुबानी * सादर सकल जोहारों रानी

निषाद का स्नेह देख व सुन्दर विनती सुन, भरतजी के छोटे भाई शत्रुघ्न उससे मिले, फिर निषादराज ने अपना नाम कहकर मधुर वाणी से सादर सब रानियों को प्रणाम किया ।

जानि लखन सम देहिं असीसा * जिअहु सुखी सत लाख बरीसा
निरखि निषादु नगर नर नारी * भए सुखी जनु लखनु निहारी

वे उसे लक्ष्मण के समान जानकर अशीष देने लगीं कि तुम सुख से सौ लाख वर्षों तक जिओ । नगर के स्त्री-पुरुष निषादराज को देख ऐसे सुखी हुए, मानो लक्ष्मणजी को देख लिया हो ।

कहिं लहेउ एहि जीवन लाहू * भेटउ रामचन्द्र भरि बाहू
सुनि निषादु निज भाग्य बड़ाई * प्रमुदित मन लइ चलेउ लेवाई

सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसीने पाया है, जिसे मंगलमय श्रीरामजीने भुजा पसारगले से लगाया है निषादराज अपने भाग्य को बड़ाई सुन, आनन्दित हो सबको साथ लिवा ले चला ।

दोहा—सनकारे सेवक सकल, चले स्वामि रुख पाइ ।

घर तरु तर सब बाग बन, बास बनाएन्हि जाइ ॥१८८॥

उसने सेवकों को इशारा कर दिया, वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने ठहरने के लिये—घरों में, वृक्षों के नीचे, तालावों के किनारे, बाग और बगीचों में स्थान बना दिये ।

शृङ्गवेरपुर भरत दीख जब * भे सनेहँ बस अङ्ग सिथिल तब
सोहत दिँ निषादहि लागू * जनु तनु धरें विनय अनुरागू

भरतजी ने शृङ्गवेरपुर को जब देखा तो प्रेम के मारे उनके सब अङ्ग शिथिल होगये । निषादराज के कन्धे पर हाथ रखे हुए वे ऐसे शोभा दे रहे हैं, मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किये जा रहे हों ।

एहि विधि भरत सेनु सब सङ्गा * दीख जाइ जग पावन गङ्गा
रामघाट कहँ कीन्ह प्रनामू * भा मनु मगन मिले जनु रामू

इस तरह भरतजीने सब सेना समेत संसार को पवित्र करने वाली गंगाजी के दर्शन किये ।

मुझे राजा बनाकर अपना भला चाहते हैं, सो आप स्नेह और अज्ञान के बराबर कह रहे हैं।

हा-कैकेइ सुत मो कुटिल मति, राम विमुख गत लाज।

तुम्ह चाहत सुखु मोर वस, मोहि से अधमके राज ॥१७१॥

कैकेई के पुत्र, कुटिल बुद्धि, श्रीराम-विमुख और लज्जा हीन मुझ जैसे अधम के राज्य आप सुख की इच्छा मोह बरा ही करते हैं।

हउं सांचु सब सुनि पतिआहू * चाहिअ धरमसील नर नाहू
मोहि राजु हठि देहहु जबही * रसा रसातल जाइहि तंवही

मैं सत्य कहता हूँ, आप सुनकर उसका विश्वास करें कि राजा धर्मात्मा ही होना चाहिए। मुझे हठ पूर्वक ज्यों ही राज्य दोगे, त्यों ही पृथ्वी रसातल को चली जायगी।

मोहि समान को पाप निवासू * जेहि लगि राम सीय बनवासू
रायँ राम कहूँ कानन दीन्हा * विछुरत गमनु अमरपुर कीन्हा

मेरे समान पापात्मा कौनसा है कि जिसके कारण श्रीराम, सीता बनवासी हुए ? राजा ने श्रीराम को बनवास दिया और उनके विछुड़ते ही स्वर्ग को सिंघार गये।

मैं सठु तव अनरथ कर हेतू * वैठ बात सब सुनउं सचेतू
बिनु रघुवर विलोकि अवासू * रहे प्रान सहि जुग उपहासू

और मैं सठ जो सब अनर्थों का कारण हूँ, सावधान बंठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्रीरघुनाथजी के बिना घर को देखकर भी यह प्राण संसार को हँसी सहते हुए ठहरे हुए हूँ।

राम पुनीत विषय रस रूखे * लोलुप भूमि भोग के भूखे
कहँ लगि कहाँ हृदय कठिनाई * निदरि कुलिस जेहि लही वड़ाई

यह श्रीरामजी के विषय-रस से उदासीन हूँ, यह लोभी भूमि और भोग के भूखे अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ जिसने वज्र की कठोरता का भी निरादर कर वड़ाई पाई है।

दोहा-कारन तें कारजु कठिन, होइ दोषु नहि मोर।
कुलिस अस्थि तें उपल तें, लोह कराल कठोर ॥१७२॥

कारण से कार्य कठोर होता है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा-अधिक भयङ्कर और कठोर होता है।

कैकेइ भवन तनु अनुरागे * पाँवर प्रान अघाइ अमागे
जौँ प्रिय विरहँ प्रान प्रिय लागे * देखत सुनव बहुत अब आगे

कैकेई से उत्पन्न शरीर से अनुराग करने वाले यह नीच प्राण पूर्ण अमागे हैं। जो प्रिय का वियोग भी प्राणों को प्यारा लगा, तो यह आगे अभी बहुत कुछ देखेंगे और सुनेंगे।

लखन राम सिय कहूँ वन दीन्हा * पठइ अमरपुर पति हित कीन्हा
लीन्ह विधवपन अहजसु आपू * दीन्हेउ प्रजहि सोक मन्ता

लखन राम सिय कहूँ वन दीन्हा * पठइ अमरपुर पति हित कीन्हा

लीन्ह विधवपन अहजसु आपू * दीन्हेउ प्रजहि सोक मन्ता

अति सनेहँ सादर भरत, कीन्हेउ दण्ड प्रनामु ॥१६१॥

जहां पवित्र अशोक के वृक्ष की छाया में श्रीरघुनाथजी ने विश्राम किया था, वहां पर भरतजी ने बड़े प्रेम से साष्टांग प्रणाम किया ।

कुश साँथरी निहारि सुहाई * कीन्ह प्रनामु प्रदच्छिन जाई
चरन रेख रज आँखिन्ह लाई * बनइ न कहत प्रीति अधिकाई

फिर कुश की सुन्दर आसनी देख परिक्रमा करके प्रणाम किया और चरण-चिन्हों की रज लेकर नेत्रों से लगाई । उस समय की प्रीति की अधिकता कहते नहीं बनती ।

कनक बिन्दु दुइ चारिक देखे * राखे सीस सीय सम लेखे
सजन बिलोचन हृदयँ गलानी * कहत सखा सन वचन सुबानी

सोने के दो-चार सितारे पड़े देख, उन्हें श्रीसीताजी के समान जानकर मस्तक पर रख लिया और नेत्रों में जल भरकर मन में दुःखित हो सखा से मधुर वाणी से बोले—

श्रीहत सीय विरहँ दुतिहीना * जथा अवध नर नारि बिलीना
पिता जनक देउँ पटतर केही * करतल भोगु जोगु जग जेही

हा ! यह सोने के सितारे भी सीताजी के वियोग से कान्ति-हीन और मलिन हो गये हैं, जैसे अयोध्या के स्त्री पुरुष छवि-क्षीण हो रहे हैं । जिन्हें सीताजी के पिता राजा जनकजी हैं, उनकी उपमा मैं किससे दूँ ? जिनकी मुट्ठी में जगत के सब भोग और योग दोनों हैं ।

ससुर भानुकुल भानु भुआलू * जेहि सिहात अमरावति पालू
प्राणनाथु रघुनाथ गोसाई * जो बड़ होत सो राम बड़ाई

जिनके सूर्यवंश के सूर्य महाराज दशरथजी ससुर थे, जिन्हें अमरावती के स्वामी इन्द्र भी सराहते हैं । श्रीरघुनाथजी जिनके प्राणनाथ हैं, संसार में जो बड़ा होता है, वह श्रीरामजी के ही देने से बड़प्पन पाता है ।

दोहा—पति देवता सुतीयमनि, सीयँ साँथरी देखि ।

विदरत हृदय न हहरि हर, पवि तें कठिन विसेखि ॥१६२॥

उन पतिव्रताओं में शिरोमणि सीताजी की कुश-शय्या 'साँथरी' को देख वहलकर मेरा हृदय भी नहीं फट जाता । हे शङ्कर ! यह यज्ञ से भी कठोर है ।

लालन जोगु लखन लघु लोने * भे न भाइ अस अहहिं न होने
पुरजन प्रिय हितु मातु दुलारे * सिय रघुवीरहिं प्राणपिआरे

छोटे और सलीने भाई लक्ष्मणजी प्यार करने योग्य हैं । ऐसे भाई न हुए न होंगे और न होने वाले ही हैं । जो लक्ष्मणजी—अयोध्या वासियों को प्रिय, माता-पिता के दुलारे और श्रीसीता-रामजी को प्राणों से प्रिय हैं ।

मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ * तात वाउ तन लाग न काऊ
ते वन सहहि विपति सब भाँती * निदरे कोटि कुलिस एहिं छाती

कहइ सुभाय सनेह बस, मोरि दीनता देखि ॥१७४॥

श्रीरामजी की माता बड़ी सरल हृदय हैं, उनको मुझ पर विशेष प्रीति है। अतः स्वभाविक स्नेह वश मेरी दीनता देखकर वे ऐसा कहते हैं।

गुरु विवेक सागर जगु जाना * जिन्हहि विश्व कर वदर समाना
मो कहँ तिलक साज सज सोऊ * भएँ विधि विमुख विमुख सब कोऊ

गुरुजी ज्ञान के समुद्र हैं, यह संसार जानता है, जिन्हें सब जगत हाथ में लिये बंदर के समान है। वे भी राजतिलक के लिए साज सजा रहे हैं। विघाता विमुख होने से सब विमुख हो जाते हैं।

परिहरि रामु सीय जग माहीं * कोउ न कहहि मोर मत नाहीं
सो मैं सुनव सहव सुखु मानी * अन्तहुँ कोच तहाँ जहँ पानी

जगत में श्रीसोता-रामजी को छोड़कर और कोई यह नहीं कहेगा कि इसमें मेरी सलाह नहीं है। मैं उसे सुख पूर्वक सुनूँगा, क्योंकि अन्त में कोच वहाँ होती है, जहाँ पानी होता है।

डरु न मोहिं जग कहिअ किपोचू * परलोकहु कर नाहि न सोचू
एकइ उर बस दुसह दवारी * मोहिलगिभे सिय रामु दुखारी

इस बात का मुझे डर नहीं कि संसार मुझे नीच कहेगा और परलोक की भी मुझे चिन्ता नहीं है। केवल एक यही भारी जलन मेरे हृदय में है कि मेरे कारण श्रीसोता-रामजी दुःखी हुए।

जीवन लाहु लखन भल पावा * सबु तजि राम चरन मनु लावा
मोर जनम रघुवर वन लागी * झूठ काह पछियाउँ अभागी

जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मणजी ने ही पाया, जिन्होंने सबको ध्याकर श्रीरामजी के चरणों में मन को लगाया। मेरा जन्म तो श्रीरघुनाथजी के वन जाने के निमित्त ही हुआ, मैं अभागा मिथ्या ही पछताता हूँ।

दोहा—आपिन दारुन दीनता, कहउँ सवहि सिर नाइ।

देखें बिनु रघुवीर पद, जिय कै जरनि न जाइ ॥१७५॥

सबको सिर नवाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ कि श्रीरघुनाथजी के चरणों के देखे बिना मेरे हृदय की जलन जायेगी।

आन उपाय मोहि नहिं सूझा * को जिय कै रघुवर विनु वूझा
एकहिं आँक इहइ मन माहीं * प्रातकाल चलिहउँ प्रभु पाहैं

दूसरा उपाय मुझे नहीं सूझता। श्रीरामजी के बिना और कौन मेरे जो की बात को कर सकता? मेरे मनमें एक यही निश्चय है कि प्रातःकाल प्रभु श्रीरामजी के पास घत हूँ—

जद्यपि मैं अनभल अपराधी * भै मोहि कारन सकल
तदपि सरन सनमुख मोहि देखी * छमि सब करिहहिं कृपा

यद्यपि मैं छोटा हूँ, और अपराधी हूँ, मेरे ही कारण सब उपद्रव हुए हैं, मैं जाने पर सन्मुख देखकर सब अपराध क्षमा करके, मुझ पर श्रीरामजी

छन्द-विधि वाम की करनी कठिन जेहिं मातु कीन्ही बावरी ।
 तेहि राति पुनि पुनि करहिं प्रभु सादर प्रशंसा रावरी ॥
 तुलसी न तुम्ह सो रास प्रीतसु कहत हौं सौहै किए ।
 परिनाम सङ्गल जानि अपने आनिए धीरज हिए ॥

प्रतिकूल विधाता के कार्य कठिन हैं, जिसने माता को बावरी बना दिया । उस रात को प्रभु श्रीरामचन्द्रजी यहाँ आदर पूर्वक आपकी वड़ी प्रशंसा करते थे । तुलसीदासजी कहते हैं- (निपादराज बोला-) श्रीरामचन्द्रजी को आप अत्यन्त प्रिय हैं, यह मैं सौगन्ध खाकर कहता हूँ । अन्त में मङ्गल जानकर मन में धैर्य धारण करिये ।

सो०-अन्तरजाभी रामु, सकुच सप्रेम कृपायतन ।

चलिअ करिअ विश्वासु, यह विचारि दृढ आनि मन ॥ ८ ॥

श्रीरामजी-अन्तर्यामी, संकोच, प्रेम और दया के धाम हैं, ऐसा मन में पक्का विचार करके चलिये और आराम कीजिये ।

सखा वचन सुनि उरि धरि धीरा * बास चले सुमिरत रघुवीरा
 यह सुधि पाइ नगर नर नारी * चले विलोकन आरत भारी

भरतजी सखा के वचन सुनकर और मनमें धैर्य धरकर श्रीरघुनाथजी का स्मरण करते हुए डेरे को चले । यह सुधि पाकर सब नर-नारी बहुत दुःखी होकर उस स्थान को देखने चले ।
 परदखिना करि करहिं प्रनासा * देहिं केकइहि खोरि निकामा
 भरि भरि बारि विलोचन लेहों * वाम विधातहि दूषन देहीं

वे सब परिक्रमा करके प्रणाम करने लगे और कंकड़े को दोष देने लगे । आंखों में आंसू भरकर विपरीत विधाता को दोष देने लगे ।

एक सराहहिं भरत सनेह * कोउ कह नृपति निबाहेउ नेहू
 निन्दहिं आपु सराहि निषादहि * को कहिसकइ बिमोह बिषादहि

कोई भरतजी के प्रेम की बड़ाई करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने स्नेह को पूरा निवाहा । वे सब अपनी निन्दा करके निषाद की बड़ाई करने लगे उस समय के मोह तथा दुःख को कौन कह सकता है ?

एहि विधि राति लोगु सब जागा * भा भिनुसार गुदारा लागा
 गुरहि सुनाव चढ़ाइ सोहाई * नई नाव सब मातु चढ़ाई
 दण्ड चारि सहँ भा सबु पारा * उतरि भरत तब सबहि सँभारा

इस प्रकार सब लोग रात भर जागे, सबेरा होते ही खेवा लगा । गुरु को सुन्दर नाव पर चढ़ाकर, फिर नई नाव में सब माताओं को चढ़ाया । चार घड़ी में सब गङ्गाजी के पार होगये, तब उतर कर भरतजी ने सबको सँभाला ।

शोक-समुद्र में डूबते हुए हम सबको अपना सहारा दिया ।

भा सब के मन मोड़ु न थोरा ✽ जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा
चलत प्रात लखि निरनउनीके ✽ भरतु प्रानप्रिय भे सबही के

सबके मनमें बड़ा ही संदेह हुआ, जैसे मेघ की गर्जना सुनकर पपीहा और भौरोंका मनआन-
दित होताहै । प्रातःकाल चलनेका सुन्दर निश्चय सुन भरतजी सबही को प्राण-प्रिय होगये ।

मुनिहि वन्दि भरतहि सिरुनाई ✽ चले सकल घर विदा कराई
धन्य भरत जीवनु जग माहीं ✽ सीलु सनेहु सराहत जाहीं

मुनि की वन्दना कर और भरतजी की सिर नवाकर सब लोग विदा मांग अपने २ घर
चले । संसार में भरतजी का जीवन धन्य है, इस प्रकार से भरतजी के शील व स्नेह की
सराहना करते हुए वे जा रहे हैं ।

कहाँहि परसपर भा वड़ काजू ✽ सकल चले कर सार्जाहि साजू
जेहि राखाहि रहु घर रखवारी ✽ सो जानइ जनु गरदनि मारी

वे परस्पर कहते है कि बड़ा कार्य होगया । सब चलने की तैयारी करने लगे । घर की
रखवाली के लिए जिसे रखना चाहते हैं, वही यही जानता है कि मेरी गर्दन मारी गई ।

कोउ कह रहन कहिअनहिंकाहू ✽ को न चहइ जग जीवन लाहू
और कहते हैं कि किसी से रहने को मत कहो, संसार में जन्म लेने के फल को कौन
नहीं चाहता ?

दोहा—जरउ सो सम्पति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाइ ।

सनमुख होत जो राम पद, करै न सहस सहाइ ॥१७८॥

वह सम्पदा, घर, सुख, मित्र, माता, पिता और भाई जल जायें, जो श्रीरामचन्द्रजी
के चरणों के सम्मुख होने में हँसते हुए सहायता न करें ।

घर घर सार्जाहि वाहन नाना ✽ हरषु हृदय परभात पयाना
भरत जाइ घर कीन्ह विचारू ✽ नगरु वाजि गज भवन भंडारू

लोग घर-घर अनेक प्रकार की सवारियाँ सजाने लगे, मन में प्रसन्न हैं कि सबेरे चलेंगे ।
भरतजी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, महल, खजाना आदि—

सम्पति सब रघुपति के आही ✽ जाँ विनु जतन चलो तजि ताही
तौ परिनाम न मोर भलाई ✽ पाप सिरोमनि ताई दोहाई

सब संपदा श्रीरघुनाथजी की है । यदि मैं इसको व्यवस्था किये बिना छोड़कर चला जाऊँ
तो अन्त में मेरे लिए भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का दोह सब पापों में शिरोमणि है ।

करइ स्वामि हित सेवकु सोई ✽ दूषन कोटि देइ किन कोई
अस विचारि सुचि सेवक बोले ✽ जे सपनेहु निज घरन न

सेवक वही है, जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई बुरे दोष ही दे । भरतजी ने

देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया ।

देखत श्यामल धवल हिलोरे * पुलकि सरीर भरत कर जोरे
सकल कामप्रद तीरथराऊ * वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ

श्याम-श्वेत लहरें देखते ही उनका देह पुलकित होगया । हाथ जोड़कर बोले-तीर्थराज ! आप सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपका प्रभाव वेदों में और संसार में प्रसिद्ध है ।

साँगउँ भीख त्याग निज धरसू * आरत काह न करइ कुकरसू
अस जियँ जानि सुजान सुदानी * सफल करहि जग जाचक बानी

अपना धर्म छोड़कर मैं भीख माँगता हूँ । दुःखी पुरुष कौनसा कुकर्म नहीं करते ? ऐसा हृदय में जानकर चतुर सुदानी लोग संसार में याचकों की प्रार्थना को सफल करते हैं ।

दोहा-अरथ न धरस न काम रुचि, गति न चहउँ निरवान ।

जनम जनम रति राम पद, यह वरदानु न आन ॥१६६॥

न तो मुझे धन की इच्छा है, न धर्म की, न काम की और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ । मेरा जन्म-जन्म में श्रीरामजी के चरणों में प्रेम हो, यही वरदान चाहता हूँ-दूसरा नहीं ।

जानहुँ रामु कुटिल कर मोही * लोग कहउ गुर साहिब द्रोही
सीता राम चरन रति सोरें * अनुदिन बढ़उ अनुग्रह तोरें

श्रीरामजी मुझे चाहे खोटा समझें और लोग चाहे गुरु व स्वामी का द्रोही कहें । परन्तु मुझमें श्रीसीता-रामजी के चरणों की प्रीति आपकी कृपा से दिन-दिन बढ़े ।

जलदु जनम भरि सुरतिबिसारउ * जाचत जलु पवि पाहन डारउ
चातक रटनि घटें घटि जाई * बढ़े प्रेमु सब भाँति भलाई

चाहे मेघ-चातक की सुधि जन्म भर भुलावे और जल साँगने पर विजली गिरावे, चाहे ओले बरसावे । परन्तु चातक की रटना घट जाने से तो उसकी प्रतिष्ठा ही कम हो जावेगी । उसको तो प्रेम बढ़ाने में ही सब प्रकार से भलाई है ।

कनकाहिँ बान चढ़इ जिमि दाहें * तिमि प्रियतम पद नेम निबाहें
भरत वचन सुनि साँझ त्रिवेनी * भइ सृदु बानि सुमङ्गल देनी

जैसे सोने को तपाने से रंग चढ़ता है, वैसेही परम प्रिय रामजीके चरणोंमें प्रेम करने से निर्वाह होता है । भरतजी के वचन सुनकर त्रिवेणी में जो आनन्द-मङ्गल देने वाली मधुर वाणी हुई-

तात भरत तुम्ह सब विधि साधू * राम चरन अनुराग अगाधू
बादि गलानि जरहु मन साही * तुम्ह सस रामहि कोउ प्रिय नाही

हे तात भरत! तुम सब प्रकार से साधु ही हो, श्रीरामजी के चरणोंमें तुम्हारा अथाह प्रेम है । तुम अपने मन में व्यर्थ ही गलानि मत करो, श्रीरामजी को तुम्हारे समान कोई प्रिय नहीं है ।

दोहा-तनु पुलकेउ हियाँ हरषु सुनि, बेनि वचन अनुकूल ।

श्रीरामजी के दर्शन के लिए सब लोग ऐसे चले, जैसे जल बेचकर हाथी और हथिनी बँडते हैं। श्रीसीता-रामजी वन में हैं, ऐसा सोचकर भरत और शत्रुघ्न पंवल ही जाते हैं।

देखि सनेहु लोग अनुरागे * उतर चले ह्य गज रथ त्यागे
जाँइ समीप राखि निज डोली * राम मातु महु बानी बोली

ऐसी प्रीति देखकर लोग प्रेम-मग्न होगये और हाथी, घोड़े, रथों को त्याग पंवल चलने लगे। यह देख, अपनी पालकी भरतजी के पास ठहराकर कौशल्याजी मीठी घाणी से बोली—

तात चढ़हु रथ बलि महतारी * होइहि प्रिय परिवार दुखारी
तुम्हरे चलत चलहिं सब लोग * सकल शोक कृष नहिं मग जोग

हे पुत्र ! माता बलिहारी जाती हैं, रथ पर चढ़ो क्योंकि प्यारा परिवार दुःखी होता है। है। तुम्हारे पंवल चलने से सब लोग पंवल ही चलेंगे, सब लोग शोक से दुबले हो रहे हैं।

सिर धरि वचन चरणसिर नाई * रथ चढ़ि चलत भये दोउ भाई
तमसा प्रथम दिवस कर वासू * दूसर गौमित तीर निवासू

माता के वचन शिरोधार्य कर, उनके चरणों में शीश नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चले। पहले दिन तमसा नदी पर रहे और दूसरे दिन गौमती के तट पर वास किया।

दोहा—पय अहार फल असन एक, निसि भोजन एक लोग।

करत राम हित नेम व्रत, परिहर भूषण भोग ॥१८१॥

कोई लोग दूध का आहार और कोई फल का भोजन करते थे, तो कोई केवल रात को एक बार खाते थे। आभूषण एवं सुख-भोग छोड़कर राम के निमित्त नेम व्रत करते थे।

सइ तीर बसि चले बिहाने * शृङ्गवेरपुर सब नियराने
समाचार सब सुने निषादा * हृदय विचारि करे सविषादा

फिर सई नदी के तट पर रहकर सवेरे चले और शृङ्गवेरपुर के निकट सय लोग जा पहुँचे। जब यह समाचार निराव ने सुना, तब दुःखी हो मन में विचार करने लगा—

कारन कवन भरत वन जाहीं * है कष्ट कपट भाव मन माहीं
जौ पै जिय न होति कुटिलाई * तौ कत लीन्ह संग कटिकाई

क्या कारण है—जो भरतजी वन को जाते हैं ? मन में कुछ कपट-भाव है क्या ? यदि हृदय में कुटिलता न होती, तो सेना लेकर क्यों चलते ?

जानहिं सानुज रामहिं मारी * करहुँ अकण्टक राज सुखारी
भरत न राजनीति उर आनी * तब कलङ्क अब जीवन हानी

यह समझते हैं कि भाई समेत श्रीरामजी को मार, सुखपूर्वक निष्कण्टक राज्य करेगा। भरत ने हृदय में राज-नीति को नहीं विचारा है, क्योंकि तब तो इनको कलंक हो सगा था, परन्तु अब जीवन की भी हानि होगी।

सकल सुरासुर जुरहिं जुझारा * रामहिं समर न
का आचरजु भरतु अस करहीं * नहिं विषवेलि अभिज

राम गवनु वन अतरथ सूला * जो सुनि सकल विश्व भइ सूला
सो भावी बस रानि अयानी * करि कुचाल अन्तहुँ पछितानो

श्रीरामजी का वन-गमन ही अनर्थ की जड़ है, जिसे सुनकर सारे विश्व को दुःख हुआ। भावी-वश वे-समस्त रानी भी कुचाल करके अन्त में पछताईं।

तहुँउँ तुम्हार अल्प अपराधू * कहै सो अधम अयान असाधू
करतेहु राजु त तुम्हहि न दोषू * रामहि होत सुनत सन्तोषू

उसमें कोई तुम्हारा तनिक भी अपराध बतावे तो वह नीच, मूर्ख और दुष्ट है। जो तुम राज्य करते, तो भी तुम्हें दोष न था और श्रीरामचन्द्रजी को भी सुनकर सन्तोष होता।

दोहा—अब अति कौन्हेहु भरत भल, तुम्हहि उचित मत ऐहु।

सकल सुमङ्गल सूल जग, रघुवर चरन सनेहु ॥१६६॥

हे भरतजी ! अब तुमने बहुत ही अच्छा किया, तुमको ऐसा ही करना उचित था। संसार में श्रीरघुनाथजी के चरणों में प्रेम होना ही सम्पूर्ण आनन्द-मङ्गलों की जड़ है।

सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा * भूरि भागु को तुम्हहि समाना
यह तुम्हार आचरजु न ताता * दशरथ सुअन राम प्रिय भ्राता

वे श्रीरामजी तुम्हारे धन, जीवन और प्राण हैं, तुम्हारे समान बड़भागी कौन है ? हे तात ! यह तुम्हारे लिए अचरज की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथजी के पुत्र और श्रीरामचन्द्रजी के प्यारे भाई हो।

सुनहु भरत रघुवर मन माहीं * प्रेम पात्र तुम्ह सम को नाहीं
लखन राम सीतहि अति प्रीति * निसि सब तुम्हहि सराहतबीती

हे भरत ! सुनो, श्रीरामजी के मनमें तुम्हारे समान प्रेम-पात्र दूसरा कोई नहीं हैं। लक्ष्मणजी श्रीरामजी व सीताजी की सब रात उस दिन अत्यन्त प्रेमसे तुम्हारी बड़ाई करते बीती थी।

जाना सरसु नहात प्रयागा * मगन होहिं तुम्हें अनुरागा
तुम्ह पर अस सनेहु रघुवर के * सुख जीवन जग जस जड़ नरके

प्रयाग-स्नान करते समय मैंने उनका मर्म जाना, वे तुम्हारे प्रेममें मग्न हो रहे थे। श्रीरघुनाथजी का तुम पर ऐसा प्रेम है, जैसे मूर्ख मनुष्य संसार में सुख पूर्वक जीने में प्रेम रखता है।

यह न अधिक रघुवीर बड़ाई * प्रनत कुटुम्ब पाल रघुराई
तुम्ह तौ भरत मोर मत ऐहु * धरें देहु जनु राम सनेहु

श्रीरामजी की यह बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि वे तो शरणागत के कुटुम्ब का पालन करने वाले हैं। हे भरत ! मेरा यह मत है कि तुम मानो साक्षात् शरीरधारी 'श्रीराम-स्नेह' ही हो।

दोहा—तुम्ह कहँ भरत कलंक यह, हम सब कहँ उपदेशु।

राम भगतिरससिद्धि हित, भा यह समउ गनेसु ॥२००॥

हे भरतजी ! तुम्हारे लिए तो यह कलंक है और हमारे लिए उपदेश हैं। श्रीराम-

चले निषाद जोहारि जोहारी * शूर सकल नर रूचक रारी
सुमिरि राम पद पङ्कज पनहीं * भायों बाँधि चढ़ाइन्हि धनुहों

प्रणाम कर-करके सब निषाद चले, सब शूर हैं, युद्ध में लड़ना अच्छा लगता है। श्रीरामचन्द्रजी के चरणारविन्दों को पादुकाओं का स्मरणकर वे सब तरफसे बांधकर धनुष चढ़ाने लगे।

अँगरी पहिरि कूँड़ि सिर धरहों * फरसा बाँस बेल सम करहों
एक कुशल अति ओड़न खाँड़े * कूदहि गगन मनहुँ छित छाँड़े

कवच पहनकर, सिर पर लोहे के टोप रख लिए, फरसा, बछों, बल्लम आदि को संभालने लगे। उनमें कोई तलवार चलाने में बड़े हो निपुण हैं, मानो पृथ्वी छोड़कर आकाश में कूदते हैं।

निज निज साजु समाजु बनाई * गुर राउतहि जोहारे जाई
देखि सुभट सब लायक जाने * लै लै नाम सकल सनमाने

अपना २ साज और समाज बनाकर सबने जाकर निषादराज की जुहार की। योद्धाओं को देख, सबकों को सब योग जानकर, उनका नाम ले-लेकर गुरु ने सबका सम्मान किया।

दोहा—भाइहु लावहु धोख जनि, आजु काज बड़ मोहु।

सुनि सरोष बोले सुभट, वीर अधीर न होहु ॥१८४॥

और कहा—हे भाइयो! धोखा न खाना, आज मेरा बहुत बड़ा काम है। यह सुनकर वे योद्धा बड़े रोष के साथ बोले—हे वीर! अधीर मत होओ।

राम प्रताप नाथ बल तोरे * करहि कटकु बिन भट विनु घोरे
जीवन पाउँ न पीछे धरहों * रुण्ड मुण्डमय मेदिन करहों

हे नाथ! श्रीरामजी के प्रताप और आपके बल से हम लोग भरतजी की सेना को बिना योद्धा और बिना घोड़ों को कर देंगे। जीते-जी पाँव पीछे नहीं धरेंगे और रणभूमि को नर-मुण्डों से भर देंगे।

दोख निषादनाथ भल टोलू * कहेउ वजाउ जुझाऊ ढोलू
एतना कहत छोंक भइ बाएँ * कहेउ सगुनिन्ह खेत सुहाएँ

निषादराज ने वीरों की सुन्दर टोली देखकर कहा—जुझाऊ ढोल बजाओ। इतना कहते ही बायों और छोंक हूँ, तब शकुनियों ने कहा—छोंक शुभ स्नान में हूँ है।

बूढ़ एक कह सगुन बिचारो * भरतहि मिलिअ न होइहि रारी
रामहि भरतु मनावन जाहों * सगुन कहइ अस विग्रह नाहों

एक बूढ़ा शकुन बिचारकर कहने लगा—भरतजी से मिलिए, लड़ाई नहीं होगी। भरतजी श्रीरामजी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कहता है कि बिरोध नहीं है।

सुनि गुह कहेउ नीक कह बूढ़ा * सहसा करि पछिताहि विमूढ़ा
भरत सुभाउ सोलु विनु बूझें * बड़ि हित हानि जानि विन जूझें

यह सुन गुरु बोला—बूढ़ा ठीक कहता है, मूर्ख लोग बिना सोचे बकायक काम करके

तेहिफलकर फलु दरस तुम्हारा * सहित प्रयाग सुभागु हमार

भरतधन्य तुम्ह जसु जगु जयऊ * कहि अस प्रेम मगन मुनि भयऊ

उस महादर्शनका परम फलही तुम्हारा दर्शनहै, प्रयाग सहित हमारा धन्य भाग्य है, हे भरत! तुम धन्य हो, जगत् को तुमने अपने यश से जीत लिया, इतना कहकर मुनि प्रेम-मग्न होगये।

सुनि सुनि वचन सभासद हरषे * साधु सराहि सुमन सुर वरषे

धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा * सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा

मुनि के वचनों को सुनकर सभासद बहुत प्रतन्न हुए और साधुवाद कहकर सराहना करके देवताओं ने पुष्प बरसाये। आकाश और प्रयागमें 'धन्य-धन्य' की ध्वनि सुन भरतजी लोह मग्न होगये।

दोहा-पुलक गात हियँ रामु सिय, सजल सरोरुह नैन।

करि प्रनासु मुनिमण्डलिहि, बोले गद्गद बैन ॥२०२॥

भरतजी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्रीसीताजी रामजी हैं, कमल नेत्र जल से भरे हैं। वे मुनि-मण्डली को प्रणाम कर गद्गद वाणी से बोले-

सुनि समाजु अरु तीरथ राजू * साँचिहुँ सपथ अघाइ अकाजू

एहि थल जाँ कछु कहिअ बनाई * एहि सस अधिक नअघअधसाई

यहाँ पर मुनियों का समाज है और तीर्थराज है, सत्य सौगन्ध खाने से भी यहाँ बड़ी हा है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाय तो इसके समान पाप और नीचता न होगी।

तुम्ह सर्वग्य कहडँ सतिभाऊ * उर अन्तरजामी रघुराउ

मोहि न मातु करतब कर सोचू * नहिं दुखजियँ जगु जानिहि पोचू

मैं सत्य-भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं, हृदय में अन्तर्यामी श्रीरामजी हैं। आपको अपनी माता की करतूत का सोच नहीं है, न जी में इस बात का दुःख है कि लोग मुझे नीच समझेंगे।

नाहिं डरु विगरिहि परलोकू * पितहु सरन कर मोहि न सोकू

मुकूत सुजस भरि भुअन सुहाए * लछिमन राम सरिस सुत पाए

मुझे यह भी डर नहीं है कि परलोक विगड़ जायगा, पिताजी के मरने का मुझे शोक ही है। क्योंकि उनके उत्तम कर्मों का सुन्दर सुयश सब लोकों में छा रहा है और लक्ष्मण या श्रीरामजी के समान पुत्र उन्होंने पाये।

स विरहँ तजि तनु छन भंगू * भूप सोच कर कवन प्रसंगू

म लखनसिय बिनु पग पनहों * करि सुनि वेष फिरहि वनवनहीं

श्रीरामजी के विरह में उन्होंने क्षण-भंगुर शरीर को त्याग दिया। ऐसे महाराज के शोक का कौन-सा प्रसङ्ग है? परन्तु श्रीराम, लक्ष्मण और सीताजी बिना ही जूतियों पाँव मुनियों का वेप बनाये वन-वन में फिर रहे हैं।

-अजिन बसन फल अस नसहि, सयन डसि कुसपात।

जो लोक और वेद में सब प्रकार से नीच है, जितको छापा छू जाने से भी स्नान करना चाहिए। उससे गोव भरकर श्रीरामचन्द्रजी के छोटे भाई भरतजी पुलकित शरीर से मिले।
राम राम कहि जे जमुहाहीं * तिन्हहिं पाप पुञ्ज समुहाही
यह तौ राम लाइ उर लोन्हा * कुल समेत जगु पावन कीन्हा

जो लोग 'राम-राम' कहकर जमाई लेते हैं, पापों के समूह उनके सामने भी नहीं आ पाते। इसे तो श्रीरामजी ने छातो से लगा लिया और संसार में कुल समेत पवित्र कर दिया।

करमनाश जलु सुरसरि परई * तेहि को कहहु सीस नहिं थरई
उलटा नामु जपत जय जाना * वालमीकि भए ब्रह्म समाना

कर्मनाशा नदी का जल भी यदि गङ्गाजी में पड़ जाय तो कहो-कौन उसे तिरपर नहीं चढ़ाता? उलटा नाम 'मरा-मरा' जपने से वाल्मीकि मुनि ब्रह्म के समान होगये, इसे सब संसार जानता है।

दोहा—स्वपच सबर खस जनम जड़, पांवर कोल किरात।

रामु कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात ॥१८७॥

मूर्ख, चाण्डाल, शबर, छश, पवन, नीच कोल-भील आदि भी श्रीराम-नाम कहते हो परम पवित्र हो जाते हैं और जगत प्रसिद्ध हो जाते हैं।

नहिं अचरजु जुगजुग चलि आई * केहि न दीन्ह रघुवर वड़ाई
राम नाम महिमा सुर कहहीं * सुनि सुनि अवध लोग सुख लहहीं

इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है, युग-युग से यही रीति चली आई है। श्रीरघुनाथजी ने किते बड़ाई नहीं दी? इस प्रकार देवता—'राम-नाम' का महात्म्य कहने लगे और अवध-वासी सुन-कर सुख पाने लगे।

राम सखहि मिलि भरत सप्रेमा * पूछी कुसल सुमङ्गल खेमा
देखि भरतु कर सील सनेहु * भा निषाद तेहि समय विदेहु

राम-सखा गृह से सप्रेम मिलकर भरतजी ने कुशल-अंभ पूछी। भरतजी का शील एवं स्नेह देखकर निषादराज उस समय विदेह हो गया—(अपने वेह को सुधि-बुध भूल गया)।

सकुच सनेहु मोद मन वाड़ा * भरतहि चितवत एकटक ठाढ़ा
धरि धीरजु पद बन्दि बहोरी * विनय सप्रेम करत कर जोरी

मन में सङ्कोच, स्नेह और आनन्द इतना बढ़ गया कि एकटकी लगाकर भरतजी को बेखता हुआ खड़ा रहा। फिर धीरज धारण कर भरतजी के चरणों में प्रणाम कर स्नेह के साथ हाथ जोड़कर विनय करने लगा—

कुसल मूल पद पङ्कज पेखी * मैं तिहुँ काल कुशल निज लेखी
अब प्रभु परम अनुग्रह तोरें * सहित कोटि कुल मङ्गल मोरें

कुशल के मूल—'आपके चरणारविंदों के दर्शन कर मैंने तीनों काल में अपनी कुशल समझ ली।' हे प्रभु! अब आपके पूर्ण अनुग्रह से करोड़ों कुलों सहित मेरा कल्याण

भलेहि नाथ कहि तिन्ह सिरनाए * प्रमुदित निज निज काजु सिधाए

और कहा-भरतजी की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कन्द, मूल, फल ले आओ। हे नाथ ! 'बहुत अच्छा' कहकर उन्होंने मुनि को सिर नवाया और आनन्दपूर्वक अपना २ काम करने चले।

मुनिहि सोचु पाहुन बड़ नेवता * तसि पूजा चाहिअ जसि देवता

मुनिरिधिसिधिअनिमादिक आई * आयसु होई सो करहि गोसाई

मुनि को चिन्ता हुई कि बड़े पाहुने को न्यौता दिया है, जैसा देवता हो-वैसी ही पूजा होनी चाहिए। यह सुनकर भाठों अणिमादिक ऋद्धि-सिद्धि आई, और बोलीं-हे स्वामी ! जो आज्ञा हो-सो करें।

दोहा-रामविरहँ व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज।

पहुनाई करि हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज ॥२०५॥

मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा-शत्रुघ्न और समाज सहित भरतजी-श्रीरामजी के वियोग से व्याकुल हो रहे हैं, आतिथ्य-सत्कार करके इनकी थकावट दूर करो।

रिधिसिधिसिरधरि मुनिवरबानी * बड़भागिन आपुहि अनुमानी

कहहिं परस्पर सिधि समुझाई * अतुलित अतिथि राम लघुभाई

ऋद्धि-सिद्धियों ने मुनि की आज्ञा शिरोधार्य कर अपने को बड़भागिनी माना। सब सिद्धियाँ आपस में कहने लगीं कि श्रीरामजी के छोटे भाई भरतजी ऐसे पाहुने हैं कि इनके समान दूसरा नहीं।

मुनिपद बन्दि करिअ सोइ आजू * होई सुखी सब राज समाजू

अस कहि रचेउरुचिर गृह नाना * जेहि विलोकि बिलखाहि विमाना

अतः मुनि के चरणों की वंदना कर आज वही करना चाहिए, जिससे सब राज-समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुन्दर घर बनाये, जिन्हें देखकर विमान भी लजाते थे।

भोग विभूति भूरि भरि राखे * देखत जिन्हहिं अमर अभिलाषे

दासी दास साजु सब लोन्हें * जोगवत रहहिं मनहिं मनु दीन्हें

भोग व ऐश्वर्य के बहुत से पदार्थ उन घरों में भर दिये, जिन्हें देखकर देवता भी अभिलाषा करने लगते हैं। दास-दासियाँ मन के अनुसार सब सामग्री लिए मन लगाकर ताकते थे।

सब समाजू सजिसिधि पलमाहीं * जे सुख सुरपुर सपनेहुँ नाहीं

प्रथमहिं वास दिये सिद्धि केही * सुन्दर सुखदं जथा रुचि जेही

जो सुख-सामग्री स्वर्ग में स्वप्न में भी नहीं हैं, वह सिद्धियों ने पल भर में वहाँ सजादीं। पहले सबको सुन्दर व सुखदायक, जिसको जैसी रुचि थी, उसको वैसे ही निवास-स्थान दिये।

दोहा-बहुरि सपरिजन भरत कहुँ, रिषि जल आयसु दीन्ह।

विधि विस्मयदायक विभव, मुनिवर तपवल कीन्ह ॥२०६॥

फिर कुटुम्ब समेत भरतजी को निवास दिया, जैसे कि ऋषिराज की आज्ञा थी। ब्रह्मा

श्रीराम-घाट को प्रणाम किया। उनका मन ऐसा प्रसन्न हुआ, मानो श्रीरामजी मिल गये हों।
करहिं प्रनामु नगर नर नारी * मुदित ब्रह्ममय चारि निहारी
करि मज्जनु मांगहिं कर जोरी * रामचन्द्र पद प्रीति न थोरी

नगर के नर-नारी प्रणाम कर रहे हैं और उस ब्रह्ममय जलको देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। स्नान कर, हाथ जोड़ यही वर मांग रहे हैं कि श्रीरामजी के चरणों में हमारी प्रीति कम न हो।
भरत कहेउ सुरसरि तव रेनु * सकल सुखद सेवक सुरधेनु
जोरि पानि वर मांगउं ऐह * सीय राम पद सहज सनेहू

भरतजी बोले-हे गङ्गाजी ! आपको रेणु सबको सुख देने वाली है और सेवकों को तो कामधेनु के समान है। मैं हाथ जोड़कर यही वर मांगता हूँ कि श्रीसीता-रामजी के चरणों में मेरा सहज स्नेह हो।

दोहा-एहि विधि मज्जनु भरतुकरि, गुर अनुसासन पाइ।

मातु नहानी जानि सब, डेरा चले लवाइ ॥१८०॥

इस प्रकार भरतजी स्नान कर, सब मातायें स्नान कर चुकीं हैं, ऐसा जानकर और गुरुजी की आज्ञा पाकर सब डेरे की लीवाकर ले चले।

जहँ तहँ लोगन्ह डेरा कोन्हा * भरत सोधि सबही कर लीन्हा
गुर सेवा करि आयसु पाई * रामु मातु पहिं गे दोउ भाई

लोगों ने जहाँ-तहाँ डेरे ढाल दिये, भरतजी ने सभी की संभाषण की। फिर गुरु-सेवा करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्रीरामजी की माता के पास गये।

चरन चाँपि कहि कहि मूदु बानी * जननी सकल भरत सनमानी
भाइहि सौँपि मातु सेवकाई * आपु निषादहि लीन्ह बोलाई

भरतजी ने चरण दबाकर एवं मधुर वचन कहकर सब माताओं का आदर किया। फिर भाई शत्रुघ्नजी की माताओं की सेवा सौंप कर आपने निषादराज की अपने पास बुलाया।

चले सखा कर सों कर जोरे * सिथिल सरीर सनेहू न थोरे
पूँछत सखहि सो ठाऊँ देखाऊ * नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ

भरतजी सखा के हाथ में हाथ मिलाये चले, अधिक स्नेह के कारण उनका शरीर शिथिल होगया, फिर निषादराज से पूछा-वह स्थान तो दिखाओ, जिससे कुछ नेत्र और मन की जलन को ठण्डी करूँ।

जहँ सियराम लखनु निसि सोए * कहत भरे जल लोचन कोए
भरत वचन सुनि भयउ विषादू * तुरत तहाँ लै गयउ निषादू

जहाँ श्रीसीतारामजी व लक्ष्मणजी रात में सोते थे, यह कहते ही उनके नेत्रों के कोपों में जल भर आया भरतजी के वचन सुन निषादराज को बड़ा दुःख हुआ, वह तुरन्त वहाँ ले गया-

दोहा-जहँ सिसुपा पुनीत तरु, रघुवर किय विश्रामु।

भरतजी के पंरों में न जूते हैं, न सिर पर छाया है, प्रेम, नियम, व्रत व धर्म निष्कपट है। लक्ष्मण व श्रीसीता-रामजी की पन्थ-कहानी निषादराज से पूछते हैं और वह मृदु वाणी से कहता है।
राम वास थल विटप विलोके * उर अनुराग रहत नहि रोके
देखि दशा सुर वरषाहि फूला * भइ मृदु महि मगु मङ्गल मूला

श्रीरामजी के निवास-स्थान व वृक्षों को देखकर भरतजी के हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। यह दशा देखकर देवता पुष्प बरसाने लगे, मार्ग की भूमि कोमल हो गई और मार्ग आनन्द-दायक हो गया।

दोहा-किएँ जाहि छायाँ जलद, सुखद बहइ वर बात।

तस मग भयउ न राम कहँ, जसभा भरतहि जात ॥२०८॥

मेघ छाया किये जाते हैं, सुखदायक सुन्दर पवन वह रही है। श्रीरामचन्द्रजी को भी मार्ग वसा सुखदायक नहीं हुआ, जसा कि भरतजी को जाते समय हुआ।

जड़ चेतन मग जीव घनेरे * जे चितए प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे
ते सब भए परम पद जोगू * भरत दरस मेटा भव रोगू

मार्ग में बहुत से जड़-चेतन जीव जिन्होंने प्रभु को देखा और जिन्हें प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ने देखा था, वे मोक्ष के अधिकारी हो गये थे। परन्तु भरतजी के दर्शन से तो उनका संसार-रूपी रोग ही मिट गया, अर्थात्-वे मोक्ष पा गये।

यह बड़ि बात भरत कइ नाही * सुमिरत जिन्हहि रामु मनमाहीं
बारक राम कहत जग जेऊ * होत तरन तारन नर तेऊ

भरतजी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्रीरामजी स्वयं अपने मन में स्मरण करते हैं। जो जगत् में एकबार भी राम कह लेते हैं, वे तरने-तारने वाले हो जाते हैं।

भरतरामप्रिय पुनि लघु भ्राता * कस न होइ मगु मङ्गलदाता
सिद्धि साधु सुनिवर अस कहहीं * भरतहि निरखि हरषु हियँलहहीं

‘भरतजी’ श्रीरामजी के प्रिय और फिर छोटे भाई हैं, उनको मार्ग आनन्ददायक क्यों न हो ? सिद्ध, साधु और श्रेष्ठ मुनिजन ऐसा कहते हुए, भरतजी को देखकर मन में प्रसन्न होने लगे।

देखि प्रभाउ सुरेसहि सोचू * जगु भल भलेहि पोच कहँ पोचू
गुरुसन कहेउ करिअ प्रभु सोई * रामहि भरतहि भेंट न होई

यह प्रभाव देख इन्द्र को सोच हुआ, संसार भले को भला और बुरे को बुरा है। उसने बृहस्पति जी से कहा-हे प्रभु ! वही यत्न फीजिए, जिससे श्रीरामजी और भरतजी का मिलाप न हो।

दोहा-रामु संकोची प्रेमबस, भरत सप्रेम पयोधि।

बनी बात विगरन चहत, करिअजतनु छलु सोधि ॥२०९॥

श्रीरामजी तो सङ्कोच और प्रेम के वश हैं और भरतजी प्रेम के अथाह समुद्र हैं। बनी हुई बात विगड़ना चाहती है, अतः कोई छल खोज कर उपाय कीजिए।

लक्ष्मणजी का कोमल शरीर और सुकुमार स्वभाव है, गरम वायु भी जिनके शरीर में कभी नहीं लगी, वे सब प्रकार के कष्ट वन में सह रहे हैं। हाय ! यह छाती करोड़ों वर्जों का निरादर कर रही है।

**राम जनमि जगु कीन्ह उजागर * रूप सील सुख सब गुनसागर
पुरजन परिजन गुर पितु माता * राम सुभाउ सबहि सुखदाता**

श्रीरामजी ने जन्म लेकर संसार को प्रकाशित कर दिया। वे रूप, शील, सुख व गुणों के समुद्र हैं। पुरवासी कुटुम्बी, गुरु, पिता, माता-सबको ही श्रीरामजी का स्वभाव सुख देने वाला है।

**बैरिउ राम बड़ाई करहीं * बोलनि मिलनि विनय मन हरहीं
सारद कोटि कोटि सत सेवा * करि न सकाहि प्रभु गुनगन लेखा**

शत्रु भी श्रीरामजी की बड़ाई करते हैं, वे बोल-चाल से, मिलने से एवं नम्रता से मन हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती व अरबों शेषजी भी प्रभु श्रीरामजी के गुणोंकी गिनती नहीं कर सकते।

दोहा—सुख स्वरूप रघुवंस मनि, मङ्गल मोद निधान।

ते सोवत कुस डसि महि, विधि गत अतिबलवान ॥१६१॥

रघुवंश-भूषण, सुख-स्वरूप श्रीरामचन्द्रजी आवर-मङ्गल के स्थान हैं। वे कुश विछाकर पृथ्वी पर सोते हैं, ब्रह्मा की गति बड़ी ही बलवान् है।

**राम सुना दुखु कान न काऊ * जीवन तरु जिमि जोग वइ राऊ
पलक नयन फनि मनि जेहि भाँती * जोगवाँहि जननि सकल दिन राती**

श्रीरामजी ने दुःख कभी कानों से भी नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन-वृक्ष की तरह उनकी सँभाल करते थे, सब मातायें रात-दिन उनकी रखवाली करती थीं। जिस प्रकार पलक नेत्रों की और साँप मणि की रखवाली करता है।

**ते अब फिरत विपिन पदचारी * कन्द मूल फल फूल अहारी
धिग केकई अमङ्गल मूला * भइसि प्राण प्रियतम प्रतिकूला**

वे अब वन में पैदल घूमते हैं और कन्द, मूल, फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की अड़ केकई को धिक्कार है, जो प्राण-प्रिय के लिए भी विरुद्ध होगई।

**मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी * सबु उतपातु भयउ जेहि लागी
कुल कलंकु करि सृजेउ विधाता * साइँ द्रोहि मोहि कीन्ह कुमाता**

मुझे पापोंके समूह एवं अभागे को धिक्कार है, जिसकेफि कारण सब उपद्रव हुए। ब्रह्माने मुझे कुल में कलङ्क लगाने की पंढा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी का विरोधी बना दिया।

**सुनि सप्रेम समुझाव निषादू * नाथ करिउ कत वादि विषादू
राम तुम्हहि प्रिय तुम्ह प्रिय रामहि * यह निरदोषु दोषु विधि वामहि**

यह सुनकर निषाद प्रेम सहित समझाने लगा हे नाथ ! आप क्या दुःख क्यों करते हैं ? श्री रामजी आपको प्रिय हैं एवं आप श्रीरामजी को प्रिय हैं। यही तत्व है, ३।

यद्यपि वे भक्त और अनक्त के हृदय के अनुसार सम व विषम बताव करते हैं। गुण रहित, निर्लिप्त, मान रहित, सदा एक-से रहने वाले श्रीरामजी भक्तों के प्रेम के वश सगुण प्रगट हुए हैं।

राम सदा सेवक रुचि राखी * वेद पुरान साधु सुर साखी
अस जियँ जानि तजहु कुटिलाई * करहु भरत पद प्रीति सुहाई

श्रीरामजी तो सदा भक्तों की रुचि रखते आये हैं, वेद, पुराण, साधु, देवता यह सब ज्ञात्री हैं। ऐसा जी में जान कपट-भाव को दूर करदो और भरतजी के चरणों में निष्कपट प्रीति करो।

दोहा—राम भरत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल।

भगत शिरोमणि भरत तैं, जनि डरपहु सुरपाल ॥२११॥

भरतजी—श्रीरामजी के भक्त हैं, पराया भला चाहने वाले, पराये दुःख से दुःखी और दयालु हैं। भरतजी—भक्तों में शिरोमणि हैं। हे इन्द्र ! उनसे भय मत करो।

सत्यसिन्धु प्रभु सुर हितकारी * भरत राम आयसु अनुसारी
स्वारथ विवस विकल तुम्ह होह * भरत दोषु नहिं राउर मोहू

श्रीरामचन्द्रजी—सत्य-प्रतिज्ञ और देवों का हित करने वाले हैं तथा भरतजी—श्रीरामजी की आज्ञानुसार कार्य करने वाले हैं। तुम अपने स्वार्थ के वश व्याकुल हो रहे हो, भरतजी का दोष नहीं है, तुम्हारा ही अज्ञान है।

सुनि सुरवर सुरगुरु वर वानी * भा प्रमोदु मन सिटी गलानी
वरषि प्रसून हरषि सुरराऊ * लगे सराहन भरत सुभाऊ

देवगुरु (वृहस्पति) की सुन्दर वाणी सुन इन्द्र का मन प्रसन्न होगया और सब चिन्ता मिट गई। तब इन्द्र भी आनन्दपूर्वक पुष्प वर्षा करके भरतजी के स्वभाव की सराहना करने लगे।

एहि विधि भरत चले सग जाहीं * दसा देखि मुनि सिद्ध सिहाहीं
जवाहिं राम कहि लेहि उसासा * उमगत प्रेम मनहुँ चहुँ पासा

इस प्रकार भरतजी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी दशा देख मुनि और सिद्धजन प्रसन्न होते हैं। भरतजी जब 'राम' कहकर लम्बी सांझ लेते हैं, तब मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है।

द्रवहिं वचन सुनि कुलिस पषाना * पुरजन प्रेम न जाइ वखाना
वीच वास करि जमुनाहिं आए * निरखि नीर लोचन जल छाए

उनके वचन सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं, अयोध्यावासियों के प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। वीच में मुकाम करके यमुनाजी के तट पर आ पहुँचे और जल को देखकर भरतजी के नेत्रों में जल भर आया।

दोहा—रघुवर वरन विलोकि वर, वारि सयेत समाज।

होत सगन वारिध विरहँ, चढ़े विवेक जहाज ॥२१२॥

श्रीरामजी के रङ्ग के समान यमुनाजी के सुन्दर जल को देखकर समाज सहित भरतजी श्रीरामजी के वियोगरूपी समुद्र में डूबते हुए—विवेकरूपी जहाज पर चढ़ गये।

दोहा—प्रातःक्रिया करि मातु पद, वन्दि गुरहि सिरु नाइ ।

आगें किए निषादगत, दीन्हेउ कटकु चलाइ ॥१६४॥

प्रातः कर्म कर माताओं के चरणों में प्रणाम कर, गुरुदेव को सिर नवाकर भरतजी ने निपादों के झुण्ड को आगे किया और कटक को ले चल दिये ।

कियउ निषादनाथ अगुआई * मातु पालकी सकल चलाई
साथ बोलाइ भाइ लघु दीन्हा * विप्रन्ह सहित गवनु गुरु कीन्हा

निपादराज को अगुआ करके, पीछे माताओं की सब पालकियां चलाईं । छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उनके साथ करदिया, तब ब्राह्मणों सहित, गुरुजी ने गमन किया ।

आपु सुरसरहि कीन्ह प्रनाम * सुमिरे लखन सहित सिय राम
गवने भरत पयोदेहि पाय * कोतल संग जाहिं डोरि बंधाए

फिर आप (भरतजी) ने गङ्गाजी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्रीसीता-रामजी को स्मरण किया । भरतजी पैदल ही चले, घोड़े वागडोर से बंधे हुए उनके साथ जा रहे थे ।

कहिं सुसेवक वारहिं वारा * होइअ नाथ अश्व असवारा
रामु पयादेहि पाय सिधाए * हम कहें रथ गज वाजि वनाए

अच्छे सेवक वारम्बार कहते हैं कि हे नाथ ! आप घोड़े पर सवार हो जाइए । भरतजी कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी तो पैदल ही गये, हमारे लिए-रथ, हाथी, घोड़े बनाये हैं ।

सिरबलि जाऊँ उचित अस मोरा * सब तें सेवक धरमु कठोरा
देखि भरत गति सुनि मद्दुबानो * सब सेवकगन करहिं गलानी

मुझे तो उचित है कि मैं सिर के बल जाऊँ क्योंकि सबसे कठिन सेवकका धर्म होता है, भरतजी को यह वशा देख और मधुर वाणी सुनकर सब सेवक ग्लानि के मारे भरे जा रहे हैं ।

दोहा—भरत तीसरे पहर कहें, कीन्ह प्रवेशु प्रयाग ।

कहत रामसिय रामसिय, उमंगि उमंगि अनुराग ॥१६५॥

भरतजी तीसरे पहर प्रयाग पहुँचे, वे प्रेम में उमंग २ कर सीताराम २ कहते जाते हैं ।

झलका झलकत पायन्ह कैसें * पंकज कोस ओस कन जैसें
भरत पयादेहि आए आजू * भयउ दुखित सुनि सकल समाजू

उनके पाँवों में फफोले ऐसे चमकते हैं जैसे कमल की कलियों पर जोस की बूँदें चमकती हों । आज भरतजी पैदल ही चलकर आये हैं, यह बात सुनकर सब समाज दुःखी हुआ ।

खबरि लीन्ह सब लोग नहाए * कीन्ह प्रनाम त्रिवेनहि आए
सविधि सितासित नीर नहाने * दिए दान महिसुर सनमाने

भरतजी ने जब यह खबर पाली, कि सब लोग स्नान कर चुके, तब आप भी यहाँ आये और त्रिवेणी को प्रणाम किया, फिर विधिपूर्वक श्वेत और श्याम जल में स्नान किया

उसको बढ़ाई कर और सच्ची बाणी का आदर कर दूसरी स्त्री मधुर वचन बोली-

कहि सप्रेम सब कथा प्रसंगू * जेहि विधि रामराज रस भंगू
सरतहि बहुरि सराहन लागीं * सीलु सनेह सुभाय सुभागी

उसने स्नेह सहित जिस प्रकार श्रीरामजी के राजतिलक में बिछन हुआ था, उस कथा का सब प्रसंग सुनाया। फिर सब भरतजी के शील, स्नेह, स्वभाव और सौभाग्य की सराहना करने लगीं-
दोहा-चलत पयादे खात फल, पिता दीन्हि तजि राजु।

जात सत्तावन रघुवरहि, भरत सरिस को आजु ॥२१४॥

ये पंख ही फल खाते हुए, पिता के दिये राज्य को त्याग कर-श्रीरामजी को मनाने के लिए जाते हैं। अतः आज इन भरत के समान धन्य कौन है ?

भायप भगति भरत आचरनू * कहत सुनत दुख दूषन हरनू
जो कछु कहव थोरि सखि सोई * रास बन्धु अस काहे न होई

भाईपन, भक्ति और भरतजी का आचरण कहने-सुनने से दुःख व दोष दूर हो जाते हैं। हे सखी ! जो कुछ कहा जाय-वही थोड़ा है, श्रीरामजी के भाई ऐसे क्यों न हों ?

हम सब सानुज भरतहि देखें * भइन्ह धन्य जुवती जन लेखें
सुनि गुनि देखि दसा पछिताहीं * कैकइ जननि जोग सुत नाहीं

शत्रुघ्न सहित भरतजी के दर्शन करने से हम सब स्त्रियों को गिनती धन्य-पार्वी में हो गई। भरतजी के गुणों को सुनकर और उनकी दशा देखकर सब पढ़ताने लगीं कि कैकई जैसी माता के योग्य यह पुत्र नहीं हैं।

कोउ कह दूषनु रानिहि नाहिन * विधिसव कीन्ह हमहि जोदाहिन
कहं हम लोक वेद विधि हीनी * लघु तिय कुल करतूति मलीनी

कोई कहने लगी-इसमें रानी का कुछ दोष नहीं है, यह सब विधाता ने किया, जो हमसे प्रसन्न हैं। हम सब लोक और वेद की रीति से अतजान, छोटी, कुल और करनी से मलिन स्त्रियाँ-

बसहि कुदेस कुगाँव कुवासा * कहँ यह दरस पुन्य परिनासा
अस अनन्दु अचरजु प्रतिग्रामा * जनु सरु भूमि कल्पतरु जासा

जो बुरे देश एवं बुरे गाँव में कुटीर रहती हैं और कहीं यह दर्शन-जो कि हमारे पुण्यों का फल है। ऐसा आनन्द व आश्चर्य गाँव में हो रहा है, मानो रेतीली भूमि में कल्पवृक्ष जमा हो।

दोहा-भरत दरस देखत खुलेउ, सग लोगन्ह कर भागु।

जनु सिंहलवासिन्ह भयउ, विधि बस सुलभ प्रयागु ॥२१५॥

भरतजी के दर्शन करने से मार्ग में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गये-मानो सिंहल-द्वीप के रहने वालों को भाग्यवश प्रयागराज सुलभ हो गया हो।

निज गुन सहित राम गुनगाथा * सुनत जाहिं सुमिरत रघुनाथा
तीरथ मुनिआश्रम सुरधामा * निरखि निमज्जहिं करहिं प्रनामा

भरत धन्य कहि धन्य सुर, हरषित वरषहि फूल ॥१६७॥

त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर भरतजी का शरीर पुलकित होगया। हृदय में आनन्द हुआ। भरतजी को धन्य-धन्य ! कहकर देवता आकाश से पुष्पों को वर्षा करने लगे।

प्रमुदित तीर्थराजु निवासी * वैखानस वटु गृही उदासी
कहहिं परस्पर मिलि दस पाँचा * भरत सनेहु सीलु सुचि साँचा
तीर्थराज प्रयाग के निवासी, वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और दस-पाँच मिलकर आपस में प्रसन्न होकर कहते हैं कि भरतजी का स्नेह और शील सच्चा है।

सुनत राम गुन ग्राम सोहाए * भरद्वाज मुनिवर पहिं आए
दण्ड प्रनामु करन मुनि देखे * मूरतिमन्त भाग्य निज लेखे
श्रीरामजी के सुन्दर गुणों को सुनते हुए भरतजी-मुनिवर भरद्वाजजी के पास आये। भरतजी को दण्डवत्-प्रणाम करते हुए देखकर मुनि ने उन्हें अपना भूतिमान सौभाग्य समझा।

धाइ उठाइ लाइ उर लीन्हे * दीन्हि असीस कृतारथ कीन्हे
आसन दीन्ह नाइ सिरु बैठे * चहत सकुच गृहँ जनु भजि पैठे
उन्होंने दौड़कर भरतजी को उठाकर छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया, फिर आसन दिया, तो वे सिरनवाकर बंटे, मानो भागकर संकोच से घर में छिपना चाहते हों।

मुनि पूछव कछु यह बड़ सोचू * बोले रिषि लखि सीलु संकोचू
सुनहु भरत हम सब सुधि पाई * विधि करतब पर कछु न वसाई
मनमें यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे, श्रद्धापूर्वक भरतजी के शील और सङ्कोचको देखकर बोले हे भरत ! सुनो, हमने सब हाल सुन लिया है, विधाताको करतूत पर कुछ वश नहीं चलता।

दोहा-तुम्हगलानिजियँ जनिकरहु, समुझि मातु करतूत।
तात कैकइहि दोषु नहिं, गई गिरा मति धूत ॥१६८॥

माता की करनी समझ अपने जो में ग्लानि मत करो। हे तात ! इसमें कंकई का कुछ दोष नहीं है, उसकी बुद्धि की तो सरस्वती विगाड़ गई थी।

यहउ कहत भल कहहि न कोऊ * लोकु वेद बुध सम्मत दोऊ
तात तुम्हार विमल जसु गाई * पाइहि लोकहु वेदु वड़ाई
यह कहते भी कोई भला नहीं कहेगा, क्योंकि विद्वान-लोक और वेद दोनों को ही मानते हैं। हे तात ! तुम्हारा निर्मल यश गाकर लोक और वेद दोनों ही बड़ाई पायेंगे।

लोक वेद सम्मत सबु कहई * जेहि पितु देइ राजु सो लहई
राउ सत्यव्रत तुम्हहिं बोलाई * देत राजु सुखु धरमु वड़ाई
लोक और वेद दोनोंके मत से सब कहते हैं कि जिसे पिता राज्य दे, वही पाता है। राजा सत्य-प्रतिज्ञ दे, वे तुम्हें बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई मिलती।

प्रेम मगन अस राज समाज * जनु फिर अवध चले रघुराज

उस पर्वत का दर्शन कर सब लोग 'जानकी-जीवनश्रीरामजी की जय हो' यह कहकर दण्डवत करने लगे। सब अयोध्यावासी प्रेम में मगन हैं, मानो श्रीरामजी अयोध्या को लौट चले हों।

दोहा—भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकइ न सेषु।

कविहि अगम जिमि ब्रह्मसुख, अह मम मलिन जनेषु ॥२१७॥

भरतजी का उस समय जैसा प्रेम था, उसे शेषजी भी नहीं कह सकते, फिर कवि के लिए तो वह अगम ही है। जैसे अहङ्कार और ममता के मलिन मनुष्य को ब्रह्म-सुख।

सकल सनेह सिथिल रघुवर के * गए कोस दुइ दिनकर ठरके
जल थलु देखि बसे निसि बीते * कीन्ह गवनु रघुनाथ पिरीते

श्रीराम-प्रेम में सब ऐसे शिथिल थे कि सूर्यास्त होने तक दो ही कोस चल पाये, फिर जल व अच्छा स्थान देखकर वहाँ ठहर गये, रात बीत जाने पर श्रीरघुनाथजी के प्रेमी वहाँ से चले।

उहाँ राम रजनी अवसेषा * जागे सीर्य सपन अस देखा
सहित समाज भरत जनु आए * नाथ वियोग ताप तनु ताए

उधर श्रीरामजी कुछ रात शेष रहने पर जागे और सीताजी ने ऐसा स्वप्न देखा कि स्वामी के वियोग से देह को तपाये सब समाज सहित भरतजी आये हैं।

सकल मलिन मन दीख दुखारी * देखीं सासु आन अनुहारी
सुनि सिय सपन भरे जल लोचन * भए सोचबस सोच विमोचन

सब लोग मलिन, दीन और दुःखी हैं, सासुओं को और ही रूप में देखा। सीताजी का स्वप्न सुनकर श्रीरामजी के नेत्रों में जल भर आया और सोच का नाश करने वाले प्रभु सोच के वश हो गये।

लखन सपन यह नीक न होई * कठिन कुचाल सुनाइहि कोई
अस कहि बन्धु समेत नहाने * पजि पुरारि साधु सनमाने

और बोले-हे लक्ष्मण ! यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई बड़ा कुसमाचार सुनावेगा। इस प्रकार कहकर स्नान किया और शिवजी की पूजा करके साधुओं का सम्मान किया।

छन्द—सनमानि सुर मुनि वन्दि बैठे उतर दिसि देखत भए।

नभ धूरि खग मृग भूरि भागे विकल प्रभु आश्रम गए ॥

तुलसी उठे अवलोकि कारनु काह चित सोचत रहे।

सब समाचार किरात कोलन्हि आइ तेहि अवसर कहे ॥

देवता व मुनियों का सम्मान कर उन्हें प्रणाम करके बैठे और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल उड़ रही है, बहुत से पशु-पक्षी भागते हुए घबड़ा कर प्रभु के आश्रम पर आ रहे हैं। तुलसीदासजी कहते हैं कि यह देखकर श्रीरामजी उठे और सोचा कि क्या कारण है? मन में आश्चर्य युक्त हुए, उसी समय कोल-भीलों ने आकर सब समाचार कहा।

भक्तिरूपी सिद्धि के लिए यह समय बड़ा शुभ है।

नव विधु विमल तात जसु तोरा * रघुबर किङ्कर कुमुद चकोरा
उदित सदा अँथइहि कबहुँ ना * घटिहि न जग नभ दिनदिनदूना

हे तात ! तुम्हारा निर्मल-यश नवीन चन्द्रमा है और श्रीरघुनायजी के भक्त कुमुद एवं चकोर हैं। यह चन्द्रमा सदैव उदय रहेगा, कभी अस्त न होगा। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरन् दिनों-दिन दूना होगा।

कोक तिलोक प्रीति अति करहीं * प्रभुप्रताप रवि छविहि नहरिहीं
निसदिन सुखद सदा सब काहू * ग्रसिहि न कैकइ कर तबु राहू

त्रैलोक्यरूपी चक्रवा इस यशरूपी चन्द्रमा को देखकर बहुत प्रेम करेगा और प्रभु श्रीरामजी का प्रतापरूपी सूर्य भी उनकी शोभा को नहीं घटायेगा। यह चन्द्रमा रात-दिन सब किसी को सुख देने वाला होगा और कंकई का कुकर्म-रूपी राहु भी उसे नहीं प्रसेगा।

पूरन राम सुप्रेम पियूषा * गुरु अपमान दोष नहिं दूषा
राम भगत अब अमिअँ अघाहूँ * कीन्हेउ सुलभ सुधा वसुधाहूँ

यह श्रीरामजी के सुन्दर प्रेमरूपी अमृत से परिपूर्ण है और गुरु के निरादररूपी फलक से दूषित नहीं है। श्रीरामजी के भक्त अब उस अमृत से तृप्त हो जायेंगे। हे भरतजी ! तुमने पृथ्वी पर अमृत को सुलभ कर दिया।

भूप भगीरथ सुरसरि आनी * सुमिरत सकल सुमङ्गल खानी
दशरथ गुनगन वरनि न जाहीं * अधिकु कहातेहि सम जग नाहीं

राजा भगीरथ यहाँ गङ्गाजी को लाये, जिनका स्मरण ही सब सुमङ्गलों की खान है। दशरथजी के गुणों की वर्णन नहीं किया जा सकता, अधिक क्या कहूँ, उनके समान जगत् में कोई नहीं है।

दोहा—जासु सनेह संकोच बस, राम प्रगट भए आइ।

जे हर हियँ नयनन्ह कबहुँ, निरखे नहीं अघाइ ॥२०१॥

जिनके प्रेम और संकोच के यश होकर स्वयं श्रीरामजी आकर प्रगट हुए हैं। जिन्हें शिवजी अपने हृदय के नेत्रों से देखकर कभी तृप्त नहीं हुए।

कीरति विधु तुम्ह कीन्ह अनुपा * जहँ वस राम प्रेम मृगरूपा
तात गलानि करहु जिहँ जाएँ * डरहु दरद्विहि पारसु पाएँ

तुमने यशरूपी अनौछा चंद्रमा बनाया, जिसमें श्रीरामका प्रेम मृगरूप धारण करवाकर रखा है। हे तात ! तुम अपनेजी में छेद मत करो, पारस मिल जाने पर भी दरिद्रता से डरते हो।

सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं * उदासीन तापस दन रहहीं
सब साधन कर सुफल सोहावा * लखन राम सिय दरसनु पावा

हे भरत ! सुनो हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हो, तपस्या करते हुए धन में रहे हैं। सब साधनों का सुन्दर फल हमें—श्रीरामजी, सीताजी और लक्ष्मणजी का दर्शन प्राप्त हुआ

भरत ने वुरा समय देखकर श्रीरामचन्द्रजी को वन में अकेला जानकर-

करि कुमन्त्र सन साजि समाजु * आए करन अकण्टक राजु
कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई * आए दल बटोरि दोड भाई

कुविचार करके, सेना सजाकर राज्य निष्कण्टक करने आये हैं। दोनों भाई करोड़ों भांति की कुटिलता करके सेना एकत्रित करके आये हैं।

जाँ जियँ होति न कपट कुचाली * केहि सोहाति रथ बाजि गजाली
भरतहि दोषु देइ को जाएँ * जग बौराइ राजु पद पाएँ

जो मन में कपट और कुचाल न होती तो रथ, घोड़े व हाथियों की पंक्ति किसे अच्छी लगती? भरत को वृथा दोष कौन दे? राज-पाट पा जाने पर संसार बौरा जाता है।

दोहा-ससि गुरुतिय गामी नहुष, चढेउ भूमिसुर जान।

लोक वेद तें विमुख भा, अधम न वेन समान ॥२१६॥

चन्द्रमा गुरु-पत्नीगामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी में चढ़ा। वेणु के समान अधम कौन है, जो लोक और वेद दोनों से विमुख हुआ?

सहसबाहु सुरनाथु त्रिसंकू * केहि न राजमद दीन्ह कलंकू
भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ * रिपु रिन रंच न राखव काऊ

सहस्रबाहु, इन्द्र और त्रिशंकू, किसको राज-मद ने कलङ्क नहीं लगाया? भरत ने यह अच्छा उपाय लोचा है, क्योंकि शत्रु और ऋण कभी थोड़ा भी नहीं रखना चाहिए।

एक कीन्हि नाहि भरत भलाई * निदरे रामु जानि असहाई
समुझिपरिहि सोउ आजु विसेषी * समर सरोष राम मुखु पेखी

भरत ने एक ही काम भला नहीं किया कि असहाय जानकर आपका निरादर किया। समर में श्रीरामजी का क्रोधित मुख देखेंगे, तब आज भली प्रकार इन्हें समझ पड़ेगा।

इतना कहत नीति रस भूला * रन रस विटपु पुलकमिस फूला
प्रभु पद बन्दि सीस रज राखी * बोले सत्य सहज बलु भाषी

इतना कहते ही लक्ष्मणजी नीति भूल गये और वीर-रस का वृक्ष देह में पुलकावली के वहाने से फूल उठा। श्रीरामचन्द्रजी के चरणों की वन्दना करके, चरण-रज मस्तक पर रखकर अपने सच्चे स्वाभाविक बल से बोले-

अनुचित नाथ न मानव मोरा * भरत हमहि उपचार न थोरा
कहँ लगि सहिअ रहिअ सन सारें * नाथ साथ धनु हाथ हमारें

हे नाथ! मेरे कहने को अनुचित न मानियेगा, भरत ने हम लोगों से थोड़ी छेड़-छाड़ नहीं की है। कहां तक सहा जाय और मन मारे रहा जाय? जब नाथ हमारे साथ हैं और फिर धनुष हमारे हाथ में है।

दोहा-छत्रि जाति रघुकुल जनमु, राम अनुज जगु जान।

बसि तरुतर नित सहित हिम, आतप वरषा वात ॥२०३॥

मृगछाला उनके वस्त्र हैं, फल उनका भोजन है, वे कुश के पत्ते विछाकर पृथ्वी पर शयन करते हैं। वृक्षों के नीचे रहकर नित्य शरदी, धूप वर्षा और वायु को सहते हैं।

एहि दुख दाहँ दइह दिन छाती * भूख न वासर नौद न राती
एहि कुरोग कर औषधि नाहीं * साधेउँ सकल विश्व मन माहीं

इसी दुख के दाह से मेरी छाती नित्य जलती है, दिन में भूख नहीं लगती और रात में नींद नहीं आती। इस रोग की दवा नहीं है, मैंने सब संसार को मन में छोड़ डाला है।

मातु कुमति बढ़ई अघ मूला * तेहिं हमार हित कीन्ह वसूला
कलि कुकाठ कर कीन्ह कुजन्त्रु * गाढ़ि अवध पढ़ि कठिन कुमन्त्रु

पापों की जड़ कंकड़े की कुमति बढ़ई है, उसने मेरा हित बसूला बनाया है। फलह रूपी कुकाठ का कुयन्त्र बनाकर अवधिरूपी कुमन्त्र से पढ़कर उसे गाढ़ दिया।

मोहि लगि यह कुठाटु तेहिं ठाटा * घालेसि सब जगु वारहवाटा
मिटइ कुजोगु राम फिर आएँ * वसहि अवध नहिं आन उपाएँ

उसने मेरे लिए यह कुठाट रचा और जगत् को वारह-वाट (नष्ट) कर दिया। श्रीरामजी के लौटने से ही यह कुयोग मिटेगा और अयोध्यापुरी वसेगी, दूसरे उपाय से पुरी नहीं वसेगी।

भरत वचन सुनि मुनि सुखपाई * सर्वाहिं कोन्ह बहु भाँति बड़ाई
तात करहु जनि सोचु विसेषी * सब दुख मिटाहिं राम पग देखी

भरतजी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बढ़ाई की। मुनि बोले-हे तात ! बहुत सोच मत करो, श्रीरामचन्द्रजी के चरणों के रसान से सब पाप दूर हो जायेंगे।

दोहा-करि प्रबोधु मुनिवर कहेउ, अतिथि प्रेमप्रिय होहु।

कन्द मूल फल फूल हम, देहिं लेहु करि छोहु ॥२०४॥

फिर मुनिवर ने समझाकर कहा-अब आप हमारे प्रेम-प्रिय अतिथि बनिये और कन्द-मूल फल, फूल आदि कुछ हम दें, उसे प्रीति पूर्वक अङ्गीकार करिये।

सुनि मुनिवचन भरतहियँ सोचू * भयउ कुअवसर कठिन संकोचू
जानि गरुड़ गुरु गिरा बहोरी * चरन वन्दि बोले कर जोरी

मुनि के वचन सुनकर भरतजी के मन में चिंता हुई कि बड़े बे-मौके सङ्कोच आ पड़ा, फिर गुरुजनों की वाणी का महत्व समझकर चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोले-

सिरधरि आयसु करिअ तुम्हारा * परम धरम यह नाथ हमारा
भरत वचन मुनिवर मन भाए * सुचि सेवक सिप निकट बोलाए

हे नाथ ! आपकी आज्ञा को शिरोधार्य कर कार्य करना चाहिये, यही हमारा परम धर्म है। भरत के वचन मुनिवर के मन को भले लगे, तब उन्होंने सेवकों और शिष्यों को बुलाया।

चाहिअ कीन्ह भरत पहुनाई * कन्द मूल फल आनहु जा

विचारे जो कार्य करते हैं, वे पीछे पछताते हैं। वेदवपंडित कहते हैं कि वे बुद्धिमान नहीं हैं।

सुनि सुर वचन लखन सकुचाने * राम सीय सादर सनमाने
कही तात तुम्ह नीति सोहाई * सब तें कठिन राजमदु भाई

देव-दाणी सुनकर लक्ष्मणजी सकुचा गये, तब श्रीरामजी व सीताजी ने आदर सहित उनका सम्मान किया और कहा-हे तात ! तुमने सुन्दर नीति कही। हे भाई ! राज-मद सबसे कठिन है।

जो अचरित नृप सातहि तेई * नाहिन साधुसभा जेहि सेई
सुनहु लखन भल भरत सरीखा * विधि प्रपञ्च सहँ सुना न दीखा

उस राज्य को पाने से वे ही मतवाले हो जाते हैं, जिन्होंने साधु-समाज का सेवन नहीं किया। हे लक्ष्मण ! सुनो, ब्रह्माजी की सृष्टि में भरत के समान उत्तम पुरुष न सुना है, न देखा है।

दोहा-भरतहि होइ न राजमदु, विधि हरि हर पद पाइ।

कबहुँकि काँजी लोकरन्ह, क्षीरसिन्धु बिनसाइ ॥२२२॥

ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी का पद पाने पर भी भरत को राज्य-मद नहीं हो सकता। क्या काँजी की बूँदों से भी क्षीर-सागर फट सकता है ?

तिमिरतरुन तरनिहिसकुगिलई * गगनु मगन सकु मेघहिं मिलई
गोपद जल बुढ़हिं घट जोनी * सहज छमा बरु छाँड़ै छोनी

अंधकार चाहे दीपहर के सूर्य को छिपादे, आकाश चाहे मेघों में समा जाय, गाय के लुर के बराबर जल में चाहे अगस्त्यजी डूब जायँ, पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमता को छोड़ दे।

मसक फूँक सकु सेरु उड़ाई * होइ न नृपमदु भरतहि भाई
लखन तुम्हार शपथ पितु आना * सुचि सुबन्धु नहिं भरत समाना

मच्छर की फूँक से चाहे सुमेरु पर्वत उड़ जाय, परन्तु भरत को राज्य-मद नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण ! मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की आज्ञा करके कहता हूँ कि भरत के समान पवित्र और भला भाई संसार में नहीं है।

सगुन छोरे अदगुन जलु ताता * मिलइ रचइ परपंच विधाता
भरतु हंस रविवंस तड़ागा * जनमि कीन्ह गुन दोषु विभागा

गुणरूपी दूध और अवगुणरूपी जल को मिलाकर, हे भाई ! ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा है। रघुवंशरूपी तालाब में हंसरूपी भरत ने जन्म लेकर गुण और दोष को अलग २ कर दिया है।

गहि गुनपय तजि अदगुन बारी * निजजस जगत कीन्ह उजियारी
कहत भरत गुन शील सुभाऊ * प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ

भरत ने गुणरूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुणरूपी जल को त्यागकर, जगत में अपने यश का प्रकाश कर दिया। भरत के गुण तथा शील स्वभाव को कहते-कहते श्रीरघुनाथजी प्रेम में मग्न हो गये।

दोहा-सुनि रघुवर बानी दिबुध, देखि भरत पर हेतु।

की भी आश्चर्य में डालने वाला ऐश्वर्य मुनि ने अपने तपोबल से प्रगट कर दिया ।

मुनि प्रभाव जब भरत विलोका * सब लघु लगे लोकपति लोका
सुख समाजु नहिं जाइ बखानी * देखत विरति विसारहिं ग्यानी

जब भरतजी ने मुनि के प्रभाव को देखा, तब सब लोकपालों के लोक उन्हें छोटे लगे। यहाँ की सुख-सामिग्री कही नहीं जा सकती, जिसके देखने से जानी लोग भी वैराग्य भूत जाते हैं।

आसन सयन सुवसन विताना * वन वाटिका विहंग मृग नाना
सुरभि फूल फल अमिअ समाना * विमल जलाशय विविध विधाना

आसन, सेज, सुन्दर वस्त्र, चँदोये, वन, दगीचे, भाँति-भाँति के पक्षी और पशु, सुगन्धित पुष्प, अमृत के समान फल, विविध प्रकार के सुन्दर जलाशय—

असन पान सुचि अमिअ अमीसे * देखि लोग सकुचात जमी से
सुर सुरभी सुरतरु सबही के * लखि अभिलापु सुरेस सची के

शुद्ध, अमृत-तुल्य खाद्य-पदार्थ, जिन्हें देखकर लोग संयमियों के समान संकोच करते हैं। सभी के घरों में कामधेनु व कल्पवृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इन्द्र व शची को भी इच्छा होती है।

रितु बसन्त वह त्रिविध वयारी * सब कहँ सुलभ पदारथ चारी
स्वग चन्दन वनितादिक भोगा * देखि हरष विस्मय सब लोगा

वसन्त ऋतु है, शीतल, मन्द, सुगन्धित पवन वह रही है, सबको चारोंपदार्थ सुलभ हैं। माला, चन्दन और स्त्री आदि के भोग देखकर लोग हर्ष और विस्मय के वश हो गये।

दोहा—सम्पति चकई भरतु चक्र, मुनि आयसु खेलवार ।

तेहि निसि आश्रम पीजराँ, राखे भा भिनुसार ॥२०७॥

सम्पति चकवी और भरतजी चकवा हैं, मुनि की आज्ञा बहेलिया है, जिसने रात में आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बन्द कर रखवा है। ऐसे ही प्रातःकाल होगया ।

कोन्ह निमज्जनु तोरथराजा * नाइ मुनिहि सिर सहित समाजा
रिषि आयसु असीस सिर राखी * करि दण्डवत विनय बहु भापी

सबेरे भरतजी ने तोरथराज में स्नान किया और समाज सहित मुनियों को सिर नवाकर आज्ञा पाकर आशीर्वाद सिर चढ़ाकर दण्डवत-प्रणाम करके बहुत विनय की।

पथ गति कुसलसाथसब लोन्हे * चले चित्रकूटहिं चितु दीन्हे
राम सखा कर दीन्हे लागू * चलत देह धरि जनु अनुरागू

फिर चतुर पथ-प्रदर्शकों की साथ लेकर, चित्रकूट की ओर मन लगाकर चले। श्रीरामजी के सखा (गुह) के हाथ में हाथ दिये—भरतजी ऐसे चले जा रहे हैं, मानो प्रेम ही देह धारण कर चला जा रहा हो।

नहिं पद त्रान सीस नहिं छाँया * नेम प्रेम व्रत धरमु गया
लखन राम सिय पत्न्य कहानी * पूँछत सखहि कहत

हैं। ऐसा सोचते हुए भरतजी मार्ग में चल रहे हैं, सङ्कोच और स्नेह से अङ्ग शिथिल होगये हैं। फेरत मनहुँ सातु कृत खोरी * चलत भगति बल धीरज धोरी जब समुज्जत रघुनाथ सुभाऊ * तब पथ परत उताड़ल पाँऊ

माता की बुराई मानो उन्हें पीछे लाँटाती है, परन्तु भक्ति-बल से धीरज धर आगे चलते हैं। जब श्रीरघुनाथजी के स्वभाव को विचारते हैं, तब उनके पाँव जल्दी २ मार्ग में पड़ते हैं।

भरत दसा तेहि अवसर कैसी * जल प्रवाहँ जल अलिगति जैसी देखि भरत कर सोचु सनेह * भा निषाद तेहि समयँ विदेह

भरतजी की दशा उस समय कैसी है, जैसे पानी के प्रवाह में जल के भँवर की गति होती है। भरतजी का सोच और स्नेह देखकर निषादराज गुह उस समय विदेह हो गया।

दोहा—लगे होत मङ्गल सगुन, सुनि गुनि कहत निषादु।

मिटिहि सोचु होइहि हरषु, पुनि परिनाम विषादु ॥२२५॥

सुन्दर मङ्गल शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर व समझकर निषाद ने कहा—सोच मिटेगा, आनन्द होगा, परन्तु फिर अन्त में दुःख होगा।

सेवक वचन सत्य सब जाने * आश्रम निकट जाइ निअराने

भरत दीख वन सैल समाजू * सुदित क्षुदित जनु पाइ सुनाजू

सेवक के सब वचन भरतजी ने सत्य जाने, इतने में आश्रम के समीप जा पहुँचे। भरतजी वन धीर पर्वतों के समूह को देख ऐसे प्रसन्न हुए, जैसे भूखा अच्छे अन्न को पाकर होता है।

ईति भीति जनु प्रजा दुखारी * त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह सारी

जाइ सुराज सुदेस सुखारी * होहि भरत गति तेहि अनुहारी

जिस प्रकार प्रजा ईति, तीनों प्रकार के दुःख और कुग्रही से पीड़ित होकर अच्छे देश में जाकर सुखी हो जाय, ठीक उसी के अनुसार भरतजी की गति हुई।

राम वास वन सम्पति भ्राजा * सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा

सचिव विरागु विवेक नरेशू * विपिन सुहावन पावन देसू

श्रीरघुनाथजी के रहने से वन की सम्पत्ति ऐसी मुशोमित है, जैसे अच्छे राजा की प्रजा सुखी होती है। विराग्य मन्त्री है, विवेक राजा है और सुन्दर वन ही पवित्र देश है।

भट जम नियम सैल रजधानी * शान्ति सुमति सुचि सुन्दर रानी

सकल अङ्ग सम्पन्न सुराऊ * राम चरन आश्रित चित चाऊ

यम व नियम योद्धा, पर्वत राजधानी, शान्ति और सुवृद्धि—सुन्दर पवित्र रानियाँ हैं। सब अङ्गों से परिपूर्ण वह राजा श्रीरामजी के चरणों के आसरे रहने से मन में आनन्दित रहता है।

दोहा—जीति मोहि सहिपाल दल, सहित विवेक भुआलु।

करत अकण्ठक राजपुर, सुख सम्पदा सुकालु ॥२२६॥

वचन सुनत सुरगुरु मुसुकाने * सहस नयन बिनु लोचन जाने
मायापति सेवक सन माया * करइ तौ पलट परइ सुरराया

वह वचन सुनते ही देव-गुरु मुस्कराये। उन्होंने हजार नेत्रों वाले इन्द्र को नेत्रहीन (भ्रूख) ही समझा और बोले—हे देवराज ! मायापति श्रीरामचन्द्रजी के सेवक के साथ जो कोई माया करता है, तो माया उल्टी अपने ही ऊपर पड़ती है।

तब कछु कोन्ह राम रख जानी * अब कुचालि कर होइहि हानी
सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ * निज अपराध रिसाहि न काऊ

तब तो श्रीरामचन्द्रजी की इच्छा समझकर कुछ किया था, परन्तु अब कुचाल करने से हानि होगी। हे इन्द्र ! सुनो, श्रीरामजी का स्वभाव ऐसा है कि वे अपने प्रति किसी अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते।

जो अपराधु भगत कर करई * राम रोष पावक सो जरई
लोकहुँ वेद विदित इतिहासा * यह महिमा जानत दुरवासा

परन्तु जो भक्त का अपराध करता है—वह श्रीरामजी को क्रोधाग्नि से जल जाता है। लोक और वेद में यह कथा प्रसिद्ध है, इस महिमा को दुर्वासा श्रुति जानते हैं।

भरत सरिस को राम सनेही * जगु जप राम रामु जप जेही
श्रीरामजी का प्रेमी भरतजी के बराबर कौन है ? संसार में सभी श्रीरामजी को जपते हैं और श्रीरामजी जिनको जपते हैं।

दोहा—मनहुँ न जानिअ अमरपति, रघुवर भगत अकाजु।

अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन सोक समाजु ॥२१०॥

हे इन्द्र ! श्रीराम-भक्त के काम को बिगाड़ने का विचार कभी मन में न लाना। ऐसा करने से लोक में अपयश व परलोक में दुःख होता है तथा रात-दिन शोक-समूह की वृद्धि होती है।

सुनु सुरेस उपदेश हमारा * रामहि सेवकु परम पियारा
मानत सुख सेवक सेवकाई * सेवक बैर बैर अधिकाई

हे इन्द्र ! मेरा उपदेश सुनो, श्रीरामजी को अपना भक्त बहुत ही प्रिय है। सेवक की सेवा से वे बहुत सुख मानते हैं और सेवक से बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं।

जद्यपि सम नहि राग न रोषू * गहहि न पाप पुन्य गुन दोषू
करम प्रधान विश्व करि राखा * जो जसकरइ सो तस फल चाखा

यद्यपि वे समदर्शी हैं—उनमें न राग है, न क्रोध है और न वे किसी का पाप-पुण्य व गुण-दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने संसार में कर्म को ही प्रधान कर रखा है, जो जंसा कर्म करता है, वंसा ही फल पाता है।

तदपि करहि सम विषम बिहारा * भगत अभगत हृदय अनुसार
अगुन अलेप अमान एक रस * रामु सगुन भए भगत प्रेम

ए तरु सरित समीप गोसाँई * रघुवर परन कुटी जहँ छाई

मानो शोभा को एकत्रित करके विधाता ने अन्धकार और ललाई का सुन्दर ढेर रच दिया हो। हे 'गुंसाई' ! यह वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्रीरघुनाथजी को पर्णकुटी छाई है।

तुलसी तरुवर विविध सोहाए * कहँ कहँ सियँ कहँ लखन लगाए
वट छायाँ वेदिका बनाई * सियँ निज पानि सरोज सुहाई

वहाँ तुलसी के बहुत से सुन्दर वृक्ष कहीं सीताजी ने और कहीं लक्ष्मणजी ने लगाये हैं। वट-वृक्ष की छाया में सीताजी ने अपने कर-कमलों से एक सुहावनी वेदी बनाई है।

दोहा—जहाँ बैठि मुनिगन सहित, निल सियरामु सुजान।

सुनाहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुरान ॥२२८॥

जहाँ नित्य मुनिगणों सहित सुजान श्रीसीता-रामजी बैठकर इतिहास, वेद-शास्त्र और पुराणों की सब कथायें सुना करते हैं।

सखा वचन सुनि विटप निहारी * उमगे भरत विलोचन बारी
करत प्रनाम चले दोउ भाई * कहत प्रीति सारद सकुचाई

सखा के वचन सुन और उस वृक्ष को देखकर भरतजी के नेत्रों में जल भर आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले, उनके स्नेह का वर्णन करते हुए सरस्वतीजी भी सकुचाती हैं।

हरषहि निरखि राम पद अंका * खानहुँ पारस पायउ रंका
रजसिरधरिहियँनयनन्हि लावाहि * रघुवरमिलनसरिस सुख पावाहि

श्रीरामजी के चरण-चिन्ह देखकर दोनों ऐसे प्रसन्न होते हैं—मानो कङ्काल ने पारस पा लिया हो। चरण-रज मस्तक पर चढ़ाकर, हृदय और नेत्रों से लगाकर ऐसे सुख पाते हैं—मानो श्रीरामचन्द्रजी से मिलाप होगया हो।

देखि भरत गति अकथ अतीवा * प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा
सखहि सनेहँ विवस मग भूला * कहि सुपन्थ सुर वरषहि फूला

भरतजी की अकथनीय दशा देख पशु, पक्षी, जड़ जीव प्रेम-मग्न होगये। सखा निवावराज भी प्रेम से विवक्षित होकर मार्ग भूल गया, तब देवता-उत्तम मार्ग वतलाकर पुष्प वरसाने लगे।

निरख सिद्ध साधक अनुरागे * सहज सनेहँ सराहन लागे
होत न भूतल भाउ भरत को * अचर सचर चर अचर करत को

यह देख सिद्ध और साधक लोग भी प्रेम-मग्न होगये, उस प्रेमकी बड़ाई करने लगे कि यदि पृथ्वी पर भरतजी का प्रेम न होता तो जड़ को चैतन्य व चैतन्य को जड़ कौन करता ?

दोहा—प्रेम असिय मन्दरु विरहु, भरत पयोधि गँभीर।

मथि प्रगटेउ सुर साधु हित, कृपासिन्धु रघुवीर ॥२२९॥

वियोगरूपी मन्दराचल से मथकर भरतरूपी गहरे समुद्र से देवता और साधुजनों के निमित्त स्वयं श्रीरघुनाथजी ने प्रेमरूपी अमृत को उत्पन्न किया है।

जमुन तीर तेहि दिन करि वासू * भयउ समय सम सर्वाहि सुपासू
राताहिं घाट घाट को तरनी * आई अगनित जाहिं न वरनी

उस दिन यमुना के किनारे वास किया, उस समय वहाँ सबको आराम मिला। रात ही रात में सब घाटों की नावें आ गईं, जो कि अनगिनती थीं, उनका वर्णन नहीं हो सकता।

प्रात पार भए एकहि खेवाँ * तोषे रामसखाँ की सेवाँ
चले नहाइ नदिहि सिरु नाई * साथ निषादराज दोउ भाई

सवेरे एक ही खेवे में सब पार हो गये, श्रीरामजी के सखा निषादराज की इस सेवा से सब प्रसन्न हुए, फिर स्नान कर, यमुनाजी को सिर नवा निषादराज के सहित दोनों भाई आगे चले।

आगे मुनिवर वाहन आछें * राजसमाज जाइ सबु पाछें
तेहि पाछें दोउ बन्धु पयादें * भषन वसन वेष सुठि सादें

सबसे आगे मुनिवर वशिष्ठजी की सवारी है, उनके पीछे सब राज-परिवार जा रहा है। उनके पीछे २ दोनों भाई सादा वस्त्राभूषण और सादा घेप में पैदल जा रहे हैं।

सेवक सुहृद सचिवसुत साथ * सुमिरत लखन सीय रघुनाथा
जहँ जहँ राम वास विश्रामा * तहँ तहँ करहिं सप्रेम प्रनामा

सेवक, मित्र और मन्त्री के पुत्र साथ हैं, राम-सङ्गम और सीताजी का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। जहाँ २ श्रीरामजी ने ठहरकर विश्राम किया था, वहाँ २ प्रेम सहित प्रणाम करते हैं।

दोहा—मगवासी नर नारि सुनि, धाम काज तजि धाइ।

देखि सरूप सनेहँ वस, मुदित जनम फलु पाइ ॥२१३॥

मार्ग-वासी नर-नारी सुनकर, घर का काम छोड़कर दौड़ आते हैं और सब इनके स्वरूप तथा प्रेम को देख अपने जन्म लेने का फल पाकर प्रसन्न होते हैं।

कहहिं सप्रेम एक एक पाहीं * राम लखनु सखि होहिं कि नाहीं
वय वपु वरन रूपु सोइ आली * सील सनेह सरिस सम चाली

स्त्रियाँ आपस में एक दूसरी से कहती हैं—हे सखी ! क्या यही राम और लक्ष्मण हैं या नहीं ? हे आली ! देह, अवस्था, रङ्ग व रूप तो वंसा ही है और वंसा ही शील, स्नेह तथा चाल भी वंसी ही मिलती है।

वेषु न सो सखि सीय न सङ्गा * आगे अनी चली चतुरङ्गा
नाहि प्रसन्न मन मानस खेदा * सखि सन्देह होइ एहिं भेदा

परन्तु, हे सखी ! इनका वह वैष नहीं है, न सीताजी साथ हैं, इनके आगे तो चतुरङ्गी सेना चली जा रही है। इनके मुख भी प्रसन्न नहीं हैं, हे सखी ! इस भेद से सन्देह होता है।

तासु तरक तियगन मन मानी * कहहिं सकल तेहि सम न सयानी
तेहि सराहि वानी फुरि पूजी * बोली मधुर वचन तिय दूजी

उसका यह तर्क सब स्त्रियों को भाया और कहने लगीं—तुम्हारे समान चतुर कोई नहीं है।

न मिलते ही बनता है, न छोड़ते ही । कोई थ्रेण्टकवि ही लक्ष्मणजी के मनकी गतिको वर्णन कर सकता है । वे सेवा पर भार रखकर रह गये, जैसे चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी खींच रहा हो ।

कहत सप्रेम नाइ महि साथी * भरत प्रनाम करत रघुनाथा
उठे राम सुनि प्रेम अधीरा * कहूँ पट कहूँ निषङ्ग धनु तीरा

वे श्रीरामजी के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित बोले-हे श्रीरघुनाथजी ! भरतजी प्रणाम कर रहे हैं । यह सुनकर प्रेम में अधीर हो श्रीरामजी उठे तो-कहीं वस्त्र, कहीं तकस, कहीं धनुष और कहीं तीर गिरा ।

दोहा-वरवस लिए उठाइ उर, लाए कृपानिधान ।

भरतराम की मिलनि लखि, विसरा सबहि अपान ॥२३१॥

दयानिधान श्रीरामजी ने उनको वरजोरी उठाकर हृदय से लगा लिया । भरतजी और श्रीरामजी के उस मिलाप को देखकर सब अपने आपको भूल गये ।

मिलन प्रीतिकिमि जाइबखानी * कविकुलअगम करम मन वानी
परम प्रेम पूरन दोउ भाई * मनबुधि चितअहमिति विसराई

मिलाप का प्रेम कैसे बखाना जाय ? वह मन, कर्म और वाणी से कवियों को अगम है । मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को भुलाकर दोनों परम प्रेम में मग्न होगये ।

कहहु सुप्रेम प्रगट सो करई * केहि छाया कवि मति अनुसरई
कविहिअरथआंखर बलु साँचा * अनुहरि ताल गतिहि नटु नाँचा

कहिये, उस उत्तमप्रीतिको कौन प्रकट करे, कविकी मति किसकी छाया का अनुसरणकरे ? कवि को तो अक्षरों के अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गतिके अनुसारही नाचता है ।

अगम सनेह भरत रघुवर को * जहँन जाइ मन विधिहरिहर को
सो में कुमति कहौं केहि भाँती * बाज सुराग कि गाँडर ताँती

भरत और श्रीरामजी का स्नेह अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश काभी मन नहीं जा सकता, उस प्रेमको में कुमति किस प्रकार कहें ? क्या गाँडरकी ताँत से सुन्दर राग बज सकता है ?

मिलनि विलोकि भरत रघुवर को * सुरगन सभय धकधकी धरकी
समझाए सुरगुरु जड़ जागे * बरषि प्रसून प्रसंसन लागे

भरतजी व श्रीरामचन्द्रजी का मिलन देखकर देवगणों की छाती भय के मारे धड़कने लगी । जब देवगुरु बृहस्पतिजी ने समझाया, तब वे जड़-मति जागे और पुष्प वरसाकर प्रशंसा करने लगे ।

दोहा-मिलि सप्रेम रिपुसूदनहि, केवट भेंटेउ राम ।

भूरि भायँ भेंटे भरत, लछिमन करत प्रनाम ॥२३२॥

फिर प्रेम के साथ शत्रुधनजी से मिलकर श्रीरामजी ने केवट से भेंट की । प्रणाम करते हुए लक्ष्मणजी से-भरतजी बड़े प्रेम से मिले ।

भेंटेउ लखन लपकि लघु भाई * वहरि निषाद लीन्ह उर लाई

अपने गुणों सहित श्रीरामजी के गुणों की कथा सुनते हुए श्रीरघुनाथजी का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। तीर्थ, मुनि-आश्रम और देव-मंदिरों को देखकर स्नान और प्रणाम करते हैं।

मन ही मन माँगहि वर ऐहू * सीय राम पद पदुम सनेहू
मिलहि किरात कोल वनवासी * वैखानस वटु जती उदासी

और मन ही मन यह वरदान माँगते हैं कि श्रीसीता-रामजी के चरणकमलों में स्नेह हो। माँग में भोल, कोल, वनवासी, ब्रह्मचारी, सन्यासी और वंरगी मिलते हैं।

करि प्रनामु पूँछहिं जेहि तेही * केहि वन लखनु राम वैदेही
ते प्रभु समाचार सब कहहीं * भरतहि देखि जनम फलु लहहीं

उन्हें प्रणाम कर जिस-तिससे पूछते हैं कि लक्ष्मण, सीता व श्रीरामजी किस धन में हैं? वे प्रभु के सब समाचार कह देते हैं और भरतजी के दर्शन कर अपने जन्म का फल पाते हैं।

जे जन कहहिं कुसल हम देखे * ते प्रिय राम लखन सम लेखे
एहि विधि बूझत सबहि सुवानी * सुनत राम वनवास कहानी

जो लोग कहते हैं कि हमने उनको सकुशल देखा है वे भरतजी को श्रीराम-लक्ष्मण के समान प्यारे लगते हैं। इस प्रकार वे सबसे मधुर वाणी से पूछते और राम-वनवास की कथा सुनते जाते हैं।

दोहा-तेहि वासर वसि प्रातही, चले सुमिरि रघुनाथ ।

रामदरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ ॥२१६॥

उस दिन वहाँ वास करके सबरे ही श्रीरघुनाथजी का स्मरण करके चले। श्रीरामजी के दर्शन की लालसा सब लोगों को भी भरतजी के ही समान थी।

मङ्गल सगुन होहिं सब काहू * फरकहिं सुखद विलोचन दाहू
भरतहि सहित समाज उछाहू * मिलिहहिं रामु मिटिहि दुख दाहू

सबको शुभ-शकुन होने लगे-सुखदायक नेत्र व मुजार्थ फड़कने लगे। भरतजी को समाज सहित उत्साह हुआ कि श्रीरामजी मिलेंगे और दुःख का दाह मिट जायगा।

कहत मनोरथ जस जियँ जाके * जाहिं सनेह सुधा सब छाके
सिथिल अङ्ग पग डगमग डोलहिं * विहवल वचन प्रेम सब बोलहिं

जिसके जी में जैसा है, वैसा ही मनोरथ करता है, सब स्नेह रूपी अमृत से छके हुए चले जाते हैं। अंग शिथिल हैं, चलते समय पाँव डगमगाते हैं और प्रेम के कारण अटपटे वचन बोलते हैं।

रामसखाँ तेहि समय देखावा * सैल सिरोमनि सहज सुहावा
जासु समीप सरित पय तीरा * सीय समेत वसहिं दोउ वीरा

उसी समय राम-सखा गुह ने पर्वतों में शिरोमणि स्वामाविक सुहावना चित्रकूट-पर्वत दिख-साया। जिसके समीप मंदाकिनी नदी के किनारे सीता सहित दोनों भाई निवास करते हैं।

देखि करहिं सब दण्ड प्रनामा * कहि जय जानकि जीबनु र

रघुपति भगति सुसंगल मूला * नभ सराहिं सुर वरषाहिं फूला
 एहि सम निपट नीच कोउ नाहीं * बड़ वशिष्ठ सम को जग माहीं
 श्रीराम-भक्ति आनन्द-मंगल की मूल है, इस भाँति बड़ाई करके देवता पुष्प वरसाने लगे,
 वे कहने लगे-इस निपाद से नीच कोई नहीं है और वशिष्ठजी के समान बड़ा जगत् में कौन है?
 दोहा—जेहि लखिलखानहु तें अधिक, मिले सुदित मुनिराउ ।

सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाउ ॥२३४॥

जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनि-लक्ष्मणजी से अधिक प्रसन्नता पूर्वक मिले ! यह सब सीतापति
 श्रीरामचन्द्रजी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप व प्रभाव है ।

आरत लोग राम सबु जाना * करुनाकर सुजान भगवाना
 जो जेहि भायँ रहा अभिलाषी * तेहि तेहिके तसि तसि रुचिराखी

दया के धाम, सुजान भगवान श्रीरामजी ने सब लोगों को दुखित जाना, तब जो जिस
 भाव से मिलने की इच्छा करता था, उससे वैसे ही रुचि रखकर मिले ।

सानुज मिलि पल सहुँ सब काहु * कीन्ह दूरि दुखु दारुन दाहु
 यह बड़ बात राम के नाहीं * जिसि घट कोटि एकरवि छाहीं

वे लक्ष्मणजी सहित सब किसी से पलभर में मिल लिये और उनके दुःख तथा कठिन
 सन्ताप को दूर किया । श्रीरामजी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं, जैसे करोड़ों घड़ों में
 एक ही सूर्य को छाया पड़ती है ।

मिलि केवटहि उमंगि अनुरागा * पुरजन सकल सराहाहिं भागा
 देखी राम दुखित सहतारी * जनु सुवेलि अवलीं हिम मारीं

स्नेह-मग्न हो फिर केवट से मिले, पुरवासी उसके भाग्य की सराहना करने लगे । श्रीराम
 जी ने सब माताओं को दुःखी देखा, जैसे सुन्दर बेलि को पंक्तिओं को पाला मार गया हो ।

प्रथम राम भेंटी कैकेई * सरल सुभायँ भगति मनि भेई
 पग परि कीन्ह प्रबोधु बहोरी * काम करम विधि सिर धरि खोरी

पहले श्रीरामजी कैकेई से मिले और स्वाभाविक भक्ति से उसकी बुद्धि को शीतल कर
 दिया, फिर चरणों में गिरकर और विधाता के सिर दोष धरकर उसको बहूत सान्त्वना दी ।

दोहा—भेंटी रघुवर मातु सब, करि प्रबोधु परितोषु ।

अम्बु ईस आधीन जगु, काहु न देइअ दोषु ॥२३५॥

फिर श्रीरघुनाथजी सब माताओं से मिले और समझा-बुझाकर उन्हें सन्तुष्ट किया कि
 हे मातायो ! संसार ईश्वर के आधीन है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए ।

गुरतिय पद वन्दे दुहुँ भाई * सहित विप्रतिय जे सँग आई
 गंग गौरि सम सब सनमानी * देहिं असीस सुदित मृदु वानी

फिर दोनों भाइयों ने उनके साथजों ब्राह्मण-स्त्रियाँ आई थीं, उनके सहित गुद-पत्नी को प्रणाम

सो०—सुनत सुमङ्गल वैन, मन प्रभोद तन पुलक भर ।

सरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे सनेह जल ॥ ६ ॥

तुलसीदासजी कहते हैं कि सुन्दर मंगल-वचन सुनते ही श्रीरामजी के मन में प्रसन्नता छा गई, शरीर में रोमांच हो आया, शरद श्रुतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गये ।

बहुरि सोचवस भे सियरवनू * कारन कवन भरत आगवन
एक आइ अस कहा बहोरो * सेन संग चतुरंग न थोरी

फिर श्रीरघुनाथजी सोच में पड़ गये कि भरत के यहाँ आने का क्या कारण है ? फिर एक ने आकर कहा कि भरत के साथ में बहुत-सी चतुरङ्गिनी सेना है ।

सो सुनि रामहि भा अति सोचू * इत पितु वचन उत बंधु सँकोचू
भरत सुभाउ समुझि मन माहीं * प्रभु चित हित थित पावत नाहीं

यह सुनकर श्रीरामजी को बहुत सोच हुआ कि इधर तो पिताजी का वचन, उधर भाई का संकोच । भरत के स्वभाव को समझकर प्रभु के जी में और कोई कारण स्थिरता नहीं पाता ।

समाधान तव भा यह जाने * भरतु कहे महुँ साधु सयाने
लखन लखेउ प्रभु हृदयँ खभारू * कहत समय सम नीति विचारू

तब यह जानकर समाधान हुआ कि भरत मेरे कहने में हैं और सीधे घ चतुर हैं । लक्ष्मणजी ने प्रभु के हृदय में चिन्ता देखी, तब समयानुसार नीति का विचार करके कहने लगे—

विनु पूछे कछु कहउँ गोसाईं * सेवकु समय न ढीठ ढिठाईं
तुम्ह सर्वग्य सिरोमनि स्वामी * आपनि समुझि कहउँ अनुगामी

हे गोसाईं ! आपसे बिना पूछे कुछ कहता हूँ, समय पर ढिठाई करने से सेवक ढीठ नहीं समझा जाता । हे स्वामी ! आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, मैं सेवक तो अपनी समझ के अनुसार कहता हूँ ।

दोहा—नाथ सुहृद सुठि सरल चित, सील सनेह निधान ।

सब पर प्रीति प्रतीति जियँ, जानिअ आपु समान ॥ २१८ ॥

हे नाथ ! आप तो स्वच्छ-हृदय, कोमल स्वभाव के हैं, शील और स्नेह से परिपूर्ण हैं । आप सभी लोगों पर प्रेम और विश्वास रखते हैं और अपने हृदय में सबको अपने समान जानते हैं ।

विषयी जीव पाइ प्रभुताई * मूढ़ मोह वस होहि जनाई
भरतु नीति रत साधु सुजाना * प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना

परन्तु विषयी-जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने को प्रगट कर देते हैं । भरतजी तो नीतिज्ञ, साधु और ज्ञानवान हैं तथा प्रभु के चरणों में प्रेम करने वाले हैं, यह सब जगत् जानता है ।

तेऊ आजु राज पद पाई * चले धरम मरजाद मेटाई
कुटिल कुबन्धु कुअवसर ताकी * जानि राम वनवास एकाकी

यह भरतजी आज राजपद पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं । कपटी व छोटे

तव सीताजी हृदय में धीरज धरकर, नील-कमल के समान नेत्रों में आँसू भरकर, सब सासुओं से जाकर मिलीं। उस समय पृथ्वी पर कुरुणा-रस भर गया।

दोहा—लागिलागि पग सबनि सिय, भेटत अति अनुराग।

हृदयँ असीसहिं प्रेम बस, रहि अहु भरी सुहाग ॥२३७॥

सीताजी सबके चरण छूकर बड़े प्रेम से मिलीं। सब स्नेह वश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि सदा शौभाग्यवती रहो।

बिकल सनेहँ सीय सब रानी * बैठन सबहि कहेउ गुर ग्यानी

कहि जगगतिमायिकमुनिनाथा * कही कछुक परमारथ गाथा

सीताजी तथा सब रानियाँ-स्नेह के कारण दुःखी हैं। ज्ञानी गुरुजी ने सबको बैठने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ ने संसार की गति को माया से रची हुई कहकर कुछ परमार्थ-सम्बन्धी कथार्ये कहीं।

नृप कर सुरपुर गवनु सुनावा * सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा

मरन हेतु निज नेहु विचारी * भे अति बिकल धीरधुर धारी

मुनिने राजा का स्वर्गलोक का जाना सुनाया, जिसे सुन श्रीरामजीने असह्यदुःखपाया। अपने प्रति उनके स्नेहको-पिता के मरने का कारण समझ, वीर-धुरन्धरश्रीरामजी बहुत दुःखी हुए।

कुलिस कठोर सुनत कटु बानी * विलपत लखन सीय सब रानी

सोक बिकल अति सकल समाजू * मानहुँ राज अकाजेउ आजू

वज्र के समान कठोर और कटु वाणी सुनते ही लक्ष्मण, सीता और सब रानियाँ विलाप करने लगीं। सारा समाज शोक से व्याकुल हो उठा, मानो राजा आज ही मरे हों।

मुनिवर बहुरि राम समझाए * सहित समाज सुरसरित नहाए

व्रत निरम्बु तेहि दिन प्रभु कीन्हा * मुनिहु कहें जलु काँहु न लीन्हा

फिर मुनिवरने श्रीरामजीको समझाया, तब सब लोगों समेत श्रीरामजीने मंदाकिनी में स्नान किया। उसदिन प्रभुने निर्जल व्रतकिया, मुनि के कहने पर भी किसी ने जलपान नहीं किया

दोहा—भोर भएँ रघुनन्दनहि, जो मुनि आयसु दीन्ह।

श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सबु सादरु कीन्ह ॥२३८॥

दूसरे दिन सबेरा होने पर श्रीरघुनाथजीको मुनि ने जो आज्ञा दी, उसी के अनुसार-श्रद्धा-भक्ति के साथ सब कर्म प्रभु ने आदर सहित किया।

करिपितुक्रिया वेद जसि वरनी * भे पुनीत पातक तस तरनी

जासु नाम पावक अघ तूला * सुमिरत सकल सुमङ्गल मूला

वेद में जैसे कहा है, वैसेही पिताकी क्रिया करके, पातकरूपी अंधकार को सूर्य रूपी श्रीरामजी शुद्ध हुए। जिनका नाम पापरूपी रई को अग्नि है, जिनका स्मरण सम्पूर्ण संगलों की जड़ है।

शुद्ध सो भयउ साधुसम्मत अस * तीरथ आवाहन सुरसरि जस

लातहुँ मारें चढ़त सिर, नीच को धूरि समान ॥२२०॥

क्षत्रिय जाति, रघुवंश में जन्म और फिर श्रीरामचन्द्रजी का अनुगामी हूँ, यह संसार जानता है। धूल के समान नीच कौन है, जो लात मारने पर भी सिर पर चढ़ती है ?

उठि करि जोरि रजायसु माँगा * मनहुँ वीररस सोवत जागा
बाँधि जटा सिरकसिकटि भाथा * साजि सरासनु सायकु हाथा

ऐसा कहकर लक्ष्मणजी उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर आज्ञा माँगी, मानो वीर-रस सोते से जगा हो। सिर की जटा बाँध कर, कमर में तरकस कसकर, धनुष चढ़ाकर, हाथ में बाण लेकर बोले—

आजु राम सेवक जसु लेऊँ * भरतहि समर सिखावन देऊँ
राम निरादर कर फलु पाई * सोवहु समर सेज दोउ भाई

आज मैं श्रीरामजी के सेवक होने का यश लूँगा और युद्धमें भरतजी को शिक्षा दूँगा। श्रीरामजी के निरादर करने का फल प्राप्त कर दोनों भाई रण-सेज पर सोवेंगे।

आइ बना भल सकल समाजू * प्रगट करउँ रिसि पाछिल आजु
जिमि करिनिकर दलइ मृगराजू * लेइ लपेटि लवा जिमि वाजू

सब समाज एकत्र होकर आया है, यह अच्छा संयोग बन पड़ा है, पिछला क्रोध आज प्रगट करूँगा। जिस प्रकार से हाथियों के झुण्ड को सिंह अकेला ही संहार करता है और बाज बटेर को लपेट लेता है।

तैसेहि भरतहि सेन समेता * सादर निदरि निपातउँ खेता
जौँ सहाय कर शङ्करु आई * तौ मारउँ रन राम दोहाई

उसी तरह सेना समेत भरत और शत्रुघ्न को निरादर कर रणभूमि में गिरा दूँगा। जो शिवजी भी आकर सहायता करेंगे तो श्रीरामजी की सौगन्ध है, उन्हें भी मार डालूँगा।

दोहा—अति सरोष माखे लखनु, लखिसुनि सपथ प्रवान।

सभय लोक सब लोकपति, चाहति भँभरि भगान ॥२२१॥

अत्यन्त क्रोध में लक्ष्मणजी को देखकर और प्रामाणिक शपथ सुनकर सब लोक और लोकपाल डर गये, वे घबड़ाकर भागना चाहते हैं।

जगु भय मगन गगन भइ बानी * लखन वाहुवल विपुल बखानी
तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा * को कहि सकइ को जाननिहारा

जगत् में डर छा गया, तब लक्ष्मणजी के वाहुवल की बहुत बड़ाई करती हुई आकाशवाणी हुई कि हे तात ! तुम्हारे तेज और प्रताप को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है ?

अनुचित उचित काजु कछु होऊ * समुझि करिअ भल कह सबु कोऊ
सहसा करि पाछे पछिताहौं * कहहि वेद बुध ते बुध नाहौं

अनुचित-उचित कोई भी काम समझकर करने से सब लोग भला कहते हैं और सहसा बि

दोहा—सरन्ह सरोरुह जल विहँग, कूजत गुञ्जत भृङ्ग ।

बैर विगत विहँरत विपिन, मृग विहङ्ग बहु रङ्ग ॥२४०॥

सरोवर में कमल खिल रहे हैं, जल-पक्षी बोल रहे हैं, फूलों पर भौंरे गुंजार रहे हैं।
बैर को छोड़कर—वन में पशु, मृग और बहुत रङ्गों के पक्षी विहार कर रहे हैं।

कोल किरात भिल्ल वनवासी * मधु सुचि सुन्दर स्वादु सुधा सो
भरि भरि परनपुटी रुचि रुरी * कन्द मूल फल अंकुर जूरी

वनवासी कोल-भील मीठे, पवित्र एवं अमृत के तुल्य स्वादिष्ट शहद और कन्द, मूल, मूल, अँखुए आदि एकत्रित कर, सुन्दर पत्तों के दोनों में भर-भरकर—

सबहिं देहिं करि विनय प्रनामा * कहि कहि स्वाद भेद गुन नामा

देहिं लोग बहु मोल न लेहीं * फेरत राम दोहाई देहीं

सबको विनती और प्रणाम करके उनका स्वाद, भेद, गुण और नाम कहकर देते हैं।
लोग उनका मोल देते हैं, सो न लेकर और मोल लौटाकर वे श्रीरामजी की दुहाई देते हैं।

कहहिं सनेह मगन मृदु बानी * मानत साधु प्रेम पहिचानी

तुम्ह सुकृति हम नीच निषादा * पावा दरसतु राम प्रसादा

और स्नेह में मगन हो मीठी वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहिचान कर मानते हैं। आप पुण्यात्मा हैं और हम लोग नीच हैं, आप लोगों के दर्शन हमको श्रीरामजी की कृपा से मिले हैं।

हमहि अगमअति दरसुतुम्हारा * जस मरु धरनि देवधुनि धारा

राम कृपालु निषाद नेबाजा * परिजन प्रजउ चहिअ जस राजा

हम लोगों को आपके दर्शन बहुत दुर्लभ हैं, जैसे मरु-भूमि में गङ्गाजी की धारा दुर्लभ है। कृपानिधान श्रीरामजी ने निषादराज को अपनाया है। जैसा राजा हो, वैसे ही कुदुम्बी और प्रजा भी होनी चाहिए।

दोहा—यह जियँ जानि संकोचु तजि, करिअ छोहु लखि नेहु ।

हमहि कृतारथ करन लगि, फल तृण अंकुर लेहु ॥२४१॥

यह अपने हृदय में जानकर, संकोच त्याग कर और हमारा स्नेह देखकर दया कीजिए तथा हमें कृतार्थ करने के लिए फल, तृण और अंकुर लीजिये।

तुम्ह प्रिय पाहुने वन पगु धारे * सेवा जोगु न भाग हमारे

देब काह हम तुम्हहि गोसाँई * ईंधनु पात किरात मिताई

आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हो, आपकी सेवा करने योग्य हमारे भाग्य नहीं हैं।
हे गुसाईं ! हम आपको क्या देंगे ? किरातों की मित्रता में तो ईंधन और पत्ते ही हैं।

यहि हमारि अति बड़ि सेवकाई * लेहिं न बासन बसन चुराई

हम जड़ जीव जीवगन घाती * कुटिल कुचाली कुमति कुजाती

सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपानिकेतु ॥२२३॥

देवता-श्रीरघुनाथजी की बागी सुन और उनका भरतमी पर स्नेह देखकर मनो बहुत करने लगे कि श्रीरामजी के नमान दया का स्थान और कौन है ?

जौ न होत जग जनम भरत को ✽ सकल धरम धुरि धरनि धरत को
कविकुल जगम भरत गुनगाया ✽ को जानइ तुम्ह बिनु रघुनाया

यदि मंदार में भरत का जन्म व होता तो पृथ्वी पर मनुमें धर्मों की धुरी को कौन धारण करता ? भरतमी के गुणों को क्या कविकुलों को जगन्म है । हे प्रभु ! उसे जानके निश्चय और कौन जान सकता है ?

लखन रामसियँ सुनि सुरवानी ✽ अति सुख लहेउन जाइ बखानी
इहाँ भरतु सब सहित सुहाए ✽ मन्दाकिनी पुनीत नहाए

श्रीरामजी, लक्ष्मणजी तथा सीताजी ने देवताओं की बागी सुनकर बहुत मुच प्रसन्न किया, जिसका बर्णन नहीं किया जा सकता । इधर भरतमी ने सबके साथ सुरावती मन्दाकिनी नदी के पवित्र जल में स्नान किया ।

सरित समीप राखि सब लोगा ✽ माँगि मातु गृह सचिव नियोगा
चले भरतु जहँ सिय रघुराई ✽ साथ निपादनायु लघु भाई

नदी के निकट सब लोगों को छोड़कर माता, गुरु व मंत्रों की आज्ञा लेकर भरतमी-निपादराज गृह और शबुज्ज को साथ ले वहाँ सीताजी तथा रघुनाथजी से-वहाँ बने ।

समृद्धि मातु करतव सकुचाहीं ✽ करत कुतरक कोटि मन माहीं
राम लखनु सिय सुनि मम नाऊँ ✽ उठिजनिअन्त जाहि तजिगऊँ

भरत माता की करनी को समझकर सकुचाते हैं और मनमें अनेकों तरह के विचार करते हैं । श्रीरामजी, लक्ष्मणजी, सीताजी-मेरा नाम सुन, स्नान छोड़कर दूबारे स्थान की न बने शर्ते ।

दोहा-मातु मते महुँ मानि मोहि, जो कछु करहि सो योर ।

अध अवगुन छमि आदरहिँ, समृद्धि आपनी ओर ॥२२४॥

मुझे माता के मत में मानकर श्रीरामजी जो कुछ करें, सो सोझा है । परन्तु व मेरे दोष और अवगुणों की क्षमा कर, अपने ओर लक्ष्यकर मेरा आदर हो करे ।

जौ परिहरहि मलिन मन जानी ✽ जौ सनमावहिँ सेवकु मानो
मोरे सरन रामहि की पनही ✽ राम सुस्वामि दोषु सब जनही

चाहे मुझे मलिन मानकर त्यागदे, चाहे अपना नाम मानकर आदर करे, मैं तो श्रीरामजी की वृत्तियों को शरण में हूँ । श्रीरामजी तो अकेले स्वामी हैं, सब दोष तो मुझ सेवक का ही हैं ।

जग जस भाजन चातक मीना ✽ नेम प्रेम निज निपुन नवीना
अस मन गुनत चले नग जाता ✽ सकुच सनेहँ सियिल सब गाना

जगत में परीक्षा व मछली बना के पात्र है, जो अपने नेम व प्रेम की नगा बनाये रखे वें प्रभु

और विधाता से याचना करती है, परन्तु पृथ्वी के बीच विधाता मौत नहीं देता ।

लोकहुँ बेद बिदित कवि कहहों * राम विमुख खलु नरक न लहहों
यह संसय सबके मन माहीं * राम गमनु विधि अवध कि नाहीं

लोक तथा वेदों में प्रसिद्ध है और कवि कहते हैं कि श्रीरामजी से विमुख को नरक में भी स्थान नहीं मिलता । सबके मन में यह सन्देह है कि हे विधाता ! श्रीरामजी अयोध्या-पुरी को चलेंगे या नहीं ?

दोहा—निसि ननींद नहिं भूख दिन, भरत विकल सुचि सोच ।

नीच कीच बिच सीन जस, मानहि सलिल सँकोच ॥२४२॥

भरतजी को न रात में नींद है, न दिन में भूख है । वे पवित्र सोच में ऐसे व्याकुल हैं, जैसे गढ़े की कीच में मछली जल के सङ्कोच से तड़फने लगती है ।

कीन्हि मातु मिस काल कुचाली * ईति भीति जस पातक साली
केहि विधि होइ राम अभिषेक * मोहि अब लखत उपाय न ऐकू

भरतजी सोचते हैं—काल ने माता के वहाने कुचाल की है, जैसे पकी खेतीमें ईति-बाधा पैदा हो जाय । अब श्रीरामजी का राजतिलक कैसे हो ? मुझे तो अब कोई उपाय भी नहीं सूझता ।

अवसि फिरहिं गुरु आयसु मानी * मुनि पुनि कहब रामरुचि जानी
सातु कहेहुँ बहुरहिं रघुराऊ * राम जननि हठि करब कि काऊ

गुरुजी की आज्ञा मानकर तो अवश्य लौट चलेंगे, परन्तु मुनि तो श्रीरामजी की रुचि जानकर उन्हीं के अनुसार कहेंगे । माता के कहने से भी लौट सकते हैं, परन्तु श्रीरामजी की माता—क्या कभी हठ करेंगी ?

मोहि अनुचर कहुँ केतिक बाता * तेहि सहँ कुसमउ बाम बिधाता
जाँ हठ करउँ तो निहट कुकरमू * हरगिरि तें गरु सेवक धरसू

मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है ? उस पर भी समय खोटा है और विधाता विरुद्ध है । हठ करूँ तो घोर पाप है, क्योंकि सेवक का धर्म कैलाश-पर्वत से भी अधिक भारी है ।

एकउ जुगुति न मन ठहरानी * सोचत भरतहि रैन बिहानी
प्रात नहाइ प्रभुहि सिर नाई * बैठत पठए रिषयँ बोलाई

एक भी युक्ति भरतजी के मन में न ठहरी, सोच करते ही सब रात बीत गई । प्रातःकाल स्नान कर प्रभु श्रीरामजी को सिर नवाकर बंटे ही थे कि वशिष्ठजी ने उन्हें बुला भेजा ।

दोहा--गुरु पदकमल प्रनाम करि, बैठे आयसु पाइ ।

विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आइ ॥२४३॥

गुरु के चरणकमलों में प्रणाम कर आज्ञा पाकर भरतजी बंटे । उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मन्त्री आदि सभासद आकर इकट्ठे हुए ।

बोले मुनिवर समय समाना * सुनहु सभासद भरत सुजाना
धरमधुरीन भानुकूल भान * राजा राम स्वयं भगवान

विवेकरूपी राजा मोहरूपी राजा को उसके दल-दल सहित जीतकर निष्कण्टक राज्य करता है। उसके नगर में सदा सुख-शांति और सुकाल रहता है।

वन प्रदेश मुनि वास घनेरे * जनु पुर नगर गाँउं गन खेरे
विपुल विचित्रविहंग मृग नाना * प्रजा समाज न जाइ बखाना

वन के बीच मुनियों के बहुत से आश्रम ही मानो शहर, कस्बा, गाँव व खेरे हैं और बहुत से रत्न-विरंगे पक्षी व हिरन आदि ही प्रजागण हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता।

खगहा करि हरि बाघ वराहा * देखि महषि वृष साजु सराहा
वयर विहाइ चरहिं एक सङ्गा * जहँ तहँ मनहुँ सेन चतुरङ्गा

गेंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सूअर, बिल, भैंसे और भेंड़िये-इनके समूह देखने और सराहने योग्य हैं। ये वन को छोड़कर एक साथ जहाँ-तहाँ विचरते हैं, यही मानो चतुरंगिनी सेना है।

झरना झरहिं मत्त गज गार्जाहिं * मनहुँ निसान विविध विधिवाजहिं
चक चकोर चातकशुक पिकगन * कूजत मंजु मराल मुदित मन

पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिघाड़ रहे हैं ये ही मानों अनेक प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता व कोयलों के समूह तथा हंस प्रसन्न मन से गूँज रहे हैं।

अलिगन गावत नाचत मोरा * जनु सुराज मंगल चहुँ ओरा
वेलि बिटप तून सफल सफला * सब समाज मुद मङ्गल मूला

मोरों के झुण्ड गुंजार रहे हैं, मानो स्वराज्य में चारों ओर आनन्द हो रहा है। लतायें वृक्ष और घास सब फल-फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनन्द-मंगल से पूर्ण है।

दोहा—राम सैल सोभा निरखि, भरत हृदय अति प्रेमु।

तापस तप फल पाइ जिमि, सुखी सिराने नेमु ॥२२७॥

श्रीरामजी के पर्वत को शोभा देखकर भरतजी के हृदय में अत्यन्त प्रेम हुआ, जैसे तपस्वी नियम समाप्त होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है।

तव केवट ऊँचे चढ़ि धाई * कहेउ भरत सन भुजा उठाई
नाथ देखिअहिं विटप विसाला * पाकरि जम्बु रसाल तमाला

तब केवट ऊँचे पर चढ़ गया और भरतजी से भुजा उठाकर फहने लगा है नाथ ! देखो-ये जो पाकर, जामुन, आम और तमाल आदि के विशाल वृक्ष दीखते हैं—

जिन्ह तरवरन्ह मध्य वटु सोहा * मञ्जु विसाल देखि मनु मोहा
नील सघन फल्लव फल लाला * अविरल छाँह सुखद सबकाला

इन सुन्दर वृक्षोंके बीच में एक बड़ा शोभायमान बड़का वृक्ष है, जिसे देखकर मनने-जाता है। उसमें नीले रंग के घने पत्त, लाल फल और सब श्रुतियों में सुखदायी धनी

मानहुँ तिमिर अरुनमय राती * विरचो विधि सँ

आपका आशीर्वाद ही ऐसा है, जो दुःखों को दूर करके समस्त कल्याणों का देने वाला है, यह सब संसार जानता है। हे स्वामी! आप वही हैं, जिन्होंने विधाता की गति को रोक दिया। आपने जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है ?

दोहा—बुद्धिअ मोहि उपाय अब, सो सब मोर अभागु।

सुनि सनेहँ मय वचन गुरु, उर उमँगा अनुरागु ॥२४५॥

अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं—सो सब मेरा अभाग्य है। भरतजी के ऐसे स्नेह भरे वचन सुनकर गुरुजी के हृदय में प्रेम उमड़ आया।

**तात बात फुरि राम कृपाहीं * राम विमुख सिधि सपनेहुँ नाहीं
सकुचउँ तात कहत एक बाता * अरध तजहिं बुध सरबस जाता**

हे तात ! बात तो ठीक है, परन्तु—श्रीरामजी की कृपा से ही, श्रीरामजी से विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती है। हे तात ! एक बात कहते हुए मैं सकुचाता हूँ—यदि सर्वस्व जाता है तो बुद्धिमान् उसमें से आधा त्याग देते हैं।

**तुम्ह कानन गवनहु दोउ भाई * फेरअहिं लखन सीय रघुराई
सुनि सुवचन हरषे दोउ भ्राता * भे प्रमोद परिपूरन गाता**

तुम दोनों भाई वन को जाओ, श्रीराम-लक्ष्मण व सीता को लौटा दिया जाय। गुरुजी के ऐसे सुन्दर वचन सुनकर दोनों भाई प्रसन्न हुए और उनका बेह आनन्द से परिपूर्ण होगया।

**मन प्रसन्न तनु तेज विराजा * जनु जियँ राउ रामु भए राजा
बहुत लाभ लोगन्ह लघु हानी * सम सुख दुख सब रोवाहि रानी**

मन में प्रसन्न होगये तथा शरीर पर तेज चमकने लगा, मानो राजा जीवित होगये हों और श्रीरामजी राजा होगये हों। लोगों को हानि कम और लाभ अधिक जान पड़ा, परन्तु रानियों को दुख-सुख समान मालूम पड़ा, इस कारण वे रोने लगीं।

**कहहिं भरत मुनि कहा सो कीन्हे * फलु जग जीवन्ह अभिमत दीन्हे
कानन करउँ जन्म भरि वासू * एहि तें अधिक न मोर सुपासू**

भरतजी ने कहा—मुनि ने जो कहा है, उसे करने से संसार के जीवों को इच्छित वस्तु देने का फल होगा। मैं वन में जन्म भर वास करूँगा, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई सुख नहीं है।

दोहा—अन्तरजामी रामु सिय, तुम्ह सर्वग्य सुजान।

जौं फुर कहहु तौ नाथ निज, कीजिअ वचनु प्रवान ॥२४६॥

श्रीसीता-रामजी अन्तर्यामी हैं और आप सर्वज्ञ तथा परम चतुर हैं। जो आप ठीक कहते हैं तो, हे नाथ ! अपना वचन प्रमाणित कीजिये।

भरत वचन सुनि देखि सनेहू * सभा सहित मुनि भए विदेहू

भरत महा महिमा जल रासी * मुनि मति ठाढ़ि तीर अवलासी

भरतजी के वचन सुनकर और स्नेह देखकर सभा समेत मुनि वणिष्ठजी विदेह होगये।

सखा समेत मनोहर जोटा * लखेउ न लखनसघन वन ओटा
भरत दीख प्रभु आश्रम पावन * सकल सुमङ्गल सवन सुहावन

सखा निपादराज समेत इस मनोहर जोड़ी को सघन-वन की आड़ के कारण लक्ष्मणजी नहीं देख पाये। भरतजी ने प्रभु श्रीरामचन्द्रजी के पवित्र तथा सम्पूर्ण आनन्द-मङ्गलों के धाम (आश्रम) को देखा।

करत प्रवेश मिते दुख दावा * जनु जोगी परमारथ पावा
देख भरत लखन प्रभु आगे * पछत वचन सहज अनुरागे

आश्रम में पहुँचते ही भरतजी का दुःख-दाह शांत होगया, मानो योगी ने परम तत्व प्राप्त किया हो। भरतजी ने लक्ष्मणजी को प्रभुके समक्ष पड़े प्रेम से पूछे हुए वचन कहते हुए देखा।

सीस जटा कटि मुनि पट बाँधे * तन कसें कर सर धनु काँधे
वेदी पर मुनि साधु समाजू * सीय सहित राजत रघुराजू

सिर पर जटा हैं, कमर में मुनिघों के से वस्त्र बाँधे हैं, तर्कस फते, हाथ में धाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि व साधु-मण्डलों सहित सीताजी और श्रीरघुनायजी विराजमान हैं।

बलकल बसन जटित तनु स्यामा * जनु मुनि वेष कीन्ह रति कामा
कर कमलन्ह धनु सायक फेरत * जिय की जरनि हरत हैंसि हेरत

बलकल वस्त्र पहिने, जटा धारण किये, श्याम शरीर वाले श्रीसीता-रामजी ऐसे शोभायमान थे, मानो रति और कामदेव ने मुनि रूप धारण किया हो। कर-कमल को धनुष-याण पर फेरते हुए हँसकर देखते ही वे हृदय की जलन को हर लेते हैं।

दोहा—लसत मंजु मुनि मण्डली, मध्य सीय रघुचन्दु।

ग्यान सभाँ जनु तनु धरें, भगति सच्चिदानन्दु ॥२३०॥

उस सुन्दर मुनि मंडली के बीच श्रीसीताजी और श्रीरघुनायजी ऐसे सुशोभित हैं, मानो भक्ति और सच्चिदानन्द साक्षात् शरीर धारण किये, ज्ञान की सभा में विराजमान हैं।

सानुज सखा समेत मगन मन * विसरे हरष सोक सुख दुख गन
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाईं * भूतल परे लकुट की नाई

भाई शत्रुघ्न और सखा निपादराज सहित भरतजी प्रेम मान हो गये। हर्ष, शोक, सुख, दुःख सब भूल गये। 'हे नाथ! हे गुसाईं! रक्षा करिये, रक्षा करिये।' ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दण्ड की तरह गिर पड़े।

वचन सप्रेम लखन पहिचाने * करत प्रनाम भरत जिये जाने
वन्दु सनेह सरिस एहि ओरा * उत साहिव सेवा वस जोरा

स्नेहपूर्ण वचनोंसे लक्ष्मणजी ने पहिचान लिया और भरतजी को प्रणाम करते हुए मन में जान लिया। इधर तो भरतजी का सुन्दर स्नेह और उधर स्वामी-सेवाको प्रवर्त पर्यवसता।

मिलिन जाइ नहि गुदरत वनई * सुकवि लखन मन की गति भनई
रहे राखि सेवा पर भारू * चढ़ी चंग जनु लौच खे

इसलिए मैं वार २ कहता हूँ कि मेरी बुद्धि भरतजी की भक्ति के वश में होगई है। मेरी समझ में तो भरतजी की रुचि देखकर ही जो कुछ आप करें—वही शुभ होगा, इसमें शिवजी साक्षी हैं।

दोहा—भरत विनय सादर सुनिअ, करिअ विचार बहोरि ।

करव साधुमत लोकमत, नृपनय निगम निचोरि ॥२४८॥

पहले भरतजी की विनय सादर सुनिये, फिर विचार करिये। साधु-मत- लोक-मत, राजनीति और शास्त्र के अनुसार कार्य कीजिये।

गुरु अनुराग भरत पर देखी * राम हृदयँ आनन्दु विसेषी
भरतहि धरम धुरन्धर जानी * निज सेवक तन मानस बानी

भरतजी पर गुरु का प्रेम देखकर—श्रीरामजी के हृदय में बड़ा आनन्द हुआ। भरत को धर्म-धुरन्धर और तन, मन, वचन से अपना सेवक जाना।

बोले गुरु आयसु अनुकूला * वचन संजु मृदु मंगल मूला
नाथ सपथ पितु चरन दोहाई * भयउ न भुअन भरत सम भाई

गुरुजी की आज्ञा के अनुसार श्रीरामजी मधुर, कोमल और मंगलमय वचन बोले-हे नाथ! आपकी शपथ और पिताजी के चरणों की दुहाई है, जगत में भरत के समान भाई नहीं हुआ।

जे गुर पद अम्बुज अनुरागी * ते लोकहुँ वेदहुँ बड़भागी
राउर जापर अस अनुरागू * को कहि सकइ भरत कर भागू

जो गुरु के चरणकमलों के प्रेमी हैं, वे लोक और वेद के अनुसार बड़े ही भाग्यवान् होते हैं। फिर जिस पर आपका ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य की बड़ाई कौन कर सकता है?

लखि लघु बन्धु बुद्धि सकुचाई * करत बदन पर भरत बड़ाई
भरतु कर्हिहि सोइ किएँ भलाई * अस कहि राम रहे अरगाई

छोटा भाई जानकर, मुँह पर बड़ाई करते हुए मेरी बुद्धि सकुचाती है। जो कुछ भरत कहें—वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्रीरामजी चुप होगये।

दोहा—तव सुनि बोले भरत सन, सब सँकोच तजि तात ।

कृपासिंधु प्रिय बन्धु सन, कहहु हृदयँ की वात ॥२४९॥

तब मुनिवर भरतजी से बोले-हे तात ! सब सङ्कोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो।

सुनि सुनि वचन राम रुख पाई * गुरु साहिव अनुकूल अघाई
लखि अपने सिर सब कर भारू * कहि न सकइ कछु करहिं विचारू

मुनि के वचन सुन और श्रीरामजी का रुख पाकर गुरु और स्वामी को अपने अनुकूल जानकर भरत सन्तुष्ट हुए। परन्तु सारा भार अपने ही ऊपर जान कुछ कह न सके। विचारने लगे—

पुलक सरीर सभाँ भए ठाढ़े * नीरज नयन नेह जल वाढ़े

पुनि मुनिगन दोउ भाइन्ह वन्दे * अभिमत आसिष पाइ अनन्दे

तब लक्ष्मणजी लपककर छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले, फिर निषाद को हृदय से लगा लिया, फिर दोनों भाइयों ने मुनियों को प्रणाम किया और मन-माना आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए।

सानुज भरत उमंगि अनुरागा * धरि सिर सियपद पदुम परागा

पुनि पुनि करत प्रनाम उठाए * सिर कर कमल परसि बैठाए

शत्रुघ्न समेत भरतजी स्नेह से उमङ्ग कर सीताजी के चरणारविंदों की रज को सिर पर चढ़ाकर वारंवार प्रणाम करने लगे! सीताजी ने उन्हें उठाकर कर कमल से स्पर्श कर दोनों को बंठाया।

सीयँ असीष दीन्हि मन माँही * मगन सनेहँ देह सुधि नाहीं

सब विधि सानु कूल लखि सीता * भे निसोच उर अपडर वीता

सीताजी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की सुघ्र नहीं है। सब प्रकार से सीताजी को अनुकूल देख भरतजी के हृदय का सोच व कल्पित डर नष्ट होगया।

कोउ कछु कहइ न कोउ कछु पूँछा * प्रेम भरा मन निज गति छूँछा

तेहि अवसर केवटु धीरजु धरि * जोरि पानि विनवत प्रनाम करि

उस समय न तो कोई कुछ कहता है और न कोई कुछ पूछता है। मनमें प्रेम होने के कारण वह अपनी गति से खाली है। उस समय गुह ने धर्म धरकर हाथ जोड़, प्रणाम करके विनती की-

दोहा-नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुरलोग।

सेवक सेनप सचिव सब, आये विकल वियोग ॥२३३॥

हे नाथ! मुनिनाथ के साथ सब मातापै, सब नगरवासी, सेवक, सेनापति, मन्त्री आदि सब लोग विरह से व्याकुल होकर आये हैं।

शीलसिन्धु सुनि गुर आगवनू * सिय समीप राखे रिपुदवनू

चले सबेग राम तेहि काला * धीर धरमधुर दीनदयाला

शील के समुद्र धीरामजी ने गुरु का आगमन सुनकर सीताजी के निकट शत्रुघ्नजी को रख दिया और उसी क्षण बड़ी शीघ्रता से-धीर, धर्म धुरन्धर, दीनदयालु धीरामजी चले।

गुरहि देखि सानुज अनुरागे * दण्ड प्रनाम करन प्रभु लागे

मुनिवर धाइ लिए उर लाई * प्रेम उमंगि भैंटे दोउ भाई

गुरुदेव को देख लक्ष्मण सहित धीरामजी स्नेह में मग्न हो, साष्टांग प्रणाम करने लगे। मुनि ने दौड़कर उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम मग्न होकर दोनों भाइयों से मिले।

प्रेम पुलकि केवट कहि नामू * कीन्ह दूरि तें दण्ड प्रनामू

रामसखा लखि बरवस भैंटा * जनु महि लुटत सनेह समेंटा

प्रेम से पुलकित हो निषाद ने अपना नाम थतजाकर दूर से ही दण्डवत्-प्रणाम कर राम-सखा जानकर मुनि ने उसे बरवस हृदय से घगा लिया, मानों पृथ्वी पर लौटते स्नेह को समेट लिया हो।

दोहा—साधुसभाँ गुर प्रभु निकट, कहउँ सुथल सतिभाउ ।

प्रेम प्रपञ्चुकि झूठ फुर, जानहिं मुनि रघुराउ ॥२५१॥

मैं सत्पुरुषों की समा में, स्वामी और गुरु के समीप, पवित्र स्थान में अपने सच्चे भाव से कहता हूँ । प्रेम है या वनावट, झूठ है या सच यह मुनि और श्रीरघुनाथजी ही जानते हैं ।

भूपति मरण प्रेम पनु राखी * जननी कुमतिजगतु सब साखी
देखि न जाहिं विकल सहतारी * जरहिं दुसह ज्वर पुर नर नारी

प्रेम और प्रण की रक्षा के लिए महाराज के मरण और माता की कुमति का सब संसार साक्षी है । व्याकुल माताओं की ओर देखा नहीं जाता, अयोध्या के नर-नारी कठिन ताप से जल रहे हैं ।

सहीं सकल अनरथ कर मूला * सो सुनि समुझसहिउँ सब सूला
सुनि वन गवनु कीन्ह रघुनाथा * करि सुनि वेस लखन सिय साथ
बिनु पनहिन्ह अरुपयादेहिं पाएँ * शङ्करु साखि रहेउँ एहि घाएँ
बहुरि निहारि निषाद सनेह * कुलिस कठिन उर भयउ न बेह

सब अनर्थों की जड़ मैं ही हूँ, यह सुन और समझकर भी सब दुःख सह रहा हूँ । प्रभु श्रीरघुनाथजी मुनि-वेष धारण कर लक्ष्मण व सीताजी के साथ-साथ बिना जूतों के पंदलही वन को गये हैं । यह सुनकर—शिवजी साक्षी हैं, मैं इस घाव से भी जीता रह रहा हूँ । फिर निषादराज का स्नेह देखकर भी वज्र के समान इस कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ ।

अब सब आँखिन्ह देखेउँ आई * जिअत जीव जड़ सबइ सहाई
जिन्हहिनिरखिमगसाँपिनिबीछी * तजहिं विषम विषु तामस ताँछी

अब यहाँ आकर सब आँखों से देख लिया, यह जड़-जीव जीते-जी सब कुछ सहावेगा । जिन्हें देखकर मार्ग के साँप-बिच्छू भी अपने कठिन विष और तामसी-स्वभाव को त्याग देते हैं ।

दोहा—तेइ रघुनन्दन लखनु सिगँ, अनहित लागे जाहि ।

तासु तनय तजि दुसह दुख, दैउ सहावइ काहि ॥२५२॥

वही श्रीरघुनाथजी, लक्ष्मणजी और सीताजी—जिसको शत्रु जान पड़े, उस कंकई-पुत्र 'मुझको' छोड़कर विधाता और किसको कठिन दुःख सहावेगा ?

सुनि अति विकल भरत वरबानी * आरति प्रीति विनय नय सानी
सोक मगन सब सभा खभारु * मनहुँ कमल वन परेउ तुषारु

बहुत विकल तथा दुःख, प्रीति विनय और नीति से भरी हुई भरतजी की थोड़ा वाणी सुनकर सब समा शोक में डूब गई, मानो कमल-वन में पाला पड़ गया हो ।

कहि अनेक विधि कथा पुरानी * भरत प्रबोध कीन्ह मुनि ग्यानी
बोले उचित वचन रघुनन्दू * दिनकर कुल कैरव वन चन्दू

तब ज्ञानी मुनि ने अनेक प्रकार की पुरानी कथाएँ कहकर भरतजी को समझाया, फिर सूर्यवंश-

किया । गंगा व गौरी के समान सबका सम्मान किया, तब वे प्रसन्न हो आशीर्वाद देने लगे ।
 गहि पद लगे सुमित्रा अंका * जनु भैंटी सम्पति अति रंका
 पुनि जननी चरननिदोड भ्राता * परे प्रेम व्याकुल सब गाता

सुमित्राजी के पांव पड़कर उनकी गोद में ऐसे लिपटे, मानो अति दरिद्री को सम्पत्ति मिल गई हो । फिर कौशल्या माता के चरणों में दोनों भाई जा पड़े, मारे प्रेम के सब देह शिथिल है ।

अति अनुराग अम्ब उर लाए * नयन सनेह सलिल अन्हवाए
 तेहि अवसर कर हरष विषाडू * किमि कवि कहें मूकजिमि स्वाडू

बड़े स्नेह के साथ कौशल्या माता ने हृदय से लगा और नेत्रों के प्रेम-जलसे स्नान कराया । उस समय के हर्ष व शोक को कवि किस प्रकार कहे, जैसा गूंगा स्वादको नहीं कह सकता ।

मिलिजननिहि सानुज रघुराऊ * गुर सन कहेउ कि धारिअ पाँऊ
 पुरजन पाइ मुनीस नियोगू * जल थल तकितकि उतरेउ लोगू

माताओं से मिलकर लक्ष्मणजी समेत श्रीरामजी गुरुदेव से कहने लगे कि आप पधारिये । तब अयोध्यावासी मुनिश्वर की आज्ञा पाकर जल तथा स्थल देखकर जा ठहरे ।

दोहा—महिसुर मन्त्री मातु गुर, गने लोग लिए साथ ।

पावन आश्रम गवनु किय, भरत लखन रघुनाथ ॥२३६॥

ब्राह्मण, मंत्री, मातायें और गुरु आदि गिने हुए लोगों को साथ लेकर भरत, लक्ष्मण सहित श्रीरघुनाथजी अपने पवित्र आश्रम की चले ।

सीय आइ मुनिवर पग लागी * उचित असीस लही मन मांगी
 गुरपतिनिहि मुनितियन्हि समेता * मिलत प्रेम कहि जाय न जेता

सीताजी ने आकर मुनिवर के चरणों में प्रणाम किया और मन-मांगा आशीर्वाद पाया, फिर गुरु-पत्नी सहित मुनि-पत्नियों से मिलीं । जितना प्रेम था, वह कहा नहीं जाता ।

बन्दि बन्दि पग सिय सबही के * आसिष वचन लहे प्रिय जी के
 सासु सकल जब सीय निहारों * मूँदे नयन सहमि सुकुमारों

सभी के चरणों की बन्दना करके जानकीजी ने अपने हृदय को प्रिय आशीर्वाद पाये । जब सुकुमारी सीताजी ने सब सासुओं की ओर देखा तो सहम कर नेत्र बन्द करलिये ।

परों बधिक बस मनहुँ मराली * कहा कौन्ह करतार कुचाली
 तिन्हसियनिरखनिपटदुखुपावा * सो सब सहिअ जो दैउ सहावा

मानो हंसनियां अधिक के बच में पड़ी हों । हे विघाता ! यह क्या कुचाल की ? उन्होंने भी सीता को देखकर बहुत दुःख पाया । जो दैव सहाय, वह सब सहना पड़ता है ।

जनकसुता तब उर धरि धीरा * नील नलिन लोचन भरि नीरा
 मिलीसकल सासुन्ह सिय जाई * तेहि अवसर कलना महि छाई

मन को प्रसन्न कर और संकोच को छोड़कर तुम जो कहो, आज मैं वही कहूँ। सत्य-प्रतिज्ञ, रघुकुल-श्रेष्ठ श्रीरघुनाथजी के यह वचन सुनकर सब समाज प्रसन्न हो गया।

सुरगन सहित सभय सुरराज * सोचहिं चाहत होन अकाजू
वनय उपाय करत कछु नाहीं * राम सरन सब गे मन माहीं

देवगणों समेत इन्द्र बहुत डरे और सोचने लगे कि अब काम विगड़ना चाहता है। कुछ उपाय करते नहीं वन पड़ता, तब सब मन ही मन श्रीराम चन्द्रजी की शरण में गये।

बहुरि विचार परस्पर करहीं * रघुपति भगत भगति बस अहहीं
सुधि करि अम्बरीष दुरवासा * भे सुर सुरपति निपट निरासा

फिर आपस में विचार कर कहने लगे कि श्रीरामजी अपने भक्तों की भक्ति के वश में हैं। अम्बरीष और दुरवासा ऋषि की सुधि करके देवता और इन्द्र बहुत ही निराश होगये।

सहे सुरन्ह बहु काल विषादा * नरहरि किए प्रगट प्रह्लादा
लगिलगिकानकहाँहि धुनि साथ * अब सुरकाज भरत के हाथा

देवों ने बहुत समय तक दुःख सहे, तब भक्त-प्रह्लाद ने नृसिंह मगवाव को प्रकट कराया। काना फूसी करके देवता लोग साथ धुनने लगे कि अब देवताओं का कार्य भरतजी के हाथ में है।

आन उपाय न देखिअ देवा * मानत राम सुसेवक सेवा
हियँ सप्रेम सुमिरहु सब भरतहि * निज गुण शील राम बस करतहि

दूसरा और कोई भी उपाय देवों को नहीं सूझ पड़ा। श्रीरामजी तो सुसेवक की सेवा को मानते हैं। अतः हृदय में प्रेम सहित सब अपने गुण व शील से श्रीरामचन्द्रजी को वश में करने वाले भरतजी का स्मरण करो।

दोहा—सुनि सुरमत सुरगुर कहेउ, भल तुम्हार बड़भागु।

सकल सुमङ्गल मूल जग, भरत चरन अनुरागु ॥२५२॥

देवताओं की मति सुनकर देव-गुरु बृहस्पतिजी ने कहा—तुम्हारा बहुत अच्छा भाग्य है, संसार में भरतजी के चरणों में प्रेम ही सम्पूर्ण मङ्गलों की जड़ है।

सीतापति सेवक सेवकाई * कामधेनु सत सरिस सोहाई
भरत भगति तुम्हरे मन आई * तजहु सोचु विधि बात बनाई

सीतापति श्रीरामजी के सेवक की सेवा—सी कामदेव के समान सुन्दर है। भरतजी की भक्ति तुम्हारे मन में आई है, तो अब चित्ता त्याग दो—ब्रह्मा ने तुम्हारी बात बना दी है।

देखु देवपति भरत प्रभाऊ * सहज सुभायँ विबस रघुराऊ
मन थिर करहु देव डर नाहीं * भरतहि जानि राम परिछाहीं

हे इन्द्र! भरतजी का प्रभाव तो देखो कि उनके सहज स्वभाव के वश श्रीरघुनाथजी हो रहे हैं। हे देवताओं! भरतजी को—श्रीरामजी को छाया जानकर मन को स्थिर करो, अब डर नहीं है।

सुनि सुरगुर सुर सम्मत सोचू * अन्तरजामी प्रभुहि संकोचू
निज सिर भार भरत जियँ जाना * करत कोटि विधि उर अनुमाना

शुद्ध भएँ दुइ वासर बीते * बोले गुर सन राम पिरीते
 ऐसे श्रीरामजी शुद्ध हुए। इसमें साधुओं की ऐसी सम्मति है, जैसे गङ्गाजी में तीर्थों का आवाहन कर उन्हें पवित्र माना जाय। शुद्ध हुए जब दो दिन बीत गये, तब श्रीरामजी प्रेम के साथ गुरुजी से बोले—

नाथ लोग सब निपट दुखारी * कन्द मूल फल अम्बु अहारी
सानुज भरतु सचिव सब माता * देखि मोहि पल जुग सम जाता

हे नाथ! सब लोग बहुत दुःखी हैं, कंदमूल-फल व जल का ही आहार करते हैं। शत्रुघ्न सहित भरतजी, मंत्री व सब माताओं को देख मुझे एक २ पल युग के समान व्यतीत हो रहा है।

सब समेत पुर धारिअ पाऊ * आप इहाँ अमरावति राऊ
बहुत कहेउँ सब कियउँ ढिठाई * उचित होइ तस करिअ गोसाई

अतः आप सबके साथ अयोध्यापुरी को पधारिये। आप यहाँ हैं, महाराज स्वर्ग में हैं, (अर्थात्-अयोध्यापुरी सूनी है) मैंने बहुत कह दिया, यह बहुत ढिठाई की है। हे स्वामी! जीसा उचित हो, वंसा करें।

दोहा—धर्म सेतु करुनायतन, कस न कहहु अस राम।

लोग दुखितदिन दुइ दरस, देखि लहहि विश्राम ॥२३६॥

वशिष्ठजी बोले—हे राम! आप ऐसा क्यों न कहेंगे? क्योंकि आप धर्म के सेतु और दया के धाम हैं। सब लोग दुःखी हैं, दो दिन आपके दर्शन करके शांति लाभ पायें।

राम वचन सुनि डरा समाजू * जनु जलनिधि महुँ विकल जहाजू
सुनि गुर गिरा सुमङ्गल मूला * भयउ मनहुँ मारुत अनुकूला

श्रीरामजी के वचन सुनकर समाज डर गया, जैसे समुद्र में जहाज डगमगाया हो। सुनि की सुन्दर मङ्गलमय वाणी सुनकर मानो उस जहाज के लिये वायु अनुकूल होगई हो।

पावन पर्यँ तिहुँ काल नहाहीं * जेहि विलोकि अघओघ नसाहों
मङ्गल मूरति लोचन भरि भरि * निरखहि हरषि दंडवत करिकरि

तीनों समय सब उस पवित्रजल में स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। मङ्गल की मूर्ति श्रीरामजी के नेत्र भरकर दर्शन करके सब बारम्बार दण्डवत करते हैं।

रामसैल बन देखन जाहीं * जहँ सुखसकल सकलदुख नाहीं
झरना झरहि सुधा सम वारी * त्रिविध ताप हर त्रिविध वयारी

सब श्रीरामजी के पर्वत और बन के दर्शन को जा रहे हैं, जहाँ सब सुख हैं और कोई दुःख नहीं है। जहाँ झरनों से अमृत के तुल्य जल झर रहा है और तीनों प्रकार के तापों के हरने वाली—शीतल, मन्द, सुगन्धित पवन बह रही है।

विटप बेलि तृन अगनित जाती * फल प्रसून पल्लव बहु भांती
सुन्दर सिला सुखद तर छाहीं * जाइ वरनि वनछवि केहि प्राहीं

अनेक जाति के वृक्ष, लताएँ, घास तथा बहुत भांति के फूल और पत्ते हैं। सुन्दर सिलों वृक्षों की सुख देने वाली घनी छाया है। वन की सुन्दरता किससे वर्णन की जा सकती

अब करुना करि कीजिअ सोई * जनु हित प्रभु चित छोभु न होई

सब प्रकार से गुरु और स्वामी का प्रेम देखकर दुःख दूर हो गया, मन में सन्देह नहीं रहा। हे कृपानिधान ! अब वही कीजिए, जिससे दास के लिए प्रभु के मन में किसी प्रकार का दुःख न हो।

जो सेवक साहिबहिं संकोची * नित हित चहइ तासुमति पोची
सेवक हित साहिब सेवकाई * करै सकल सुख लोभ बिहाई

जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपनी भलाई चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक की भलाई तो इसी में है कि स्वामी की सेवा सब प्रकार के सुख व लोभ को त्याग कर करे।

स्वारथु नाथ फिरै सबही का * किये रजाइ कोटि विधि नीका

यह स्वारथु परमारथ सारु * सकल सुकृत फल सुगति सिंगारु

हे नाथ ! आपके लौटने में ही सबका स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालने में हर प्रकार से भलाई है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार, सब पुण्यों का फल और उत्तम गति का सिंगार है।

देव एक विनती सुनि मोरी * उचित होइ तस करब बहोरी

तिलक समाजुसाजि सबु आना * करिअ सुफल प्रभु जौ मन माना

हे देव ! मेरी एक विनय सुनकर आप जैसे उचित समझें, बैसा करें। राज तिलक की सब सामिग्री सजाकर लाई गई है, जो प्रभु के मन में मान्य हो तो उसे सफल कीजिए।

दोहा—सानुज पठइअ मोहि वन, कीजिअ सबहि सनाथ ।

नतरु फेरिअहि बन्धु दोउ, नाथ चलों मैं साथ ॥२५८॥

शत्रु घन समेत मुझे वन में भेजकर सबको सनाथ कीजिए। अथवा दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूंगा।

नतरु जाहि वन तीनिउ भाई * बहुरिअ सोय सहित रघुराई

जेहि बिधि प्रभु प्रसन्न मन होई * करुनासागर कीजिअ सोई

अथवा हम तीनों भाई वन को चले जाय और आप सीताजी सहित अयोध्या को लौट जाइए। जिस प्रकार प्रभु का मन प्रसन्न हो, हे कृपासिंधु ! वही कीजिए।

देव दीन्ह सब मोहि अभाऊ * मोरें नीति न धरम विचारु

कहउ वचन सब स्वारथ हेतू * रहत न आरत कें चित चेतू

हे देव ! आपने सब बोल मुझ पर डाल दिया, पर मुझमें न नीति है, न धर्म का विचार है। मैं सब बातें अपने स्वार्थ के निमित्त ही कहता हूँ, क्योंकि दुखियों के मन में कुछ ज्ञान नहीं रहता।

उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई * सो सेवक लखि लाज लजाई

अस मैं अवगुन उदधि अगाधू * स्वामि सनेहँ सराहत साधू

स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे तो उस सेवक को देखकर लाज को भी लाज आ जाती है। मैं अवगुण का ऐसा अयाह समुद्र हूँ, तो भी स्वामी स्नेह वश मेरे साधुपन की ही सराहना करते हैं।

हमारी तो यही बड़ी सेवा है कि हम आपका कोई सामान नहीं चुराते। हम मूर्ख, जीव-हिसक, छोटे कुकर्मों और कुजाति हैं।

पाप करत निसि वासर जाहीं * नहिं पट कटि नहिं पेट अघाहीं
सपनेहुँ धरम बुद्धि कस काऊ * यह रघुनन्दन दरस प्रभाऊ

पाप-कर्म करते हुए रात-दिन ध्यतीत होते हैं, न कमर में फंदा है और न पेट ही भरते हैं। सपने में भी धर्म-बुद्धि किसी की कंसी हो? यह सब तो श्रीरघुनाथजी के दर्शन का प्रभाव है।

जब तें प्रभु पद पदुम निहारे * मिटे दुसह दुख दोष हमारे
वचन सुनत पुरजन अनुरागे * तिन्ह के भागु सराहन लागे

जब से प्रभु के चरणारविंदों के दर्शन पाये, तब से हमारे दुःसह दुःख और दोष मिट गये। उनके वचन सुन अयोध्यावासी अनुरक्त होकर उनके भाग्य की बड़ाई करने लगे।

छन्द—लागे सराहन भागु सब अनुराग वचन सुनावहीं।

बोलनि मिलनि सिय राम चरन सनेह लखि सुख पावहीं ॥

नर नारि निदरहिं नेहु निज सुनि कोल भिल्लनि की गिरा।

तुलसी कृपा रघुवंसमनि की लोहु लै नोका तिरा ॥

सब उनके भाग्य की बड़ाई करते और प्रेमभरे वचन सुनते हैं। उनका बोलना, मिलना, और श्रीसीता-रामजी के चरणों में स्नेह देखकर सब सुख पाते हैं। कोल-भीतों की घण्टी सुनकर सब नर-नारी अपने स्नेह का निरादर करते हैं। तुलसीदासजी कहते हैं कि यह सब रघुवंशमणि श्रीरामजी की कृपा है कि लोहा को लेकर नाव पार हो जाती है।

सो०—विचरहिं वन चहुँ ओर, प्रतिदिन प्रसुदित लोग सब।

जल ज्यों दादुर मोर, भए पीन पावस प्रथम ॥१०॥

सब लोग वन में चारों ओर विचरते हैं, जैसे पहली वर्षा से मेंढक व मोर पुष्ट हो जाते हैं।

पुर नर नारि मगन अति प्रीती * वासर जाहिं पलक सम बीती

सोय सासु प्रति वेष बनाई * सादर करहिं सकल सेवकाई

स्त्री-पुरुष सब अत्यन्त स्नेह में मग्न हैं, उनके दिन पलक-गति के समान बीतने लगे। जितनी सामुं हैं, उतने ही वेष बनाकर सीताजी ने सबकी एक-सी सेवा की।

लखा न मरसु राम विन काहू * माया सब सिय माया माहू

सोय सासु सेवा बस कोन्हों * तिन्ह लहि सुख सिखा आसिप दीन्हों

श्रीरामजी के सिवाय और किसी ने भी यह भेद नहीं जाना। सब मातायें सीताजी की महामाया के अन्तर्गत हैं। सीताजी ने सामुंओं को सेवा से वश में कर लिया, तब उन्होंने सुख पाकर शिक्षा और आशीर्वाद दिया।

लखि सिय सहित सरल दोउ भाई * कुटिल जानि पछितानि अघाई

अवनि जमहि जाचति कैकेई * महि न बीच विधि बीच न देई

सीताजी समेत दोनों भाइयों के सरल स्वभाव को देख कुटिल कैकेई बहुत पछताई।

रानि कुचालि सुनत नरपालहि * सूज्ञ न कछु जसमनि बिनु व्यालहि
भरत राज रघुवर वनवास * भा मिथिलेसहि हृदयं हरासू

रानी की कुचाल सुनकर जनकजी को कुछ नहीं सूझा, जैसे मणि के बिना सर्प को कुछ नहीं सूझता। फिर भरतजी को राज्य और श्रीरघुनाथजी को वन-वास सुनकर मिथिलेश्वर के हृदय में बहुत दुःख हुआ।

नृप बूझे बुध सचिव समाजू * कहहु विचारि उचित का आजू
समुझि अवध असमँजस दोऊ * चलिअकिरहिअनकह कछु कोऊ

राजा ने पण्डितों और मन्त्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिये—आज क्या करना चाहिए? अवध में दोनों प्रकार से असमञ्जस समझ कर 'चलिए या रहिये' किसी ने कुछ नहीं कहा।

नृपहि धीर धरि हृदयं विचारी * पठए अवध चतुर चर चारी
बूझि भरत सति भाउ कुभाऊ * आएहु बेगि न होइ लखाऊ

तब राजा ने धैर्य धरकर हृदय से विचार कर अयोध्यापुरी को चार चतुर दूत भेजे कि भरतजी का भला-बुरा विचार जानकर शीघ्र लौट आओ, पर तुम्हारा पता किसी को न लगने पावे।

दोहा—गए अवध चर भरत गति, बूझि देखि करतति।

चले चित्रकूटहि भरतु, चार चले तेरहूति ॥२६१॥

दूत अवधपुरी में गये और भरतजी का हाल जानकर तथा करनी देखकर, जब भरतजी चित्रकूट की ओर चले, तब वे चारों जनकपुर को लौट आये।

दूतन्ह आइ भरत कै करनी * जनक समाज जथामति वरनी
सुनिगुरपरिजनसचिवमहोपति * भे सब सोच सनेहुँ विकल अति

दूतों ने आकर जनकजी की सभा में भरतजी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुम्बी, मन्त्री और राजा सब सोच तथा प्रेम के मारे व्याकुल होगये।

धरि धीरजु करि भरत बड़ाई * लिए सुभट साहनी बोलाई
घर पुर देश राखि रखवारे * हय गय रथ बहु जान सँवारे

फिर महाराज ने धैर्य धरकर भरतजी की बड़ाई करके अच्छे योद्धा व सेनापति बुलाये राजमहल, नगर तथा देश में रक्षक रखकर, घोड़े-हाथी और बहुत-सी सवारियाँ सजवाईं।

दुधरी साधि चले ततकाला * किए विश्रामु न मग महिपाला
भोरहि आजु नहाइ प्रयागा * चले जमुन उतरन सब लागा

और दुधड़िया मुहूर्त साधकर तुरन्त चल दिये, महाराज ने मार्ग में कहीं विश्राम नहीं किया। आज प्रातःप्रयाग में स्नान कर चले हैं और सब लोग यमुना के पार उतरने लगे।

खबरि लेन पठए हम नाथा * तिन्ह कहि अस महिनायउ माथा
साथ किरात छ सातक दीन्हे * सुनिवर तुरत बिदा चर कीन्हे

हे नाथ ! 'हमको खबर लेने भेजा है', दूतों ने इस प्रकार कहकर पृथ्वी पर मस्तक नवाया।

मुनिवर वशिष्ठजी समझानुसार वचन बोले-हे सभासदो ! हे बुद्धिमान भरत ! मुनो, धर्म-धुरन्धर और सूर्यवंश के सूर्य-महाराज श्रीरामचन्द्रजी स्वयं भगवान ही हैं ।

सत्यसिन्धु पालक श्रुति सेतू ✽ राम जनम जग मङ्गल हेतू
गुर पितु मातु वचन अनुसारी ✽ खल दलु दलन देव हितकारी

सत्य-प्रतिज्ञ व वेद की मर्यादा के रक्षक-श्रीरामजी का जन्म जगत् में मंगल के हेतु हुआ है । ये गुरु, पिता, माता के आज्ञाकारी, दुष्टों के समूह के नाशक और देवताओं के हितकारी हैं ।

नीति प्रीति परमारथ स्वारथु ✽ कोउ न राम सम जान जयारथु

विधि हरिहरु ससिर विदिकपाला ✽ माया जीव करम कुलि काला

नीति, प्रीति, परमारथ, स्वारथ-इनको श्रीरामजी के समान मूलतः कोई नहीं जानता । ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चन्द्र, सूर्य, दिकपाल, माया, जीव, कर्म और काल-

अहिप महिप जहँ लगि प्रभुताई ✽ जोग सिद्धि निगमागम गाई

करि विचारि जियँ देखहु नीकेँ ✽ राम रजाइ सीस सबही केँ

शेषजी और राजा आदि जहाँ तक प्रभु की माया है और योग की सिद्धि जो वेद-शास्त्रों में गाई है । अपने मन में अच्छी तरह विचार कर देखो तो श्रीरामजी की आज्ञा सबके सिर पर है ।

दोहा-राखें राम रजाइ रख, हम सब कर हित होइ ।

समुझि सयाने करहु अब, सब मिलि सम्मत सोइ ॥२४४॥

श्रीरामजी की आज्ञा और इच्छा को रखने से हम सबका हित होगा । अब सब चतुर लोग वही करो, जो सबकी सम्मति हो ।

सब कहँ सुखद राम अभिषेकू ✽ मंगल मोद मूल मग ऐकू

केहि विधि अवध चलहि रघुराऊ ✽ कहहु समुझि सोइ करउँ उपाऊ

श्रीरामजी का राजतिलक सबको सुखदायक है, यही एक मार्ग ध्यानन्द-मङ्गल का मूल है । किस प्रकार से श्रीरघुनाथजी अयोध्या को चलोगे ? विचार कर कहो, जिससे यही उपाय किया जाय ।

सब सादर सुनि मुनिवर वानी ✽ नय परमारथ स्वारथ सानी

उतर न आव लोग भए भोरे ✽ तव सिर नाइ भरत कर जोरे

मुनि वशिष्ठजी की न्याय, परमारथ और स्वारथ-मिश्रित वाणी सबने आदर से सुनी । किसी को उत्तर नहीं आया, सब लोग भोले होगये । तब हाथ जोड़कर, सिर नवाकर भरतजी बोले-

भानुवंस भए भूप घनेरे ✽ अधिक एक तें एक बड़ेरे

जनम हेतु सब कहँ पितु माता ✽ करम सुभासुभ देइ विधाता

सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हुए हैं । माता-पिता तो सब ही जन्म के कारण होते हैं और विधाता शुभ-अशुभ कर्मों का फल देते हैं ।

दलि दुख सृजइ सकल कल्याणा ✽ अस असीस राउरि जगु जान

सो गोसाईं विधि गति जेहि छेकी ✽ सकइ को टारि टेक जो

ऊँच-नीच, मध्यम श्रेणीके नर-नारी सब अपने-भावके अनुसार श्रीरामजीका दर्शन पाते हैं। पानिधान श्रीरामजी सबका यथोचित सत्कार करते हैं और सब लोग उनकी बड़ाई करते हैं।

श्रीरामजी को वचन से ही यही टेव है कि प्रेम को पहिचान कर नीति का पालन करते हैं। शील व सङ्कोच के समुद्र श्रीरामजी सुन्दर मुख, मनोहर नेत्र व सीधे स्वभाव वाले हैं। कहत राम गुनगन अनुरागे * सब निज भाग्य सराहन लागे हस सस पुन्य पुंज जग थोरे * जिन्हहि राम जानत करि मोरे

इस तरह श्रीरामजीके गुण-समूह प्रसन्नता से कहते हुए सब अपने-भाग्य की बड़ाई करते लगे कि हमारे समान पुण्यवान जगत् में थोड़े हैं, जिन्हें श्रीरामजी अपना सेवक मानते हैं।

दोहा-प्रेम भगन तेहि समय सब, सुनि आवत मिथिलेसु। सहित सभा संभ्रम उठेउ, रविकुल कमल दिनेसु ॥२६४॥

जनकजी को आते हुए सुनकर सब लोग प्रेम-मग्न हैं। सूर्यकुल-कमल-दिवाकर श्रीरघु-नाथजी सभा समेत उनके स्वागत के लिए उठ खड़े हुए।

भाइ सचिव गुर पुरजन साथ * आगे गवन कीन्ह रघुनाथा गिरिवरु दीख जनकपति जबहीं * करि प्रनामु रथ त्यागेउ तबहीं

भाई, मन्त्री, गुरु और अवधपुरवासियों समेत श्रीरामजी आगे चले। उधर राजा जनक ने ज्योंही गिरिराज 'चित्तकूट' को देखा, त्योंही वे उसे प्रणाम करके रथ से उतर पड़े।

राम दरस लालसा उछाहू * पथ श्रम लेसु कलेसु न क मन जहँ तहँ रघुवर बैदेही * बिनु तन मन दुख सुख सुधि के

श्रीराम-दर्शन की लालसा व उमङ्गमें किसी को मार्ग में थकावट तथा क्लेश नहीं हुआ तो वहाँ है-जहाँ श्रीसीता-रामजी हैं, बिना मन के देह में दुःख-सुख का ज्ञान किसको

आवत जनकु चले एहि भाँती * सहित समाज प्रेम सति आए निकट देखि अनुरागे * सादर मिलन परस्पर

इस प्रकार प्रेम के मव में मतवाले होकर समाज सहित महाराज जनकजी अ निकट आये देखकर प्रेम में मग्न हो, सब आदर सहित मिलने लगे।

लगे जनक सुनिजन पद बन्दन * रिषिन्ह प्रनामु कीन्ह र भाइन्ह सहित रामुमिलि राजहि * चले लवाइ समेत स

महाराज जनकजी मुनिगणों के चरणों की बन्दना करने लगे और श्री ऋषियों को प्रणाम किया। भाइयों समेत श्रीरामजी राजा से मिलकर समाज अपने आश्रम को ले चले।

येन आश्रम सागर शान्त रस, पूरन पावन पाथु

भरतजी की पहिचान, महिमा समुद्र है और मुनि की बुद्धि उसके किनारे लड़ी हुई अबत्ता स्त्री के समान है ।

गा चह पार जतनु हियँ हेरा * पावति नाव न बोहितु बेरा
औरु करिहि को भरत बड़ाई * सरसी सोपि कि सिंधु समाई

वह समुद्र पार जाना चाहती है । अतः चतुर्दश से उपाय भी किये, परन्तु नाव, जहाज या वेड़ा कुछ नहीं पाया । भरतजी की बड़ाई और कौन कर सकता है ? तालाब की सोपी में क्या समुद्र समा सकता है ?

भरत मुनिहि मन भीतर भाए * सहित समाज राम पहि आए
प्रभु प्रनामु कर दीन्ह सुआसन * बैठे सब सुनि मुनि अनुसासन

भरतजी-मुनि को हृदय में अत्यन्त अच्छे लगे और वे समाजसहित श्रीरामजी के पास आये । प्रभु ने मुनि को प्रणाम कर सुन्दर आसन दिया, मुनि को आज्ञा सुनकर सब बँठ गये ।

बोले मुनिवर वचन विचारी * देश काल अवसर अनुसारी
सुनहु राम सर्वग्य सुजाना * धरम नीति गुन ग्यान निधाना

मुनिवर-देश, काल और अवसर के अनुसार विचार कर वचन बोले-हे श्रीरामजी ! सुनो, आप सर्वज्ञ, बुद्धिमान और धर्म, नीति, गुण व ज्ञान के भण्डार हो ।

दोहा-सबके उर अन्तर बसहु, जानहु भाउ कुभाउ ।

पुरजन जननी भरत हित, होइ सो कहिअ उपाउ ॥२४७॥

आप सबके अन्तःकरण में बसते हैं और मले-चुरे भाव को जानते हैं । जिसमें नगर-वासियों, माताओं और भरत का भला हो, वही उपाय कहिये ।

आरत कहहि विचार न काऊ * सूझ जुआरिहि आपन दाऊ
सुनि मुनि वचन कहत रघुराऊ * नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ

दुःखी लोग कभी विचार कर बात नहीं कहते, क्योंकि ज्वारी को तो अपना दाय हो समझता है । मुनि के वचन सुनकर श्रीरामजी ने कहा-हे नाथ ! उपाय तो आपके ही हाथ है ।

सब कर हित राउर रख राखें * आयसु किएँ मुदित फुर भाखें
प्रथम जो आयसु मो कहूँ होई * माथें मानि करों सिख सोई

आपकी इच्छा रखने से सबका हित है, आपकी आज्ञानुसार काम करने और सत्य कहने से सब प्रसन्न होंगे । पहले मुझको जो आज्ञा हो, वही शिक्षा में मस्तक पर चढ़ाकर करूँ ।

पुनिजेहि कहँ जसकहव गोसाईँ * सो सब भाँति करिहिँ सेवकाई
कह मुनिराम सत्य तुम्ह भाखा * भरत सनेहँ विचारि न राखा

हे गोसाईँ ! जिसको जीता कहेंगे, वह उसी प्रकार से सेवा करेगा । मुनि कहने लगे-हे श्रीराम ! आपने यह सत्य कहा, परन्तु भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया ।

तेहि ते कहौँ वहाँरि वहोरी * भरत भगति वस भइ मति
मोरें जान भरत रुचि राखी * जो कीजिअ सो शुभ सिव स

श्रेष्ठ मुनीश्वरों ने जहां-तहां लोगों को उपदेश दिया और महर्षि वशिष्ठजी ने विवेहराज जनकजी से कहा—हे राजन् ! धैर्य धारण कीजिये ।

जासु ग्यानु रवि भवतिसि नासा * वचनकिरण मुनिकमल विकासा
तेहि कि मोह ममता निअराई * यह सिय राम सनेह बड़ाई

जिसके ज्ञानरूपी सूर्य से भवरूपी रात्रि का नाश हो जाता है और वचनरूपी किरणों से मुनिरूपी कमल खिल जाते हैं । उनके निकट क्या मोह-ममता आ सकते हैं ? यह श्रीसीता-रामजी के प्रेम की महिमा है ।

विषयी साधक सिद्ध सयाने * त्रिविध जीव जग वेद बखाने
राम सनेह सरस मन जासू * साधु सभा बड़ आदर तासू

विषयी, साधक, ज्ञानी सिद्धि—संसारमें यह तीन प्रकार के जीव वेदोंमें कहे हैं । इन तीनोंमें से जिनके मन में श्रीरामजी का सुन्दर स्नेह है, उनका साधु-समाज में बड़ा आदर होता है ।

सोह न राम प्रेम बिनु ग्यानु * करनधार बिनु जिमि जलजानू
मुनि बहुविधि विदेहु समुझाए * रामघाट सब लोग नहाए

रामजी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं पाता, जैसे मल्लाह के बिना नाव । वशिष्ठजी ने बहुत प्रकार से जनकजी को समझाया, फिर राम-घाट पर जाकर सब लोगों ने स्नान किया ।

सकल सोक संकुल नर नारी * सो बासरू बीतेउ बिनु बारी
पशु खग मृगन्ह न कीन्ह अहारू * प्रिय परिजन कर कोन विचारू

शोक-ग्रस्त सब स्त्री-पुरुषों का वह दिन बिना जल पिये ही बीत गया । पशु-पक्षी व मृगों ने भी जब भोजन नहीं किया, तो प्रियजन और कुटुम्बीजनों का विचार ही क्या किया जाय ?

दोहा—दोउ समाजु निमिराजु, रघुराजु नहाने प्रात ।

बैठे सब बट विटप तर, मन मलीन कूस गात ॥२६६॥

जनकजी और श्रीरामजी तथा दोनों के समाजों ने प्रातःकाल स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे, सबके मन मलीन और शरीर क्षीण थे ।

जे महिसुर दसरथपुर वासी * जे मिथिलापति नगर निवासी
हंस बँस गुर जनक प्रबोधा * जिन्ह जग मगु परमारथ सोधा

जो ब्राह्मण अयोध्यापुरी और जनकपुर-वासी थे तथा सूर्यवंश के गुरुजी और जनकजी के पुरोहित—जिन्होंने जगत में परमार्थ का मार्ग ढूँढ़ लिया था ।

लगे कहन उपदेश अनेका * सहित धर्म नय विरति विवेका
कौसिक कहि कहि कथा पुरानी * समुझाई सब सभा सुवानी

वे सब धर्म, नीति, वैराग्य और मान युक्त अनेक उपदेश देने लगे । विश्वामित्रजी ने पुरानी कथाएँ कहकर सब सभा को मधुर वाणी से समझाया ।

तब रघुनाथ कौसिकहि कहेऊ * नाथ काल जल बिनु सब रहेऊ

कहव मोर मुनिनाथ निवाहा * एहि तें अधिक कहौ मैं काहा
पुलकित शरीर हो समा में खड़े होगये । कमल-नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आये और घे बोले-
मेरा कहना तो मुनिनाथ ने निवाह दिया । इससे अधिक मैं क्या कहूँ ?

मैं जानउँ निज नाथ सुभाऊ * अपराधिहु पर कोह न काळ
मो पर कृपा सनेहु विसेषी * खेलत खुनिस न कवहुँ देखी
मैं अपने नाथ का स्वभाव जानता हूँ । वे किसी अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते, फिर
मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है । खेलते समय भी क्रोध करते नहीं देखा ।

शिशुपन तें परिहरेउँ न संगू * कवहुँ न कीन्ह मोर मन भंगू
मैं प्रभु कृपा रीति जियँ जोही * हारेहुँ खेल जितावहि मोही

मैंने वचन से ही उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने फभी मेरा मन नहीं तोड़ा । प्रभुकी
कृपा की रीति को मैंने हृदय में पहिचाना है, खेल में हार जाने पर भी वे मुझे जिता देते थे ।
दोहा-महूँ सनेहूँ संकोच वस, सनमुख कही न वैन ।

दरसनु तृपित न आजु लगि, प्रेम पिआसे नैन ॥२५०॥

मैंने भी स्नेह और संकोच वश फभी इनके सामने मुँह नहीं छोला । प्रेम के प्यासे ये
नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए ।

बिधि नसकेउ सहि मोर दुलारा * नीच बीचु जननी मिस पारा
यहउ कहत मोहि आजु न शोभा * अपनी समुझि साधु सुचि कोभा

विद्याता मेरे दुलार को नहीं सह सका, उसने नीच माता के बहाने से भेद डाल दिया । परन्तु
यह कहना आज शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से श्रेष्ठ और पवित्र कौन हुआ है ?

मातु मन्द मैं साधु सुचाली * उर अस आनत कोटि कुचाली
फरइ कि कोदव बालि सुसाली * मुकता प्रसव कि सम्बुक काली

माता 'मन्द-मति' और मैं 'साधु-सुकर्मी' हूँ, ऐसा मन में लाना भी करोड़ी कुचालों के
समान है । क्या कोदों की बालि में भी अच्छे चावल फल सकते हैं ? क्या फाली घोंघी में
मोती पैदा हो सकते हैं ?

सपनेहुँ दोषक लेसु न काहू * मोर अभागु उदधि अवगाहू
बिनु समझें निज अघ परिपाकू * जारेउँ जियँ जननी कहि काकू

स्वप्न में भी किसी का लेशमात्र दोष नहीं है, मेरा अभाग्य ही अवाह समुद्र है । मैंने
अपने पापों का परिणाम समझे बिना माता को टेढ़ेमेढ़े वचन कहकर बूया ही जलाना ।

हृदयँ हेरि हारेउँ सब ओरा * एकहि भाँति भलेहि भल मोरा
गुरु गोसाईँ साहिव सिय रामू * लागत मोहि नीक परिनामू

मैं अपने हृदय में सब ओर धोजकर पक गया । एक प्रकार ही मेरा भला है, यह ऐसे कि गुरे
सर्व-समर्थ हूँ और थीसोता-रामजी मेरे स्वामी हैं, इससे मुझे परिणाम भला जान पड़ता ।

ह विधि बासर बीते चारी * रामु निरखि तर नारि सुखारी
 समाज असि रुचि मन माहीं * बिनु सियराम फिरव भल नाहीं
 इसप्रकार चारदिन बीत गये, सब नर-नारी श्रीरामजी को देखकर सुखी हुए। दोनों समाजों
 मनमें यह इच्छा हुई थी कि सीता और श्रीरामचन्द्रजी के बिना घर लौटना ठीक नहीं है।
 सीता राम सङ्ग वनवासू * कोटि अमरपुर सरिस सुपासू
 परिहर लखन रामु बैदेही * जेहि घर भाव बाम विधि तेही
 सीताजी और श्रीरामजी के साथ वन में वास करना भी करोड़ों स्वर्ग-लोकों के समान
 सुख देने वाला हैं। श्रीराम-लक्ष्मण और सीताजी को छोड़कर, जिसे घर भला लगे-उसक
 तो भाग्य ही उसके विपरीत है।
 दाहिन दइउ होइ जब सबही * राम समीप बसिअ वन तबहीं
 मन्दाकिनि सज्जन तिहुँ काला * राम दरसु मुद मङ्गल माला
 जब सभी पर विधाता की कृपा हो, तभी वन में श्रीरामजी के निकट वास हो सकता है।
 जहाँ तीनों काल मन्दाकिनी में स्नान, आनन्द-मङ्गल की मालारूप श्रीरामजी के दर्शन-
 अटनु रामगिरि वन तापस थल * असनु अमिअ सम कन्दमूल फल
 सुख समेत सब्बत दुइ साता * पल सम होहि न जनिअहिजाता
 श्रीरामजी के पर्वत, वन व तपस्वियों के आश्रमों में विचरण और अमृत के तुल्य कन्द मूल-
 फलों का भोजन, चौदह-वर्ष सुख से पल के समान बीत जायेंगे, जाते हुए मालूम नहीं पड़ेंगे।
 दोहा-एहि सुख जोग न लोग सब, कर्हि कहां असु भागु।
 सहज सुभायँ समाज दुहुँ, राम चरन अनुराग ॥२६८॥
 सब लोग बोले कि इस सुख के योग्य हम लोग नहीं हैं, हम सबके ऐसे भाग्य कहां हैं
 दोनों समाजों का सहज स्वभाव से ही श्रीरामजी के चरणों में प्रेम है।
 एहि विधि सकल मनोरथ करहीं * वचन सप्रेम सुनत मन हरत
 सोय मातु तेहि समय पठाई * दासी देखि सुअवसर अ
 इसी प्रकार सब मनोरथ करते हैं। ऐसे प्रेम-युक्त वचन सुनते ही मनों को हर लेते
 उसी समय सीताजी की माता सुनयनाजी की दासी शुभ अवसर देखकर आईं।
 सावकास सुनि सब सिय सासू * आयउ जनकराज रनि
 कौसल्याँ सादर सनमानी * आसन दिए समय सम उ
 सीताजी की सब सासुओं को फुरसत में सुनकर, महाराज जनकजी का रनिवा
 सबको आसन लाकर दिये।
 सोलु सनेहँ सकल दुहुँ ओरा * द्रव्हि देखि सुनि कुलिस व
 पुलकसिथिलतनुवारि विलोचन * सहि नख लिखन लगीं सब
 दोनों ओर के शील व स्नेह को देखकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। देह

रूपी कुमुद-वन के खिलाने के लिए चन्द्रमा के समान श्रीरामचन्द्रजी समयानुसार वचन बोले-
तात जीहँ जनि करहु गलानी * ईस अधीन जीव गति जानी
तीनि काल त्रिभुवन मत मोरें * पुन्यसि लोक तात कर जोरें

हे तात ! जीव की गति ईश्वर के आधीन हैं, ऐसा जानकर तुम अपने मनमें धृया गलानि मत करो । मेरे मत से तीनों काल और तीनों लोक में जो पुण्यात्मा पुरुष हैं, वे सब तुमसे नीचे हैं ।
उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई * जाइ लोक परलोक नसाई
दोषु देहि जननिहि जड़ तेई * जिन्ह गुर साधु सभा नहि सेई
हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप लाते हो लोक-परलोक दोनों नष्ट हो जायेंगे ।
वही मूर्ख माता केकई को दोष देते हैं, जिन्होंने गुरु और साधु-समाज का सेवन नहीं किया ।
दोहा—मिटिहहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमङ्गल भार ।

लोक सुजसु परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार ॥२५३॥

हे भरत ! तुम्हारा नाम स्मरण करते ही जगत के सब पाप, प्रपंच तथा अमङ्गलों के समूह नष्ट हो जायेंगे और इस लोक में सुपथ तथा परलोक में सुख प्राप्त होगा ।

कहउँ सुभाय सत्य शिव साखी * भरत भूमि रह राउरि राखी
तात कुतरक करहु जनि जाएँ * बैर प्रेम नहि दुरई दुराएँ

हे भरत ! मैं अपने स्वभाव से ही सच कहता हूँ—शिवजी साक्षी हैं, पृथ्वी तुम्हारे ही रखे रह रही है । हे तात ! व्ययं ही कुतर्क मत करो, बैर और प्रीति छिपाने से नहीं छिपती ।

मुनिगन निकट विहंगमृग जाहीं * बाधक बधिक विलोकि पराहीं
हित अनहित पशुपच्छिड जाना * भानुस तनु गुन ग्यान निधाना

मुनिगणों के पास पक्षी-मृग स्वयं चले जाते हैं और बधिक सिंह को देखकर भाग जाते हैं । मित्र और शत्रु को पशु-पक्षी भी जानते हैं, फिर मनुष्य-शरीर तो गुण और ज्ञान से भरा है ।

तात तुम्हाहि मैं जानउँ नीके * करौं काह असमञ्जस जी के
राखेउ रायँ सत्य मोहि त्यागी * तनु परिहरेउ प्रेम पन लागी

हे तात ! मैं तुम्हें भली प्रकार जानता हूँ । परन्तु क्या फल ? जो मैं बड़ी दुविधा है । राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा, और प्रेम प्रण के लिये शरीर को छोड़ दिया ।

तासु वचन मेटत मन सोचू * तेहि तें अधिक तुम्हार संकोचू
तापर गुरु मोहि आयसु दोन्हा * अवसि जो कहहुचहउँसोइकीन्हा

उनके वचनों को मिटाते हुए मन में सोच होता है । उससे भी अधिक तुम्हारा संकोच है । उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिये जो कुछ कहो—यही मैं अवश्य करना चाहता हूँ ।

दोहा—मनु प्रसन्न करि सकुचतजि, कहहु करौं सोइ आजु ।

सत्यसिधु रघुवर वचन, सुनि भा सुखी समाज ॥

राम शपथ मैं कीन्ह न काऊ * सो करि कहउँ सखी सतिभाऊ

ईश्वर की कृपा व आपके आशीर्वाद से मेरे पुत्र व पुत्र-वधु गंगाजीके समानपवित्र हैं। श्रीरामजी की शपथ मैंने कभी नहीं खाई, सो खाकर-हे सखी! मैं सत्य-भाव से कहती हूँकि-

भरत शील गुन विनय बड़ाई * भायप भगति भरोस भलाई
कहत सारदहु करि मति हीचे * सागर सीप कि जाहि उलीचे

भरत का शील-स्वभाव गुण, नम्रता, बड़ाई, भाईपन, भक्ति, भरोसा और भलाई कहते सरस्वती की बुद्धि हिचकती है। क्या सीप से समुद्र का जल उलीचा जा सकता है?

जानउँ सदा भरत कुलदीपा * बार बार मोहि कहेउ महीपा
कसैं कनकु मनि पारिख पाएँ * पुरुष परखिअहि समयँ सुभाएँ

मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ, महाराज ने यह बात मुझसे बार-बार कही थी। सोना कसौटी पर कसने से तथा मणि जौहरी के परखने से ही परखी जाती है और पुरुष का स्वभाव समय पड़ने पर ही जाना जाता है।

अनुचित आजु कहव अस सोरा * सोक सनेहँ सयापन थोरा
सुनि सुरसरि सम पावन बानी * भई सनेहँ विकल सब रानी

आज मेरा ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि शोक व स्नेह के कारण विवेक कम हो गया है। कौशल्याजी की गंगाजी के समान निर्मल वाणी सुनकर सब रानियांप्रेम-मग्न हो गईं।

दौहा-कौशल्या कह धीर धरि, सुनहु देव मिथिलेसि।

को विवेकनिधि बल्लभहि, तुम्हहि सकइ उपदेसि ॥२७२॥

फिर कौशल्याजी ने धीरज धरकर कहा-हे देवी मिथिलेश्वरी! ज्ञान के भण्डार जनकजी की प्रिया (आपको) उपदेश कौन दे सकता है?

रानि रायं सन अवसरु पाई * आपनि भाँति कहव समुझाई
रखिअहिलखनु भरतगवनहिबन * जाँ यह मति मानै महीप मन

हे रानी! अवसर पाकर आप राजा से अपनी ओर से समझाकर कहना कि लक्ष्मण को रख लें और भरत वन को जले जायें, यदि यह सलाह महाराज के मन को अच्छी लगे—

तौ भल जतनु करव सुविचारी * मौरै सोचु भरत कर भारी
गूढ सनेह भरत मन माहीं * रहे नीक मोहि लागत नाहीं

तो भली-भाँति विचार कर यही उपाय करें। मुझे तो भरत का विशेष सोच है, क्योंकि भरतजी के मन में गूढ स्नेह है, इसलिए भरतजी के रहने से मुझे भलाई नहीं लगती।

लखि सुभाउ सुनि सरल सुबानी * सब भई मगन करुनरस सानी
नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि * सिथिल सनेहँ सिद्ध जोगी मुनि

उनका स्वभाव देख व मीठी वाणी सुनकर सब रानियां करुण-रस में मग्न होगईं। आकाश से फूलों की वर्षा और 'धन्य-धन्य' की ध्वनि होने लगी, सिद्ध व मुनि स्नेह में मग्न हो गये।

देवगुरु व देवताओं की सलाह तथा सोच सुनकर अन्तर्यामी श्रीरामजी को सज्जोच हुआ । भरतजी ने अपने ही सिर पर घोड़ जाना तो हृदय में अनेक प्रकार के अनुमान करने लगे ।

करि विचार मन दीन्ही ठोका * राम रजायसु आपन तीका निज पनतजि राखेउ पनु सोरा * छोहु सनेहु कीन्ह नहि थोरा

फिर विचार करते- मनमें यह निश्चय किया कि श्रीरामजी की आज्ञा मानने में ही भलाई है । उन्होंने अपना प्रण छोड़कर-मेरा प्रण रखा, यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं है ।

दोहा-कीन्ह अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ ।

करि प्रनामु बोले भरत, जोरि जलज जुग हाथ ॥२५६॥

श्रीसीतापति ने मुझ पर सब प्रकार से अतिशय कृपा की है । तदनन्तर भरतजी कर-कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले-

कहाँ कहाँ का अब स्वामो * कृपा अम्बुनिधि अन्तरजामी गुर प्रसन्न साहिव अनुकूला * मिटो मलिन मन कल्पित शूला

हे स्वामो ! अब मैं क्या कहूँ और कहाऊँ ? आप दया के समुद्र और अन्तर्यामी हैं । गुरदेव को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे पापी मन का कल्पित दुःख मिट गया ।

अपडर डरेउँ न सोच समूलें * रविहि न दोष देव विसि भूलें मोर अभागु मातु कुटिलाई * विधिगति विपम काम कठिनाई

मैं झूठे डर से ही डर गया, सोच करने की कोई जड़ ही नहीं थी । विद्या भूलने पर सुख का दोष नहीं है । मेरा कुभाग्य, माता की कुटिलता, विघाता को उल्टी गति और समय की कठिनता-

पाँउ रोपिसवमिलि मोहि घाला * प्रनतपाल पन आपन पाला यह नइ रीति न राउरि होई * लोकहुँ वेद विदित नहि गोई

इन सबने पाँव रोप कर मुझे मारना चाहा, परन्तु हे शरणागत-रक्षक प्रणतपाल ! आपने अपने प्रण निवाहा । यह आपको नई रीति नहीं है, यह लोक तथा देवों में प्रकृत है, छिपी नहीं है ।

जगु अनभल भल एकु गोसाई * कहिअ होइ भल कासु भलाई देउ देवतरु सरिस सुभाऊ * सनमुख विमुख न काहुहि काऊ

हे प्रभु ! संसार चुरा कहे, केवल आप ही अनुकूल हों, फिर कहिये-किसकी भलाई में भला हो सकता है ? हे देव ! आपका स्वभाव कल्पवृक्ष के तुल्य है, किसी के अनुकूल तथा प्रतिकूल नहीं है ।

दोहा-जाइ निकट पहिचान तरु, छाँह समनिसव सोच । माँगत अभिमत पाव जग, राउ रंकु भल पाव ॥२५७॥

जो कल्पवृक्ष को पहिचान कर उसके पास जाता है, तो उसकी छाया से ही सब नोच दूर हो जाते हैं । राजा-रंक, भला-बुरा सभी उससे माँगते ही मन-चाही वस्तु पाते हैं ।

लखिसवविधिगुरु स्वामि सनेहु * मिटेउ छोमु नहि मन स

तपस्विनी के वेष में देखकर अत्यन्त व्याकुल हुए ।

जनक राम गुरु आयसु पाई * चले थलहि सिय देखी आई
लीन्हि लाइ उर जनक जानकी * पाहुनि पावन प्रेम प्रान की

जनकीजी-श्रीरामजी वगुरु की आज्ञा पाकर डेरे को चले और उन्होंने आकर सीताजी को देखा । जनकजीने अपने प्रेम व प्राणों की पवित्र पाहुनी जानकीजी को हृदय से लगा लिया ।

उर उमगेउ अम्बुधि अनुरागू * भयउ भूप मनु मनहुं प्रयागू
सिय सनेह बहु बाढ़त जोहा * तापर राम प्रेम शिशु सोहा

हृदय में स्नेह का समुद्र उमड़ पड़ा, राजा का मन प्रयाग हो गया, उसमें उन्होंने सीताजी का स्नेह रूपी वृक्ष बढ़ते देखा, उस पर श्रीरामजी का स्नेहरूपी बालक शोभायमान है ।

चिरजीवी मुनि ग्यान विकल जनु * बूड़त गहेउ बाल अवलम्बनु
सोह सगत सति नाहि विदेह की * सहिमा सिय रघुवर सनेह की

जनकजी को ज्ञानरूपी मार्कण्डेय-मुनि मानो, विकल होकर डूबते २ उस बालक का सहारा पाकर बच गया । जनकजी की बुद्धि कभी सोह में मग्न नहीं है, यह तो श्रीसीता-रामजी के स्नेह की महिमा है ।

दोहा-सिय पितु मातु सनेह बस, विकल न सकी सँभारि ।

धरनि सुताँ धीरजु धरेउ, समउ सुधरम विचारि ॥२७५॥

पिता-माता के स्नेह वश सीताजी विकल होकर अपने को सँभाल नहीं सकी, तो भी भूमि-सुता सीताजी ने समय और श्रेष्ठ धर्म को विचार कर धीरज-धारण किया ।

तापस वेष जनक सिय देखी * भयउ प्रेम परितोषु विसेषी
पुत्रि पवित्र किए कुल दोऊ * सुजसु धवल जगु कह सबु कोऊ

तपस्विनी के वेष में सीताजी को देख जनकजी को बड़ा प्रेम व संतोष हुआ । वे बोले-हे पुत्री ! तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, तुम्हारा निर्मल यश जगत में सब कोई वर्णन करेंगे ।

जितिसुरसरिकीरति सरि तोरी * गबनु कीन्ह विधि अण्ड करोरी
गङ्गा अवनि थल तीनि बड़ेरे * एहि किए साधु समाज घनेरे

तुम्हारी कीर्तिरूपी नदी गङ्गाजी को भी जीत कर करोड़ों ब्रह्माण्डों में वह चली । गङ्गाजी ने तो पृथ्वी पर तीन ही प्रमुख स्यान बनाये हैं, परन्तु तुम्हारी कीर्ति का तो अनेकों साधुजनों के समाज में स्यान है ।

पितु कह सत्य सनेहुं सुवानी * सीय सकुच महुं मनहुं समानी
पुनि पितुमातु लीन्हि उर लाई * सिय आसिष हित दीन्हि सुहाई

पिता जनक ने तो सच्चे स्नेह से सनी वाणी कही, परन्तु सीताजी सकुचाकर मानो सङ्कोच में समा गईं । फिर पिता-माता ने हृदय से लगाकर हितकारी शिक्षा और सुन्दर आशीर्षदी ।

कहति न सीय सकुचि मनमाहीं * इहाँ बसब रजनी भल नाहीं

अब कृपाल मोहि सो मत भावा * सकुचि स्वामि मन जाहुँ नपावा
प्रभु पद शपथ कहउँ सतिभाऊ * जग मङ्गल हित एक उपाऊ

अब तो मुझे यही विचार श्रेष्ठ लगता है, जिससे स्वामी का मनसंकोच न पावे। प्रभुके चरणोंकी शपथ खाकर मैं सत्य-भाव से कहता हूँ कि संसार में मङ्गल के लिए यही एक उपाय है।

दोहा—प्रभु प्रसन्न मुख सकुचतजि, जो जेहि आयसु देव।

सो सिरधरिधरि करहि सबु, मिटहि अमिट अवरैव ॥२५८॥

हे प्रभु ! आप प्रसन्न मन हो, संकोच को त्यागकर जिसे जो आज्ञा देंगे—उसे सब तिर चढ़ा-चढ़ाकर करेंगे और सब झंझट दूर हो जायगा !

भरत वचन सुचि सुनि सुर हरषे * साधु सराहि सुमन बहु वरषे
असमंजस बस अवध निवासी * प्रमुदित मन तापस वनवासी

भरतजी के शुद्ध वचन सुन प्रसन्न होकर देवताओं ने साधुवाद कहकर सराहना करके फूल बरसाये। अयोध्यावासी सब दुविधा में पड़ गये, तपस्वी और वनवासी मन में बहुत प्रसन्न हुए।

चुपहि रहे रघुनाथ संकोची * प्रभु गति देखि सभा सब सोची
जनक दूत तेहि अवसर आए * मुनि वसिष्ठ सुनि वेग बोलाए

किन्तु संकोची—श्रीरघुनाथजी चुप हो रहे, प्रभु की उस मौन स्थिति को देखकर सब सभा सोच में पड़ गई। उसी समय 'जनकजी के दूत आये हैं' यह सुनकर मुनि वशिष्ठजी ने उन्हें तुरन्त बुला लिया।

करि प्रनाम जिन्ह रामु निहारे * वेपु देखि भए निपट दुखारे
दूतन्ह मुनिवर बूझी वाता * कहहु विदेह भूप कुसलाता

उन्होंने प्रणाम करके श्रीरामजी को देखा, तो उनका वेप देखकर वे बहुत दुःखी हुए। मुनिवर वशिष्ठजी ने उनसे कुशल पूछी कि कही—'महाराज जनकजी कुशलपूर्वक तो हैं ?'

सुनि सकुचाय नाय महि माथा * बोले चर वर जोरें हाया
वृक्षव राउर सादर साँई * कुसल हेतु सो भयउ गोसाँई

यह सुनकर वे श्रेष्ठ दूत सकुचा कर हाथ जोड़, पृथ्वी पर मस्तक नवाकर बोले—हे प्रभो ! आपका सुन्दर प्रश्न ही कुशल का कारण होगया।

दोहा—नाहिंत कौशलनाथ के, साथ कुशल गइ नाय।

मिथिला अवध विसेष तें, जगु सब भयउ अनाय ॥२६०॥

नहीं तो—हे नाथ ! कुशल तो कौशलनाथ के साथ ही गई। वैसे तो सब संसार ही अनाथ हो गया है, परन्तु मिथिला और अवध तो विशेष करके अनाथ होगई।

कोशलपति गति सुनि जन कौरा * भे सब लोक शोक बस वौरा
जेहि देखे तेहि समय विदेह * नामु सत्य अस लाग न केहू

कौशलनाथ की गति सुनकर जनकपुर-वासी दुःख के मारे पागल होगये। उसने उस समय विदेहराज जनकजी को देखा, ऐसा कौन है—जिसको उनका 'विदेह' नाम सत्य न लगा हो ?

वरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ * तिय जिय की रचिलखि कहराऊ
वहुरहि लखनु भरतु वन जाहीं * सबकर भल सबके मन माहीं

भरतजी के उत्तम भावको प्रेम के साथ वर्णन करके महारानी के मनकी रचि देख, राजा बोले-लक्ष्मणजी लौटें, भरतजी वन को जायें, इसी में सबका भला है और यही सबके मन में है।

देवि परन्तु भरत रघुवर की * प्रीति प्रतीति जाइ नहि तरकी
भरतु अवधि सनेह समता को * जद्यपि राम सोई समता को

परन्तु, हे देवि ! भरत और श्रीरामजीकी प्रीति और प्रतीति में तर्क नहीं किया जा सकता। यद्यपि श्रीरामजी समता की सीमा हैं, तो-भरतजी भी प्रेम और स्नेह की सीमा हैं।

परमार्थ स्वारथ सुख सारे * भरत न सपनेहुँ मनहुँ निहारे
साधन सिद्धि राम पद नेहू * सोहि लखि परत भरत मत ऐहू

भरतजी ने परमार्थ, स्वार्थ और सुख स्वप्न में भी नहीं देखे। श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में प्रेम ही उनके साधन और सिद्धि है। भरतजी का एक यही मत मुझे समझ पड़ता है।

दोहा-भारेहुँ भरत न पेलिअहिं, मन सहूँ राम रजाइ।

करिअ न सोच सनेहँ वस, कहेउ भूप विलखाइ ॥२७८॥

राजा ने बिलखकर कहा-हे रानी ! भरतजी बूलकर स्वप्न में भी श्रीरामजी की आज्ञा को नहीं टालेंगे। अतः स्नेह के वश कुछ भी सोच मत करो

राम भरत गुन गनत सप्रीति * लिसि दम्पतिहि पलकसमवीती
राम समाज प्रात जुग जागे * न्हाइ न्हाइ सुर पूजन लागे

श्रीरामजी व भरतजी के गुणोंको प्रेम पूर्वक कहते-सुनते राजा-रानी को यह रात पल के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज-समाज जागे और स्नान करके देवताओं की पूजा की।

गे नहाय गुरु पहिं रघुराई * बन्दि चरन बोले रुख पाई
नाथ भरत पुरजन महतारो * सोक विकल वनवास दुखारी

श्रीरघुनाथजी स्नान करके गुरु के पास गये और उनके चरणों में प्रणाम करके उनका रुख पाकर बोले-हे नाथ ! भरतजी, अयोध्यावासी और सब मातायें शोक से व्याकुल एवं वनवास से दुखी हैं।

सहित समाज राउ मिथिलेसू * बहुत दिवस भए सहत कलेसू
उचित होइ सोइकीजिअ नाथा * हित सवहीं कर रोरे हाथा

राजा जनकजी को भी अपने समाज सहित क्लेशित रहते हुए, बहुत दिन होगये। अतः हे नाथ ! जैसा उचित हो-बैसा ही कीजिए, क्योंकि सबका हित आपके ही हाथ में है।

अस कहि अति सकुचे रघुराऊ * मुनि पुलके लखि सील सुभाऊ
तुम्ह बिनु राम सकल सुखसाजा * नरक सरिस दुहुँ राज समाजा

पिता कह श्रीरघुनाथजी बहुत सकुचाये, तब मुनि उनके शील-स्वभाव को देखकर पुलकित हो

मुनिवर वशिष्ठजी ने छः-सात भीलों को साथ में लेकर तुरन्त उन दूतों को विदा किया ।

दोहा—सुनत जनक आगमनु सब, हरषेउ अवध समाजु ।

रघुनन्दनहि सँकोचु बड़, सोच विवस सुरराजु ॥२६२॥

जनकजी का आना सुनते ही अयोध्यावासी प्रसन्न हुए, श्रीरामजी को बड़ा सज्जोच हुआ और देवराज इन्द्र सोच में डूब गये ।

गरइ गलानि कुटिल कैकई * काहि कहै केहि दूपनु देई
अस मन मानि मुदित नरनारी * भयउ बहोरि रहव दिन चारी

कुटिल कैकई लाज व दुःख के मारे गली जातो है, क्या कहे और किते दोष दे ? नर-नारी सब अपने २ मन में यह जानकर प्रसन्न हुए कि अब चार दिन और रहना हो जायगा ।

एहि प्रकार गत बासर सोऊ * प्रात नहान लाग सब कोऊ
करि मज्जनु पूजाहिं नर नारी * गनपति गौरि पुरारि तमारी

इस तरह वह दिन भी ध्यतीत हो गया, दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे । सब स्त्री-पुरुष स्नान करके गणेश, पार्वती, महादेव और सूर्यनारायण की पूजा करने लगे ।

रमा रमनि पद वन्दि बहोरी * बिनवाहिं अंजुलि अंजल जोरी
राजा रामु जानकी रानी * आनँद अवधि अवध रजधानी

फिर लक्ष्मीपति भगवान् श्रीहरि के चरणों में प्रणाम कर, हाथ जोड़, आंचल पसारकर प्रार्थना करने लगे कि श्रीरामजी राजा हों और जानकीजी महारानी हों तथा आनन्द की सीमा अयोध्या राजधानी हो ।

सुबस बसउ फिर सहित समाजा * भरतहि रामु करहु जुवराजा
एहि सुख सुधा सींचि सब काहु * देव देहु जग जीवन लाहु

फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और भरतजी को श्रीरामजी युवराज बनायें । हे देव ! इसे सुखरूपी अमृत से सींचकर सबको संसार में जन्म पाने का साम बोजिये ।

दोहा—गुरु समाज भाइन्ह सहित, राम राजु पुर होउ ।

अछत राम राजा अवध, मरिअ माँगु सब कोऊ ॥२६३॥

गुरु समाज और भाइयों समेत अयोध्यापुरी में श्रीरामचन्द्रजी का राज्य हो । उनके राजा रहते हुए ही हम मरें—सब यही फल माँगते हैं ।

सुनि सनेहमय पुरजन बानी * निर्दाहिं जोग विरति मुनिग्यानी
एहिविधि नित्यकर्म करिपुरजन * रामहि करि प्रनाम पुलकि तन

अयोध्यावासियों की प्रेममयी वाणी सुन ज्ञानी मुनि अपने योग-बैराग्य की निन्दा करते हैं । इस प्रकार नित्य-कर्म करके अयोध्यावासी प्रसन्न मन से श्रीरामचंद्रजी को प्रणाम करते हैं ।

ऊँच नीच मध्यम नर नारी * लहहिं दरसु निज निज अनुहारै
सावधान सबही सनमानहिं * सकल सराहत कृपानिधानि

राजाने रामजी को तो वनमें जाने को कहा और अपने प्रिय के स्नेह को प्रमाणित सत्य कर दिया। परन्तु अब हम इन्हें वनको भेजकर अपने ज्ञानकी बड़ाई में आनन्दित हुए लौटेंगे।

तापस मुनि सहिसुर मुनि देखी * भए प्रेम बस विकल विसेषी
समउ समुझि धरि धीरजु राजा * चले भरत पहिंह सहित समाजा

तपस्वी, मुनि और ब्राह्मणयह देख और सुनकर स्नेह के वश बहुत व्याकुल हुए। राजा समय विचार धारण कर समाज सहित भरतजी के पास चले।

भरत आइ आगे होइ लीन्हे * अवसर सरिस सुआसन दीन्हे
तात भरत कह तेरहुति राऊ * तुम्हहिं विदित रघु वीर सुभाऊ

भरतजी ने उन्हें आगे आकर लिया और समयानुसार सुन्दर आसन दिये। राजाजनक जी बोले—हे तात भरत ! तुमको श्रीरामजी का स्वभाव मालूम ही है।

दोहा—राम सत्यव्रत धरम रत, सब कर सीलु सनेहु।

सङ्कट सहत संकोच बस, कहिअ जो आयसु देहु ॥२८१॥

श्रीरामजी सत्यव्रती और धर्म-परायण हैं, वे सबके शील तथा स्नेह से संकोच वश संकट सहते हैं। अब तुम जो आज्ञा दो, वह उनसे कही जाय।

मुनि तनु पुलकि नयनभरि बारी * बोले भरतु धीर धरि भारी
प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू * कुलगुरु सम हित माय न बापू

यह सुन भरतजी पुलकितदेह हो, नेत्रोंमें जलभरकर धैर्य धरकर बोले—हे प्रभु! आप हमारे पिता के समान प्रिय व पूज्यनीय हैं और कुलगुरु वशिष्ठजी के समान हितकारी माता-पिता भी नहीं हैं।

कौंसिकादि मुनि सचिव समाजू * ग्यान अम्बुनिधि आपुन आजू
शिशु सेवक आयसु अनुगामी * जानि मोहि सिख देइअ स्वामी

विश्वामित्रजी आदि मुनि और मंत्री लोगों का समाज है और ज्ञानके समुद्र आपभी आज यहाँ विद्यमान हैं, हे स्वामी ! मुझे अपना बालक, सेवक और आज्ञाकारी जानकर शिक्षा दीजिये।

एहि समाज थल बूझव राउर * मौन मलिन मैं बोलव बाउर
छोटे बदन कहउँ बड़ि बाता * छसब तात लखि बाम विधाता

इस समाज में ऐसे स्थान पर आपका पृच्छना। मौन रहने पर मैं मलिन मन एवं बोलने पर पागल समझा जाऊँगा। हे तात ! छोटे मुँह से बड़ी बात कहें तो विधाता को उलटा जानकर क्षमा कीजियेगा।

आगम निगम प्रसिद्ध पुराना * सेवा धरमु कठिन जगु जाना
स्वामि धरम स्वार्थहिं विरोधू * बैर अन्ध प्रेमहि न प्रबोधू

यह शास्त्र, वेद तथा पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म कठिन है स्वामी-धर्म और स्वार्थ में विरोध है, बैर अन्धा है और प्रेम में प्रबोध नहीं रहता।

दोहा—राखि रामरुखा धरमु व्रत, पराधीन मोहि जानि।

सेन मनहुँ करुना सहित, लिएँ जाहि रघुनाथु ॥२६५॥

श्रीरामजी का आश्रम-शान्त-रसरूपी निर्मल जल से भरा हुआ है। जनकजी को सेना मानो करुणा की नदी है, उसे श्रीरघुनाथजी लिये जाते हैं।

बोरति ग्यान विराग करारे * वचन ससोक मिलत नद नारे
सोक उसास समीर तरङ्गा * धीरज तट तरुवर कर भङ्गा

वह नदी-ज्ञान-वैराग्यरूपी दोनों किनारों को डुबोती जाती है। उसमें दुःख भरे वचन रूपी नदी व नाले मिलते हैं शोक को आहो-पवन की तरह हैं, जो धीरजरूपी किनारे के सुन्दर वृक्षों को उखाड़ती हैं।

विषम विषाद तोरावति धारा * भय भ्रम भँवर अवर्त अपारा
केवट बुध विद्या बड़ि नावा * सकहिं न खेइ एक नाहिं आवा

असह्य दुःख ही नदी की तेज धारा है, भय व मोह असंख्य भँवर व चक्र हैं। बन्धुजन केवट हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, पर वे इसे 'धे' नहीं सकते, नाव को सेनाएक को भी नहीं आता।

वनचर कोल किरात विचारे * थके विलोकि पथिक हियेँ हारे
आश्रम उदधि मिली जब आई * मनहुँ उठेउ अम्बुधि अकुलाई

वन के रहने वाले 'भील' चीन-यात्री हैं, जो नदी को देखकर हारकर पक गये हैं। यह करुणारूपी-नदी आश्रमरूपी समुद्र में जा मिली, तब मानो वह समुद्र व्याकुल हो उठा।

सोक बिलक दोउ राज समाजा * रहा न ग्यानु न धीरज लाजा
भूप रूप गुन सील सराही * रोवहिं सोक सिंधु अवगाही

दोनों राज-समाज दुःख से व्याकुल हो गये, उनमें न ज्ञान रहा, न धीरज और न साज सब जाते रहे। महाराज दशरथजी के रूप, गुण, शील की बड़ाई करते हुए सब रो-रोकर शोक-सागर में डुबकी लेने लगे।

छन्द-अवगाह सोक समुद्र सोचहिं नारि नर व्याकुल महा ।

द्वै दोष सकल सरोष बोलहिं वाम विधि कीन्हों कहा ॥

सुर सिद्ध तापस जोगिजन मुनि देखि दसा विदेह की ।

तुलसी न समरथ कोउ जो तरि सकै सरित सनेह की ॥

तुलसीदासजी कहते हैं कि शोक-सागर में डुबकी लेते हुए सब स्त्री पुरुष बड़े व्याकुल होकर सोचने लगे और विधाता को दोष देकर क्रोध से कहने लगे कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया ? देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगीजन, मुनि, विदेहराज जनकजी की दशा देखकर कोई भी ऐसा सामर्थ्य वाला नहीं है, जो प्रेम की नदी के पास जा सके।

सो०-किएँ अमित उपदेश, जहँ तहँ लोगन्ह मुनिवरन्ह ।

धीरज धरिअ नरेस, कहेउ वसिष्ठ विदेह सन ॥११॥

भरतजी की मति फेरने को कहते हो, क्या हजार नेत्र होने पर भी तुम्हें सुमेरु नहीं सूझता
विधि हरि हर साया बड़ि भारी * सोउ न भरत मति सकइ निहारी
सो मति मोहि कहत कर भोरी * चन्दनि कर कि छण्ड करि चोरी

ब्रह्मा, विष्णु, महेश की माया बड़ी प्रबल है, वह भी भरतजी को बुद्धि की ओर नहीं देख
सकती। उस मति को मुझसे कहते हो कि फेर दो, क्या चांदनी सूर्य को चुरा सकती है ?

भरत हृदयँ सिय राम निवासू * तहँकि तिमिर जहँ तरनि प्रकासू
अस कहि सारद गइ विधि लोका * बिबुध विकल निसि मानहुँ कोका

भरतजी के हृदय में श्रीसीता-रामजी वास करते हैं। जहां सूर्य का प्रकाश है—वहाँ क्या
बँधेरा रह सकता है ? ऐसा कहकर सरस्वतीजी ब्रह्म-लोक को चली गईं। तब देवता ऐसे
व्याकुल हुए, जैसे रात को चकवा।

दोहा—सुर स्वारथी मलीन मन, कीन्ह कुमन्त्र कुठाडु।

रचि प्रपंच साया प्रबल, भय भ्रम करम उचाडु ॥२८४॥

स्वार्थी और मलीन-मन देवों ने कुमन्त्र करके षडयन्त्र रचा। प्रबल माया रचकर भय
भ्रम, दुःख और उच्चाटन फैला दिया।

करि कुचालि सोचत सुरराजू * भरत हाथ सबु काजु अकाजू
गए जनकु रघुनाथ समीपा * सनमाने सब रविकुल दीपा

उपद्रव करके इंद्र सोचने लगे कि अब भरतजी के हाथ में ही सब कामों का सुधारना
और बिगाड़ना है। महाराज जनकजी श्रीरघुनाथजी के पास आये, तब सूर्य कुल के दीपक
श्रीरामचन्द्रजी ने सबका सम्मान किया।

समय समाज धरम अविरोधा * बोले तब रघुवंस पुरोधा
जनक भरत सम्बाडु सुनाई * भरत कहाउति कही सुहाई

तब रघुवंशियों के पुरोहित वशिष्ठजी—समय, समाज एवं धर्म के अनुसार वचन बोले—
उन्होंने प्रथम जनक और भरतजी का सम्वाद सुनकर, भरतजी की सुन्दर बातें कह सुनाई।

तात राम जस आयसु देहू * सो सबु कर मोर मत ऐहू
सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी * बोले सत्य सरल मृदु बानी

वे बोले—हे तात रामजी ! आप जो आज्ञा दे—वही सब करें, मेरा तो यही मत है ! यह
सुनकर श्रीरघुनाथजी हाथ जोड़कर सत्य, सरल और मधुर वाणी बोले—

विद्यमान आपुनि मिथिलेसू * मोर कहव सब भाँति भदेसू
राउर रायँ रजायसु होई * राउरि सपथ सही सिर सोई

आप एवं महाराज जनकजी के उपस्थित रहते, मेरा कहना सब नाँतिले अव्योम्य है। आप
और राजाकी जो आज्ञा होगी, आपकी शपथखाकर कहता हूँ कि मैं उसे ही शिरोधार्य कहूँगा।

दोहा—राम सपथ सुनि सुनि जनक, सकुचे सभा समेत।

सकल विलोकि भरत सुख, बनइ न उतर देत ॥२८५॥

मुनि कह उचित कहत रघुराई * गयउ बीति दिन पहर अढ़ाई

तब श्रीरघुनाथजी ने विश्वामित्रजी से कहा—कल सब सोग निजंत ही रहे हैं। यह मुनिकर मुनि ने कहा—श्रीरघुनाथजी ठीक कहते हैं, आज भी ढाई पहर दिन बीत गया है।

ऋषिरुख लखिकह तेरहुतिराजू * इहाँ उचित नाहि असन अनाजू

कहा भूप भल सबहि सोहाना * पाइ रजायसु चले नहाना

ऋषि विश्वामित्रजी का रूप देखकर राजा जनकजी कहने लगे कि यहाँ अन्न का भोजन ठीक नहीं है। राजा का यह कथन सबको भला लगा, तब आत्मा पाकर स्नान करने चले।

दोहा—तेहि अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार।

लइ आए वनचर विपुल, भरिभरि काँवरि भार ॥२६७॥

उसी समय वनके रहने वाले कोल-भील अनेकों प्रकार के फल फूल, पत्ते और काँव-मूल बड़ी-बड़ी काँवरों में भर कर ले आये।

कामद भे गिरि राम प्रसादा * अवलोकत अपहरत विषादा

सर सरिता वन भूमि विभागा * जनु उमंगत आनंद अनुरागा

पर्वत श्रीरामजी की कृपा से मन-चाही वस्तु देने वाला हो गया। यह वरान मात्र से ही सब दुःख दूर करने लगा और वहाँ के सरोवर नवियाँ वन और भूमि में मानो प्रेम और आनन्द उमड़ रहा है।

बेलि विटप सब सफल सफूला * बोलत खग मृग अति अनुकूला

तेहि अवसर वन अधिक उछाहू * त्रिविध समीर सुखद सब काहू

लतायें और वृक्ष—फल-फूलों से लदे हैं, पक्षी मृग और भौरे अनुकूल बोलते हैं। उससमय वन में बहुत आनन्द आगया, सबको सुखदायक शीतल, मन्द और सुगन्धित पवन बहने लगे।

जाइ न वरनि मनोहरताई * जनु महि करत जनक पहुनाई

तब सब लोग नहाइ नहाई * राम जनक मुनि आयसु पाई

देखि देखि तरुवर अनुरागे * जहँ तहँ पुरजन ठहरन लागे

दल-फल मूल कन्द विधि नाना * पावन सुन्दर सुधा समाना

वहाँ की उस समय की सुन्दरता कही नहीं जा सकती, मानो भूमि जनकजी की पहुनाई कर रही हो। तब सब लोग स्नान करके श्रीरामचन्द्रजी, जनकजी और मुनि की आज्ञा पाकर सुन्दर वृक्षों को देखकर प्रेमपूर्वक जहाँ-तहाँ ठहरने लगे। सुन्दर पवित्र और अमृत के तुल्य अनेक प्रकार के पत्ते, फल और कन्द-मूल आदि—

दोहा—सादर सब कहँ रामगुर, पठए भरि भरि भार।

पूजि पितर सुर अतिथिगुर, लगे करन फलहार ॥२६८॥

श्रीराम-गुरु वशिष्ठजी ने सामान डालियों में भर-भरकर आदर सहित सबके पास भेजे। तब वे पितर, देवता, गुरु और अतिथि का पूजन करके फलाहार करने लगे।

जग भल षोच ऊँच अरु नीच * अमिअ अमरपद माहुरु मोचू

में प्रभु और पिताजी के वचनों का मोह के वश उल्लंघन कर समाज को इकट्ठा करके यहाँ आया हूँ। जगत में भले-दुरे, ऊँच-नीच, अमृत और स्वर्ग, विषय तथा मृत्यु आदि-

राम रजाइ सैट मन माहीं * देखा सुना कतहुँ कोउ नाही
सो मैं सब विधि कीन्हि ठिठाई * प्रभु मानी सनेह सेवकाई

कोई भी ऐसा नहीं देखा-सुना, जो श्रीरामजी की आज्ञा को मेटने वाला हो। मैंने हर प्रकार की ठिठाई की, परन्तु प्रभु ने उसे सेवकाई मान लिया।

दोहा-कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन्ह भल मोर।

दूषण भे भूषण सरिस, सुजसु चारु चहुँ ओर ॥२८७॥

हे नाथ ! आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरे दोष भी भूषण होगये और सुयश भी चारों ओर फैल गया।

राउरि रीति सुबानि वड़ाई * जगत विदित निगमागम गाई
कूर कुटिल खल कुमति कलङ्गी * नीच निसील निरीस निसङ्गी

आपकी रीति और सुन्दर बाणी की वड़ाई जगत में प्रसिद्ध है, जो वेद-शास्त्रों ने भी गाई है और जो महा निर्दयी, खोटे, दुष्ट, दुर्बुद्धि, दोषी, शीलरहित, नास्तिक तथा निडर हैं।

तेउ सुनि सरन सामुहें आए * सुकृत प्रनामु किहें अपनाए
देखि दोष कबहुँ न उर आने * सुनि गुन साधु समाज बखाने

ये भी अपने सम्मुख शरण में आये सुनकर कई बार प्रणाम करने पर भी आपने अपना लिये, उनके दोष देख आप कभी मनमें नहीं लाये और उनके गुण सुन साधुजनों के समाज में कहे।

को साहिब सेवकाहि नेवाजी * आपु समान साज सब साजी
निज करतूति न समुझिअ सपनें * सेवक सकुच सोचु उर अपने

ऐसा स्वामी कौन है, जो अपने सेवक की रक्षा कर अपने समान उसके राज सजादे ? आप अपनी करनी का स्वप्न में भी विचार न कर, सेवक के संकोच का सोच अपने हृदयमें रखते हैं।

सो गोसाईं नहि दूसर कोपी * भुजा उठाइ कहउँ पन रोपी
पशु नाचत शुक पाठ प्रवीणा * गुन गति नट पाठक आधीना

ऐसा स्वामी आपके सिवाय कोई नहीं है, मैं यह भुजा उठाकर कहता हूँ। पशु नाचने और पक्षी पाठ में प्रवीण हो जाते हैं। इनके गुण व गति पढ़ाने व नचाने वाले के आधीन हैं।

दोहा-यों सुधारि सनमानि जन, किये साधु सिरमौर।
को कृपाल बिनु पालिहै, विरिदावलि बरजोर ॥२८८॥

ऐसे आपने अपने सेवक को सुधारकर उसका सम्मान करके साधुओं का शिर मौर बना दिया। आप जैसे दयालु के बिना हठ पूर्वक सुयश का पालन कौन करेगा ?

सोक सनेहँ कि बाल सुभाएँ * आयउँ लाइ रजायसु वाएँ

और शिथिल है, नेत्रों में आंसू हैं, सब पायों के नखों से पृथ्वी पर लिखने व सोचने सगों ।
सब सिय राम प्रेम किसि मूरति * जनु करना बहु वेप विसूरति
सोय मातु कह बुध विधि बांकी * जो पय फेनु फोरि पवि टांकी
 वे सब श्रीसीता-रामजी के प्रेम की-सी मूर्तियां हैं, मानो कष्टना अनेक रूप धारण कर चिन्ता कर रही हैं । सीताजी की माता ने कहा-विधाता को मति देवी है, जो दूध के फेन की बच्च की टांकी से फोड़ रहा है ।

दोहा-सुनिअ सुधादेखिअहि गरल, विधि करतूति कराल ।

जहँ तहँ काक उलूक बक, मानस सरित मराल ॥२७०॥

अमृत फेयल सुना हो जाता है और विष देखने में आता है, विधाता की करतूत भयङ्कर है ।
 कोए, उल्लू और बगुला तो जहां-तहां मिलते हैं, पर हंस तो मानसरोवर पर ही मिलते हैं ।
सुनि ससोच कह देवि सुमित्रा * विधिगत वडि विपरीत विचित्रा
जो सृजि पालइ हरइ बहोरी * बाल केलि सम विधि मति भोरी
 यह सुनकर सुमित्राजी दुःख के साथ बोलों-विधाता की गति बड़ो उल्टी और अनौप्यो है, जो संसार को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है । विधाता की बुद्धि बालक के खेल के समान भोली है ।

कौशल्या कह दोषु न काहू * करम विवस दुख सुखछति लाहू
कठिन करमगति जान विधाता * सो सुभ असुभ सकल फल दाता

कौशल्याजी ने कहा-दोष किसी का नहीं है, दुःख-सुख, हानि-लाभ कर्म के आधोन हैं । कर्म की कठिन गति को विधाता ही जानता है और वही भले-बुरे कर्मों का फल देता है ।
ईस रजाइ शीश सबही केँ * उत्पत्ति तिथिलय विपहु अमीकेँ
देवि मोहि बस सोचिअ वादो * विधि प्रपंच अस अटल अनादो

ईश्वर की आज्ञा सभी केसिर पर है, उत्पत्ति, पालन, संसार-विषय व अमृत के भी सिर पर हैं । हे देवि ! मोहवश सोच करना बुरा है, क्योंकि विधाता का प्रपंच ऐसा ही अटल व अनादि है ।

भपति जिअव मरव उर आनी * सोचिअसखिलखिनिज हितहानी
सोय मातु कह सत्य सुबानी * सुकति अवधि अवधपति रानी

हे सखी ! महाराज के जीने व मरने को हृदय में लाकर सोचें, तो हृदय अपने हितको हानि को समझ सकती हैं । सीताजी की माता ने कहा-आपका कहना श्रेष्ठ और सत्य है, आप पुण्यमाओं की सीमाहृषी अपोध्यानाय की रानी ही तो हैं ।

दोहा-लखनु रामसिय जाहुँ वन, भल परिनाम न पोचु ।

गहवरि हियँ कह कौसिला, मोहि भरत कर सोचु ॥२७१॥

कौशल्याजी भरे हृदय से बोलों-श्रीराम, लक्ष्मण और सीता वन को जायें, इसका परिणाम अच्छा ही होगा-बुरा नहीं । परन्तु मेरे लिए तो भरत का सोच है ।

ईस प्रसाद असोय तुम्हारी * सुत सुतवधू देवसरि

कृपासिन्धु सनमानि सुबानी * बैठाए समीप गहि पानी
भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ * सिथिल सनेहँ सभा रघुराऊ

कृपासिन्धु श्रीरामजीने मीठी वाणी से सत्कार कर हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बिठाया। भरतजीके वचन सुन और स्वभाव को देख सब सभा व श्रीरामजी प्रेम में शिथिल हो गये।

छन्द—रघुराऊसिथिल सनेहँ साधु समाज मुनि मिथिलाधनी।

मन महुँ सराहत भरत भायप भगित की महिमा घनी ॥

भरतहि प्रशंसहि बिबुध बरसत सुमन मानस मलिन से।

तुलसी विकल सब लोग सुनि संकुचे निसागम नलिन से ॥

श्रीरामजी, साधु-समाज, मुनि व मिथिलेश स्नेह से शिथिल होगये, मनमें भरतजी के मातृ-भाव और भक्ति की महिमा को सराहने लगे। देवता भी प्रशंसा करते हुए मलिन मन से पुष्प वरसाने लगे। तुलसीदासजी कहते हैं कि सब लोग ऐसे व्याकुल होगये, जैसे रात में कमल।

सो०—देखि दुखारी दीन, दुहुँ समाज नर नारि सब।

मघवा सहा मलीन, सुएहुँ सारि मङ्गल चहत ॥ १२ ॥

दोनों समाजों के सब स्त्री-पुरुषोंको दीन-दुःखी देखकर भी महामलिन इन्द्र मरे हुआं कों मारकर मङ्गल चाहता है।

कपट कुचालि सीवँ सुरराजू * पर अकाजु प्रिय आपन काजू
काक समान पाक रिपु रीती * छली मलीन कतहुँ न प्रतीती

देवराज इन्द्र चल और कुचाल की सीमा है, पराई हानि और अपना लाभ उन्हें प्रिय लगता है इन्द्र की रीति कौए के समान है, वह छली और मलिन है, उसे कहीं किसीका विश्वास नहीं है।

प्रथम कुमति करिकपटुसँकेला * सो उचाटु सब कै सिर मँला

सुर मायाँ सब लोग विमोहे * राम प्रेम अतिसय न बिछोहे

पहले कुमति करके कपट को इकट्ठा किया था, फिर वह उचाट सबके सिर पर डाल दिया। देवि माया ने सब लोगों को मोहित कर दिया, तो भी वे श्रीरामजी के प्रेम से बहुत दूर नहीं हुए

भए उचाटु बस मन थिर नाही * छन वन रुचि छन सदन सोहाहीं

दुविध मनोगत प्रजा दुखारी * सरित सिन्धु सङ्गम जनु बारी

उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं रहा, क्षणभर में तो वन में रहने की इच्छा होती है और क्षणभर में घर सुन्दर लगने लगता है। मन की दुविधा से प्रजा दुःखी है, जैसे नदी तथा समुद्र के सङ्गम का जल क्षुब्ध हो।

दुचित कतहुँ परितोषु न लहहीं * एक एक सन मरमु न कहहीं

लखि हियँ हँसि कह कृपानिधान * सरिस स्वाँन मघवान जुवान

दुविधा में कहींभी संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना भेद नहीं कहते। यह देखकर कृपानिधान श्रीरामजी मन में हँसकर बोले कि कुत्ता, इन्द्र और युवा-पुरुष एक समान हैं।

सब रनिवास विथकि लखि रहेऊ * तव धरि धीर सुमित्रा कहेऊ
 देवि दण्ड जुग जामिनि वीती * राम मातु सुनि उठी सप्रोती
 रानियां थकित होकर देखती रह गईं, तव सुमित्राजी धोरज धरकर कहने लगीं—हे
 देवि ! दो घड़ी रात बीत गई । यह सुनकर श्रीराम-माता कौशल्याजी प्रेम सहित उठीं ।
 दोहा—वेगि पाँउँ धारिअ थलहि, कह सनेहँ सतिभाय ।

हमरें तौ अब ईस गति, कै मिथिलेस सहाय ॥२७३॥

और स्नेह के साथ सद्भाव से बोलों—आप शीघ्र डेरे को पधारिये । हमको तो ईश्वर
 की गति है अथवा महाराज जनकजी ही सहायक हैं ।

लखि सनेह सुनि वचन विनीता * जनक प्रिया गहे पाँय पुनीता
 देवि उचित अस विनयतुम्हारी * दशरथ धरिनि राम महतारी

उनका प्रेम देखकर व विनम्र वचन सुनकर रानी सुनयना ने उनके पवित्र चरणों को
 पकड़ कर कहा—हे देवि ! आपकी ऐसी नम्रता ही उचित है, क्योंकि आप महाराज दशरथजी
 की रानी तथा श्रीरामजी की माता हैं ।

प्रभु अपने नीचहु आदरहीं * अगिनधूम गिरि सिर तून धरहीं
 सेवकु राउ करम मन वानी * सदा सहाय महेस भवानी

प्रभु अपने नीचजनों का आदर करते हैं, जैसे अग्नि धुँये को व पर्वत घात को सिर पर धारण करते
 हैं । हमारे राजा तो मन, कर्म, वचन से आपके सेवक हैं, सहायक तो श्रीशिव-पार्वतीजी हैं ।

रउरे अङ्ग जोग जग कोहै * दीप सहाय कि दिनकर सोहै
 रामु जाई वनु करि सुरकाज * अचल अवधपुर करिहहि राजू

आपकी सहायता करने योग्य जगत में कौन है ? क्या दीपक सूर्यकी सहायता करने जाकरसोमा
 पा सकता है ? श्रीरामजी देव-कार्य करके, वन से लौटकर अवधपुरी में आ अटल राज्य करेंगे ।

अमर नाग नर राम बाहुवल * सुख बसिहहि अपने अपने थल
 यह सब जागबलिक कहि राखा * देवि न होइ मुधा मुनि भाखा

देवता, नाग और मनुष्य सब श्रीरामजी की भुजाओं के थल से अपने-२ स्थलों में सुख
 पूर्वक निवास करेंगे—यह याज्ञवल्क्य-मुनि ने पहले ही कह रखा है । हे देवि ! श्रृंगि का
 वचन मिथ्या नहीं हो सकता ।

दोहा—अस कहि पग परिप्रेम अति, सियहित विनय सुनाय ।

सिय समेत सिय मातु तव, चली सुआयसु पाय ॥२७४॥

इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से पाँवों में पड़ गईं और सीताजी के हित के लिये विनती
 करके आज्ञा पाकर सीताजी सहित सुनयना अपने डेरे को चलीं ।

प्रिय परिजनहि मिली वैदेही * जो जेहि जोग भाँति तेहि तेहे
 तापस वेप जानकी देखी * भा सबु विकल विपाद विसेषी

जानकीजी अपने कुटुम्बियों से जो जिस योग्य था—उससे उम्मी भाँति मिलतीं । जानकीजी

हीन कोन है ? दयालु व सुजान श्रीरामजी ने सबकी दशा देखकर, भक्त के हृदय की बात जानकर-
 धरमधुरीन धीर नय नागर * सत्य स्नेह शील सुखसागर
 देश कालु लखि समउ समाज * नीति प्रीति पालक रघुराज

धर्म-धुरन्धर, धीर, सत्य, स्नेह, शील और सुख के समुद्र-देश, काल, समय और सभा को देखकर नीति और प्रीति के पालक श्रीरघुनाथजी-

बोले वचन बानि सरबसु से * हित परिनाम सुनत शशि रसु से
 तात भरत तुम्ह धरम धुरीना * लोक वेद विद प्रेम प्रवीना

वाणी के सर्वस्वके समान वचन बोले, जो परिणाम में हितकारी व सुनने में अमृत के तुल्य हैं। हे तात भरत ! तुम धर्म धुरन्धर हो, लोक-रीति और वेद के जानने वाले तथा प्रेम में चतुर हो।

दोहा—करम वचन मानस विमल, तुम्ह समान तुम्ह तात ।

गुरुसमाज लघुबन्धु गुन, कुसमय किमि कहि जात ॥२८२॥

हे तात ! कर्म, वचन तथा मन से निर्मल—तुम्हारे समान तुम्हों हो। गुरुजनों की सभा में छोटे भाई के गुण—इस कुसमय में कैसे कहे जा सकते हैं ?

जानहु तात तरनि कुल रीती * सत्यसिंधु पितु कीरति प्रीती
 समउ समाजु लाज गुरुजन की * उदासीन हित अनहित मन की

हे तात ! सूर्यकुल की रीति व सत्य-प्रतिज्ञा पिताजी के सुयश तथा स्नेह को भी तुम जानते हो। समय, समाज, गुरुजनों की लाज, उदासीन, मित्र व शत्रु के मनकी बात भी तुम जानते हो।

तुम्हहि विदित सबही कर करमू * आपन मोर परम हित धरमू
 मोहि सब भाँति भरोस तुम्हारा * तदपि कहउँ अवसर अनुसार

तुमको सभी का कर्तव्य मालूम है, अपना तथा मेरा परमहित और धर्म भी ज्ञात है। मुझे सब तरह से तुम्हारा भरोसा है, तो भी समय के अनुसार जो कुछ मैं कहता हूँ, उसे सुनी-

तात तात बिनु बात हमारी * केवल गुरुकुल कृपाँ सँभारी
 नतरु प्रजा परिजन परिवारू * हमहि सहित सबु होत खुआरू

हे तात ! पिताजी के न रहने पर हमारी बात केवल कुल-गुरु वशिष्ठजी ने कृपा करके संभाल ली। नहीं तो प्रजा, पुरवासी, कुटुम्बी और हम समेत सब दुःखी होते।

जाँबिनु अवसर अथव दिनेसू * जग केहि कहहु न होइ कलेसू
 तात उतपातु तात विधि कीन्हा * सुनि मिथिलेस राखि सबुलीन्हा

जो बिना समय के सूर्य अस्त हो जाय तो बताओ—संसार में किसको क्लेश न होगा ? हे तात ! विधाता ने ऐसा ही उपद्रव किया, पर गुरुजी और जनकजी ने सबको बचा लिया।

दोहा—राजकाज सब लाज पति, धरम धरनि धन धाम ।

गुरु प्रभाव पालिहि सबहि, भल होइहि परिनाम ॥२८३॥

राज कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी धन, धाम और गुरुजी का प्रताप—इन सबकी

लखि रूख रानि जनायउ राजु ✽ हृदयँ सराहत सोलु सुभाऊ

सीताजी मनमें सकुचाकर यह नहीं कहती कि रात में यहाँ रहना ठीक नहीं है। रानी ने सीताजी का रूख जानकर महाराज को जता दिया। तब वे मन में सीताजी के शील-स्वभाव की बड़ाई करने लगे।

दोहा—बार बार मिलिभेंटि सिय, बिदा कीन्हि सनमानि ।

कही समयसिर भरत गति, रानि सुबानि संयानि ॥२७६॥

बारम्बार मिलकर राजा-रानी ने सीताजी को आदर सहित बिदा किया, फिर चतुर रानी ने समय पाकर राजा से भरतजी की दशा मधुर वाणी से कही।

सुनि भूपाल भरत व्यवहारु ✽ सोन सुगन्ध सुधा शशि सारु

मूँदे सजल नयन पुलके तन ✽ सुजसु सराहन लगे मुदित मन

सोने में सुगन्ध चन्द्रमा के साररूप अमृत के सतान भरतजी का व्यवहार सुन राजा ने अपने सजल-नेत्र बन्द कर लिये, शरीर पुलकित होगया और मुदित मन से उनकी बड़ाई करने लगे-

सावधान सुनु सुमुखि सुलोचनि ✽ भरत कथा भव बन्ध विलोचनि

धरम राजनय ब्रह्म विचारु ✽ इहाँ जयामति मोर प्रचारु

हे सुमुखी ! हे सुनयनी ! सावधान होकर सुनो, भरतजी की कथा संसार-बन्धन को छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति व ब्रह्म-विचार—इन तीनों में मेरी बुद्धि की जैसी गति है—

सो मति मोर भरत महिमाहों ✽ कहैं काह छल छुअति न छाहीं

विधिगनपतिअहिपति सिवसारद ✽ कवि कोविद बुधिबुद्धि विसारद

वह मेरी बुद्धि भरतजी की महिमा को वर्णन करना तो क्या, छल से उनकी छापा को भी नहीं छू सकती। ब्रह्मा, गणेशजी, सरस्वती, शिवजी, कवि, चतुर, पंडित और बुद्धिमान-

भरत चरित कीरति करतूती ✽ धरम सोल गुन विमल विभूती

समुझत सुनत सुखद सब काहू ✽ मुनि सुरसरिरुचि निदर सुधाहू

सबको भरतजी के चरित्र, सुपुत्र, सुकर्म, धर्मशील, निर्मल गुण व ऐश्वर्य, समझने व सुनने में सुख देने वाले हैं और पवित्रता में गङ्गाजी के समान व रुचि में अमृत से भी बढ़कर हैं।

दोहा—निरवधि गुन निरुपम पुरुष, भरतु भरत सम जानि ।

कहिअ सुमेरु कि सेर सम, कविकुल मति सकुचानि ॥२७७॥

भरतजी अतीम गुण-संपन्न व उपमा रहित पुरुष हैं, भरतजी के समान भरतजी ही हैं। सुमेरु-पर्वत क्या सेर के बराबर कहा जा सकता है ? यह समझकर कवियों की बुद्धि भी मजबूत हुई

अगम सबहि वरनत वर वरनी ✽ जिमि जलहीन भीन गमु धरनी

भरत अमित महिमा सुनु रानी ✽ जानहि राम न सकहि वखानी

हे उत्तम वर्ण वाणी ! भरतजी की महिमा वर्णन करना सबको ऐसा कठिन है—जैसे जल-हीन पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी ! सुनो, भरतजी की अपरम्पार . म श्रीरामजी ही जानते हैं, परन्तु ये भी वर्णन नहीं कर सकते।

जाने का मुख प्राप्त होगया जगत में जन्म लेने का फल मिल गया ।

अब कृपालु जसु आयसु होई * करौं सीस धरि सादर सोई
सो अवलम्ब देव सोहि देई * अवधि पार पावौं जेहि सेई

हे कृपालु ! अब आपकी जैसी आज्ञा हो, वही में आदर सहित अपने सिर पर धारण करूँ। हे देव ! अब आप मुझे वह आधार दीजिए, जिसके कि सहारे में अवधि का पार पा जाऊँ।
दोहा—देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुसासन पाई ।

आनेउँ सब तीरथ सलिलु, तेहि कहँ काह रजाइ ॥ २८५ ॥

हे देव ! आपके राज-तिलक के अभिषेक के लिए गुरुजी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेकर आया हूँ—उसके लिए क्या आज्ञा है ?

एक मनोरथु बड़ मन माहीं * सभयँ संकोच जात कहि नाही
कहहु तात प्रभु आयसु पाई * बोले बानि सनेहँ सुहाई

मेरे मन में एक बड़ा मनोरथ और भी है, परन्तु भय व संकोच के कारण कहा नहीं जाता ।
(श्रीरामजी बोले-) हे तात ! कहो, प्रभु की आज्ञा पाकर भरतजी प्रेमपूर्ण सुन्दर वाणी से बोले—
चित्रकूटि सुचि थल तीरथ वन * खगसृगसरसरि निर्झर गिरिगन

प्रभु पद अङ्कित अवनि विशेषी * आयसु होइ तौ आवौं देखी
चित्रकूट के पवित्र आश्रम, तीर्थ, वन, पक्षी पशु, सरोवर, नदी, झरने पर्वतों के समूह और विशेष कर 'आपके चरण-चिन्हों से अङ्कित भूमि'—आज्ञा हो तो देख आऊँ ?

अवसि अत्रि आयसु सिर धरहू * तात विगत भय कानन चरहू
मुनि प्रसादु बनु मङ्गल दाता * पावन परम सुहावन भ्राता

(श्रीरामजी बोले-) हे तात ! अत्रि-मुनि की आज्ञा सिरोधार्य कर तुम निर्भय हो, अवश्य ही वन में भ्रमण करो । हे तात ! अत्रि-मुनि की कृपा से यह वन—मङ्गलदायक, पवित्र और बहुत ही सुहावना है ।

ऋषिनायकु जहँ आयसु देहीं * राखेहु तीरथ जलु थल तेहीं
सुनिप्रभु वचन भरत सुख पावा * मुनि पदकमल मुदित सिरुनावा

ऋषियों में श्रेष्ठ अत्रिजी जहाँ आज्ञा दें, वही सब तीर्थों का जल रख देना । प्रभु के वचन सुनकर भरतजी ने सुख प्राप्त किया और प्रसन्नता पूर्वक मुनि के चरण कमलों में सिर नवाया ।

दोहा—भरत राम सम्बादु सुनि, सकल सुमङ्गल मूल ।

सुर स्वारथी सराहि कुल, वरषत सुरतरु फूल ॥ २८६ ॥

समस्त सुमंगलों के मूल श्रीराम-भरत-सम्बाद' को सुनकर स्वार्थी देवता सूर्य-वंश की सराहना करके कल्पवृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे ।

धन्य भरत जय राम गोसाई * कहत देव हरषत बरिआई
मुनि मिथिलेस सभाँ सब काहू * भरत वचन सुनि भयउ उछाहू

गये और बोले—हे श्रीराम ! तुम्हारे बिना सब सुखके साज दोनों समाजों को नरक के समान हैं ।
दोहा—प्राण प्राण के जीव के, जिव सुख के सुखधाम ।

तुम्ह तजितात सुहातगृह, जिन्हहि तिन्हहि विधि वाम ॥ २७८ ॥

हे श्रीरामजी ! तुम प्राणों के भी प्राण, जीवों के जीव तथा सुखों के भी सुखधाम हो । तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता हो, उन्हें विघाता विपरीत है ।

सो सुखु करमु धरमु जरि राऊ * जहँ न राम पदपङ्कज भाऊ
जोगु कुजोगु ग्यान अग्यान * जहँ नहि राम प्रेम परिधानू

वह सुख, कर्म तथा धर्म जल जामें, जिनमें श्रीरामजी के चरणारविंदों की भक्ति न हो वह योग—कुयोग है और ज्ञान—अज्ञान है, जिसमें—श्रीराम-प्रेम प्रधान न हो ।

तुम्ह बिनु दुखी सुखी तुम्ह तेहीं * तुम्ह जानहु जिय जो जेहि केही
राउर आयसु सिर सबही के * विदित कृपालहि गति सब नीके

सब तुम्हारे बिना दुखी और तुमसे ही सुखी हैं । जिनके मन में जो यात होता है, उसे आप जानते हो । आपकी आज्ञा सब ही के सिर पर है । हे दयालु ! सबकी दशा आपको भली-भाँति विदित है ।

आपु आश्रमहि धरिअ पाउँ * भयऊ सनेहँ सिथिल मुनिराऊ
करि प्रनामु तब रामु सिधाए * ऋषिधरि धीर जनक पहि आए

आप आश्रम में पधारिये । इतना कहकर मुनिराज प्रेम में मग्न हो गये, तब श्रीरामजी उन्हें प्रणाम करके चले गये और मुनि धर्म्य धारण करके जनकजी के पास आये ।

राम बचन गुरु नृपहि सुनाए * सील सनेहँ सुभायँ सुहाए
महाराज अब कीजिअ सोई * सब कर धरम सहित हित होई

गुरुजी ने श्रीरामजी के शील, स्नेह और स्वभाविक ही सुहावने बचन जनकजी को सुनाये और बोले—हे महाराज ! इस समय वही कीजिये, जिसमें धर्म सहित सबका हित हो ।

दोहा—ग्यान निधान सुजान सुचि, धरम धीर नरिपाल ।

तुम्ह बिनु असमंजस समन, को समरथ एहि काल ॥ २८० ॥

हे राजन् ! आप ज्ञान के भण्डार, चतुर, शुद्ध और धर्मपुरन्दर हो । आपके बिना इस समय इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है ?

सुनि मुनि वचन जनक अनुरागे * लखि गति ग्यानु विराग विरागे
सिथिल सनेहँ गुनत मन माहीं * आए इहाँ कोन्ह भल नाहीं

मुनि के वचन सुन राजा प्रेम-मग्न हो गये, उनकी दशादेख ज्ञान तथा वंशराज्य की भीयंराज्य हो गयी । स्नेह मग्न हो, मन विचार करने लगे कि यहाँ हम आये, यह हमने ठीक नहीं किया ।

रामहि रायँ कहेउ वन जाना * कोन्ह आपु प्रिय प्रेम प्रवाना
हम अब वन ते वनहि पठाई * प्रमुदित फिरव विवेक ८

अब इसे लोग भरत-कूप कहेंगे, तीर्थों के संयोग से यह अत्यन्त पवित्र होगया। प्रेम से नियम पूर्वक जो प्राणी इसमें स्नान करेंगे, वे कर्म, मन और वाणी से पवित्र हो जायेंगे।

दोहा—कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराउ।

अत्रि सुनायउ रघुवरहि, तीरथ पुन्य प्रभाउ ॥२६८॥

कूप की महिमा कहते हुए सब वहाँ गये, जहाँ रघुवंश के स्वामी श्रीरामजी थे। अत्रिजी ने श्रीरघुनाथजी को तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया।

कहत धरम इतिहास सप्रीती * भयउ भोर निसि सो सुख बीती

नित्य निवाहि भरत दोउ भाई * राम अत्रि गुरु आयसु पाई

प्रीति के साथ धर्म-इतिहास कहते हुए भोर हो गया और वह रात्रि सुख से बीत गई। तब भरत-शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य-कर्म से निवृत्त होकर—श्रीरामजी, अत्रिजी तथा गुरु वशिष्ठजी की आज्ञा पाकर—

सहित समाज राज सब सादे * चले राम वन अटन पयादे

कोमल चरन चलत बिनु पनहीं * भइ मृदु भूमि सकुचि मन मनहीं

समाज समेत सब सादे साज से श्रीराम-वन में भ्रमण करने के लिए पैदल चले। कोमल चरण वाले भरतजी जब बिना जूते पहिने चलने लगे, तब मन ही मन सकुचा कर पृथ्वी कोमल होगई।

कुस कण्टक काँकरी कुराई * कटुक कठोर कुवस्तु दुराई

सहि संजुल मृदु सारग कीन्हे * बहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे

कुश, कांटे, कङ्करी गड्ढे आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सार्ग सुन्दर और कोमल कर दिये। शीतल, मन्द व सुगन्धित पवन सुखपूर्वक बहने लगी।

सुमन वरषि सुर घन करि छाहीं * विटप फूल फलि तून मृदुलाहीं

मृग विलोकि खग बोलि सुवानी * सेवहि सकल राम प्रिय जानी

देवता पुष्प वरसाकर, मेघ छाया करके, वृक्षफल-फूलकर, घास कोमल होकर, मृग देखकर और पक्षी सीठी बोली बोलकर—सभी इन्हें श्रीरामजी के प्रिय जानकर सेवा करने लगे।

दोहा—सुलभ सिद्धि सब प्राकृतहु, राम कहत जमुहात।

राम प्रानप्रिय भरत कहँ, यह न होइ बड़ि बात ॥२६९॥

साधारण मनुष्य को भी जब जँभाई लेकर 'राम' कहते ही सब सिद्धियाँ सुगम हो जाती हैं, तो फिर श्रीरामजी के प्राण-प्यारे भरतजी के लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है।

एहि विधि भरत फिरत वन साहीं * नेसु प्रेसु लखि मुनि सकुचाहीं

पुन्य जलाशय भूमि विभागा * खग मृग तरु तून गिरिवन बागा

इस प्रकार वन में भ्रमण करते हुए भरतजी का नेम और प्रेम देखकर मुनि सकुचाते हैं। पवित्र जलाशय, पृथ्वी के पवित्र भाग, खग, मृग, वृक्ष, घास, पर्वत, वन तथा वगीचे—

चारु विचित्र पवित्र विसेषी * बूझत भरतु दिव्य सब देखी

सब के सम्मत सर्वहित, करिअ प्रेमु पहिचानि ॥२८२॥

श्रीरामजी का रूख देखकर, उनके धर्म और व्रत को रचकर मुझे परायीन जान, सबकी सम्मति के अनुसार, जिसमें सबका हित हो, प्रेम पहिचान कर वही काम कीजिए।

भरत वचन सुनि देखि सुभाऊ * सहित समाज सराहत राज
सुगम अगम मृदु मञ्जु कठोरे * अरथु अमित अति आँखर थोरे

भरतजीके वचन सुन और उनका स्वभाव देख जनकजी समाज सहित बड़ाई करने लगे। उनके वचन सुगम, अगम, फीमल, मनोहर तथा कठोर हैं जिनके अर्थ बहुत तथा अक्षर कम थे।

ज्यों मुखमुकुर मुकुरनिज पानी * गहि न जाइ अस अद्भुत वानी
भूप भरतु मुनि सहित समाजू * गे जहँ विविध कुमुद सुरराजू

जैसे दर्पण में मुख दीखता है और दर्पण अपने हाथमें होने पर भी वह पकड़ा नहीं जाता, ऐसे ही भरतजी की अद्भुत वाणी पकड़ी नहीं जा सकती। महाराज जनक, भरतजी, मुनिजन व समाज सहित वहाँ गये, जहाँ देवतारूपी कुमुदों को छिलाने वाले चन्द्रमा श्रीरामजी थे।

सुनि सुधि सोच विकलसवलोगा * मनहु मीनगन नव जल जोगा
देव प्रथम कुलगुरु गति देखी * निरखि विदेह सदेह विसेपी

यह सुनकर सबलोग सोच से व्याकुल होगये, जैसे मछलियां पहली बर्षानि जल के संयोग से हो जाती हैं। देवताओं ने पहले यशिष्ठजी की दशा देखी फिर जानकीजी का स्नेह देखा।

राम भगतिमय भरतु निहारे * सुर स्वारथी हहरि हियँ हारे
सब कोउ राम पेममय देखा * भए अलेख सोचगस लेखा

भरतजी को राम-भक्तिमें लयलीन देखकर स्वार्थी देवता घबड़ाकर अपने जी में हार गये। सबको राम-स्नेह में मग्न देखकर देवता लोग ऐसे सोचके बस हुए कि लया नहीं जा सकता।

दोहा—रामु सनेहँ संकोच बस, कह ससोच सुरराजु।

रचहु प्रपंच पंच मिलि, नाहिं व भयउ अकाजु ॥२८३॥

देवराज इन्द्र ने सोच में भर कर कहा कि श्रीरामचन्द्रजी तो प्रेम के संकोच के पथ में हैं। सब मिलकर प्रपञ्च रचो, नहीं तो अकाज हुआ जानो।

सुरन्ह सुमिरि सारदा सराही * देवि देव सरनागत पाही
फेरि भरतमति करि निज माया * पालु विबुधकुल करि छलछाया

देवताओंने सरस्वतीजीका स्मरण कर स्तुति की—देवता सरनागत हैं, रक्षा करिये। अपनी माया करके भरतजी की मति फेर दीजिए और छलकी माया करके देव, श्रुतकी रक्षा कीजिए।

विबुध विनय सुनि देवि सायानी * बोली सुर स्वारथ जड़ जानी
मो सन कहहु भरत मति फेरु * लोचन सहस न सूझ सनेर

देवों की विनती सुन बुद्धिमती सरस्वतीजी देवों को स्वारथी व मूर्ख जानकर।

दोहा-जेहि उपाय पुनि पाँय जनु, देखउं दीनदयाल ।

सो सिख देइअ अवधि लागि, कोसलपाल कृपाल ॥३०१॥

हे दीनदयालु ! हे कौशलाधीश कृपालु ! जिस उपाय से यह दास फिर आपके चरणों के दर्शन करे, अवधि भर के लिए वही शिक्षा दीजिए ।

पुरजन परिजन प्रजा गोसाईं * सब सुचि सरस सनेह सगाईं
राउर बदि भल अब दुख दाहू * प्रभु बिनु बादि परम पद लाहू

हे स्वामी ! नगरवासी, कुटुम्बी व प्रजा सब आपके स्नेह से पवित्र तथा सरस हैं । आपके लिए जगत सम्बन्धी दुःख भी भला है, पर प्रभु के बिना मोक्ष का लाभ भी वृथा है । स्वामि सुजान जानि सबही को * रुचि लालसा रहनि जनजीकी
प्रणतपालु पालिहि सब काहू * देव दुहूँ दिसि ओर निबाहू

हे स्वामी ! आप चतुर हैं, सभी के हृदय और सेवक की रुचि, लालसा और स्थिति को जानकर, हे प्रणतपाल ! आप सबका पालन करते हैं । हे देव ! आप ही दोनों ओर का आदि से अन्त तक निर्वाह करेंगे ।

अस मोहि सब विधि भूरि भरोसो * किए विचार न सोचु खरो सो
आरत खोर नाथ कर छोहू * दुहूँ मिलि कीन्ह ढीठि हठ मोहू

ऐसा मुझे सब प्रकार से भरोसा है । विचार करने पर कुछ भी सोच नहीं रहता । हे नाथ ! मेरे दुःख व आपकी कृपा दोनों ने मिलकर हठ से मुझे ढीठ बना दिया ।

यह बड़ दोषु दूरि करि स्वामी * तजि संकोच सिखइअ अनुगामी
भरत विनय गुनि सबहि प्रसंसी * खीर नीर विवरन गति हंसी

हे प्रभु ! दोषों को दूर करके संकोच त्यागकर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए । भरतजी को विनती सुन सभी ने बढ़ाई की, जो दूध व पानी को अलग २ करने में हंसिनी के समान थी ।

दोहा-दीनबन्धु सुनि बन्धु के, वचन दीन छलहीन ।

देसि काल अवसर सरिस, बोले रामु प्रवीन ॥३०२॥

दीनबन्धु, चतुर श्रीरघुनाथजी भाई (भरत) के दीन और निष्कपट वचन सुनकर देश, काल और अवसर के अनुसार वचन बोले-

तात तुम्हारि सोरि परिजन की * चिंता गुरहिं नृपहि घर वन की
आथे पर गुरु सुनि मिथिलेसू * हमहि तुम्हाहिं सपनेहुँ न कलेसू

हे तात ! तुम्हारी, हमारी, कुटुम्बीजनों की, घर की और वन की चिन्ता तो-गुरुजी और महाराज जनकजी को है । जब सिर पर-गुरुजी, विश्वामित्रजी तथा मिथिलेश्वरजी हैं, तब तुम्हें और हमें स्वप्न में भी दुःख नहीं है ।

सोर तुम्हार परस पुरुस्वारथु * स्वारथ सुजसु धरसु परमारथु
पितु आयसु पालिहि दुहूँ भाई * लोक वेद भल भूप भलाई

हमारा-तुम्हारा-परम पुरुषार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों ही

श्रीरामचन्द्रजी की शपथ सुनकर मुनि वशिष्ठजी और जनकजी समा समेत सकुचा गये सब भरतजी के मुख की ओर देखने लगे, किसी से उत्तर देते नहीं बना ।

सभा सकुच बस भरत निहारी * रामबन्धु धरि धीरजु भारी
कुसमय देखि सनेहँ सँभारा * वाढ़त विधि जिमि घटजनिवारा

भरतजीने सब लोगों को संकोचमें देखा, तब राम-बन्धु भरतजी ने धैर्य धरकर कुसमय जानकर अपने बढ़ते हुए प्रेम को रोका, जैसे बढ़ते हुए विध्याचलको अगस्त्य-मुनि ने रोका था ।

सोक कनक लोचन मति छोनी * हरी विमल गुनगन जग जोनी
भरत विवेक बराहँ विसाला * अनायास उधरी तेहि काला

शोकरूपी हिरण्याक्ष ने बुद्धिरूपी पृथ्वी को हर लिया, जो निमंत गुणरूपी जगत को उत्पन्न करने वाली थी । भरतके विवेकरूपी विशाल-बराह ने बिना परिश्रम ही उसका उद्धार किया ।

करि प्रनामु सब कहँ कर जोरे * रामु राउ गुर साधु निहोरे
छमब आजु अतिअनुचित मोरा * कहउँ मृदुल मुख वचन कठोरा

भरतजी हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करके—श्रीरामजी, राजाजनक, गुरु और साधुजनों की विनती करके बोले—आज मेरी इस अनुचित वार्ता को क्षमा करियेगा कि मैं कोमलमुख से कठोर वचन कहता हूँ ।

हियँ सुमिरी सारदा सुहाई * मानस तें मुख पंकज आई
विमल विवेक धाम नय साली * भरत भारती मञ्जु मराली

भरतजी ने हृदयमें सुन्दर सरस्वती का स्मरण किया, वे मनरूपी मानसरोवरसे मुखकमल में आगई । वंराग्य, ज्ञान, धर्म और नीति से भरी हुई भरतजी की वाणी सुन्दर हँसिनी है ।

दोहा—निरख विवेक विलोचनन्हि, सिथिल सनेहँ समाजु ।

करि प्रनामु बोले भरत, सुमिरि सोय रघुराजु ॥२८६॥

अपने ज्ञान-नेत्रों से सब समाज को स्नेह-मग्न देखकर । उन्हें प्रणाम करके श्रोतीतरामजी का स्मरण करके भरतजी बोले—

प्रभु पितु मातु सुहृदगुरुस्वामी * पूज्य परम हित अन्तरजामी
सील सुसाहिबु सील निधानु * प्रनतपाल सर्वग्य सुजानु

हे प्रभु ! आप माता-पिता, मित्र, गुरु, स्वामी, पूज्य, परम हितवी और अन्तर्जामी हैं । आप सरल हृदय, उत्तम स्वामी, शौच-निधान, घरणागत-रक्षक, सर्वज्ञ, चतुर—

समर्थ तरनागत हितकारी * गुनगाहकु अवगुन अधहारी
स्वामि गोसाँइहि सरिस गोसाँइ * मोहि समान में साँइ दोहाई

समर्थ, घरणागत और भक्तजनों के हितवी, गुण-प्राहक और पापों का नाश करने वाले हैं । हे स्वामी ! आपके समान प्रभु 'आप' ही हैं और मेरे समान स्वामी-श्रीही 'मैं' ।

प्रभु पितु वचन मोह बस पेली * आयउं इहाँ समाजु ॥

उनके सङ्कोच और सोच को दूर कर पालकी सजाकर विदा किया ।

परिजनमातु पितृहि मिलि सीता * फिरी प्राणप्रिय प्रेम पुनीता
करि प्रनासु भैंटी सब सासू * प्रीति कहत कवि हियँ न हुलासू

अपने कुटुम्बियों और माता-पिता से मिलकर अपने प्राण-प्रिय से पवित्र प्रेम करने वाली सीताजी लौट आईं, फिर सासुओं को प्रणाम कर मिलीं । उनकी प्रीति को कहते हुए कवि का चित्त प्रसन्न नहीं होता ।

सुनि लिखअभिसत आसिषपाई * रही सीय दुहुँ प्रीति समाई
रघुपति पदु पालकी सँगाई * करि प्रबोधु सब मातु चढ़ाई

सीख सुत व इच्छित आशीर्वाद पाकर सीताजी-माता व सासु दोनों की प्रीति में समा गईं । तब श्रीरामजी ने सुन्दर पालकी सँगाई और समझा-बुझाकर सब माताओं को उन पर चढ़ाया ।

बार बार हिलमिल दुहुँ भाई * सब सनेहँ जननी पहुँचाई
साजि बाजि गज वाहन नाना * भरत भूप दल कीन्ह पयाना

दोनों भाइयों ने वारम्बार मिल-भेंटकर समान स्नेह से सब माताओं को पहुँचाया । घोड़े, हाथी आदि नाना प्रकार की सवारियाँ सजाकर दोनों 'भरत-जनक' दलों ने कूच किया ।

हृदयँ रास सियँ लखन समेता * चले जाहिँ सब लोग अचेता
बसहँ बाजि गज पशु हियँ हारें * चले जाहिँ परबस मन मारें

हृदय में लक्ष्मणजी, सीताजी व श्रीरामचन्द्रजी का ध्यान करते हुए सब लोग वेसुध हुए चले जा रहे हैं । बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारकर परवश चले जा रहे हैं ।

दोहा—गुर गुरतिय पद बन्दि प्रभु, सीता लखन समेत ।

फिरे हरष विसमय सहित, आए परन निकेत ॥३०८॥

गुरुजी और गुरुपत्नी के चरणों की वन्दना करके प्रभु श्रीरामचन्द्रजी-सीताजी तथा लक्ष्मणजी सहित हर्ष और विषाद के साथ पणकुटी को लौट आये ।

विदा कीन्ह सनसानि निषादू * चलेउ हृदयँ बड़ विरह विषादू
कोल किरात भिल्ल बनचारी * फेरे फिरे जोहारि जोहारी

फिर रामजी ने निषाद को सम्मान सहित विदा किया । वह चला, पर उसके मन में राम-वियोग का बड़ा दुःख था, फिर कोल, किरात, भील आदि को लौटाया, तो वे सब प्रणाम कर २ के लौटे ।

प्रभु सिय लखन बैठि बट छाहीं * प्रिय परिजन वियोग बिलखाहीं
भरत सनेह सुभाउ सुबानी * प्रिया अनुज सन कहत बखानी

श्रीरामजी, सीताजी व लक्ष्मणजी-बट की छांह में बैठकर प्रिय कुटुम्बियों के वियोग में विलख रहे हैं । भरतजीके स्नेह, स्वभाव और मधुर वाणी को वे प्रिय-पत्नी और भाई से कहने लगे ।

प्रीति प्रतीति बचन सन करनी * श्रीमुख रास प्रेम सब बरनी
तेहि अवसर खग मृग तर सीना * चित्रकूट चर अचर मलीना

तवहुँ कृपाल हेरि निज ओरा * सवहि भाँति भल मानेउ मोरा
 मैं शोक से प्रेम से अयवा स्वभाव बरा आजा न मानकर यहाँ आया, तो भी दयातु
 अपनी ओर देखकर मेरा भला ही माना ।

देखेउँ पायँ सुमङ्गल मूला * जानेउँ स्वामि सहस्र अनुकूला
 बड़े समाज विलोकेउँ भागू * बड़ी चूक साहिव अनुराग
 मङ्गल के मूल 'चरणों' के दर्शन किये और यह जान लिया कि स्वामी सहज ही मेरे
 अनुकूल हैं । इस बड़े समाज में आपने भाग्य को भी देखा कि बड़ी चूक होने पर भी स्वामी
 का मुझ पर प्रेम है ।

कृपा अनुग्रह अंगु अघाई * कीन्हि कृपानिधि सब अधिकाई
 राखा भोर दुलार गोसाई * अपने सोल सुभायँ भलाई
 आपको कृपा और अनुग्रह से मेरे सब अङ्ग धषा गये । कृपानिधान ने सब अधिक ही
 किया । हे स्वामी ! शील, स्वभाव और भलाई से मेरा प्रण रबपा ।

नाथ निपट मैं कीन्हि डिठाई * स्वामि समाज संकोच विहाई
 अविनय विनय जथारुचि वानी * छमिहि देउ अति आरति जानी
 हे नाथ ! आपका और समाज का संकोच छोड़ मैंने बहुत डिठाई की है । विनयरहित
 अथवा विनय सहित जैसी रुचि हुई, वैसी ही वाणी मैंने कही है । अतः हे देव ! मुझे अति
 दुःखी जानकर क्षमा करना ।

दोहा—सुहृद सुजान सुसाहिवहिं, बहुत कहव वड़ि खोरि ।

आयसु देइअ देव अब, सवइ सुधारी भोरि ॥२८८॥

सुहृदय, चतुर और अच्छे स्वामी से बहुत कहना—बड़ा दोष है अतः हे देव ! आज्ञा
 चीजिये । मेरी सब बात आपने सुधार दी ।

प्रभु पद पदुम पराग दोहाई * सत्य सुकृत सुख सोवँ सोहाई
 सो करि कहउ हिये अपने की * रुचि जागत सोवत सपने की
 प्रभु के चरणारविंदों की रज जो सत्य, पुण्य और सुख की मुन्दर सोमा है, दुहाई करके
 मैं अपने हृदय को जागते, सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि करता हूँ—

सहज सनेहुँ स्वामी सेवकाई * स्वारथ छल भल चारि विहाइ
 अरया सम न सुसाहिव सेवा * सो प्रसादु जन पावँ देवा
 कि स्वार्थ, फण्ट, दम्भ, पाछण्ड—इन चारों को छोड़कर, स्वामायिक प्रेम से स्वामी की सेवा
 करनी चाहिए । भले स्वामी की आज्ञा पालने के समान दूसरी सेवा नहीं है । हे देव ! अब
 यह सेवक वही प्रसाद (आज्ञा) पावे ।

अस कहि प्रेम विवस भए भारी * पुलक सरीर विलोचन वारी
 प्रभु पद कमल गहे अकुलाई * समउ सनेह न सो कहि जाई
 ऐसा कहकर भरतजी प्रेम के वध होगये । शरीर पुलकित हो गया नेत्रों में अन्न भर
 धबड़ाकर प्रभु के चरण कमल पकड़ लिये, उस समय का यह स्नेह कहा नहीं जाता

दोहा—भरत जनक मुनिजनसचिव, साधु समेत विहाय ।

लागि देवमाया सबहि, जयाजोगु जन पाय ॥२६०॥

भरतजी, जनकजी, मुनिगण, मन्त्री, साधु और ज्ञानी-इनको छोड़कर, देव-माया तबसी जो जिस योग्य था—उसे वैसे ही लग गई ।

कृपासिधु लखि लोग दुखारे ✽ निज सनेहँ सुरपति छल भारे
सभा राउ गुर महिसुर मन्त्री ✽ भरत भगति सब कै मति जन्त्री

कृपासिधु श्रीरामजी ने अपने स्नेह व इन्द्र के भारी छलते लोगोंको दुःखी देया । सभा-सद, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण तथा मन्त्री—इन सबकी बुद्धि भरतजी की भक्ति से बंधगई ।

रामहि चितवत चित्र लिखे से ✽ सकुचत बोलत वचन सिखे से
भरत प्रीति नति विनय बड़ाई ✽ सुनत सुखद बरनत कठिनाई

सब श्रीरामजी की ओरचित्र-लिपे से देखे रहे हैं, सकुचाते हुए सिपाये से बोल रहे हैं । भरतजी का प्रेम, नम्रता, विनय और बड़ाई—सुण देने वाली और कहने में कठिन है ।

जासु विलोकि भगति लबलेसू ✽ प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसू
महिमा तासु कहै किमि तुलसी ✽ भगति सुभायँ सुमतिहियँ हुलसी

जिनकी भक्ति का अंश देखकर मुनिगण व मिथिलेसू प्रेम-मगन होगये, उनको महिमा को तुलसीदास कैसे कहें ? उसी भक्ति के प्रताप से (कवि के) हृदय में सुबुद्धि का उदय हुआ है ।

आपु छोटि महिमा बड़ि जानी ✽ कविकुल कानि मानि सकुचानो
कहि न सकत गुन रुचि अधिकारै ✽ मति गति बाल वचन को नाई

वह बुद्धि अपने को छोटी और महिमा को बड़ी जानकर, कवि-वंश की मर्यादा को मानकर सकुचा गये । गुणों में रुचि तो है, परन्तु-बुद्धि कह नहीं सकती । क्योंकि बुद्धि को गति बालक के वचनों के समान है ।

दोहा—भरत विमल जसु विमल बुधि, सुमति चकोर कुमारि ।

उदित विमल जन हृदयँ नभ, एकटक रही निहारि ॥२६१॥

भरतजी का सुपरा निर्मल चंद्रमा है और बुद्धि चकोर है जो भक्तों के निर्मल हृदयरूपी आकाश में उसे उदित देखकर एक टक देर नहीं है ।

भरत सुभाउ न सुगम निगमहँ ✽ लघुमति चापलता कवि छमहँ
कहत सुनत सतिभाउ भरत को ✽ सीय राम पद होइ न रत को

भरतजी का स्वभाव तो वेदों को भी सुगम नहीं है, इसलिये मेरी बुद्धि की चपलता को कवि गण समा करें । भरतजी का स्वभाव कहते-मुनते-ऐसा कौन है—जो धीसीता-रामजी के चरणों में अनुरक्त न होगा ?

सुमिरत भरतहि प्रेम राम को ✽ जेहि न सुन के रि

देखि दयाल दसा सब ही की ✽ राम सुजान जान ज

भरतजी के प्रेम को स्मरण करते ही श्रीरामजी का प्रेम जिसे सुखम न हो, उतने

पुनि सिख दीन्ह बोलि लघु भाई * सौपी सकल मातु सेवकाई

भरतजी ने मन्त्री और सच्चे सेवकों को समझाया, वे शिक्षा पाकर अपने २ कामों में लग गये। फिर छोटे भाई शत्रुघ्नजी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उन्हें सौंप दी।

भूसुर बोलि भरत कर जोरे * करि प्रनाम बड़ विनय निहोरे

ऊँच नीच कारजु भल पोचू * आयसु देहु न करहु सँकोचू

ब्राह्मणों को बुलाकर प्रणाम करके बहुत विनती की और कहा-आप ऊँच-नीच, अच्छा-बुरा जो भी काम हो, उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिये-सँकोच न कीजियेगा।

परिजन पुरजन प्रजा बोलाए * समाधानु करि सुबस बसाए

सानुज गे गुर गेहँ बहोरी * करि दण्डवत कहत कर जोरी

फिर कुटुम्बी, प्रतिष्ठित लोगों व प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उन्हें समझाया। तदनन्तर छोटे भाई सहित गुरुजी के पास गये और हाथ जोड़कर दण्डवत करके बोले-

आयसु होय तो रहौं सनेसा * बोले मुनि तनु पुलकि सप्रेमा

समुझव कहव करव तुम्ह जोई * धरम सारु जग होईहिं सोई

आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूँ। मुनि पुलकित शरीर होकर स्नेह सहित बोले-हे भरत ! तुम जो समझोगे, कहोगे अथवा करोगे-वही जगत में धर्म का सार होगा।

दोहा-मुनि सिख पाइ अशीष बड़ि, गनक बोलि दिनु साधि।

सिहासनु प्रभु पाडुका, बैठारे गिरुपाधि ॥३११॥

इस शिक्षा को सुनकर तथा आशीष पाकर, ज्योतिषी को बुलाकर और शुभ-मुहूर्त साध कर प्रभु की खड़ाऊँओं को निविष्ट सिंहासन पर स्थापित किया।

मातु गुरु पद सिरु नाई * प्रभु पद पीठ रजायसु पाई

करि परन कुटीरा * कोन्ह निवासु धरम धुरि धीरा

श्रीरामजी की माता कौशल्याजी और गुरुजी के चरणों में सिर नवाकर व प्रभु की चरण-पादुकाओं की आज्ञा पाकर, पर्णकुटी बनाकर धर्म-धुरन्धर भरतजी नन्दि-ग्राम में रहने लगे।

जटाजूट सिर मुनिपट धारी * सहि खनि कुश सांथरी सँवारी

असन बसन बासन व्रत नेसा * करत कठिन रिषि धरम सप्रेमा

भरतजी ने सिर पर जटाजूट बांधे और बल्कल-वस्त्र धारण किये, पृथ्वी को खोदकर उस पर कुश का आसन बनाया, भोजन, वस्त्र, वर्तन आदि के कठिन नियम और व्रत करके ऋषि-धर्म का प्रेम से पालन करने लगे।

भूषन बसन भोग सुख भूरी * तन मन वचन तजे तिन तूरी

अवध राजु सुरराजु सिहाहीं * दशरथ धन लखि धनदु लजाहीं

भूषण-वस्त्र, अनेक भोग, सुख इनको तन, मन, वाणी से तृण के समान त्याग दिया, अवध के राज्य

रक्षा करेगा और परिणाम मला होगा ।

सहित समाज तुम्हारे हमारा * घर वन गुरु प्रसाद रखवारा
मातृ पिता गुरु स्वामि दिनेसू * सकल धरम धरनीधर सेसू

घर में अथवा वन में समाज सहित हमारी और तुम्हारी रक्षा करने वाला-गुरु-प्रसाद ही है । माता, पिता, गुरु और स्वामी को आज्ञा समस्त धर्मरूपी पृथ्वी को धारण करने में शेषजी के समान है ।

सो तुम्ह करहु करावहु मोहू * तात तरनिकुल पालक होहू
साधन एक सकल सिधि देनी * कीरति सुगति भूतिमय वेनी

हे तात ! तुम वही करो और मुझसे भी कराओ, जिससे सूर्यवंश की रक्षा हो । यही एक साधन सब सिद्धियों का देने वाला है, जो कीर्ति, सुन्दर गति व सम्पत्ति रूपी विषेणी है ।

सो विचारि सहि संकटु भारी * करहु प्रजा परिवारु सुखारी
बाँटी विपति सर्वाहिं मोहि भाई * तुम्हहि अवधिभरि वडिकठिनाई

यह विचार कर भारी सङ्कट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो । हे भाई ! सभी ने मिलकर मेरी विपत्ति बाँट ली है, परन्तु तुमको तो अवधि भर बढ़ी कठिनाई है ।

जानि तुम्हहि मृदुकहुँ कठोरा * कुसमउँ तात न अनुचित मोरा
होहिं कुठायँ सुबन्धु सुहाए * ओड़िअहिं हाथअसनिहु केघाए

तुम्हें कोमल जानकर भी मैं कठोर बचन कहता हूँ, सो इस कुसमय में अनुचित नहीं है । कुसमय में अच्छे भाई ही सहायता करते हैं, बच को चोट की हाथ ही रोकते हैं ।

दोहा-सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिवु होइ ।

तुलसी प्रीति कि रीति सुनु, सुकवि सराहहिं सोइ ॥२६४॥

सेवक-हाथ, पाँव और नेत्रों के समान तथा मुख के समान-स्वामी होना चाहिए । तुलसीदासजी कहते हैं कि प्रीति में रीति सुनकर उसकी सुकवि बड़ाई करते हैं ।

सभा सकल सुनि रघुवर बानी * प्रेम पयोधि अमिअँ जनु तानी
सिथिल समाज सनेह समाधी * देखि दसा चुप शारद साधी

श्रीरामजी की वाणी सुनकर, जो प्रेमरूपी अमृत के समुद्र से भरती हुई है, समा के लोग प्रेममें ऐसे मग्न होगये, मानो समाधि लग गई हो । बशा बैपकर सरस्यती मौन रह गई ।

भरतहि भयउ परम सन्तोषू * सनमुख स्वामि विमुख दुख दोषू
मुख प्रसन्न मन मिटा विषादू * भा जनु गूँगेहि गिरा प्रसादू

भरतजी की बड़ा आनन्द हुआ, स्वामी के अनुकूल होते ही दुःख-दोष दूर होगये । मुख प्रसन्न हो गया, मन का दुःख जाता रहा, मानो गूँगे पर सरस्यती प्रसन्न हो गई हों ।

कीन्ह सप्रेम प्रनामु वहोरी * वीले पानि पंकरुह जोरी
नाथ भयउ सुख साथ गए को * लहेउँ लामु जग जनमु भए

पुनः सप्रेम प्रणाम कर कर-कमलों को जोड़कर ये धोले-है नाथ ! मुझे आपके

लखन राम सिय कानन बसहीं * भरतु भद्रन वसि तप तनु कसहीं

देह पुनक्ति है, हृदय में सीतारामजी हैं, जोय नाम जप रही है, नेत्रों में जल भरा है। लक्ष्मण रामजी व सीताजी वनमें वासकर रहे हैं और भरतजी घर में रहकर तप से शरीर को कस रहे हैं।

दोउदिसि समुञ्जि कहत सब लोग * सब त्रिधि भरत सराहन जागू

सुनि व्रत नेस साधु सकुचाहीं * देखि दसा मुनिराज लजाहीं

दोनों ओर की दशा को समझकर सब कहते हैं कि भरतजी सब प्रकार से प्रशंसा के योग्य हैं। उनके व्रत व नियम को सुनकर साधु सकुचाते हैं और दशा देखकर मुनीश्वर अग्निजित होते हैं।

परम पुनीति भरत आचरनू * मधुर मञ्जु सुद मङ्गल करनू

हरन कठिन कलि कलुष कलेसू * महामोह निसि दलन दिनेसू

उनका आचरण परम पवित्र, मधुर, मनोहर और आनन्दमङ्गल का करने वाला है। कलियुग के शोर पापोंके क्लेशों को हरने वाला तथा मोहहृषी रात्रि के नष्ट करने को सूर्य के तुल्य है।

पाप पुञ्ज कुञ्जर मृगराजू * समन सकुल सन्ताप ससाजू

जन रञ्जन भञ्जन भव भारू * राम सनेह सुधाकर सारू

पाप समूह हृषी हाथी जो सिंह के समान है और सब दुष्टों के समूह का नाश करने वाला है। भक्तजनों को आनन्द देने वाला संसार का भार उतारने वाला तथा श्रीरामजी के स्नेहहृषी चन्द्रमा का सार है।

छन्द-सिय राम प्रेम पियूष पूरन होत जनम न भरत को ।

मुनिमन अगमजम नियमसमदम विषम व्रत आचरत को ॥

दुख दाह दारिद दम्भ दूषन सुजस मिसु अपहरत को ।

कलिकाल तुलसी से सठन्हि हठि राम सन्मुख करत को ॥

श्रीरामजी के प्रेमहृषी अमृत से पूर्ण भरतजी का जन्म न होता तो मुनियों के मन में प्रेम-संयम, शम दम और कठिन व्रत का आचरण कौन करता ? सुकीर्ति में बहाने, जलन, दरिद्रता तथा दम्भ आदि दोषों को कौन हरता ? कलियुग में तुलसीदास ने जो हठ पूर्वक श्रीरामचन्द्रजी के समक्ष कौन करता ?

१-भरत चरित करि नेसु, तुलसी जो सादर सुनहि ।

राम पद प्रेसु, अवसि होई भवरस विरति ॥२२॥

कहते हैं कि जो लोग भरतजी के चरित्र को नियम पूर्वक आदर सहित श्रीरामजी के चरणों में प्रेम और संसार के विषयहृषी रस से वैराग्य

१.१ पारायण—इक्कोसवां विश्राम ॐ

मानसे सकलकलिकलु विष्वसे द्वितीय सोपान समाप्तः ॥

पापों को नष्ट करने वाले श्रीरामचरित मानस का

दूसरा सोपान समाप्त हुआ ॥

भरतजी धन्य हैं, स्वामी श्रीरामजी की जय हो, देवता प्रसन्न होकर बारम्बार बहने लगे। मुनि वशिष्ठ, राजा जनक और सभा के सब लोगों को भरतजी के वचन सुनकर बड़ा आनन्द हुआ।

भरत राम गुण ग्राम सनेह * पुलकि प्रसंसत राज विदेह
सेवक स्वामि सुभाउ सुहावन * नेमु प्रेम पावन अति पावन

राजा जनक रोमांचित होकर भरतजी और रामजी के गुण समूह और स्नेह को बढ़ाई करने लगे—सेवक और स्वामी दोनों का सुन्दर स्वभाव है, दोनों का नियम और प्रेम पवित्र से भी अति पवित्र है।

मति अनुसार सराहन लागे * सचिन सभासद सब अनुरागे
सुनि सुनि राम भरत सम्बादू * दुहुँ समाज हियँ हरप विषादू

मन्त्री और सब सभासद अनुरक्त होकर अपनी २ बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्रीराम-भरत सम्बाद सुन २ कर दोनों समाजों के हृदयों में आनन्द और विषाद दोनों हुए।

राम मातु दुखु सुखु सम जानी * कहि गुन राम प्रवोधी रानी
एक करहि रघुवीर बड़ाई * एक सराहत भरत भलाई

श्रीराम ने माता कीशल्या के दुःख-मुख को समान जानकर गुण य दोष कहकर रानियों को समझाया। कोई श्रीरामजी के बढ़प्पन और कोई भरतजी को भलाई की चर्चा करते हैं।

दोहा—अत्रि कहेउ तव भरत सन, सैल समीप सुकूप।

राखिअ तीरथ तोय तहँ, पावन अमिअ अनूप ॥२६७॥

तब अत्रिजी ने भरतजी से कहा—हे भरतजी ! इस पर्वत के पास ही एक सुन्दर कुआँ है। उसमें यह तीर्थों का पवित्र, अनुपम और अमृतरूप जल रचिये।

भरत अत्रि अनुसासन पाई * जल भाजन सब दिए चलाई
सानुज आपु अत्रि मुनि साधू * सहित गए जहँ कूप अगाधू

अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर भरतजी ने तीर्थों के जल के पात्र आगे भेज दिये और शत्रुघ्न सहित आप मुनि तथा साधुजनों को साथ ले वहाँ गये, जहाँ यह अथाह कुआँ था।

पावन पाथ पुन्य थल राखा * प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाखा
तात अनादि सिद्ध थल ऐहू * लोपेउ काल विदित नहिं केहू

और वह पवित्र जल उस पुण्य-स्थल में रज बिया। तब प्रसन्न होकर अत्रि मुनि बोले—हे तात ! यह अनादि सिद्ध-स्थल है, काल-घटा से लोप होने से कितों को मात्रम नहीं है।

जब सेवकन्ह सरस थलु देखा * कीन्ह सुजल हित कूप विपेपा
विधिवस भयउ विश्व उपकारू * सुगम अगम अति धरम विचारू

जब सेवकों ने जलमय धोष्ट स्थान देखा, तब सुन्दर जल के लिए एक विशेष कुआँ बना लिया। दैव-योग से विश्व का उपकार हो गया और धर्म का अगम विचार सुगम होगया।

भरत कूप अब कहिर्हि लोगा * अति पावन तीरथ संजोगा
प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी * होइर्हि विमल करम मन बानी

हे पार्वती ! श्रीरामजी के गुण गूढ़ हैं, उनसे पंडित और मुनिजन वैराग्य पाते हैं। परन्तु जो मगवान् से विमुख हैं तथा जिनको धर्म में प्रीति नहीं है, वे मूर्ख मोह को प्राप्त होते हैं।

पुर नर भरत प्रीति मैं गाई * सति अनुरूप अनूप सुहाई
अब प्रभुचरित सुनहु अतिपावन * करत जे वन सुर नर मुनि भावन

मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार भरतजी और पुरवासियों की अनोखी तथा सुन्दर प्रीति कही। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भले लगने वाले प्रभु श्रीरामजी के अति पवित्र चरित्र सुनो जो उन्होंने वन में किये।

एक बार चुनि कुसुम सुहाए * निज कर भूषण राम बनाए
सीतहि पहिराए प्रभु सादर * बैठे फटिक शिला पर सुन्दर

एक बार श्रीरघुनाथजी ने सुन्दर पुष्प चुनकर अपने हाथों से आभूषण बनाये और स्फटिक-शिला पर बैठकर सीताजी को प्रभु ने आदर सहित पहनाये।

सुरपति सुत धरि बायस वेषा * सठ चाहत रघुपति बस देखा
जिसि पिपीलिका सागर थाहा * सहा मन्दमति पावन चाहा

देवताओं के स्वामी इन्द्र का मूर्ख-पुत्र 'जयन्त' कौए का रूप धारण कर श्रीरघुनाथजी का पराक्रम देखना चाहता है। जैसे कोई बहुत ही छोटी बुद्धि वाली चिउटी समुद्र की थाह पाने की इच्छा करती हो।

सीता चरण चोंच हति भागा * मूढ़ मन्दमति कारन कागा
चला रुधिर रघुनायक जाना * सौंके धनुष सायक सन्धाना

वह मूर्ख कौआ मन्द-बुद्धि होने के कारण सीताजी के कदमों में चोंच मारकर भागा। जब श्रीरघुनाथजी ने जाना कि रुधिर वह चला, तब धनुष पर सौंके का वाण चढ़ाया।

दोहा—अति कृपालु रघुनायक, सदा दीन पर नेह।

ता सन आइ कीन्ह छलु, मूर्ख अवगुन गेह ॥ १ ॥

श्रीरघुनाथजी बड़े दयालु हैं, वे सदा दीनों पर स्नेह करते हैं। उनके साथ भी उस मूर्ख सब अवगुणों की खान जयन्त ने आकर कपट किया।

प्रेरित मन्त्र ब्रह्मसर धावा * चला भाजि बायस भय पावा
धरि निज रूप गयऊ पितु पाहीं * राम विमुख राखा तेहि नाहीं

मंत्र से प्रेरित वह ब्रह्मास्त्र दौड़ा तो कौआ डरकर भाग चला और अपना असली रूप धरकर अपने पिता इन्द्र के पास गया, परन्तु उसे श्रीरामजी का विरोधी जानकर उन्होंने नहीं रक्खा।

भा निरास उपजी अति त्रासा * जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा
ब्रह्मधाम सिद्धपुर सब लोका * फिरा श्रमित व्याकुल भय सोका

वह निराश हो गया मन में ऐसा भय हुआ जैसे चक्र से दुर्वासा ऋषि भयभीत हुए थे। ब्रह्मलोक शिवलोक आदि सब लोकों में वह भागता फिरा और थककर भय व दुःख से दुःखी होगया।

सुनि मन मुदित कहत रिषिराजु * हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाऊ

सभी को सुन्दर, अनोपे, पवित्र तथा दिव्य देखकर भरतजी वृष्टते हैं और मुनकर श्रिय-
राज अत्रिजी प्रसन्न मन से सबको उत्पत्ति, गुण, पुण्य और प्रभाव कहते हैं।

कतहुँ निमज्जन कतहुँ प्रनामा * कतहुँ विलोकत वन अमिरामा

कतहुँ वैठि मुनि आयसु पाई * सुमिरत सीय सहित दोड भाई

भरतजी कहीं स्नान करते, कहीं प्रणाम करते, कहीं वन की शोभा देखते और कहीं
मुनि की आज्ञा पाकर बंठकर सीताजी समेत श्रीराम-लक्ष्मणजी का स्मरण करते हैं।

देखि सुभाउ सनेह सुसेवा * देहिं असीस मुदित वनदेवा

फिरहिं गएँ दिन पहर अढ़ाई * प्रभु पदकमल विलोकहिं आई

भरतजीके स्वभाव, स्नेह व सुन्दर सेवाको देखकर वनके देवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं।
इस प्रकार ढाई पहर दिन बीतने पर लौटते हैं और आकर प्रभुके चरणकमलोंके दर्शन करते हैं।

दोहा—देखे थल तीरथ सकल, भरत पाँच दिन माँझ।

कहत सुनत हरिहर सुजस, गयउ दिवस भइ साँझ ॥३००॥

पाँच दिन में भरतजी ने चित्रकूट के सब तीर्थ-स्थान देण लिये। धीहरि और शिचजी
का सुयश कहते-सुनते यह दिन घीत गया और सन्ध्या हो गई।

भोर न्हाय सब जुरा समाजू * भरत भूमिसुर तेरहुति राजू

भल दिन आजु जानि मन माहीं * राम कृपाल कहत सकूचाहीं

प्रातःकाल स्नान करके भरतजी, ब्राह्मण व राजाजनकजी आदि सारा समाज आ जुटा।
आज विवाह का दिन अच्छा है, यह मन में जानकर कृपालु श्रीरामजी कहते हुए सङ्घाते हैं।

गुरु नृप भरत समा अवलोकी * सकुचि राम फिरि अवनि विलोकी

सील सराहि सभा सब सोची * कहूँ न राम सम स्वामि सँकोची

गुरुदेव, राजा जनक, भरत व समा की ओर देख श्रीरामजी फिर सकुचाकर पृथ्वी की
ओर देखने लगे। सारी सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्रीरामचन्द्रजी
के समान सकुचोची स्वामी कहीं नहीं हैं।

भरत सुजान राम रुख देखी * उठि सप्रेम धरि धीर विलेपी

करि दण्डवत कहत कर जोरी * राखी नाय सकल रुचि मोरी

सुजान भरतजी—श्रीरामजी का रूप देख, प्रेम सहित उठकर, विशेष धीरज धरकर
दण्डवत् करके, हाथ जोड़कर बोले—आपने मेरी सारी इच्छायें पूरी की हैं।

मोहि लगि सहेउ सर्वाहि सन्तापू * बहुत भाँति दुख पावा आपू

अव गोसाईं मोहि देउ रजाई * सेवो अवघ अवधि भरि जाई

मेरे लिये सबने कष्ट सहा और आपने भी बहुत कष्ट पाया। अतः हे स्वामी ! यह
आज्ञा दीजिये, जिससे जाकर अवधि भर अयोध्यापुरी की सेवा करें।

सकल मुनिन्ह सन विदा कराई * सीता सहित चले दोउ भाई
अत्रि के आश्रम प्रभु गयऊ * सुनत महामुनि हरषत भयऊ

सब मुनियों से विदा होकर सीता समेत दोनों भाई चल दिये । जब प्रभु अत्रिजी के आश्रम पर पहुँचे तो यह सुनते ही महामुनि अत्रिजी अत्यन्त प्रसन्न हुए ।

पुलकित गात अत्रि उठि धाए * देखि रामु आतुर चलि आए
करत दण्डवत मुनि उर लाए * प्रेम बारि दोउ जन अन्हवाए

पुलकित शरीर से अत्रि-मुनि उठ दौड़े, उनको आते देख श्रीरामजी भी जल्दी से आगे बढ़कर आये और दण्डवत की । दण्डवत करते ही मुनि ने श्रीरामजी को हृदय से लगा लिया, फिर दोनों भाइयों को प्रेमाश्रुओं के जल से स्नान कराया ।

देखि राम छबि नयन जुड़ाने * सादर निज आश्रम तब आने
करि पूजा कहि बचन सुहाए * दिए मूल फल प्रभु मन भाए

श्रीरामजी की छवि देखकर अत्रिजी के नेत्र शीतल हो गये, तब आदर सहित उनको अपने आश्रम पर ले आये । फिर पूजा करके मधुर वचन कहकर मन को अच्छे लगाने वाले कन्द-मूल फल प्रभु को दिये ।

सो०—प्रभु आसन आसीन, भरि लोचन सोभा निरखि ।

मुनिवर परम प्रवीन, जोरि पानि अस्तुति करत ॥३॥

आसन पर विराजमान प्रभु श्रीरघुनाथजी की शोभा नेत्र-भर देखकर परम चतुर मुनिश्वर अत्रिजी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे—

छन्द—नमामि भक्त वत्सलं । कृपालु शील कोमलं ॥

भजामि ते पदाम्बुजं । अकामिनां स्वधामदं ॥

निकास श्याम सुन्दरं । भवाम्बुनाथ मन्दरं ॥

प्रफुल्ल कञ्ज लोचनं । मदादि दोष मोचनं ॥

हे भक्तवत्सल ! हे कृपालु ! हे कोमल स्वभाव वाले ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ । हे निष्काम पुरुषों को अपना धाम देने वाले ! आपके चरणारविन्दों को मैं भजता हूँ । आप अति सुन्दर, श्याम, संसाररूपी समुद्र को मथने के लिए मन्दराचल रूपी खिले हुए कमल के समान विशाल नेत्रों वाले तथा मद आदि दोषों को दूर करने वाले हैं ।

प्रलम्ब बाहु विक्रमं । प्रभोऽप्रमेय वैभवं ॥

निषङ्ग चाप चायकं । धरं त्रिलोक नायकं ॥

दिनेश वंश मण्डनं । सहेश चाप खण्डन ॥

मुनीन्द्र सन्त रंजनं । सुरारि वृन्द भंजनं ॥

आपकी विशाल भुजाओं का पराक्रम एवं ऐश्वर्य अपरम्पार है । हे प्रभु ! आप तरकस और धनुष-वाण धारण करने वाले, त्रिलोकीनाथ, सूर्यवंश के शिरोमणि, श्रीमहादेवजी के

पिताजी की आज्ञा का पालन करें। महाराज को भलाई से ही सोच और देख में मत्ता है।

गुरुपितु मातु स्वामि सिख पालें * चलेहुँ कुमगु पगु परहि न खालें
अस विचारि सब सोच विहाई * पालहु अवध अवधि भरि जाई

गुरु, पिता, माता व स्वामी की आज्ञा पालने से कुमार्ग में चलने पर भी पांव गट्टे में नहीं पड़ता। ऐसा विचार कर सब चिंता त्याग कर अवधि भर अयोध्या का पालन करो।

देसु कोषु परिजन परिवारु * गुरपद रजहिं लाग छर भारु
तुम्ह मुनिमातु सचिवसिखमानो * पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी

देश, कोष, पुरवासी, कुटुम्ब आदि का भार तो गुरुजी की घरण-रज पर है। तुम तो मुनि, माताओं और मन्त्रियों की शिक्षा मानकर-पृथ्वी, प्रजा और राजधानी की रक्षा करते रहना।

दोहा—मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहुँ एक।

पालइ पोषइ सकल अँग, तुलसी सहित विवेक ॥३०३॥

तुलसीदासजी कहते हैं—मुखिया तो मुख के समान होना चाहिए, जो खाने-पीने को तो एक ही है, परन्तु विचार सब अङ्गों का पालन करता है।

राजधरम सरवसु एतनोई * जिमि मन माहि मनोरथ गोई
बन्धु प्रबोध कीन्ह बहु भाँती * विनु अधार मन तोपु न साँती

राज-धर्म का सार इतना ही है, जैसे मन में मनोरथ छिपे रहते हैं। श्रीरामजी ने भाई को बहुत प्रकार से समझाया, परन्तु बिना किसी आधार से उनके मन में मत्तोप न हुआ और न शांति।

भरत सील गुर सचिव समाजू * सकुच सनेहें विवस रघुराजू
प्रभु करि कृपाँ पाँवरीं दोन्हीं * सादर भरत सीस धरि लीन्हीं

इधर तो भरत का शील, उधर गुरु, मंत्री व समाज का संकोच, स्नेह से श्रीरामजी साधारण हो गये। तब प्रभु ने कृपा करके अपनी छड़ाऊँ बों, भरतजी ने उन्हें सादर मस्तक पर रख लिया।

चरन पीठि करुनानिधान के * जनु जुग जामिक प्रजा प्रान के
सम्पुट भरत सनेह रतन के * आँखर जुग जनु जीव जतन के

कृपानिधान श्रीरामजी की बोंनीं छड़ाऊँ, मानो प्राणों के दो रत्नक हैं। भरतजी के स्नेह रूपी रत्न के लिए मानो दो डिब्बा हैं और जीव की रक्षा के लिए 'राम' नाम के दो अक्षर हैं।

कुल कपाट कर कुसल करम के * विमल नयन सेवा सुधरम के
भरत मुदित अवलम्ब लहे तें * अस सुख जस सिय रामु रहे तें

वे कुल की कुशल के लिए मानो दो कियाड़ हैं, अच्छे कर्म करने के लिए मानो दो हाथ हैं। सेवा और श्रेष्ठ धर्म करने के लिए दो सुन्दर नेत्र हैं, ऐसा आधार पाकर भरतजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें इस प्रकार बहुत सुख हुआ, जैसा कि श्रीसीता-रामजी के रहने से होता है।

दोहा—माँगैउ विदा प्रनामु करि, राम लिए उर लाइ।

लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कुअवसर पाइ ॥३०४॥

मनुष्य इस स्तुति को आदर सहित पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परमपद को प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है।

दोहा—विनती करि मुनि नाइ सिर, कह कर जोरि बहोरि ।

चरन सरोरुह नाथ जनि, कबहुँ तजै मति मोरि ॥ २ ॥

स्तुति करके सिर नवाकर अत्रि मुनि ने हाथ जोड़कर कहा—हे नाथ ! मेरी बुद्धि आपके चरणारविंदों को कभी न छोड़े।

**अनुसुइया के पद गहि सोता * मिली बहोरि सुसील विनीता
रिषिपतिनी मन सुरत अधिकाई * आसिष देइ निकट बैठाई**

फिर परम सुशीलवती और नम्र सीताजी (अत्रि मुनि की स्त्री) अनुसुइयाजी के चरण छूकर उनसे मिलीं। ऋषि-पत्नी के मन में अत्यन्त आनन्द हुआ और आशीर्वाद देकर उन्होंने सीताजी को अपने पास बैठा लिया।

**दिव्य वसन भूषण पहिराए * जे नित नूतन अमल सुहाए
कह रिषि बधू सरिस मृदु बानी * नारि धर्म कछु ब्याज बखानी**

फिर उन्हें स्वर्गीय वस्त्राभूषण पहिनाये, जो नित्य-नये, सुन्दर और निर्मल बने रहते हैं। ऋषि-पत्नी सीधी और कोमल वाणी से कुछ स्त्री-धर्म का वर्णन करने लगीं—

**मातु पिता भ्राता हितकारी * हितुप्रद सब सुनु राजकुमारी
अमित दान भर्ता बयदेही * अधस सो नारि जो सेव न तेही**

हे राजकुमारी ! सुन-माता, पिता, भाई यह सब हितेषी हैं, परन्तु थोड़े ही समयतक सुख देनेवाले हैं। हे सीता ! पति तो अपार सुख देने वाला है, वह स्त्री नीच है, जो पति-सेवा नहीं करती।

धीरज धर्म मित्र अरु नारी * आपद काल परखिअहिं चारी

रोगबस जड़ धन हीना * अन्ध बधिर क्रोधी अति दीना

धीरज, धर्म, मित्र और स्त्री—इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय में ही होती है।

बूढ़ा, रोगी, मूर्ख, बहिरा, क्रोधी और बहुत दुःखी—

ऐसेहु पति कर किएँ अपमाना * नारि पाव जमपुर दुख नाना

एकइ धर्म एक व्रत नेमा * कार्य वचन मन पति पद प्रेमा

ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमलोक में अनेक दुःख पाती है। स्त्री का एक ही धर्म, एक ही व्रत और नियम यह है कि देह वाणी और मन से पतिके चरणों में प्रेम करे।

जगपतिव्रताचारि बिधिअहहीं * वेद पुरान सन्त सब कहहीं

उत्तम के अस बस मन माहीं * सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं

वेद, पुराण और सन्त ऐसा कहते हैं कि संसार में पतिव्रता चार प्रकार की होती हैं उत्तम पतिव्रता के मन में ऐसा विचार रहता है कि स्वप्न में भी दूसरा पुरुष संसार में नहीं है।

श्री रामायण भा० टी०



धीरामजी द्वारा भरतजी को चरण-पादुका देना

वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले-

जासु कृपा अज शिवसनकादी * चहत सकल परमा रथ वादी
ते तुम्ह राम अकाम पिआरे * दीनबन्धु मृदु वचन उचारे

ब्रह्मा, शिव, सनकादिक सभी मोक्षवादी जिसकी कृपा चाहते हैं, हे राम ! ऐसे आप दीनबन्धु और निष्काम भक्तों के प्यारे हैं, जो कोमल वचन बोलते हैं ।

केहि विधि कहौं जाहु अब स्वामी * कहहु नाथ तुम्ह अन्तर जामी
अस कहि प्रभु विलोकि मुनिधीरा * लोचन जल बह पुलक सरीरा

हे स्वामी ! मैं किस प्रकार कहूँ कि आप जाइये ? हे नाथ ! आप ही कहिये, आप अन्तर्धामी हैं । ऐसा कहकर धीर-मुनिने प्रभु को ओर देखा, नेत्रों से जल बह रहा है, शरीर पुलकित है ।

छन्द-तनु पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज किए ।

मनु ग्यान गुन गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किए ॥

जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई ।

रघुवीर चरित पुनीत निसि दिन वास तुलसी गावई ॥

मुनि का शरीर पुलकित और स्नेह से पूर्ण है । नेत्र भी श्रीरामजी के मुख-कमल की ओर लगे हैं, विचार रहे हैं कि कौन-सा ऐसा जप-तप मैंने किया है, जो कि मन, बुद्धि, गुण और इन्द्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाये हैं ? जप, योग तथा धर्म-समुहों से मनुष्य अनुपम भक्ति पाते हैं । श्रीरघुनाथजी के पवित्र चरित्र तुलसीदासजी रात-दिन गाते हैं ।

दोहा-कलिसल समन दमन मन, राम सुजस सुखमूल ।

सादर सुनहिं जे तिन्ह पर, राम रहहिं अनुकूल ॥ ३ ॥

श्रीरामजी का सुन्दर यश कलियुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला एवं सुख का मूल है । जो लोग आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, उन पर श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न रहते हैं ।

सो०-कठिन काल मल कोष, धर्म न ग्यान न जोग जप ।

परिहरि सकल भरोस, रामहि भर्जाहिं ते चतुर नर ॥ ६ ॥

यह कठिन कलिकाल पापों का भण्डार है, उसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग-जप है, जो सबका भरोसा छोड़कर श्रीरामजी को भजते हैं-वे मनुष्य चतुर हैं ।

मुनि पदकमल नाइ कर सीसा * चले वनहिं सुर नर मुनि ईसा
आगे राम अनुज पुनि पाछे * मुनिवर बेष बने अति काछे

अत्रि-मुनि के चरणों में सिर नवाकर देवता और मुनियों के स्वामी श्रीरामचन्द्र जी वन को चले । आगे श्रीरामजी हैं, उनके पीछे लक्ष्मणजी हैं । श्रेष्ठ मुनियों का-सा अति सुन्दर वेष धारण किये हैं ।

उभय बीच श्री सोहइ कैसी * ब्रह्म जीव बिच माया जैसी

उनके मन, कर्म, वचन से प्रेम व विरयास को श्रीरामजी ने प्रेम के धियस होकर अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पत्नी मृग, मनुष्य व मछली आदि चित्रकूट के घर-अचर सभी जीव उवास हो गये।

**विवुध विलोकि दसा रघुवर कौं * वरपिसुमन कहिगति घरघर की
प्रभु प्रनाम करि दीन्ह भरोसो * चले मुदित मन डर न खरोसो**
देवताओं ने श्रीरामजीकी दशा देखकर पुण्य वरसाये और अपने-अपने घरकी गतिकही। तबप्रभु श्रीरामजीने उन्हें प्रणाम करके भरोसा दिया तो वे प्रसन्न होकर चल दिये, मनमें डर नहीं रहा दोहा—सानुज सीय समेत प्रभु, राजत परन कुटोर।

भगति ग्यानु वैराग्य जनु, सोहत धरें शरीर ॥३०६॥

छोटे भाई लक्ष्मण और सीताजी समेत प्रभु पणकुटी में ऐसे विराज रहे हैं, मानो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ही वेह धारण किये सुतोमित हो।

**मुनि महिसुर गुर भरत भुआलू * रामु विरहें सब साज विहालू
प्रभु गुन ग्राम गनत मन माहीं * सब चुपचाप चले भग जाहीं**

मुनि, ब्राह्मण, गुरु भरत और राजा जनक सब समाज सहित श्रीरामजी के वियोग से बेहाल हैं। श्रीरामजीके गुण समूह मन में विचारते हुए मार्गमें सब चुपचाप घते जा रहे हैं।

**जमुना उतर पार सब भयऊ * सो वासर विनु भोजन गयऊ
तसरि देवसरि दूसरि वासू * राम सखा सब कीन्ह सुपासू**

यमुनाउतर कर सब पार हुए, यहदिन विना भोजन कियेही बीत गया। दूसरेदिन गङ्गाजीके पार जाकर सबने वासकिया, वहाँ श्रीरामजीके सखाने सबकेलिए हरतरह की मुविधा करदी।

**सई उत्तरि गोमती नहाए * चौथे दिवस अवधपुर आए
जनकु रहे पुर वासर चारी * राज काज सब साज संवारी**

सई उत्तरकर गोमतीमें स्नान किया और चौथे दिन अयोध्यापुरी में आ पहुँचे। रामा जनकजी चार दिन तक अयोध्यापुरी में रहे और राज-कार्य का सब साज संपात कर—

**सौंपि सचिव गुरु भरतहिं राजू * तेरहुति चले साज सब साजू
नगर नारि नर गुरु सिख मानी * वसे सुखेन राम रजधानी**

मंत्री, गुरु और भरतजी को राज्य सौंप कर सब साज सजाकर जनकपुरकी घते। नगरके नर-नारी गुरुजी की शिक्षा मानकर सुख से श्रीरामजी की राजधानी अयोध्या में रहने लगे।

दोहा—राम दरस लगि लोग सब, करत नेम उपवास।

तजि तजि भूपन भोग सुख, जिअत अवधि की ओस ॥३१०॥

श्रीरामजी के दर्शन के हेतु सब लोग नियम और दत करते हुए-भूपन, भोग और सब प्रकार के सुखों को त्याग कर 'अवधि' की आशा से प्राण रखते हैं।

सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे * निज निज काज पाइ तिर

दोहा—सीता अनुज सप्रेम प्रभु, नील जलद तनु श्याम ।

मम हियँ बसहु निरन्तर, सगुन रूप श्रीराम ॥ ५ ॥

हे नील-कमल के समान श्यामसुन्दर शरीर वाले श्रीरामजी ! सीताजी और लक्ष्मणजी सहित सगुण-रूप से आप सदैव मेरे हृदय में वास करिये ।

अस कहि जोग अगिनितनु जारा * राम कृपा बैकुण्ठ सिधारा

रिषि निकाय मुनिवर गति देखि * सुखी भए निज हृदयँ विसेषी

ऐसा कहकर योगाग्नि से अपने शरीर को जला दिया, वे रामजी की कृपा से बैकुण्ठ को सिधारे । सब ऋषि-मुनिवर 'शरभङ्गजी' की यह गति देखकर अपने हृदय में बड़े सुखी हुए ।

अस्तुति करहिं सकल मुनिवृन्दा * जयति प्रनत हित करना कन्दा

पुनि रघुनाथ चले वन आगे * मुनिवर वृन्द विपुल संग लागे

समस्त मुनिगण भगवान की स्तुति करने लगे—दीन-हितकारी करुणानिधान प्रभु की जय हो । श्रीरघुनाथजी आगे वन में चले तो बहुत से मुनिवरों के समूह उनके साथ ही लिए ।

अस्ति समूह देखि रघुराया * पूछी मुनिन्ह लागि अति दायी

हड्डियों का ढेर देखकर श्रीरघुनाथजी को अति दया लगी, तब उन्होंने मुनियों से पूछा—

जानत हूँ पूछिअ कस स्वासी * समदरसी तुम्ह अन्तरजामी

निसिचर निकर सकल मुनिखाए * सुनि रघुवीर नयन जल छाए

हे स्वासी । आप सब जानते हुए भी कैसे पूछ रहे हैं ? आप समदर्शी और अन्तर्यामी हैं । राक्षसों के समूह ने सब मुनियों को खाया है, यह सुनकर श्रीरघुनाथजी के नेत्रों में जल भर आया ।

दोहा—निसिचर हीन करउँ सहि, भुज उठाइ प्रन कोन्ह ।

सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि, जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥ ६ ॥

उन्होंने भुजा उठाकर यह प्रतिज्ञा की कि 'मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित करदूँगा ।' फर सब मुनियों के आश्रमों पर जा-जाकर सुख दिया ।

मुनि अगस्ति कर शिष्य सुजाना * नाम सुतीछन रति भगवाना

मन क्रम वचन रामपद सेवक * सपनेहुँ आन भरोस न देवक

अगस्त्य ऋषि के एक चतुर शिष्य 'सुतीक्षण' नामक थे, जिनकी भगवान में बड़ी प्रीति थी । वे मन कर्म और वचन से श्रीरामजी के चरणों के सेवक थे, उन्हें स्वप्न में भी किसी और देवता का भरोसा नहीं था ।

प्रभु आगवनु श्रवन सुनि पावा * करत मनोरथ आतुर धावा

हे विधि दीनबन्धु रघुराया * मो से सठ पर करिहहिं दायी

ज्योंही प्रभु का आगमन कानों से सुना, त्योंही बहुत प्रकार के मनोरथ करते हुए आतुरता से उठ दौड़े । हे विधाता ! दीनबन्धु श्रीरघुनाथजी—क्या मेरे जैसे शठ पर भी दया करेंगे ?

सहित अनुज मोहि राम गोसाई * मिलिहहिं निज सेवक की नाई

परेउ लकुट इव चरत्निहि लागी * प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी
भुजविशाल गहि लिए उठाई * परम प्रीति राखे उर लाई

वड़े भाग्यवान् मुनि प्रेम मगन होकर लकुट की तरह श्रीरामजी के चरणों में गिर पड़े। श्रीरामजी ने अपनी विशाल भुजाओं से उन्हें उठा लिया और प्रेम सहित हृदय से लगा लिया।

मुनिहि मिलत अस सोह कृपाला * कनक तरुहि जनु भेंट तमाला
राम बदन विलोकि मुनि ठाढ़ा * मानहुँ चित्र माँझ लिखि काढ़ा

मुनि से मिलते हुए दयालु श्रीरामजी ऐसे शोभित हुए मानो सोने के वृक्ष से तमाल भेंटता हो। श्रीरामजी के मुख को देखकर मुनि ऐसे खड़े रह गये, मानो चित्र में लिखकर बनाये गये हों।

दोहा—तब मुनि हृदय धीर धरि, गहि पद बाराहिं बार।

निज आश्रम प्रभु आनकर, पूजा त्रिविध प्रकार ॥ ७ ॥

तब मुनि ने धैर्य धारण कर बारम्बार चरण छुए, फिर उनको अपने आश्रम में लाकर अनेक भाँति से पूजा की।

कह मुनि प्रभु सुनु विनती सोरी * अस्तुति करौं कवन विधि तोरी
सहिमा अमित सोरि सति थोरी * रवि सन्मुख खद्योत अँजोरी

मुनि ने कहा—हे स्वामी ! मेरी विनय सुनिये, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूँ ? आपको महिमा अपार है और मेरी बुद्धि थोड़ी है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का प्रकाश।

श्याम ताम्ररस दाम सरीरं * जटा मुकुट परिधन मुनि चौरं
पाणि चाप शर कटि तूणीरं * नौमि निरन्तर श्रीरघुवीरं

नील-कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, जटा-मुकुट और मुनियों के वस्त्र धारण किये, धनुष-बाण हाथ में लिये, कमर में तरकस बांधे रघुनाथजी को मैं नमस्कार करता हूँ।

मोह विपिन घन दहन कृसानुः * सन्त सरोरुह कानन भानुः
निसिचर करि बरूथ मृगराजः * त्रातु सदा नो भव खग बाजः

जो मोहरूपी सघन-वन के जलाने को अग्नि हैं, संतरूपी कमल-वन को प्रफुल्लित करने के लिये सूर्य हैं, राक्षसरूपी हाथियों के झुण्ड का नाश करने के लिए सिंह के समान हैं और संसार-रूपी पक्षी को नष्ट करने के लिए 'बाज' पक्षी के समान हैं, वे भगवान् मेरी सदा रक्षा करें।

अरुण नयन राजीव सुवेशं * सीता नयन चकोर निशेशं
हर हृदि मानस बाल सरालं * नौमि राम उर बाहु विशालं

लाल कमल के समान नेत्र और सुन्दर वेष वाले, सीताजी के नेत्ररूपी चकोर को चन्द्रमा, शिवजी के हृदयरूपी मानसरोवर के हंस, विशाल वक्षःस्थल तथा भुजा वाले—श्रीरामजी ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ।

संसय सर्प असन उरगादः * शसन सुकर्कश तर्क विषादः
भव भञ्जन रञ्जन सुर यूथः * त्रातु सदा नो कृपा बरूथः



* अथ मङ्गलाचरणम् *

श्लोक

मूलं धर्मतरौविवेकजलधेः पूर्णेन्दुमानन्ददं ।

वैराग्याम्बुजभास्करं ह्यघघनध्वान्तापहंतापहम् ॥

मोहाम्भोधरपूगपाटनविधौ स्वःसम्भवं शंकरं ।

वन्दे ब्रह्मकुलं कलंकशमनं श्रीराम भूप्रियम् ॥

धर्मरूपी वृक्ष के मूल, विवेकरूपी समुद्र को आनन्द देने वाले पूर्ण-चन्द्र, वैराग्यरूपी कमल के लिए सूर्य निश्चय ही पापरूपी अन्धकार को मिटाने वाले, मोहरूपी मेघों के समूह को छिन्न-भिन्न करने में आकाश से उम्पन्न वायुरूप, प्रह्ला-भूति, कलङ्क-नाशक तथा श्रीराम-चन्द्रजी के प्रिय-भगवान् शङ्करजी की मैं वन्दना करता हूँ ।

सान्द्रानन्दपयोदसौभगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं ।

पाणौ वाणशरासनं कटिलसत्तू णीरभारं वरम् ॥

राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं ।

सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामभिरामं भजे ॥

जो आनन्दरूप एवं जल-युक्त मेघ के समान सुन्दर श्याम शरीर वाले हैं तथा जो सुन्दर पीताम्बर धारण किये हैं, जिनके हाथों में धनुष-बाण है, कमर में तरकस शोभायमान है, नील-कमल के समान विशाल नेत्र हैं, सिर पर जटाजूट शोभित हैं, सीताजी और लक्ष्मणजी सहित मार्ग में जाते हुए उन परम आनन्द देने वाले श्रीरामचन्द्रजी को मैं भजता हूँ ।

सो०—उमा रामगुण गूढ, पण्डित मुनि पार्वहि विरति ।

पार्वहि मोह विमूढ, जे हरि विमुख न धर्म रति ॥१॥

सो, हे भक्तों को सुख देने वाले-श्रीरामजी ! आपको जो अच्छा लगे, वही दीजिये ।

अबिरल भगति बिरति विग्याना * होहु सकल गुन ग्यान निधाना
प्रभु जो दीन्ह सो वर मैं पावा * अब सो देहु मोहि जो भावा

श्रीरामजी बोले-तुम अटल भक्ति, वैराग्य, विज्ञान समस्त गुण व ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओ। (तब मुनि बोले-) हे प्रभु! जो वर आपने दिये-वह मैंने पाये, अब जो मुझे भला लगे-वह भी दो ।

दोहा-अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बानि धरि बाम ।

सम हिय गगन इन्दु इव, बसहु सदा निह काम ॥ ८ ॥

हे प्रभु ! हे श्रीरामजी ! लक्ष्मण और जानकीजी समेत धनुष-बाणधारी 'आप' स्थिर होकर मेरे हृदयरूपी आकाश में चन्द्रमा के समान सदैव निवास करें ।

एवमस्तु कहि राम निवासा * हरषि चले कुम्भज रिषि पासा
बहुत दिवस गुरु दरसनु पाएँ * भए मोहि एहि आश्रम आएँ

तब लक्ष्मीपति श्रीरामचन्द्रजी 'एवमस्तु' कहकर प्रसन्न होकर अगस्त्य-ऋषि के पास चले । तब सुतीक्ष्ण बोले-गुरुदेव के दर्शन पाकर इस आश्रम में आये मुझे बहुत दिन हो गये ।

अब प्रभु सङ्ग जाउँ गुरु पाहीं * तुम्ह कहँ नाथ निहोरा नाहीं
देखि कृपानिधि सुनि चतुराई * लिए सङ्ग बिहँसे द्वौ भाई

अब प्रभु के साथ गुरुदेव के पास जाऊँगा, हे नाथ! इसमें आप पर मेरा कुछ अहसान नहीं है । कृपानिधान श्रीरामजी ने मुनि की चतुराई देख अपने संग ले लिया और दोनों भाई हँसने लगे ।

पन्थ कहत निज भगति अनूपा * सुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा
तुरत सुतोछन प्रभु पहिँ गयऊ * करि दण्डवत कहत अस भयऊ

मार्ग में अपनी सुन्दर भक्ति करते हुए देवाधिराज श्रीरामजी अगस्त्य-ऋषि के आश्रम में पहुँचे । सुतीक्ष्ण जल्दी से गुरु के पास गये और साष्टांग प्रणाम कर उनसे ऐसा कहने लगे-

नाथ कौसलाधीस कुमारा * आए मिलन जगत आधारा
राम अनुज सहित नैदेही * निसिदिन देव जपत हहु जेही

हे नाथ ! कौशलाधीश के राजकुमार जगदाधर 'श्रीरामजी' छोटे भाई लक्ष्मणजी तथा सीताजी सहित आपसे मिलने आये हैं । हे देव ! जिनको आप रात-दिन जपते हैं ।

सुनत अगस्ति तुरत उठि धाए * हरि विलोकि लोचन जल छाए
सुनि पद कभल परे द्वौ भाई * रिषि अति प्रीति लिए उर लाई

यह सुनते ही अगस्त्य तुरन्त उठ दौड़े, भगवान को देख नेत्रों में जल भर आया । मुनि के चरणों में दोनों भाई गिरे, तब ऋषि ने बड़े प्रेम से उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया ।

सादर कुसल पूछि सुनि ग्यानी * आसन पर बैठारे आनी
पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा * मोहि सम भगवन्त नहिँ दूजा

काहूँ बैठन कहा न ओहो * राखि को सकइ राम कर द्रोही
मातु मृत्यु पितु समन समाना * सुधा होइ विष सुनु हरिजाना

उससे किसी ने बढेने तक को न कहा। श्रीरामजी के शत्रु को कौन रख सकता है। हे गहड़! सुनो, राम-द्रोही को माता मृत्यु के समान, पिता यम के समान व अमृत विष के समान हो जाता है

मित्र करइ सतरिपु कै करनी * ता कहें चिबुध नदी वैतरनी
सब जगु ताहि अनलहु ते ताता * जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता

मित्र-सी धरियों के तुल्य बर्ताव करने लगता है गंगाजी उसे वैतरणी के समान हो जाती है। हे भाई! सुनो, जो रामजी से विमुख होता है, उसे सब जगत अग्नि से भी अधिक गरम लगता है।

नारद देखा विकल जयन्ता * लागि दया कोमल चित सन्ता
पठवा तुरत राम पाहि ताही * कहेसि पुकारि प्रनत हित पाही

नारदजी ने जयन्त को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि सन्तों का हृदय बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे तुरन्त श्रीरामजी के पास भेज दिया। उसने पुकारकर कहा हे शरणागत के हितकारी! मेरी रक्षा करिये।

आतुर सभय गहेसि पद जाई * त्राहि त्राहि दयालु रघुराई
अतुलित बल अतुलित प्रभुताई * मैं सतिमन्द जानि नहिं पाई

आतुर और भयभीत जयन्त ने श्रीरघुनाथजी के चरण पकड़ लिये और बोला-हे दोन-दयालु श्रीरघुनाथजी! रक्षा करो, रक्षा करो। मैं मन्द-बुद्धि आपके अतुलित-बल और अपार महिमा को जान नहीं पाया।

निजकृत कर्म जनित फल पायउं * अब प्रभु पाहि सरन तकि आयउं
सुनि कृपालु अति आरत बानी * एक नयन करि तजा भवानी

मैं अपने किये हुए कर्म का फल पा चुका हूँ। हे प्रभु! अब आपकी शरण तक कर आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिये। हे भवानी! अति दोन वचन सुनकर दयालु प्रभु ने उसकी एक ओख फोड़कर उसे छोड़ दिया।

सो०-कोन्ह मोह बस द्रोह, जद्यपितेहिकर बध उचित।

प्रभु छोड़े करि छोह, को कृपालु रघुवीर सम ॥ २ ॥

उसने अज्ञान वश द्रोह किया था। यद्यपि उत्तरा बध ही उचित था, तो भी प्रभु ने कृपा करके छोड़ दिया श्रीरघुनाथजी के समान दयालु रहने हैं।

रघुपति चित्रकूट वसि नाना * चरित किए श्रुति लुका सनाना
बहुरि रामअस मन अनुमाना * होईहि भीर सबहि नाना

श्रीरघुनाथजी ने चित्रकूट में वास करके कानों को बन्द करने के समान चरित्र किये। फिर श्रीरघुनाथजी ने मन में ऐसा इत्थान चित्रा के रूप में हमें सब जान गये हैं।

आप अखण्ड और अनन्त ब्रह्म हैं, अनुभव से जानने योग्य हैं, जिसको सन्त-जन भजते हैं।
अस तव रूप बखानउँ जानउँ * फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रतिमानउँ
सन्तत दासन्ह देहु बड़ाई * ताते मोहि पूँछेहु रघुराई

मैं आपके रूप का वर्णन करता हूँ और जानता हूँ, तो भी फिर-फिर मैं सगुण-ब्रह्म में प्रेम मानता हूँ। हे रामजी ! आप अपने दासों को सदा बड़ाई देते हैं, इसी से आप ने मुझ से पूछा है।

हे प्रभु परम मनोहर ठाउँ * पावन पञ्चवटी तेहि नाउँ
दण्डक वन पुनीत प्रभु करहु * उग्र शाप मुनिवर कर हरहु

हे प्रभु ! एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम 'पंचवटी' है। हे प्रभु ! आप दण्डक वन को पवित्र कीजिये और मुनिवर गौतमजी के कठिन शाप को दूर कीजिये।

वास करहु तहँ रघुकुल राया * कीजै सकल मुनिन्ह पर दाया
चले राम मुनि आयसु पाई * तुरतहि पञ्चवटी नियराई

हे रघुकुल के स्वामी ! आप वहाँ जाकर वास कीजिए और सब मुनियों पर दया कीजिये। तब मुनि की आज्ञा पाकर श्रीरामजी चले और शीघ्र ही पंचवटी के निकट जा पहुँचे।

दोहा-गोधराज सैन भेंट भइ, बरु विधि प्रीति गढ़ाइ।

गोदावरी निकट प्रभु, रहे परन गृह छाड़ ॥१०॥

वहाँ गोधराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ सभी भाँति से प्रीति बढ़ करके प्रभु श्रीराम चन्द्रजी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छोकर रहने लगे।

जब ते राम कीन्ह तहँ बासा * सुखी भए मुनि बीती त्रासा
गिरि वन नदी ताल छबि छाए * दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए

श्रीरामजी ने जब से यहाँ वास किया, तब से मुनि लोग सुखी हो गये और उनका डर दूर हो गया। पर्वत, वन, नदी, तालाब सब शोभायमान हो गये और वे दिनों-दिन बहुत ही सुहावने लगने लगे।

खग मृग वृन्द अनन्दित रहहीं * मधुर मधुर गुंजत छबि लहहीं
सो वन वरनि न सक अहिराजा * जहाँ प्रगट रघुवीर बिराजा

पशु-पक्षियों के झुण्ड आनन्द से रहते हैं और भौरे मधुर गुञ्जार करते हुए सुशोभित हैं। उस वन की शोभा का वर्णन शेषजी भी नहीं कर सकते, जहाँ साक्षात् श्रीरघुनाथजी विराजमान हैं।

एक बार प्रभु सुख आसीना * लछिमन वचन कहे छल हीना
सुर नर मुनि सचराचर साई * मैं पूछउँ निज प्रभु की नाई

एक बार श्रीरामजी सुखपूर्वक बैठे हुए थे उस समय लक्ष्मणजीने कपट रहित वचन कहे-हे देव ! हे मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी ! मैं अपने प्रभु के समान आपसे पूछता हूँ-

मोहि समुझाइ कहहु सोइ देवा * सब तजि करौं चरन रज सेवा
कहहु ज्ञान विराग अरु साया * कहहु सो भगति करहु जेहि दाया

धनुष को तोड़ने वाले, मुनीश्वर और सन्तों को प्रसन्न करने वाले तथा राक्षसों के समूह का नाश करने वाले हैं।

मनोज वैरि वन्दितं । अजादि देव सेवितं ॥
 विशुद्ध बोध विग्रहं । समस्त दूषणापहं ॥
 नमामि इन्दिरा पतिं । सुखाकरं सतां गतिं ॥
 भजे सशक्ति सानुजं । शची पती प्रियानुजं ॥

आप महादेवजी द्वारा वन्दित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, शुद्ध ज्ञान-स्वरूप और सम्पूर्ण दोषों को हरने वाले हैं। हे लक्ष्मीपति ! हे सुख के निधान और सत्पुरुषों की एक मात्र-गति ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे इन्द्र के छोटे भाई (वामनजी) ! श्रीजानकी जी और भाई लक्ष्मणजी के सहित मैं आपका ध्यान करता हूँ।

त्वदंघ्रि मूल ये नराः । भजन्ति हीन मत्सराः ॥
 पतन्ति नो भवार्णवे । वितर्क वीचि संकुले ॥
 विविक्त वासिनः सदा । भजन्ति मुक्तये मुदा ॥
 निरस्य इन्द्रियादिकं । प्रयान्ति ते गतिं स्वर्कं ॥

जो पुरुष ईर्ष्या छोड़कर आपके चरणों को भजते हैं, वे कुतुहलपी लहरों से पूर्ण भय-सागर में नहीं गिरते। जो एकान्त-वासि अपनी भुक्ति के लिए प्रसन्नता पूर्वक आपका भजन करते हैं, वे आपकी गति को पाते हैं।

तमेकमद्भुतं प्रभुं । निरोहमीश्वरं विभुं ॥
 जगद्गुरु च शाश्वतं । तुरीयमेव केवलं ॥
 भजामि भाव बल्लभं । कुयोगिनां सुदुर्लभं ॥
 स्वभक्त कल्प पादपं । समं सुसेव्यमन्वहं ॥

जो अद्वितीय, अद्भुत-स्वरूप, समर्थ, इच्छा-रहित, ईश्वर, सर्वव्यापक, जगद्गुरु, सनातन, तुरीय और केवल (एकमात्र) हैं तथा जो भाव-प्रिय, कुयोगियों की अति दुर्लभ, भक्तों के लिए कल्पवृक्ष, सम और सुखपूर्वक सेवा करने योग्य हैं, इन्हें मैं सर्वय भजता हूँ।

अनूप रूप भूपतिं । नतोऽहमुविजा पतिं ॥
 प्रसीद मे नमामि ते । पदाब्ज भक्ति देहि मे ॥
 पठन्ति ये स्वतं इदं । नरादरेण ते पदं ॥
 ब्रजन्ति नात्र संशयं । त्वदीय भक्ति संयुताः ॥

हू
 त्नी

हे अनुपम रूप वाले राजा ! हे सीतापति ! मैं आपको प्रणाम ...
 पर प्रसन्न होइये, अपने चरणारविन्दों की भक्ति बीजिए, मैं आपको ...

धर्म से वैराग्यव योग से ज्ञान होता है और ज्ञान—मोक्ष का दाता है, ऐसा वेदों ने कहा है। हेभाई! जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न हो जाऊँ वहीं मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतन्त्र अवलम्ब न आना * तेहि आधीन ग्यान विग्याना

भगति तात अनुपम सुख मूला * मिलइ जो सन्त होइँ अनुकूला

वह भक्ति स्वतंत्र है, उसे दूसरे का सहारा नहीं, ज्ञान-विज्ञान उसके आधीन है। हे लक्ष्मण! भक्ति उपमा रहित और सुख की जड़ है, वह तभी मिलती है—जब संतजन अनुकूल होते हैं।

भगति कि साधन कहउँ बखानी * सुगम पन्थ मोहि पावहि प्राणी
प्रथमहिं विप्रचरन अति प्रीति * निज निज कर्म निरत श्रुति नीति

अब भक्ति के साधन वर्णन करता हूँ, जिससे प्राणी मुझे सहज ही पा जाते हैं। प्रथम तो ब्राह्मण के चरणों में अधिक प्रीति हो और वेद की रीति से अपने धर्म में लगा रहे।

एहिकर फल पुनि विषय विरागा * तब मम धर्म उपज अनुरागा
श्रवणादिक नव भगति दृढाहीं * मम लीला रति अति मल साहीं

फिर इससे विषयों में वैराग्य होता है, तब मेरे धर्म में प्रेम उत्पन्न होता है। श्रवण आदि नव भक्तियाँ दृढ़ हो जाती हैं और मन में मेरी लीलाओं के प्रति बड़ी प्रीति हो जाती है।

सन्त चरन पंकज अति प्रेसा * मन क्रम वचन भजन दृढ नेसा
गुरु पितु मातु बन्धु पति देवा * सब मोहि कहँ जान दृढ सेवा

जिनका सन्तजनों के चरणों में अधिक प्रेम हो और मन, कर्म, वचन से भजन करने का पक्का नियम हो। गुरु, माता, पिता, भाई, स्वामी तथा देवता सब कुल मुझको ही जानें और दृढ़ता से मेरी सेवा करे।

मम गुन गावत पुलक सरीरा * गद्गद् गिरा नयन वह नीरा
म आदि मद दम्भ न जाके * तात निरन्तर बस मैं ताके

मेरे गुण गाते हुए जिसका शरीर रोमांचित हो जाय, वाणी गद्गद हो जाय, आँसू बहने लगें। काम, अभिमान, पाखण्ड आदि जिसके मनमें न हों, हे तात ! मैं सदा उसके वश में रहता हूँ।

दोहा—वचन कर्म मम शोरि गति, भजनु करहिं निष्काम।

तिन्हके हृदय कमल महँ, करउँ सदा विश्वास ॥ १३ ॥

जो वचन, कर्म और मन से मेरी शरण में रहते हैं और निष्काम होकर मेरा ही भजन करते हैं, उनके कमलरूपी हृदय में मैं सदा विश्वास करता हूँ।

भगति जोग सुनि अति सुख पावा * लछिमन प्रभु चरनहिं सिरुनावा
एहि विधि गए कछुह दिन बीती * कहत विराग ग्यान गुन नीती

लक्ष्मणजी ने इस 'भक्ति योग' को सुनकर बहुत सुख पाया और प्रभु के चरणों में तिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान व नीतिके गुणों की चर्चा करते हुए कुछ दिन बीत गये।

सूपनखां रावन की बहिनी * दुष्ट हृदय दारुन जस अहिनी
पञ्चवटी सो गइ एक बारा * देखि विकल भइ जुगल कुमारा

मध्यम परपति देखइ कैसे * भ्राता पिता पुत्र निज जैसे
धर्म विचारि समुझि कुल रहई * सो निकृष्टत्रियश्रुति अस कहई

मध्यम-श्रेणी की पतिव्रता पराये पुरुष की कैसे देखती हैं—जैसे अपना भाई पिता और पुत्र हो। जो धर्म विचार कर अपनी कुल-मर्यादा को समझकर धर्म पर स्थिर रहती हैं, वे निकृष्ट पतिव्रता स्त्री हैं, ऐसा वेद कहते हैं।

विनु अवसर भय तें रह जोई * जानहु अधम नारि जग सोई
पतिपञ्चकपरिपति रति करई * रौरव नरक कल्प सत परई

जो स्त्री बिना समय पाये, या डरसे धर्म पर स्थिर हैं, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। जो पति को छोड़कर दूसरे पति से रति करती है, वह तो कल्पों तक रौरव नरक में पड़ती है।

छन सुख लागि जनम सत कोटी * दुखनसमुझि तेहि सम को खोटी
विनु श्रमनारि परमगति लहई * पतिव्रत धर्म छाँड़ि छल गहई

क्षणभर के सुख के लिये—तो करोड़ जन्मों के दुःखों को जो दुःख न समझे, उसके समान दुःख कौन है? जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत-धर्म पर स्थिर रहती हैं, वह बिना ही परिश्रम परम गति पाती हैं।

पति प्रतिकूल जनम जहँ जाई * विधवा होइ पाई तरुनाई
जो स्त्री-पति के विरुद्ध रहती है, वह जहाँ भी जाकर जन्मती है, वहाँ जवानों में ही विधवा हो जाती है।

सो०—सहज अपावनि नारि, पतिसेवत शुभ गति लहइ।

जसु गावत श्रुतिचारि, अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय ॥ ४ ॥

स्त्री स्वाभाविक ही अपवित्र है, परन्तु पति की सेवा करने से उत्तम गति को प्राप्त हो जाती है। आज भी 'तुलसीदासजी' हरि-भगवान को प्रिय हैं, चारों वेद उनका सुयश मानते हैं।

सुनु सीता तव नाम, सुमिरि नारि पतिव्रत करहि।

तोहि परम प्रिय राम, कहिउँ कथा संसार हित ॥ ५ ॥

हे सीता! सुनो, तुम्हारा नाम स्मरण करके स्त्रियाँ पतिव्रत-धर्म पालन करेंगी। तुम्हें तो श्रीरामजी प्राणों के समान प्यारे हैं, यह कथा तो मैंने संसार के निमित्त कही है।

सुनु जानकी परम सुख पावा * सादर तासु चरन सिख नावा
तव मुनिसन कह कृपानिधाना * आयसु होइ जाउँ वन आना

यह सुनकर जानकीजी ने परम सुख पाया और सादर सहित प्रणाम किया। तब कृपानिधान श्रीरामजी ने मुनि से कहा—आज्ञा हो तो दूसरे वन जाऊँ।

सन्तन सोपर कृपा करेहू * सेवक जानि तजेहुँ जनि नेहू
धरम धुरन्धर प्रभु कै बानी * सुनि सप्रेम बोले मुनि ग्यानी

मुझ पर सदैव कृपा करते रहना, सेवक जानकर स्नेह न छोड़ना। धर्म-धुरन्धर प्रभु की

सीतहि सभय देखि रघुराई * कहा अनुज सन सयन बुझाई

तब वह खिसियाकर श्रीरामजी के पास गई और उसने भयंकर रूप धारण किया। तब सीताजी को भयभीत देखकर श्रीरघुनाथजी ने इशारे से लक्ष्मणजी को समझाया।

दोहा-लछिमन अति लाघवँ सो, नाक कान बिनु कीन्ह।

ताके कर रावन कहँ, मनहुँ चुनोती दीन्ह ॥ १४ ॥

लक्ष्मण ने बड़ी सफाई से उसके नाक कान काट लिए, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो नाक कान बिनु भइ विकरारा * जनु सब सैल गेरु के धारा

खर दूषण पहिं गइ विलपाता * धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता

बिना नाक-कान के वह डरावनी हो गई, मानो पहाड़ से गेरु की धारा बह रही हो। वह रोती हुई खरदूषण के पास गई और बोली हे-भाइयो ! तुम्हारे बल और पराक्रम को धिक्कार है।

तेहिं पछा सब कहेसि बुझाई * जातुधान सुनि सेव बनाई

धाए निसिचर निकर बरूथा * जनु सपच्छ कज्जल गिरि जूथा

उन्होंने पूछा तब शूर्पणखाँ ने सब समझाकर कहा। सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की, बहुत से राक्षसों के झुण्ड ऐसे दौड़े, मानो पंख वाले कज्जल-गिरि के समूह हों।

नाना बाहन नानाकारा * नानायुध धरि धीर अपारा

सूपनखा आगे करि लीन्ही * अशुभ रूप श्रुति नासा हीनी

अनेकों सवारियों पर भाँति-भाँति के भयंकर रूप वाले अनेक राक्षस अनेक प्रकार के असंख्य अस्त्र-शस्त्र लिए हुए हैं। उन्होंने आगे-आगे शूर्पणखाँ को कर लिया, जो नाक-कान से हीन अशुभरूप वाली है।

असगुन अमित होहिं भयकारी * गनहि न मृत्यु विवस सब ज्ञारी

गर्जाहिं तर्जाहिं गगन उड़ाहीं * देखि कटुक भट अति हरषाहीं

अनेकों भयंकर अपशकुन होते हैं, परन्तु वे सब मृत्यु के वश होने के कारण उनको कुछ नहीं गिनते। वे गर्जते, उछलते, कूदते व आकाश में उड़ते हैं, सेना देखकर योद्धा बहुत खुश होते हैं।

कोउ कह जिअत धरहु दोउभाई * धरि मारहु तिय लेहु छुड़ाई

धूरि पूरि नभ मण्डल रहा * राम बोलाइ अनुज सन कहा

कोई कहता है-दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो व स्त्री को छीन लो। आकाश-मण्डल में धूल छा गई, तब श्रीरामजी ने लक्ष्मणजी को बुलाकर उनसे कहा-

लै जानकिहि जाहु गिरि कन्दर * आवा निसिचर कटक भयंकर

रहेहु सजग सुन प्रभु कै बानी * चले सहित श्री सरधनु पानी

तुम जानकीको पहाड़की खोह में ले जाओ, राक्षसों की भयंकर सेना आ गई है। सावधान रहना प्रभु श्रीरामजी की बाणी सुनकर लक्ष्मणजी हाथ में धनुष-बाण लेकर सीताजी को संग ले चले।

देखि राम रिपुदल चलि आवा * विहँस कठिन कोदण्ड चढ़ावा

सरिता वन गिरि अवघट घाटा * पति पहिचानि देहि वर वाटा

दोनों के बीच में सीताजी कंसी शोभायमान हैं, जैसे ब्रह्म तथा जीव के बीच में माया । नदी, वन, पर्वत, दुर्गम-घाटी स्वामी-को पहिचान कर सुन्दर मार्ग देते हैं ।

जहँ जहँ जाहिँ देव रघुराया * करहिँ मेघ तहँ तहँ नभ छाया

मिला असुर विराध मग जाता * आवतही रघुवीर निपाता

जहाँ-जहाँ श्रीरघुनाथजी जाते हैं, वहाँ-वहाँ मेघ आकाश में छाया करते हैं । मार्ग में जाते हुए 'विराध' राक्षस मिला, आते ही प्रभु ने उसे मार डाला ।

तुरतहिँ रुचिर रूप तेहिँ पावा * देखि दुखी निज धाम पठावा

पुनि आए जहँ मुनि सरभङ्गा * सुन्दर अनुज जानकी सङ्गा

तुरन्त ही उसने उत्तम रूप पा लिया । उसे दुःखी देखकर श्रीरामजी ने अपने लोक को भेज दिया । फिर जहाँ शरभंग मुनि थे, वहाँ सुन्दर श्रीरामजी-लक्ष्मणजी व जानकीजी के साथ आये ।

दोहा-देखि राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृङ्ग ।

सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभङ्ग ॥ ४ ॥

श्रीरामचन्द्रजी का मुख-कमल देखकर मुनिशवर के नेत्र भीरे के समान बड़े आदर के साथ रस-पान करने लगे । शरभङ्गजी का जन्म धन्य है ।

कह मुनि सुनु रघुवीर कृपाला * शंकर मानस राजमराला

जात रहेउँ विरञ्चि के धामा * सुनेउँ श्रवन वन ऐहहिँ रामा

मुनि बोले-हे कृपालु श्रीरामजी ! हे शिवजी के मनरूपी सरोवर के राजहंस ! मुनिये-में ब्रह्म-लोक को जा रहा था, इतने में ही कानों से सुना कि श्रीरामजी यन में आ रहे हैं ।

चितवत पन्थ रहेउँ दिन राती * अब प्रभु देखि जुड़ावन छाती

नाथ सकल साधन मैं हीना * कीन्ही कृपा जानि जन दीना

मैं दिन-रात आपकी वाट देखता रहा हूँ, अतः अब प्रभु को देखकर छाती टप्टी हुई है । हे नाथ ! मैं सब साधनों से हीन हूँ, मुझे दीन-जन जानकर आपने कृपा की है ।

सो कछु देव न मोहि निहोरा * तिय पुन राखेउ जन मन चोरा

तव लगि रहहु दीन हित लागी * जव लगि मिलौ तुम्हहि तनुत्यागी

सो हे भवतजनों के चित-चोर देव ! इसमें मेरे ऊपर कोई अहसान नहीं, आपने अपना प्रण निवाहा है । तब तक आप इस दीन के लिए ठहरिये, जब तक मैं अपना देह त्याग कर आप में न मिल जाऊँ ।

जोग जग्य जप तप व्रत कीन्हा * प्रभु कहँ देइ भगति वर लीन्हा

एहि विधिसर रचि मुनिसर भङ्गा * बैठे हृदयँ छाँड़ि सब सङ्गा

योग, यज्ञ, तप व व्रत जो भी मुनि ने किये थे, यह सब प्रभु श्रीरामजी को देकर भक्ति का वरदान ले लिया । इस प्रकार शरभंग मुनि हृदय से सब मोह त्याग, चिन्ता वन

हम क्षत्रिय हैं, जन में शिकार खेलते हैं और तुम्हारे जैसे दुष्ट पशुओं को दूँदते फिरते हैं। हम बलवान् शत्रु को देखकर भी नहीं डरते और एक बार फाल से भी नष्ट सकते हैं।

जद्यपि मनुज इनुज कुल घालक * सुनिपालक खल सालक बालक
जों न होइ बल धर फिरि जाहू * समर विमुख में हतउ न काहू

यद्यपि हम मनुष्य हैं, तथापि राक्षस-कुल का नाश करने वाले और सुनियों का पालन करने वाले हैं, दुष्टों को दण्ड देने वाले ऐसे बालक हैं। यदि बल न हो तो घर को लूट जाओ। रण में विमुख हो जाने पर मैं किसी को नहीं मारता।

रत्न चढ़ करिअ कपट चतुराई * रिपु पर दया परम कदराई
हूतरहू जाइ तुरत सब कहेऊँ * सुनि खरहूपन उर अति दहेऊँ

रण में चढ़ाई करके छल से चतुराई करता और शत्रु पर दया दिखाना-बड़ी ही भारी क्षयरता है। तब दूनों ने जाकर तुरन्त सब बातें कही, यह सुनकर खरहूपन के हृदय में अत्यन्त दाह उत्पन्न हुआ।

छन्द-उर दहेउ कहेउ कि धरहु धाय विकट भट रजनीचरा ।

सर चाप तामर शक्ति मूल कृपान परिध परसु धरा ॥

प्रभु कीन्ह धनुष टँकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा ।

भइ बधिर व्याकुल जानुधान न रयान तेहि अवसर रहा ॥

हृदयघटक उठा और बोले कि पकड़ लो। तब विकट राक्षस-बाण, धरती, साँतों, गूल तलवार, सुन्दर और फरसा धारण करके दौड़े। प्रभु श्रीरामजी ने पहले धनुष की कठोर, घोर और भयंकर दृष्टिकोरी की। उसे सुनकर राक्षस चहरे हो गये और बचड़ा गये, उस समय इनको कुछ भी ज्ञान नहीं रहा।

दोहा-सावधान होइ धाय, जानि सबल आशति ।

लागे वरपन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहु भाँति ॥१५॥

तिन्हके आयुध तिल सस, करि काटे रघुजीर ।

तानि सरासन श्वदन लागि, पुनि छाँड़े निज तीर ॥१६॥

फिर वे सावधान हो शत्रु को बलवान् जानकर दौड़े और श्रीरामजी पर नाना प्रकार अस्त्र-शस्त्र बरसाने लगे। उनके हथियार श्रीरामजी ने तिनके के समान टुकड़े-टुकड़े कर डाले, फिर धनुष की कान तक खींचकर अपने बाण छोड़े।

छन्द-तब चले बान कराल । फुङ्कारत जनु बहु व्याल

कोपेउ समर श्रीराम । चले तिसिख निसित निकाम

तब वह भयंकर बाण ऐसे चले-मानों बहुत से साँप फुङ्कारते हुए जा रहे हैं।

मोरे जियँ भरोस दृढ़ नाहीं * भगतिविरतिन ग्यान मन माहीं

क्या प्रभु श्रीरामजी, भाई लक्ष्मण सहित मुझसे अपने सेवक की भाँति मिलेंगे ? मुझे मन में पक्का भरोसा नहीं है, क्योंकि मेरे मन में न तो भक्ति है, न विशेष प्रीति है और न ज्ञान है।

नाहं सतसङ्ग जोग जप जागा * नाहं दृढ़ चरन कमल अनुरागा

एक वानि करुना निधान की * सो प्रिय जाकें गति न आम की

मैंने न तो सत्संग, योग जप और तप ही किये हैं और न रामजी के चरणों में मेरा दृढ़ प्रेम ही है। करुणानिधान की एक टेक है, जिसे दूसरे का भरोसा नहीं है—वह उन्हें प्रिय लगता है।

होई कि सुफल आजु मम लोचन * देखि बदन पंकज भव मोचन

निर्भर प्रेम मगन मुनि ग्यानी * कहि न जाइ सो दास भवानी

आज भव-बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुख कमल का दर्शन करके मेरे नेत्र सफल होंगे। शिवजी कहते हैं—हे पार्वती ! वे ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण मगन हैं, उनकी दशा कही नहीं जा सकती।

दिसि अरु विदिस पन्थ नाहिं सूजा * को मैं चलेऊँ कहा नाहिं बूझा

कबहुँक फिरि पाछें पुनि जाई * कबहुँक नृत्य करई गुन गाई

मुनि की दिशा-विदिशा का ज्ञान नहीं रहा और न कोई मार्ग सूझा। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, यह भी नहीं जानते। कभी पीछे घूमकर आगे चलते और कभी गुण-गा-गाकर नाचते हैं।

अविरल प्रेम भगति मुनि पाई * प्रभु देखें तरु ओट लुकाई

अतिसय प्रीति देखि रघुवीरा * प्रगटे हृदय हरन भव पीरा

मुनि ने प्रेमपूर्ण भक्ति पाली, प्रभु रामजी वृक्ष की आड़ में छिपकर देखने लगे। मुनि की अत्यन्त प्रीति देखकर संसार के दुःख को हरने वाले भगवान् मुनि के हृदय में प्रगट हो गये।

मुनि मगमाँझ अचल होइ बैसा * पुलक शरीर पनस फल जैसा

तब रघुनाथ निकट चलि आए * देखि दसा निज जन मन भाए

मुनि मार्ग में अचल होकर बैठ गये, वेह पुत्रकित होकर फटहल के फल के समान हो गयो। तब रामजी मुनि के पास चले आये और अपने भक्त की दशा को देख अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए।

मुनिहि राम बहु भाँति जगावा * जागन ध्यान जनित सुख पावा

भूप रूप तब राम दुरावा * हृदयँ चतुरभुज रूप देखावा

श्रीरामजी ने मुनि को बहुत जगाया, परन्तु वे नहीं जागे। क्योंकि मुनि को तो ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्रीरामजी ने अपने राजा-रूप को छिपा लिया और मुनि के हृदय में अपना चतुर्भुज रूप दिखाया।

मनि अकुलाइ उठा तब कैसें * विकल हीन मनि फनि धर जैसें

आगें देखि राम तनु श्यामा * सीता अनुज सहित सुखाधामा

तब मुनि धक्काकर ऐसे उठे जैसे मणि के बिना नागराज धक्का जाता है। अपने आगे श्रीसीतानी व लक्ष्मणजी समेत सुख के धाम श्याम शरीर वाले श्रीरामजी को

* श्रीरामायण-अरण्य काण्ड *

ग, छाती और सिरों को काट रहे हैं। राक्षस गण इधर-उधर गिर कर फिर उठकर
तीर 'पकड़ो' 'पकड़ो' कहकर भयंकर शब्द कर रहे हैं।
अन्तावरी गहि उड़त गीध पिशाच लर गहि धावहीं।
संग्रामपुर वासी मनहुं बहु बाल गुड़ी उड़ावहीं ॥
मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट कहँरत परे।
अवलोकि निज दल विकट भट तिसिरादि खरदूषन फिरे ॥
गीध आंतों को लेकर आकाश में उड़ते हैं, पिशाच उन्हीं को पकड़ कर ऐसे भागते हैं—
तानों संग्राम-नगर के रहने वाले बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों अनेक घोड़ा मारे और
पछाड़े गये, बहुत से विदीर्ण-हृदय पड़े हुए कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर
खरदूषण और तिसिरा आदि श्रीरामजी की ओर फिरे।
सर शक्ति तोमर परसु सूल कृपानु एकहि बारहीं।
करि कोप श्रीरघुबीर पर अगनित निसाचर डारहीं ॥
प्रभु निमिष महुं रिपु सर निवारि पचारि डारे सायका।
दस दस विसिख उर माँझ मारे सकल निसिचर नायका।
अनेकों राक्षस क्रोध करके श्रीरामजी के ऊपर तीर, सांगी, बरछी, फरसा, तिशूल और
तलवार एक साथ चलाने लगे। प्रभु ने पलभर में शत्रुओं के बाण काटकर, ललकार मारकर
राक्षस-सेनापतियों के हृदय में दस-दस बाण मारे।
महि परत उठि भट भिरत मरत न करत माया अतिघनी।
सुर डरत चौदह सहस प्रेत विलोकि एक अवध धनी ॥
सुह मुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ अति कौतुक करचौ
देखिहिं परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मरचौ
घोड़ा पृथ्वी पर गिरते हैं, फिर उठकर लड़ते हैं, परन्तु मरते नहीं और बहुत सी म
रचते हैं। चौदह हजार राक्षस और अकेले श्रीरामचन्द्रजी को देखकर देवता डर गये।
माया-पति प्रभु श्रीरामजी ने देवताओं और मुनियों को भयभीत देखकर ऐसी अद्भुत
फैलाई कि सब राक्षस एक दूसरे को राम-रूप देखकर आपस में ही लड़ मरे।
दोहा—राम राम कहि तनु तर्जहिं, पार्वहिं पद निर्वाण।
करि उपाय रिपु मारेहु, छन महुं कृपानिधान ॥
हरषित वरषहिं सुमन सुर, बाजहिं गगन निसान।
अस्तुति करि करि सब चले, सोभितविविध विमान।
राम राम-राम, कहकर शरीर छोड़ते हैं और मोक्षपद प्राप्त करते हैं। यह उ

जो संशय रूपी सर्पों को प्रसने के लिए गरुड़ हैं, फडोर तक से उत्पन्न विषाद का नाश करनेवाले हैं संसार को छुड़ाने वाले और देवों के समूह जो आनन्द देने वाले हैं, वे कृपानिधान मेरी रक्षा करें।

**निर्गुण सगुण विषम सम रूपं * ज्ञान गिरा गोतीत अनूपं
अमलमखिलमनवद्यमपारं * नौमि राम भञ्जन महि भारं**

हे निर्गुण, सगुण, विषम-समरूपो! हे ज्ञान, वाणी और इन्द्रियों से परे देव! अनुपम, निर्मल, अखंड, दोष रहित, अनन्त और भूमि का भार उतारने वाले! मैं आपको नमस्कार करता हूँ।

**भक्त कल्प पादप आरामः * तर्जन क्रोध लोभ मद कामः
अति नागर भवसागर सेतुः * त्रातु सदा दिनकर कुल केतुः**

जो भक्तों के लिए कल्पवृक्ष के बगोचे हैं, क्रोध, लोभ, अहंकार व काम को डरानेवाले हैं बहुत ही चतुर व संसार रूप समुद्र के पार उतारने को सेतुरूप हैं वे सूर्यवंश के षड्जारूप श्रीरामजी रक्षा करें।

**अतुलित भुज प्रताप बल धामः * कलिमल विपुल विभंजन नामः
धर्म वर्म नर्मद गुण ग्रामः * सन्तत शं तनोतु मम रामः**

जिनकी भुजाओं का बल अतुलित है, जो बल के धाम हैं जिनका नाम कलियुग के असंख्य पापों को नष्ट करने वाला है, जिनके गुणों का समूह धर्म का रक्षक है और बलघाम करने वाला है वे श्रीरामजी मेरी रक्षा करें।

**जदपि विरज व्यापक अविनासी * सबके हृदय निरन्तर वासी
तदपि अनुज श्री सहित खरारी * वसहु मनसि मम कानन चारी**

यद्यपि आप निर्मल, व्यापक अविनाशी तथा सबके हृदय में वास करने वाले हैं, तो भी हे खरारि! लक्ष्मण व सीता सहित आप मेरे हृदय रूपी वन में वास कीजिए।

**जे जानहिं ते जानहुं स्वामी * सगुन अगुन उर अन्तरजामी
सो कोसलपति राजित नयना * करहु सो राम हृदय मम अयना**

हे प्रभु! आपको जो सगुण, निर्गुण और अन्तर्पामी जानते हैं-वे जाना करें, परन्तु मेरे हृदय में तो अपोष्यापति श्रीरामजी ही निवास करें।

**अस अभिमान जाइ जनु मोरें * मैं सेवक रघुपति पति तोरें
सुनि मुनि वचन राम मन भाए * बहुरि हरपि मुनिवर उर लाए**

ऐसा अभिमान कभी न छूटे कि 'मैं सेवक हूँ और श्रीरघुनाथजी ही मेरे स्वामी हैं।' मुनि के यह मन को प्रिय लगने वाले वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी ने प्रसन्न होकर मुनिवर को हृदय से लगा लिया।

**परम प्रसन्न जानि मुनि मोही * जो वर मागउं देउं सो तोही
मुनि कह मैं वर कबहुं न जाँचा * समुझि न परइ झूठ का साँचा**

और बोले-हे मुनि! अति प्रसन्न जानकर जो वर मांगो, वही मैं तुमको दूँगा। मुनि ने कहा- 'मैंने वरदान कभी नहीं मांगा, अतः मुझे यह नहीं समझ पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है ?

तुम्हहिं नीक लागै रघुराई * सो मोहि देहु दास सुखाई

सोहि जिअत दसकन्धर, मोरि कि अस गति होइ ॥१६॥
 व्याकुल होकर सभा में गिरकर बहुत प्रकार से रोकर कहने लगी कि हे रावण !
 -जी क्या मेरी यह दुर्दशा होनी चाहिए ?
 सभासद उठे अकुलाई * समुझाई गहि बाँह उठाई
 लंकेस कहसि निज बाता * केई तब नासा कान निपाता
 यह सुनकर सभा के लोग घबड़ा उठे और उसकी बाँह पकड़-उठाकर उसे समझाया ।
 पति रावण बोला-यह बात तो बता कि किसने तेरे नाक-कान काट लिये ?
 अध नृपति दशरथ के जाए * पुरुष सिंह बन खेलन आए
 मुझि परी सोहि उन कै करनी * रहित निसाचर करिहि धरनी
 (वह बोली-) अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, दण्डक-
 न में शिकार खेलते आये हैं । उनकी करतूत से मुझे ऐसा समझ पड़ा है कि वे पृथ्वी को
 राक्षसों से रहित कर देंगे ।
 जिन्ह कर भुजबल पाइ दसानन * अभय होइ बिचरत सुनि कानन
 देखत बालक काल समाना * परम धीर धन्वी गुन नात।
 हे रावण ! जिनकी भुजाओं के बल को पाकर मुनि लोग निडर होवन में फिरते हैं देखने में वे
 बालक हैं, परन्तु काल के समान हैं । बड़े धीर, वीर, श्रेष्ठ धनुधारी और अनेक गुणों से युक्त हैं ।
 अतुलित बल प्रताप द्वौ श्वाता * खलबल रत सुर मुनि सुखदाता
 सोभाधाम राम अस नामा * तिन्ह के संग इक नारि ललामा
 वे दोनों भाई अतुल पराक्रमी हैं, वे दुष्टों के मारने में लगे रहते हैं, देव तथा मुनियों को सुख
 देते हैं । वे बहुत सुन्दर हैं, उनका नाम 'राम', ऐसा नाम है, उनके साथ एक सुन्दर स्त्री भी है ।
 रूप रासि विधि नारि सँवारी * रति सत कोटि तासु बलिहारी
 तासु अनुज काटे श्रु ति नासा * सुनि तब भगिनि करिहि परिहासा
 ब्रह्मा ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि सौ-करोड़ रति भी उस पर न्यौछावर हैं ।
 उसी के छोटे भाई लक्ष्मण ने मुझे तुम्हारी बहन सुन, हँसी से मेरे नाक-कान काट लिये ।
 खरदूषण सुनि लगे जुझारा * छन सहुँ सकल कटक उन मार
 खरदूषण मेरी पुकार सुनकर उनसे युद्ध करने गये तो-उन्होंने सब सेना समेत क्षण
 में उन सबको मार डाला । खर-दूषण व त्रिशिरा का मारा जाता सुन रावण के सब
 सारे क्रोध के जल उठे ।
 दोहा-सूपनखहि समुझाई करि, बल बोलेसि बहु भाँति ।
 गयउ भवनअति सोच बस, नींद परई नहि राति ॥२०॥
 शूर्पणखां को बहुत समझाकर, अनेक प्रकार से अपने बल को बढ़ाई करके वह
 ने नारा गया, परन्तु सारे चिन्ता के उसे रात भर नींद नहीं आई ।

ज्ञानी मुनि ने सादर कुशल पूछी और आसन लगाकर बंठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा कि मेरे समान भाग्यवान् कोई दूसरा नहीं है।

जहाँ लगी रहे अपर मुनिवृन्दा * हरषे सब विलोकि सुखकन्दा
 यहाँ और जितने मुनिगण थे, वे सब भी सुखके मूल श्रीरामजी के दर्शनकर प्रसन्न हुए।
 दोहा—मुनि समूह महँ बैठे, सनमुख सबकी ओर।

शरद इन्दु तनु चितवन, मानहुँ निकर चकोर ॥ ६ ॥

मुनियों की मण्डली में श्रीरामजी सबकी ओर सन्मुख होकर बंठे हैं, मानो शरद-पूर्णिमा के चन्द्रमा को चकोरों का झुण्ड देख रहा है।

तव रघुवीर कहा मुनि पाहीं * तुम्ह सन प्रभु दुराव कछु नाहीं
 तुम्ह जानहु जेहि कारन आयउँ * ताते तात न कछु समुझायउँ

तब श्रीरामजी ने मुनि से कहा—हे स्वामी ! आपसे कुछ भी नहीं छिपा है, जिस कारण मैं आया हूँ—सो आप जानते हैं। हे तात ! इसीलिए मैंने समझाकर नहीं कहा।

अब सो मन्त्र देहु प्रभु मोही * जेहि प्रकार मारौँ मुनिद्रोही
 मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानी * पूछहुँ नाथ मोहि का जानी

हे मुनि ! अब आप मुझे वही सलाह दीजिए, जिससे कि मैं मुनियों के बंदी राक्षसों को मारूँ। प्रभु की वाणी सुनकर श्रद्धा मुस्कराये और कहने लगे—हे नाथ ! आपने मुझसे क्या जानकर पूछा है ?

तुम्हरेई भजन प्रभाव अधारी * जानउँ महिमा कछुक तुम्हारी
 उमरि तरु विसाल तव माया * फल अनेक ब्रह्माण्ड निकाया

हे पापताशक प्रभु ! आपके ही भजन के प्रताप से आपकी कुछ थोड़ी-सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है और अनेक ब्रह्मांडों के समूह उनके फल हैं।

जीव चराचर जन्तु समाना * भीतर वसहिँ न जानहिँ आना
 ते फल भच्छक कठिन कराला * तव भयँ डरत सदा सोइ काला

चराचर जीव उन फलों के अन्दर के भिगनों के समान हैं, जो बाहर का कुछ भी हाल नहीं जानते। इन फलों का सक्षण करने वाला कठिन और भयंकर काल भी आपके भयसे डरता है।

ते तुम्ह सकल लोकपति साईँ * पूछेहु मोहि मनुज की नाईँ
 यह वर मागउँ कृपानिकेता * वसहु हृदयँ श्री अनुज समेता

ऐसे संपूर्ण लोकपालों के स्वामी आपने मुझसे मनुष्य की तरह पूछा है। हे कृपाके स्वामी ! मैं आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि सीताजी और लक्ष्मणजी सहित आप मेरे हृदय में वास करें।

अविरल भगति विरत सतसङ्गा * चरन सरोरुह प्रीति अभङ्गा
 जद्यपि ब्रह्म अखण्ड अनन्ता * अनुभव गम्य भर्जाहिँ जेहि सन्ता

मुझे अपनी अटल-मवित, बँराग्य, सत्संग तथा चरणकमलों में अचल प्रीति दीजिए।

जहाँ मारीच था—वहाँ गया और उसको सिर नवाया ।

नबिन नीच कै अति दुखदाई * जिमि अंकुस धनु उरग बिलाई
भयदायक खल कै प्रिय बानी * जिमि अकाल के कुसुम भवानी

नीच का नवना भी बड़ा दुखदाई होता है जैसे अंकुश, धनुष, साँप व बिल्ली का नवना ।
हे पार्वती ! दुष्टों की प्रिय बात भी भयानक होती है, जैसे कुसुम के फूल ।

दोहा—करि पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात ।

कवन हेतु मन व्यग्र अति, अकसर आयउ तात ॥२२॥

तब मारीच ने रावण का सम्मान करके आदर के साथ यह बात पूछी कि हे तात !
आपका मन इतना चिंतित क्यों हो रहा है और आप अकेले क्यों आये हैं ?

दसमुख सकल कथा तेहि आगे * कही सहित अभिमान अभागे
होहु कपट मृग तुम्ह छलकारी * जेहि विधि हर आनों नृपनारी

तब उसके आगे अभागे रावण ने घमण्ड के साथ सब कथा कही और बोला—तुम छल-
कारी कपट-मृग बन जाओ, जिससे मैं राज-वधु को हर लाऊँ ।

तेहि पुनि कहा सुनहु दससीसा * तेहि नर नृप चराचर ईसा
तासों तात बयर नहिं कीजै * मारे मरिअ जिआए जीजै

मारीच ने कहा—हे रावण ! सुनो, वे मनुष्य-रूपधारी चर और अचर के स्वामी हैं । हे
तात ! उनसे बैर न कीजिए । उनके मारने से मरना जिलाने से जीना चाहिए ।

सुनि मख राखन गयउ कुमारा * बिनु फर सररघुपति मोहि मारा
सत धोजन आयउँ छन साहीं * तिन्हसन बयर किएँ भल नाहीं

विश्वामित्रजी के यज्ञ की रक्षा के लिए गये हुए कुमारश्रीरामजी ने बिना नौक का वाण मेरे
मारा था, जिससे मैं क्षणभर में सौ धोजन पर आ गिरा, उनसे बैर करने में भलाई नहीं है ।

भइ सम कीट भूइ की नाई * जहँ तहँ मैं देखेउँ दोऊ भाई
जौं नर तात तदपि अति सूरा * तिन्हहि बिरोध न पाइअ पूरा

मेरी दशा तो भौरों के पकड़ें हुए कीड़े की-सी हो रही है । अब मैं जहाँ-तहाँ उन दोनों
भाइयों को ही देखता हूँ । हे तात ! यद्यपि वे मनुष्य ही हों, तो भी बड़े शूरवीर हैं । अतः
उनसे विरोध करोगे तो पार नहीं पाओगे ।

दोहा—जेहि ताड़का सुबाहु हति, खण्डेउ हरि कोदण्ड ।

खरदूषन त्रिसिरा बधेउ, मनुज कि अस बरिबण्ड ॥२३॥

उन्होंने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ डाला तथा खर-दूषण
और त्रिसिरा को मार डाला । क्या ऐसे बलवान् भी मनुष्य हो सकते हैं ?

जाहु भवन कुल कुसल बिचारी * सुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी
गुरु जिमि मूढ़ करसि सम बोधा * कहु जग मोहि समान को जोधा

हे देव ! समझाकर मुझसे वही कहिये, जिससे कि मैं सब छोड़कर आप ही की चरण रज की सेवा करूँ । ज्ञान वैराग्य और माया का निहणन कीजिये और उस भक्ति को कहिये, जिससे कि आप भक्तों पर कृपा करते हैं ।

दोहा—ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहु समझाय ।

जातें होइ चरन रति, सोक मोह भ्रम जाय ॥ ११ ॥

हे प्रभु ! ईश्वर और जीव का सब भेद समझाकर कहिये, जिससे की आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और दुःख, मोह तथा सन्देह दूर हो जाय ।

थोरेहि महँ सब कहउँ बुझाई * सुनहु तात अति मन चित लाई
मैं अर मोर तोर तैं माया * जेहि बस कीन्हे जीव निकाया

(श्रीरामजी बोले—) हे तात ! मैं थोड़े ही में समझाकर कहता हूँ । तुम बुद्धि, मन और चित्त लगाकर सुनो—'मैं और मेरा, तू और तेरा' यही माया है, जिसने सब जीवों को बश में कर रक्खा है ।

गो गोचर जहँ लगि मन जाई * सो सब माया जानेहु भाई
तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ * विद्या अपर अविद्या दोऊ

इन्द्रियों के विषयों तक और जहाँ तक मन जाता है, वहाँ तक सब माया जानना । उसके भी दो भेदों—एक 'विद्या' दूसरी 'अविद्या' को तुम सुनो—

एक दुष्ट अतिसय दुख रूपा * जा बस जीव परा भव कूपा
एक रचइ जग गुन बस जाके * प्रभु प्रेरित नाहिं निज बल ताके

एक (अविद्या) अत्यन्त दुष्ट और दुःखदायक है, इसी के बश होकर जीव संसार रूपों कुएँ में गिरता है और एक (विद्या) जगत् को रचती है, क्योंकि गुण उसके आधीन हैं । वह ईश्वर से ही प्रेरित है । उसमें अपना कुछ भी बल नहीं है ।

ग्यान मान जहँ एकउ नाहीं * देखइ ब्रह्म समान सब माहीं
कहिअ तात सो परम विरागी * तृन सम सिद्धि नीति गुन त्यागी

ज्ञान वहाँ है—जहाँ मान आदि एक भी (दोष) नहीं है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्म देखता है । हे तात ! उसे ही परम वैराग्यवान कहना चाहिए—जो सब सिद्धियों और तीनों गुणों को तृण के समान त्याग देता है ।

दोहा—माया ईस न आप कहूँ, जान कहिअ तो जीव ।

बन्ध मोक्षप्रद सर्व पर, माया प्रेरिक सीव ॥ १२ ॥

जो माया, ईश्वर स्वयं को नहीं जानता, उसको जीव कहना चाहिए । जो बन्धन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया-प्रेरक है—वही 'ईश्वर' है ।

धर्म तैं विरति जोग तैं ग्याना * ग्यान मोक्षप्रद वेद वखाना
जातें बेगि द्रवउँ मैं भाई * सो मम भगति भगत हूँ जाई

मणियों से जड़कर ऐसी सुन्दर बनाई कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता ।

सीता परम रुचिर मृग देखा * अङ्ग अङ्ग सुमनोहर वेषा
सुनहु देव रघुवीर कृपाला * एहि मृग कर अति सुन्दर छाला

ऐसा परम सुन्दर मृग सीताजी ने देखा कि जिसका एक-एक अङ्ग मनोहर था । बहु बोलीं-हे देव ! हे कृपालु ! इस मृग की बहुत सुन्दर मृग-छाला होगी ।

सत्यसिन्धु प्रभु बधि कर ऐही * आनहु चर्म कहति बैदेही
तब रघुपति जानत सब कारन * उठे हरषि सुरकाज सँवारन

हे सत्य के समुद्र प्रभो ! इसको मारकर इसका चर्म लाइये । तब श्रीरघुनाथजी सब कारण जानते हुए भी प्रसन्न होकर देवताओं का कार्य करने को उठे ।

मृग विलोकि कटि परिकर बाँधा * करतल चाप रुचिर सर साँधा
प्रभु लछिमनहि कहा समुझाई * फिरत विपिन निसिचर बहु भाई

हिरण को देखकर, कमर में फँटा बाँधा और हाथ में सुन्दर धनुष लेकर वाण चढ़ाया । प्रभु ने लक्ष्मणजी से समझाकर कहा-हे भाई ! वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं ।

सीता केरि करहू रखवारी * बुधि विवेक बल समय बिचारी
प्रभुहि विलोकि चला मृग भाजी * धाए रामु सरासन साजी

तुम अपनी बुद्धि और ज्ञान से बल और समय को विचार कर सीताजी की रखवाली करना । प्रभु को देखकर मृग भाग चला, पीछे से श्रीरामचन्द्रजी भी धनुष सँभालकर दौड़े ।

निगम नेति शिव ध्यान न पावा * मायामृग पाछे सो धावा
कबहुँ निकट पुनि दूरि पराई * कबहुँक प्रगटइ कबहुँ छिपाई

वेद जिसको 'नेति-नेति' कहते हैं और शिवजी जिसे ध्यान में भी नहीं पाते, वही प्रभु भी-मृग के पीछे भागे । वह मृग कभी पास आ जाता है, तो कभी फिर दूर भाग जाता है । भी दिखाई देता है और कभी छिप जाता है ।

प्रगटत दुरत करत छल भूरी * एहि विधि प्रभुहि गयउ लै दूरी
तब तकि राम कठिन सर मारा * धरनि परेउ करि घोर चिकारा

इस प्रकार दिखाई देता और छिपता हुआ वह बहुत से छल करता हुआ प्रभु को दूर ले गया । तब श्रीरामजी ने तककर उसके एक पैना वाण मारा, उसके लगते ही वह जोर से चिल्ला कर पृथ्वी पर गिर पड़ा ।

लछिमन कर प्रथमहि लै नामा * पाछे सुमिरेसि मन महुँ रामा
प्राण तजत प्रगटेसि निज देही * सुमिरेसि राम समेत सनेही

उसने पहले लक्ष्मणजी का नाम लेकर, पीछे मन में श्रीरामजी का स्मरण किया । प्राण त्यागते समय मारीच ने अपना राक्षस-शरीर प्रगट किया और प्रेम के साधु श्रीरामजी को सुमिरा ।

अन्तर प्रेम तासु पहिचाना * मुनि दुर्लभ गति दीन्हि सुजाना
आंतरिक-प्रेम पहिचानकर सुजान श्रीरामजी ने जो गति मुनियों को भी दुर्लभ है, वह उसे दी ।

रावणकी बहन सूर्पणखां नामकी राक्षसी नागिन के समान दुष्ट हृदय वाली और मयावनी थी। एक बार वह पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर व्याकुल हो गई।

भाता पितां पुत्र उरगारी * पुरुष मनोहर निरखत नारी
होइ विकल सक मनहि न रोकी * जिमिरविम निद्रवर विहि विलोकी

(कागमुयुगिडजी कहते हैं—) हे गरुड़जी! माई, पिता, पुत्र आदि क्यों न हों, मनोहर पुरुष को देखकर (सूर्पणखां, जैसी) स्त्री व्याकुल हो जाती है। वह अपने मन को ऐसे नहीं रोक सकती—जैसे सूर्यकान्त-मणि सूर्य को देखकर पिघल जाती है।

रुचिर रूप धरि प्रभु पहि आई * बोली वचन बहुत नुसुकाई
तुम्ह सम पुरुष न मो सम नारी * तह सँजोग विधि रचा विचारी

वह सुन्दर रूप धरकर श्रीरामजीके पास आई और बहुत मुस्कराकर यह वचन बोली—न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान कोई सुन्दरी है, विधाता ने यह संयोग विचारकर रचा है मम अनुरूप पुरुष जग नाहीं * देखेउँ खोजि लोक तिहुँ माहीं

ताते अब लगि रहिउँ कुमारी * मनु माना कछु तुम्हहि निहारी
मेरे योग्य पुरुष संसार में नहीं है, मैंने तीनों लोकों में ढूँढ़कर देखा है। इसीसे मैं अब तक कुमारी ही रही, अब तुमको देखकर मन कुछ माना है।

सीतहि चितइ कही प्रभु वाता * अहइ कुमार भोर लघु भाता
गइ लछिमन रिपुभगिनी जानी * प्रभु विलोकि बोले मृदु वानी

सीताजी को ओर देखकर प्रभु ने कहा कि हमारा छोटा भाई कुमार है। यह सुनकर वह लक्ष्मणजी के पास गई, तब लक्ष्मणजी उसे शत्रु को बहिन जानकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी को ओर देखकर कीमल वचन बोले—

प्रभु समर्थ कोसलपुर राजा * जो कछु करहि उनहिसव साजा
सुन्दरि सुनु मैं उन कर दासा * पराधीन नहि तोर सुपासा

हे सुन्दरी! सुनो, मैं तो उनका सेवक हूँ, पराधीन के पास तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होगा। प्रभु समर्थ हैं, अयोध्या के राजा हैं, वे कुछ करें—उन्हें सब शोभा देता है।

सेवक सुख चह मान भिखारी * व्यसनीधन सुभगतिव्यभिचारी
लोभी जसु चह चार गुमानो * नभ दुहि दूध ए चाहत प्रानी

सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहें, दुराचारी धन चाहे और व्यभिचारी सद्गति चाहे, लालची यश चाहे, अभिमानो चारों फल चाहे, तो वे प्राणी आकाश से दूध दुहना चाहते हैं।

पुनि फिरि राम निकट सो आई * प्रभु लछिमन पहि बहुरि पठाई
लछिमन कहा तोहि सो वरई * जो तन तोरि लाज परिहरई

वह फिर श्रीरामचन्द्रजी के पास आई तो प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मणजी के पास भेज दिया। तब लक्ष्मणजी ने कहा—तुझे तो वही वरेगा, जो लाज को तिनके के समान छोड़ देगा।

तव खिसिआन राम पहि गइ * रूप भंयकर प्रगटत म

श्रीरामायण-अरण्य काण्ड *

रावण ने अपना वास्तविक रूप दिखाया और जब अपना नाम सुनाया, तब सीताजी और फिर बहुत धीरज धरकर कहा—रे दुष्ट ! खड़ा रह, प्रभु आ पहुँचे हैं ।

हरिबधुहि छुद्र सस चाहा * भएसि कालबस निसिचर नाहा
वचन दससोस रिसाना * मन महुँ चरन बन्दि सुख माना

जिस प्रकार सिंहनी को तुच्छ खरहा लेना चाहे, इसी प्रकार हे राक्षसराज ! तू काल के होगया है । यह सुनकर रावण क्रोधित होगया, परन्तु मन में जानकीजी के चरणों की ना करके सुख माना ।

हा—क्रोधवन्त तब रावन, लीन्हेसि रथ बैठाइ ।
चला गगन पथ आतुर, भयँ रथ हाँकि न जाइ ॥२७॥

तब क्रोधित होकर रावण ने सीताजी को रथ पर बैठा लिया और शीघ्रता पूर्वक आकाश-मार्ग से चला, परन्तु मारे डर के उससे रथ नहीं हाँका जाता ।

हा जग एक बीर रघुराया * केहि अपराध बिसारेहु दाय
आरति हरन सरन सुखदायक * हा रघुकुल सरोज दिननायक

तब सीताजी विलाप करने लगीं—हा जगत के एक मात्र वीर श्रीरामजी ! आपने मेरे अपराध से क्या भुलादी ? हा दुःखहारी, शरणागति को सुखदायक ! हा रघुकुलरूपी कमलके सूर्य !

हा लछिमन तुम्हार नहिं दोषा * सो फलु पायउँ कीन्हेउँ रोषा
विविध विलाप करति बैदेही * भरि कृपा प्रभु दूरि सनेही

हा लक्ष्मण ! तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया—उसका फल पाया । अनेक भाँति से जानकीजी विलाप कर रही हैं कि प्रभु की मुझ पर बड़ी कृपा है, परन्तु वे स्नेही दूर हैं ।

विपति मोर को प्रभुहि सुनावा * पुरोडास चह रासभ खावा
सीता कै विलाप सुनि भारी * भए चराचर जीव दुखारी

मेरा दुःख प्रभु को कौन सुनावे ? यज्ञ के भाग को गधा खाना चाहता है । सीताजी का भारी विलाप सुनकर चर-अचर सभी जीव दुःखित होगये ।

गीधराज सुनि आरत बानी * रघुकुल तिलक नारि पहिचानी
अधस निसाचर लीन्हे जाई * जिमि म्लेच्छ बस कपिला गाई

गिद्धों में श्रेष्ठ जटायु ने दुःखभरी वाणी सुन, रघुवंश-भूषण श्रीरामजी की पत्नी को पहिचान लिया । जैसे कसाई के आधीन कपिला-गाय हो, वैसे ही सीताजी को नीच राक्षस लिए जाता है

सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा * करिहउँ जातुधान कर नार
धावा क्रोधवन्त खग कैसे * छूटइ पबि परबत कहँ जै

जटायु बोला—हे पुत्री-सीते ! अब भय मत कर, मैं इस राक्षसराज का नाश करूँ । यह कहकर क्रोधित हो जटायु कैसे झपटा, जैसे वज्र पर्वत पर गिरता है ।

रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होही * निर्भय चलेसि न जानेहि म

श्रीरामजी ने देखा कि राक्षसों की सेना चली आरही है, तब हँसकर अपने कठोर धनुष को चढ़ाया।

छन्द—कोदण्ड कठिन चढ़ाई सिर जट जूट बाँधत सोह क्यों ।

मरकत सरल पर लरत दामिनि कोटि सौं जुग भुजंग ज्यों ॥

कटि कसि निषङ्ग विसाल भुजगहि चाप विसिख सुधारि कै ।

चितवत मनहुँ मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारि कै ॥

कठोर धनुष चढ़ाकर मस्तक पर जटाजूट बाँधे, तब प्रभु कैसे शोभित हुए, मानो नील-गणि पवंत पर करोड़ों विजलियों से दो साँप लड़ रहे हों । कमर में तरकस, लम्बी भुजाओं में धनुष लेकर वाण सुधार कर प्रभु श्रीरामजी राक्षसों की ओर इस प्रकार देख रहे हैं, मानो सिंह-हाथियों के घुण्ड की ओर ताक रहा हो ।

सो०—आइ गए वगमेल, धरहु धरहु धावत सुभट ।

जथा विलोकि अकेल, बाल रविहि घेरत दनुज ॥ ७ ॥

बहुत से राक्षस-योद्धा एकत्रित होकर आगये और 'पकड़ो-पकड़ो, कहकर ऐसे वीड़े, जैसे सबेरे के सूर्य को अकेला देखकर सन्देश में दंत्य घेर लेते हैं ।

प्रभु विलोकि सर थकाहि नडारी * थकिय भई रजनीचर भारी
सचिव बोलि बोले खर दूषण * यह कोउ नृप बालक नर भूपन

प्रभु श्रीरामजी के सुन्दर स्वरूप को देखकर राक्षस वाण नहीं छोड़ सके, सब राक्षस थकित हो गये । खरदूषण मंत्री को बुलाकर बोले—यह राज-पुत्र मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं ।

नाग असुर सुर नर मुनि जेते * देखे सुने हते हम तेते
हम भरि जन्म सुनहु सब भाई * देखो नहि असि सुन्दरताई

हमने जितने भी देवता, मनुष्य, नाग, असुर और मुनि देखे-सुने हैं और जितने भी अपने हाथों से मारे हैं । परंतु, हे भाइयो, ! सुनो, हमने आज तक ऐसी सुन्दरता नहीं देखी ।

जद्यपि भगिनी कोन्ह कुरूपा * वध लायक नहि पुरुष अनूपा
देहु तुरत निज नारि दुराई * जीअत भवन जाहु दोउ भाई

यद्यपि उन्होंने बहिन को कुरूप कर डाला है, तो भी वह अनुपम पुरुष मारने योग्य नहीं हैं । अपनी छिपाई हुई स्त्री हमको शीघ्र देवो और दोनों भाई जाते हुए ही पर को लौट जाओ ।

मोर कहा तुम्ह ताहि सुनावहु * तासु वचन सुनि आतुर आवहु
दूतन्ह कहा राम सन जाई * सुनत राम बोले मुसुकाई

मेरा यह वचन तुम उनसे जाकर कहो और उनका उत्तर सुनकर तुरन्त आओ । दूतों ने जाकर श्रीरामजी से कहा, यह सुनते ही श्रीरामजी मुस्कराकर बोले—

हम क्षत्रिय मृगया वन करहीं * तुम्ह सेखल मृग खोजत फिरहीं
रिपु बलवन्त देखि नहि डरहीं * एक वार कालहु

नाथजी नेत्रों में आँसू भरकर बोले-हे तात ! तुमने अपने कर्मों से उत्तम गति पाई ।
 हेत बस जिन्हके मन माहीं * तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहीं
 तजि तात जाहु मम धामा * देउँ काह तुम्ह पुरन काम
 जिनके मन में पराया हित रहता है, उनको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है । हेतात...
 शरीर छोड़कर मेरे धाम को जाओ । तुम्हें और क्या दूँ ? तुम पूर्ण-काम हो ।
 रोहा-सीता हरन तात जनि, कहहु पिता सन जाइ ।
 जौं मैं राम तौ कुल सहित, कहहि दसानन आइ ॥३१॥
 हे तात ! बंकुण्ठमें जाकर पिताजी से 'सीता-हरण' की बात मत कहना । जो मैं 'राम'
 हूँ, तो अपने कुल समेत रावण स्वयं ही वहाँ आकर कहेगा ।
 श्याम गात बिसाल भुज चारी * भूषन बहु पट पीत अनूपा
 पीताम्बर पहने हैं, श्याम शरीर है, विशाल चार भुजायें हैं और नेत्रों में जल भरकर वह
 स्तुति करने लगे ।
 छन्द-जय राम रूप अनूप निर्गुन सगुन गुन प्रेरक सही ।
 दससीस बाहु प्रचण्ड खण्डन चण्ड सर मण्डन मही ॥
 पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचन ।
 निति नौमि राम कृपालु बाहु बिसाल भव भय मोचन ॥
 हे श्रीरामजी ! आपकी जय हो । आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण और सगुण तथ्य
 गुणों के प्रेरक हैं । रावण की प्रबल भुजाओं का खण्डन करने वाले, प्रचंड वाण धारण करने
 वाले, पृथ्वी के भूषण-रूप, मेघ के समान शरीर वाले, कमल के समान मुख और नील-कमल
 के समान विशाल नेत्र वाले, दयालु, विशाल भुजाओं वाले और संसार के भय को छुड़
 वाले-श्रीरामजी को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ ।
 बलप्रमेयमनादिअजमव्यक्तमेकमगोचरं
 गोविन्द गोपर द्वन्द्वहर विज्ञानघन धरणी धरं
 जे राम मन्त्र जपन्त सन्त अनन्त जन मन रञ्ज
 नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खलदल गञ्ज
 आपका बल अपार है, आप अनादि, अजन्मा, अदृश्य, अगोचर, गोविन्द, द्वन्द्व-हर, विज्ञान
 पृथ्वी को धारण करने वाले हैं । हे अनन्त ! जो 'राम' मन्त्र का जप करते हैं, अ
 भक्तों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं । हे निष्काम भक्ति करने वालों के काम, अ
 दुष्टों के समूह को नाश करने वाले श्रीरामजी ! मैं आपको नित्य नमस्कार करता

श्रीरामजी युद्ध में क्रोधित हुए और बहुत से तीक्ष्ण वाण चले ।

अवलोकित खरतर तीर । मुरि चले निसिचर वीर
भए क्रुद्ध तीनिउ भाइ । जो भागि रन ते जाइ

बहुत से तीक्ष्ण वाणों को देखकर राक्षस चोट चले, तब तोंनों भाई क्रोधित होकर शीले-
जो युद्ध से भाग कर जायगा—

तेहि बधव हम निज पानि । फिरे मरन मन महुँ ठानि
आयुध अनेक प्रकार । सनमुख ते करहि प्रहार

उसे हम अपने हाथों से मार डालेंगे । तब वे मन में मरना ठानकर लौट पड़े और अनेक
प्रकार के हथियार सामने होकर चलने लगे ।

रिपु परम कोपे जानि । प्रभु धनुष सर सन्धानि
छाँड़े विपुल नाराच । लगे कटन विकट पिसाच

शत्रु को बहुत क्रोधित जानकर प्रभु श्रीरामजी ने फिर धनुष चढ़ाकर बहुत से वाण
छोड़े, जिनसे विकट राक्षस कटने लगे ।

उर सोस भुज कर चरन । जहँ तहँ लगे महि गिरन
चिक्करत लागत वान । धर परत कुधर समान

उसके हृदय, सिर, हाथ और पैर इधर-उधर पृथ्वी पर गिरने लगे । वाण लगने पर
वे चिल्लाते हैं और पहाड़ के समान घड़ फटकर गिरते हैं ।

भट कटत तन सतखण्ड । पुनि उठत कर पाखण्ड
नभ उड़त बहु भुज मुण्ड । विनु मौलि धावत रुण्ड

शरीर के सौ-सौ टुकड़े हो जाते हैं, तो भी वे योद्धा माया करके फिर उठ भागते हैं ।
आकाश में बहुत-सी भुजा और मुण्ड उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के घड़ दौड़ रहे हैं ।

खग कंक काल सृगाल । कटकटहि कठिन फाराल
गोघ, चील, पक्षी, फौए और सियार बहुत भयंकर रूप से फटकटाते हैं ।

छन्द—कटकटहि जम्बुक भूत प्रेत पिसाच खप्पर सञ्चहीं ।

वैताल वीर कपाल ताल वजात जोगिन नञ्चहीं ॥

रघुवीर वान प्रचण्ड खण्डहि भटन्ह के उर भुज सिरा ।

जहँ तहँ परहि उठि लरहि धर धर करहि भयंकर रिगि ॥

सियार फटकटाते हैं और भूत, प्रेत, पिसाच अपना खप्पर सजा रहे हैं । वैताल वान
खोपड़ियों पर ताल वजा रहे हैं, योगिनियां नाच रही हैं । श्रीरामजी के पैरे बाण ।

कृपानिधान श्रीरघुनाथजी ने क्षणभर में सब शत्रुओं को मार डाला । देवता प्रसन्न होकर पुष्प बरसाने लगे और आकाश में नगाड़े बजने लगे, फिर वे स्तुति कर विमानों में मुशो-मित होकर चले ।

जब रघुनाथ समर रिपु जीते * सुर नर मुनि सबके भय बीते
तब लछिमन सीतहि लै आए * प्रभु पद परत हरषि उर लाए

जब श्रीरघुनाथजी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया, तो देवता, मनुष्य और मुनि सबका भय दूर हो गया । तब लक्ष्मणजी-सीताजी को ले आये और चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक हृदय से लगा लिया ।

सीता चितव श्याम मृदु गाता * परम प्रेम लोचन न अघाता
पञ्चवटी वसि श्रीरघुनाथक * करत चरित सुरमुनि सुखदायक

श्रीरामजी के सांवले और कोमल अंगों को अत्यन्त प्रेम से देखते हुए सीताजी के नेत्र नहीं अघाते । पंचवटी में रह श्रीरामजी-देवता और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे ।

धुआँ देखि खरदूपन केरा * जाइ सुपनखाँ रावन प्रेरा
बोली वचन क्रोध करि भारी * देस कोष कै सुरति विसारी

करसि पान सोवसि दिनु राती * सुधि नहि तब सिर पर आराती

खरदूपण का विध्वंस हुआ देखकर शूर्पणखां ने रावण को उकसाया । वह बहुत क्रोध करके बोली-तूने देश व खजाने को सुधि ही गुला दी । मदिरा पीकर सो रहा है । तुझे पबर नहीं कि शत्रु सिर पर चढ़ आया है ।

राज नीति बिनु धनु बिनु कर्मा * हरिहि समपेँ बिनु सतकर्मा
बिद्या बिनु विवेक उपजाएँ * श्रम फल पढ़े किए अरु पाएँ

नीति के बिना राज्य व धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, हरि को समर्पण किये बिना शुभ-कर्म करने से, ज्ञान उत्पन्न हुए बिना विद्या पढ़ने से-परिणाम में केवल श्रम ही हाथ लगता है ।

सङ्ग तेँ जती कुमति ते राजा * मान ते ज्ञान पान ते लाजा
प्रीति प्रनय बिनु मद ते गुनी * नासहि वेगि नीति अस सुनी

कुसंग से सन्यासी, दूरी सलाह से राजा, अभिमान से ज्ञान, मदिरा पीने से लाज, नम्रता के बिना प्रीति, अहंकार से गुण-यह तुरन्त नाश हो जाते हैं, ऐसी नीति सुनी है ।

सो०-रिपु रुज पावक पाप, प्रभुअहि गनिअ न छोडकरि ।

अस कहि विविध विलाप, करि लागी रोदन करन ॥ ८ ॥

शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और साँप को छोटा करके नहीं गिनना चाहिए । ऐसा कहकर अनेक प्रकार से विलाप करके शूर्पणखां रोने लगे ।

दोहा-सभा माँझ परि व्याकुल, बहु प्रकार कह रोइ

जहाँ घनी लताओं व वृक्षों से वन सघन था, जहाँ बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह आदि रहते थे, वहीं मार्ग में आते हुए कबन्ध को श्रीरामजी ने मारा। तब उसके शाप की बात कही—

दुरवासा सोहि दीन्हो शापा * प्रभु पद देखि मिटा सो पापा
सुनु गन्धर्व कहउँ मैं तोही * मोहि न सोहाइ विप्रकुल द्रोही

मुझे दुर्वासाजी ने शाप दिया था, वह शाप आज प्रभु के चरणों के दर्शन से दूर हो गया। यह सुन श्रीरामजी बोले—हे गन्धर्व! मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो—मुझे ब्राह्मण-कुल-द्रोही नहीं सुहाता।

दोहा—मन क्रम वचन कपट तजि, जो कर भूसुर सेव।

मोहि समेत विरञ्चि शिव, बस ताके सब देव ॥ ३३ ॥

मन, क्रम और वाणों से छल छोड़कर जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, मेरे सहित ब्रह्मा और शिव आदि देवता उसके वश में हो जाते हैं।

शापत ताडत परुष कहन्ता * विप्र पूज्य अस गाव्हि सन्ता
पूजिअ विप्र शील गुन हीना * सूद्र न गुन गन ग्यान प्रवीना

शाप देता हुआ, ताड़ना करता हुआ तथा कठोर वचन कहता हुआ भी विप्र पूज्य है, ऐसा संत कहते हैं। ब्राह्मण-शील, गुणहीन भी पूज्यनीय है और शूद्र गुणवान व ज्ञानी भी पूज्यनीय नहीं।

कहि निज धर्म ताहि समुझावा * निज पद प्रीति देखि मन भावा
रघुपति चरनकमल सिरु नाई * गयउ गगन आपनि गति पाई

श्रीरामजी ने अपना धर्म कहकर उसे समझाया और अपने चरणों में कबन्ध की प्रीति देखकर वह उनके मन को प्रिय लगने लगा। फिर कबन्ध श्रीरघुनाथजी के चरणों में सिर नवाकर अपनी गति या आकाश द्वारा गन्धर्व-लोक को गया।

ताहि देइ गति राम उदारा * शबरी के आश्रम पगु धारा
शबरी देखि राम गृहँ आए * मुनि के वचन समुझि जियँ भाए

उदार श्रीरामजी उसको उत्तम गति देकर शबरी के आश्रम में पधारे। श्रीरामजी को आये देखकर शबरी को मतंग मुनि के वचन हृदय में भले लगे।

सरसिज लोचन बाहु विसाला * जटा मुकुट सिर उर वनमाला
श्याम गौर सुन्दर दोउ भाई * शबरी परी चरन लपटाई

कमल-नेत्र, विशाल भुजायें, मस्तक पर जटाओं का मुकुट, हृदय पर वनमाला धारण किये, सांवले और गोरे सुन्दर दोनों भाइयों को देखकर शबरी उनके चरणों में लिपट गई।

प्रेम भगन मुख वचन न आवा * पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा
सादर जल लै चरन पखारे * पुनि सुन्दर आसन बैठारे

वह प्रेम में ऐसी भगन है कि उसके मुख से वचन नहीं निकलता। बार-बार चरणकमलों में सिर नवा रही है। जल लेकर आनन्द-पूर्वक चरण धोये और सुन्दर आसन पर बैठाया।

दोहा—कन्द मूल फल सरिस अति, दिए राम कहँ आनि।

सुर नर असुर नाग खग माहीं * मोरे अनुचर सम कोउ नाहीं

खरदूषण मोहि सम बलवन्ता * तिन्हहिकोमारइ विनु भगवन्ता

(रावण सोचने लगा-) देवता, मनुष्य, राक्षस नाग व पक्षियों में मेरे सेवकों के समान भी कोई नहीं है। खर-दूषण तो मेरे समानही बलवान थे, उन्हें भगवान् के बिना फौन मार सकता है?

सुर रञ्जन भञ्जन महि भारा * जाँ भगवन्त लीन्ह अवतारा

तौ मैं जात वयरु हठि करिहौं * प्रभु सर प्रान तजें भव तरिहौं

देवों के आनन्द-दाता और भूमि का भार उतारने वाले यदि प्रभु ने ही अवतार लिया, तो मैं जाकर हठपूर्वक उनसे वर करूँगा और प्रभु के वाणसे प्राण त्यागकर भयसागर से तर जाऊँगा।

होइहिं भजनु न तामस देहा * मन क्रम वचन मन्त्र दृढ़ ऐहा

जाँ नर रूप भूपसुत कोऊ * हरिहउँ नारि जीति रन दोऊ

इस तामसी देह से भजन तो बनता नहीं, अतः मन, कर्म और वचन से निश्चय ही है। जो वे मनुष्य-रूप में कोई राजपूत होंगे तो युद्ध में जीतकर उनकी स्त्री हरण कर लाऊँगा।

चला अकेल जान चढ़ तहवाँ * बस मारीच सिंधु तट जहवाँ

इहाँ राम जस जुगुति बनाई * सुनहु उपमा सो कया सुहाई

यह सोच रावण रथ पर चढ़ अकेला ही वहाँ चला, जहाँ समुद्र के किनारे मारीच रहता था। (शिवजी बोले-) हे पार्वती! यहाँ रामजी ने जैसी युक्ति रची, वह सुहावनी क्या सुनो-

दोहा-लछिमन गए बनाहिं जब, लेन मूल फल कन्द।

जनकसुता सन बोलेउ, विहंसि कृपा सुखवृन्द ॥२१॥

जब लक्ष्मणजी वन में कन्द-मूल-फल लेने गये, तब कृपा और सुख के समूह धीरामजी जानकीजी से हँसकर कहने लगे-

सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुसीला * मैं कछु करवि ललितनरलीला

तुम्ह पावक महुँ करहु निवासा * जाँ लगि करौं निसाचर नासा

हे प्रिये! हे सुन्दर पतिव्रत-धर्म का पालन करने वाली सुशीले! मैं कुछ सुन्दर मनुष्य-खीला करना चाहता हूँ अतः मैं जब तक राक्षसों का नाश करूँ, तब तक तुम अग्नि में याप्त करो।

जबहिं राम सब कथा बखानी * प्रभुपद धरि हियँ अनल समानी

निज प्रतिविम्ब राखि तहुँ सीता * तैसेइ सील रूप सुविनीता

जब धीरामजीनेयह समझाकर कहा, तब प्रभुकेचरणोंकोअपने हृदय में धरकर सीताजी अग्नि में समा गईं और बैसाही शील, स्वभाव और नम्र-स्वभाव वाला प्रतिविम्ब वहाँ रच दिया।

लछिमनहुँ यह मरमु न जाना * जो कछु चरित रचा भगवाना

दसमुख गयउ जहाँ मारीचा * नाइ माथ स्वारथ रत

जो कुछ चरित भगवान् ने रचा, वह भेद लक्ष्मणजी भी नहीं जान पाये। स्वार्थ

अरल सब सन छलहीना * मम भरोस हियँ हरस न दीना
 एकउ जिन्ह केँ होई * नारि पुरुष सचराचर कोई
 भक्ति है—सीधे स्वभाव से निष्कपट बर्ताव और मन से मेँरा भरोसा रखना, कभी
 प्रकार का आनन्द और दीनता का न होना । इन नौ भक्तियों में से जिसमें एक भी
 हो, तो वह स्त्री-पुरुष, चर-अचर कोई भी हो—
 अतिसय प्रिय भामिनि मोरें * सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरें
 गे वृन्द दुर्लभ गति जोई * तो कहँ आजु सुलभ भइ सोई
 हे भामिनी ! वही मुझे प्यारा लगता है, इसमें तुम्हारी भक्ति तो सब प्रकार से दृढ़
 जो गति योगीजनों को भी दुर्लभ है, वही गति तुमको सहज ही में मिल गई ।
 म दरसन फल परम अनूपा * जीव पाप जिमि सहज सरूपा
 जनकसुता कहँ सुधि भामिनी * जानहु तो कहु करिवर गामिनी
 मेरे दर्शनों का फल बहुत अनुपम है, उससे जीव अपने सहज स्वरूप को पा जाता है ।
 हे भामिनी ! अब तुमको गजगामिनी-जानकीजी की खबर हो तो, बताओ ?
 पम्पा सरहि जाहु रघुराई * तहँ होईहि सुग्रीव सिताई
 सो सब कहहि देव रघुवीरा * जानत हँ पूछहु मतिधीरा
 (शबरी ने कहा— हे श्रीरघुनाथजी ! आप पम्पा-सरोवर को जाइये, वहाँ आपकी
 सुग्रीव से मित्रता होगी । हे देव ! वह आपसे सब समाचार कहेगा । आप तो जानवान हैं,
 सब कुछ जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं ।
 बार बार प्रभु पद सिरु नाई * प्रेम सहित सब कथा सुनाई
 बार २ प्रभु श्रीरामजी के चरणों में मस्तक नवाकर प्रेम-पूर्वक उसने सब कथा सुनादी ।
 न्द—कहि कथा सकल बिलोकि हरि मुख हृदयँ पद पंकज धरे ।
 तजि जोग पावक देह हरि पद लीन भइ जहँ नाँहि फिरे ।
 नर विविध कर्म अधर्म बहु मत सोकप्रद सब त्यागहू
 विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागहू
 सब कथा कहकर प्रभु के दर्शन कर, उनके चरणकमलों को अपने हृदय में रखकर
 योगाग्नि द्वारा देहको छोड़ हरि के चरणों में लीन हो गई, जहाँ पहुँच कर जीव पुनः जन्म
 लेता । तुलसीदास कहते हैं—हे मनुष्यो ! तुम नाना प्रकार के पापकर्म और दुःखदाई ब
 सतान्तरों के सब झंझटों को छोड़ दो और विश्वास करके श्रीरामजी के चरणों में प्रीति
 दोहा—जातिहीन अघ जन्ममहि, मुक्त कीन्हि असि नारि ।
 महासन्द मन सुख चहसि, ऐसे प्रभुहि बिसारि ॥
 मेरे नाति की व पापों की जन्म-भूमि ऐसी 'स्त्री' को जिन्होंने मुक्त किया, ऐ

आप अपने वंश की कुशल विचारकर घर लौट जाइए । यह सुनकर रावण जल उठा और मारीच को बहुत सी गालियां दीं । वह बोला-अरेभूढ़ ! तू मुझे गुह को भीति उपदेश देता है, घता-संसार में मेरे समान घोड़ा कौन है ?

तब मारीच हृदय अनुमाना * नवाहि विरोधें नहि कल्याणा शस्त्री मर्मा प्रभु सठ धनी * वैद बन्दि कवि मानस गुनी

तब मारीच ने हृदय में विचार किया कि शस्त्रधारी, भेषिया स्वामी, धनवान्, बंध, सूख, भाट, कवि और पण्डित-इन नी जनों से बंद करने में भलाई नहीं है ।

उभय भाँति देखा निज मरना * तब ताकेसि रघुनायक सरना उत्तर देत मोहि बधव अभागै * कस न मरौ रघुपति सर लागै

मारीच ने जब दोनों प्रकार से अपना भरण देखा. तब श्रीरघुनायजी की ही शरण ताकी और सोचा कि उत्तर देते ही यह अभाग्य मुझे मार डालेगा-फिर श्रीरघुनायजी के बाण से ही क्यों न मरूँ ?

अस जियँ जानि दसानन सङ्गा * चला राम पद प्रेम अभङ्गा मन अति हरष जनाव न तेही * आजु देखिहुँ परम समेही

ऐसा विचार कर श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में पूर्ण स्नेह करके रावण के साथ चला । उसके मन में बड़ा आनन्द है कि आज मैं परम-स्नेही श्रीरामचन्द्रजी को देखूँगा, परन्तु उसने यह भेद रावण को नहीं बताया ।

छन्द-निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइ हौं ।

श्री सहित अनुज समेत कृपानिकेत पद मन लाइ हौं ॥

निर्वान दायक क्रोध जाकरि भगति अवसहि बस करी ।

निज पानि सर संधानि सो मोहि बधहि सुखसागर हरी ॥

अपने प्रियतम के वरनि से नेत्रों को सफल करके सुख पाऊँगा और सोता व लडमण सहित कृपा के धाम-श्रीरामजी के चरणोंमें अपने मन को लगाऊँगा । जिनका कि क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश (भगवान्) को भी वश में कर लेती है । वही सुख के समुद्र-श्रीहरि अपने हाथों से बाण चढ़ाकर मुझे मारेगे ।

दोहा-मम पाछें घर धावत, धरें सरासन वान ।

फिरिफिरिप्रभुहि विलोकिहुँ, धन्य न मो सम आन ॥२४॥

धनुष-बाण धारण किए मेरे पीछे दौड़ते हुए प्रभु को मैं बारम्बार फिर-फिरकर देखूँगा । मेरे समान धन्य और कोई नहीं है ।

तेहि वन निकट दसानन गयऊ * तब मारीच कपट भृगु भयऊ अति विचित्र कछु वरनि न जाई * कनक देह मनि रचित ताई

उस वन के निकट जब रावण पहुँचा, तब मारीच कपट-भृगु बन गया ।

कदलि ताड़ वर ध्वजा पताका * देखि न मोह धीर मन जाका

विशाल वृक्षों पर लतायें उलझी हैं, मानो अनेक प्रकार के तन्तु तान दिये हैं। केले के व ताड़ के वृक्ष सुन्दर ध्वजा-पताका हैं, इन्हें देखकर जिसका मन मोहित न हो, उसी को धैर्यवान् जानना चाहिए।

विदिध भाँति फूले तरु नाना * जनु बानैत बने बहु बाना
कहुँ कहुँ सुन्दर विटप सुहाए * जनु भट बिलग होइ बिल छाए

अनेक प्रकार के वृक्ष फूल रहे हैं, मानो अनेक भाँति के बाने धारण किये हुए तोरन्दाज हैं। कहीं-कहीं ऐसे सुन्दर वृक्ष शोभायमान हैं, मानो योद्धा छावनी डाले पड़े हैं।

कूजत पिक सानहुँ गज साते * डेक सहोख ऊँट बिसराते
सोर चकोर कीर वर बाजी * पारावत सराल सम ताजी

कोयल ऐसे कूक रही हैं, मानो हाथी चिघाड़ रहे हों। कुलंग और सहोख पक्षी-मानो ऊँट और खच्चर हैं। सोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो ताजी घोड़े हैं।

तीतुर लावक पदचर जूथा * वरनि न जाइ मनोज बरूथा
रथ गिरि सिला बुन्दुभी झरना * चातक वन्दी गुन गन वरना

तीतर और बटेर-मानो पैदल सिपाहियों के झुण्ड हैं, कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलायें-‘रथ’ और झरनों का शब्द-मानो ‘नगाड़े’ हैं तथा पपीहा ही मानो गुण-प्रसंशक ‘वन्दी’ हैं।

मधुकर सुखर शेरि सहनाई * त्रिविध बयारि बसीठीं आई
चतुरङ्गिनी सेन सँग लोन्हें * विचरत सबहि चुनौती दीन्हें

घोरों का गुञ्जारना ही ‘सहनाई’ है, तीनों प्रकार की वायु ही मानो ‘दूत’ बनकर आई हैं। इस प्रकार कामदेव अपनी चतुरङ्गिनी सेना साथ लिए सबको चुनौती दे रहा है।

लछिमन देखात काम अनीका * रहहिं धीर उन्ह कें जग लीका
एहि कें एक परम बल नारी * तेहि तें उबर सुभट सोइ भारी

हे लक्ष्मण ! कामदेव की सेना को देखकर भी जो धीर बने रहते हैं, संसार में उनकी ही गिनती है। इसका बड़ा बल केवल ‘स्त्री’ है, इससे जो बचे-वही बड़ा ‘वीर’ है।

दोहा-तात तीनि अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ।

मुनि विग्यान धाम मन, करहिं निमिषमहुँ क्षोभ ॥ ३९ ॥

हे भाई ! काम, क्रोध और लोभ-यह तीन बड़े ही प्रबल दुष्ट हैं, वह बड़े-बड़े ज्ञानी मुनियों के मन को भी पलभर में ढिगा देते हैं।

लोभ कें इच्छा दम्भ बल, काल कें केवल नारि।

क्रोध कें परुष वचन बल, मुनिवर कहहिं विचारि ॥ ४० ॥

लोभ का बल-‘इच्छा’ और ‘पाखण्ड’ है, काम का बल-केवल ‘स्त्री’ है और क्रोध का बल-‘कठोर वचन’ है, श्रेष्ठ मुनि विचार कर यह कहते हैं।

दोहा-विपुल सुमन सुर वरषहिं, गावहिं प्रभु गुन गाथ ।

निज पद दीन्ह असुर कहूँ, दीनबन्धु रघुनाथ ॥२६॥

देवता बहुत प्रकार से फूल बरसाने लगे और प्रभु के गुणानुयाव गाने लगे कि कृपासिंधु श्रीरघुनाथजी ने राक्षस को भी अपना धाम दिया ।

खल बधि तुरत फिरे रघुवीरा * सोह चाप कर कटि तूनीरा
आरत गिरा सुनी जब सीता * कह लछिमन सन परम समीता

दुष्ट मारीच को मारकर श्रीरामजी तुरन्त लौटे । हाथ में धनुष और कमर में तर्कस शोभायमान था । वहाँ सीताजी ने जब दुःख-भरी वाणी सुनी, तब बहुत घबड़ाकर लक्ष्मणजी से कहने लगी—

जाहु बेगि संकट तव भ्राता * लछिमन विहंसि कहा सुनु माता
भृकुटि विलास जासु लय होई * सपनेहुँ संकट परइ कि सोई

श्रीधर जाओ, तुम्हारे भाई पर संकट है । लक्ष्मणजी हँसकर बोले-हे माता ! सुनो, जिसके मोह के संकेत से सृष्टि का नाश होता है, उस पर क्या स्वप्न में भी संकट पड़ सकता है ?

मरम वचन सीता जब बोला * हरि प्रेरित लछिमन मन डोला
वन दिसि देव सौँप सब काहू * चले जहाँ रावन ससि राहू

यह सुनकर सीताजी ने मर्म वचन कहे, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मणजी का भी मन डोल गया । वे वन और दिशाओं के देवताओं आदि सबको 'सीताजी' की सौँपकर वहाँ चले-जहाँ चन्द्रमाहूपी रावण को प्रसने के लिये राहुहूपी श्रीरघुनाथजी थे ।

सून बीच दसकन्धर देखा * आवा निकट जती कें वेपा
जाके डर सुर असुर डराहीं * निसि न नौंद दिन अन्न न खाहीं

रावण उस बीच में सूना देखकर सन्यासी के रूप में सीताजी के पास आया । जिसके डर से देवता व राक्षस डरते हैं, रात को नौंद भर नहीं सोते और दिन में अन्न नहीं खाते हैं—

सो दससोस स्वाँन की नाई * इत उत चितइ चला भड़िजाई
इमि कुपन्थ पग देत खगेसा * रह न तेज तनु बुधि बल लेसा

यही रावण कुत्ते की भाँति इधर-उधर ताकता हुआ घोरो करने लगा । (फाकमुगुण्डिजी कहते हैं-) हे गरुड़जी ! इस तरह के बुरे मार्ग में पाँव देते ही शरीर में तेज व बुद्धि नहीं रहती ।

नाना बिधि कहि कथा सुहाई * राजनीति भय प्रीति देखाई
कह सीता सुनु जती गोसाई * बोलेहु वचन दुष्ट की नाई

रावण ने अनेकों सुहावनी कथा कहकर सीताजी को राजनीति, भय और प्रीति बिपार । तब सीताजी ने कहा-हे गोसाई ! सुनो, तुमने दुष्टों की भाँति वचन कहे हैं ।

तब रावन निज रूप दिखावा * भई सभय जब नाम सुनावा
कह सीता धरि धीरज गाढ़ा * आइ गयउ प्रभु रहू ह

नी बोली बोल रहे हैं, मातो राहगीरों को बुलाते हैं।
 सीप मुनिन्ह गृहं छाए * चहुँ दिसि कानन विटप सुहाए
 बकुल कदम्ब तमाला * पाटन पनस परास रसाला
 रोवर के निकट मुनियों के घर छाये हुए हैं उनके चारों ओर वन और वृक्ष सुशोभित
 म्पा, मौलसरी, कदम्ब, तमाल, पातड़ी, कटहर, ढाक और आम आदि-
 पल्लव कुसुमित तरु नाता * चञ्चरीक पटला कर गाना
 ल सन्द सुगन्ध सुभाउ * सन्तत बहइ मनोहर बाऊ
 हू कुहू कोकिल धुनि करहीं * सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं
 अनेक वृक्षों में नये-नये पत्ते वफूल खिल रहे हैं, औरों की मन्डली गुंजार रही है। वहाँ
 नरन्तर स्वाभाविक मन को हरने वाली शीतल, मन्दसुगन्धित वायु बहती है। कोपल कुहू-
 कुहू की ध्वनि कर रही है, उसके रसीले शब्द को सुन मुनियों के भी ध्यान छूट जाते हैं।
 दोहा-फल भारन नमि विटप सब, रहे भूमि निजराइ।
 पर उपकारी पुरुष जिमि, नवाहि सुसम्पति पाइ ॥ ४३ ॥
 फलों के बोझ से वृक्ष झुक कर भूमि से लग गये हैं, जैसे परोपकारी पुरुष अच्छी संपत्ति
 पाकर विनम्र हो जाते हैं।
 देखि राम अति रुचिर तलावा * मज्जनु कीन्ह परस सुख पावा
 देखी सुन्दर तरुवर छाया * बैठे अनुज सहित रघुराया
 सुन्दर सरोवर को देखकर श्रीरामजी ने उसमें स्नान किया और बहुत सुख पाया।
 फिर एक उत्तम वृक्ष की सुन्दर छाया देखकर उसके नीचे लक्ष्मण सहित श्रीरघुनाथजी बैठे।
 तहँ पुनि सकल देव मुनि आए * अस्तुति करि निज धाम सिधाए
 बैठे परस प्रसन्न कृपाला * कहत अनुज सन कथा रसाला
 कृपालु श्रीरामजी अति प्रसन्न बैठे हुए लक्ष्मणजी से रसीली कथा कह रहे हैं।
 विरहबन्त भगवन्तहि देखी * नारद सन भा सोच विशेष
 मोर शाप करि अङ्गीकारा * सहत राम नाना दुख भा
 भगवान श्रीरामजी को विरह-युक्त देखकर नारदजी के मन में बड़ा सोच हुआ कि
 शाप को अङ्गीकार करके श्रीरामजी अनेकों प्रकार से दुःखों का भारी सह रहे हैं।
 ऐसे प्रभुहि बिलोकउं जाई * पुनि न बनिहि अस अदसह
 यह विचारि नारद कर बीना * गए जहाँ प्रभु सुख आ
 ऐसे प्रभु को जाकर देखूँ, फिर ऐसा अवसर नहीं आवेगा। यह विचार कर
 और नारदजी वहाँ गये-जहाँ श्रीरामजी सुख-पूर्वक बैठे थे।

आवत देखि कृतान्त समाना * फिर दसकन्धर कर अनुमाना

वह बोला—रे दुष्ट ! छड़ा क्यों नहीं होता ? बेघड़क घला जाता है, क्या मुझे नहीं जानता ? जटायु को काल के समान आते देख, रावण ने लौटकर अनुमान किया ।

को मैंनाक कि खगपति होई * मम बल जान सहित पति सोई

जाना जरठ जटायू ऐहा * मम कर तीरथ छाँड़हि देहा

यह मैंनाक पर्वत है या गरुड़ है ? पर यह तो अपने स्वामी, हरि समेत मेरे बल को जानता है । फिर रावण ने जाना कि यह तो बूढ़ा जटायु है, जो मेरे हाथरूपी तीर्थ में अपना देह छोड़ेगा ।

सुनत गीध क्रोधातुर धावा * कह सुनु रावन मोर सिखावा

तजि जानकिहि कुसल गृह जाहू * नाहित अस होइहि बहुवाहू

यह सुनते ही जटायु क्रोधित हो बीड़ा और बोला—हे रावण ! मेरी शिक्षा सुनो, जानकीजी को यहाँ छोड़कर, सकुशल घर लौटजाओ, नहीं तो—हे बहुबाहू ! तेरो ऐसी गति होगी कि—

राम रोष पावक अति घोरा * होइहि सकल सलभ कुल तोरा

उतर न देत दसानन जोधा * तवहि गीध धावा करि क्रोधा

श्रीरामजी की क्रोधरूपी महाप्रचंड अग्नि से तेरा यह सब वंश पतंगे की तरह भस्म हो जायगा । योद्धा रावण ने कुछ उत्तर नहीं दिया, तब जटायु क्रोधित होकर बीड़ा ।

धरि कच विरयकीन्ह महि गिरा * सीतहि राखि गीध पुनि फिरा

चोंचन्ह मारि विदारेसि देही * दण्ड एक भइ मुरछा तेही

और रावण के बाल पकड़कर रथ पर से घसीट लिया, वह पृथ्वी पर जा गिरा । जटायु सीताजी को कुछ दूर बँठाकर फिर लौट आया और चोंच से रावण के शरीर को ऐसा छेद डाला कि उसे एक घड़ी की मूर्छा आ गई ।

तब सक्रोध निसिचर खिसिआना * काढ़ेसि परम कराल कृपाना

काटेसि पंख गिरा खग धरनी * सुमिरि राम कर अद्भुत करनी

तब रावण खिसिया गया, उसने क्रोधित होकर बहुत पानी तलवार निकाली और जटायु के पंख काट डाले । वह अद्भुत करनी करके श्रीरामजी को स्मरण कर पृथ्वी पर गिर पड़ा ।

सीतहि जानि चढ़ाइ बहोरी * चला उताइल त्रास न थोरी

करन विलाप जाति नभ सीता * व्याध विवस जनु मृगी सभोता

सीताजी को रथ पर चढ़ाकर रावण जल्दी चला, उसके मन में थोड़ा डर नहीं था, आकाश-मार्ग में विलाप करती सीता ऐसी जारही थी, मानो बहेलिया के वश में पड़ी डरी हुई हिरणी जारही हो ।

गिरि पर बैठे कपिन्ह निहारो * कहि हरि नाम दीन्ह पट डारो

एहि विधि सीतहि सो लै गयऊ * वन असोक महँ राखत भयऊ

पर्वत पर बैठे हुए वानरों को देखकर राम का नाम लेकर सीताजी ने बसव र दिया । इस प्रकार वह सीताजी को ले गया और असोक-वाटिका में जा रक्का ।

श्री रामायण भा० टी०



सीता-हरण

षट विकार जित अनघ अकामा * अचल अकिंचन सुचि सुखधामा
अमित बोध अनीह मित भोगी * सत्यसार कवि कोविद जोगी
सावधान शानद मदहीना * धीर धर्म गति परम प्रवीना

सन्त-जन छः विकारों को जोते हुए, पाप रहित, कामना रहित, स्थिर चित्त, अकिंचन पवित्र, सुख के स्थान, भारी ज्ञानवान्, इच्छा रहित, अत्पाहारी, सत्य-प्रतिज्ञ, कवि, पंडित योगी, सावधान, सबको मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान्, धर्माचरणों में प्रवीण—
दोहा—गुनागार संसार दुख, रहित विगन सन्देह ।

तजि सस्य चरनसरोज प्रिय, तिन्ह कहँ देह न गेह ॥ ४८ ॥

गुणों के स्थान, संसार के दुखों से दूर और सब सन्देहों से रहित रहते हैं । मेरे चरण-कमलों को छोड़कर उन्हें न अपनी देह प्यारी है और न घर आदि—

निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं * पर गुन सुनत अधिक हरषाहीं
सस्य सीतल नहिं त्यागहिं नीती * सरल सुभाव सबहिं सन प्रीती

वे अपने गुणों को कानों से सुनते ही सकुचाते हैं और पराये गुणों को सुनने से बहुत प्रसन्न होते हैं । वे एक समान और शान्त-स्वभाव होते हैं और नीति को नहीं त्यागते तथा स्वभाव से सीधे और सबसे प्रेम करते हैं ।

जप तप व्रत दम संजम नेमा * गुरु गोविन्द विप्र पद प्रेमा
श्रद्धा क्षमा मयत्री दाय्या * मुदिता मम पद प्रीति अमाया

वे जप, तप, व्रत, दम, संयम तथा नियम में रत रहते हैं और गुरु, गोविन्द तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करते हैं । उनमें श्रद्धा, क्षमा, मित्रता, दया, मुदिता तथा मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है ।

विरति विवेक विनय विग्याना * बोध जथारथ वेद पुराना
दम्भ सान मद करहिं न काऊ * भूल न देहि कुमारग पाँऊ

वैराग्य, ज्ञान, नम्रता, विज्ञान और वेद-पुराणों का यथार्थ बोध होता है । वे पाखण्ड अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमार्ग में पाँव नहीं रखते ।

गावहिं सुनहिं सदा मम लीला * हेतु रहित परहित रत सीला
मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते * कहि न सकहिं सादर श्रुति तेते

वे सदैव मेरी लीलाओं को गाते और सुनते हैं और बिना स्वार्थ के ही दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं । मुनि ! सुनो, साधुओं के जितने गुण हैं, उनको सरस्वतीजी और वेद भी नहीं कह सकते ।

छन्द—कहि न सारद सेष नारद सुनत पदपंकज गहे ।
अस दीनबन्धु कृपाल अपने भगत गुन निज मुख कहे ॥

छन्द-जेहि श्रुति निरञ्जन ब्रह्म व्यापक विरज अजि कहि गावही ।
 करि ध्यान ग्यान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावही ॥
 सो प्रकट करुनाकन्द सोभा वृन्द अग जग मोहई ।
 मम हृदय पंकज भृङ्ग अङ्ग अनङ्ग बहु छवि सोहई ॥

जिनको वेद निरन्तर, ब्रह्म, सर्वव्यापक, निर्विकार और जन्म-रहित कहकर गाते हैं, जिनको अनेक मुनि ध्यान, ज्ञान, वैराग्य और योग आदि करके पाते हैं, वे ही वाप करुणाकन्द, शोभा के समूह तथा जड़-चेतन को मोहित कर देने वाले प्रगट हुए हैं । सो, हे अनेकों काम-देवों से बढ़कर शोभा वाले 'आप' मेरे हृदय-कमल में अमर के समान शोभायमान होंगे ।

जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम सीतल सदा ।
 पस्यन्ति जन जोगी जतन करि करत मन गो बस सुदा ॥
 सो राम रमानिवास सन्तत दास सब त्रिभुवन धनी ।
 मम उर बसहु सो समन संसृति जासु कीरति पावनी ॥

जो अगम और सुगम हैं, निर्मल स्वभाव हैं, विषम और सम हैं तथा सदा शान्ति-स्वरूप हैं । जिनको योगीजन यत्न करके जब मन और इन्द्रियों को वश में कर लेते हैं, तब देख पाते हैं । वे परमात्मारूपी राम, लक्ष्मीनिवास, निरन्तर भक्तजनों के वश में रहने वाले त्रिलोकीनाथ आप हैं । जिनकी पवित्र कृति आवागमन को हरने वाली है, ऐसे 'आप' मेरे हृदय में वास करें ।

दोहा-अविरल भगति मांगि वर, गीध गयउ हरिधाम ।
 तेहि की क्रिया यथोचित, निज कर कीन्ही राम ॥ ३२ ॥

जदाद्यु निर्मल भक्ति का वर मांगकर शंकुण्ड को गया, तब श्रीरामजी ने अपने हाथ से उसकी अन्तिम-क्रिया यथा-विधि की ।

कोमल चित अति दीनदयाला * कारन विनु रघुनाथ कृपाला
 गीध अधम खग आमिष भोगी * गति दीन्ही जो जाचत जोगी

श्रीरघुनाथजी बड़े कोमल-चित्त व दीनदयालु हैं तथा बिना कारण ही कृपा करने वाले हैं । जो गीध नीच जाति का मांस खाने वाला था, उसे भी वह गति दी, जो योगीजन मांगते हैं ।
 सुनहु उमा ते लोग अभागी * हरि तजि होहि विषय अनुरागी
 पुनि सीतहि खोजत द्वौ भाई * चले विलोकत वन बहुताई

(शिवजी कहते हैं-) हे पावती ! मुनो, वे पुरुष अभागे हैं, जो हरि को छोड़कर सांसारिक विषयों में मन लगाते हैं । फिर दोनों भाई सीताजी को खोजते व सदन-वन देखते हुए चले ।

संकुल लता विटप धन कानन * बहु खग मृग तहँ गज पञ्चानन
 आवत पन्थ कवच निपाता * तेहि सब कही शाप



* अथ मङ्गलाचरणम् *

श्लोक

कुन्देन्द्रीवरसुन्दरावतिबलो विज्ञानधामाविभौ ।

शोभाढचौवरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृन्दप्रियो ॥

मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवर्माँ हितौ ।

सीतान्वेषणतत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हिनः ॥१॥

कुन्द के पुष्प और नील-कमल के समान सुन्दर, गौर एवं श्याम-वर्ण, महाबली, विज्ञान के धाम शोभायुक्त, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों द्वारा स्तुत्य, गौ और ब्राह्मणों के समूह के प्रेमी, मायासे मनुष्य-रूप धारण करने वाले, उत्तम धर्म के कवच, सबके हितकारी, सीताजी की खोज में लगे हुए, पथिक-रूप, रघुकुल के श्रेष्ठ-श्रीरामजी व लक्ष्मणजी हमें अवश्य भक्तिप्रद हों ।

ब्रह्माशुभोधिसमुद्भवं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययं ।

श्रीसच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरै संशोभितं सर्वदा ॥

संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकीजीवनं ।

धन्यास्तेकृतिनः पिवन्तिसततं श्रीरामनामामृतम् ॥२॥

वे पुण्यात्मा धन्य हैं—जो वेदरूपी समुद्र से प्रकट, कलियुग के पापों के नाशक, नाश-रहित, भगवान् शंकर के परम सुन्दर चन्द्रमुख में शदैव शोभायमान, संसार-रोग की सुन्दर सीठी औषधि, सबको सुख देने वाले, श्रीजानकीजी के जीवन-मूल 'राम-नाम' रूपी अमृत का सदैव पान करते हैं ।

सो०—सुकित जन्म सहि जानि, ग्यान खानि अघ हानिकर ।

जहँ बसु शम्भु भवानि, सो कासी सेइअ कस न ॥ १ ॥

प्रेम सहित प्रभु खाए, वारम्बार बखानि ॥ ३४ ॥

शबरी ने बहुत रसीले कन्द-मूल-फल लाकर श्रीरामजी को दिये । प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ने उनका स्वाद वारम्बार बखान कर प्रेम से खाये ।

पानि जोरि आगे भइ ठाढ़ी * प्रभुहि विलोकि प्रीति अति बाढ़ी
केहि विधि अस्तुति करौ तुम्हारी * अधम जाति में जड़ मति भारी

वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई और प्रभु को देख उसके हृदय में प्रेम उमड़ आया । वह बोली—मैं आपकी स्तुति कैसे करूँ ? मैं नीच-जाति की हूँ और मेरी बुद्धि अति मन्द है ।

अधम ते अधम अधम अति नारी * तिन्ह महुँ में मतिमन्द गंवारी
कह रघुपति सुनु भामिनि वाता * मानउँ एक भगति कर नाता

नीच से भी महानीच स्त्रियाँ हैं, उसमें भी मैं अत्यन्त मूर्ख गंवारी हूँ । श्रीरघुनाथजी बोले—हे भामिनी ! मैं तो केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ ।

जाति पाँति कुल धर्म बड़ाई * धन बल परिजन गुन चतुराई
भगतिहीन नर सोहइ कैसा * बिनु जल वारिद देखिअ जैसा

जाति, पाँति, कुल, धर्म, बड़प्पन, धन, बल, कुटुम्ब, गुण और चतुराई—इन सबके रहते हुए भी भक्ति से रहित मनुष्य ऐसा लगता है, जैसे बिना जल का मेघ ।

नवध भगति कहउँ तोहि पाहीं * सावधान सुनु धरु मन माहीं
प्रथम भगति सन्तन्ह कर सङ्गा * दूसरि रति मम कथा प्रसङ्गा

अब मैं तुमसे नवधा-भक्ति कहता हूँ, सावधान होकर सुनो और मन में स्मरण रखो । पहली भक्ति 'सत्संग' है, दूसरी भक्ति 'मेरे गुणानुवाद सुनने में प्रीति' है ।

दोहा—गुर पद पंकज सेवा, तीसरि भगति अमान ।

चौथ भगति मम गुनगन, करइ कपट तजि गान ॥ ३५ ॥

'अहंकार को छोड़कर गुरु के चरणों की सेवा करना' तीसरी भक्ति है । चौथी भक्ति यह है कि 'कपट को त्यागकर मेरे गुणों का गुनगान करे ।'

मन्त्र जाप मम दृढ विश्वासा * पंचम भजन सो वेद प्रकासा
छठ दम सील विरति बहु करमा * निरत निरन्तर सज्जन धरमा

मुझमें दृढ़ विश्वास करके मंत्र का जप व भजन, पाँचवाँ भक्ति है, जो वेदों में प्रकाशित है । 'इन्द्रियों को रोकना, बहुत-से कर्मों से विरक्त तथा सज्जनों के धर्म में प्रीति' छठी भक्ति है ।

सप्तम सब जग मोहिमय देखा * मोतैं अधिक सन्त करि लेखा
अष्टम जथा लाभ सन्तोषा * सपनेहुँ नहि देखइ परदोषा

सातवाँ भक्ति यह है कि 'सब संसार को 'राममय' देखे और संत को मुझसे भी अधिक समझे । आठवाँ यह है कि 'जो मिल जाय उसी में संतोष करे और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखे ।'

* धीरामायण-किष्किन्धा काण्ड *

वा आप सब लोकों के स्वामी, संसार के कारण रूप 'भगवान्' हैं, जिन्होंने पृथ्वी
व दूर करने तथा भार उतारने के लिए मनुष्य-अवतार धारण किया है ?

लेस दशरथ के जाए * हम पितु बचन मानि वन आए
राम लछिमन दोउ भाई * सङ्ग नारि सुकुमारि सुहाई

श्रीरामजी बोले) हम कौशलाधीश दशरथजी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर
आये हैं। हम 'राम-लक्ष्मण' दोनों भाई हैं, हमारे साथ मेरी सुन्दर सुकुमारी स्त्री
श्रीमती भी थीं-

हैं हरि निसिचर बैदेही * विप्र फिरहिं हम खोजत तेही
पति चरित कहा हम गाई * कहहु विप्र निज कथा बुझाई

यहाँ जानकीजी को राक्षस चुरा ले गया है, हे विप्र ! हम उसी को ढूँढते फिरते हैं।
मने अपना चरित्र तो कह सुनाया है, हे विप्र ! अब आप अपनी कथा समझाकर कहो।

प्रभु पहिचान परेउ गहि चरना * सो सुख उमा जाइ नहि बरना
पुलकित तनु सुख आवन वचना * देखत रुचिर वेष कै रचना

प्रभु को पहिचान कर हनुमानजी उनके चरणों में गिर पड़े। (शिवजी कहते हैं-) हे
पार्वती ! वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर रोमांचित है, मुख से वचन नहीं
निकलता। स्वरूप की सुन्दर रचना देखते ही रह गये।

पुनि धीरजु धरि अस्तुति कीन्ही * हरषि हृदय निज नाथहिचीन्ही
सोर न्याउ सैं पूछा साई * तुम्ह पूछहू कस नर की नाई

फिर स्वामी को पहिचानकर धीरज धर, प्रसन्न मन से प्रार्थना की-हे स्वामी ! मैंने
पूछा-वह तो न्याय-युक्त है, परन्तु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं ?

तब साया बस फिरउं भुलाना * ताते सैं नहिं प्रभु पहिचाना
दोहा-एकु सैं मन्द मोह बस, कुटिल हृदय अग्यान।
पुनि प्रभु सोहि बिसारेउ, दीनबन्धु भगवान् ॥ २ ॥
एक तो मैं मन्द-बुद्धि और मोह के वश हूँ, दूसरे कठोर हृदय तथा अज्ञानी हूँ। फिर-
हे दीनबन्धु भगवान् ! आपने भी मुझे भुला दिया।
जदपि नाथ बहु अवगुन सोरैं * सेवक प्रभुहि परे जनि भोरैं
नाथ जीव तब साया सोहा * सो निस्तरहि तुम्हारेहि छोहा
हे नाथ ! यद्यपि मुझमें अवगुण बहुत हैं, तो भी प्रभु सेवक को कभी न भुलावें। हे नाथ !
जीव आपकी साया से मोहित हूँ, उसका उद्धार तो आपकी कृपा से ही हो सकता है।
ता पर सैं रघुबीर दोहाई * जानउं नहिं कछु भजन उपाई
सेवक सुत पितु मातु भरोसैं * रहइ असोच बनइ प्रभु पोई

मुलाकर, अरे मूर्ख मन ! तू सुख चाहता है ।

चले राम त्यागा वन सोऊ * अतुलित बल नर केहरि दोऊ
विरही इव प्रभु करत विषादा * कहत कथा अनेक संवादा

उस वन को छोड़कर धीरामजी आगे चले । दोनों अतुल बल वाले, मनुष्यों में सिंह के समान हैं । प्रभु विरही की तरह दुःख करते और अनेक कथाओं के सम्वाद कहते जाते हैं ।

लछिमन देखु विपिन कै सोभा * देखत केहि कर मन नहिं छोभा
नारि सहित तब खग मृगवृन्दा * मानहुं मोरि करत हहिं निन्दा

हे लक्ष्मण ! वन की सोभा देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा ? वहाँ सब पशु-पक्षी जोड़े सहित निन्दा कर रहे हैं ।

हमहि देखि मृग निकर पराहीं * मृगो कहाँहि तुम्हें कहूँ भय नाहीं
तुम्ह आनन्द करहु मृग जाए * कञ्चन मृग खोजन ए आए

हमें देखकर हिरनों के झुण्ड भागते हैं, तब हिरनियां कहती हैं कि तुमको इनसे कुछ भय नहीं । तुम सच्चे मृग हो, आनन्द करो, यह तो सुवर्ण के मृग ढूँढ़ने आये हैं ।

सङ्ग लाइ करिनीं करि लेहीं * मानहुं मोहि सिखावतु देहीं
शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिअ * भूप सुसेवित उस नहिं लेखिअ

हाथी-हयनियों को साथ लगा लेते हैं, माती मुझको शिक्षा दे रहे हैं कि मत्ती-मांति चिन्तन किये हुए शास्त्रों को भी बारम्बार देखते रहना चाहिए और उत्तम रीति से सेवा किये हुए राजा को भी अपने वश में नहीं समझना चाहिए ।

राखिअ नारि जदपि उर माहीं * जुवती शास्त्र नृपति वस नाहीं
देखहु तात बसन्त सुहावा * प्रियाहोन मोहि भय उपजावा

और स्त्री को चाहे हृदय से ही क्यों न लगाये रहे, तो भी 'स्त्री' शास्त्र और राधा' किसी के वश में नहीं रहते । हे भाई ! देखो-बसन्त श्रुतु फँसी सुहावनी है, परन्तु प्रिया (जानकीजी) के बिना मुझे यह भी भय उपजाती है ।

दोहा-विरह विकल बलहीन मोहि, जानेसि निपट अकेल ।

सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन्ह बग मेल ॥ ३७ ॥

मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और विलकुल अकेला जानकर वन के भरि तथा पक्षियों को साथ लेकर कामदेव ने मुझको आ बसाया है ।

देखि गयउ भ्राता सहित, तासु दूत सुनि बात ।

डेरा कीन्हेउ मनहुं तव, कटुक हटक मनजात ॥ ३८ ॥

परन्तु उसका दूत यह देख गया है कि मैं भाई सहित हूँ, तो उसकी यात मुनकर काम-देव ने अपनी सेना रोक कर मानो छावनी डाल दी है ।

विटप विशाल लता अरुझानी * विविध वितान विाँजन तानी

दोहा—तब हनुमन्त उभय दिसि, की सब कथा सुनाय ।

पावक साखी देइ कर, जोरी प्रीति दृढ़ाय ॥ ४ ॥

तब हनुमानजी ने दोनों ओर की सब कथा कहकर और अग्नि को साक्षी करके परस्पर दृढ़ प्रीति करा दी ।

कीन्हि प्रीति कछु बीच न राखा * लछिमन रामचरित सब भाषा
कह सुग्रीव नयन भरि बारी * मिलिहि नाथ मिथिलेस कुमारी

दोनों ने मित्रता की और कुछ भी अन्तर नहीं रक्खा । लक्ष्मणजी ने श्रीरामजी का सारा इतिहास कहा, तब सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा—हे नाथ ! जानकीजी मिल जायगी । मन्त्रिन्ह सहित इहाँ एक बारा * बैठि रहेउँ मैं करत बिचारा
गगन पन्थ देखी मैं जाता * परबस परी बहुत बिलपाता

एक बार मन्त्रियों सहित मैं यहाँ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था । तब मैंने आकाश मार्ग से जाती हुई, पराये वश मैं पड़ी, बहुत बिलाप करती हुई (सीताजी) को देखा था । राम राम हा राम पुकारी * हमहि देखि दीन्हेउ पट डारी
माँगा राम तुरत तेहि दीन्हा * पट उर लाइ सोच अति कीन्हा

राम ! राम ! हा राम ! पुकार कर, हमें देखकर वस्त्र गिरा दिया । वह रामजी ने माँगा तो तुरन्त ही सुग्रीव ने दे दिया । उस वस्त्र को छाती से लगाकर रामजी ने बहुत ही सोच किया । कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा * तजहु सोच मन आनहु धीरा
सब प्रकार करिहउँ सेवकाई * जेहिविधि मिलिहि जानकी आई

तब सुग्रीव ने कहा—हे श्रीरघुनाथजी ! सुनिये, सोच त्याग दीजिए और मनमें धीरज धरिये । मैं आपकी सब प्रकार से सेवा करूँगा, जिस प्रकार से जानकीजी आ मिलें ।

दोहा—सखा वचन सुनि हरषे, कृपासिन्धु बलसीव ।

कारन कवच बसहु वन, मोहि कहहु सुग्रीव ॥ ५ ॥

कृपासिन्धु और बल की सीमारूप श्रीरामजी सखा के वचन सुनकर प्रसन्न हुए और बोले—हे सुग्रीव ! तुम किस कारण वन में रहते हो, सो मुझसे कहो ?

नाथ बालि अरु मैं दोउ भाई * प्रीति रही कछु बरनि न जाई
मयसुत मायावी तेहि नाऊँ * आवा सो प्रभु हमरे गाऊँ

हे नाथ ! 'मैं' और 'बालि' दो भाई हैं, हममें ऐसी प्रीति थी—जो कही नहीं जाती ! हे प्रभो ! एक समय मय दानव का पुत्र जिसका नाम 'मायावी' था, वह हमारे गाँव में आया अर्ध रात्रि पुर द्वार पुकारा * बाली रिपु बल सहै न सारा
धावा बालि देखि सो भागा * मैं पुनि गयउ बन्धु संग लागा

उसने आधी रात को पुर के द्वार पर पुकारा, तब बालि से बारी का बल न सहा गया । वह दौड़ा तो बालि को आता देखकर मायावी भाग गया, मैं भी भाई के साथ दौड़ा चला गया ।

गुनातीत सचराचर स्वामी * उमा राम सब अन्तरजामी
कामिन्ह कै दीनता दिखाई * धीरन्ह कै मन विरति हृदा

(महादेवजी कहते हैं-) हे पार्वती ! गुणों से परे, चराचर के स्वामी धीरामचन्द्र सर्वान्तर्यामी हैं। यह तो उन्होंने कामीजनों की दीनता दिखाई है और धर्मवानों के मन : वरान्य की हृद किया है।

क्रोध मनोज लोभ पद माया * छूटहि सकल राम की दाय
सो नर इन्द्रजाल नहि भूला * जापर होइ सो नट अनुकूल

क्रोध, काम, लोभ, अहङ्कार और माया—ये सब श्रीरामजी की कृपा से छूट जाते हैं जिस पर वह नटराज प्रसन्न हो जाते हैं—वह मनुष्य इन्द्रजाल में नहीं फँसता।

उमा कहउँ मैं अनुभव अपना * सतहरिभजनु जगत सब सपन
पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा * पम्पा नाम सुभग गम्भीर

हे पार्वती ! मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि भगवान का भजन सच्चा है, और स जगत तो स्वप्नवत् है। तदनन्तर श्रीरामजी सुन्दर, गहरे पम्पा-सरोवर के किनारे गये।

सन्त हृदय जस निर्मल वारी * बाँधे घाट मनोहर चारी
तहँ तहँ पिअहि विविध मृग नीरा * जनु उदार गृह जाचक भीरा

जल सन्तों के हृदय जैसा निर्मल है, मनोहर सुन्दर चार घाट हैं। जहाँ-तहाँ मृग जन पी रहे हैं, मानो दाता के घर मङ्गलों की भीड़ लगी हो।

दोहा—पुरइन सधन ओट बल, वेगि न पाइअ मर्म।

माया छिन्न न देखिए, जैसे निर्गुन ब्रह्म ॥४१॥

धनी पुरइनों की ओट में जल का पता जल्दी नहीं लगता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुन-ब्रह्म नहीं देखता।

सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माहि।

यथा धर्मसीलन्ह के, दिन सुख संजुत जाहि ॥४२॥

उसके बहुत गहरे जल में सब मछलियाँ सदैव एक-सी रहती हैं, जैसे धर्मसेन मनुष्य के दिन सुख-पूर्वक बीतते हैं।

विकसे सरसिज नाना रङ्गा * मधुर मुखर गुञ्जन बहु भृङ्गा
बोलत जलकुक्कुट कल हंसा * प्रभु विलोकि जनु करत प्रसंसा

बहुरंगे कमल खिल रहे हैं, मधुर स्वर से भरी गुंजार रहे हैं। जन-सुर्गे और हंस ऐसे बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी यड़ाई करते हैं।

चक्रवाक वक खग समुदाई * देखत वनइ वरति नहि जाई

सुन्दर खग गन गिरा सुहाई * जात पथिक

चक्रवाक व वगुलों के समूह देखते ही वनते हैं, वर्णन नहीं सिद्धे

जिनके स्वभाव से ही ऐसे विचार नहीं हैं, वे मूर्ख हठ करके, मित्रता क्यों करते हैं ? अपने मित्र को कुमार्ग से बचाकर सुमार्ग पर लावे और उसकी बुराइयों को छिपाकर गुणों को प्रगट करे ।
देत लेत मन शंक न धरई * बल अनुसार सदा हित करई
विपत्ति काल कर सतगुन नेहा * श्रुति कह सन्त मित्र गुन ऐहा

देने-लेने में कभी शंका न करे और अपने बल के अनुसार सदा भलाई करता रहे ।
 विपत्ति के समय सौ-गुना प्रेम करे—वेद कहते हैं कि सज्जन मित्र के यही गुण हैं ।

आगे कह मृदु बचन बनाई * पाछै अनहित मन कुटिलाई
जाकर चित अहिगति सम भाई * अस कुमित्र परिहरेहि भलाई

और जो सामने तो मीठे र वचन कहे, पीछे बुराई करे और मन में कुटिलता रखे—हेभाई !
 जका चित्त सांप की चाल के समान टेड़ा है, ऐसे बुरे मित्र को छोड़ने में ही भलाई है ।

सेवक सठ नृप कृपन कुनारी * कपटी मित्र सूल सम चारी
सखा सोच त्यागहु बल मोरे * सब विधि करव काजु मैं तोरे

मूर्ख सेवक, कंजूस राजा कुटिल स्त्री तथा कपटी मित्र—ये चारों शूल के समान हैं ! हे सखा ! तुम मेरे बल से सब छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम करूँगा ।

कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा * बालि महाबल अति रणधीरा
दुन्दुभि अस्थि ताल देवराए * बिनृ प्रयास रघुनाथ ढहाए

सुग्रीव बोला—हे नाथ ! बालि बड़ा ही बलवान और रणधीर है । फिर सुग्रीव ने दुन्दुभि-राक्षस की हड्डी एवं ताल के वृक्ष दिखाये, तो श्रीरघुनाथजी ने सहज ही में उन्हें गिरा दिया ।

देखि अमित बल बाढी प्रीती * बालि बधव इन्ह भइ परतीती
बार बार नावइ पद सीसा * प्रभुहि जान मन हरष कपीसा

ऐसे अपार बल को देखकर सुग्रीव की प्रीति बड़ गई और 'यह बालि को मारेंगे' ऐसा निश्चय हो गया । वे बारंवार चरणों में सिर नवाने लगे और प्रभु को पहचानकर मनमें बहुत प्रसन्न हुए ।

उपजा ग्यान वचन सब बोला * नाथ कृपाँ मन भयउ अडोला
सुख सम्पति परिवार बड़ाई * सब परिहरि करिहुँ सेवकाई

जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तो वे यह वचन बोले—हे नाथ ! अब आपकी कृपा से मेरा मन स्थिर हो गया । मैं सुख, धन, कुदुम्ब तथा बड़ाई सबको छोड़कर आपकी सेवा करूँगा ।

ए सब राम भगति के बाधक * करहि सन्त तव पद अवराधक
शत्रु मित्र सुख दुख जग माहीं * माया कृत परमारथ नाही

क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वाले सन्त कहते हैं कि यह सब राम-भक्ति के विरोधी हैं । जगत में शत्रु-मित्र, सुख-दुःख सब माया रचित हैं, यह वास्तव में नहीं है ।

बालि परमहित जासु प्रसादा * मिलेउ राम तुम्ह समन विषादा

गावत रामचरित मृदु वानी * प्रेम सहित बहु भाँति बखानी
करत दण्डवत लिए उठाई * राखे बहुत भाँति उर लाई
स्वागत पूछि निकट बैठारे * लछिमन सादर चरन पखारे

वे श्रीरामजी के चरित्रों को प्रेम के साथ मधुर वाणी में बहुत भाँति से बयान कर
गाते हुए आ रहे थे। दण्डवत करते ही श्रीरामजी ने उन्हें उठा लिया और बहुत देर तक
छाती से लगाये रक्खा। फिर कुशल-आगमन पूछकर पास बैठा लिया और लक्ष्मणजी ने
आदर सहित चरण धोये।

दोहा—नाना विधि विनती करि, प्रभु प्रसन्न जियँ जानि।

नारद बोले वचन तब, जोरि सरोरुह पानि ॥ ४४ ॥

फिर नाना प्रकार से प्रार्थना करके प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर कमल के समान
हाथों को जोड़कर नारदजी यह वचन बोले—

सुनहु उदार सहज रघुनायक * सुन्दर अगम सुगम वरदायक
देहु एक वर माँगउँ स्वामी * जद्यपि जानत अन्तरजामी

हे परम उदार श्रीरघुनायकजी ! सुनिये—आप सुन्दर, अगम और सुगम वर देने वाले हैं।
हे स्वामी ! यद्यपि आप अन्तर्यामी हैं और सब जानते हैं, तो भी मैं एक वर आपसे माँगता
हूँ, वह आप दीजिये।

जानहु मुनि तुम्ह भोर सुभाऊ * जन सन कबहुँ कि करउँ दुराऊ
कवन वस्तु अस प्रिय मोहिलागी * जो मुनिवर न सकहु तुम्ह माँगो

श्रीरामजी बोले—हे मुनि! तुम मेरे स्वभाव को जानते हो, क्या मैं अपने भक्तों से कमी छिपाव
रखता हूँ। हे मुनिवर ! मुझे ऐसी प्यारी कौन-सी वस्तु है, जिसे तुम नहीं माँग सकते ?

जन कहूँ कछु अदेय नहिं मोरें * अस विश्वास तजहुँ जनि भोरें
तब नारद बोले हरषाई * अस वर माँगउँ करउँ ढिठाई

भक्तों को अदेय मेरे पास कुछ भी नहीं है—ऐसा विश्वास भूलकर भी न त्यागना। पर
नारदजी प्रसन्न होकर बोले—मैं ढिठाई करता हूँ, जो ऐसा वर माँगता हूँ।

जद्यपि प्रभु के नाम अनेका * श्रुति कह अधिक एक तें ऐका

राम सकल नामन्ह ते अधिका * होउ नाथ अघ खगगन बधिकी

यद्यपि आपके नाम अनेक हैं और वेद कहते हैं कि एक से एक बढ़कर हैं। तो मैंने 'राम'
'राम' नाम सब नामों से बढ़कर पापरूपी पक्षियों को बेघने के लिए बहलिया है।

दोहा—राका रजनी भगति तब, राम नाम सोइ सोइ।

अपर नाम उडुगन विमल, बसहु भगत उर

आपकी भक्तिरूपी पूर्णिमा की रात्रि में 'राम' नामरूप

वह घूँसा सुग्रीव के वज्र समान लगा और व्याकुल हो भाग गया। फिर प्रभु के पास जाकर बोला-हे कृपालु श्रीरघुनाथजी ! मैंने जो कहा था कि यह मेरा भाई नहीं, वरन काल है। एक रूप तुम्हें भ्राता दोऊ * तेहि भ्रम में नहिं मारेउँ सोऊ कर परसा सुग्रीव सरीरा * तनु भा कुलिस गई सब पीरा

तब श्रीरामजी बोले-तुम दोनों भाई एक ही रूप के हो, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा वज्र के तुल्य पुष्ट हो गया।

श्लेणी कण्ठ सुमन कै माला * पठवा पुनि बल देइ बिसाला पुनि नाना विधि भइ लराई * बिटप ओट देखहिं रघुराई

फिर सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाली और अधिक बल देखकर भेजा। तब दोनों में अनेक प्रकार से युद्ध हुआ और श्रीरघुनाथजी वृक्ष की आड़ से देखते रहे।

दोहा-बहु छल बल सुग्रीव कर, हियँ हारा भय मानि।

मारा बालि राम तब, हृदयँ माँझ सर तानि ॥ ८ ॥

सुग्रीव ने बहुत से छल-बल किये, परन्तु वह भय मानकर निराश होगया। तब श्रीराम चन्द्रजी ने बालि के हृदय में खींचकर बाण मारा।

परा विकल महि सर के लागें * पुनि उठि बैठ देख प्रभु आगें श्याम गात सिर जटा बनाए * अरुन नयन सर चाप चढ़ाए

बाण लगते ही बालि पृथ्वी पर गिर पड़ा, परन्तु प्रभु को आगे देखकर फिर उठ बैठा। उनका श्याम शरीर है, सिर पर जटाजूट हैं, नेत्र लाल हैं और धनुष-बाण चढ़ाये हुये हैं।

पुनिपुनि चितह चरनचितदीन्हा * सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा हृदयँ प्रीति मुख वचन कठोरा * बोला चितइ राम की ओरा

बालि ने बारम्बार प्रभु को देख चरणों में चित्त लगाकर प्रभु को पहचान अपने जन्म को सफल माना। उनके हृदय में प्रीति थी, परन्तु मुख में कठोर वचन थे। वह प्रभु की ओर देखकर ऐसे बोला-

धर्म हेतु अवतरेहु गोसाईं * मारेहु मोहि व्याध की नाई मैं बैरी सुग्रीव पियारा * अवगुन कवन नाथ मोहि मारा

हे नाथ ! आपने तो धर्म की रक्षा के लिये अवतार लिया है, फिर मुझे व्याध की तरह क्यों मारा है ? मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा है, आपने मुझे किस दोष से मारा ?

अनुजवधू भगिनो सुतनारी * सुनु सठ कन्या सम ए चारी इन्हहिं कुदृष्टि विलोकइ जोई * ताहि बधेँ कछु पाप न होई

श्रीरामजी बोले-रे मूर्ख ! सुन, छोटे भाई की स्त्रीवहिन, पुत्र-वधु और कन्या-ये चारों समान हैं। इन्हें जो कोई दुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कोई पाप नहीं होता।

हे मुनि ! सुनो-पुराण, वेद व सन्तजन कहते हैं कि मोहहृषी घन के लिए स्त्री वसन्त-श्रुत है। वह स्त्री-जप, तप, नियमरूपी जलाशयों को प्रोष-श्रुत होकर सयंया सुषा देती है।

काम क्रोध मद मत्सर भेका * इन्हि हरपप्रद वरपा ऐका
दुर्वासना कुमुद समुदाई * तिन्ह कहँ सरद सदा सुखदाई

काम, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्यारूपी मंडकों को स्त्री-वर्षा श्रुत के समान आनन्द देने वाली है। छोटी इच्छायें-मानो कुमुदनिनों के समूह हैं; उनको स्त्री-सदा सुषा देने वाली शरद श्रुत के समान है।

धर्म सकल सरसीरुह वृन्दा * होइ हिम तिन्हिदहइ सुखमन्दा
पुनि ममता जवास बहुताई * पलुहई नारि सिसिर श्रुत पाई

सब धर्म कमलों के समूह हैं, उनको स्त्री-हेमन्त-श्रुत होकर सुषा देती है। फिर ममता रूपी जवासा-स्त्री-रूपी शिशिर-श्रुत को पाकर हरा-भरा हो जाता है।

पाप उलूक निकर सुखकारी * नारि निव्रिड रजनी अधियारी
बुधि बल सील सत्य सब मीना * वंसी सम त्रिय कर्हाहि प्रवीना

पापरूपी उल्लुओं के समूह को सुख देने के लिए स्त्री महा-अंधेरी रात्रि के समान है। बुद्धि-बल, शील व सत्य-ये सब मछली हैं, उनके लिए स्त्री-वंशी के समान है, ऐसा घनुर लोग कहते हैं।

दोहा-अवगुन मूल सूलप्रद, प्रमदा सब दुख खानि।

ताते कीन्ह निवारन, मुनि मैं यह जियँ जानि ॥ ४८ ॥

दोषों की जड़, दुःख देने वाली स्त्री-सय दुःखों की पान है। हे मुनि ! मन में यह जानकर ही विवाह करने से मैंने आपको रोका था।

सुनि रघुपति के वचन सुहाए * मुनि तनु पुलकि नयन भरि आए
कहहु कवनु प्रभु कै अस रीती * सेवक पर ममता अरु प्रीती

श्रीरघुनायजी के सुहावने वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र भर आये। कहो, ऐसी रीति कौन से स्वामी की है, जो अपने सेवक पर इतनी ममता और प्रीति रखे?

जे न भजहि अस प्रभु भ्रमत्यागी * ग्यान रंक नर मन्द अभागी
पुनि सादर बोले मुनि नारद * सुनहु राम विग्यान विसारद

जो भ्रम छोड़कर ऐसे प्रभु का भजन नहीं करते, वे मनुष्य ज्ञान के दरिद्र महामूर्ख और माग्यहोन हैं। फिर नारदजी आदर सहित बोले-हे ज्ञान से परिपूर्ण श्रीरामचन्द्रजो ! मुनिये-

सन्तन्ह के लच्छन रघुवोरा * कहहु नाथ भव भञ्जन भीरा
सुनु मुनि सन्तन्ह के गुन कहऊँ * जिन्ह ते मैं उन्हे के वसु रहऊँ

हे रघुनायजी ! हे संसार के दुःखों का नाश करने वाले ! हे नाथ ! कृपा करके अब सन्तों के लक्षण कहिये। (श्रीरामजी ने कहा-) हे मुनि ! सुनो, मैं सन्तों के लक्षण कहता हूँ, जिनसे मैं उनके वश में रहता हूँ।

गहि बाँह सुर नरनाह आपनु दास अद्भुद कीजिए ॥

हे नाथ ! तब मेरी ओर दया-दृष्टि से देखिये और जो वरदान में माँगूँ, सो दीजिये । मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म पाऊँ, वहाँ आपके चरणों में प्रीति करूँ । हे कल्याणकारी ! यह मेरा पुत्र-अंगद जो कि विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे शरण में लीजिये और हे देवताओं तथा मुनियों के स्वामी ! वहाँ पकड़ कर इसे अपना, दास बनाइये ।

दोहा-रामचरन दृढ़ प्रीति करि, बालि कीन्ह तनु त्याग ।

सुमन साल जिमि कण्ठ ते, गिरत न जानइ नाग ॥ १० ॥

श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में अटल प्रीति करके बालि ने वैसे ही शरीर त्याग दिया जैसे हाथी गले से फूलों की माला को गिरते हुए नहीं जान पाता ।

राम बालि निज धाम पठावा * नगर लोग सब व्याकुल धावा
नाना विधि विलाप करि तारा * छूटे केस न देह सँभारा

श्रीरामजी ने बालि को अपने धाम भेजा, तब नगर के सब लोग दुःखी होकर दौड़े और बालि की स्त्री (तारा) नाना प्रकार से विलाप करने लगी । उसके बाल बिखरे हुए हैं और उसे शरीर की सुधि नहीं है ।

तारा विकल देखि रघुराया * दीन्ह ग्यान हरि लीन्ही माया
छित जल पावक गगन समीरा * पंच रचित अति अधम शरीरा

तारा को व्याकुल देखकर श्रीरघुनाथजी ने उसे ज्ञान दिया और माया हर ली । पृथ्वी, जल, अग्नि-आकाश, वायु-इन पाँच तत्वों से यह अधम शरीर बना है ।

प्रगट सो तनु तब आगे सोवा * जीव नित्य केहिलगि तुम्ह रोवा
उपजा ग्यान चरन तब लागी * लीन्हेसि परम भगति वर माँगी

वह शरीर तुम्हारे आगे सो रहा है और 'जीव' नित्य व अवनाशी है । फिर तुम किस के लिए रोती हो ? जब तारा के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब चरणों में लग गई और उसने परम भक्ति का वर माँग लिया ।

उमा दारु जोषित की नाई * सबहि नचावत राम गोसाई
तब सुग्रीवहि आयसु दीन्हा * मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा

(शिवजी बोले-) हे पार्वती ! श्रीरामजी सारे संसार को कटपुतली की तरह नचाते हैं । तब श्रीरामजी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और उसने विधिपूर्वक बालि का मृतक-कर्म किया ।

राम कहा अनुजहि समुझाई * राजु देहु सुग्रीवहिजाई
रघुपति चरन नाइ कर साथी * चले सकल प्रेरित रघुनाथा

श्रीरामजी ने लक्ष्मणजी को समझाकर कहा कि सुग्रीव को जाकर राज्य दे दो । तब श्रीरघुनाथजी की आज्ञा पाकर सब उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले ।

दोहा-लछिमन तुरत बुलाए, पुरजन विप्र समाज ।

सिर नाइ बारहिं बार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गए ।
ते धन्य तुलसीदास आस बिहाइ हरिरंग रंग गए ॥

‘सरस्वतीजी व शेषजी भी नहीं कह सकते’ यह सुनते ही नारदजी ने श्रीरामजी के चरण कमल पकड़ लिये । दीनबन्धु कृपालु प्रभु ने अपने भक्तों के गुण अपने ही मुख से वर्णन किये । नारदजी चारम्बर प्रभु के चरणों में प्रणामकर ब्रह्मलोक को चले गये । तुलसीदासजी कहते हैं कि वे प्राणी धन्य हैं, जो सब आशा छोड़कर श्रीहरि के रंग में रंग गये हैं ।

दोहा—रावतारि जसु पावन, गावहिं सुनहिं जे लोग ।

राम भगति वृद्ध पावहिं, विनु विराग जप जोग ॥ ५० ॥

रावण के शत्रु ‘श्रीरामचन्द्रजी’ के पवित्र यश को जो लोग गावेंगे और सुनेंगे—वे बिना वंशग्य, जप तथा योग के निश्चय ही राम-भक्ति पावेंगे ।

दीप सिखासम जुवति तनु, मन जनि होसि पतङ्ग ।

भजहिं राम तजि काम मद, करहिं सदा सत्सङ्ग ॥ ५१ ॥

रे मन ! स्त्रियों का शरीर ‘दीपक की लौ’ के समान है, उसमें तू ‘पतङ्ग’ मत बन काम, क्रोध और मद छोड़कर—श्रीरामजी का भजन कर और सदा सत्सङ्ग कर ।

❀ मास परायण—बाईसवां विश्राम ❀

॥ इति श्रीमद्वरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसे तृतीय सोपान समाप्तः ॥
कल्पियुग के सम्पूर्ण पापों को नष्ट करने वाले श्रीरामचरितमानस का ।
यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ ॥



—:* इति अरण्य काण्ड समाप्तः *—

देखि मनोरथ सैल अनूपा * रहे तहँ अनुज सहित सुर भूपा
मङ्गल रूप भयउ वन तब ते * कीन्ह निवास रमापति जब ते

मनोहर पर्वत देखकर लक्ष्मणजी सहित देवताओं के राजा श्रीरामजी वहाँ रहने लगे।
जब से श्रीरामजी ने वहाँ निवास किया—तब से वह वन संगलदायक हो गया।

मधुकर खग मृग तनु धरि सेवा * करहि सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा
फटकि सिला अति सुभ्र सुहाई * सुख आसीन तहाँ दोउ भाई

देवता, सिद्ध, मुनि आदिक—भौरा, पक्षी अथवा पशुओं का रूप धारण करके प्रभु की
सेवा करने लगे। स्फटिक मणि को एक चट्टान बड़ी ही शोभायमान है, उसपर दोनों भाई
सुखपूर्वक विराज रहे हैं।

कहत अनुज सन कथा अनेका * भगति विरति नृपनीति विवेका
वरषा काल मेघ नभ छाए * गरजत लागत परम सुहाए

लक्ष्मणजी से—श्रीरामजी अनेक प्रकार की भक्ति, वैराग्य, ज्ञान तथा नीति की कथाएँ
कहते हैं। वर्षाऋतु में आकाश में छाये हुए बादल गरजते हुए बड़े ही सुहावने लगते हैं।

दोहा—लछिमन देखु भोर गन, नाचत बारिद पेखि।

गृही विरत रत हरष जस, विष्णु भगत कहुं देखि ॥१३॥

(श्रीरामजी बोले—) हे लक्ष्मण ! देखो, भौरों के झुण्ड बादलों को देखकर नाच रहे हैं।
जैसे गृहस्थी किसी हरि-भक्त को देख, वैराग्य में लीन होकर प्रसन्न होते हैं।

घन घमण्ड नभ गरजत घोरा * प्रियाहीन डरपत मन मोरा
दासिनि दमक रह न घन माहीं * खल कै प्रीति जथा थिर नाही

आकाश में मेघ घुमड़-घुमड़ कर गरज रहे हैं, सीताजी के बिना मेरा मन डर रहा है।
विजली की चमक बादलों में ऐसे नहीं रहती—जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती।

वरषहि जलद भूमि निअराए * जथा नवहि बुध विद्या पाए
बूँद अघात सहहि गिरि कैसे * खल के वचन सन्त सह जैसे

बादल पृथ्वी के निकट आकर बरसते हैं, जैसे विद्वान लोग विद्या पाकर नम्र होजाते हैं।
बूँदों की चोट पहाड़ किस प्रकार सहते हैं,

छुद्र नदी भरि चलीं तोराई * जस थोरेहि धन खल बौराई
भूमि परत भा ढावर पानी * जनु जीबहि माया लपटानी

छोटी नदियाँ वर्षा का जल भरने से उमड़कर किनारे तोड़ती हुई चलीं, जैसे दुष्ट थोड़े
से धन को पाकर इतराने लगते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी मैला हो जाता है, जिस प्रकार
जीव माया में लिपट कर मलिन हो जाता है।

समिटिसमिटि जल भरहि तलाबा * जिमिसद्गुन सज्जनपहि आवा
सरिता जल जलनिधि महुं जाई * होइ अचल जिमि जिव हरिपाई

पानी इकट्ठा होकर तालाबों में भर जाता है, जैसे सद्गुण सज्जनों के पास स्वयं ही

मोक्ष की भूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उस काशीपुरी का सेवन क्यों न किया जाय—जहाँ श्रीशिव-पार्वतीजी बसते हैं ?

जरत सकल सुरवृन्द, विषम गरल जेहि पान किय ।

तेहि न भजसि मन मन्द, को कृपालु शंकर सरिस ॥ २ ॥

सम्पूर्ण देवगण जिस हलाहल विष से जल रहे थे उसको जिन्होंने पान कर लिया ।

रे मुख मन ! तू उन्हें क्यों नहीं भजता ? शंकरजी के समान दयालु और कौन है ?

आगे चले बहुरि रघुराया ✽ ऋष्यमूक पर्वत नियराया

तहँ रह सचिव सहित सुग्रीवा ✽ आवत देखि अतुल बल सीवा

फिर श्रीरघुनाथजी आगे चले, तो ऋष्यमूक-पर्वत निकट आ गया । जहाँ मंत्रियों सहित सुग्रीवजी रहते थे । अतुल-बल की सीमा—श्रीराम-त्वदमणजी को आते देखकर—

अति सभौत कह सुनु हनुमाना ✽ पुरुस जुगल बल रूप निधाना

धरि बहु रूप देख तहँ जाई ✽ कहेसु जानि जियँ सयन बुझाई

अत्यन्त भयभीत होकर सुग्रीव ने कहा—हे हनुमान ! सुनो, ये दोनों सुन्दर पुरुष-बल और रूप के निधान हैं । तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो और उनके हृदय की बात जानकर संकेत से कह देना ।

पठए बालि होहि मन मैला ✽ भागौं तुरत तजौं यह सैला

विप्र रूप धरि कपि तहँ गयऊ ✽ माथ नाथ पूछत अस भयऊ

जो इन्हें मलिन-मन बालि ने भेजा हो, तो मैं तुरन्त इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊँ । ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमानजी वहाँ गये और प्रणाम करके इस प्रकार पूछने लगे—

को तुम्ह श्यामल गौर सरीरा ✽ क्षत्रिय रूप फिरहु वन वीरा

कठिन भूमि कोमल पद गामी ✽ कवन हेतु विचरहु वन स्वामी

हे वीर ! साँवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं, जो क्षत्रिय-रूप से वन में प्रपते हैं ! हे स्वामी ! इस कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप दोनों किस कारण से वन में विचरण कर रहे हैं ?

मृदुल मनोहर सुन्दर गाता ✽ सहत दुसह वन आपत वाता

की तुम्ह तीन देव महँ कोऊ ✽ की नर नारायन तुम्ह दोऊ

कोमल, मनोहर व सुन्दर आपके अंग है, वन में कड़ो घुप व वायु को सह रहे हैं । क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश—इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, अथवा आप दोनों 'नर-नारायण' हैं ?

दोहा—जन कारन तारन भव, भञ्जन धरनी भार ।

की तुम्ह अखिल भुवनपति लीन्ह मनुज अवतार ॥ १ ॥

जिमि कपूत के उपजें, कुल सद्वर्म नसाहिं ॥१५॥

कभी तेज पवन चलती है, जिससे मेघ जहां-तहां गायब होजाते हैं। जैसे कुपुत्र उत्पन्न होने से कुल के श्रेष्ठ धर्माचरण नष्ट होजाते हैं।

कबहुं दिवस महँ निबिड़ तम, कबहुंक प्रगट पतंग।

विनसइ उपजत ग्यान जिमि, पाइ कुसंग सुसंग ॥१६॥

कभी बादलों से दिन में अँवरा होजाता है, तो कभी सूर्य निकल आता है। जिस प्रकार बुरी सङ्गति को पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंगति को पाकर प्रगट हो जाता है।

वरषा विगत सरद रितु आई * लछिमन देखहु परम सुहाई
फूले कास सकल महि छाई * जनु वरषां कृत प्रगट बुढाई

हे लक्ष्मण ! देखो, वर्षा ऋतु बीत गई और परम सुन्दर शरद-ऋतु आगई। फूली हुई कास सारी पृथ्वी पर छा गई है, मानो वर्षा ने अपना बुढ़ापा प्रगट किया है।

उदित अगस्ति पन्थ जल सोषा * जिमि लोभइ सोषइ सन्तोषा
सरिता सर निर्मल जल सोहा * सन्त हृदय जस गत मह मोहा

अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया जैसे संतोष लोभ को दूर कर देता है। नदियों और तालाबों का जल ऐसे शोभित है, मानो माया से रहित संतों का हृदय हो।

रस रस सूख सरित सर पानी * समता त्यागि करहिं जिमि ज्ञानी
जानि सरद रितु खञ्जन आए * पाइ समय जिमि सुकृत सुहाए

जैसे ज्ञानी पुरुष समता को छोड़ देते हैं, वैसे ही नदियों व तालाबों का जल धीरे २ सूख रहा है शरद-रितु जानकर खञ्जन-पक्षी आ गये, जैसे समय पाकर सुकर्म आ जाते हैं।

न रेनु सोह अस धरनी * नीति निपुन नृप कै जसि करनी
संकोच विकल भइ सीना * अबुध कुटुम्बी जिमि धन हीना

बिना धूल व कीचड़ के पृथ्वी ऐसी शोभित है, जैसे नीति निपुण राजा की करनी। कहीं-कहीं के कम होने से मछलियां दुःखी हैं, जैसे मूर्ख कुटुम्बी धन-हीन होने से दुःखी होते हैं।

बिनु धन निर्मल सोह अकासा * हरिजन इव परिहरि सब आसा
कहुं कहुं बृष्टि सारदी थोरी * कोउएक पाव भगति जिमि सोरी

बिना धन के आकाश ऐसा शोभित है—जैसे भक्त सब आशाओं को छोड़कर मुशोभित होता है। कहीं-कहीं शरद-रितु में थोड़ी-थोड़ी वर्षा हो जाती है—जैसे कोई विरले ही मेरी भवती पाते हैं।

दोहा—चले हरषि तजि नगर नृप, तापस बनिक भिखारि।

जिमि हरि भगति पाइ श्रम, तजहिं आश्रमी चारि ॥१७॥

राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी प्रसन्न होकर, नगर छोड़कर ऐसे चल दिये, जैसे हरि-भक्ति पाकर चारों आश्रमी साधन-रूपी श्रम, छोड़ देते हैं।

हे धीरधुनायजी ! तिस पर भी मैं आपकी सौगन्ध छाकर कहता हूँ कि भजन का उपाय कुछ नहीं जानता हूँ । सेवक-स्वामी के ओर पुत्र-माता के भरोसे बेचटक रहता । स्वामी को पालते ही बनता है ।

अस कहि परेउ चरन अकुलाई * निज तनु प्रगट प्रीति उर छाई
तव रघुपति उठाइ उर लावा * निजलोचन जल सौंचि जुड़ावा

ऐसे कहकर और अकुला कर अपना अस्तजी रूप प्रगट करके भगवान् के चरणों में गिर पड़े और हृदय प्रेम से भर गया । तब प्रभु ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और नेत्रों के जल से सौंच कर शीतल किया ।

सुनु कपि जियँ मानसि जनि ऊना * तें मम प्रिय लछिमन ते दूना
समदरसी मोहि कह सब कोऊ * सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ

हे कवि ! सुनो, मन में कुछ ग्लानि न जाना, तुम मुझे लक्ष्मण से अधिक प्रिय हो । मुझे सब कोई समदर्शी कहते हैं, परंतु सेवक मुझे बहुत प्रिय लगता है, क्योंकि यह अनन्य-गति होता है ।

दोहा-सो अनन्य जाके असि, मति न टरइ हनुमन्त ।

मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवन्त ॥ ३ ॥

हे हनुमान ! अनन्य यह है—जिसकी बुद्धि से यह विचार न टले कि 'मैं सेवक हूँ और यह घराचर जगत मेरे स्वामी भगवान् का रूप है ।

देखि पवनसुत पति अनुकूला * हृदयँ हरष वीतो सब सूला
नाथ सैल पर कपिपति रहई * सो सुग्रीव दास तव अहई

पवन-सुत हनुमानजी ने स्वामी को अनुकूल देखा, तो हृदय में बड़े प्रसन्न हुए और सब दुःख दूर हो गया । वे बोले—हे नाथ ! इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, यह आपका दास है ।

तेहि सन नाथ मयत्री कीजै * दीन जानि तेहि अभय करीजै

सो सीता करि खोज कराइहि * जहँ तहँ मरकट कोटि पठाइहि

हे नाथ ! उससे आप मित्रता कीजिये और दुःखी जानकर उसे निर्भय कीजिये । यह करोंड़ों धानरों को जहाँ-तहाँ भेजकर सीताजी का पता लगवा देगा ।

एहि विधि सकल कथा समुझाई * लिए दौड जन पीठि चढ़ाई

जब सुग्रीव राम कहँ देखा * अतिसय जन्म घन्य करि लेखा

इस प्रकार सब बात समझाकर दोनों भाइयों को कन्ये पर चढ़ा लिया । जब सुग्रीव ने धीरामजी को देखा तो अपने जन्म को बहुत ही घन्य समझा ।

सादर मिलेउ नाइ पद माया * भेटेउ अनुज सहित रघुनाथा

कपि कर मन निचार एहि रीती * करिहँहि विधि मो सन ए प्रीती

चरणों में गिर नवाकर आदर सहित सुग्रीव मिले, लक्ष्मण सहित धीरधुनायजी भी सुग्रीव से मिले । सुग्रीव के मन में ऐसा विचार उठा कि हे विधाता ! क्या यह मुझसे प्रीति करो

पार्वती ! जिसकी कृपा से अहंकार व मोह छूट जाते हैं, क्या उसे स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है ?
जानहि यह चरित्र मुनि ग्यानी * जिन्ह रघुवीर चरन रति माना
लछिमन क्रोधवन्त प्रभु जाना * धनुष चढ़ाइ गहे कर वाना

यह चरित्र जानी मुनि ही जानते हैं, जिन्होंने श्रीरामजी के चरणों में प्रीति करली है। तब लक्ष्मणजी ने श्रीरामजी को क्रोधित जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में लिया।
दोहा—तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करना सोव।

भय देखाइ लै आवहु, तात सखा सुग्रीव ॥१६॥

तब करुणा की सीमा श्रीरघुनाथजी ने लक्ष्मणजी को समझाया कि भाई ! मित्र सुग्रीव को केवल भय दिखवा कर यहाँ ले आओ।

इहाँ पवनसुत हृदयँ विचारा * राम काजु सुग्रीवँ विसारा
निकट जाइ चरनन्हि सिर नावा * चारिहुविधि तेहि कहि समुझावा

यहाँ (किष्किन्धा में) हनुमानजी ने मन में विचार किया कि सुग्रीव—श्रीरामजी के कार्य को मूल गये। तब सुग्रीव के पास जाकर चरणों में शीश नवाया और चारों प्रकार (साम, दाम, दण्ड, भेद) से समझाया।

सुनि सुग्रीवँ परम भय माना * विषयँ मोर हरि लीन्हेउ ग्याना
अब भारतसुत दूत समूहा * पठवहु जहँ तहँ वानर जूहा

यह सुनकर सुग्रीव बहुत डरे और कहने लगे कि विषयों ने मेरा ज्ञान हर लिया। हे हनुमान ! अब जहाँ वानरों के जूय रहते हैं, वहाँ दूतों के समूह भेजो।

कहहु पाख महँ आव न जोई * मोरे कर ताकर बध होई
हनुमन्त बोलाए दूता * सब कर करि सनमान बहूता

और कह देना कि जो पन्द्रह दिन के भीतर न आवेगा—वह मेरे हाथ से मारा जावेगा। तब हनुमानजी ने दूतों को बुलाया और बड़ा आदर दिया।

भय अरु प्रीति नीति देखराई * चले सकल चरनन्हि सिर नाई
एहि अवसर लछिमन पुर आए * क्रोध देखि जहँ तहँ कपि धाए

फिर उनको भय, प्रीति व राजनीति दिखाई, सब दूत चरणों में सिर नवाकर चले। उसी समय लक्ष्मणजी नगर में आये, उन्हें क्रोधित देख कपिगण इधर-उधर भागने लगे !

दोहा—धनुष चढ़ाइ कहा तब, जारि करउँ पुर छार।

व्याकुल नगर देखि तब, आयउ बालिकुमार ॥२०॥

तब लक्ष्मणजी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी भस्म कर दूंगा। तब पुरवासियों को व्याकुल देखकर बालि-पुत्र अंगद आये।

चरन नाइ सिर विनती कीन्ही * लछिमन अभय बाँह तेहि दीन्ही
क्रोधवन्त लछिमन सुनि काना * कह कपीस अति भय अकुलाना

गिरिवर गुहां पैठि सो जाई ✽ तव वाली मोहि कहा बुझाई
परिखेसु मोहि एक पखवारा ✽ नहि आवौं तव जानेसु मारा

वह दंत्य एक पहाड़ की ढोह में घुस गया, तब बालिने मुझसे समझाकर कहा-तुम यहाँ पंद्रहदिन मेरी राह देखना । यदि इतने दिन बाद भी मैं न आऊँ, तो समझ लेना कि बालि मारा गया ।

मास दिवस तहूँ हरेऊँ खरारी ✽ निसरी रधिर धार तहूँ भारी
वाली हतेसि मोहि मारिहि आई ✽ सिला देइ तहूँ चलेऊँ पराई

हे खरारि ! मैं एक महीने तक वहाँ रहा, तब उस गुफा से बड़ो भारी रधिर की धारा निकली । (मैंने समझा कि) बालि को उसने मार डाला, अब आकर मुझे भी मारेगा । तब एक सिला गुफा के द्वार पर लगाकर मैं चला आया ।

मन्त्रिन्ह पुर देखा विनु साई ✽ दीन्हेउ मोहि राजु वरिआई
वाली ताहि मारि गूह आवा ✽ देखि मोहि जियेँ भेद बढ़ावा

मन्त्रियों ने नगर को बिना राजा के देखकर मुझको जवदंस्ती राज्य दे दिया । बालि उसे मारकर घर लौटा तो उसने मुझे देखकर मन में भेद माना ।

रिपुसम मोहि मारेसि अति भारी ✽ हरि लोन्हेसि सर्वसु अरु नारी
ताकेँ भय रघुवीर कृपाला ✽ सकल भुवन में फिरेऊँ विहाला

उसने बंरी के समान मुझे बहुत मारा और मेरा सब धन तथा स्त्री को छीन लिया । हे कृपालु श्रीरघुनाथजी ! मैं उसके डर से सब लोकों में बड़ा व्याकुल होता फिरा ।

इहाँ शाप वस आवत नाहीं ✽ तदपि सभोत रहऊँ मन माहीं
सुनि सेवक दुखु दीनदयाला ✽ फरक उठौं दोउ भुजा विसाला

यहाँ शाप के कारण नहीं आता है, तो भो मैं मनमें डरता हुआ यहाँ रहता हूँ । अपने सेवक का ऐसा दुःख सुनकर दीनदयालु श्रीरामजी की दोनों भुजायें फड़क उठीं ।

दोहा-सुनु सुग्रीव मैं मारिहउँ, बालिहि एकहि वान ।

ब्रह्म रुद्र सरनागतहूँ, गएँ न उवरीहि प्राण ॥ ६ ॥

(वे बोले-) हे सुग्रीव ! सुनो, मैं बालि को एक ही वाण से मार डालूँगा । उसके प्राण ब्रह्मा और महादेवजी की शरण में जाने पर भी नहीं बचेंगे ।

जे न मित्र दुख होहि दुखारी ✽ तिन्हहि विलोकत पातक भारी
निज दुख गिरिसम रजकरि जाना ✽ मित्रकेँ दुख रज मेरु समाना

जो लोग मित्र के दुख से दुःखी नहीं होते, उनके देखने से भी बड़े भारी पाप होते हैं । अपने पहाड़ के समान दुःख को घूल के समान और मित्र के रज के समान दुःख को भी सुमेरु पर्वत के समान जानो ।

जिन्हकेँ असि मति सहज न आई ✽ ते सठ कत हठि करत मितआई
कूपथ निवारि सुपन्थ चलावा ✽ गुन प्रगटे अदगुनान्हि

और जिसने जो मन्त्रों कंद में अपना गला नहीं फँसाया, हे नाथ! वह पुरुष आपके समान गुण किन्ती साधन से प्राप्त नहीं होते, आपको क्या हो कोई ? मनुष्य ही इन्हें पाते हैं

तब रघुपति बोले सुसुकाई * तुम्हें प्रिय मोहि भरत जिमि अब सोइ जतनु करहु मन लाई * जेहि विधि सीता कै सुधि तब श्रीरघुनाथजी हँसकर बोले-हे सुग्रीव! तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब लगाकर वही प्रयत्न करो-जिससे सीतानाँ की खबर मिले।

बोहा-एहि विधि होत बतकहीं, आए बानर जूथ। नाना वरन सकल दिसि, देखिअ कौस बरुथ ॥२२ इस प्रकार बात-चीत हो रही थी कि बानरों के झुण्ड आ गये। नाना प्रकार के साने बानर सब दिशाओं में दौख पड़े।

बानर कटकु उसा में देखा * सो मुख जो कर वह लेख आइ राम पद नावाहि साथ * निरखि बदनु सब होहि सनाथा हे पार्वती। बानरों की वह होना मैं देखी थी। वह मर्दा है जो उनकी गिनती करना चाहे। सब बानर आकर श्रीरामजी के चरणों में माथा नवाते हैं और उनके दर्शन करके सनाथ होते हैं।

अस कपि एक न सेना भाहीं * राम कुशल जेहि पूछा नाहीं यह कछु नहि प्रभु कै अधिकारी * विश्व रूप व्यापक रघुराई ऐसा एक भी बन्दर होना मैं नहीं था-जिससे श्रीरामजी ने कुशल न पूछी हो। यह प्रभु के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि वे विश्वरूप और सब-व्यापक हैं।

ठाड़े जहँ तहँ आयसु पाई * कह सुग्रीव सबहि समुझाई राम काजु अरु सोर निहोरा * बानर जूथ जाहु चहुँ ओरा आज्ञा पाकर सब जहाँ-तहाँ खड़े हो गये। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे भाइयो! यह श्रीरामजी का कार्य है और मेरा अनुरोध है, इसलिए सब बानर-समूह चारों

जनकसुता कहुँ खोजहु जाई * भास दिवस महँ आएहु भाई अबधि मेदि जो विनु सुधि पाएँ * आवइ बनिहि सो मोहि भराएँ हैं भाइयो! जानकीजी को जाकर ढूँढ़ो, परन्तु एक माह में लौट जाना। जो कोई बिना खबर लिए समय बिता कर आवेगा, वह मुझे मरवाते ही बनेगा।

बोहा-बचन सुनत सब बानर, जहँ तहँ चले तुरन्त। तब सुग्रीव बोलाए, अंगद नल हनुमन्त ॥२३॥

ऐसे बचन सुनकर सब बानर जहाँ तहाँ उसी समय चल दिये। तब सुग्रीव ने अङ्गद और हनुमान आदि बानरों को बुलाया।

हनुमाना * जासुवन्त सतिधीर सुजाना

सपने जेहि सन होइ लराई * जागं समुझत मन सकुचाई
 बालि तो मेरा परम हित्तु है, जिसकी कृपा से दुःखों का नाश करने वाले आपके बरान
 हुये । जिससे स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर तमसने से मन में संकोच होगा !

अब प्रभु कृपा करेहु एहि भांती * सब तजि भजनु करौं दिनरातीं
 सुनि विराग संजुत कपि वानी * बोले विहँसि रामु धनु धानी
 हे नाथ ! अब आप ऐसी कृपा करिये, जिससे सब छोड़कर मैं दिन-रात आपका भजन
 करूँ । सुग्रीव की वराम्यपूर्ण बातें सुनकर धनुषधारी श्रीराम चन्द्रजी हँसकर बोले—

जो कछु कहेहु सत्य सब सोई * सखा वचन मम मृपा न होई
 नट मरकट इव सबहि नचावत * रामु खगेस वेद अस गावत
 हे सखा ! तुम जो कहते हो—वह सब ठोकहं, परन्तु मेरा वचन कभी झूठा नहीं हो सकता।
 हे गरुड़जी ! वेद ऐसा कहते हैं कि श्रीरामजी नट के बन्दर की तरह सबको नचाते हैं ।

लै सुग्रीव सङ्ग रघुनाथा * चले चाप सायक गहि हाथा
 तब रघुपति सुग्रीव पठावा * बजेंसि जाइ निकट बल पावा
 सुग्रीव को साथ ले और धनुष-बाण धारण कर श्रीरामजी चल दिये । फिर सुग्रीव को
 भेजा, तब वह बल पाकर बालि के निकट आकर गरजा ।

सुनत बालि क्रोधातुर धावा * गहि कर चरन नारि समुझावा
 सुनुपति जिन्हहि मिलेउ सुग्रीवा * तेज द्वौ बन्धु तेज बल सोवा
 सुनते ही बालि क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा, तब उसकी स्त्रीतारा ने चरण पकड़ कर सम-
 ज्ञाया कि हे पति ! सुनो, जिन दोनों भाइयोंसे सुग्रीव मिले हैं, वे तेज और बल की सोमा हैं ।

कौसलेस सुत लछिमन रामा * कालहु जीति सकहि संग्रामा
 वे कौशलपति दशरथजी के पुत्र—राम व लक्ष्मण युद्ध में काल की भी जीत सकते हैं ।
 दोहा—कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदरसी रघुनाथ ।

जौं कदाचि मोहि मारिहहि, तौ पुनि होउं सनाथ ॥ ७ ॥

बालि ने कहा—हे भीरु-प्रिये ! सुनों, श्रीरघुनाथजी समदर्शी हैं, यदि वे मुझको मारेंगे—
 तो भी मैं सनाथ हो जाऊँगा ।

अस कहि चला महा अभिमानी * तृन समान सुग्रीवहि जानी
 भिरे उभौ बाली अति तर्जा * मुठिका मारि महाधुनि गर्जा
 ऐसा कहकर वह महा अभिमानी—सुग्रीव को तिनके के तुल्य जानकर चला और दोनों
 भिड़ गये । बालि बड़े जोर से गरजा और सुग्रीव के घूँसा मारा ।

तब सुग्रीव विकल होइ भागा * मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा
 मैं जो कहा रघुवीर कृपाला * बन्धु न होइ मोर यह क

कभी-कभी निशाचरों से भेंट हो जाती है, तो एक ही चपेटे में उनके प्राण ले लेते हैं। अच्छी तरह से सब जंगल, पहाड़ आदि ढूँढते हैं। कोई मुनि मिल जाता है, तो सब घेर लेते हैं।

लागि तृषा अतिसय अकुलाने * मिलइ न जल घन गहन भुलाने
मन हनुमान कीन्ह अनुमाना * मरन चाहत सब बिनु जलपाना

इतनेमें सबको प्यास लगी, जिससे सब बहुत व्याकुल होगये। जल नहीं मिला, घने जंगलमें मार्ग भूल गये, तब हनुमानजी ने अनुमान किया कि बिना जल के सब मरना चाहते हैं।

चढ़ि गिरि सिखर चहुँ दिसि देखा * भूमि बिबर एक कोतुक देखा
चक्रवाक बक हंस उड़ाही * बहुतक खग प्रविसहि तेहिमाही

हनुमानजी ने एक पहाड़ पर चढ़कर चारों तरफ देखा तो पृथ्वी की एक गुफा में बड़ा आश्चर्य दिखाई दिया। बहुत से चक्रवाक, बगुला और हंस उड़ रहे थे, बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे थे।

गिरि ते उतरि पवनसुत आवा * सब कहूँ लै सो बिबर देखावा
आगे करि हनुमन्तहि लीन्हा * पैठे बिबर विलम्ब न कीन्हा

हनुमानजी पहाड़ से उतर आये और सबको लेजाकर वह गुफा दिखाई। तब सबने हनुमानजी को आगे कर लिया और उस बिल में तनिक भी विलम्ब न करके घुस गये।

दोहा—दीख जाइ उपवन वर, सर विकसित बहु कुञ्ज।

मन्दिर एक रुचिर तहँ, बैठि नारि तप पुञ्ज ॥२५॥

वहाँ जाकर एक सुन्दर बाग और तालाब देखा, जिनमें बहुत से कमल खिल रहे हैं। एक सुन्दर मन्दिर है, जिसमें एक तपस्विनी स्त्री बैठी है।

दूरि ते ताहि सबन्हि सिरु नावा * पूछेँ निज वृत्तान्त सुनावा
तेहि तब कहा करहु जलपाना * खाहु सुरस सुन्दर फल नाना

दूर ही से उसे सबने शीश नवाया और पूछने पर अपना हाल कह सुनाया। तब उसने कहा—जलपान करो और सुन्दर रसीले अनेक फल खाओ।

मज्जनु कीन्ह मधुर फल खाए * तासु निकट पुनि सब चलिआए
तेहि सब आपनि कथा सुनाई * मैं अब जाव जहाँ रघुराई

तब सबने सरोवर में स्नान कर मोठे फल खाये और फिर सब उसके पास गये। उसस्त्री ने अपनी सारी कथा कह सुनाई और बोली—अब मैं वहाँ जाऊँगी—जहाँ श्री रघुनाथजी हैं।

मूँदहु नयन बिबर तजि जाहू * पैहहु सीतहि जनि पछिताहू
नयन मूँदि पुनि देखाहि बीरा * ठाढ़े सकल सिन्धु कै तीरा

तुम अपनी आँखें बन्द करलो, इस बिल से बाहर पहुँच जाओगे। तुम्हें सीताजी का पता मिलेगा, घबड़ाओ मत! नेत्र बन्द कर खोलने पर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के किनारे खड़े हैं।

सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा * जाइ कमल पद नाएसि माथा

मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना * नारि सिखावन करसि न काना
मम भुजबल आश्रित तेहि जानी * मारा चहसि अधम अभिमानो
रे मूर्ख ! तूने बड़ा नारों अभिमान था, तूने अपनी स्त्री की शिक्षा पर भी कुछ ध्यान नहीं दिया। अरे अभिमानो ! तूने सुग्रीव को मेरी भुजाओं का बल पाया हुआ जानकर भी मारना चाहा।

दोहा—सुनहु राम स्वामी सन, चल न चातुरी मोरि।

प्रभु अजहूँ मैं पातकी, अन्तकाल गति तोरि ॥ ८ ॥

(बालि ने कहा—) हे श्रीरामजी ! मुनिये, स्वामी के सामने मेरी चतुरता नहीं चल सकती है प्रभु ! मृत्यु-काल में आपकी गति पाकर भी क्या मैं पापी हो रहा ?

सुनत राम अति कोमल वानी * बालि सीस परसेउ निज पानी
अचल करौं तनु राखहु प्राणा * बालि कहा सुनु कृपानिधाना

श्रीरामजी ने बालि को ऐसी कोमल वाणी सुनकर उसके सिर पर अपना हाथ फेरा और बोले मैं तुम्हारे देह को अचल करदूँ, तुम प्राणों को रक्खो। बालि ने कहा—हे दयासागर ! मुनिये—जन्म जन्म मुनि जतनु कराहीं * अन्त राम मुख आवत नाहीं
जासु नाम बल शंकर कासी * देत सर्वाहि समगति अविनासी

मुनिजन जन्म में यत्न करते हैं, परन्तु अंत-समय में 'राम' नाम मुख से नहीं निकलता। जिसके नाम के बल से शंकरजी काशी में सबको समान रूप से अविनासी गति देते हैं—

मम लोचन गोचर सोइ आवा * वहरि कि प्रभु अस वनिहिवनावा
वही 'राम' मेरे नेत्रों के सामने साक्षात् विराजमान हैं। हे प्रभु ! क्या उत्तम अवसर फिर कभी मिल सकता है ?

छन्द—सो नयन गोचर जासु गुन नित नेति कहि श्रुति गावहीं।

जिमि पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कवहुँ कपावहीं ॥

मोहि जानि अति अभिमान वस प्रभु कहेउ राखु सरीरहीं।

अस कवन सठ हठि काटि सुरतरु वारि करिहि बवूरहीं ॥

वही 'प्रभु' मेरे नेत्रों के आगे खड़े हैं, जिनके गुण वेद नित्य 'नेति-नेति' कहकर गाते हैं। और योगी, मुनिजन—प्राण, मन और इन्द्रियों को बश में कर जिन प्रभु की ध्यान में कभी-कभी देख पाते हैं। आपने मुझे अभिमानो जानकर शरीर रखने को रूहा। परन्तु ऐसा कौन मूर्ख होगा—जो कल्पवृक्ष को काटकर, फरोल के वृक्ष को वाड़ बनावेगा ?

अव नाथ करि कहना विलोकहुँ देहु जो वर, मांगऊँ।

जोहि जोनि जन्मों कर्म वस तहँ राम पद अनुरागऊँ ॥

यह तनय मम सम विनय बल कल्याणप्रद प्रभु लीजि

हम सब सेवक अति बड़भागी * सन्तत सगुन ब्रह्म अनुरागी

हम सब सेवक अत्यन्त बड़भागी हैं, जो सगुण ब्रह्म की सेवा में लगे हुए हैं।

दोहा—निज इच्छा प्रभु अवतरइ, सुर महि गो द्विज लागि।

सगुन उपासक सङ्ग तहँ, रहहि सोच्छ सब त्यागि ॥२७॥

प्रभु अपनी इच्छा से देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। वहाँ वे सब सगुणोपासक मोक्ष त्यागकर उनकी सेवा में रहते हैं।

एहि विधि कथा कहहि बहु भाँती * गिरि कन्दराँ सुनी सम्पाती
बाहेर होइ देखि बहु कीसा * मोहि अहार दीन्ह जगदीसा

वानर इस प्रकार नाना भाँति की कथाएँ कह रहे हैं। उनकी बातें पहाड़ की खोह में सम्पाती ने सुनी। तब उसने बाहर आकर बहुतसे वन्दर देखे और बोला—आज मुझे जगदीश्वर ने घर बैठे ही आहार भेज दिया।

आजु सबन्हि कहँ भच्छन करऊँ * दिन बहु चले अहार बिनु मरऊँ
कबहुँ न मिल भरि उदर अहारा * आजु दीन्ह विधि एकाहि बारा

आज सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन होगये—बिना भोजन के मर रहा था। मुझे कभी पेट भर भोजन नहीं मिलता, सो आज विधाता ने एक ही बार में दे दिया।

डरये गीध वचन सुनि काना * अब भा मरन सत्य हम जाना
कपि सब उठे गीध कहँ देखी * जामवन्त मन सोच विशेषी

गीध के ऐसे वचन कानों से सुन सब वानर डरे कि अब सचमुच ही मरना हुआ। सब वानर उस गीध को देखकर उठ खड़े हुए, परन्तु जामवन्त के मन में विशेष सोच था।

कह अङ्गद बिचारि मन भाहीं * धन्य जटायू सम कोउ नाही
राम काजु कारन तनु त्यागी * हरिपुर गयउ परम बड़भागी

तब अंगद मनमें विचार कर बोले—जटायु के समान धन्य कोई नहीं हुआ। श्रीरामजी के कार्य के निमित्त शरीर त्याग कर वह बड़भागी वंकुण्ठ को गया।

सुनि खग हरष सोक जुत बानी * आवा निकट कपिन्ह भय मानी
तिन्हहि अभय कर पूछेसि जाई * कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई

सम्पाती ऐसी हर्ष और शोक युक्त वार्ता सुनकर निकट आया, तब वानर डर गये। उसने उनका डर दूर करके उनसे सब हाल पूछा, तब उन्होंने सारा वृत्तान्त उसे सुनाया।

सुनि सम्पाति बन्धु कै करनी * रघुपति महिमा बहु विधि बरनी
सम्पाती ने अपने भाई जटायु की ऐसी करनी सुनकर बहुत प्रकार से श्रीरघुनाथजी की महिमा वर्णन की। (और बोला—)

दोहा—मोहि लै जाहु सिंधु तट, देउँ तिलाञ्जलि ताहि।

बचन सहाय करिव मैं, पैहहु खोजहु जाहि ॥२८॥

मैं तुम्हारे लिये सिंधु के तट पर जाऊँ, तब तिलाञ्जलि दे लूँ। मैं बचन से तुम्हारी

राजु दोन्ह सुग्रीव कहँ, अंगद कहँ जुवराज ॥११॥

लक्ष्मणजी ने तुरन्त पुरवासियों तथा ब्राह्मणों को सम्राट् में बुलाकर सुग्रीव को राज्य और अङ्गद को युवराज-पद दे दिया ।

उमा राम सम हित जग माहीं * गुरु पितु मातु बन्धु प्रभु नाहीं
सुर नर मुनि सब कै यह रीती * स्वारथ लागि करहिं सब प्रीती

हे पार्वती ! रामजी के समान हितकारी संसार में—गुरु, पिता, माता, भाई स्वामी कोई नहीं है । देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिये ही प्रीति करते हैं ।

बालि त्रास व्याकुल दिन राती * तन बहु व्रन चिन्ताँ जरि छाती
सोइ सुग्रीव कोन्ह कपिराऊ * अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ

जो सुग्रीव—बालि के भय से दिन-रात दुःखी रहता था, शरीर में अनेक घाव होगये थे, चिन्ता से छाती जली जाती थी' उसी सुग्रीव को बानरों का राजा बना दिया । धीरपुनायजी का स्वभाव अत्यन्त कोमल है ।

जानतहूँ अस प्रभु परिहरहौं * काहे न विपति जाल नर परहीं
पुनि सुग्रीवहि लोन्ह बोलाई * बहु प्रकार नृप नीति सिखाई

जो मनुष्य जान-बूझकर जो ऐसे प्रभु को छोड़ देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में पड़ें ? फिर श्रीरामजी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से राज-नीति सिखाई ।

कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा * पुर न जाउँ दस चारि वरीसा
गत ग्रीषम वरषा रितु आई * रहिहउँ निकट सैल पर छाई

प्रभु ने कहा—हे बानरराज सुग्रीव ! सुनो, मैं चौदह वर्ष तक नगर में नहीं जाऊँगा । ग्रीष्म-ऋतु बीत कर, वर्षा ऋतु आ गई है, अतः मैं निकट ही इस पर्वत पर वास करूँगा ।

अंगद सहित करहु तुम्ह राजू * सन्तत हृदयँ धरेहु मम काजू
तब सुग्रीव भवन फिरि आए * रामु प्रवरषन गिरि पर छाए

तुम अंगद सहित राज्य करो, परन्तु मेरे काम का हृदय में ध्यान रखना । तब सुग्रीव घर लौट आये और श्रीरामजी प्रवर्षण-पर्वत पर रहने लगे ।

दोहा—प्रथमहि देवन्ह गिरि गुहा, राखेउ रुचिर वनाइ ।

राम कृपानिधि कछुक दिन, वास करहिंगे आइ ॥१२॥

देवताओं ने पहले ही उस पर्वत की गुफा को सुन्दर बना रखा था कि कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजी यहाँ आकर कुछ दिन वास करेंगे ।

सुन्दर वन कुसुमित अति शोभा * गुञ्जत मधुप निकर मधु लोभा
कन्द मूल फल पत्र सुहाए * भए बहुत जव ते प्रभु आए

सुन्दर वन फूलों से अति शोभायमान है, नींद के झुण्ड मधु के लोभ से गुञ्जर कर रहे हैं । जब से प्रभु आये हैं—तब से कंद-मूल फल की बहुतायत हो

जो सीयोजन समुद्र लाँघ सकेगा, वही चतुर श्रीरामजी का कार्य करेगा । मुझे देखकर मन में धीरज धरो । देखो-श्रीरामजी की कृपा से मेरा शरीर कैसा होगया ?

पापिउ जाकर नाम सुमिरहीं * अति अगाध भवसागर तरहीं
तासु दूत तुम्ह तजि कदराई * राम हृदयँ धरि करहु उपाई

पापी भी जिनका नाम स्मरण करते हैं, वे अत्यन्त अपार भवसागर को पार कर जाते हैं । उनके दूत (तुम) कायरता छोड़कर श्रीरामचन्द्रजी को हृदय में धारणकर उपाय करो ।

अस कहि गरुड गीध जब गयऊ * तिन्हकें मन अति बिस्मयभयऊ
निज निज बल सब काहू भाषा * पार जाइ कर संसय राखा

हे गरुडजी! ऐसे कहकर जब गीधराज (सम्पाती) चला गया । तब उन वानरों के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ । सभी ने अपना-अपना बल कहा, परन्तु पार जाने में सन्देह प्रगट किया ।

जरठ भयउँ अउ कहइ रिछेसा * नहिं तनु रहा प्रथम बल लेसा
जवहि त्रिविक्रम भए खरारी * तब मैं तरुन रहेउँ बल भारी

ऋक्षराज जामवन्त कहने लगे कि अब मैं बड़ा होगया हूँ, पहला सा बल शरीर में लेश मात्र भी नहीं रहा । जब भगवान खरारी 'वामन' बने थे, तब मैं जवान और महाबलवान था ।

❀ अथ क्षेपक वानरों द्वारा अपने अपने बल का वर्णन ❀

दोहा-घेरि अङ्गदहि कहा सब, अब कछु करहु उपाय ।

है कोउ सुभट प्रवीन अस, जलधि लाँघ जो जाय ॥ १ ॥

तब अंगद को घेरकर सब किसी ने कहा कि अब कुछ उपाय करो और बोले कि कोई ऐसा चतुर योद्धा भी है-जो समुद्र को लाँघ जाय ?

बोले विकट सुनहु युवराजू * जो जन तीस उलंघहुँ आजू
नील कहा चालीस मैं जाऊँ * आगे परत मोर नहिं पाऊँ

विकट वानर बोला-हे युवराज! सुनो, मैं आज ही तीस योजन लाँघ सकता हूँ । नील ने कहा-मैं चालीस योजन जा सकता हूँ, परन्तु आगे मेरा पैर नहीं पड़ेगा ।

नील वचन सुनि दुर्धर कहई * पञ्चासन जोजन बल अहई
बोल्याँ नल दोउ भुज उठाई * जोजन साठ मोर गति भाई

नील के वचन सुनकर दुर्धर ने कहा-मेरी गति पचास योजन की है । तब नल ने दोनों भुजा उठाकर कहा-हे भाई ! मेरी गति साठ योजन की है ।

निरखि सकल मुख कहु रिछेसा * नहिं बल रहा प्रथम लबलेसा
वृद्ध भएँ बल ऐसा भाई * लाँघत पल मैं जलधिहि धाई

सबके मुख देखकर जामवन्त बोले-अब पहले-जैसा बल लेशमात्र भी मुझमें न रहा । हे भाई! बुढ़ापे में भी ऐसा बल था कि मैं पलभर में ही समुद्र को लाँघ जाता ।

आ जाते हैं। नदियों का पानी समुद्र में जाकर इस प्रकार स्थिर हो जाता है—जैसे जोय हरि को पाकर शान्त हो जाता है।

दोहा—हरति भूमि तृन संकुल, समुद्रि परहिं नहिं पन्य।

जिमि पाखण्ड विवाद ते, गुप्त होहिं सदग्रन्थ ॥१४॥

पृथ्वी हरो-हरो घास से ढकी है, जिससे रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। जैसे पाषण्डों लोगों के विवाद से सदग्रन्थ लोप होते हैं।

दादुर धुनि चहुँ दिसा सुहाई * वेद पढ़हिं जनु बहु समुदाई

नव पल्लव भए विटप अनेका * साधक मन जस मिले विवेका

चारों ओर मेंड़कों को बोली ऐसी सुहायनी लगती है, मानो प्रह्लाचारो वेद पढ़ रहे हों। बहुत से वृक्ष नये पत्तों के निकलने से ऐसे सुरोमित हो गये हैं, जैसे साधक का मन ज्ञान उत्पन्न करने से होता है।

अर्क जवास पात विनु भयऊ * जस सुराज खल उद्यम गयऊ

खोजत कतहुँ मिलइ नहिं धूरी * करइ क्रोध जिमि धरमहिं दूरी

मदार और जवासा के पत्ते झड़ गये हैं, जैसे अच्छे राज्य में दुष्ट का उद्यम जाता रहता है। हूँदने से भी धूल नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म का नाश कर देता है।

ससि सम्पन्न सोह महि कैसी * उपकारी कै सम्पति जैसी

निसि तम घन खद्योत विराजा * जनु दम्भिन्ह करमिला समाजा

खेती से भरी हुई पृथ्वी ऐसी शोभायमान होरही है, जैसे परोपकारो पुण्य की सम्पत्ति अंधेरी रात में जुगुनूँ ऐसी शोभा पारहे है, मानो दम्भियों का समाज इकट्ठा हुआ हो।

महावृष्टि चलि फूटि किआरी * जिमि सुतंत्र भए विगरहिं नारी

कृषी निवारहिं चतुर किसाना * जिमि बुध तजहिं मोह मदनाता

अधिक वर्षा होने से खेतोंकी प्यारियाँ फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियाँ बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेती निरा रहे हैं, जैसे सज्जन मोह, मद अहंकार को दूर कर देते हैं।

देखिअ चक्रवाक खग नाहीं * कलिहिं पाइ जिमि धर्म पराहीं

ऊसर वरषइ तृन नहिं जामा * जिमिहरिजन हियं उपजनकामा

चक्रवारु पक्षी दिखाई नहीं पड़ते, जिस प्रकार कविकाव में धर्म चले जाते हैं। ऊसर में वर्षा होने पर घास तक नहीं जमती, जैसे सन्तों के हृदय में काम पैदा नहीं होता।

विविध जन्तु संकुल महि भ्राजा * प्रजा वाढ़ जिमि पाइ सुराजा

जहँ तहँ रहे पथिक थकि नाना * जिमि इन्द्रिय गन उपजे ग्याना

नाना प्रकार के जीवों से पृथ्वी कंसी शोमित है, जैसे स्वराज्य में बढ़ती है। जहाँ तहाँ अनेक राहगीर बककर ठहरे हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने से इन्द्रियाँ चिपचिप होजाती हैं।

दोहा—कवहुँ प्रबल वह मारुत, जहँ तहँ मेघ विलाहि।

कवन सो काज कठिन जग माहीं * जो नहि होय तात तुम्ह पाहीं
हे तात ! संसार में ऐसा कौन सा काम कठिन है, जो तुमसे नहीं हो सकता ?

ॐ अथ क्षेपक महावीरजी के जन्म की कथा ॐ

तव उत्पत्ति अब कहौं समेता * सुनहु सकल बैठे इहि रेता
हे महावीरजी ! अब मैं कारण सहित तुम्हारे जन्म की कथा कहता हूँ । सब लोग
यहाँ रेतों में बैठकर सुनो—

हिमचल इक पर्वत के पास * कश्यप ऋषि तप तेज प्रकासा
दिग्गज इक ऐरावत के सम * आयो ऋषि सन्मुख दुर्धरयम

हिमालय पर्वत के पास तप के तेज से प्रकाशित एक कश्यप ऋषि रहते थे । ऐरावति
के समान एक हाथी—मानो कठिन यमराज ही हो, ऋषि के सन्मुख बौड़ा ।

निरखि ताहि ऋषि सकल डराने * चले न चरन सिथिल भय माने
तात तोर तेहि वन कर राजा * केशरि नाम तेज बल भ्राजा

उसको देखकर सारे ऋषि डर गये, उनके पैर डर के कारण शिथिल होगये, चल नहीं
सके । हे तात ! बड़े तेजस्वी 'केशरी' नामक तुम्हारे पिता उस वन के राजा हैं ।

सो गज देखि मुनीस निहोरा * हे कपि सकल शरण हैं तोरा
ऋषि दुख देखि दया मन माहीं * धायो तुरत तात बल बाहीं

उस हाथी को देखकर सब मुनि पुकार उठे—हे कपिराज ! हम सब आपकी शरण हैं ।
ऋषियों का दुःख देखकर उन्हें मन में दया आई और वे तुरन्त बड़े वेग से वहाँ जा पहुँचे ।

भिरय्यो ताहि इक मुष्टिक मारा * उभय दसन गहि भूमि पछारा
परय्यो धरनि करि घोर चिकारा * तब मुनि होइ प्रसन्न विचारा

केशरी ने उससे भिड़कर एक घूँसा मारा और दोनों दाँत पकड़कर भूमि पर पछाड़
दिया । वह घोर चोत्कार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा तब मुनि ने प्रसन्न होकर विचार किया ।

दोहा—तव पितु बहुबल देखि मन, मुनिवर दीन्ह असीस ।

माँगु माँगु वर भाव मन, हे द्विजपाल कपीस ॥ १ ॥

मन में तुम्हारे पिता का अधिक बल देखकर मुनि ने आशीर्वाद देकर कहा—हे द्विज
पालक कविराज ! मन में आवे, सो वर माँगो ।

सानुकूल तपसी कहँ जानी * बोलत भयउ जोरि जुग पानी
जो प्रसन्न सोपर भगवाना * पुत्र देहु बल मरुत समाना

ऋषि को प्रसन्न जानकर तुम्हारे पिता दोनों हाथ जोड़कर बोले—हे भगवान ! जो
आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मरुत के समान बली पुत्र दीजिये ।

एवमस्तु कहि तब ऋषि गयउ * आगिल चरित सुनहु जस भयउ

सुखी मीन जे नीर अगाधा * जिमि हर सरन न एकहु बाधा
फूलें कमल सोह कर कैसा * निर्गुन ब्रह्म सगुन भएँ जैसा
गहरे पानी की मछलियाँ ऐसे सुखी हैं जैसे भगवान की शरण में जाने पर एक भी बाधा
नहीं होती। तालाब कमलों के फूलने से कैसी शोभा दे रहा है—जैसे निर्गुन-ब्रह्म सगुन
होने पर सोभित होता है।

गुञ्जत मधुकर मुखर अनुपा * सुन्दर खग रच नाना रूपा
चक्रवाक मन दुखु निसि पेखी * जिमि दुर्जन पर सम्पति देखी

भारे अनुपम गुञ्जार कर रहे हैं तथा पक्षी नाना प्रकार की बोली बोल रहे हैं। चक्रवे
रात्रि को देखकर मन में वैसे ही दुःखी हो रहे हैं, जैसे बुद्ध पराये धन को देखकर होते हैं।
चातक रटत तृषा अति ओही * जिमि सुख लहइ न शङ्कर द्रोही
सरदातप निसि ससि अपहरई * सन्त दरस जिमि पातक टरई

पपीहा मारे प्यास के रट लगामे हैं, जैसे शिवजी का द्रोही कभी मुच नहीं पाता। शरद-
रितु को गर्मी को रात्रि का चन्द्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं।

देखि इन्दु चकोर समुदाई * चितवहि जिमि हरिजन हरिपाई
मसक दन्स वीते हिम त्रासा * जिमि द्विज वैर किए कुलनासा

चकोरों के झुण्ड चंद्रमा की ओर टकटकी लगाये हैं, जैसे मयल समुद्र के पार उनके दर्शन करते
हैं, मच्छर व डांस सर्पों के डर से नष्ट हो गये हैं, जैसे विप्र से वैर करने से कुल का नाश होता है।

दोहा—भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद रितु पाइ।

सदगुरु मिलें जाहि जिमि, संसय भ्रम समुदाय ॥१८॥

जो जीव पृथ्वी पर भर गये थे, वे शरद-रितु के आने से ऐसे नष्ट होगये, जैसे सवगुरु के
मिलने से संशय और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं।

वरषा विगत शरद रितु आई * सुधि न तात सीता कै पाई
एक बार कैसेहुँ सुधि जानौं * कालहु जीति निमिप महुँ आनौं

वर्षा बौत गई व निर्मल शरद रितु आ गई, परन्तु हे तात! अब भी सीताजी को कोई प्यार नहीं
मिली, एक बार कैसे भी पता लग जाय, तो मैं काल को भी जीत कर सीताजी को पलनर में ले आऊँ
कतहुँ रहउ जाँ जीवित होई * तात जतन करि आनउँ सोई

सुप्रीवहि सुधि मोरि बिसारो * पावा राज कोप पुर नारो

हे तात! बहू कहों भी हो, यदि जीवित हो तो उतने उपाय करके अवश्य से आऊँगा।
सुप्रीव ने भी मेरी याद भूला थी, क्योंकि वह—राज्य, पजाना और स्त्री पा गया है।

जेहि सायक मारा मैं वाली * तेहि सर हतौ मूढ़ कहै काली
जासु कृपाँ छुटाहि मद मोहा * ता कहै उमा कि सपनेहुँ को

जिस बाण से मैंने वाति को मारा है, क्या उसी बाण से उस मूर्ख को भी मराना

सूर्य को पकड़कने के लिए भुजा फैलाकर दौड़े, तब इन्द्र ने क्रोधित हो वज्र मारा ।
दोहा—लागत वज्र महा कठिन, मूर्छित भे तुम्ह तात ।

पवनदेव तब क्रोध करि, रोकी सिगरी बात ॥ २ ॥

हे तात महावीरजी ! अत्यन्त कठोर वज्र के लगने से तुम मूर्छित हो गये । तब पवनदेव ने क्रोधित होकर सब वायु रोक ली ।

क्रोधित पवन वायु गति रोकी * व्याकुल तुरत भई तिरलोकी
अस्तुति सुरन्ह कीन्ह निज हेता * बोले शिव गुण ग्यान निकेता

क्रोधित होकर पवनदेव ने वायु की गति रोक ली, तो तुरन्त ही तीनों लोक व्याकुल होगये । तब देवताओं ने अपने स्वार्थ के लिए विनती की, तब गुण और ज्ञान के भण्डार शिवजी बोले—

धीर धरहु जनि होहु उदासा * सब मिलि चलहु पवन के पासा
शिव विरञ्चि सुर इन्द्र समेता * वायु के ढिंग चले सचेता

धैर्य धरो उदास मत होओ, सब मिलकर पवनदेव के पास चलो । तब शिव, ब्रह्मा, इन्द्रादि सब देवता पवनदेव के पास आये ।

तव सुत गगन सूर्य गहि लीन्हा * स्वांस समीर रोकि दुख दीन्हा
तजहु पवन रहे प्राण भलाई * तुमको सुयस होय जग भाई

वे बोले—तुम्हारे पुत्र ने आकाश में सूर्य को पकड़ लिया है और ऊपर से तुमने वायु को रोक कर सबको दुःख दिया है । हे भाई ! वायु को छोड़ दो, तो सबके प्राण रहें, इसमें तुम्हारा भी संसार में सुयश होगा ।

जो मन भाव लेहु वरदाना * तजहु समीर होई कल्याणा
देव गिरा सुनि सुन्दर बानी * बोलेउ तात जोरि जुग पानी

जो मन को अच्छा लगे, वही वरदान मांग लो । परन्तु पवन को छोड़ दो, जिससे सबका हित हो । देवताओं की सुन्दर वाणी सुनकर पवनदेव दोनों हाथ जोड़ कर बोले—

अमर अजीत सकल बलसागर * सुतहि देहु वर देव गुनागर
रामभक्त अरु निकट निवासी * यह वरदान देव बलरासी

हे देवताओ ! मेरे पुत्र को अमर, अजय, बल का समुद्र और चतुर होने का वर दो और यह वरदान दो कि मेरा पुत्र श्रीराम का भक्त और उनके निकट रहने वाला हो ।

एवमस्तु सब देवन्ह कीन्हा * पवन समीर छाँड़ि तब दीन्हा
दै वरदान देव सब गयऊ * बिचरे वनहि महासुख भयऊ

देवताओं ने कहा—'ऐसा ही होगा' तब पवनदेव ने वायु को छोड़ दिया । सब देवता वरदान देकर चले गये । (ब्रह्माजी ने वज्राङ्गी और अपनी शक्ति न व्यापने का वर दिया और अग्नि ने अग्नि से, इन्द्र ने वज्र से शिवजीने त्रिसूल से, वरुण ने जल और देवी ने वचन से उन्हें निर्भय कर दिया) । तब परम सुखी होकर हनुमानजी बन में विचरने लगे ।

उन्होंने लक्ष्मणजी के चरणों में प्रणाम किया, तब लक्ष्मणजी ने उन्हें अभय-दान दिया। लक्ष्मणजी को क्रोधित सुन बानरराज घबड़ा गये।

सुन हनुमन्त सङ्ग लै तारा * करि विनती समुझाउ कुमारा
तारा सहित गयउ हनुमाना * चरन वन्दि प्रभु सुजसु बखाना

और बोले-हे हनुमान! तुम तारा को साथ लेकर विनय करके राजकुमार को समझाओ। हनुमानजी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मणजी के चरणों में प्रणाम कर प्रभु के यश का वर्णन किया।

करि विनती मन्दिर लै आए * चरन पखार पलंग वैठाए
तब कपीस चरनन्हि सिरु नावा * गहि भुज लछिमन कण्ठ लगावा

और विनय करके लक्ष्मणजी को महज में ले आये, उनके चरण धोकर पलंग पर बंठाया। तब सुग्रीव ने आकर प्रणाम किया, लक्ष्मणजी ने उनकी बांह पकड़कर उन्हें गले से लगा लिया।

नाथ विषय सम मद कछु नाहीं * मुनि मन मोह करइ छन माहीं
सुनत विनोत वचन सुख पावा * लछिमन तेहि बहुविधि समुझावा

(सुग्रीव ने कहा-) हे नाथ! विषय के समान दूसरा मद नहीं है, जो मुनियों के हृदय में भी क्षणभर में मोह उत्पन्न कर देता है। लक्ष्मणजी विनय भरे वचन सुनकर बड़े सुखे हुए और सुग्रीव को उन्होंने बहुत प्रकार से समझाया।

पवनतनय सब कथा सुनाई * जेहि विधि गए दूत समुदाई
तब हनुमानजी ने जिस प्रकार दूतों के समूह गये थे, वह सब कथा सुनाई।

दोहा-हरषि चले सुग्रीव तब, अङ्गदादि कपि साथ।

रामानुज आगें करि, आए जहँ रघुनाथ ॥२१॥

तब सुग्रीव बड़ी प्रसन्नता के साथ अंगद आदि बानरों को साथ लेकर तथा लक्ष्मणजी को आगे करके चले और जहाँ श्री रघुनाथजी थे, वहाँ आये।

नाइ चरन सिरु कह कर जोरी * नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी
अतिसय प्रबल देव तुम्ह माया * छूटइ राम करहु जौं दाया

श्रीरामजीके चरणोंमें सिर नवा, हाथ जोड़ सुग्रीव बोले हे नाथ! इसमें मेरा कुछ दोष नहीं। हे देव! आपकी माया बड़ी प्रबल है, उससे मनुष्य तभी छूटता है, जब आप दया करते हैं।

विषय वस्य सुर नर मुनि स्वामी * मैं पाँवर पशु कपि अति कामी
नारि नयन सर जाहि न लागा * घोर क्रोध तम निसि सो जागा

हे स्वामी! सुर, नर, मुनि सभी विषयों में फँसे हैं, फिर मैं तो अज्ञानो पशु बन्दर और अत्यन्त कामी हूँ। जिसे स्त्री का नयन-वाण नहीं लगा, जो क्रोधरूपी महाघोर अंधी रात में जागता ही रहता है।

लोभ पाँस जेहि गर न बधाया * सो नर तुम्ह समान रघुराया
यह गुन साधन तें नहिं होई * तुम्हरी कृपा पाव कोई कोई

उनके स्वर्ण के समान रंग वाले शरीर में ऐसा तेज आ गया, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु पर्वत हो। बारम्बार सिंहनाद करके हनुमान जो बोले कि कहीं तो खेल ही में इस खारे समुद्र को लाँघ जाऊँ।

सहित सहाय रावणहिं मारी * आनेउँ इहाँ त्रिकूट उपारी
जामवन्त में पूँछउँ तोही * उचित सिखावनु दोजहु मोही

और सेना सहित रावण को मारकर त्रिकूट-पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ले आऊँ। हे जामवन्तजी ! मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे उचित शिक्षा दीजिये।

एतना करहु तात तुम्ह जाई * सीतहि देखि कहहु सुधि आई
तब निज भुजबल राजिव नैना * कौतुक लागि कपि संग सैना

(जामवन्त बोले-) हे तात ! तुम जाकर इतना ही करो कि सीताजी को देखकर उनकी सुधि आकर कह दो, फिर कमल-नयन प्रभु अपने बाहुबलसे खेल के लिए वानर-सेना साथ लेंगे।

छन्द—कपिसेन संग सँघारि निसिचर रामु सीतहि आनि हैं ।

त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानि हैं ॥

जो सुनत गावत कहत समुझत परमपद नर पावई ।

रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई ॥

वानरों की सेना साथ में ले, राक्षसों को मारकर श्रीरामजी-सीताजी को लावेंगे। त्रिलोकी को पवित्र करने वाले सुन्दर यश को देवता तथा नारदादि मुनि वर्णन करेंगे। जो मनुष्य श्रीरघुनाथजी के इस सुन्दर यश को सुनते, गाते, कहते और समझते हैं—वे परम पद पाते हैं। उसी सुयश को श्रीरघुनाथजी के चरणकमलों का भ्रमर (तुलसीदास) गाता है।

दोहा—भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनिहिं जे नर अरु नारि ।

तिन्ह कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहिं त्रिसिरारि ॥ ३१ ॥

श्रीरघुनाथजी का यश संसाररूपी रोग की औषधि है। जो स्त्री-पुरुष इसे सुनेंगे, उनके सब मनोरथ त्रिसरारि (श्रीरामजी) सिद्ध करेंगे।

सो०—नीलोत्पल तनु श्याम, काम कोटि सोभा अधिक ।

सुनिअ तासु गुन ग्राम, जासुनाम अघखग बधिक ॥ १० ॥

जिनका नील-कमल के समान श्याम-वर्ण है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है। जिनका नाम पापरूपी पक्षियों को बहेलिया के समान है, उनके गुण-समूह अवश्य सुनने चाहिए।

❀ मास पारायण—तेइसवां विश्राम ❀

॥ इति धीमद्वरामचरितमानसे सकलकलिकलुप विध्वंसे चतुर्थ सोपान समाप्तः ॥

कलियुग के सम्पूर्ण पापों को नष्ट करने वाले श्रीरामचरितमानस का ।

यह चतुर्थ सोपान समाप्त हुआ ॥

सकल सुभट मिलि दच्छिन जाहू * सीता सुधि पूछहु सब काहू
 और कहा-हे धीर-बुद्धि तथा सुजान-नील, अंगद हनुमान, जामवंत ! तुम सब योवा
 मिलकर दक्षिण दिशा की जाओ और सबसे सीताजी का पता पूछना ।

मनकम वचन सो जतन विचारेहु * रामचन्द्र कर काजु संभारेहु
 भानु पीठि सेइअ उर आगी * स्वामिहि सर्व भाव छल त्यागी
 मन, कर्म, वचन से वही उपाय सोचना और श्रीरामचन्द्रजी का कार्य करना । सूर्यको
 पीठ से अग्नि को हृदय से और स्वामी को सब छल त्याग कर सेवन करना चाहिए ।

तजि माया सेइअ परलोका * मिटौंहु सकल भव सम्भव सोका
 देह धरे कर यह फल भाई * भजिअ राम सब काम विहाई
 माया को छोड़कर परलोक का सेवन करना चाहिए, जिससे संसार के शोक दूर हो
 जावें जन्म लेने का यही फल है कि सबको छोड़कर श्रीरामजी का भजन किया जाय ।

सोइ गुनग्य सोइ बड़भागी * जो रघुवीर चरन अनुरागी
 आयसु मांगु चरन सिरु नाई * चले हरपि सुमिरत रघुराई
 इस संसार में वही गुणी और ज्ञानवान है, जो धीरधुनायजी के चरणों का प्रेमी है । सब
 बानर आज्ञा पाकर चरणों में शीश नवाकर हृदय में प्रभु का ध्यान करते हुए चले ।

पाछें पवनतनय सिरु नावा * जानि काजु प्रभु निकट बोलावा
 परसा सीस सरोरुह पानी * कर मुद्रिका दीन्हि जन जानी
 सबसे पीछे हनुमानजी ने मस्तक नवाया । प्रभु ने फायें का विचार करके उन्हें निकट
 बलाया और अपनी मस्तक जानकर उनके शीश पर अपना कर-कमल रखवा और अपने हाथ
 को अंगूठी उतार कर दी ।

बहु प्रकार सीतहि समुझाएहु * कहिवल विरहं वेगि तुम्ह आएहु
 हनुमत जन्म सुफल करि माना * चलेउ हृदय धरि कृपानिधाना
 जद्यपि प्रभु जानत सब वाता * राजनीति राखत सुरत्राता
 फिर कहा कि तुम सीताजी को बहुत प्रकार से समझाना और मेरा विरह तथा यत्न
 समझाकर जल्दी लौट आना । हनुमानजी ने अपना जन्म सुफल जाना और हृदय में कृपा-
 निधान प्रभु को धारण करके चले ।

दोहा-चले सकल वन खोजत, सरिता सर गिरि खोह ।
 रामकाज लयलीन मन, विसरा तनु कर छोह ॥२४॥

सब बानर वन, नदी, तालाब, पर्वत तथा गुफाओं को खोजते हुए चले । वे श्रीरामजी
 के कार्य में लीन हैं, वह वेह की सुधि नो भूल गये ।
 कतहुँ होइ निसिचर सन भेटा * प्रान लेहि एक एक चपेट-
 बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि * कोउमुनिमिलइताहिसबधेर

सकल गुणनिधानं बानराणामधीमं ।
रघुपति प्रियभक्त वातजातं नमामि ॥ ३ ॥

अतुल बल के स्थान, सुमेरु पर्वत के समान देवीप्यमान, दिव्य देह वाले, राक्षसरूपी वन को अग्नि के समान, ज्ञानियों में अग्रगण्य, सम्पूर्ण गुणों की खान, बानरों के स्वामी, श्रीरघुनाथजी के प्रिय-भक्त, पवन-पुत्र ऐसे हनुमानजी को मैं नमस्कार करता हूँ ।

जामवन्त के वचन सुहाए * सुनि हनुमन्त हृदयँ अति भाए
तव लागि मोहि परखेहु तुम्ह भाई * सहि दुख कन्दमूल फल खाई

जामवन्त के वचन हनुमानजी के मन को बहुत प्रिय लगे और वे बोले—हे भाइयो! तुम सब दुःख सहकर और कन्द-मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना—

जब लागि आवौं सीतहि देखी * होइहि काजु मोहि हरष विसेषी
यह कह नाइ सबन्हि कहूँ माथा * चले हरषि हियँ धरि रघुनाथा

जब तक मैं सीताजी को देखकर लौट न आऊँ । कार्य सिद्ध होगा, क्योंकि मुझे विशेष आनन्द हो रहा है । ऐसा कहकर सबको मस्तक नवाकर प्रसन्नता पूर्वक श्रीरघुनाथजी का हृदय में ध्यान करके हनुमानजी चले ।

सिन्धु तीर एक भूधर सुन्दर * कोतुक कूदि चढ़ेउ ता ऊपर
बार बार रघुवीर सँभारी * तरकेउ पवनतनय बल भारी

समुद्र के तट पर एक सुन्दर पर्वतथा, उस पर खेल में ही कूदकर हनुमानजी चढ़ गये । महा बलवान् हनुमानजी बारम्बार श्रीरघुनाथजी का स्मरण कर बड़े वेग से उछले ।

जेहि गिरि चरन देइ हनुमन्ता * चलेउ सो गा पाताल तुरन्ता

जमि अमोघ रघुपति कर बाना * एही भाँति चलेउ हनुमाना
जलनिधि रघुपति दूत विचारी * कह मैनाक होहु श्रमहारी

जिस पर्वत पर पांव रखकर हनुमानजी कूदे, वह तुरंत पाताल में चला गया । जैसे श्रीरघुनाथजी का अमोघ वाण छूटता है, वैसे ही हनुमानजी चले । समुद्र ने हनुमानजी को श्रीरघुनाथजी का दूत जानकर मैनाक से कहा—तुम इनकी थकावट को दूर करने वाले बन जाओ ।

इन्द्र वज्र जा दिन कर लीन्हा * पर्वत सबै पंख बिनु कीन्हा
ता दिन मारुत कीन्ह सहाई * तासु तनय लंका को जाई

इन्द्र ने जिस दिन हाथ में वज्र लेकर सब पर्वतों के पंख काट डाले थे, उस दिन पवन-देव ने तुम्हारी सहायता की थी, (तुम्हें उड़ाकर जिसने छिपा दिया) । अब उन्हीं के पुत्र लंका को जाते हैं, अतः उनकी सहायता करनी चाहिए ।

सो०—सिन्धु वचन उर आनि, तुरत उठे मैनाक तब ।

कपि कहँ कीन्ह प्रनाम, बार बार कर जोरि कै ॥ १ ॥

नाना भाँति विनय तेहि कीन्हों * अनपायनी भगति प्रभु दीन्हों

फिर वह स्त्री वहाँ गई जहाँ धोरधुनायजी थे। जाकर उसने प्रभु के चरणों में तिर नवाया और नाना प्रकार से प्रभु की वन्दना की, तब प्रभु ने उसे अपनी अनन्य भक्ति दी।

दोहा—वदरीवन कहूँ सो गई, प्रभु अग्या धरि सीस।

उर धरि रामचरन जुग, जे वन्दत अज ईस ॥२६॥

वह स्त्री फिर उन चरणों की—जिनकी ग्रह्यादिक देवता वन्दना करते हैं, हृदयमें धारण करके प्रभु की आज्ञा मान वद्रिकाश्रम की चली गई।

इहाँ विचारहिं कपि मन माहीं * वीती अवधि काजु कछु नाहीं
सब मिलि कहहिं परस्पर वाता * विनु सुधि लएँ करव का भ्राता

यहाँ वानर विचार कर रहे हैं कि समय तो व्यतीत होगया, परन्तु कार्य कुछ नहीं हुआ। सब मिलकर आपस में बात-चीत कर रहे हैं कि हे भाई ! बिना सीताजी की खबर पाये, चलकर क्या करोगे ?

कह अङ्गद लोचन भरि वारी * दुहुँ प्रकार भइ मृत्यु हमारी
इहाँ न सुधि सीता केँ पाई * उहाँ गएँ मारिहि कपिराई

अङ्गद नेत्रों में जल भरकर कहने लगा कि दोनों प्रकार से हमारा मरण है। यहाँ तो सीताजी की खबर नहीं मिली और वहाँ जाने पर सुग्रीव मारेंगे।

पिता बधे पर मारत मोही * राखा राम निहोर न ओही
पुनि पुनि अङ्गद कह सब पाहीं * मरन भयउ कछु संसय नाहीं

पिता के मारे जाने पर सुग्रीव मुझे अवश्य मार डालते। परन्तु धीरामजी ने मुझे बचा लिया, इसमें सुग्रीव की कृपा नहीं है। अङ्गद बार-बार यही कहते हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ सन्देह नहीं।

अङ्गद वचन सुनत कपि वीरा * बोलिन सकाहिं नयन वह नीरा
छन एक सोच मगन होइ रहे * पुनि अस वचन कहत सब भाए

अङ्गद के वचन सुन सब वानर चुप हैं, उनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। एक क्षण तो सब शोक-मग्न रहे, और फिर सब ऐसे बोले—

हम सीता कै सुधि लीन्हें विना * नहिं जैहें जुवराज
अस कहि सवन सिंधुतट जाई * बैठे कपि सब दर्भ

हे चतुर युवराज ! हम सीताजी की सुधि लिये बिना नहीं जायेंगे। चतुर
समुद्र के किनारे कुछ विद्याकर बैठ गये।

जामवन्त अङ्गद दुख देखी * कही क
तात राम कहूँ नर जनि मानहुँ * निर्गुन

जामवन्त ने अङ्गद को दुखित देखकर विशेष उपदेश की जो मनुष्य मत समझी, उनकी निराकार और परब्रह्म जानो

दोहा-राम काज सब करिहुहु, तुम्ह बल बुद्धि निधान ।

आसिष देइ गई सो, हरषि चलेउ हनुमान ॥ २ ॥

तुम बड़े बलवान् और बुद्धिमान हो, श्रीरामचन्द्रजी के सब कार्य करोगे । यह आशीर्वाद देकर वह चली गई, तब हनुमानजी प्रसन्न होकर चले ।

निसिचर एक सिंधु महँ रहई * करि माया नभु के खग गहई
जीव जन्तु जे गगन उड़ाहीं * जल बिलोकि तिन्हकी परिछाहीं

समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी । जो जीव-जन्तु आकाश में उड़ते थे, उनकी परछाईं जल में देखकर-

गहई छाँह सक सो न उड़ाई * एहि विधि सदा गगन चर खाई
सोइ छल हनुमान कहँ कीन्हा * तासु कपट कपि तुरतहि चीन्हा

वह माया से पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे, ऐसे वह सदैव आकाशचारियों को खाया करती थी । वही कपट हनुमानजी से किया, तो हनुमानजी ने उसे पहचान लिया ।

ताहि मारि मारुतसुत वीरां * बारिधि पार गयउ मतिधीरा
तहाँ जाइ देखी वन सोभा * गुञ्जत चञ्चरीक मधु लोभा

और उसे मारकर पवन-पुत्र धीर-बुद्धि हनुमानजी समुद्र के पार जा पहुँचे ! वहाँ जाकर वन की शोभा देखी-शहद के लोभ से भौरे गुञ्जार रहे हैं ।

नाना तरु फल फूल सुहाए * खग मृग वृन्द देखि मन भाए
सैल विसाल देखि एक आगे * तापर कूदि चढेउ भय त्यागे

नाना भाँति के वृक्ष फल फूलों से सुशोभित हैं, पक्षी व पशुओं के झुण्ड देखकर हनुमानजी के मन को सुहावने लगे । आगे बड़ा भारी पर्वत देखकर उस पर हनुमानजी कूदकर चढ़ गये ।

उमान कछु कपि कै अधिकाई * प्रभु प्रताप जो कालहि खाई
गिरि पर चढ़ि लंका तेहि देखी * कहि न जाइ अति दुर्ग विसेषी

हे पार्वती ! इसमें हनुमानजी की कुछ बड़ाई नहीं है, यह सब प्रभु का प्रताप है-जो काल को भी खा लेता है । पर्वत पर चढ़कर हनुमानजी ने लंका देखी, बहुत बड़े किले का वर्णन कहीं किया जा सकता ।

अति उतड़ जलनिधि चहुँ पासा * कनक कोटि कर परम प्रकासा

वह कोट बहुत ऊँचा है, चारों ओर समुद्र है, सोने के किले के कँगूरे बहुत चमकीले हैं ।

छन्द-कनक कोटि बिचित्र मनि कृत सुन्दरायत अति घना ।

चहुँ हट्ट ठट्ट सुभट्ट बीथीं चारु पुर बहु बिधि बना ॥

गज बाजि खच्चर निकर पदचर रथ वरूथन्हि को गनै ।

बहु रूप निसिचर जूथ अति बल सेन बरनत नहि बनै ॥

सहायता करूंगा तो तुम उन्हें पा जाओगे—जिन्हें ढूँढ़ रहे हो।

अनुज क्रिया करि सागर तीरा * कहि निज कथा सुनहु कपि वीरा
हम द्वौ बन्धु प्रथम तरुनाई * गगन गए रवि निकट उड़ाई
समुद्र के किनारे भाई को तिलांजलि देकर वह अपनी कथा कहने लगा—हे वीर वानरो मुझे, हम दोनों भाई अपनी जवानों में उमड़ते हुए सूर्य के निकट पहुँचे।

तेज न सहि सक सो फिर आवा * मैं अभिमानी रवि निअरावा
जरे पंख अति तेज अपारा * परेउं भूमि करि घोर चिकारा
जटायू तो तेज नहीं सह सका, इस कारण लोट थापा, परन्तु मैं घमण्डो सूर्य के निकट जाने लगा। सूर्य के प्रचंड तेज से पंख जल गये, तब मैं बहुत चिल्लाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा।

मुनि एक नाम चन्द्रमा ओही * लागी दया देखि कर मोही
बहु प्रकार तेहि ग्यान सुनावा * देहि जनित अभिमान छुड़ावा
यहाँ 'चन्द्रमा' नाम के एक मुनि थे, मुझे देखकर उन्हें दया लगी तो उन्होंने मुझे बहुत प्रकार से ज्ञान सुनाया और देह-जनित अभिमान को छुड़ा दिया।

त्रेतां ब्रह्म मनुज तनु धरिही * तासु नारि निसिचर पति हरिही
तासु खोज पठइहि प्रभु दूता * तिन्हहि मिलें तै होव पुनीता
मुनि ने मुझे बतलाया कि त्रेतायुग में भगवान् मनुष्य-रूप में अवतार लेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसराज, हर ले जायगा, तब उन्हें ढूँढ़ने के लिये प्रभु दूतों को भेजेंगे, उनसे मिलकर तुम पवित्र हो जाओगे।

जमिहहि पंख करसि जनि चिंता * तिन्हहि देखाइ देहेसु तैं सीता
मुनि कह गिरा सत्य भई आजू * सुनिममवचन करहु प्रभु काजू
तुम्हारे पंख फिर जमेंगे, चिंता मत करो। उन दूतों को तुम सीताजी का पता बतला देना। आज उन मुनि की बात सत्य हुई, अब तुम हमारी बात सुनकर अपने स्वामी का कार्य करो।

गिरि त्रिकूट ऊपर बसि लंका * तहँ रह रावन सहज असंका
तहँ असोक उपवन जहँ रहई * सीता वैठि सोच रत अहई
त्रिकूट पर्वत समुद्र के उस पार है, उस पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभावसे ही निडर रावण रहता है। वहाँ एक अशोक-वाटिका है, जहाँ पर सीताजी बंठी हुई सोच कर रही हैं।

दोहा—मैं देखहु तुम्ह नाही, गीर्धहि दृष्टि अपार।
बूढ़ भयउं नत करतेउं, कछुक सहाय तुम्हार ॥२६॥
मैं देख रहा हूँ, परन्तु तुम नहीं देख सकते। क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। मैं अब बूढ़ा होगया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता करता।

जो नाँघइ सत जोजन सागर * करइ सो रामकाज अति आगर
मोहि बिलोकि धरहु मन धीरा * राम कृपां कस भयउं

मारा, जिससे वह रुधिर-वमन करती हुई लुढ़क गई ।

पुनि सम्भारि उठी सो लंका * जोरि पानि कर विनय ससंका
जब रावनहि ब्रह्म वर दीन्हा * चलत विरञ्चि कहा मोहि चीन्हा

फिर सँभलकर लङ्किनी उठी और हाथ जोड़ शङ्का सहित प्रार्थना करने लगी—रावण को जब ब्रह्मांजी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे यह पहिचान बतलाई थी कि—
विकल होसि तँ कपि के मारे * तब जानेसु निसिचर संघारे
तात मोर अति पुन्य बहूता * देखेउँ नयन राम कर दूता

जब तू वन्दर की मार से विकल हो जाय, तो जान लेना कि अब राक्षसों का संहार होने वाला है । हे तात ! मेरे बड़े पुण्य-भाग्य हैं मैं नेत्रों से श्रीरामजी के दूत को देख पाई ।

दोहा—तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिअ तुला एक अंग ।

तूल न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सतसंग ॥ ४ ॥

हे तात ! स्वर्ग व मोक्ष का सुख तराजू के एक पलड़े में रखा जाय और जो पल भर के सत्संग का सुख है, वह दूसरे पलड़े में रक्खा जाय, तो सब मिलकर भी सत्संग के बराबर नहीं होते ।

प्रविसि नगर सब कीजै काजा * हृदय राखि कोसलपुर राजा
गरल सुधारिपु करहिं मिताई * गोपद सिंधु अनल सितलाई

हृदय में श्रीरामजी का स्मरण कर नगर में प्रवेश कर सब कार्य कीजिये । उसको विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करता है, समुद्र गौ के समान हो जाता है, आग ठण्डी हो जाती है ।

गरुड़ सुमेरु रेनु सम ताही * राम कृपा करि चितवा जाही
अति लघु रूप धरेउ हनुमाना * पैठा नगर सुमिरि भगवाना

हे गरुड़ ! सुमेरु पर्वत उसको धूल के समान हो जाता है जिसको श्री कृपादृष्टि से देखते हैं । बहुत छोटा रूप धारण कर हनुमानजी भगवान् का स्मरण कर नगर में घुसे ।

मन्दिर मन्दिर प्रति कर सोधा * देखे जहँ तहँ अगनित जोधा
गतउ दसानन मन्दिर माहीं * अति विचित्र कहि जातसो नाहीं

उन्होंने प्रत्येक घर ढूँढ़ा, तो जहाँ-तहाँ अगणित योद्धा देखे, फिर रावण के महल में गये । वह बहुत ही विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता ।

सयन किए देखा कपि तेही * मन्दिर महँ न दीख बैदेही
भवन एक पुनि दीख सुहावा * हरि मन्दिर तहँ भिन्न बनावा

हनुमानजी ने रावण को सोते देखा, परन्तु महल में जानकोजी दिखाई नहीं पड़ी । फिर एक सुन्दर भवन देखा, वहाँ भगवान् का मन्दिर अलग बना हुआ था ।

दोहा—रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाइ ।

नव तुलसिका बृन्द तहँ, देखि हरष कपिराइ ॥ ५ ॥

इक दिन वद्विक आश्रम गयऊ * विपिन विलोकिमहासुख भयऊ
ब्रह्मज्ञानि एक विप्र सुजाना * बैठि अधारित श्रीभगवाना

एक दिन वद्विकाश्रम को गया, उस वन को देखकर मुझे बड़ा सुख हुआ। वहाँ एक विद्वान (ब्रह्मज्ञान) ब्राह्मण भगवान को आराधना कर रहा था।

ताहि बधन इक दानव आवा * देखा नयन क्रोध मोहि छावा
मुनि भय देखि गयऊ तेहि सामू * तेहि द्रुतगति कीन्ह अस कामू

उसे मारने के लिए एक दानव आया, उसे आँखों से देखकर मुझे बड़ा क्रोध हुआ। मुनि को भयभीत देखकर मैं उसके सामने गया, परन्तु उसने अत्यन्त शीघ्रता से यह काम किया-

त्रिस जोजन कर सैल उठाई * मारेसि मोर गौड़ में आई
लागत गिरि तनु सहा अपारा * भयो क्रोध ताहि अवनि पछारा

तीस योजन का एक पर्वत उठाया और उसे मेरे घुटने में दे मारा। शरीर में यह गिरि-प्रहार लगते ही मैंने उसे सहकर और क्रोध करके इसको पृथ्वी पर पछाड़ दिया।

चीरे दोउ चरन करि कीसा * सुख पायो द्विज दीन्ह असीसा
सो बल नहि अब तुम्हहि बखानू * सुनत बात सब अचरज मानू

क्रोध करके मैंने उसके दोनों पैर पकड़कर चीर डाला। तब ब्राह्मण ने सुख पाकर मुझे अशीष दी। वह बल मैं तुमसे नहीं कहता, क्योंकि सुनकर तुम आश्चर्य मानोगे।

सैल प्रहार लगेउ मम पाऊँ * जोजन नव पाँच में जाऊँ
मेरे पैर में पहाड़ की चोट लग गई है, परन्तु तो भी मैं पंचानवें योजन जा सकता हूँ।

दोहा—बलि बाँधत प्रभु बाढ़ेउ, सो तनु वरनि न जाइ।

उभय घरी महँ दीन्ह मैं, सात प्रदिच्छन थाइ ॥३०॥

बलि को बाँधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, किंतु फिर भी मैंने वो ही घड़ी में दोड़कर उनकी सात परिक्रमा करली थीं।

अंगद कहइ जाऊँ मैं पारा * जियँ संसय कछु फिरती वारा
जामवन्त कह तुम्ह सब लायक * पठइअ किमि सबही कर नायक

अंगद ने कहा—मैं पार तो जा सकता हूँ, परन्तु लोटने में कुछ सन्देह होता है। जामवन्त ने कहा—तुम सब लायक हो, परन्तु तुम सबके प्रधान हो। अतः तुम्हें कैसे भेजा जाय ?

कहइ रोछपति सुनहु हनुमाना * का चुप साध रहेहु बलवाना
पवन तनय बल पवन समाना * बुधि विवेक विग्यान निधाना

शुक्रराज जामवन्त कहने लगे—हे बलवान हनुमानजी ! सुनो, क्या चुप साध रखी है ? तुम पवन के पुत्र हो, तम्हारा बल पवन के समान है, अतः तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान के निधान हो।

सुनहुँ विभीषण प्रभु कै रीती * करहि सदा सेवक पर प्रीती

जब श्रीरामजी की कृपा है, तभी तो आपने हठ करके मुझे दर्शन दिये हैं। यह सुनकर हनुमानजी ने कहा-हे विभीषण! सुनो, प्रभु रामजी की यही रीति है कि वे अपने भक्त पर सदा प्रीति करते हैं।

कहहु कवन मैं परम कुलीना * कपि चञ्चलसवही विधि हीना
प्रात लेइ जो नाम हमारा * तेहि दिन ताहि न मिलै अहारा

कहो तो-मैं ही कौन-सा बड़ा कुलीन हूँ? जाति का चञ्चल बन्दर सब प्रकार से हीन हूँ। प्रातःकाल जो मेरा नाम लेवे तो उसे भोजन भी न मिले।

दोहा-अस मैं अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर।

कीन्ही कृपा सुमिरि गुन, भरे विलोचन नीर ॥ ७ ॥

हे मित्र! सुनो, ऐसा तो मैं अधम हूँ, किन्तु मुझ पर भी श्रीरघुनाथजी ने कृपा की है। प्रभु के गुणों को स्मरण कर दोनों की आँखों में आँसू भर आये।

जानतहुँ अस स्वामि विसारी * फिरहि ते काहे न होहि दुखारी
एहि विधि कहत राम गुनग्रामा * पावा अनिर्वाच्य विश्रामा

जो जान-बूझकर ऐसे स्वामी को भूल जाते हैं, वे मनुष्य दुःखी क्यों न हों? इस सांति श्रीरामचन्द्रजी के गुणों को कहते हुए दोनों ने अनिर्वचनीय विश्राम पाया।

पुनि सब कथा विभीषण कही * जेहि विधि जनकसुता तहुँ रही
तव हनुमन्त कहा सुनु भ्राता * देखा चहुँ जानकी माता

फिर विभीषण ने वह कथा कही-जिस प्रकार जानकीजी वहाँ रहती थीं। तब हनुमान जी ने कहा-हे भाई! सुनो, मैं माता जानकी को देखना चाहता हूँ।

जुगुति विभीषण सकल सुनाई * चलेउ पवनसुत विदा कराई
धरि सोइरूप गयउ पुनि तहँवाँ * वन अशोक सीता रह जहवाँ

विभीषण ने सब युक्ति सुनाई, तब हनुमानजी विदा माँगकर चले, फिर वही रूप धरकर वहाँ गये-जहाँ अशोक-वन में सीताजी रहती थीं।

देखि मनहि मन कीन्ह प्रनामा * बैठेहि बीति जात निसि जामा
कृस तनु सीस जटा एक बैनी * जपति हृदय रघुपति गुन श्रेनी

हनुमानजी ने सीताजी को देख-मन ही मन प्रणाम किया। वहाँ बैठे २ रात बीती जाती है, वेह दुबंख हो रहा है, सिर पर जटाओं की एक बैनी है, हृदय में श्रीरामजी के गुणों को जप रही हैं।

दोहा-निज पद नयन दिएँ मन, राम पदकमल लीन।

परम दुखी भा पवनसुत, देखि जानकी दीन ॥ ८ ॥

सीताजी अपने चरणों की ओर टकटकी लगाकर देख रही हैं और मन श्रीरामजी के चरणों में लगा हुआ है। जानकीजी को दीन देखकर हनुमानजी बहुत दुःखी हुए।

माता तोरि अञ्जनी सती * रूप अपार नहि हियँ रती
 'एवमस्तु' कहकर ऋषि चले गये। अब आगे का वृत्तान्त जैसे हुआ, सो सुनो-तुम्हारी

माता 'अञ्जनी' थी उनका रूप रति से भी सुन्दर था।
 नव सत साजि शृङ्गार बनाई * वैठी शिखर शैल पर आई
 त्रिविध समीर बहत सुखदाई * निरखत वन सोभा अधिकाई
 वे सोलह-शृङ्गार करके पर्वत के शिखर पर आ बंठी। उस समय शीतल, मन्द सुगन्धित पवन चल रही थी, वन की शोभा देखकर प्रसन्नता होती थी।

चीर उड़ावत पवन सुवरसा * भुजा दीर्घ करि चाहत परसा
 देखि हेतु तव क्रोध करेही * लागी शाप देन पुनि तेही
 पवनदेव ने उसे देखकर, मोहित होकर पति की तरह चीर उड़ाकर और लम्बी भुजाकर के उसे स्पर्श करना चाहा। यह देखकर तुम्हारी माता को क्रोध हुआ और वे शाप देने लगीं।

मारुत मधुरे वचन जु कहेऊ * शाप न देउ वचन सुन लेऊ
 तव पति ऋषिसन सुत वर माँगा * ताते परसि अङ्ग तव लागा
 तब पवनदेव ने मधुर वचन कहे- 'शाप मत दो, पहले बात सुनो,। तुम्हारे पति ने ऋषि से पुत्र का वर माँगा है, इसी कारण-में तुम्हारे शरीर को छूने लगा था।

निज काया धरि मिलेउ न तोही * काहे शाप दैति तुम्ह मोहि
 अस कहि पवन गुप्त व्है रह्यऊ * सो तव मात पति सन कह्यऊ
 मैं अपने शरीर से तुमसे नहीं मिला हूँ, मुझे शाप क्यों देतो हो? ऐसा कहकर पवनदेव अन्तर्ध्यान हो गये। तब तुम्हारी माता ने वे सब बातें अपने पति से कहीं।

अब तव जन्म कहव सुख मानी * सुनहु सकल कुलदीपक जानी
 शुभ नक्षत्र शुभ घरी सुहाई * जन्मत भयउ देव बल पाई
 अब सुख मानकर तुम्हारा जन्म कहता हूँ। कुल का प्रकाशरूप जानकर उसे सब सुनो शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी में देव-बल पाकर तुमने जन्म लिया। (जन्म-तिथि-कार्तिक बरौ चौदश, सोमवार थी)।

पुनि वरदान पवन कर दरसा * वीरज तोहि पिता कर परसा
 उदित भए दम्पित सुख माने * करहि केलि वन में मन माने
 फिर पवनदेव ने वरदान दिया, हाथ से स्पर्श किया और कहा कि तुम मेरे सन्तान बनो होगे। तुम्हारे जन्म होने से दोनों दम्पति सुख मानकर वन में मन-माना विहार करते थे।

एक दिवस माता को गोदा * करत रहेउ पय पान विनोदा
 देखेउ अरुण भानु छवि लाला * तरकि अकास गयेउ तत्काल
 एक समय तुम माता की गोद में दूध पीते हुए खेल रहे थे, तब अरुण के निकलने के समय की शोभा को देखकर तुम किलकारी मार शीघ्रता से आकाश में उड़ने लगे।

सूर्य गहन कहँ भुजा पसारा * क्रोधित इन्द्र बब तव

चन्द्रहास हरु मम परितापं * रघुपति विरह अनल सजातं
सीतल निसित बहसि वर धारा * कह सीता हरु मम दुख भारा

हे चन्द्रहास ! श्रीरामजी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरे दुःख को तू हर ले। तेरी श्रेष्ठ धार रात्रि-रूप है, अतः तू मेरे दुःख के भार को हर ले।

सुनत वचन पुनि मारत धावा * मयतनयाँ कहि नीति बुझावा
कहेसि सकल निसिचरन्हि बोलाई * सीतहि बहु विधि त्रासहु जाई
मास दिवस महुँ कहा न माना * तौ मैं मारबि कठिन कृपाना

सीताजी के ऐसे वचन सुन वह मारने दौड़ा, तब मन्दोदरी ने नीति-युक्त वचन कहकर उसे समझाया। रावण सब निशाचरों को बुलाकर बोला कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाओ। यदि वह एक महीने में मेरा कहना नहीं मानेगी, तो मैं उसे तलवार से मार डालूँगा।

दोहा—भवन गयउ दसकन्धर, इहाँ पिसाचिनि बृन्द।

सीतहि त्रास दिखावहि, धरिहि रूप बहु बृन्द ॥ १० ॥

ऐसा कहकर रावण तो घर को चला गया और यहाँ राक्षसियाँ नाना प्रकार के भयंकर रूप धारण करके सीता को डर दिखाने लगीं।

त्रिजटा नाम राच्छसी ऐका * राम चरन रति निपुन विवेका
सवन्हौ बोलि सुनाएसि सपना * सीतहि सेइ करहु हित अपना

उसमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी ज्ञान में चतुर और श्रीरामजी के चरणों की प्रेमी थी। सबको बुलाकर उसने अपना स्वप्न सुनाया और कहा—सीताजी की सेवा करके अपना भला करलो।

सपने बानर लंका जारी * जातु धान सेना सब मारी
खर आरूढ नगन दससीसा * मुण्डित सिर खण्डित भुजवीसा

सपने में (मैंने देखा कि) बानर ने लंका जलादी और निशाचरों की सेना को मार डाला। रावण नंगे शरीर गधे पर सवार था, उसके सिर मुड़े हुए और बीसों भुजायें कटी हुई थीं।

एहि विधि सो दच्छिन दिस जाई * लंका मनहुँ विभीषन पाई
नगर फिरो रघुबीर दोहाई * तब प्रभु सीता बोलि पठाई

इस प्रकार वह दक्षिण-दिशा को जा रहा था और लंका मानो विभीषण को मिल गई। नगर भर में श्रीरघुनाथजी की दुहाई फिर गई, तब प्रभु ने सीताजी को बुला भेजा।

यह सपना मैं कहउं पुकारी * होइहि सत्य गएँ दिन चारी
तासु वचन सुनि ते सब डरीं * जनकसुता के चरनन्हि परीं

मैं पुकार कर (निश्चय पूर्वक) कहती हूँ कि चार दिन के बाद यह सब सत्य हो जायगा। उसके वचन सुनकर सब राक्षसियाँ डर गईं और जानकीजी के चरणों में गिर पड़ीं।

दोहा—जहँ तहँ गई सकल तब, सीता कर मन सोच।

जब जब जायँ मुनिन्ह के तीरा * डारें फोर कमण्डल नीरा
विटप तोरि गिरिशिखर ढहावै * बल अति भूरि अङ्ग धुनि लावै

जब-जब मुनियों के निकट जायें, तो कमण्डल फोड़कर जल वहा दें। वृक्षों को तोड़, पर्वतों के शिखर ढहा दें और महाबल के कारण शरीर को धुनें।

ऋषिन्ह शाप तब दीन्ह विचारो * भूलि जाहु निज पौरुष भारी
जब जब कोउ सुरति कराई * तब तब तुम्हरे बल न्है आई

तब विचार कर ऋषियों ने शाप दिया कि तुम अपने प्रबल बल को भूल जाओगे और जब २ तुम्हें कोई स्मरण करावेगा-तब २ तुम्हें बल हो आवेगा।

तात मातु कर प्राण समाना * इन्द्रजु हनी नाम हनुमाना
सो मैं तुम्हहि सुनायउँ सबही * बोले महावीर सुनि तबही

तुम अपने माता-पिता को प्राणों के समान प्यारे हो। इन्द्र ने जो वज्र मारा तो छोड़ी देड़ी हो गई—इससे तुम्हारा नाम 'हनुमान' हुआ। यह सब कथा मैंने तुम्हें सुना दी। यह सुनकर महावीरजी बोले—

तजहु सोक आनहु मतिधीरा * मोहि निश्चय सेवक रघुवीरा
हनुमत वचन सुनत सब कामा * जय जय जय सब करहिं दखाना

शोक का त्याग करो और मन में घोरज धारण करो, मैं निश्चय ही धोरघुनायजी का सेवक हूँ। हनुमानजी के वचन सुनकर सब कोई जय-जयकार करने लगे।

हीड है सिद्ध राम कर राजा * अति सुख लहेउ हिये युवराजा
जामवन्त औरौ नल नीला * अङ्गद आदि सुभट बलशीला

अब श्रीरामजी का कार्य सिद्ध होगा, यह जानकर अंगदजी ने मन में बहुत सुख पाया। जामवन्त, नल, नील तथा अंगद आदि जो बलवान् योद्धा थे—

मिले सबै हनुमन्तहि धाई * राम काज लागि जानेसु भाई
कह हनुमन्त सिन्धु तनु देखी * करिहौं रघुपति काज विसेषा

सबने दौड़कर हनुमानजी से मिलकर कहा—श्रीरामजीका कार्य तुम करोगे। तब हनुमानजी ने समुद्र की ओर देखकर कहा कि मैं निश्चय ही धोरघुनायजी का कार्य विशेष रूप से करूँगा।

तब ऋष्टेस अस वचन उचारा * सादर सुनहु समीर कुमारा
तब जामवन्त ऐसे वचन बोले—हे पवन पुत्र ! आदर-पूर्वक सुनो—

॥इति क्षेपक॥

रामकाज लागि तब अवतारा * सुनतहि भयउ पर्वतकारा
श्रीरामचन्द्रजी के ! कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। यह वचन सुनते ही हनुमानजी पर्वत के बराबर हो गये।

कनक वरन तनु तेज विराजा * मानहुँ अपर गिरिन्ह कर र
सिंहनाद करि वारहिं वारा * लीलहि नाघउँ जलनिधि

तब देखी मुद्रिका मनोहर * राम नाम अंकित अति सुन्दर
चकित चितव सुहरी पहचानी * हरष विषाद हृदय अकुलानी

तब सीताजी ने 'राम' नाम से अंकित मनोहर मुद्रिका देखी । सीताजी चकित होकर उसे देखने लगीं और पहिचान कर हर्ष एवं शोक से हृदय में व्याकुल हो गईं ।

जीति को सकइ अजय रघुराई * माया ते असि रचो न जाई
सीता मन विचार कर नाना * मधुर वचन बोलेउ हनुमाना

(ने सोचने लगीं—) श्रीरघुनाथजी तो अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है? और माया से भी ऐसी मुद्रिका नहीं बन सकती । सीताजी मन में नाना प्रकार के विचार कर रही थीं, उसी समय हनुमानजी मधुर वचन बोले—

रामचन्द्र गुन बरनै लागा * सुनतहिं सीता कर दुख भागा
लागी सुनै श्रवन मन लाई * आदिहु तें सब कथा सुनाई

वे श्रीरामजी के गुणों का गान करने लगे, जिन्हें सुनते ही सीताजी के दुःख दूर हो गये । वह मन और कान लगाकर सुनने लगीं, तब हनुमानजी ने शुरू से सब कथा सुनाई ।

श्रवनामृत जेहिं कथा सुहाई * कही सो प्रगट होत किन भाई
तब हनुमन्त निकट चलि गयऊ * फिरि बैठी मन विसमय भयऊ

(सीताजी बोलीं—) जिसने कानों को अमृत रूपी यह कथा कही है, हे भाई ! वह सामने क्यों नहीं आता ? हनुमानजी निकट गये तो उन्हें देख सीताजी ने मुँह फेर लिया, उनके मन में आश्चर्य हुआ ।

रामदूत मैं मातु जानकी * सत्य सपथ करना निधान की
यह मुद्रिका मातु मैं आनी * दीन्हि राम तुम्ह कहँ सहिदानी
नर बानरहिं सङ्ग कहु कैसे * कही कथा भई संगति जैसे

(हनुमानजी ने कहा—) हे माता सीताजी ! करुणामय की सच्चि सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि मैं श्रीरामजी का ही दूत हूँ और यह मुद्रिका मैं ही लाया हूँ । श्रीरामजी ने पहिचान के लिये यह तुमको चिन्ह-रूप में दी है । (सीताजी ने पूछा—) मनुष्य और बन्दरों का साथ कैसे हुआ ? तब वह कथा हनुमानजी ने कहकर सुनाई कि इस प्रकार साथ हुआ ।


दोहा—कपि के वचन सप्रेम सुनि, उपजा मनविश्वास ।

जाना मन क्रम वचन यह, कृपासिंधु कर दास ॥ १२ ॥

हनुमानजी के ऐसे प्रेम भरे वचन सुनकर सीताजी के हृदय में विश्वास हो गया । उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन, कर्म, से कृपासिंधु श्रीरामजी का ही सेवक है ।

हरिजन जानि प्रीति अति गाढी * सजल नयन पुलकावलि बाढी
बूढत बिरह जलधि हनुमाना * भयहु तात सो कहँ जल जाना

हरि-भक्त जानकर मन में बड़ी प्रीति हुई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया ।



* अथ मङ्गलाचरणम् *

श्लोक

शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणं शान्तिप्रदं ।
 ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् ॥
 रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरि ।
 वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूणामणिम् ॥ १ ॥

जो शान्त, नित्य, प्रमाणों से परे, मोक्षरूपी शान्ति के दायक, ब्रह्मा, शिव और शेषजी से निरन्तर सेवित वेदान्त से जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में प्रधान, माया से मनुष्य रूपधारी, कृपानिधान, रघुवंश में थोड़ा तया राजाओं के शिरोमणि—'राम' नामधारी जगदीश्वर हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ ।

नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽष्मदीये ।
 सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा ॥
 भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे ।
 कामादिदोष रहितं कुरु मानसं च ॥ २ ॥

हे धीरघुनायजी ! मैं सत्य कहता हूँ, इस पर भी आप तो अन्तर्यामी हैं । मेरे हृदय में कोई अभिलाषा नहीं है, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिये और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कर दीजिये ।

अतुलित वलधामं हेमशैलामदेहं ।
 दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् ॥

कहने से दुःख कुछ कम हो जाता है, परन्तु किससे कहूँ ? यह दुःख कोई जान नहीं सकता । मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व केवल एक मेरा मन ही जानता है ।

सो मन सदा रहत तोहि पाहीं * जनु प्रीति रसु एतनेहि माहीं
प्रभु सन्देशु सुनत बैदेही * मगन प्रेम तन सुधि नहिं तेही

सो वह मेरा मन सदा तुम्हारे पास रहता है, मेरे प्रेम का सार इतने ही में जान लेना । श्रीरामचन्द्रजी का सन्देश सुन सीताजी प्रेम में मगन हो गईं, उन्हें शरीर की भी सुधि न रही ।

कहि कपि हृदयँ धीर धरु माता * सुमिरि राम सेवक सुखदाता
उर आनहु रघुपति प्रभुताई * सुनि मम बचन तजहु कदराई

हनुमानजी कहने लगे-हे माता ! सेवक को सुख देने वाले श्रीरामचन्द्रजी का स्मरण करके हृदय में धैर्य धरो । उनकी प्रभुता को हृदय में रख मेरे वचनों को सुन व्याकुलता छोड़ दो ।

दोहा-निसिचर निकर पतङ्ग सम, रघुपति बान कृसानु ।

जननी हृदयँ धीर धरु, जरे निसाचर जानु ॥ १४ ॥

राक्षसों के समूह पतङ्गों के तुल्य है और श्रीरघुनाथजी के वाण अग्नि के समान हैं । अतः हे माता ! राक्षसों को भस्म हुआ जानकर हृदय में धीरज धरो ।

जौं रघुवीर होति सुधि पाई * करते नहिं बिलम्बु रघुराई
राम बान रवि उएँ जानकी * तम बरुथ कहँ जातुधान की

हे माता ! यदि श्रीरघुनाथजी ने खबर पाई होती तो-वे कदापि देर नहीं करते । राम-रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों का सेनारूपी अन्धकार कहाँ रह सकता है ?

अबहिं मातु मैं जाउँ लिवाई * प्रभु आयसु नहिं राम दोहाई
कछुक दिवस जननी धरु धीरा * कपिन्ह सहित अइहहि रघुवीरा
निसिचर मारि तोहि लै जैहहि * तिहुँ पुर नारदादि जसु गैहहि

हे माता ! मैं आपको अभी लिवा ले चलूँ, परन्तु प्रभुकी शपथ है कि उनकी ऐसी आज्ञा नहीं है । अतः हे माता ! कुछ दिन और धैर्य धरो, वानरों के सहित श्रीरघुनाथजी यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जावेंगे । उनका यश नारद आदि तीनों लोकों में गावेंगे ।

हैं सुत कपि सब तुम्हहि समाना * जातुधान अति भट बलवाना
मोरे हृदयँ परम सन्देशा * सुनि कपि प्रगट कीन्ह निज देहा

सीताजी बोलीं-हे पुत्र ! सब वन्दर तुम्हारे ही समान छोटे होंगे और राक्षस तो बड़े ही बलवान् हैं । अतः मेरे मन में बड़ी शंका है, यह सुन हनुमानजी ने अपना स्वरूप प्रगट किया ।

कनक भूधराकार शरीरा * समर भयंकर अति बलवीरा
सीता मन भरोस तब भयऊ * पुनि लघुरूप पवनसुत लयऊ

सुमेरु-पर्वत के आकार का युद्ध में बड़ा ही डरावना और बलवान् शरीर था । तब सीताजी

सागर के वचन हृदय में मानकर मंताक-पर्वत तुरन्त उठे और हनुमानजी को हाथ जोड़कर वारम्बार प्रणाम करके कहा कि विश्राम कीजिये ।

दोहा—हनुमान तेहि परसा, कर पुनि कीन्ह प्रनाम ।

राम काजु कोन्हे बिना, मोहि कहाँ विश्राम ॥ १ ॥

हनुमानजी ने हाथ से छुकर उसे प्रणाम किया और बोले—हे भाई ! श्रीरामचन्द्रजी का कार्य किये बिना मुझे विश्राम कहाँ ?

जाद पवनसुत देवन्ह देखा * जाना चहँ बल बुद्धि विसेषा
सुरसा नाम अहिन्ह कै माता * पठइन्हि आइ कही तेहि बाता

देवताओं ने हनुमानजी को जाते हुए देखा तो उनके विशेष बल एवं बुद्धि को जानने के लिए 'सुरसा' नामक साँपों की माता की भेजा, उसने हनुमानजी के पास आकर यह बात कही—
आजु सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा * सुनत वचन कह पवनकुमारा
राम काज करि फिर मैं आवौं * सीता की सुधि प्रभुहि सुनावौं

आज देवताओं ने मुझे अच्छा भोजन दिया है । यह सुनकर हनुमानजी हँसकर बोले—
श्रीरामजी का कार्य करके लौट आऊँ और सीताजी की खबर प्रभु को सुना दूँ ।

तब तब वदन पैठिहउँ आई * सत्य कहउँ मोहि जान दै भाई
कवनेहुँ जतन देइ नहि जाना * ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना

तब आकर तुम्हारे मुख में बँटूँगा । हे माता ! सच कहता हूँ, मुझे जाने दो । जब कितो भी उपाय से न जाने दिया, तब हनुमानजी ने कहा—अच्छा तो मुझे खा क्यों नहीं लेतीं ?

जोजन भरि तेहि बदन पसारा * कपि तनु दुगुन कीन्ह बिस्तारा
सोलह जोजन मुख तेहि ठयऊ * तुरत पवनसुत बत्तिस भयऊ

जब उसने योजन भर का मुख फँलाया, तब हनुमानजी ने अपने शरीर को दुगुना कर लिया । उसने सोलह योजन का मुख किया, तो हनुमानजी तुरन्त बत्तिस योजन के हो गये ।

जस जस सुरसा बदन बढावा * तासु दुगुन कपि रूप देखावा
सत जोजन तेहि आनन कीन्हा * अति लघु रूप पवनसुत लान्हा

सुरसा ने जैसे-जैसे वदन बढ़ाया, उससे दूना रूप हनुमानजी ने दिखाया । जब सुरसा ने सौ योजन का मुख किया, तब हनुमानजी ने बहुत छोटा-सा रूप धारण कर लिया ।

वदन पैठि पुनि बाहेर आवा * मांगी विदा ताहि सिर नावा
मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा * बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा

और सुरसा के मुख में घुसकर फिर तुरन्त बाहर आ गये और सिर नवाकर विदा मांगी । तब सुरसा बोली—मुझे देवताओं ने जिस लिए भेजा था, सो मैंने तुम्हारे बुद्धि और बल का सब भेद जान लिया ।

नाथ एक आवा कपि भारी * तेहि असोक बाटिका उजारी
खाएसि फल अरु विटप उजारे * रच्छक मर्दि मर्दि महि डारे

हे नाथ ! एक बड़ा भारी वन्दर आया है, उसने अशोक-बाटिका उजाड़ दी है। फलों को खाकर, पेड़ों को उखाड़ दिया है और रखवालों को मार-मारकर पृथ्वी पर डाल दिया है।

सुनि रावन पठए भट नाना * तिन्हहि देखि गर्जेउ हनुमाना
सब रजनीचर कपि संघारे * गए पुकारत कछु अधमारे

यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, जिन्हें देखकर हनुमानजी गरजे। कपि ने सब राक्षसों को मार डाला, जो कुछ अधमरे थे, उन्होंने जाकर पुकार की।

पुनि पठयउ तेहिं अच्छकुमारा * चला सङ्ग लै सुभट अपारा
आवत देखि विटप गहि तर्जा * ताहि निपाति महाधुनि गर्जा

फिर रावण ने अक्षयकुमार को भेजा, तो वह असंख्य बड़े-बड़े योद्धा लेकर चला। उसको आते देखकर हनुमानजी ने एक वृक्ष उखाड़ कर ललकारा और उसे मारकर बड़े जोर से गरजे।

दोहा—कछु मारेसि कछु मर्देसि, कछु मिलिएसि धरि धूरि।

कछु पुनि जाय पुकारेसि, प्रभु मर्कट बल भूरि ॥ १७ ॥

कुछ मार डाले, कुछ मसल डाले, कुछ धूल में मिला दिये और कुछ भागकर रावण से जाकर पुकारे—हे नाथ ! वन्दर बड़ा बलवान है।

सुन सुत बध लंकेस रिसाना * पठएसि मेघनाद बलवाना
मारेसि जनि सुत बांधेसु ताही * देखिअ कपिहि कहाँ कर आही

पुत्र का बध सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ और उसने बलवान मेघनाद को भेजा और कहा—हे पुत्र ! उसको मारना नहीं, बांधकर ले आना। जिससे यह देखा जाय कि वह वन्दर कहाँ का आया है ?

चला इन्द्रजित अतुलित जोधा * बन्धु निधन सुनि उपजा क्रोधा
कपि देखा दारुन भट आवा * कटकटाइ गर्जा अरु धावा

इन्द्र को जीतने वाला महायोद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमानजी ने देखा कि यह महान् योद्धा है, तो वे बड़े जोर से गरजे और दौड़े।

अति विशाल तरु एक उखारा * बिरथ कीन्ह लंकेश कुमारा
रहे महाभट ताके सङ्गा * गहि गहिकपि मर्दिहि निज अंगा

एक भारी वृक्ष उखाड़ कर मेघनाद के ऊपर प्रहार कर उसका रथतोड़ उसे रथ से हीन कर दिया। उसके साथ जो बड़े-बड़े वीर योद्धा थे, उन्हें पकड़कर अपने शरीर से मसलने लगे।

तिन्हहि निपाति ताहि सन बाजा * भिरे जुगल मानहुँ गजराजा
मुठिका मारि चढ़े तरु जाई * ताहि एक छन मूरछा आई

उनको मारकर हनुमानजी मेघनाद से लड़ने लगे, मानो दो गजराज भिड़ गये हों। उसे एक

सेना का परकोट रंग-विरंगी मणियों से जड़ा हुआ है, घर बहुत सुन्दर हैं। चौराहे, बाजार, अच्छी सड़कें और गलियों से सुशोभित नगर बहुत उत्तम रीति से बसा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के झुण्ड तथा पैदल और रथों को कौन गिन सकता है? बहुत प्रकार के रूप वाले महाबली राक्षसों की सेना का वर्णन करते नहीं बनता।

वन वाग उपवन वाटिका सर कूप बापों सोहहीं ।
नर नाग सुर गन्धर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहीं ॥
कहुँ माल देइ विसाल सैल समान अति बल गर्जहीं ।
नाना अखारेन्ह भिरहिं बहु विधि एक एकन्ह तर्जहीं ॥

वन, वाग, वगोचे, फुलवाड़ी, तालाब कुँए और बाबड़ी शोभायमान हैं। मनुष्य, नाग और गन्धर्व-कन्यायें अपने रूप से मुनियों के चित्त को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान देह वाले महा बलवान् मल्ल गरज रहे हैं और अनेक अखाड़ों में बहुत भाँति से लड़ रहे हैं तथा एक दूसरे को ललकार रहे हैं।

कर जतन भट कोटिन्ह विकट तन नगर चहुँदिसि रच्छहीं ।
कहुँ महिस मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भच्छहीं ॥
एहि लागि तुलसीदास इन्हकी कथा कछु एक है कही ।
रघुवीर सर तीरथ सरीरन्ह त्यागि गति पैहहिं सही ॥

भयंकर देह वाले योद्धाओं के बल बड़ी सावधानी से नगर के चारों ओर पहरा दे रहे हैं। कहीं राक्षस-भंसे, मनुष्य, गायें, गधे और बकरे भक्षणकर रहे हैं। तुलसी दासजी ने इनकी कथा बहुत थोड़ी सी कही है, क्योंकि यह श्रीरामजी के वाणरूपी तीर्थ में देह छोड़ अवश्य मोक्ष पावेंगे।

दोहा—पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन कोन्ह विचार ।

अति लघु रूप धरौं निसि, नगर करौं पइसार ॥ ३ ॥

बहुत से पहरेदारों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचारा कि बहुत छोटा-सा रूप धारण कर रात्रि के समय नगर में प्रवेश करूँ।

मसक समान रूप कपि धरी * लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी
नाम लंकिनी एक निसिचरी * सो कह चलेसि मोहि निन्दरी

हनुमानजी मच्छर के समान रूप धारण कर मनुष्यों में सिंहरूप श्रीरामजी का स्मरण करके लंका में चले। वहाँ लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी, वह बोली—तू मेरा निरावर करके कहाँ जाता है?

जानेसि नहीं मरमु सठ मोरा * मोर अहार जहाँ लगि चोरा
मुठिका एक महा कपि हनी * रुधिर वमत धरनी ढनमनी
रे शठ ! तू मेरा भेद नहीं जानता कि सब चोर ही मेरे आहार हैं। कपि ने उसके एक घूँसा

मारे निसिचर केहि अपराधा * कहुसठतोहि न प्रान कइ बाधा
सुनु रावन ब्रह्माण्ड निकाया * पाइ जासु बल विरचित माया

तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रेमूर्ख! क्या तुझे प्राणों का भय नहीं? (हनुमानजी बोले-) हे रावण! सुन, जिस पर ब्रह्म के बल से माया अनेक ब्रह्मांडों की रचना कर डालती है-

जाकेँ बल बिरञ्चि हरि ईसा * पालत सृजत हरत दससीसा
जा बल सीस धरत सहसानन * अण्डकोष समेत गिरि कानन

जिसके बल से ब्रह्मा, विष्णु और महादेव-तीनों संसार को रचते, पालते और नाश करते हैं और जिसके बल से शेषजी जंगलों और पर्वतों सहित पृथ्वी को सिर पर धारण किये हैं।

धरइ जो विविध देह सुरत्राता * तुम्ह से सठन्ह सिखावनु दाता
हर कोदण्ड कठिन जेहि भञ्जा * तेहि समेत नृप दल मद गञ्जा

खरदूषन त्रिशिरा अरु बाली * बधे सकल अतुलित बलसाली

जो ईश्वर देवताओं की रक्षा के लिये और तुम्हारे जैसे दुष्टों को दंड देने के लिए नाना प्रकार के रूप धारण किये, जिसने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ा और सब राजाओं के घमंड का नाश कर दिया और जिसने खर, दूषण, त्रिशिरा, बालि आदि बड़े २ योद्धाओं का बध कर डाला।

दोहा-जाके बल लवलेस ते, जितहु चराचर झारि ।

तासु दूत मैं जासु तुम्ह, हरि आनेहु प्रिय नारि ॥ २० ॥

जिसके बल के लेश-मात्र से तूने सब चराचर (विश्व) को जीत लिया, जिसकी प्यारी स्त्री को तू चुरा लाया है, मैं उन्हीं का दूत हूँ ।

जानउँ मैं तुम्हारि प्रभुताई * सहसबाहु सन परी लराई
समर बालि सन करि जसु पावा * सुनि कपिवचन बिहँसि बिहरावा

तुम्हारी प्रभुता को मैं जानता हूँ। तुम सहस्रबाहु से लड़े थे और बालि के साथ युद्ध करके तो तुम्हें बड़ा यश प्राप्त हुआ था। हनुमानजी के ऐसे वचन सुनकर रावण ने हँसकर टाल दिया।

खायउँ फल प्रभु लागी भूखा * कपि सुभाव तें तोरेउँ रूखा
सब केँ देह परम प्रिय स्वामी * मारेहु मोहि कुमारग गामी

हे स्वामी! मुझे भूख लगी थी, इसलिये मैंने फल खाये और वानरी-स्वभाव से वृक्षों को तोड़ा। हे दैत्यराज! अपना शरीर सबको प्रिय है, कुमार्गी राक्षस मुझे मारने लगे।

जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारे * तेहि पर बाँधेउँ तनयँ तुम्हारे
मोहि न कछु बाँधे कइ लाजा * कीन्ह चहउँ निज प्रभु कर काजा

जिन राक्षसों ने मुझे मारा-उनको मैंने भी मारा, इस पर भी तुम्हारा पुत्र मेघनाद मुझे बाँध लाया। मुझको अपने बाँधे जाने की कुछ लाज नहीं है, मैं अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ।

विनती करउँ जोरि कप रावन * सुनहु मान तजि मोर सिखावन

श्रीरामजी के धनुष बाण से अद्भुत उस सुन्दर मन्दिर की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ तुलसी के नवीन वृक्ष समूहों को देखकर हनुमानजी बहुत प्रसन्न हुए।

लंका निसिचर निकर निवासा * इहाँ कहाँ सज्जन कर वासा
मन महुँ तरक करै कपि लागा * तेहीं समय विभीषणु जागा

परन्तु लंका में तो राक्षस-समूहों का निवास है, यहाँ सज्जन का वास कहाँ ? इस प्रकार मन में हनुमानजी तर्क करने लगे, उसी समय विभीषण जागे।

राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा * हृदय हंरषि कपि सज्जन चीन्हा
एहि सन हठि करिहउँ पहिचानी * साधु ते होइ न कारज हानी

उन्होंने 'राम-राम' स्मरण किया, सुनते ही हनुमानजी प्रसन्न हुए और उन्हें सज्जन जाना। (उन्होंने सोचा कि) इनसे हठ करके परिचय करूँगा, साधुजन से कार्य की हानि नहीं होती।

विप्र रूप धरि वचन सुनाए * सुनत विभीषण उठि तहँ आए
करि प्रनाम पूछी कुसलाई * विप्र कहहु निज कथा बुझाई

ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमानजी ने वचन सुनाया, सुनते ही विभीषण उठकर वहाँ आये। प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा-हे विप्र ! अपनी कथा समझाकर कहिये।

की तुम्ह हरि दासन्ह महुँ कोई * मोरें हृदय प्रीति अति होई
की तुम्ह राम चरन अनुरागी * आयहु मोहि करन बड़भागी

क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं ? क्योंकि मेरे हृदय में बहुत प्रीति उत्पन्न हो रही है। अथवा आप श्रीरामजी के चरणों के कोई प्रेमी हैं-जो मुझे बड़भागी करने आये हैं ?

दोहा-तब हनुमन्त कही सब, राम कथा निज नाम।

सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुनग्राम ॥ ६ ॥

तब हनुमानजी ने सब राम-कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गये और श्रीरामजी के गुण-समूह स्मरण कर दोनों के मन प्रेम-मग्न हो गये।

सुनहु पवनसुत रहनि हमारी * जिमि दसनहि महुँ जीभ विचारी
तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा * करिहहि कृपा भानुकुल नाथा

(विभीषण बोले-) हे पवन पुत्र हनुमानजी ! सुनो, यहाँ हमारा रहना ऐसा है जैसे दाँतों में बेचारी जीभ रहती है। हे तात ! मुझे अनाथ जानकर क्या कभी श्रीरामजी मुझ पर कृपा करेंगे ?

तामस तनु कछु साधन नाही * प्रीति न पद सरोज मन माहीं
अब मोहि भा भरोस हनुमन्ता * विनु हरिकृपा मिलहि नहि सन्ता

मेरा तमोगुणी (राक्षस) शरीर है, साधन भी नहीं है, मनमें श्रीरामजी के चरणों में प्रीति भी नहीं है, परन्तु हे हनुमानजी ! अब मुझे विश्वास हुआ कि श्रीहरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते।

जौ रघुवीर अनुग्रह कीन्हा * तौ तुम्ह मोहि दरसु हठि दीन्हा

जदपि कही कपि अति हित बानी * भगति विवेक बिरत नय सानी
बोला बिहँसि महा अभिमानी * मिलाहमहिकपि गुरु बड़ ग्यानी

यद्यपि हनुमानजी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भरी हुई बड़ी भलाई की बात कही, तो भी अभिमानी रावण हँसकर कहने लगा कि यह बन्दर तो मुझे बड़ा ग्यानी गुरु मिला है।

मृत्यु निकट आई खाल तोही * लागेसि अधम सिखावन मोही
उल्टा होइहि कह हनुमाना * मतिभ्रम तोर प्रगट मैं जाना

रे दुष्ट! तेरी मृत्यु निकट आ गई और तू उपदेश देने चला है। (हनुमानजी बोले-) इसका उल्टा होगा, (अर्थात्-तेरी मौत निकट आ गई है) तुझे मति-भ्रम हो गया है, ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञात होता है।

सुनि कपि बचन बहुत खिसिआना * हरहु न बेगि मूढ़ कर प्राणा
सुनत निसाचर मारन धाए * सचिवन्ह सहित विभीषनु आए

हनुमानजी के वचन सुन रावण बहुत क्रोधित होकर बोला-इस मूर्ख के प्राण ही क्यों नहीं ले लेते? यह सुनकर राक्षस मारने दौड़े, उसी समय मन्त्रियों सहित विभीषण आ गये।

नाइ सीस करि विनय बहूता * नीति विरोध न मारिअ दूता
आन दण्ड कछु करिअ गोसाँई * सबही कहा मन्त्र भल भाई

शीश नवाकर और बहुत विनय करके विभीषण ने रावण से कहा-हे महाराज! दूत को मारना उचित नहीं। यह नीति के विरुद्ध है, अतः इसे कोई और दंड दीजिये। सबने कहा-हे भाई! यह सलाह ठीक है।

सुनत बिहँसि बोला दसकन्धर * अंग भंग कर पठइअ बन्दर

यह सुनकर रावण हँसकर कहने लगा-अच्छा, इस वानर के अंग-भंग करके भेज दो।

दोहा-कपि के ममता पूँछ पर, सबहि कहउँ समुझाइ।

तेल बोरि पट बाँधि पुनि, पावक देहु लगाय ॥ २३ ॥

मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बन्दर की ममता पूँछ पर अधिक रहती है। अतः उसी को तेल में डुबाकर, कपड़ा बाँधकर आग लगा दो।

पूँछहीन बन्द तहँ जाइहि * तब सठ निज साथहि लै आइहि
जिन्हके कीन्हिसि बहुत बड़ाई * देखेउँ मैं तिन्ह कै प्रभुताई

यह बन्दर पूँछ-हीन होकर वहाँ जायगा, तब यह मूर्ख अपने स्वामी को लेकर आवेगा। जिनकी इसने बहुत ही बड़ाई की है, मैं उनकी प्रभुता देखना चाहता हूँ।

बचन सुनत कपि मन मुसुकाना * भइ सहाय सारद मैं जाना
जातुधान सुनि रावन वचना * लागे रचै मूढ़ सोइ रचना

यह वचन सुनकर हनुमानजी मन में मुस्कराये कि मुझे ज्ञात होता है-सरस्वतीजी ने सहायता की है। रावण के वचन सुन मूर्ख निसाचर वही तैयारी करने लगे।

रहा न नगर बसन घृत तैला * बाड़ी पूँछ कीन्ह कपि खेला

तब पल्लव महँ रहा लुकाई * करइ विचार करौ का भाई
तेहि अवसर रावणु तहँ आवा * सङ्ग नारि बहु किए बनावा
हनुमानजी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई ! अब क्या करना
चाहिये ? उसी समय रावण आ पहुँचा, उसके साथ शृङ्गार किये बहुत-सी स्त्रियों थीं ।

बहु विधि खल सीतहि समुझावा * साम दाम भय भेद दिखावा
कह रावणु सुनु सुमुखि सयानी * मन्दोदरी आदि सब रानी
उस दृष्ट ने सीताजी को बहुत भाँति से समझाकर साम, दाम, भय और भेद दिखाया ।
रावण बोला—हे चतुर सुन्दर सुन्दरी ! सुनो, मन्दोदरी आदि सब रानियों को—

तब अनुचरी करउँ पन मोरा * एक वार बिलोकु मम ओरा
तून धरि ओट कहति वैदेही * सुमिरि अवधिपति परम सनेही
मैं तुम्हारी दासी बनाऊँगा—यह मेरी प्रतिज्ञा है, तुम एक वार मेरी ओर देख लो ।
तब सीताजी परम स्नेही श्रीरामजी का स्मरण कर, तिनके को आड़ में रखकर बोलीं—

सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा * कबहुँ कि नलिनी करइ बिकाशा
अस मन समुझि कहति जानकी * खल सुधि नहिं रघुवीर वानकी
रे दशमुख ! सुन, क्या जुगुन के प्रकाश से कमलिनी कमी खिलती है ? तू ऐसा ही मन
में समझ ले । फिर जानकीजी बोलीं—रे दुष्ट ! क्या तुझे श्रीरघुनाथजीके वाण की सुधि नहीं ?

सठ सूनें हरि आनेहि मोही * अधम निलज्ज लाज नहिं तोही
रे मूख ! तू मुझे सुने में हर लाया है, रे अधम निलज्ज ! तुझे श्राव नहीं आती ?
दोहा—आपुहि सुनि खद्योत सम, रामहि भानु समान ।

पुरुष वचन सुनि काढ़ि असि, बोला अति खिसिआन ॥ ८ ॥
अपने को 'जुगुन' के समान और श्रीरामचन्द्रजी को 'सूर्य' के समान सुनकर तथा कठोर
वचन सुन रावण बहुत खिसिया कर क्रोध में तलवार निकाल कर बोला—

सीता तें मम कृत अपमाना * कटिहउं तब सिर कठिन कृपाना
नाहिं त सपदि मानु मम बानी * सुमुखि होति न त जीवन हानी
हे सीते ! तूने मेरा अपमान किया है, इसलिये तेरा सिर इस पंती तलवार से काटता हूँ,
नहीं तो—जल्दी से मेरी बात मान ले । हे सुमुखी ! नहीं मानेगी तो जीवन की हानि होगी ।

श्याम सरोज दाम सम सुन्दर * प्रभु भुजकरिकर सम दसकन्धर
सो भुजकण्ठ कि तब असिघोरा * सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा
(सीताजी बोलीं—)रे मूख ! सुन, प्रभु की भुजा—जो नील-कमलकी माला के समान व
हाथी की सूँड़ के समान सुन्दर हैं, या तो वह भुजा ही मेरे कण्ठ में पड़ेगी या तेरी कठोर
तलवार ही पड़ेगी—ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है ।

फिर हनुमानजी पूँछ बुझाकर थकावट दूर करके और छोटा-सा रूप बनाकर जानकीजी के आगे हाथ जोड़कर जा खड़े हुए ।

मातु मोहि दीजै कछु चीन्हा * जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा
चूड़ामणि उतार तब दयऊ * हरष समेत पवनसुत लयऊ

और बोले-हे माता ! मुझे कुछ चिन्ह दीजिये, जैसे रघुनाथजी ने मुझे (मुद्रिका) दी थी । तब सीताजी ने चूड़ामणि उतार कर दी तो हनुमानजी ने उसे प्रसन्नता पूर्वक ले लिया ।

कहेउ तात अस मोर प्रनामा * सब प्रकार प्रभु पूरन कामा
दीनदयालु विरिदु सम्भारी * हरहु नाथ मम संकट भारी

(सीताजी बोलीं-) हे तात ! प्रभु से मेरा प्रणाम कहकर, ऐसा कहना कि हे प्रभु ! आप तो सब प्रकार से पूर्णकाम हैं । अतः आप अपने दीनदयालु होने के यश को याद करके मेरे भारी संकट को दूर करिये ।

तात सक्रसुत कथा सुनाएहु * बान प्रताप प्रभुहि समुझाएहु
मास दिवस महँ नाथ न आवा * तौ पुनि मोहि जिअत नहिं पावा

हे तात ! इन्द्र के पुत्र जयन्त की कथा सुनाना और प्रभु को उनके वाण का प्रताप स्मरण कराना । हे नाथ ! यदि आप महीने भर में न आवेंगे, तो मुझे जीवित न पावेंगे ।

कहु कपिकेहि विधि राखौ प्राणा * तुम्हहँ तात कहत अब जाना
तोहि देखि सीतल भइ छाती * पुनि मोकहँ सोइ दिन सोइ राती

हे कपि ! कहो, मैं किस तरह अपने प्राण रक्खूँ ? तुम भी तो अब जाने के लिए कहते हो । तुम्हें देखकर कुछ छाती ठण्डी हुई थी, अब फिर मेरे लिए वही दिन और वही रात होगी ।

❀ क्षेपक-श्रीजानकीजी का विरह वर्णन ❀

दोहा-जिमि मणि बिनु व्याकुल भुजंग, जल बिनु व्याकुल मीन ।

तिमि देखे रघुनाथ बिनु, तलफत हौं मैं दीन ॥ १ ॥

जैसे मणि के बिना सर्प व्याकुल रहता है और जल के बिना मछली व्याकुल रहती है, वैसे ही श्रीरघुनाथजी को देखे बिना मैं दुखी हूँ ।

कव धौं विधि पहुँचाइ हैं, फिर कोसलपुर तात ।

भरत शत्रुघ्न लोग सब, कब लइहँ सुद मात ॥ २ ॥

हे तात हनुमानजी ! न जाने विधाता हमें अयोध्या फिर कब पहुँचावेगा । सब माताओं सहित भरत, शत्रुघ्न और अन्य सभी लोग कब आनन्द पावेंगे ?

होइहि मङ्गल काजु सब, पुजि हैं याचक काम ।

नखसिख कब अवलोकि हौं, रघुपति छबि अभिराम ॥ ३ ॥

कब समस्त मंगल कार्य सिद्ध होंगे और याचकों की इच्छायें पूर्ण होंगी । मैं श्रीरामजी

मास दिवस बीतें मोहि, मारहि निसचर पोच ॥ ११ ॥

सब इधर-उधर चली गई, तब सीताजी मन में चिन्ता करने लगीं कि एक महीने बाब नीच राक्षस मुझे मार डालेगा ।

त्रिजटा सम बोली कर जोरी * मातु विपति सङ्गिनि तै मोरी
तजौं देह कर बेगि उपाई * दुसह विरह अब नहि सहि जाई

सीताजी त्रिजटा से हाथ जोड़कर बोलीं-हे माता ! विपति में मेरा साथ देने वाली तुम्हीं हो, कोई ऐसा उपाय शीघ्र करो, जिससे मैं अपना शरीर छोड़ दूँ। दुःसह विरह अब सहा नहीं जाता ।

आनि काठि रचि चिता बनाई * मातु अनल पुनि देह लगाई
सत्य करहि मम प्रीति सयानी * सुनै को श्रवन सूल सम वानी

हे माता ! तुम लकड़ी लाकर चिता बनादो और फिर उसमें आग लगादो । हे सयानी ! तुम मेरी प्रीति को सत्य करदो । अब इन कानों से शूल के समान वचन कौन सुने ?

सुनत वचन पदगहि समुझाएसि * प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसि
निसिन अनल मिलि सुनु सुकुमारी * असि कहि सो निज भवन सिधारी

त्रिजटा ने वचन सुनकर चरण पकड़कर उन्हें समझाया और श्रीरामजी का बल, प्रताप और सुयश सुनाया । (वह बोली-) हे राजकुमारी ! सुनो, रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी, ऐसा कहकर वह अपने घर को चली गई ।

कह सीता विधि भा प्रतिकूला * मिलहि न पावक मिटहि न सूला
देखियत प्रकट गगन अङ्गारा * अबनि न आवत एकउ तारा

सीताजी मन में कहने लगीं-देव ही मेरे प्रतिकूल हो गया, न तो अग्नि ही मिलती है, न दुःख ही दूर होता है । आकाश में अंगारे दिखाई दे रहे हैं, परन्तु पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं गिरता ।

पावकमय ससि खवत न आगी * मानहुँ मोहि जानि हत भागी
सुनिहि विनयमम विटप असोका * सत्य नाम करु हरु मम सोका

चन्द्रमा भी अग्निमय है, परन्तु मुझे भाग्यहीन जानकर यह भी अग्नि नहीं बरसाता । हे अशोक वृक्ष ! मेरी विनय सुन, मेरा शोक दूर और अपने नाम को सत्य कर ।

नूतन किसलय अनल समाना * देहु अग्नि जनि करहु निदाना
देखि परम बिरहाकुल सीता * सो छन कपिहि कल्प समवीता

तेरे नवीन पत्ते आग के समान लाल हैं । अग्नि दे, विरह की सीता को न जला सीताजी को विरह से अत्यन्त व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमानजी को कल्प के समान बोला ।

सो०-कपि करि हृदय विचारि, दीन्ह मुद्रिका डारि तब ।
जनु असोक अङ्गार, दीन्ह हरषि उठि करगहेउ ॥ १ ॥

तब हनुमानजी ने हृदय में विचार कर अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया हो । सीताजी ने प्रसन्न होकर उसे उठा लिया ।

दोहा-कम्बु कण्ठ तुलसी सुभग, मणि मोतिन की माल ।

उर विसाल अबलोकि हौं, कब त्रिबली सुख जाल ॥११॥

शंख के समान कण्ठ, जिसमें सुन्दर तुलसी और मणियों की माला पहिने हैं, विशाल वक्ष-स्थल और सुख की तीन रेखाओं को मैं कब देखूँगी ?

भुज विशालकरिकरिसुरिस, करतल कमल समान ।

सहित विभूषण देखि हौं, कब लीन्हें धनु बान ॥१२॥

हाथों की सूँड़ के समान विशाल भुजाओं तथा कमल के समान हाथों को -जो कि आभूषणों से युक्त हैं, धनुष-वाण लिए मैं कब देखूँगी ?

झीग झगा पहिरें ललित, ता ऊपर पटपीत ।

कब निज नयन सिराहि हौं, देखि उदर उपवीत ॥१३॥

सुन्दर महीन झबला पहिने उस पर पीताम्बर डाले, यज्ञोपवीत से युक्त प्रभु के उदर का दर्शन मैं अपने नेत्रों से कब करूँगी ?

। इति क्षेपक ।

दोहा-जनक सुतहि समुझाइ कर, बहु विधि धीरज दीन्ह ।

चरन कमलसिर नाइ कपि, गवनु राम पहिं कीन्ह ॥२६॥

हनुमानजी ने सीताजी को बहुत प्रकार से समझा कर धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्रीरामचन्द्रजी के पास चल दिये ।

चलत महाधुनि गर्जेसि भारी * गर्भ सर्वाहिं सुनि निसिचर नारी

नाँधि सिंधु एहि पारहि आवा * सबद किलकिला कपिन्ह सुनावा

चलते समय बड़े जोर की गर्जना की, जिसे सुनकर निशाचरों की स्त्रियों के गर्भ गिर गये । समुद्र के इस पार आये, तब वानरों ने आनन्द-ध्वनि सुनाई ।

हरषे सब बिलोकि हनुमाना * नूतन जन्म कपिन्ह तब जाना

मुख प्रसन्न तन तेज विराजा * कीन्हेसि रामचन्द्र कर काजा

हनुमानजी को देखकर सब बहुत प्रसन्न हुए और अपना नया जन्म समझा । हनुमानजी का मुख प्रसन्न था और शरीर में तेज विराजमान था । उसे देखकर वे जान गये कि यह श्रीरामचन्द्रजी का कार्य कर आये हैं ।

मिले सकल अति भए सुखारी * तलफत मीन पाव जिमि बारी

चले हरिष रघुनायक पासा * पूँछत कहत नबल इतिहासा

सब बड़ी प्रसन्नता से सुखी होकर मिले, जैसे तड़पती हुई मछली को पानी मिल जावे । सब वानर प्रसन्न हो नई-नई कथायें कहते और नवीन इतिहास पूछते हुए रघुनाथजीके पास चले

तब मधुवन भांतर सब आए * अङ्गद सम्मत मधु फल खाए

(सीताजी बोलीं-) हे हनुमान ! वियोगरूपी समुद्र में गोते खाती मुझको तुम नावरूप हो गये ।
अब कहू कुसल जाऊँ बलिहारी * अनुज सहित सुख भवन खरारी
कोमल चित कृपालु रघुराई * कपि केहि हेतु धरी निठुराई

अब सुखधाम प्रभु की कुशल कहो, मैं बलिहारी जाऊँ-भाई सहित खर के शत्रु-श्रीरामजी तो कोमल हृदय और ब्यालु हैं । हे तात ! फिर किस कारण से यह निष्ठुरता धारण करली है ?
सहज बानि सेवक सुखदायक * कबहुँक सुरति करत रघुनायक
कबहुँ नयन मम सीतल ताता * होइहहि निरखिश्याम मृदुगाता

आपने सेवकको सुख देना तो उनकी स्वाभाविक आदत है । क्या वे कभी मेरी याद भी करते हैं ? हे तात ! क्या कभी उनके कोमल श्याम शरीर को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे ?
वचनु न अब नयन भरे बारी * अहहं नाथ हौं निपट विसारी
देखि परम विरहाकुल सीता * बोला कपि मृदु वचन विनीता

मुख से वचन नहीं आता, नेत्रों में जल भर आया । हा नाथ ! आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया । सीताजी को विरह से व्याकुल देखकर हनुमानजी सुन्दर और विनययुक्त वचन बोले-
मातु कुसल प्रभु अनुज समेता * तब दुखु दुखी सुकृपा निकेता
जनि जननी मानहुँ जियँ ऊना * तुम्ह ते प्रेम राम केँ दूना

हे माता ! कृपानिधान प्रभु लक्ष्मणजी सहित कुशल से हैं, परन्तु वे आपके वियोग में बड़े दुःखी हैं । हे माता ! मन को छोटा न करिये, उनके हृदय में आपसे दूना प्रेम है ।

दोहा-रघुपति कर सन्देशु अब, सुनु जननी धरि धीर ।

अस कहि कपि गद्गद् भयउ, भरे विलोचन नीर ॥ १३ ॥

हे माता ! अब श्रीरघुनाथजी का सन्देश धैर्य पूर्वक सुनिये । ऐसा कहकर हनुमानजी गद्गद् होगये और उनकी आँखों में प्रेमाश्रु भर आये ।

कहेउ राम वियोग तब सीता * मो कहूँ सकल भए विपरीता
नव तरु किसलय अनल कसानु * कालनिसा सम निसि ससि भानु

(हनुमानजी बोले-) श्रीरामजी ने कहा है कि हे सीते ! तुम्हारे वियोग में मुझे सब वस्तुएं विपरीत होगई हैं । वृक्षों के नये पत्ते अग्नि के समान, रात्रि काल के समान और चन्द्रमा-सूर्य के समान तथा-

कुबलय विपिन कुन्त वन सरिसा * बारिद तृसत तेल जनु वरिसा
जे हित रहे करत तेइ पोरा * उरग स्वांस समत्रिविध समीरा

कमल-वन भालों के वन के समान हो गये हैं । बादल मानो गर्म तेल बरसाते हैं और जो हितदी वे, ये पीड़ा देने वाले होगये हैं, त्रिविध-वायु साँप की कुसकार के समान होगई है ।

कहेहूँ तैं कछु दुखु घटि होई * काहि कहौ यह जान न कोई
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा * जानत प्रिया एकु मनु मोरा

सोइ विजयी विनयी गुन सागर * तासु सुजसु त्रैलोक उजागर
प्रभु की कृपा भयउ सबु काजू * जन्म हमार सुफल भा आजू

वही विजय-विनयी और वही गुणों का समुद्र है, उसीका उज्ज्वल यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। हे नाथ ! आपकी कृपा से सब काम पूर्ण हो गया और हमारा जन्म सफल हो गया।

नाथ पवनसुत कीन्ह जो करनी * सहसहुँ मुख न जाइ सो वरनी
पवन तनय के चरित सुहाए * जामवन्त रघुपतिहि सुनाए

हे नाथ ! हनुमानजी ने जो कार्य किया है, वह हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जामवन्त ने हनुमानजी के मनोहर चरित्र श्रीरघुनाथजी को सुनाये।

सुनत कृपानिधि मन अति भाए * पुनि हनुमान हरषि हियँ लाए
कहहु तात केहि भाँति जानकी * रहित करित रक्षा स्वप्रान को

सुनकर कृपासिधु के मनको-वे बहुत प्रिय लगे और उन्होंने हनुमानजी को प्रसन्न हो फिर हृदय से लगा लिया और बोले-हे तात जानकीजीकिस प्रकार अपने प्राणोंकी रक्षा करती हैं?

दोहा—नाम पाहरू दिवस दिसि, ध्यान तुम्हार कपाट।

लोचन निज पद जन्त्रित, जाहिं प्रान केहि बाट ॥२६॥

(हनुमानजी बोले—) आपका 'नाम' अहिंनिस रक्षक है, आपका 'ध्यान' ही किवाड़ हैं, नेत्रों में आपके 'चरणरूपी' ताले पड़े हैं, फिर यह बाण किस मार्ग से जावे ?

चलत मोहि चूड़ामनि दीन्ही * रघुपति हृदयँ लाइ सोइ लीन्ही
नाथ जुगल लोचन भरि बारी * बचन कहे कछु जनक कुमारी

चलते समय मुझे यह चूड़ामणि दी है। जिसे लेकर श्रीरघुनाथजी ने हृदय से लगा लिया हे नाथ ! दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकीजी ने कुछ वचन कहे हैं—

अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना * दीनबन्धु प्रनतारित हरना
मन क्रम वचन चरन अनुरागी * केहि अपराध नाथ हौं त्यागी

भाई लक्ष्मणजी सहित प्रभु के चरण पकड़कर विनय करना कि आप दीनबन्धु व शरणागत के दुःख दूर करने वाले हैं। फिर मैं तो मन, कर्म और वचन से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ, फिर किस अपराध से प्रभु ने मुझे त्याग दिया ?

अवगुन एक मोरि मैं माना * बिछुरत प्रान न कीन्ह पयाना
नाथ सो नयनन्हि को अपराधा * निसरत प्रान करहि हट बाधा

हाँ एक अपराध मैं स्वीकार करती हूँ कि आपके बिछुड़ते ही मेरे प्राण नहीं चले गये। हे नाथ ! यह अपराध तो नेत्रों का है, जो प्राणों के निकलने में हठ करके बाधा करते हैं,

बिरह अगिनि तनु तूल समीरा * स्वाँस जरइ छन माँहि सरीरा
नयनस्रवाहिं जलुनिज हितलागी * जरै न पाव देह बिरहागी

के मन में भरोसा हुआ। हनुमानजी ने फिर वही छोटा रूप धारण कर लिया और बोले—
दोहा—सुनु माता साखा मृग, नहिं बल बुद्धि विस्माल।

प्रभु प्रताप तैं गरुड़हि, खाय परम लघु व्याल ॥१५॥

हे माता! सुनो, वन्दरों में बुद्धि-बल अधिक नहीं होता है, परन्तु प्रभु के प्रताप से छोटा-सा साँप भी गरुड़ को खा सकता है।

मन सन्तोष सुनत कपि बानी * भगति प्रताप तेज बल सानो
आसिष दोन्ह राम प्रिय जाना * होहु तात बल सील निधाना

भक्ति, प्रताप, तेज और बल से भरे वचन सुनकर सीताजी के मन में सन्तोष हुआ। हनुमानजी को श्रीरामचन्द्रजी का प्रिय जानकर सीताजी ने आशीर्वाद दिया कि हे तात! तुम बल एवं बुद्धि के मण्डार होओ।

अजर अमर गुननिधि सुत होहु * करहिं बहुत रघुनायक छोहु
करहिंकृपा प्रभु अस सुनि काना * निर्भर प्रेम मगन हनुमाना

तुम्हें बुढ़ापा न आये तथा अमर और गुणनिधान होओ, श्रीरघुनाथजी तुम पर सदा कृपा करें। 'श्रीरामजी सदा कृपा करें' ऐसा कानों से सुनकर हनुमानजी प्रेम में मग्न हो गये।

बार बार नाएसि पद सीसा * बोला वचन जोरि कर कीसा
अब कृतकृत्य भयउँ मै माता * आसिष तब अमोघ विख्याता

बारम्बार सीताजी के चरणों में सिर नवाकर कपि हाथ जोड़कर बोले—हे माता! अब मैं कृतार्थ होगया हूँ, आपका आशीर्वाद बटल है—यह बात प्रसिद्ध है।

सुनहुमातु मोहि अतिसय भूखा * लागि देखि सुन्दर फल रुखा
सुनु सुत करहिं विपिन रखवारी * परम सुभट रजनीचर भारी

तिन्हकर भय माता मोहि नाहीं * जाँ तुम्ह सुख मानहुँ मन माहीं

हे माता! सुनो, वृक्षों में सुन्दर फल लगे देख-मुझे बड़ी भूख लगी है। (सीताजी बोलीं—) हे पुत्र! इस वनीचे की रक्षा बड़े ही बलवान् राक्षस-योद्धा करते हैं। (हनुमानजी ने कहा—) हे माता! यदि आप मन में सुख मानें तो—मुझे उनका कुछ भी डर नहीं है।

दोहा—देखि बुद्धिबल निपुन कपि, कहेहु जानकी जाहु।

रघुपति चरन हृदयँ धरि, तात मधुर फल खाहु ॥१६॥

जानकीजी ने हनुमानजी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर कहा—हे तात! जाओ, श्रीरघुनाथजी के चरणों की हृदय में रख मोठे फल खाओ।

बलेउ नाइ सिर पैठेउ बागा * फल खाएसि तरु तोरें लागा
हे तहाँ बहु भट रखवारे * कछु मारेसि कछु जाइ पुकारे

हे सीताजी को सिर नवाकर बाग में घुसे और फलों को छाकर वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुतसे योद्धा राक्षस थे। उनमें से कुछ तो मार डाले, कुछों ने रावण के पास जाकर पुकार की।

प्रभु के कर-कमल हनुमानजी के सर पर हैं, उस वसा को स्मरण कर शिवजी प्रेम-भगन होगये ।
सावधान मन करि पुनि शंकर * लागे कहन कथा अति सुन्दर
कपि उठाइ पुनि हृदय लगावा * कर गहि परम निकट बैठाया

फिर शिवजी मन को सावधान कर अति सुन्दर कथा कहने लगे । प्रभु ने हनुमानजी को उठाकर हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर निकट बैठाया ।

कहु कपि रावन पालित लंका * केहि विधि दहेउ दुर्ग अति वंका
प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना * बोला वचन विगत अमिमाना

वे बोले-हे हनुमान ! यह तो बताओ कि रावण ने रक्षित लंका के उस सुदृढ़ किले को तुमने किस प्रकार जलाया ? प्रभु को प्रसन्न जानकर हनुमान अमिमान रहित वचन बोले-

साखा मृग के वडि मनुसाई * साखा ते साखा पर जाई
नांघि सिन्धु हाटक पुर जारा * निसिचरगन वधि विपिन उजारा
सो सब तब प्रताप रघुराई * नाथ न कछु मोरि प्रभुताई

हे नाथ ! वन्दरों में केवल इतना ही बल होता है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर कूद सके जैसे जो समुद्र लाँघकर स्वर्ण का नगर जलाया और निशाचरों को मारकर अशोक-वाटिका उजाड़ दी । हे श्रीरघुनाथजी ! यह आपका ही प्रताप है, इसमें मेरी कुछ प्रभुता नहीं है ।

दोहा-ताकहुँ प्रभु कछु अगम नाहि, जापर तुम्ह अनुचूल ।

तब प्रताप बड़वानलहि, जारि सकइ खलु तूल ॥३२॥

हे नाथ ! जिस पर आप प्रसन्न हो, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है । आपके प्रताप से वही भी अग्नि को भस्म कर सकता है ।

नाथ भगति अति सुख दायनी * देहु कृपा करि अनपायनी
सुनि प्रभु परम सरल कहि वानी * एवमस्तु तब कहेउ भवानी

हे नाथ ! सब सुखों को देने वाली निश्चल-भक्ति मुझे कृपा करके दीजिए । हे पार्वती ! हनुमानजी की अत्यन्त सरल वाणी सुनकर प्रभु ने एवमस्तु कहा ।

उमा राम सुभाउ जेहि जाना * ताहि भजनु तजि भावन आना
यह संवाद जासु उर आवा * रघुपति चरन भगति सोइ पावा

हे पार्वती ! जिन्होंने श्रीरामजी का स्वभाव जान लिया है, उन्हें भजन छोड़कर दूसरी कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती । यह कथा जिसके हृदय में आ गई, वह श्रीरघुनाथजी के चरणों की भक्ति पागया ।

सुनि प्रभु वचन कर्हि कपिवृन्दा * जय जय जय कृपा सुखकन्दा
तब रघुपति कपि पतिहि बोलावा * कहा चलै कर करहु वनावा

प्रभु के वचन सुन वानरों के समूह कहने लगे-दयाल आनन्दकन्द श्रीरामजी को जय हो जय हो ! तब श्रीरघुनाथजी ने मुग्रीब को बुलाया और कहा की अब चलने की तैयारी करो ।

धूसार मारकर हनुमानजी पेड़ पर जा चढ़े और उसे क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई।

उठि बहोरि कीन्हेसि बहु माया * जीति न जाई प्रभञ्जन जाया

फिर उठकर उसने बहुत-सी माया रची, परन्तु फिर भी पवन-पुत्र हनुमानजी जीते नहीं जाते।

दोहा—ब्रह्म अस्त्र तेहि साँधा, कपि मन कीन्ह विचार।

जौ न ब्रह्म सर मानउँ, महिमां मिटइ अपार ॥ १ ८ ॥

तब उसने ब्रह्मास्त्र लिया। हनुमानजी ने मन में विचार किया कि यदि इस ब्रह्म-अस्त्र को निष्फल करता हूँ तो इसकी अपार महिमा घट जायगी।

ब्रह्मबान कपि कहूँ तेहि मारा * परतिहुं वार कटकु संधारा

तेहि देखा कपि मुरछित भयऊ * नागपाश वाँधेसि ले गयऊ

उसने हनुमानजी को ब्रह्मास्त्र मारा, परन्तु गिरते समय भी बहुत-सी सेना का नाश कर दिया। जब उसने जाना कि हनुमानजी मूर्छित हो गये, तब इन्हें नागपाश में बाँधकर ले गया।

जासु नाम जपि सुनहु भवानी * भव बन्धन काटहि नर ग्यानी

तासु दूत कि बँधि तर आवां * प्रभु कारजु लागि कपिहि बँधावा

हे पावती! सुनो, जिसका नाम जपकर जानी मनुष्य संसार के बन्धन से छूट जाते हैं, उनका दूत भी कहीं बंध सकता है? किन्तु स्वामी के कार्य के लिये हनुमान ने अपने को बंधा लिया?

कपि बन्धन सुनि निसिचर धाए * कोतुक लागि सभाँ सब आए

दसमुख सभा देखि कपि जाई * कहि न जाइ कछु अति प्रभुताई

चन्द्र का बाँधा जाना सुन राक्षस दोंड़े और कोतुक के हेतु सभा में आये। हनुमानजी ने रावण की सभा देखी, उसके ऐश्वर्य का वर्णन कुछ किया नहीं जाता।

कर जोरें सुर दिसिय विनोता * भृकुटि विलोकत सकल सभोता

देखि प्रताप न कपि मन संका * जिमि अहिगन महुं गरुड़ असंका

दिग्पाल हाथ जोड़े हुए नम्र-भाव से खड़े हैं और डरते हुए सब रावण की भृकुटी देख रहे हैं। ऐसे वैभव को देखकर भी हनुमानजी के हृदय में तनिक भी शङ्का न हुई, जैसे सर्पों में गरुड़ निशंक रहता है।

दोहा—कपिहि विलोकि दसानन, विहँसा कहि दुवादि।

सुत वध सुरति कीन्ह पुनि, उपजा हृदय विषाद ॥ १९ ॥

हनुमानजी को देखकर रावण दुर्वचन कहकर खूब हँसा। परन्तु फिर पुत्र का वध पाव करके उसके हृदय में बहुत दुःख हुआ।

कह लंकेश कवन तँ कोसा * केहि के बल घालेसि वन खीसा

को धौं श्रवन सुनेहि नहि मोही * देखउँ अति असंक सठ तोही

रावण ने कहा—रे चन्द्र! तू कौन है? किसके बल से तूने मेरी वाटिका का नाश किया है? क्या तूने मेरा नाम कभी कानों से नहीं सुना? रे मूर्ख! तू बड़ा तिडर दिखाई देता है।

जय राम प्रबल प्रताप कोसलनाथ गुन गन गावहीं ॥

पृथ्वी काँपने लगी, दिग्गज चिंघाड़ने लगे, पहाड़ काँप उठे और समुद्र में खलबली मच गई। गन्धर्व, देवता, मुनि, नाग तथा किन्नर बड़े प्रसन्न हुए और सब दुःखों से छूट गये। शोड़ों बलवान् बन्दर इधर-उधर गर्जना करते हुए भागने लगे। वे सब ही प्रबल प्रताप वाले कोशलाधीश श्रीरामजी ! आपकी जय हो, ऐसा कहकर गुणानुवाद गाने लगे।

सहि सक न भार अपार अहिपति बार बारहिं मोहई ।

गहि दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई ॥

रघुवीर रुचिर पयान प्रस्थिति जानि परम सुहावनी ।

जनु कमठ खर्पर सर्पराज सो लिखत अविचल पावनी ॥

शेषनागजी उस अपार भार को सह नहीं सकते, इसी कारण बार-बार मोहित होजाते और इसी कारण वे कछुए की कठोर पीठ को बार-बार अपने दाँतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हुए वे ऐसी शोभा देते हैं, मानो श्रीरामजी के गमन को परम सुन्दर जानकर सर्पराज उनकी अटल एवं पावन कथा को कछुए की पीठ पर अपने दाँतों से खोद रहे हैं।

गोहा-एहि विधि जाय कृपानिधि, उतरे सागर तीर ।

जहँ तहँ लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर ॥ ३४ ॥

इस प्रकार कृपासिंधु श्रीरामजी जाकर समुद्र के किनारे उतरे और बलवान् बानर व शोड़ योद्धा इधर-उधर फल खाने लगे।

उहाँ निसाचर रहहिं ससंका * जब तें जारि गयउ कपि लंका

निज निज गृह सब करहिं बिचारा * नहिं निसिचर कुलकेरि उधारा

वहाँ (लंका में) जब से हनुमानजी लंका जलाकर गये, तब से निशाचर बड़े भयभीत रहने लगे। सब अपने-अपने घरों में बैठकर यही विचार करते हैं कि अब निशाचर-वंश के वचने का कोई उपाय नहीं है।

जासु दूत बल बरनि न जाई * तेहि आएँ पुर कवन भलाई

दूतिन्ह सन सुनि पुरजन बानी * मन्दोदरी अधिक अकुलानी

जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके आने पर नगर की क्या भलाई होगी ! दूतियों द्वारा नगरवासियों के वचन सुनकर मन्दोदरी अत्यन्त व्याकुल हो गई।

एहिस जोरि कर पति पग लागी * बोली वचन नीति रस पागी

कन्त करष हरि सन परिहरहू * मोर कहा अति हित हियँ धरहू

एकान्त में मन्दोदरी पति के चरण छू, हाथ जोड़कर नीतियुक्त वचन बोली-हे नाथ ! श्रीरामजी से वैर छोड़ दो और मेरे अति हितकारी वचनों को हृदय में धारण करो।

तमुझत जासु दूत कहँ करनी * स्वहिं गर्भ रजनीचर धरनी

तासु नारि निज सचिव बोलाई * पठवहु कन्त जो चहहु भलाई

देखहु तुम्ह निज कुलहि विचारी * भ्रम तजि भजहु भगत भयहारी
हे रावण ! मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ कि अभिमान को छोड़कर मेरी शिक्षा को सुनो। तुम अपने कुल को विचार करके देखो और भक्त-भयहारी को भजो।

जाकेँ डर अति काल डेराई * जो सुर असुर चराचर खाई
तासौँ बयर कबहुँ नहिं कीजै * मोरे कहें जानकी दीजै
जो देवता, दानव और संसार के सब चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिसके डर से डरता है, उससे कभी शत्रुता न करो और मेरे कहने से जानकीजी को लौटा दो।

दोहा—प्रणतपाल रघुनायक, करुणासिंधु खरारि।

गएँ शरन प्रभु राखि हैं, सब अपराध बिसारि ॥ २१ ॥

खर के शत्रु-श्रीरामजी प्रणतपाल तथा दया के समुद्र हैं। शरण में जाने पर तुम्हारे अपराध को भूलकर तुमको अपनी शरण में ले लेंगे।

राम चरन पंकज उर धरहू * लंका अचल राजु तुम्ह करहू
ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका * तेहि ससि महुँ जनिहोहु कलंका
तुम श्रीरामजी के चरण-कमलों को हृदय में धारण करो और लङ्का में अटल राज्य करो। पुलस्त्य-ऋषि का यश निर्मल चन्द्रमा है, उसमें तुम कलङ्क मत बनो।

राम नाम विनु गिरा न सोहा * देखु विचारि त्यागि मद् मोहा
बसन हीन नहिं सोह सुरारी * सब भूषन भूषित वर नारी
अहङ्कार व अज्ञान को छोड़कर हृदय में विचारकर देखो कि बिना राम-नाम के वाणो शोभा नहीं पाती। हे देव-शत्रु ! सुन्दर स्त्री अनेक आभूषणों से सुसज्जित होने पर भी बिना वस्त्रों के शोभा नहीं पाती।

राम विमुख सम्पति प्रभुताई * जाइ रही पाई विनु पाई
सजल सूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं * बरसि गएँ पुनि तबहि सुखाई
श्रीरामजी से विमुख होकर यह ऐश्वर्य और सम्पति पाई हुई भी जाती रहेगी और न पाने के समान है। जिन नदियों में सोता नहीं होता, उनका जल वर्षा होने के पश्चात् भी सूख जाता है।

सुनु दसकण्ठ कहउँ पन रोपी * विमुख राम त्राता नहिं कोपी
शंकर सहस विष्णु अज तोही * सकहिं न राखि राम कर द्रोही
हे रावण ! सुनो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि श्रीरामजी से विमुख मनुष्य का रक्षक कोई नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्माजी भी श्रीरामचन्द्रजी के शत्रु-तुम्हारी रक्षा न कर सकेंगे।

दोहा—मोहि मूल बहु सूलप्रद, त्यागहु तुम्ह अभिमान।

भजहु राम रघुनायकहि, कृपासिंधु भगवान ॥ २२ ॥

जो अभिमान-मोह की जड़ और बहुत से दुःखों को देने वाला है, उसे तुम त्याग दो। और कृपासिंधु रघुकुल के स्वामी श्रीरामचन्द्रजी का भजन करो।

मन्त्री, वैद्य, गुरु यदि ये तीनों भय अथवा लोभ से ठकुर-सुहाती कहें तो राज्य, शरीर और धर्म—इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है ।

सोइ रावन कहँ बनी सहाई * अस्तुति करहि सुनाइ सुनाई
अबसर जानि विभीषणु आवा * भ्राता चरन सीस तेहि नावा

वही (ठकुर-सुहाती) रावण के यहाँ सहायता कर रही है । मन्त्री सुना-सुनाकर स्तुति करते हैं । अबसर जानकर विभीषण वहाँ आये, उन्होंने भाई के चरणों में सिर नवाया ।

पुनि सिरु नाई बैठि निज आसन * बोला वचन पाइ अनुसानन
जौं कृपालु पूँछहु मोहि बाता * मति अनुरूप कहउँ हित ताता

विभीषण सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गये और आज्ञा पाकर यह वचन कहे-हे दयालु ! जो आप मुझसे पूछते हैं, तो-हे तात ! अपनी बुद्धि के अनुसार हित की बात कहता हूँ ।

जौं आपन चाहहु कल्याणा * सुजस सुमति सुभगति सुख नाना
सो परनारि लिलार गोसाई * तजउ चौथ चन्दा कै नाई

जो आप अपना कल्याण, सुयश, शुभ-गति व नाना प्रकार के सुख चाहें तो पराई स्त्री के सुख को चौथ के चन्द्रमा के समान त्याग दीजिये ।

चौदह भुवन एक पति होई * भूत द्रोह तिष्ठइ नहि सोई
गुन सागर नागर नर जोऊ * अल्प लोभ भल कहइ न कोऊ

चाहे चौदह-भुवनों का स्वामी हो, परन्तु प्राणीमात्र से बैर करके वह ठहर नहीं सकता । जो मनुष्य बड़ा ही गुणी व चतुर हो, पर यदि वह थोड़ा लाभ करे तो उसे कोई अच्छा नहीं कहता ।

दोहा—काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पन्थ ।

सब परिहरि रघुवीरहि, भजहु भजहिं जेहिं सन्त ॥ ३७ ॥

हे नाथ ! काम, क्रोध, मद, लोभ—ये सब नरक के मार्ग हैं । इन्हें छोड़कर श्रीरघुनाथजी के चरणों को भजिये, जिन्हें सन्त-जन भजते हैं ।

तात राम नहिं नर भूपाला * भुवनेश्वर कालहु कर काला
ब्रह्म अनामय अज भगवन्ता * व्यापक अजित अनादि अनन्ता

हे तात ! श्रीरामजी मनुष्यों के ही राजा नहीं, वे तो संसार के स्वामी और काल के भी काल हैं । वे परब्रह्म रोग-रहित, जन्म-मरण से परे, सर्वव्यापक, अजेय, अनादि और अनन्त हैं ।

गो द्विज धेनु देव हितकारी * कृपासिंधु मानुष तनुधारी
जन रञ्जन भञ्जन खल ब्राता * वेद धर्म रच्छक सुनु भ्राता

वे गौ, ब्राह्मण, पृथ्वी तथा देवताओं के हितकारी, दया के समुद्र, मनुष्य-रूपधारी, भक्तों को आनन्द देने वाले, दुष्टों के दल का नाश करने वाले, वेद व धर्म के रक्षक तथा देवताओं का उद्धार करने वाले हैं ।

ताहि बयरु तजि नाइअ माथा * प्रनतारित भञ्जन रघुनाथा
देहु नाथ प्रभु कहँ बैदेही * भजहु राम विनु हेतु सनेही

कौतुक कहें आए पुरवासी * मारहिं लात करहिं बहु हाँसी

लंका में वस्त्र, धी और तेल नहीं रहा और हनुमानजी ने यह खेल किया कि पूँछ बढ़ा ली। नगरके लोग तमाशा देखने आये, वे हनुमानजी को लात मारते और हँसते करते हैं।

वाजहिं ढोल देखि सब नारी * नगर फेरि पुनि पूँछ पजारी

पावक जरंत देखि हनुमन्ता * भयउ परम लघु रूप तुरन्ता

निबुक चढ़ेउ कपि कनक अटारी * भईं सभौत निसाचर नारी

ढोल बज रहे हैं, सब तालियां पीट रहे हैं। हनुमानजी को सारी लंका में घुमाकर पूँछ में आग लगा दी। आग लगी देखकर हनुमानजी ने तुरंत ही बहुत छोटा शरीर कर लिया और कूदकर सोने की अटारियों पर चढ़ गये। देखकर निशाचरों की स्त्रियाँ डर गईं।

दोहा—हरि प्रेरित तेह अवसर, चले मरु उनचास।

अट्टहास करि गर्जा, कपि बढ़ि लाग अकास ॥ २४ ॥

भगवान् की प्रेरणा से उस समय उन्नचासों पवन चलने लगे। तब हनुमानजी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे।

देह बिसाल परम हरुआई * मन्दिर तें मन्दिर चढ़ि आई

जरइ नगर भा लोग बिहाला * झरट लपट बहु कोटि कराला

शरीर बहुत बड़ा था, परंतु हल्का था। वे एक भवन से दूसरे पर दौड़कर चढ़ जाते हैं। लंका जल रही है, उसमें से करोड़ों कराल लपटें निकल रही हैं, जिससे लोग बेहाल हो गये।

तात मातु हां सुनिय पुकारा * एहिं अवसर को हमहि उवारा

हम जो कहा यह कपि नहिं होई * बानर रूप धरें सुर कोई

हा वाप ! हा माता ! पुकार रहे हैं, इस समय हमें कौन बचावेगा ? हमने पहले ही कहा था कि यह बन्दर नहीं है, कोई देवता है—बन्दर का रूप धरकर आया है।

साधु सवगया कर फलु ऐसा * जरइ नगर अनाथ कर जैसा

जा नगर निमिष एक माहीं * एक विभीषन कर गृह नाहीं

महात्माओं का अपमान करने का फल ऐसा ही होता है। अनाथ के नगर के समान नगर जल रहा है। महावीरजी ने एक क्षण में सारे नगर को जला दिया, केवल एक विभीषण का घर नहीं जला।

ताकर दूत अनल जेहिं सिरिजा * जरा न सो तेहि कारन गिरिजा

उलटि पलट लंका सब जारी * कूदि परा पुनि सिंधु मझारी

(शिवजी कहते हैं—) हे पार्वती ! हनुमानजी तो उन्हीं के दूत हैं, जिन्होंने अग्नि को बनाया है—इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमानजी ने सारी लंका को उलट-पलट-फर जलाया और फिर समुद्र में कूद पड़े।

दोहा—पूँछ बुझाइ खोइ श्रम, धरि लघु रूप बहोरि।

जनकसुता कें आगें, ठाढ भयउ कर जोरि ॥ २५ ॥

सीता देहु राम कहु, अहित न होइ तुम्हार ॥ ४० ॥

हे तात ! मैं चरण पकड़कर आपसे माँगता हूँ, आप मेरा दुलार रखिये और सीताजी को श्रीरामजी के लिए लौटा दीजिये, जिससे आपका अहित न हो ।

बुध पुरान श्रुति सम्मत वानी * कही विभीषनु नीति बखानी
सुनत दसानन उठा रिसाई * खल तोहि निकट मृत्यु अब आई

यद्यपि विभीषण ने वेद, पुराण और पण्डितों से सम्मत नीति कही, परन्तु सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और बोला—रे मूर्ख ! तेरी मृत्यु समीप आ गई है ।

जिअसि सदा सठ ओर जिआवा * रिपु कर पच्छ मूढ़ तोहि भावा
कहसि न खल अस को जग माहीं * भुजबल जाहि जिता मैं नाहीं

रे मूर्ख ! तू सदा मेरे जिलाये जाता है और तुझे बैरी का पक्ष अच्छा लगता है । रे दुष्ट ! यह क्यों नहीं कहता कि संसार में ऐसा कौन है, जिसको मैंने अपनी भुजाओं के बल से नहीं जीता ?

मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती * सठ मिलु जाइ तिन्हहि कहु नीती
अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा * अनुज गहे पद बारहि बारा

रे मूर्ख ! तू मेरे नगर में रहकर तपस्वियों से प्रीति रखता है, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति सिखा । ऐसा कहकर रावण ने लात मारी, परन्तु विभीषण ने वार-२ चरण पकड़े ।

उमा सन्त कै इहइ बड़ाई * मन्द करत जो करइ भलाई
तुम्हहितु सरिस भलेहि मोहि मारा * राम भजे हित होइ तुम्हारा

सचिव सङ्ग लै नभ पथ गयऊ * सबहि सुनाइ कहत अस भयऊ

हे पार्वती ! सन्तों की यही बड़ाई है कि बुराई करने पर भी भलाई ही करते हैं । (विभीषण ने कहा—) हे तात ! आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो भला ही किया, परन्तु श्रीरामजी के मजन से ही आपका भला है । विभीषण अपने मन्त्री को साथ लेकर आकाश मार्ग में गये और सबको सुनाकर ऐसा कहने लगे—

हे—राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा कालवश तोरि ।

मैं रघुवीर सरन अब, जाऊँ देहु जनि खोरि ॥ ४१ ॥

श्रीरामजी सत्य-प्रतिज्ञ प्रभु हैं और तुम्हारी समा कालके वश है । मैं अब श्रीरघुनाथजी । शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना ।

स कहि चला विभीषनु जबहीं * आयुहीन भए सब तबहीं
धु अवगया तुरत भवानी * कर कल्याण अखिल कै हानी

ऐसा कह जैसे ही विभीषणजी चले, वैसे ही सारे निशाचर आयुहीन होगये । हे पार्वती ! धु-पुरुषों का आवर सब कल्याणों का नाश करता है ।

रावन जबहि विभीषन त्यागा * भयउ विभवबिनु तवहि अभागा
चलेउ हरषि रघुनायक पाहीं * करत मनोरथ बहु मन माहीं

की नख से शिख तक मनोहर छवि कब देखूँगी ?

शीशमुकुट मणिगण जटित, श्रवणन कुण्डल लोल ।

जगमगात कब देखिहाँ, टोपी दिए अमोल ॥ ४ ॥

श्रीरामचन्द्रजी की मणियों से जड़ित मुकुट शिर पर धरे, कानों में सुन्दर कुण्डल पहिने और अनमोल जगमगाती टोपी धारण किये मैं कब देखूँगी ?

अलके सोचीं अतर सो, निकट कपोलन सुत्त ।

भरि लोचन कब देखिहाँ, कुसुम कलिन संयुक्त ॥ ५ ॥

इत्र से सौँची हुई कपोलों के निकट लहराती हुई तथा जिनमें कुसुम-कलियां लगी हुई हैं, ऐसी अलकों को कब नेत्र भरकर देखूँगी ?

भाल तिलक भाषित सुभग, भृकुटि धनु अनुहारि ।

भूरि भाग्य कब देखिहाँ, नयनन्ह पलक बिसारि ॥ ६ ॥

मस्तक पर सुन्दर तिलक किये, धनुष के समान भौंह वाले उन प्रभु को मैं बड़भागिनी कब नेत्रों के पलक बिसार कर देखूँगी ?

चञ्चल चारु विसाल मुख, लोचन मोचन मान ।

चितवन दिसि कब देखिहाँ, मन सों कर कुरवान ॥ ७ ॥

विशाल, सुन्दर, चञ्चल, सुखप्रद और मान को दूर करने वाले, मेरी और देखते हुए प्रभु के नेत्रों में अपना मन बलिहारी करके कब देखूँगी ?

कीर तुण्ड सम नासिका, लटकन की छवि भूरि ।

कब चकोर सम देखिहाँ, मुख मयंक तून तूरि ॥ ८ ॥

तीते के समान नासिका और उसमें लटकन की अत्यन्त शोभा से युक्त चन्द्रमा के तुल्य मुख को चकोर के समान तूण तोड़कर कब देखूँगी ?

अरुण अधिर दाड़िम दसन, रसन चारु मृदु हास ।

हे हरि कब अवलोकि हौं, ससि करि सरिस प्रकास ॥ ९ ॥

हे कृपि ! जिनके अधर लाल, दाँत दाड़िम के समान, रसना सुन्दर और हास्य मृदु है उन चन्द्रमा के समान प्रकाशयुक्त स्वामी का मैं कब दर्शन कहूँगी ?

मधुर बचन जन मन हरन, कब सुनिहाँ निज काम ।

चिबुक चारु कब देखिहाँ, चितवन अमिय समान ॥ १० ॥

भवतों के मन को हरने वाले बचन में अपने कानों से कब सुनूँगी ? वह सुन्दर ठोड़ी और अमृत के समान चितवन मैं कब देखूँगी ।

सुनि प्रभु वचन हरष हनुमाना * सरनागत वच्छल भगवाना

प्रभु के वचन सुनकर हनुमानजी बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान्, कैसे शरणागत-वत्सल हैं।

दोहा—सरनागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानि ।

ते नर पाँवर पापमय, तिन्हहि विलोकत हानि ॥ ४३ ॥

(श्रीरामजी बोले-) जो अपने हित को विचार कर शरणागत को त्याग देते हैं, वे नीच मनुष्य पापरूप हैं, उनको देखने से भी पाप लगता है।

कोटि विप्र बध लागहि जाहू * आएँ सरन तजहुँ नहि ताहू
सन्मुख होइ जीव मोहि जबही * जन्म कोटि अस नासहि तबही

जिनको करोड़ों ब्रह्म-हत्याओं का पाप लगा हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। ज्योंही जीव मेरे सन्मुख आते हैं, त्योंही उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होजाते हैं।

पापवन्त कर सहज सुभाऊ * भजनु मोर तेहि भाव न काऊ
जौँ पै दुष्ट हृदय सोइ होई * मोरे सम्मुख आव कि सोई

पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि उसको मेरा भजन प्रिय नहीं लगता। यदि वह दुष्ट-हृदय होता तो—क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था ?

निर्मल मन जन सो मोहि पावा * मोहि कपट छल छिद्रन भावा
भेद लेन पठवा दससीसा * तबहुँ न कछु भय हानि कपीसा

जो मनुष्य शुद्ध तथा सच्चे हृदय के हैं, वे ही मुझे प्रिय हैं, मुझे कपट और द्वेष भले नहीं लगते। हे सुग्रीव! यदि रावण ने उसे भेद लेने भी भेजा है, तो भी कुछ भय व हानि नहीं है।

जग महुँ सखा निसाचर जेते * लछिमनुहनइ निमिष महुँ तेते
जौँ सभौत आवा सरनाई * राखिहउँ ताहि प्राण की नाई

क्योंकि संसार में जितने राक्षस हैं, लक्ष्मणजी उन्हें पलभर में मार सकते हैं और यदि वह डर के कारण मेरी शरण में आया है, तो मैं उसे प्राणों के समान रखूँगा।

दोहा—उभय भाँति तेहि आनहु, हँस कह कृपानिकेत ।

जय कृपाल कहि कपि चले, अङ्गद हनू समेत ॥ ४४ ॥

कृपा के धाम श्रीरामजी ने हँसकर कहा—दोनों ही स्थिति में उसे ले आओ। तब अङ्गद व हनुमान सहित सब वानर कृपालु श्रीरामजी को जय कहते हुए चले।

सादर तेहि आगें करि वानर * चले जहाँ रघुपति करुनाकर
दूरहि ते देखे द्यौँ भ्राता * नयनानन्द दान के दाता

सब वन्दर उसे आदर सहित आगे करके वहाँले चले, जहाँ दयासागर श्रीरघुनाथजी थे। उन्होंने दूर से ही नेत्रों को आनन्द का दान देने वाले दोनों भाइयों को देखा।

बहुरि राम छविधाम विलोकी * रहे ठटुकि एकटक पल रोकी

रखवारे जब वरजन लागे * मुष्ठी प्रहार हनत सब भागे

तब वानर मधुवन के भीतर आये और अंगद की सम्मति से मोठे फल खाये । जब रखवाले मना करने लगे तो मारे मुक्कों के उन्हें भगा दिया ।

दोहा—जाइ पुकारे ते सब, वन उजार जुवराज ।

सुनि सुग्रीव हरषि कपि, करि आए प्रभु काज ॥२७॥

उन सबने जाकर पुकार की कि युवराज अंगद ने वन उजाड़ डाला । यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं ।

जौ न होति सीता सुधि पाई * मधुवन के फल सकंहि कि खाई

एहि विधि मन विचार कर राजा * आइ गए कहि सहित समाजा

यदि सीताजी की खबर न मिली होती, तो वे मधुवन के फल कैसे खा सकते थे? राजा सुग्रीव इस प्रकार मन में विचार कर हो रहे थे कि सब वानरों का समाज वहाँ आगया ।

आइ सबन्हि नावा पद सोसा * मिलेउ सबन्हि अति प्रेम कपीसा

पूछी कुसल कुसल पद देखी * राम कृपा भा काज विसेषी

सबने आकर चरणों में शीश नवाया, तब वानरराज सबसे बड़े प्रेम से मिले । सुग्रीव ने कुशल पूछी तो वानरों ने कहा—आपके चरणों के दर्शन से ही कुशल है, श्रीरामजी की कृपा से विशेष कार्य बना है ।

नाथ काजु कोन्हेउ हनुमाना * राखे सकल कपिन्ह के प्राणा

सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ * कपिन्ह समेत रघुपतिहँ चलेऊ

हे नाथ ! हनुमानजी ने कार्य पूरा किया और सब वानरों के प्राण बचाये । यह सुनकर सुग्रीव फिर हनुमानजी से मिले और सब वानरों के सहित श्रीरघुनाथजी के पास चले ।

राम कपिन्ह जब आवत देखा * किए काजु मन हरष विसेषा

फटक सिला बैठे द्वौ भाई * परे सकल कपि चरनन्हि जाई

श्रीरामचन्द्रजी ने जब वानरों को आते देखा, जो कार्य पूर्ण होने से बड़े प्रसन्न-चित्त थे । दोनों भाई स्फटिक-शिला पर बैठे हुए थे, तब सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर गये ।

दोहा—प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुना पुञ्ज ।

पूछी कुसल नाथ अब, कुसल देखि पद कञ्ज ॥२८॥

करुणानिधान श्रीरघुनाथजी सब वानरों से प्रीति पूर्वक मिले और कुशल पूछी । तब (वानरों ने कहा—) हे नाथ ! अब आपके चरणकमलों को देखने से सब कुशल हैं ।

जामवन्त कह सुनु रघुराया * जापर नाथ करहु तुम्ह दाया

ताहि सदा शुभ कुशल निरन्तर * सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर

जामवन्त ने कहा—हे श्रीरघुनाथजी सुनिये, जिस पर आप कृपा करते हैं, उसका सदा भला होता है और सदा कुशल बनो रहती है । सुर, नर, मुनि सब उस पर प्रसन्न रहते हैं ।

हे नाथ! अब आपके चरणों के दर्शन से कुशल है, जो अपने दास जानकर मुझपर दया की।

दोहा—तब लगि कुशल न जीव कहूँ, सपनेहुँ मन विश्राम।

जब लगि भजत न राम कहूँ, सोक धाम तजि काम ॥४६॥

तब तक जीव की कुशल और स्वप्न में भी आराम नहीं है, जब तक वह शोक के घर को छोड़कर आप (श्रीरामजी) को नहीं भजता।

तब लगि हृदय वसत खल नाना * लोभ मोह मच्छर मद माना

जब लगि उर न वसत रवुनाथा * धरें चाप सायक कटि भाथा

उसी समय तक लोभ, मोह, अभिमान और मान आदि दुष्ट हृदय में निवास करते हैं, जब तक आप धनुष-बाण और कمر में तर्कस धारण किये हुए हृदय में वास नहीं करते।

समता तरुन तभी अंधियारी * राम द्वेष उलूक सुखकारी

तब लगि वसति जीव मन माहीं * जब लगि प्रभु प्रताप रवि नाहीं

समता घोर अंधरी रात्रि है, जो राग-द्वेष रूपी उल्लूकों को सुख देने वाला है। वह तभी तक हृदय में वसती है—जब तक आपका प्रतापरूपी सूर्य उदय नहीं होता।

अब मैं कुशल मिटे भय भारे * देखि राम पद कमल तुम्हारे

तुम्ह कृपाल जापर अनुकूला * ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला

हे नाथ! अब आपके कमलरूपी चरणों को देखने से कुशल है, मेरे नारी भय दूर होगये। आप जिसके ऊपर दया करते हैं, उसे तीनों भव-मूल (देहिक, देविक, सांत्विक, ताप) नहीं सताने।

मैं निसिचर अति अधम सुभाऊ * सुभ आचरनु कीन्ह नहि काऊ

जासु रूप मुनि ध्यान न आवा * तेहि प्रभु हरपि हृदय मोहि लावा

मैं निसाचर हूँ मेरा स्वभाव बड़ा ही नीच है मैंने कभी गुण कर्म नहीं किया। परंतु जिन प्रभु का रूप मुनियों के ध्यान में भी नहीं आता, उनसे प्रेम पूर्वक मुझे हृदय से लगाया।

दोहा—अहो भाग्यमम अमित अति, राम कृपा सुख पुञ्ज।

देखेउँ नयन विरञ्चि सिन्ध, सेव्य जुगल पद कञ्ज ॥४७॥

हे कृपा और सुख की राशि श्रीरघुनाथजी! मेरा असौम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा व महादेवजी द्वारा सेवित आपके युगल चरणों को नेत्रों से देखा।

मुनहुँ सखा निज कहउँ सुभाऊ * जानि नुमुण्डि सभु गिरिजाऊ

जौ नर होइ चराचर दोही * आवै सभय सरन तकि तोही

(श्रीरामजी बोले—) हे मित्र! मुनो, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे कागमुण्डिजी और श्रीमहादेवजी व पार्वतीजी भी जानते हैं। कोई मनुष्य प्राणी मात्र का बेरी ही, यदि वह भी डरकर मेरी शरण में आवे।

तजि मद मोह कपट छल नाना * करउँ सद्य तेहि साधु समाना

जननी जनक बन्धु सुत दारा * तनु धनु धाम सुहृद परिवारा

वियोगाग्नि है, शरीरखई है स्वांस वायु है, क्षण भर में शरीर जल सकता है, पर नेत्र अपने हितार्थ आपके दर्शन की आशा से जलबरसाते हैं। जिससे विरहाग्नि से भी शरीर जल नहीं पाता।

सीता कै अति विपति विसाला * विनाहि कहे भल दीनदयाला
सीताजी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीनदयालु ! उसका न कहना ही भला है।

दोहा—निमिष निमिष करुनानिधि, जाहि कल्प सम वीति।

बेगि चलहु प्रभु आनिअ, भुजवल खलदल जीति ॥३०॥

हे कष्टानिधान ! सीताजी का एक २ क्षण एक कल्प के समान बीतता है। हे प्रभु ! आप जल्दी चलकर अपनी भुजाओं के बल से इन दुष्टों के दल का नाश करके सीताजी को ले आइये।

सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना * भरि आए जल राजिव नयना
बचन काँय मन मम गति जाही * सपनेहुँ होइहि विपति कि ताही

सीताजी का दुःख सुनकर सुख के धाम श्रीरामजी के कमल-नेत्रों में जल भर आया। (वे बोले-) मन, कर्म, वचन से जिन्हें मेरा ही भरोपा है, क्या उन्हें स्वप्न में भी दुःख हो सकता है ?

कह हनुमन्त विपति प्रभु सोई * जव तव सुमिरन भजन न होई
केतिक बात प्रभु जातुधान की * रिपुहि जीति आनिव जानकी

हनुमानजी ने कहा—हे नाथ ! विपत्ति तब ही है, जब आपका भजन व स्मरण न हो। राक्षसों की क्या चिन्ता है ? शत्रु को जीतकर जानकीजी को ले आइये।

सुनु कहि तोहि समान उपकारी * नाहि कोउसुर नरमुनि तनुधारी
प्रति उपकार करौं का तोरा * सन्मुख होइ न सकहि मन मोरा

(श्रीरामजी बोले-) हे हनुमान ! सुनो, तुम्हारे समान मेरा उपकारी—देवता, मुनि, मनुष्य कोई भी देहधारी नहीं है। इसके बदले में तुम्हारा क्या उपकार करूँ ? मेरा मन भी तुम्हारे सामने नहीं हो सकता।

सुनु कपि तोहि उरनि मैं नाहीं * देखेउं करि विचार मन माहीं
पुनिपुनिकपिहि चितवसुरत्रारा * लोचन नीर पुलक अति गाता

हे कपि ! सुनो, मैं तुमसे उद्बुध नहीं हो सकता, मैंने मनमें विचार कर देख लिया है। श्रीरामजी बारम्बार हनुमानजी की ओर देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाशुर्हूँ और वेह पुलकित है।

दोहा—सुनि प्रभु वचन बिलोकि मुख, गात हरिष हनुमन्त।

चरन परेउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवन्त ॥३१॥

प्रभु के वचन सुनकर और उनका मुख तथा पुलकित अंग देखकर हनुमानजी बहुत प्रसन्न हुए और 'हे भगवान ! मेरी रक्षा करो, रक्षा करो' कहते हुए चरणों में गिर पड़े।

वार वार प्रभु चहइ उठावा * प्रेम मगन तेहि उठव न भावा
प्रभु कर पंकज कपि कै सीसा * सुमिर सो दसा मगन गौरीसा

प्रभु बार-बार उनको उठाना चाहते हैं, परन्तु प्रेम-मग्न उनको उठाना नला नहीं लगता—

और कहा-हे मित्र ! यद्यपि तुम्हें इच्छा नहीं है, परन्तु मेरा दर्शन संसार में निष्कल नहीं होता, ऐसा कहकर श्रीरामजी ने विभीषण को राजतिलक कर दिया । तब आकाश से अपार पुष्प वृष्टि हुई ।

दोहा-रावन क्रोध अनल निज, श्वांस समीर प्रचण्ड ।

जरत विभीषणु राखेउ, दीन्हेउ राजु अखण्ड ॥४६॥

रावण को क्रोधरूपी अग्नि में जलते हुए विभीषण को अपनी श्वांसरूपी प्रचण्ड वायु से बचाकर श्रीरामजी ने अटल राज्य दिया ।

जो सम्पति शिव रावनहि, दीन्ह दिएँ दस माथ ।

सोइ सम्पदा विभीषणहि, सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥५०॥

जो सम्पदा शिवजी ने रावण को दसों शिरों का बलिदान देने पर दी थी, वही सम्पदा श्रीरघुनाथजी ने विभीषण को संकोच के साथ दी ।

अस प्रभु छाँड़ि भजहि जे आना * ते नर पसु विनु पूँछ विसाना

निज जन अनि ताहि अपनावा * प्रभु सुभाव कपिकुल मन भावा

ऐसेदयानु प्रभु को छोड़जो दूसरों का भजन करते है, वे बिना पूँछके सींगके पशु हैं । विभीषण को अपना भक्त जानकर श्रीरामजी ने अपना दिया, प्रभु का स्वभाव वानर-कुत्र को बहुत माया ।

पुनि सर्वग्व सर्व उर वासी * सर्वरूप सब रहित उदासी

बोले वचन नीति प्रति पालक * कारन मनुज दनुज कुलघालक

फिर सर्वज्ञ, सबके हृदयमें बसने वाले, सर्वरूप सबसे रहित, उदासीन, राक्षसकुचका नाश करने के लिए मनुष्य-रूप धारण करने वाले श्रीरामचन्द्रजी नीति का पालन करने वाले वचन बोले-

सुनु कपीस लंकापति वीरा * केहि विधि तरिय जलधि गम्भीरा

संकुल मकर उरग झष जाती * अति अगाध दुरस्त सब भाँती

हे सुग्रीव ! हे विभीषण ! सुनो, यह अथाह समुद्र किस प्रकार से पार किया जाय ? सर्प मगर और नाना प्रकार की मछलियों से भरा हुआ यह अथाह समुद्र सब प्रकार से दुरस्त है ।

कह लंकेश सुनहु रघुनायक * कोटि सिन्धु सोपक तव सायक

जद्यपि तदपि नीति असि गाई * विनय करिअ सागर सन जाई

तब विभीषण ने कहा-हे श्रीरघुनाथजी ! यद्यपि आपके वाण करोड़ों समुद्रों को साँखने वाले हैं, तो भी नीति में ऐसा कहा है कि पहले समुद्र से विनय की जाय ।

दोहा-प्रभु तुम्हार कुलगुरु जलधि, कहहि उपाय विचारि ।

विनु प्रयास सागर तरहि, सकल भालु कपि धारि ॥५१॥

हे नाथ ! समुद्र आपका कुलगुरु है, वह विचार कर उपाय बतावेगा । तब बिना परिश्रम के ही सब रोछ वानरों की सेना समुद्र के पार उतर जायगी ।

सखा कही तुम्ह नीकि उपाई * करिअ दैव जाँ होइ सहाई

मन्त्र न यह लछिमन मन भावा * राम वचन सुनि अति दुख पावा

अब बिलम्बु केहि कारन कीजै * तुरत कपिन्ह कहूँ आयसु दीजै
कौतुक देखि सुमन बहु बरषी * नभ तें भवन चले सुर हरषी
अब वेर किसलिये करते हो ? शीघ्र ही बानरों को आज्ञा दो । यह लीला देख देवता
लोग आकाश से पुष्प बरसाकर प्रसन्न हो अपने-अपने घर चले ।

दोहा—कपिपति वेगि बोलाए, आए जूथप जूथ ।

नाना बरन अतुल बल, बानर भालु बरूथ ॥ ३३ ॥

सुरीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया, सेनापतियों के झुण्ड आगये । बानर-भालुओं के
नाना प्रकार के रङ्ग और उनका बल अतुलित है ।

प्रभु पद पंकज नावाहि सीसा * गर्जहि भालु महाबल कोसा
देखी राम सकल कपि सेना * चितइ कृपा करि राजिव नैना

वे बानर श्रीरामजी के चरणकमलों में शीश नवाते हैं । महाबलवान रीछ-बानर गरज
रहे हैं । श्रीरामजी ने बानरों की सेना देखी और कमल-नेत्रों से कृपादृष्टि उन पर डाली ।

राम कृपा बल पाइ कपिन्दा * भए पच्छयुत मनहुँ गिरिन्दा
हरषि राम तब कीन्ह पयाना * सगुन भए सब सुन्दर नाना

श्रीराम-कृपा का बल पाकर बानर मानो पंखों वाले बड़े पहाड़ हो गये । श्रीरामजीने
प्रसन्न होकर गमन किया तो अनेक सुन्दर शुभ-शकुन हुए ।

जासु सकल मङ्गलमय कीती * तासु पयान सगुन यह नीती
प्रभु पयान जाना बैदेही * फरिक वाम अंग जनु कहि देही

जिनकी कीर्ति मङ्गलमय है, उनके गमन पर शकुन होना लीला-मात्र है । सीताजी ने
भी प्रभु का प्रस्थान जान लिया, मानो वाम-अङ्ग फड़क कर कह देते हैं ।

जोइ जोइ सगुन जानकिहि होई * असगुन भयउ रावनहि सोई
चला कटुक को बरनै पारा * गर्जहि बानर भालु अपारा

जो-जो शकुन जानकीजी को हुए, वही अपशकुन रावण को हुए । सेना चली, कोई उनकी
सीमा को नहीं पा सकता । अपार बानर-भालू गर्जना कर रहे हैं ।

नख आयुध गिरि पादपधारी * चले गगन महि इच्छाचारी
केहरि नाद भालु कपि करहीं * डगमगाइ दिग्गज चिक्करहीं

नख ही उनके हथियार हैं, कोई वृक्ष, कोई पर्वत धारण किये हुए पृथ्वी अथवा आकाश में
इच्छानुसार जा रहे हैं । वे सिंहनाद करते हैं, दिशाओं के हाथी डगमगा कर चिघाड़ते हैं ।

छन्द—चिक्कराहि दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खरभरे ।

मन हरष सब गन्धर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे ॥

कटकटाहि मर्कट विकट भट बहु कोटि कोटिन्ह धावरे ॥

और कहा-यह चिट्ठी रावण को देकर, उस कुल-नाशक से कहना कि लक्ष्मण के शब्दों को बाँचो।
दोहा—कहेउ मुखागर मूढ सन, मम सन्देसु उदार।

सीतहि देइ मिलहु नत, आवा कालु तुम्हार ॥५२॥

और उस मूर्ख से मेरा यह संदेश मुँह से कहना कि 'सीताजी' को देकर, प्रभु से जानिल नहीं तो-तेरी मृत्यु निकट आ गई है।

तुरत नाइ लछिमन पद माथा * चले दूत वरनत गुन गाथा
कहत राम जसु लंका आए * रावन चरन सीस तिन्ह नाए

दूतशीघ्र ही लक्ष्मणजी के चरणों में सिर नवाकर श्रीरामजी के गुणानुवाद गाते हुए चल दिये। श्रीरामजी का यश बखानते हुए वे लंका में आये और रावण के चरणों में सिर नवाया।

बिहँसि दसानन पूछी बाता * कहसि न सुक आपनि कुसलाता
पुनि कहु खबरि बिभीषन केरी * जाहि मृत्यु आई अति नेरी

तब हँसकर रावण ने पूछा-रे शुक ! अपनी कुशल क्यों नहीं कहता ? विभीषण का हाल कहो, जिसको मौत अब निकट आ गई है।

करत राज लंका सठ त्यागी * होइहि जब कर कोट अभागो
पुनि कहु भालु कौस कट काई * कठिन काल प्रेरित चलि आई

उस मूर्खने राज करते हुए लंका को छोड़ दिया, वह अभाग जो का घुन होगा। फिर उस रीछ-वानरों की सेना का हाल कहो, जो कठिन काल के भेजने से यहाँ चली आई है।

जिन्ह के जीवन कर रखवारा * भयउ मृदुल चित सिंधु बिचारा
कहु तपसिन्ह के बात बहोरो * जिन्हके हृदयँ त्रास अति मोरी

और जिनके प्राणों का रक्षक दयालु समुद्र है। फिर उन तपस्वियों का हाल कहो—जिनके हृदय में मेरा भारी डर है।

दोहा—को भइ भेंट कि फिर गए, श्रवन सुजस सुनि मोर।

कहसि न रिपुदल तेजबल, बहुत चकित चित चोर ॥५४॥

उनसे भेंट हुई, अथवा वे मेरा सुयश सुनकर लौट गये ? वैरी की सेना का बल तथा तेज बताता क्यों नहीं ? तेरा चित्त चकित-सा क्यों है ?

नाथ कृपा करि पूँछउ जैसे * मानहुँ कहा क्रोध तजि तैसे
मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा * जातहि राम तिलक तेहि सारा

(दूत बोला) हे नाथ ! जैसे आप मुझसे पूछते हैं, आप क्रोध को त्यागकर मेरा कहा मानिये। जब आपका छोटा भाई जाकर उनसे मिला, उसी समय रघुनाथजी ने तिलक कर दिया।

रावन दूत हसहि सुनि काना * कपिन्ह बाँधि दीन्हे दुख नाना
श्रवन नासिका काटन लागे * राम सपथ दीन्हें हम त्यागे

बन्दरों ने हमें रावण का दूत सुनकर बाँधकर नाना प्रकार के कष्ट दिये। वे हमारे नाक-कान

जिनके दूत के कार्य का स्मरण करने से निशाचरियों के गर्न गिर जाते हैं, हे नाथ ! अपनी भलाई चाहो तो मन्त्रों को बुलाकर उनकी स्त्री को लौटा दो ।

तब कुल कमल विपिन सुखदाई * सीता सीत निसा सम आ
सुनहुँ नाथ सीता विनु दीन्हें * हित न तुम्हार सम्भु अजकीन

हे नाथ ! आपके कमलरूपी कुल के लिए सीता सुखदाई शीत-काल की रात्रि के सम आई है । अतः हे नाथ ! सुनो, बिना सीता को लौटाये—महादेवजी व ब्रह्माजी के हित पर भी आपकी भलाई नहीं होगी ।

दोहा—राम वान अहि गन सरिस, निकरु निसाचर भेक ।

जब लगि प्रसित न तब लगि, जतनु करहु तजि टेक ॥ ३५ ॥

शोरामजी के वाण सर्पों के समूह के समान हैं और निशाचरों के समूह मेंढकों के समान हैं, जब तक वे इन्हें प्रस न लें, तब तक ही हट छोड़कर इसका उपाय कर लीजिये ।

श्रवन सुनी सठ केहि कै वानी * बिहँसा जगत विदित अभिमान

सभय सुभाउ नारि कर साँचा * मङ्गल महु भय मन अति काँच

उसकी वाणी कानों से सुनकर संसार में प्रसिद्ध अभिमानी रावण हँसा और कहने लगा—सचमुच स्त्रियों का स्वभाव बड़ा ही डरपोक होता है । मंगल के समय डरती हो, तुम्हार मन अत्यन्त ही दुर्बल है ।

जौ आवइ मर्कट कटकाई * जिअहिं विचारे निसिचर खाई

कम्पाहि लोकप जाकी त्रासा * तासु नारि सभोत बड़ि हासा

यदि यहाँ वानरों की सेना भी आवे तो बेचारे निशाचर उसे खाकर अपना पेट पालेगा जिसके डर से दिग्पाल भी कांपते हैं, उसकी स्त्री डरे—यह बड़ी हँसी की बात है ।

अस कह बिहँसि ताहि उर लाई * चलेउ सभाँ ममता अधिकाई

मन्दोदरी हृदयँ कर चिन्ता * भयउ कन्त पर विधि विपरीता

रावण ने ऐसा कह उसको हँसकर हृदय से लगा लिया और अत्यन्त प्रेम दर्शाकर सभा को चला गया । मन्दोदरी हृदय में चिन्ता करने लगी कि पति पर विधाता विपरीत हो गया ।

बैठेउ सभाँ खबरि अस पाई * सिंधु पार सेना सब आई

बूझेउ सचिव उचित मत कहहु * ते सब हँसे मष्ट करि रहहु

सभा में आकर बँठते ही ऐसी खबर मिली कि बन्दरों की सेना समुद्र के उस पार आ गई है । तब वह मंत्रियों से पूछने लगा कि उचित सलाह कहिये । तब वे हँसे और बोले—चुप ही रहिये ।

जितेहु सुरासुर तब श्रम नाही * नर वानर केहि लेखे माहीं

जब आपने देवताओं और दैत्यों को जीता था, तब ही आपको कुछ परिश्रम नहीं हुआ, तो फिर यह मनुष्य और बन्दर किस गिनती में हैं ?

दोहा—सचिव वैद गुरु तीनि जौ, प्रिय बोलहिं भय आस ।

राज धर्म धन तीनि कर, होइ वेगिहीं नास ॥ ३६ ॥

करोड़ों कालों को भी जीत सकते हैं ।

राम तेज बल बुधि विपुलाई * शेष सहस्र सत सकहिं न गाई
सक सर एक सोषि सत सागर * तव ज्ञातहि पँछेउ नय नागर

श्रीरामजी के तेज, बल व बुद्धि की बड़ाई को लाखों शेषजी भी वर्णन नहीं कर सकते । वे एक ही वाण से सैकड़ों समुद्र सुखा सकते हैं, परन्तु नीति में चतुर उन्होंने आपके भाई से सलाह पूछी ।

तासु वचन सुन सागर पाहीं * मागत पन्थ कृपा मन माहीं
सुनत वचन विहसा दससीसा * जौं असि मति सहाय कृत कीसा

उनके वचन सुनकर वे समुद्र से रास्ता माँग रहे हैं उनके मन में दया है । दूत के ऐसे वचन सुन रावण बहुत हँसा और कहने लगा-जब ऐसी बुद्धि है, तभी तो बानरों को सहायक बनाया ।

सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई * सागर सन ठानी मचलाई
मूढ मृषा का करसि बड़ाई * रिपु बल बुद्धि थाह मैं पाई

स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन मानकर समुद्र से बालकों की-सी हठ ठानी है । अरे मूर्ख ! तू व्यर्थ ही बड़ाई क्यों करता है ? शत्रु की बुद्धि-बल की थाह मैंने पाली ।

सचिव सभित विभीषण जाके * विजय विभूत कहां जग ताके
सुनि खल बचन दूत रिस बाढी * समय विचारि पात्रिका काढी

जिसके विभीषण सरीके डरपोक मन्त्री हैं, उसकी विजय और यश कहाँ ? दुष्ट के ऐसे वचन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध आया, तब उसने अवसर जानकर चिट्ठी निकाली ।

रामानुज दीन्ही यह पाती * नाथ वचाइ जुड़ावह छाती
बिहँसि वाम कर लीन्ही रावन * सचिव बोलि सठलागि बचावन

और कहा-हे नाथ! श्रीरामजी के छोटे भाई ने यह चिट्ठी दी है, इसे पढ़कर आप छाती ठण्डी कीजिये । रावण ने हँसकर पत्र बाँधे हाथ में ले लिया और मन्त्री को बुलाकर उसे पढ़वाने लगा ।

हा-बातन्ह मनि रिझाई सठ, जनि घालसि कुल खीस ।

राम विरोध न उबरसि, सरन विष्णु अज ईस ॥५७॥

(पत्र में लिखा था) हे मूर्ख तू बातों से अपने मन को प्रसन्न करके कुल का नाश न कर । रामजी से विरोध करने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में जाने पर भी तू नहीं बच सकता ।

की तजि मान अनुज इब, प्रभु पद पंकज भृङ्ग ।

होहि कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग ॥५८॥

या तो अभिमान को छोड़कर अपने भाई विभीषण की तरह प्रभु के चरणकमलों का भ्रमर (प्रेमी) होजा, या-हे दुष्ट ! श्रीरामजी के वाणरूपी अग्नि में अपने कुल सहित पतंगा होजा ।

सुनत सभय मन मुख सुसकाई * कहत दसानन सबहि सुनाई
भूमि परा कर गहत अकासा * लघु तापस कर बानि बिलासा

पत्र सुनकर रावण मन में डरा, परन्तु हँसकर सबको सुनाकर बोला-जैसे कोई मनुष्य भूमि पर पड़ा हुआ आकाश को छूने की आशा करे, वैसे ही इस छोटे तपस्वी की वचन शत्रुता है ।

वंर त्यागकर उन्हें मस्तक नवाइये, वे शरणागत के दुख का नाश करने वाले हैं । हे नाथ ! उन प्रभु को सीताजी लौटा बीजिये और बिना कारण ही दया करने वाले श्रीरामजी को मजिये ।

सरन गएँ प्रभु ताहि न त्यागा * विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा
जासु नाम त्रय ताप नसावन * सोइ प्रभु प्रगट समुझ जियँ रावन

शरण में जाने पर प्रभु उनको भी नहीं त्यागते—जिनको सारे संसार से वंर करने का पाप लगा हो । जिनका 'नाम' तीनों तापों का नाशक है, हे रावण ! वही प्रभु प्रकट हुए हैं—ऐसा मन में समझो ।

दोहा—बार बार पद लागउँ, विनय करउँ दससीस ।

परिहरि मान मोह मद, भजहु कौसलाधीस ॥ ३८ ॥

हे माई रावण ! बारम्बार चरण लगकर विनय करता हूँ कि मान-प्रतिष्ठा, मोह और अहंकार को त्यागकर श्रीरामजी का भजन करो ।

मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन, कहि पठई यह बात ।

तुरत सो मैं प्रभु सन कही, पाइ सुअवसर तात ॥ ३९ ॥

मुनि पुलस्त्यजी ने अपने शिष्य द्वारा यह बात कहला भेजी है, सो-हे तात ! शुभ अवसर पाकर मैंने तुरन्त ही स्वामी को कह सुनाई ।

माल्यवन्त अति सच्चिव सयाना * तासु वचन सुनि अति सुख माना

तात अनुज तव नीति विभूषन * सो उर धरहु जो कहत विभीषन

माल्यवन्त नामक बड़ा बुद्धिमान मंत्री था, उसने विभीषण के वचन सुन बहुत सुख माना और कहा-हे तात ! आपके माई नीति शिरोमणि हैं, वह जो कहते हैं उसे हृदय में धारण करिये ।

रिपु उत करष सकत सठ दोऊ * दूरि न करहु इहाँ हइ कोऊ

माल्यवन्त गृह गयउ बहोरी * कहइ विभीषनु पुनि कर जोरी

(रावण बोला-) दोनों मूर्ख शत्रु को बड़ाई कर रहे हैं, यहाँ कोई है तो इन्हें दूर फरवे । तब माल्यवन्त तो अपने घर चला गया और विभीषण फिर हाथ जोड़कर कहने लगे—

सुमित कुमित सबके उर रहहीं * नाथ पुरान निगम अस कहहीं

जहाँ सुमति तहँ सम्पति नाना * जहाँ कुमित तहँ विपति निदाना

हे नाथ ! वेद-पुराण ऐसा कहते हैं कि सुमति-कुमित सबके हृदय में रहती है, पर जहाँ सुमति है, वहाँ नाना प्रकार की सम्पत्ति रहती है एवं जहाँ कुमित है, वहाँ अन्त में विपत्ति ही आती है ।

तव उर कुमति वसी विपरीता * हित अनहित मानहूँ रिपु प्रीता

कालरात्रि निसिचर कुल केरी * तेहि सीता पर प्रीति घनेरी

आपके हृदय में तो उल्टी कुमति बसी है, जिसके कारण आप हित को अहित व शत्रु को मित्र समझते हैं । जो सीता निशाचर-वंश के लिए काल-रात्रि है, उस पर आपकी घनी प्रीति है ।

दोहा—तात चरन गहि माँगउँ, राखहु मोर दुलार ।

अस कहि रघुपति चाप चढावा * यह मत लछिमन के मन भावा
सन्धानेउ प्रभु विसिख कराला * उठी उदधि उर अन्तर ज्वाला

ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजी ने धनुष चढाया तो यह मत लक्ष्मीजी के मन को भाया । प्रभु ने धनुष पर कठिन दाण रख सन्धान किया, जिससे समुद्र के हृदय में ज्वाला प्रकट हुई ।

अकर उरग झष गन अकुलाने * जरत जन्तु जलनिधि जब जाने
कनक थार भरि मनिगन नाना * विप्र रूप आयउ तजि माना

मगर,साँप, मछलियाँ इत्यादि घबड़ाने लगे । जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए जाना, तो सोने के थाल में अनेक मणियाँ लेकर, अस्मिमान त्यागकर, ब्राह्मण के रूप में आया ।

दोहा—काटेहिं पइ कदरी फरइ, कोटि जतन कोउ सींच ।

विनय न मान खगेस सुनु, डाटेहिं पइ नव नींच ॥६०॥

(कागभुशुण्डिजी बोले—) हे गरुड़जी ! चाहे कोई करोड़ों यत्न करके सींचे, परन्तु केला काटने से ही फलता है । (ऐसे ही) नीच डाटने से ही नवता है, विनय से नहीं ।

सभय सिन्धु गहि पग प्रभु केरे * छमहु नाथ सब अवगुन मेरे
गगन समीर अनल जल धरनी * इन्ह कइ नाथ सहज जड़ करनी

समुद्र के भय के साथ प्रभु के चरण पकड़ कर विनती की—हे नाथ ! मेरे सब अवगुण क्षमा करिये । आकाश, अग्नि, पवन, जल, पृथ्वी—इनके काम तो स्वभावतः ही जड़ हैं ।

तव प्रेरित सायाँ उपजाए * सृष्टि हेतु सब ग्रन्थनि गाए
प्रभु आयसु जेहि कहँ जस अहई * सो तेहि भाँति रहे सुख लहई

हे नाथ ! सब ग्रन्थों ने ऐसा कहा है कि आपकी प्रेरणा से ही यह वस्तुयें आया ने सृष्टि के हेतु उत्पन्न की हैं । हे प्रभु ! जिसको आपकी जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार रहने में सुख पाता है ।

प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही * भरजादा पुनि तुम्हरी कीन्ही
ढोल गँवार सूद्र पसु नारी * सकल ताड़ना के अधिकारी

प्रभु ने मुझे शिक्षा दी—सो अच्छा किया, परन्तु मर्यादा भी आपकी ही बँधी हुई है । ढोल, गँवार, शूद्र, पशु और स्त्री—ये सब दण्ड के अधिकारी हैं ।

प्रभु प्रताप मैं जाव सुखाई * उतरिहि कटक न मोरि बड़ाई
प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई * करौं सो बेगि जो तुम्हहिं सोहाई

प्रभु के प्रताप से मैं सुख जाऊँ और सेना पार हो जाय तो मेरी मर्यादा जाती रहेगी । देवों ने कहा है कि आपकी आज्ञा अपेल है । अतः जो आपको अच्छा लगे, सो मैं शीघ्र करूँ ।

दोहा—सुनत विनीत वचन अति, कह कृपालु मुसुकाइ ।

जेहि विधि उतरै कपि कटक, तात सो कहहु उपाइ ॥६१॥

अति विनीत वचन सुनकर कृपालु प्रभु ने हँसकर कहा—हे तात ! जिस प्रकार वानरों को सेना पार हो जाय, वही उपाय कहो ।

जिस समय रावण ने विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अमागा तेज हीन होगया । विभीषण प्रसन्न होकर मन में नाना प्रकार के मनोरथ करते हुए श्रीरामजी के पास चले ।

देखिहुँ जाइ चरन जलजाता * अरुन मृदुल सेवक सुखदाता
जे पद परसि तरी रिषि नारी * दण्डक कानन पावनकारी

मैं जाकर उन चरणकमलों को देखूँगा, जो लाल-वर्ण के कोमल और मत्तों को सुख देने वाले हैं । जिनका स्पर्श करके ऋषि-पत्नी अहिव्या तर गई और जो दण्डक-वन को पवित्र करने वाले हैं ।

जे पद जनकसुता उर लाए * कपट कुरङ्ग सङ्ग धरि धाए
हर उर सर सरोज पद जेई * अहोभाग्य मैं देखिहुँ तेई

जिन चरणों को जानकीजी हृदय में धारण करती हैं, जो कपट-मृग के साथ भागे थे और जो शिवजी के हृदयरूपी सरोवर के कमल हैं, मेरा अहोभाग्य है कि आज मैं उन्हीं को देखूँगा ।

दोहा—जिन्ह चरनन्ह की पादुका, भरत रहे मन लाय ।

ते पद आजु बिलोकि हौं, इननयनन्ह अब जाय ॥ ४२ ॥

जिन चरणों की खड़ाउओं में भरतजी ने मन लगा रखा है, आज मैं इन नेत्रोंसे उन्हीं को देखूँगा ।

एहि विधि करत सप्रेम विचारा * आयउ सपदि सिंधु एहि पारा
कपिन्ह विभीषनु आवत देखा * जाना कोउ रिपु दूत विसेषा

इस प्रकार वे प्रेम सहित विचार करते हुए शीघ्र ही इस पार आगये । कन्दरोंने विभीषण को आता देखकर जाना कि वंरो का कोई विशेष दूत है ।

ताहि राखि कपीस पहिं आए * समाचार सब ताहि सुनाए
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई * आवा मिलन दसानन भाई

वानर उसे वहीं ठहरा कर सुग्रीव के पास गये और उनको सब समाचार कह सुनाया । तब सुग्रीव (श्रीरामजी के पास जाकर) कहने लगे—हे श्रीरघुनाथजी ! सुनिचे, रावण का भाई आपसे मिलने आया है ।

कह प्रभु सखा बूझिए काहा * कहइ कपीस सुनहु नरनाहा
जानि न जाइ निसाचर माया * कामरूप केहि कारन आया

प्रभु ने कहा—हे मित्र ! तुम्हारी क्या राय है ? सुग्रीव ने कहा—हे नाथ ! सुनिचे, निसाचरों की माया कुछ जानी नहीं जाती । न जाने यह इच्छानुसार रूप धारण करने वाला किस कारणसे आया है ?

भेद हमार लेन सठ आवा * राखिअ बाँधि मोहि अस भावा
सखा नीति तुम्ह नीकि विचारो * मम पन सरनागत भयहारी

यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इस कारण मुझे तो यह अच्छा लगता है कि उसे बाँध रक्खा जाय । (श्रीरामजी बोले—) हे मित्र ! तुमने नीति तो ठीक विचारो है, परन्तु मेरा तो प्रण ही शरणागतों का दुःख दूर करना है ।



* श्रीरामचन्द्रजी की आरती *

श्रीराम-वन्दना

श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम् ।
नव कञ्ज लोचन कञ्ज मुख कर कञ्ज पद कञ्जारुणम् ॥
कन्दर्प अगणित अमित छबि नव नील नीरज सुन्दरम् ।
पटपीत मानहुँ तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम् ॥
भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्य वंश निकन्दनम् ।
रघुनन्द आनन्दकन्द कौशलचन्द्र दशरथ नन्दनम् ॥
सिर क्रीट कुण्डल तिलक चारु उदार अङ्ग विभूषणम् ।
आज्ञानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम् ॥
इति वदित 'तुलसीदास' शंकर शेष मुनि मन रञ्जनम् ।
मम हृदय कञ्ज निवास करु कामादि खल दल गञ्जम् ॥

—:* सियावर रामचन्द्र की जय *—



भुज प्रलम्ब कञ्जारुन लोचन * श्यामल गात प्रनत भय मोचन

फिर शोभा के धाम धोरामचन्द्रजी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठककर एक-टक देखते ही रह गये। उनकी लम्बी भुजाएँ हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और श्याम शरीर शरणागत के भय को दूर करने वाला है।

सिंह कन्ध आयत उर सोहा * आनत अमित मदन मन मोहा
नयन नीर पुलकित अति गाता * मन धरि धीर कहु मृदु वाता

सिंहके समान कन्धे एवं विशाल हृदय है, मुखकी अपार शोभा असंख्य कामदेवीको मोहितकरती है, ऐसी मूर्ति को देखकर विभीषण रोमांचित होगये, नेवों में जल भर आया, धीरज धरकर वे बोले-
नाथ दसानन कर मैं भ्राता * निसिचर वंश जनम सुरत्राता
सहज पाप प्रिय तामस देहा * जथा उलूकहि तम पर नेहा

हे देवताओं के रक्षक स्वामी ! मेरा जन्म निशाचर वंश में हुआ है और मैं रावण का भाई हूँ। इस राक्षसी शरीर को स्वभाव से ही पाप प्यारा है, जिस प्रकार उल्लू को अंधेरा प्रिय होता है।

दोहा—श्रवन सुजस सुनि आयउँ, प्रभु भञ्जन भव भीर।

त्राहि त्राहि आरति हरन, शरन सुखद रघुवीर ॥४५॥

हे संसार का दुख दूर करने वाले ! मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ। हे शरणागत को सुख देने वाले और दुःखहारो श्रीरघुनाथजी ! मेरी रक्षा करो, रक्षा करो।

असि कह करत दण्डवत देखा * तुरत उठे प्रभु हरष विसेषा
दीन वचन सुन प्रभु मत भावा * भुज विशाल गहि हृदय लगावा

उसे ऐसा कहकर दंडवत करते हुए देख धोरामजी अत्यंत हर्षसे तुरन्त उठे, विभीषणके दीनवचन प्रभु के मन को बड़े प्रिय लगे। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से उन्हें हृदयसे लगा लिया।

अनुज सहित मिल ढिंग वैठारी * बोले वचन भगत भय हारी
कहु लंकेश सहित परिवारा * कुशल कुठाहर वास तुम्हारा

भाई लक्ष्मण सहित मिलकर विभीषण को पास बैठकर भक्तोंके भय को दूर करने वाले धोराम जी बोले-हे लंकेश ! परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरे स्थान पर है।

खल मण्डली बसहु दिनु राती * सखा धरम निवहइ केहि भाँति
मैं जानउँ तुम्हारि सब रीती * अति नयनिपुन न भाव अनीती

हे तात ! तुम दुष्टों के साथ निवास करते हो, तुम्हारे धर्म का निर्वाह कैसे होता है? मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूँ। तुम नीति में चतुर हो, तुम्हारा भाव अन्याय का नहीं है।

बरु भल वास नरक कह ताता * दुष्ट सङ्ग जनि देइ विधाता
अब पद देखि कुसल रघुराया * जाँ तुम्ह कोन्ह जानि जनदाया

हे मित्र ! नरक का रहना भला है, परंतु विधाता कभी दुष्ट का साथ न दे, (विभीषण बोले)

यो ददाति सतां संभुः कैवल्यमपि दुर्लभम् ।

खलानां दण्डकद्योऽसौ शंकरः शं तनोतु मे ॥ ६ ॥

जो सज्जनों को अति दुर्लभ-कैवल्य-मुक्त तक दे देते हैं और दुर्जनों को दण्ड देते हैं । वे श्रीशंकरजी सारे कल्याणों का विस्तार करें ।

दोहा-लव निमेष परमानु जुग, वरष कल्प सर चण्ड ।

भजसि नमन तेहि राम को, कालु जासु कोदण्ड ॥ १ ॥

अरे मन । तू उन श्रीरामजी को क्यों नहीं भजता, जिनके लव-निमेष से लेकर वर्ष, युग और कल्प तक प्रचण्ड वाण हैं और काल ही जनक धनुष है ।

सो०-सिधु वचन सुनि राम, सचिव बोलिप्रभु अस कहेउ ।

अब बिलम्बु केहि काम, करहु सेतु उतरै कटुक ॥ १ ॥

समुद्र के वचन सुनकर स्वामी श्रीरामचन्द्रजी ने मन्त्रियों को बुलाकर ऐसा कहा-अब देर करने का क्या काम है ? सेतु तैयार करो तो सेना पार उतरे ।

सुनहु भानुकुल केतु, जामवन्त कर जोरि कहि ।

नाथ नाम तब सेतु, नर चढ़ि भवसागर तरहि ॥ २ ॥

जामवन्त हाथ जोड़कर बोले-हे सूर्यवंश में श्रेष्ठ श्रीरामजी ! हे नाथ ! सुनिये-आपका तो नाम ही सेतु है, जिस पर चढ़कर मनुष्य भवसागर से तर जाते हैं ।

यह लघु जलधि तरत केति बारा * अस सुनि पुनि कह पवनकुमारा
प्रभु प्रताप बड़वानल भारी * सोषेउ प्रथम पयोनिधि बारी

इस छोटे-से समुद्र से तरने में कितनी देर लगेगी ? ऐसा सुन पवनसुत हनुमानजी बोले-हे प्रभु ! आपके प्रताप से भारी बड़वानल ने समुद्र के जल को पहले ही सुखा डाला था ।

तब रिषु नारि रुदन जल धारा * भरेउ बहोरि भयउ तेहि खारा
सुनि अति उकुति पवनसुत केरी * हरणे कपि रघुपति मन हेरी

परन्तु शत्रुओं की स्त्रियों के आँसुओं की धारा से यह फिर भर गया, इसी से यह खारी हो गया है । हनुमानजी की अत्युक्ति सुनकर बानर श्रीरघुनाथजी की ओर देखकर हँसे ।

जामवन्त बोले दौउ भाई * नल नीलहि सब कथा सुनाई
राम प्रताप सुमिरि मन माहीं * करहु सेतु प्रयास कछु नाहीं

जामवन्त ने नल-नील दोनों भाइयोंको बुलाकर सब कथा सुनाई और कहा-श्रीरामजी का प्रताप स्मरण कर सेतु तैयार करो, इसमें तुम्हें कुछ भी परिश्रम नहीं होगा ।

बोलि लिए कपि निकर बहोरी * सकल सुनहु विनती कछु मोरी
राम चरन पंकज उर धरहू * कौतुक एक भालु कपि करहू

फिर बानरों के झुण्ड बुला लिए और कहा-तुम सब मेरी कुछ विनती सुनो । श्रीरामजी

और मद, मोह तथा छल को त्याग दे, तो मैं उसे साधु के समान शुद्ध कर देता हूँ।
माता-पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र व परिवार—

सब कै ममता ताग बटोरी * मम पद मनहि बांधि बट डोरी
समदरसी इच्छा कछु नाहीं * हरष सोक भय नहि मन माहीं

इन सभी ममता-रूपी धागों को बटकर रस्सी बनावे और उससे मेरे चरणों में अपने मनको बांध दे। जो समदर्शी हैं, जिनके हृदय में इच्छा, हर्ष, शोक और भय कुछ भी नहीं है।

अस सज्जन मम उर बस कैसे * लोभी हृदयें बसइ धनु जैसे
तुम्ह सारिखे सन्त प्रिय मोरें * धरउँ देह नहि आन निहोरें

ऐसे सज्जन मेरे हृदय में किस प्रकार वास करते हैं, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम्हारे समान सन्त ही मुझे प्रिय हैं मैं और किसी के लिए देह धारण नहीं करता।

दोहा—सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम।

ते नर प्राण समान मम, जिन्हकें द्विज पद प्रेम ॥४८॥

जो सगुण के उपासक हैं, पराये हित में लगे हैं, नीति में चतुर और नियम में दृढ़ हैं और जिनका ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं।

सुनु लंकेश सकल गुन तोरें * तातें तुम्ह अतिसय प्रिय मोरें
राम वचन सुनि वानर जूथा * सकल कहीं जय कृपा बरूथा

हे लंकेश! सुनो, तुम्हारे अंबर उपरोक्त सभी गुण विद्यमान हैं, इससे तुम बहुत प्रिय हो। श्रीरामजी के यह वचन सुनकर सब वानर-गण कहने लगे—कृपासिन्धु श्रीरामजी की जय हो।

सुनत विभीषन प्रभु कै वानी * नहि अघात श्रवनामृत जानी
पद अम्बुज गहि बारहिबार * हृदयें समात न प्रेम अपारा

विभीषण प्रभु की वाणी को— जो कानों को अमृत के समान है, सुनकर तृप्त नहीं हुए। वे बारम्बार चरणकमलों को पकड़ते हैं, अपार प्रेम हृदय में नहीं समाता।

सुनहुँ देव सचराचर स्वामी * प्रनतपाल उर अन्तरजामी
उर कछु प्रथम बासना रही * प्रभु पद प्रीति सरितसो बही

हे चराचरा के स्वामी! हे शरणागत-रक्षक! हे अन्तर्यामी! मुनिषे, मेरे हृदय में पहले कुछ इच्छा थी, तो आपके चरणों की प्रीतिरूपी नदी में बह गई।

अब कृपालु निज भगति पावनी * देहु सदा सिव मनहि भावनी
एवमस्तु कहि प्रभु रनधीरा * मांगा तुरत सिंधु कर नीरा

हे कृपालु! अब आप अपनी पवित्र भक्ति जो शिवजी के मन को सदैव भली लगती है, मुझे दीजिये। प्रभु ने 'एवमस्तु' कहकर समुद्र का जल मँगवाया।

जदपि सखा तब इच्छा नाहीं * मोर दरस अमोघ जग माहीं
अस कहिराम तिलकतेहिसारा * सुमन वृष्टि नभ भई अप

जा गङ्गाजलु आनि चढ़ाइहि * सो सायुज्य मुक्ति नर पाइहि
जो रामेश्वरजी के दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे धाम को जायेंगे और जो इन पर गङ्गा-जल आकर चढ़ावेगा, वह भक्त सायुज्य-मोक्ष पावेगा।

होइ अकाम जो छल तजि सेइहि * भगति मोरि तेहि शंकर देइहि
मम कृत सेतु जो दरसनु करिही * सो बिनु भ्रम भवसागर तरिही
जो निष्काम ही, कष्ट त्याग कर रामेश्वरजी की सेवा करेगा, उसे शंकरजी मेरी भक्ति देंगे। जो मेरे बनाये इस सेतु के दर्शन करेंगे, वे बिना परिश्रम ही भवसागर से पार हो जायेंगे।

राम वचन सबके जियँ भाए * मुनिवर निज निज आश्रम आए
गिरिजा रघुपति कै यह रीती * सन्तत करहि प्रनत पर प्रीती

श्रीरामजी के वह वचन सबके मन को प्रिय लगे, सब मुनिवर अपने २ आश्रमों को चले गये। शिवजी कहते हैं—हे पार्वती ! श्रीरामजी की यह रीति है कि वे शरणागत पर प्रीति करते हैं।

बाँधा सेतु नील नल सागर * राम कृपाँ जसु भयउ उजागर
बूढ़हि आनहि बोरहि जेई * भए उपल बोहित सम तेई
महिमा यह न जलधि कइ वरनी * पाहन गुन न कपिन्ह कै करनी

चतुर नल और नील ने सेतु बाँधा, श्रीरामजी की कृपा से उनका यश फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को भी डूबा देते हैं, वे नाव के समान हो गये। यह न समुद्र की महिमा कही गई है, न पत्थरों का गुण है और न वानरों की करतूत है।

दोहा—श्रीरघुवीर प्रताप ते, सिन्धु तरे पाषान।

ते, मतिमन्द जे राम तजि, भजहि जाइ प्रभु आन ॥ ४ ॥

श्रीरघुनाथजी के प्रताप से समुद्र में पत्थर तैरने लगे। वे लोग मन्द-बुद्धि हैं, जो ऐसे प्रभु श्रीरामजी को छोड़कर दूसरे स्वामी का भजन जाकर करते हैं।

बाँधि सेतु अति सुदृढ बनावा * देखि कृपानिधि के मन भावा
चली सेन कछु वरनि न जाई * गर्जहि मर्कट भट समुदाई

सेतु बाँधकर बहुत ही पक्का बना दिया, देखने पर वह कृपानिधान श्रीरामजी के मन भाया। वानरों की सेना चली, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वीर-वानरों के समूह गरजने लगे।

सेतुबन्धु ढिंग चढ़ि रघुराई * चितव कृपालु सिन्धु बहुताई
देखन कह प्रभु करुनाकन्दा * प्रगट भए सब जलचर वृन्दा

सेतुबन्ध के तट पर चढ़कर कृपालु श्रीरघुनाथजी समुद्र का विस्तार देखने लगे। तब करुणानिधान प्रभु के दर्शन के लिए जलचरों के झुण्ड प्रकट होगये।

भकर नक्र नाना झष व्याला * सत जोजन तन परम बिसाला
अइसेउ एक तिन्हहि जे खाहीं * एकन्ह केँ डर तेपि डेराहीं

(रामजी बोले-) हे मित्र! तुमने ठीक उपाय बताया, यदि ईश्वर सहायता करे तो सफल होगा। परन्तु यह सलाह लक्ष्मणजी की भली नहीं लगी, वह श्रीरामजी के यह वचन सुनकर बड़े दुखी हुए। नाथ दैव कर कवन भरोसा * सोषिअ सिन्धु करिअ मन रोसा कादर मन कहूँ एक अधारा * दैव दैव आलसी पुकारा

वे बोले-हे नाथ! ईश्वर का कौन भरोसा है? मनमें क्रोधकर समुद्र की सुखा बीजिए। ईश्वर तो कायर मनुष्यों का एक सहारा है, आब्रसी ही सदा वैच-वैच पुकारा करते हैं।

सुनत विहंसि बोले रघुवीरा * ऐसेहि करब धरहु मन धीरा अस कहि प्रभु अनुजहि समुझाई * सिन्धु समीप गए रघुराई

यह वचन सुन श्रीरघुनाथजी हँसकर बोले-ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर और भाई को समझाकर श्रीरघुनाथजी समुद्र के पास गये।

प्रथम प्रनाम कीन्ह सिर नाई * बैठे पुनि तट दर्भ डसाई जबहि विभीषन प्रभु पहि आए * पाछें रावन दूत पठाए

पहले प्रभु ने जाकर सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गये। ज्यों ही विभीषण प्रभु श्रीरामजी के पास आये, त्यों ही पीछे से रावण ने दूत भेजे।

दोहा-सकल चरित तिन्ह देखे, धरें कपट कपि-देह।

प्रभु गुन हृदय सराहहि, सरनागत पर नेह ॥५२॥

उन्होंने आकर कपट से वानरों का शरीर धारण कर सब कुछ देखा, वे शरणागत पर स्नेह देखकर श्रीरामजी के गुणों की मन ही मन प्रशंसा करने लगे।

प्रगट बखानहि राम सुभाऊ * अति सप्रेम गा विसरि दुराऊ रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने * सकल बांधि कपीस पहि आने

फिर रामजी का गुणानुवाद स्पष्ट रूप से करने लगे, वे प्रेम में कपट-वेश को भूल गये। वानरों ने उन्हें पहचान लिया कि यह शत्रु के दूत हैं और उन्हें बांधकर सुग्रीव के पास ले आये।

कह सुग्रीव सुनहु सब वानर * अङ्ग भङ्ग कर पठवहु निसिचर सुनि सुग्रीव बचन कपि धाए * बांधि कटक चहुँ ओर फिराए

सुग्रीव बोले-हे वानरो! इन निष्ठाचरों के अंग-भंग करके भेजो। ऐसा सुनकर वानर बीड़े और उन्हें बांधकर सेना के चारों ओर घुमाया।

बहु प्रकार मारन कपि लागे * दीन पुकारत तदपि न त्यागे जो हमार हर नासा काना * ताहि कौसलाधोश कै आना

उन्हें बन्दर बहुत प्रकारसे मारने लगे वे दीन-वाणीसे चिल्लाते थे परन्तु वानर उन्हें नहीं छोड़ते। अन्त में वे बोले-जो-जो हमारे नाक-कान फाटेगा, उसे श्रीरघुनाथजी को सौगन्ध है।

सुनि लछिमन सब निकट बुलाए * दया लागि हंसि तुरत छुड़ाए रावन कर दीजहु यह पाती * लछिमन बचन बांचु कुलधारी

लक्ष्मणजीने यह सुनकर सबको बुलाया, उन्हें दया आई तो तुरन्त हँसकर उन्हें

काटने लगे, तब श्रीरामजी की सौगन्ध देने पर हमें छोड़ा।

**पूछहु नाथ राम कटकाई * वदन कोटि सत वरनि न जाई
नाना वरन भालु कपि धारी * विकटानन विसाल भयकारी**

हे नाथ ! आप श्रीरामजी की सेवा पूछते हैं, तो वह करोड़ों मुखों से भी नहीं कहा जा सकता। अनेकों रंग के रीक्ष एवं वानर हैं, जो विकट मुख वाले, विशाल तथा भयानक हैं।

**जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा * सकल कपिन्ह महुँ तेहिबलथोरा
अमित नाम भट कठिन कराला * अमित नाग बल विपुल विसाला**

जिसने लंका जलाई और अक्षयकुमार को मारा, उसका बल तो सबसे थोड़ा है। बड़े-बड़े नामी योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है तथा वे बड़े ही विशाल शरीर वाले हैं।

दोहा—द्विविद मयन्द नील नल, अङ्गद भट विकटासि।

दधिमुख केहरि कुमुद गव, जामवन्त बल रासि ॥५५॥

द्विविद, मयन्द, नल नील, अंगद, विकटाक्ष, दधिमुख, केहरि, कुमुद गर्व तथा बल की राशि जामवन्त इत्यादि—

**ए कपि सब सुग्रीव समाना * इन्ह सम कोटिन्ह गनइको नाना
राम कृपाँ अतुलित बल तिन्हहीं * तून समान त्रैलोकहि गनहीं**

सब वन्दर सुग्रीव के समान ही बलवान् हैं इनके समान और भी करोड़ों वन्दर हैं, उन अनेकों को कौन गिने ?

**अस मैं सुना श्रवन दसकन्धर * पद्म अठारह जूथप वन्दर
नाथ कटक महुँ सो कपि नाही * जो न तुम्हहि जोतै रन माहीं**

हे नाथ ! मैंने कानों से सुना कि अठारह पद्म तो वन्दरों के सेनापति हैं। उस सेना में ऐसा कोई भी वन्दर नहीं है, जो आपको युद्ध में न जीत सके।

**परम क्रोध मीर्जाहि सब हाथा * आयसु पै न देहि रघुनाथा
सोर्षाहि सिंधु सहित झष व्याला * पूरहि नत भरि कुधर विसाला**

वे सब मारे क्रोध के हाथ मल रहे हैं, परन्तु श्रीरघुनाथजी आज्ञा नहीं देते। वे समुद्र को सांपों तथा मछलियों सहित सुखा सकते हैं, या विशाल पर्वतों से भरकर उसे पाट देंगे।

**मदि गर्द मिलवाहि दस सीसा * ऐसेइ वचन कहाहि सब कीसा
गर्जहि तर्जहि सहज असंका * मानहुँ प्रसन चहत हिहि लंका**

सब वानर ऐसा कहते हैं कि रावणको मसखकर धूल में मिला देंगे। स्वाभाविक ही निडर वानर गर्जना करते हैं, तो ऐसा नाज़ूम होता है, मानो लंका को प्रतना चाहते हैं।

दोहा—सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम।

रावन काल कोटि कहुँ, जीति सकहि संग्राम ॥५६॥

सब वन्दर-भालू सहज ही रणघोर हैं, फिर उनके सहायक श्रीरामजी हैं। वे तो-हे-रावण!

बंध गया, यह बात कानों से सुनते ही रावण घबड़ाकर दसों मुखों से बोल उठा—
दोहा—बाँध्यो वन निधि नीर निधि, जलधि सिन्धु बारीस ।

सत्य तोय निधि कम्पित, उदधि पयोधि नदीस ॥ ६ ॥

क्या सचमुच ही वन-निधि, नीर-निधि, जल-निधि सिन्धु, वारोंश तोय-निधि, पंक-निधि, उदधि, पयोधि, नदीश को बांध लिया ?

निज बिकलता विचारि बहोरी* विहँसि गयउ गृह करि मत भोरी
मन्दोदरी सुन्यो प्रभु आयो* कौतुक ही पथोधि बँधायो

फिर अपनी घबराहट को समझकर, हँसता हुआ भय को भुलाकर महल को चला गया। मन्दोदरी ने सुना कि प्रभु खेल ही में समुद्र पर पुल बाँधकर आगये हैं।

फर गहि पतिहि भवन निज आनी* बोली परम मनोहर बानी
चरन नाइ सिर अञ्चलु रोपा* सुनहु बचन प्रिय परिहरि कोपा

तब पति का हाथ पकड़कर अपने भवन में ले आई और परम मधुर वाणी बोली। चरणों में मस्तक नवाया और आँचल फैलाकर कहा—हे प्रियतम ! क्रोध को त्यागकर मेरे वचन सुनो—

नाथ बयरु कीजै ताही सों* बुधिबल सकिय जीति जाही सों
तुम्हहि रघुपतिहि अन्तर कैसा* खलु खद्योत दिनकरहि जैसा

हे नाथ ! बैर उसी से करना उचित है, जिसको अपनी बुद्धि और बल से जीत सके। आप में और श्रीरामजी में निश्चय ही उतना अन्तर है, जितना कि सूर्य जुगनू और सूर्य में।

अति बल मधु कैभट जेहि मारे* महावीर दिति सुत संघारे
जेहि बल बाँधि सहसभुज मारा* सोइ अवतरेउ हरन महि भारा

तासु विरोध न कीजअ नाथा* काल करम जिव जाके हाथा

जिन्होंने अत्यन्त बलवान् मधु-कैटभ को मारा और महावीर हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष का संहार किया। जिन्होंने बलि को बाँधा, सहस्त्राबाहु को मारा, वही भगवान् भूमि का भार उतारने के लिए प्रगट हुए हैं। हे नाथ ! उनसे बैर न कीजिये, क्योंकि काल, कर्म और जीव उनके आधीन हैं।

दोहा—रामहि सौंपि जानकी, नाइ कमल पद साथ ।

सुत कहँ राज समपि बन, जाइ भजिअ रघुनाथ ॥ ७ ॥

श्रीरामजी के चरण-कमलों में मस्तक नवाकर उन्हें जानकीजी सौंप दीजिए और पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्रीरघुनाथजी का भजन करिये।

नाथ दीनदयाल रघुराई* बाघउ सन्मुख गएँ न खाई
चाहिअ करन सो सब करि बीते* तुम्ह सुर असुर चराचर जीते

हे नाथ ! श्रीरघुनाथजी दीनों पर दया करने वाले हैं, सन्मुख जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपकी जो करने की इच्छा थी, सो सब कर चुके ! देवता असुर आदि सब चर-अचर आपने जीत लिये।

कह सुक नाथ सत्य सब बानी * समझहु छाँड़ि प्रकृति अभिमानी
सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा * नाथ राम सन तजहु विरोधा

तब शुक कहने लगा—हे नाथ ! पुत्रकी बातें सत्य हैं । अपने अभिमानी स्वभाव को छोड़कर विचार कीजिये । क्रोध को त्याग कर मेरा वचन सुनिये, हे नाथ ! श्रीरामचन्द्रजी से विरोध छोड़ दीजिये ।

अति कोमल रघुवीर सुभाऊ * जद्यपि अखिल लोक कर राऊ
मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करहीं * उर अपराध न एकउ धरहीं

यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी सब लोकों के स्वामी हैं, तो भी उनका स्वभाव बहुत ही कोमल है । वे मिलते ही तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा करेंगे और अपराध को अपने हृदय में नहीं रखेंगे ।

जनकसुता रघुनाथहि दीजै * एतना कहा मोर प्रभु कीजै
जब तेहि कहा देन बैदेही * चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही

अतः हे नाथ ! आप मेरा इतना कहा मानिये कि जानकीजी को श्रीरघुनाथजी को लौटा दीजिए । जब शुक ने जानकी को लौटा देने की बात कही तो रावण ने उसको लात मारी ।

नाइ चरन सिरु चला सो तहँवाँ * कृपासिन्धु रघुनायक जहँवाँ
करि प्रनामु निज कथा सुनाई * राम कृपाँ आपिन गति पाई

वह भी उसे प्रणाम कर वहाँ चला, जहाँ कृपासिन्धु श्रीरघुनाथजी थे । प्रभु को प्रणाम कर उसने अपनी समस्त कथा सुनाई और श्रीरामचन्द्रजी की कृपा से अपनी गति को प्राप्त हुआ ।

रिषि अगस्ति कै साप भवानी * राक्षस भयउ रहा मुनि ग्यानी
वन्दि राम पद बारहि वारा * मुनि निज आश्रम कहँपगु धारा

(शिवजी कहते हैं—) हे भवानी ! वह ज्ञानी मुनि था, परन्तु अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था । वह मुनि श्रीरामजी के चरणों में बार २ तिर नवाकर अपने आश्रम को चला गया ।

दोहा—विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन वीति ।

बोले राम सकोप तब, भय विनु होइ न प्रीति ॥ ५६ ॥

तीन दिन बीत गये, परन्तु मूर्ख समुद्र विनय नहीं मानता । तब श्रीरामजी क्रोधपूर्वक बोले—बिना भय के प्रीति नहीं होती ।

लछिमन बान सरासन आनू * सोषाँ वारिधि विसिख कृसानू
सठसन विनय कुटिलसन प्रीति * सहज कृपन सन सुन्दर नीति

हे लक्ष्मण ! घनुष-बाण लाओ, मैं समुद्र को अग्नि-बाण से सुखा दूँगा । मूर्ख से विनय, छद्मी से प्रीति, स्वभाव ही से कञ्जूस से सुन्दर नीति यथेन तथा—

मसता रत सन ग्यान कहानी * अति लोभी सन विरति वखानी
क्रोधिहि सन कामिहि हरि कथा * उसर वोज वएँ फल जया

मोह में फँसे हुए मनुष्य को ज्ञान की कथा, अत्यन्त लोभी से वंराग्य का धर्षण, क्रोधी से शाब्दिक का पाठ और कामी से हरि-कथा, इन सबका वंसा ही फल है—जैसे ऊसर में बीज बो

समा में आकर रावण ने अपने मन्त्रियों से पूछा—शत्रु से किस तरह लड़ाई करनी चाहिये ? मन्त्री कहने लगे—निशाचरनाथ ! सुनिये, आप बार-बार क्या पूछ रहे हैं ? कहिये, ऐसा कौन-सा डर है, जिस पर विचार किया जाय ? मनुष्य, वानर, रोठ तो हमारे आहार हैं।
दोहा—सबके वचन श्रवण सुनि, कह प्रहस्त कर जोरि ।

नीति विरोध न करिअ प्रभु, मन्त्रिन्ह मति अति थोरि ॥ ८ ॥

कानों से सबको बात सुनकर प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा—हे प्रभु ! नीति के विरुद्ध कुछ न कीजिये । मन्त्रियों में तो बहुत ही थोड़ी बुद्धि है ।

कहहिंसचिवसब ठकुरसोहाती * नाथ न पूर पाव एहि भांती
वारिधि नांघ एक कपि आवा * तासु चरित मन महँ सब गावा

यह सब मन्त्री मुँह-देखी बात करते हैं । हे नाथ ! इस भांति से पूरा नहीं पड़ेगा । समुद्र लांघकर एक ही वानर आया था, उसको करनी को सब राक्षस मन-ही मन गाते हैं ।

छुधा न रही तुम्हहि तव काहू * जारत नगरु न कीस धरि खाह
सुनत नीक आगे दुख पावा * सचिवन्ह अस मति प्रभुहि सुनावा

तब उस समय तुममें से किसी को सूख न थी । नगर जलाते समय उसे पकड़ कर क्यों न खा गये ? इन मन्त्रियों ने ऐसा मत आपको सुनाया है, जो इस समय सुनने में अच्छा है, पर आगे दुःख होगा ।

जेहि वारीस वँधायउ हेला * उतरेउ सेन समेत सुबेला
सो जनु मनुज खाव हम भाई * वचन कहहि सब गाल फुलाई

जिन्होंने समुद्र सहज ही में बाँध लिया और जो सेना समेत सुबेल पर्वत पर आ उतरे हैं, वे क्या मनुष्य हैं, जो तुम सब भाई गाल फुलाकर बात कर रहे हो कि हम खा जायेंगे ।

तात वचन मम सुनु अति सादर * जानि मन गुनहु मोहिकरि कादर
प्रिय वानी जे सुनिहि न करहीं * ऐसे नर निकाय जग अहहीं

हे पिताजी ! मेरी बात बड़े आदर के साथ सुनिये, मनमें मुझे कायर मत समझना । जो प्यारे वचन नहीं कहते-सुनते, ऐसे मनुष्य संसार में बहुत हैं ।

वचन परम हित सुनत कठोरे * सुनिहि जे कहहि ते नर प्रभु थोरे
प्रथम बसीठ पठइय सुनु नीती * सीता देह करहु पुनि प्रीती

हे प्रभु ! परिणाम में बहुत हितकारी व सुनने में कठोर वचन जो कहते व सुनते हैं, वे मनुष्य संसार में थोड़े हैं । सुनिये, नीति तो यह है—पहले हठ भेजिये, फिर सीताजी को देकर प्रीति कर लीजिये ।

दोहा—नारिहि पाइ फिरि जाहि जाँ, तौ न बढाइअ रारि ।

नाहित सन्मुख समर महँ, तात करिअ हठि मारि ॥ १० ॥

हे नाथ ! जो स्त्री को पाकर वे लौट जायें तो झगड़ा न बढ़ाइये, नहीं लौटें तो समर में सन्मुख हठ करके युद्ध कीजिए ।

नाथ नील नल कपि द्वौ भाई * लरिकाई रिषि आसिष पाई
तिन्ह के परम किए गिरि भारे * तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे

(समुद्र बोला-) हे नाथ ! नल व नील दो बानर भाई हैं, उन्होंने बचपन में ऋषि से यह आशीर्वाद पाया था। उनके छूने से भारी पर्वत भी आपके प्रताप से समुद्र में तैरने लगे।

मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई * करिहउँ बल अनुमान सहाई
एहि विधि नाथ पयोधि बँधाइअ * जेहि यह सुजसु लोक तिहुँ गाइअ

मैं भी आपके प्रताप को हृदय में रखकर अपने बल के अनुसार सहायता करूँगा। हे नाथ ! इस प्रकार आप समुद्र को बँधाइये, जिससे आपकी सुकीर्ति तीनों लोकों में गाई जाय।

एहि सर मम उत्तर तट वासी * हतहु नाथ खल नर अध रासी
सुनि कृपालु सागर मन पीरा * तुरतहि हरी राम रनधीरा

इस वाणसे आप मेरे उत्तर-तट के पाप-राशि दुष्टों का संहार कीजिए। कृपालु श्रीराम जो ने यह सुनकर समुद्र के हृदय की पीड़ा दूर करदी।

देखि राम बल पौरष भारी * हरषि पयोनिधि भयउ सुखारी
सकल चरित कहि प्रभुहि सुनावा * चरन बन्दि पाथोधि सिधावा

समुद्र श्रीरामजी के ऐसे अतुल पराक्रम को देखकर प्रसन्न होकर सुखो हुआ, फिर सब हाल प्रभु को सुनाकर और उनके चरणों की वन्दना करके समुद्र चला गया।

छन्द--निज भवन गवनेहु सिंधु श्रीरघुपतिहि यह मत भायऊ ।

यह चरित कलिमल सर जथामति दास तुलसी गायऊ ॥

सुख भवन संसय समन दमन विषाद रघुपति गुन गना ।

तजि सकल आस भरोस गावाहि सुनहि सन्तत सठ मना ॥

समुद्र अपने घर चला गया। श्रीरामजी को यह मत अच्छा लगा। यह चरित्र कलि-काल के पापों को हरने वाला है, जैसा कि तुलसीदासजी ने गाया है, श्रीरघुनाथजी गुण-समूह और सुख के धाम और संशय व दुःख के नाशक हैं। रे मूर्ख मन ! तू सब आशा और भरोसा छोड़कर इन्हीं को गा और सुन।

दोहा--सकल सुमंगल दायक, रघुनायक गुन गान ।

सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान ॥ ६२ ॥

श्रीरामजी का गुणानुवाद सब सुन्दर मङ्गलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनते हैं, वे भवसागर से बिना तौका के पार हो जाते हैं।

✽ मास पारायण-चौबीसवाँ विश्राम ✽

॥ इति श्रीमद्दरामचरितमानसे शकलकलिकलुप विष्वक्ते पंचम सोपान समाप्तः ॥

कलियुग के समस्त पापों को नष्ट करने वाले श्रीरामचरितमानस का

यह पाँचवाँ सोपान समाप्त हुआ ॥

दुहुँ कर कमल सुधारत बाना * कह लंकेस मन्त्र लगि काना

प्रभु रामजी अपना सिर सुग्रीव की गोद में रखे हैं, बायें और दाहिने ओर धनुष-बाण रखे दोनों कर-कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण कानों से लगाकर प्रभु से कुछ सम्मति कर रहे हैं।

बड़भागी अंगद हनुमाना * चरण कमल चापन विधि नाना

प्रभु पाछें लछिमन वीरासन * कटि निषङ्ग कर बान सरासन

बड़े भाग्यवान् अंगद और हनुमान अनेक प्रकार से चरणकमल दवा रहे हैं, प्रभु के पीछे लक्ष्मणजी वीरासन जमाये कमर में तरकस और हाथों में धनुष-बाण धारण किये विराजमान हैं।

दोहा-एहि विधि कृपा रूप गुन, धाम राम आसीन।

धन्य ते नर एहि ध्यान जे, रहत सदा लवलीन ॥१२॥

इस भाँति दया और गुणों के धाम श्रीरामजी विराजमान हैं वे पुरुष धन्य हैं जो इस प्रकार के ध्यान में सदैव मग्न रहते हैं।

पूरव दिसा विलोकि प्रभु, देखेउ उदित मयंक।

कहत सबहि देखहु ससिहि, मृगपति सरिस असंक ॥१३॥

श्रीरामजी ने पूर्व की ओर दृष्टि की तो चन्द्रमा को उदय हुआ देखा। वे कहने लगे चन्द्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निशंक है।

पूरव दिसि गिरि गुहा निवासी * परम प्रताप तेज बल रासी

मत्त नाग तम कुम्भ निहारी * ससि केसरी गगन बन चारी

पूर्व दिशा रूपी गुफा में रहने वाला अत्यन्त प्रताप, तेज और बल की राशि यह चन्द्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में विचर रहा है।

बिथुरे नभ मुकुताहल सारा * निसि सुन्दरी केर सिङ्गारा

कह प्रभु ससि महँ मेचकताई * कहहु काह निज निज मति भाई

आकाश में जो तारे छिटक रहे हैं, मानो गजमुक्ता हैं, जो रात्रिरूपी सुन्दर स्त्री के शृङ्गार हैं, प्रभु ने कहा-हे भाइयो! चन्द्रमा में जो श्यामलता है सो क्या है? सब अपनी-२ बुद्धि के अनुसार कहो।

कह सुग्रीव सुनहु रघुराई * ससि बहु प्रकट भूमि कै छाई

मारेउ राहु ससिह कह कोई * उर महँ परी स्यामता सोई

सुग्रीव ने कहा-हे रघुनाथजी! सुनिये, चन्द्रमा में पृथ्वी की परछाईं दीख पड़ती है। कोई बोले-राहु ने चन्द्रमा को मारा था, उसी चोट का दाग हृदय में पड़ गया है।

कोउ कह जब विधिरति मुख कीन्हा * सार भाग ससि कर हरिलीन्हा

छिद्र सो प्रगट इन्दु उर माहीं * तेहि तहँ देखिअ नभ परछाहीं

कोई बोले-जब ब्रह्माजी ने रति का मुख बनाया तो चन्द्रमा का सार निकाल लिया था। वही छिद्र चन्द्रमा के हृदय में दीख पड़ता है, उसी में से आकाश की परछाईं दीख पड़ती है।



* मङ्गलाचरण *

श्लोक

रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेर्भसिंहं,
योगीन्द्रं ज्ञानगाम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम् ।
मायातीत सुरेश्वरं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं,
वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वाशिरूपम् ॥

कामदेव के शत्रु-श्रीमहादेवजी द्वारा सेवित, संसार के भय को दूर करने वाले, कालरूपी मत्तवाले हाथों के लिए सिंहरूप, योगियों के ईश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, सर्व गुण-निधान, अजेय, निर्गुण, विकार रहित, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों को मारने में तत्पर, ब्राह्मण-मंडली-के पूज्य देवता, जल-पूर्ण श्याम मेघ के समान सुन्दर, कमल के समान नेत्रों वाले, पृथ्वी-पति के रूप में-स्वामी श्रीरामचन्द्रजी को मैं वन्दना करता हूँ ।

शंखेन्द्राभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं,
कालव्यालकराल भूषणधरं गङ्गाशशांकप्रियम् ।

काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमम्,
नौमीढ्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् ॥

शंख और चन्द्रमा की-सी कान्ति के बहुत ही सुन्दर शरीर वाले, पीताम्बरधारी, काले-मयानक साँपों का भूषण धारण करने वाले, गङ्गा और चन्द्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलि-युग के पाप-समूहों को दूर करने वाले, कल्याण के कल्पवृक्ष, पार्यतीजी के पति, गणेश-जी-खान, कामदेव को भस्म करने वाले, वन्दनीय शङ्करजी को मैं प्रणाम करता हूँ ।

दोहा— अस कौतुक कर राम सर, प्रविसेउ आइ निषङ्ग ।

रावन सभा ससंक सब, देखि महारस भङ्ग ॥१७॥

छत्र, मुकुट, कर्णफूल सब एक ही वाण से काटकर सबके देखते-र पृथ्वी पर गिरा दिये, उनके गिरने का भेद किसी ने नहीं जाना । ऐसा चमत्कार करके श्रीरामचन्द्रजी का वाण आकर तर्कस में प्रवेश कर गया । महा रसभंग देखकर सभा भयभीत हो गई ।

कश्यप न भूमि न मरुत विशेषा * अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा
सोचहिं सब निज हृदय विचारो * असगुन भयउ भयंकर भारी

न पृथ्वी हिली- न जोर से हवा चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही आँखों से देखा । सब मन में सोच रहे हैं कि बड़ा भयंकर असुगुन हो गया ।

दसमुख देखि सभा भय पाई * जिहँसि वचन कहु जुगुति बनाई
सिरउ गिरे सन्तत शुभ जाही * सुकुट परे कसि असगुन ताही

रावण सभा को भयभीत देखकर हँसा और युक्ति से बात बनाकर कहने लगा—जिसके सिर गिरने से भी सदा मंगल होता है । उसके सुकुट गिरने से अशकुन कैसा ?

सयन करहु निज निज गृह जाई * गवने भवन सकल सिर नाई
मन्दोदरी सोच उर बसेऊ * जब तें श्रवनपूर महि खसेऊ

अपने-अपने घर जाकर सोओ । यह सुनकर सब रावण को सिर नवाकर घर गए । मन्दोदरी के हृदय में तब ही चिन्ता बस गई जबसे कर्णफूल पृथ्वी पर गिरे थे ।

सजल नयन कहि जुगकर जोरी * सुनहु प्राणपति विनती मोरी
कन्त राम विरोध परिहरहू * जानि मनुज जनि हठ मन धरहू

वह आँखों में आंसूभर दोनों दाँय जोड़कर रावण से बोली—हे प्राणपति ! प्रार्थना सुनो—हे स्वामी ! श्रीरामजी से वर छोड़ दो, उनको मनुष्य जानकर हृदय में हठ मत करो ।

दोहा—दिश्व रूप रघुवंस मनि, करहु वचन विश्वासु ।

लोक कल्पना वेद कर, अङ्ग अङ्ग प्रति जासु ॥१८॥

वे श्रीरामजी विश्वरूप हैं, मेरी इस बात पर विश्वास कोजिए । वेदों ने उनके अङ्ग-अङ्ग में ब्रह्माण्डों की कल्पना की है ।

पद पाताल सीस अज धामा * अपर लोक अँग अँग विश्रामा
भृकुटि विशाल भयंकर काला * नयन दिवाकर कच घन माला

उनके चरण पाताल, मस्तक ब्रह्मलोक और अन्य जितने लोक हैं वे अङ्ग-अङ्ग में स्थित हैं । उनकी भृकुटि विशाल ही भयंकर काल है, नेत्र सूर्य हैं, और केश मेघों के समूह हैं ।

जासु दान अश्विनो कुमारा * निसि अरु दिवस निमेष अपारा
श्रवन दिशा दस वेद बखाना * मारुत स्वाँस निगम निज बानी

के चरण-कमल हृदय में धारण कर सब रीछ और वानर एक कौतुक करो ।

धावहु मर्कट विकट बरूथा * आनहु विटप गिरिन्ह के जूथा
सुनि कपि भालु चले करि हूहा * जय रघुवीर प्रताप समूहा

सब वानर और रीछों के झुंड दौड़े जाओ और वृक्षों व पर्वतों को उखाड़ नाओ। जामवन्त की यह आज्ञा सुनकर रीछ-वानर 'हू-हा' करके 'महाप्रतापी श्रीरामजी की जय' बोलते हुए चले।

दोहा—अति उतङ्ग गिरि पादप, लीलहिं लेहिं उठाई ।

आनि देहिं नल नील कहूँ, रचहिं ते सेतु बनाई ॥ २ ॥

वे बड़े ऊँचे वृक्ष और पर्वतों को खेल ही से उठा लेते हैं और लाकर नल-नील को देते हैं वे उन्हें मली भाँति सुधारकर सेतु बाँधते हैं ।

सैल विशाल आनि कपि देहीं * कन्दुक इव नल नील ते लेहीं
देखि सेतु अति सुन्दर रचना * विहंसि कृपानिधि बोले वचना

जो बड़े-बड़े पर्वत वानर लाकर देते हैं, उन्हें नल-नील गंद की तरह सेते हैं । सेतु को सुन्दर रचना देख कृपानिधान श्रीरामजी प्रसन्न होकर बोले—

परम रम्य उत्तम यह धरनी * महिमा अमित जाइ नहिं वरनी
करिहुँ इहाँ शम्भु स्थापना * मोरे हृदयँ परम कल्पना

यह भूमि अति रमणोक और श्रेष्ठ है इसकी अपार महिमा वर्णन नहीं की जा सकती । मैं यहाँ शिवजी की स्थापना करूँगा, यह मेरे हृदय में पूर्ण संकल्प है ।

सुनि कपीस बहु दूत पठाए * मुनिवर सकल बोलि लै आए
लिंग थापि विधिवत करि पूजा * शिव समान प्रियमोहि न दूजा

यह सुनकर सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, वे मुनिवरों को लाये, तब श्रीरामजी ने शिव-लिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक पूजा की और बोले—शिवजी के समान मुझे कोई भी दूसरा प्रिय नहीं है ।

शिव द्रोही मम भगत कहावा * सो नर सपनेहु मोहि न भावा
शंकर विमुख भगति चह मोरी * सो नारकी मूढ़ मति थोरी

जो शिव द्रोही मेरा भक्त कहलाता है, वह स्वप्न में भी मुझे नहीं भाता, शंकरजी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहे— वह नारकी, मूर्ख और अल्प-बुद्धि है ।

दोहा—शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास ।

ते नर कराहिं कल्प भरि, घोर नरक महुँ वास ॥ ३ ॥

जो शंकरजी के प्रेमी और मेरे द्रोही हों, अथवा शिवजी के द्रोही और मेरे भक्त हों, वे मनुष्य कल्पभर घोर नरक में वास करते हैं ।

जे रामेश्वर दरसनु करिहहिं * तेतनु तजिमम धाम सिधारिहहिं

मन्दोदरि मन महँ अस ठयऊ * पियहि कालवश सतिभ्रम भयऊ

हे मृगनयनी ! तेरी सुन्दर बातें बढ़ी गूढ़ हैं, जो समझने में सुख देने वाली और सुनने से भय को दूर करने वाली हैं। मन्दोदरी ने मन में निश्चय कर लिया कि मृत्यु के बस पति को भ्रम हो गया है।

दोहा—एहि विधि करत विनोदबहु, प्रातः प्रगट दसकन्ध ।

सहज असंक लङ्कपति, समाँ गयऊ मद अन्ध ॥ २१ ॥

बहुत प्रकार से विनोद करते हुए सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर लंकापति मदान्ध रावण अपनी समा में गया।

सो०—फूलइ फलइ न वेत, जदपि सुधा वरपहि जलद ।

मूरख हृदयँ न चेत, जाँ गुरु मिलहि विरञ्चिसम ॥ ३ ॥

वेत फलता फलता नहीं, चाहे मेव अमृत ही क्यों न बरसावे। इसी प्रकार मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता, चाहे ब्रह्मा के समान गुण ही क्यों न मिले।

दोहा—मन्त्रिन्ह सहित दशानन, चढ्यौं सृङ्ग गिरि जाय ।

सारन कह तव राज सन, देखहु कपि समुदाय ॥ १ ॥

वहाँ रावण अपने मन्त्रियों को साथ लेकर अत्यन्त उच्च शिखर पर जा चढ़ा। तब शुक-सारण बोले—हे राजन ! वानरों के समूह तो देखो।

यह जो सिंहनाद किलकरहीं * सप्त ताल उन्नति उच्चरहीं
सहस्र कोटि अतुलित बलवाना * इनके संग वानर परिनामा

यह जो सिंहनाद करके किलकारी मारते हैं और सात ताड़ के वृक्षों के बराबर ऊँचे हैं तथा सहस्र करोड़ अनुलित बल वाले वानर इनके साथ हैं।

रन अजीत यह सहज असंका * नाद सुने काँपें गढ लङ्का
नभ निखरहु इनके लंगूरे * जनु ऋतु पावस युग धनु पूरे

यह युद्ध में अजय और स्वभाव से ही निडर हैं, जिनकी गर्जना सुनकर लङ्कागढ़ कांपता है आकाश में इनकी पूँछों को देखो, मानो वर्षा ऋतु में दो घनुष निकल आये हों।

विश्वकर्मा के सुत अभिमानी * इन परसे पत शिलउ तरानी
रहव ताम्रगिरि कन्दर माहीं * गोदावरी विमल जल पाहीं

ये विश्वकर्मा के अहंकारी पुत्र हैं, इन्हीं के छूने से शिलायें जल के ऊपर तैरती थीं। ये ताम्र-गिरी की कन्दरा में रहते हैं और गोदावरी का निर्मल जल पीते हैं।

अति बल आगे धारहि वीरा * ईन पर कृपा करहि रघुवीरा
करहि यमहु कर संगर ढोला * कज्जल वरण नाम नल नीला

श्री रामायण भा० टी०



श्रीरामजी द्वारा रामेश्वर

कासीपुरी वास इन्ह केरा * ससर कबहुँ जिन्ह पीठ न केरा

इनमें से प्रत्येक में एक हजार हाथी का बल है, इनकी संख्या सात पद्म है, इनका वास काशीपुर में, जिन्होंने युद्ध में कभी पीठ नहीं फेरी।

तीक्ष्ण दन्त नखायुध धारी * द्वन्द युद्ध यह जानहि भारी

धूमकेतु यूथप इन्ह केरा * लंका निकट कौन्ह जेहि डेरा

तीक्ष्ण नख और दांतरूपी अस्त्र धारण करने वाले ये भारी द्वन्द-युद्ध जानते हैं। इनका सेनापति धूमकेतु है, जिसने लङ्का के निकट डेरा किया है।

इहि कर जेठ बन्धु जामवन्ता * तेहिके बलकें कर पाव को अन्ता

देव दनुज को जूझै ताही * धरा होइ कर कन्दुक जाही

इसका बड़ा भाई जामवन्त है। उसके बल का अन्त कौन पा सकता है? देवता और राक्षस उससे कौन जुझे, जो पृथ्वी को गेंद के समान उठा सकता है।

वसे असंक नर्मदा तोरा * कुलिस समान अभेद्य सरीरा

यह निर्भय ही नर्मदा के किनारे रहता है और उसका शरीर वज्र के समान अभेद्य है।

दोहा—सचिव सुकण्ठ चरन रज, रघुवर कर प्रिय वास।

शो जड़मति जो याहि रण, वह जीतन को आस ॥ ४ ॥

यह (जामवन्त) सुग्रीव का मन्त्री और श्रीरघुनाथजी का प्रिय दास है। वह मूर्ख है जो युद्ध में इसे जीतना चाहता हो।

अब देखहु यह यूथ अपारा * पीत वरण होइ गयउ पहारा

बाल भानु अरुणि जस फूटी * निशिचर निकर तमी वह छूटी

अब इस अपार सेना को देखो, जिसके रंग से पहाड़ पीला हो गया है। जैसे बाल-सूर्य की किरण फूटकर राक्षसरूपी अंधकार का नाश करना चाहती हो।

चौबिस अर्बुद इन्ह कर जूहा * सहस बूँद सम कोटि समूहा

शिला सैल जे आगे परहीं * पाँयन्ह मर्दि गर्द सम करहीं

इसका समूह चौबीस अरब का है। हजार बूँदों के समान इन करोड़ों का समूह है। जो शिला अथवा पर्वत आते हैं, उन्हें ये पावों से मसलकर धूल के समान कर देते हैं।

कञ्चन गिरि कन्दर के वासी * इन्ह कर यूथनाथ अविनासी

अति बल वासन कर हितकारी * सखा सुकण्ठ केर सुखकारी

ये सुमेरु पर्वत की गुफाओं के निवासी हैं इनका सेनापति अविनाशी है। वह अत्यन्त बलशाली, इन्द्र का हितकारी और सुग्रीव का सुखदाई मित्र है।

पान करे गंगा कर नीरा * पर्वत सृंग समान सरीरा

छिन छिन सिंहनाद जो होइ * गर्जत आवत है कपि सोई

छ ऐसे जीव भी थे, जो एक को एक पकड़ कर खा जायें। किंतु वह भी किसी से डरते रहते थे।

भुहि बिलोकत टरहिं न टारे * मन हरषित सब भए सुखारे
तेन्ह की ओट न देखिअ बारी * मगन भए हरि रूप निहारी
चला कटकु प्रभु आयसु पाई * को कहि सक कपिदल विपुलाई

वे सब प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, हटाते नहीं हटते, सब मन में प्रसन्न और खुशी हुए। उनकी आड़ में जल नहीं बीछ पड़ता, भगवान का रूप देखकर सब मग्न हो गये। प्रभु की आज्ञा पाकर सेना चली। बानर-सेना का विस्तार कौन कह सकता है ?

दोहा—सेतबन्धु भइ भीर अति, कपि नभ पन्थ उड़ाहिं।

अपर जल चरन्हि ऊपर, चढ़ि चढ़ि पारहि जाहि ॥ ५ ॥

सेतुबन्ध पर बड़ी भीड़ हुई। तब कुछ बानर आकाश-मार्ग में उड़कर चले। बहुतेरे जलचर जीवों पर चढ़कर जाने लगे।

अस कोतुक बिलोकि द्वौ भाई * विहँसि चले कूपाल रघुराई
सेन सहित उतरे रघुबीरा * कहि न जाइ कपि जूथप भीरा

दोनों भाई ऐसा कोतुक देखकर हँसे। तब कूपाल रामचन्द्रजी चले, सेना समेत रघुनाथजी पार जा उतरे। बानर-सेनापतियों की इतनी भीड़ थी कि कहीं नहीं जा सकते।

सिन्धु पार प्रभु डेरा कीन्हा * सकल कपिन्ह कहुँ आयसु दीन्हा
खाहु जाइ फल मूल सुहाए * सुनत भालु कपि जहुँ तहुँ धाए

समुद्र के पार प्रभु ने डेरा किया और सब बानरों को आज्ञा दी कि तुम सब जाकर फल-फूल खाओ। सुनते ही रोछ-बानर इधर-उधर दौड़ गये।

सब तरु फले राम हित लागी * रितु अरु कुरितु काल गतित्यागी
खाहिं मधुर फल विटप हिलावाहिं * लंका सन्मुख सिखर चलावाहिं

श्रे मन्त्री के हित के लिए सब वृक्ष श्रुत-श्रुत का विचार छोड़कर फल उठे, तब रोछ-बानर भीठे-भीठे फल खाकर वृक्षों को हिलाने लगे। पहाड़ों के शिखर उखाड़ कर लड्डा की ओर फेंकने लगे।

जहुँ कहुँ फिरत निसाचर पावाहिं * घेरि सकल बहु नाच नचावाहिं
दाँतिन्ह काटि नासिका काना * कहि प्रभु सुयसु देहिं तव जाना

घूमते हुए जहाँ कहीं राक्षसों को पाते तो सब घेर कर खूब नचाते। दाँतों से उनके नाक-कान काट लेते, फिर जब वह श्रीरामचन्द्रजी का सुयश कहता—तब उसे जाने देते।

जिन्ह कर नासाकान निपाता * तिन्ह रावनहि फही सब वाता
सुनत श्रवन बारिध बन्धाना * दसमुख बोलि उठा अकुलाना

जिन राक्षसों के नाक कान काट लिये, उन्होंने जाकर रावण से सब बातें कहीं। समुद्र पर सेतु

तेहि कहि सुपक अरुध फल खाहू * सुनत चितव इत उत चित चाहू

जब यह माता अंजनी के गर्भ से पैदा हुआ तो क्षुधित हो पूछने लगा। उन्होंने कहा कि पके हुए लाख फल खाओ। यह सुनकर, यह इधर-उधर मन-चाही वस्तु देखने लगा।

बालभानु लखि गगन उड़ाना * असत रविहि बासव तब जाना
मारेउ बज्र चिबुक भइ टेढ़ी * कोपि पवन समीर सब बेढी

तब प्रातः के लाख-सूर्य को देखयह आकाश में उड़ गया, तो इन्द्र ने यह जानकर कि यह सूर्य को निगल जायगा, बज्र मारा, तो ठोड़ी टेढ़ी होगई। तब पवन ने क्रोधित होकर वायु रोक दी।

देव विकल होइ अस्तुति कीन्हा * कुलिस होइ तनु अस बर दीन्हा
पवन वायु ने तब तजि दीन्हा * जय जय धुनि सब देवन्ह कीन्हा

तब देवताओं ने विकल होकर स्तुति की और यह वर दिया कि इसका देह बज्र तुल्य हो जायगा। तब पवनदेव ने वायु को छोड़ दिया और देवताओं ने जय-जयकार की

विद्या पढत भानु के पाहीं * उलटी गति रवि आगे जाहीं
बारिधि लाँघेउ गो पद जैसे * इहि कपीस सन जूझव कैसे

इसने सूर्य से विद्या पढ़ी है, उलटी गति होने के कारण सूर्य के सम्मुख चला था। इसने समुद्र गौ-पद की भाँति लाँघ लिया था। अब आप इस कपि से कैसे युद्ध करेंगे ?

दोहा—अम्बुक पीत बाल रवि, बदन तेज अति राज।

पवन ते बेग अधिक तनु, अनल नितम्ब सुभ्राज ॥ ७ ॥

इसके शरीर की तेज प्रातःकाल के सूर्य के सामान अत्यन्त शोभित है, आँखें पीली हैं। गति पवन से भी अधिक है, अग्नि के सामान नितम्ब शोभित हैं, इससे आप कैसे लड़ोगे ?

अलसी कुसुम श्याम तनु रेखा * पुरुष पुराण धरै नर वेषा
मस्त गजेन्द्र शुण्ड भुजदण्डा * धनुष वाण असि धरे प्रचण्डा

अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण जिनका शरीर है, जो पुराण-पुरुष मनुष्य रूपधारी हैं। जिनकी भुजा मस्त गजेन्द्रकी सूँड के समान हैं, जो कठिन धनुष-वाण और तलवार धारण किये हैं।

उर विशाल अति उन्नत कन्धर * कम्बु कण्ठ रेखा प्रसन्न वर
मुख छबि की उपमा कवि जोहे * शशि सरोज सज कहै न सौहे

जिनका वक्षःस्थल विशाल है, कन्धे ऊँचे हैं, शंख की सी गर्दन में रेखा पड़ी हुई है, प्रसन्नमुख है। जिनके मुख की उपमा यदि कवि-चन्द्रमा और कमल से करे, तो शोभा नहीं देता।

दशन पाँति की कांति कहै को * ललचत मन पटतरिय लहै को
देखन अधरन की अरुणार्ई * बिम्बाफल कन्दूक लजाई

जिनकी वन्तावलि की कांति की शोभा कौन कह सकता है ? उपमा देने की मन बजघाता है, किन्तु उपमा किससे दें ? जिनके होठों की लाली को देखकर कन्दूरी और

सन्त कहहिं अस नीति दसानन * चौथेपन जाइहि नृप कानन
तासु भजनु कीजिअ तहँभर्ता * जो कर्ता पालक संहर्ता

हे दशमुख ! संतजन ऐसी नीति कहते हैं कि राजा चौथेपन में वन को जावे । हे स्वामी ! वन में जाकर भजन करिये, जो संसार को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाले हैं ।

सोई रघुवर प्रनत अनुरागी * भजहु नाथ ममता सब त्यागी
मुनिवर जतनु करहिं जेहि लागी * भूप राजु तजि होहि विरागी

वही श्रीरामजी शरणागत पर प्रेम करने वाले हैं। हे नाथ ! सब ममता छोड़कर उन्हीं को भजिये, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि लोग अनेकों यत्न करते हैं, राजा राज्य छोड़ विरागी हो जाते हैं ।

सोई कोसलाधीस रघुराया * आयउ करन तोहि पर दाय
जौं प्रिय मानहु मोर सिखावन * सुजसु होइ तिहुँपर अति पावन

वही कोसलनाथजी श्रीरामजी आप पर कृपा करने आये हैं । हे प्रियतम ! जो आप मेरी इस शिक्षा को मानो तो तीनों लोकों में आपका उत्तम यश फैल जाय ।

दोहा—अस कहि नयन नीर भरि, गह पद कम्पित गात ।

नाथ भजहु रघुनाथहि, अचल होइ अहिवात ॥ ८ ॥

ऐसा कहकर आँखों में जल भरकर कांपते हुए शरीर से चरण पकड़ लिए । हे नाथ ! प्रभु का भजन करिये जिससे मेरा सुहाग अचल हो जायेगा ।

तव रावन मयसुता उठाई * कहै लाग खल निज प्रभुताई
सुनु तैं प्रिया वृथा भय माना * जग जोधा को मोहि समाना

तब रावण ने मन्दोदरी को उठाया और वह दुष्ट अपनी प्रभुता कहने लगा—हे प्रिये ! सुनो, तुम व्यर्थ ही डर मान रही हो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है ?

वरुन कुवेर पवन जम काला * भुजवलजितेउँ सकल महिपाला
देव दनुज नर वस सब मोरें * कवन हेतु भय उपजा तोरें

मैंने अपनी भुजाओं के बल से वरुण, कुवेर, यम, काल और सब दिग्पालों को जीत लिया है । देवता, दैत्य, मनुष्य सब ही मेरे वश में हैं । फिर किस कारण तुम्हें ऐसा भय उत्पन्न हुआ ?

नाना विधि तेहि कहेसि बुझाई * सभा बहोरि बैठ सो जाई
मन्दोदरी हृदयँ अस जाना * काल वस्य उपजा अभिमाना

अनेक प्रकार से मन्दोदरी को समझाकर रावण अपनी सभा में जाकर बैठ गया । मन्दोदरी ने अपने हृदय में जान लिया कि काल के वश में होने से अभिमान हो गया है ।

सभा आयवमन्त्रिन्ह तेहि वूझा * करव कवन विधि रिपुसन जूझा
कहहिं सचिन्न सुनु निसिचर नाहा * वार वार प्रभु पूँछहु काहा
कहहु कवन भत करिअ विचारा * नर कपि भालु अहार हमारा

ऐसे पद्म अठारह साजा * विग्रह बड़ेउ राम के काजा
बीर बेष असु नयन विशाला * कम्बु कण्ठ मोतिन की माला

ऐसी अठारह पद्म सेना श्रीरामजी के कार्य के निमित्त तुमसे लड़ने को तैयार है।
वीर बेषधारी, विशाल नेत्रवाला, शंख के समान गर्दन में मोतियों की माला पहने-
दोहा-हस्तो साठि सहस्र बल, सदा धर्म की सीव ।

श्वेत छत्र सिर शोभित, यह राजा सुग्रीव ॥ ८ ॥

जिसमें साठ हजार हाथियों का बल है, सदा धर्म की सीमा है, श्वेत-छत्र जिसके सिर
पर शोभित है, ऐसा राजा सुग्रीव है।

❀ इति क्षेपक ❀

एहि विधि सकल दिखाये, सारन कपिदल जूह ।

गने न रावण काल वंश, अतिशय गर्व समूह ॥१०॥

इस प्रकार सारण ने कपि-दल के समस्त समूह दिखाये, परन्तु अभिमानी रावण काल
के वश होकर उन्हें कुछ नहीं गिनता।

इहाँ प्रात जागे रघुराई * पूछा मत सब सचिव बुलाई
कहह बेगि का करिअ उपाई * जामवन्त कह पद सिर नाई

यहाँ प्रातःकाल श्रीरामजी जागे और सब मन्त्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि जल्दी
कहो क्या उपाय करना चाहिए ? यह सुनकर जामवन्त ने चरणों में सिर नवाकर कहा--

सुनु सर्वग्य सकल उर बासी * बुधि बल तेज धर्म गुन रासी
मन्त्र कहउँ निज मति अनुसार * दूत पठाइअ बालिकुमारा

हे सर्वग्य ! सबके हृदय में वास करने वाले ! हे बुद्धि, बल, तेज धर्म व गुणों की राशि!
सुनो, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ कि बालि-पुत्र अंगद को दूत बनाकर भेजिये।

नीक मन्त्र सबके मन माना * अङ्गद मन कह कृपानिधाना
बालितनय बुधि बल गुन धामा * लंका जाहु तात मस कामा

यह उचित सलाह सबके मन को अच्छी लगी, तब कृपानिधान श्रीरामजी ने अंगद से
कहा-हे बुद्धि, बल और गुणों के निधान अंगद ! हे तात ! मेरे काम के लिए लड़ जाओ।

बहुत बुझाइ तुम्हहि का कहउँ * परम चतुर मैं जानत अहऊ
काजु हमार तासु हित होई * रिपुसन करेहु बतकही सोई

तुम्हें बहुत समझाकर क्या कहूँ ? तुम परम चतुर हो-यह मैं जानता हूँ। तुम शत्रु
से वैसी ही बात करना-जिससे हमारा काम हो और उसको भवाई हो

सो ०-प्रभु आज्ञा धरि सीस, चरन बन्दि अंगद कहेउ ।

सोइ गुनसागर ईस, राम कृपा जापर करउ ॥ ४ ॥

यह मत जाँ मानहु प्रभु भोरा * उभय प्रकार सुजसु जग तोरा
सुत सन कह दसकण्ठ रिसाई * असि मति सठ केहितोहिसिखाई

हे प्रभो ! यह जो मेरा मत आप मानें तो संसार में दोनों प्रकार से सुयश होगा । यह सुनते ही रावण क्रोधित होकर पुत्र से कहने लगा—रे शठ ! तुझे ऐसी मति किसने सिपाई ? अबही ते उर संसय होई * वेनुमूल सुत भयउ घमोई

सुनि पितु गिरापुरुष अतिघोरा * चला भवन कहि वचन कठोरा

तेरे मन में अभी से संदेह होने लगा । रे लड़के ! तू बांस की जड़ में काँटेदार पोथे की तरह उत्पन्न हुआ है । पिता के ऐसे कड़े और तीखे वचन सुनकर प्रहस्त कठोर वचन कहता हुआ घर की चला ।

हित मतितोहिन लागिहि कैंसें * काल विवस कहूँ भेषज जैसें
सन्ध्या समय जानि दससीसा * भवन चलेउ निरखत भुज वीसा

हितकारी बातें भी तुम्हें इस प्रकार अच्छी नहीं लगतीं, जिस प्रकार मरने वाले की औषधि नहीं सुहाती । संध्या का समय जानकर रावण अपनी बीसों भुजाओं को निहारता हुआ महल की ओर चला ।

लंका सिखर उपर अगारा * अति विचित्र तहँ होइ अखारा

बैठि जाउ तेहि मन्दिर रावत * लागे किन्नर गुन गन गावन

बाजहि ताल पखावज वीना * नृत्य करहि अपछरा प्रवीना

लंका की चोटी पर एक स्थान विचित्र था, वहाँ अखाड़ा था, । वहाँ जाकर रावण बंठा और किन्नर उसके गुणानुवाद गाने लगे । ताल, पखावज और वीणा आदि बाजे बज रहे हैं, चतुर अप्सरायें नाच रही हैं ।

दोहा—सुनासीर सत सरित सो, सन्तत करइ विलास ।

परम प्रबल रिपु सीस पर, तद्यपि सोच न त्रास ॥११॥

वह सदैव सी इन्द्रों के समान आनन्द करता है, यद्यपि तिर पर बड़ाप्रबल शत्रु चढ़ आया है, तथापि उसके मन में कोई डर नहीं है ।

इहाँ सुबेल सैल रघुवीरा * उतरे सेन सहित अति भोरा

शिखर एक उतङ्ग अति देखी * परम रम्य सम सुभ्र विसेपी

यहाँ सुबेल पर्वत पर श्रीरामजी सेना की बड़ी भारी भीड़ सहित उतरे । उस पर्वत पर एक सुन्दर बहुत ऊँचा, स्वच्छ और समतल शिखर देखकर—

तहँ तरु किसलय सुमन सुहाए * लछिमन रचि निज हाय डसाए

ता पर रुचिर मृदुल मृगछाला * तेहिं आसन आसीन कृपाला

वहाँ वृक्षों के कोमल पत्ते और फूल लक्ष्मणजी ने हाथों से बिछाये, फिर उस पर सुन्दर कोमल मृगछाला बिछाई । उसी आसन पर कृपालु श्रीरामजी विराजमान हुए ।

प्रभु कृत सीस कपीस उछङ्गा * वाम दाहिनी दिसि चाप निषङ्गा

तुरत निसाचर एक पठावा * समाचार रावनहि जनावा
सुनत विहंसि बोला दससीसा * आनहु बोलि कहाँ करि कीसा

तुरन्त एक राक्षस को भेजा और उसने सभा में जाकर रावण को समाचार सुनाया।
सुनते ही वह हँसकर बोला—बुला लाओ, कहाँ का बन्दर है ?

आयसु पाइ दूत बहु धाए * कपि कुञ्जरहि बोलि लै आए
अंगद दीख दसानन बैसैं * सहित प्राण कज्जलगिरि जैसे

आज्ञा पा बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथों के समान—अंगद को बुला लाये।
अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुआ देखा, जैसे सजीव कज्जल का पहाड़ हो।

भुजा बिटप सिर सृंग समाना * रोमावली लता जनु नाना
मुख नासिका नयन अरु काना * गिरि कन्दरा खोह अनुमाना

भुजायें वृक्षों के समान और सिर पर्वत की चोटियों के तुल्य हैं। रोमावली मानो अनेक
वेलें हैं और मुख, नाक, आँख व कान—ये मानो पर्वत की गुफायें हैं।

गयउ सभाँ मन नेकु न सुरा * बालि तनय अति बल बाँकुरा
उठे सभासद कपि कहूँ देखी * रावन उर भा क्रोध विसेषी

बड़े बाँके बलवान् अंगदजी सभा में गये, मन में जरा भी नहीं डरे। अंगद को देखते
ही सभासद उठ खड़े हुए, यह देखकर रावण के मन में बड़ा क्रोध हुआ।

दोहा—जथा मत्त गज जूथ महुँ, पञ्चानन चलि जाइ।

राम प्रताप सुमिरि मन, बैठ सभाँ सिरु नाइ ॥२३॥

जैसे मत्तवाले हाथियों के झुण्ड में सिंह चला जाता है, वैसे ही श्रीरामजी का प्रताप
स्मरण कर, सिर नवाकर सभा में बैठ गये।

कह दसकण्ठ कवन तें बन्दर * मैं रघुवीर दूत दसकन्धर
मम जनकहि तोहि रही मितार्ई * तव हित कारन आयउँ भाई

रावणने पूछा—रे बन्दर! तू कौन है ? (अंगदजी ने कहा—) हे रावण! मैं श्रीरघुनाथजी का दूत
हूँ, मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता थी। इसलिए, हे भाई! मैं तुम्हारी भलाई के लिये आया हूँ।

उत्तम कुल पुलस्तिक कर नाती * शिव विरंचि पूजेहु बहु भाँती
वर पायउ कोन्हेहु सब काजा * जीतेहु लोकपाल सब राजा

तुम्हारा कुल उत्तम है, तुम पुलस्त्यजी के पौत्र हो, तुमने शिवजी और ब्रह्माजी का
पूजन भी बहुत भाँति से किया। वरदान पाकर सब काम सिद्ध किये हैं। लोकपाल और
इन्द्र को भी जीता है।

नृप अभिमानी मोह बस किम्बा * हरि आनेहु सीता जगदम्बा
अब शुभ कहा सुनहुँ तुम्ह मोरा * सब अपराध छमिहि प्रभु तोरा

राज-मद अथवा मोह के वश होकर तुम जगत्माता सीताजी को लाये हो। अब तुम

प्रभु कह गरल बन्धु सति केरा * अति प्रिय निज उर दीन्हवसेरा
विष संजुत कर निकर पसारो * जारत विरहवन्त नर नारी

प्रभु ने कहा—'विष' चन्द्रमा का बहुत प्यारा भाई है, उसे चन्द्रमा ने अपने हृदय में हो
वसा लिया है। विषयुक्तकिरणों के समूह को फंसा कर यह विरही नर-नारियों को जलाता है।

दोहा—कह हनुमन्त सुनहु प्रभु, सति तुम्हार प्रिय दास।

तब मूरत विधु उर बसत, सोइ स्यामता अभास ॥१४॥

हनुमानजी ने कहा—हे प्रभु! सुनिये, चन्द्रमा आपका प्यारा सेवरू है, उसके हृदय में
आपकी मूर्ति बसती है। वही श्यामलता झलक रही है।

⊗ नवान्ह पारायण—सातवां विश्राम ⊗

पवन तनय के वचन सुनि, विहँसे राम सुजान।

दक्षिण दिसि अवलोकि प्रभु, बोले कृपानिधान ॥१५॥

हनुमानजी के वचन सुनकर चतुर रामजी हँसे और दक्षिण की ओर देखकर कृपानिधान बोले—
देखु विभीषन दक्षिण पासा * धन घमण्ड दामिनी विलासा

मधुर मधुर गरजइ घनघोरा * होई वृष्टि जनि उपल कठोरा

हे विभीषण! दक्षिण दिशा की ओर देखो। बादल उमड़ रहे हैं, मधुर-मधुर ध्वनि से
घने बादल ऐसे गरज रहे हैं, मानो कठोर औलों की वर्षा होना चाहती है।

कहत विभीषन सुनहु कृपाला * होइ न तड़ित न वारिद माला

लंका सिखर ऊपर आगारा * तहँ दसकन्धर देख अखारा

विभीषण ने कहा—हे कृपालु! सुनिये, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा है।
यह लड्डू के शिखर पर एक महल है, वहाँ रावण अजाड़ा देव रहा है।

छत्र मेघडम्बर सिर धारो * सोइ जनु जलद घटा अति कारो

मन्दोदरी श्रवन ताटंका * सो प्रभु जनु दामिनी दमंका

रावण के सिर पर मेघडम्बर छत्र है, वही मेघ के समान जान पड़ता है। और हे प्रभु!
मन्दोदरी के कानों में जो कर्ण-फूल हैं, वही बिजली के तुल्य चमक रहे हैं।

बाजहि ताल मृदग अनूपा * सोइ रव मधुर सुनहु सुरभूपा

प्रभु मुसुकान समुझि अभिमाना * चाप चढ़ाइ वान सन्धाना

हे देवोत्तम! सुनिये, यह जो मनोहर ताल-मृदङ्ग बज रहे हैं, उन्हीं का शब्द सुनाई दे रहा है।
रावण का अभिमान समझकर रामजी मुस्कराये, और धनुष चढ़ाकर वाण संधान किया।

दोहा—छत्र मुकुट ताटंका सब, हते एक ही वान।

सबके देखत महि परे, मरमु न कोऊ जान ॥१६॥

हे रावण ! मैं तो कुल-नाशक हूँ और तुम सच्चे कुल-पालक हो । ऐसा अन्धे-बहिरे भी नहीं कहते, फिर तुम्हारे तो कान, आंख और भुजा बीस-बीस हैं ।

सिव विरञ्चि सुर मुनि समुदाई * चाहत जासु चरन सेवकाई
तासु दूत होइ हम कुल बोरा * अइसिहूँ मति उर विदरिन तोरा

शिव, ब्रह्मा आदि सब देव और मुनिगण जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उन प्रभु का दूत होकर मैंने कुल को डुबोया, ऐसी मति होने से तुम्हारा हृदय विदोर्ण नहीं हो जाता ।

सुनि कठोर बानी कपि केरी * कहत दशानन नयन तरेरी
खल तव कठिन वचन सब सहऊँ * नीति धर्म मैं जानत अहऊँ

अङ्गदजी के कड़े वचन सुनकर रावण भौंह चढ़ाकर बोला—रे दुष्ट ! तेरे कड़ुवे वचन मैं इस कारण सह रहा हूँ कि मैं नीति-धर्म जानता हूँ ।

यह कपि धर्म सीलता तोरी * हमहुँ सुनी कृत परत्रिय चोरी
देखी नयन दूत रखवारी * बूढ़ि न मरहु धर्मव्रत धारी

अङ्गद बोले—तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और आंखों से दूत की रक्षा भी देख ली । ऐसे धर्म-व्रतधारी तुम चुल्लुभर पानी में डूब क्यों नहीं मरते ?

नाक कान बिनु भगति निहारी * क्षमा कीन्ह तुम्ह धर्म विचारी
धर्मशीलता तव जग जानी * पाव दरसु हमहु बड़भागी

फिर नाक-कान कटी अपनी बहिन शूर्पणखां को देखकर धर्म विचारकर ही तुमने क्षमा कर दिया था । तुम्हारी धर्मशीलता संसार में प्रसिद्ध है, मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूँ, जो तुम्हारा दर्शन पाया ।

दोहा—जनि जल्पसि जड़ जन्तु कपि, सठ विलोकु मम बाहु ।

लोकपाल बल विपुल ससि, ग्रसन हेतु सब राहु ॥२६॥

रावण बोला—रे मूर्ख पशु, वन्दर ! बकवाद मत कर, मेरी भुजाओं को देख, जो महा-बली के बलरूपी चन्द्रमाओं को ग्रसने के लिए राहु के समान हैं ।

पुनि नभ सर मम कर निकर, कमलन्ह पर करि वास ।

सोभित भयउ मराल इव, शम्भु सहित कैलास ॥२७॥

फिर आकाशरूपी तालाब में मेरे हाथरूपी कमलों के ऊपर ठहर कर शिवजी समेत कैलाश-पर्वत-हंस के समान सुशोभित हुआ ।

तुम्हारे कटक माँझ सुनु अंगद * मोसन भिरिहि कवन जोधाबद
तव प्रभु नारि विरहँ बलहीना * अनुज तासु दुख दुखी मलीना

हे अंगद ! सुनो, तुम्हारी सेना में मुझसे लड़ने योग्य कौन, कौन-सा योद्धा है ? तुम्हारा प्रभु तो स्त्री के वियोग से बलहीन है और उसका भाई उसी के दुख से दुखी और निर्बल है ।

तुम्ह सुग्रीव कूलद्रुम दोऊ * अनुज हमार भीरु अति सोऊ

* शुक्र द्वारा वानरों का बल वर्णन-शेषक *

उनकी नासिका अश्विनोकुमार हैं, असंख्य रात-दिन पलकों की गति हैं कान हो
विशायें हैं, यह वेदों ने कहा है। उनका श्वास पवन और वेद उनकी वाणी है।

अधर लोभ जम दसन कराला * माया हास वाहु दिगपाल
आनन अनल अम्बुपति जीहा * उत्पति पालन प्रलय समीह

लोभ उनके होठ हैं, यमराज भयंकर दांत हैं, माया हँसो है, दिगपाल मुजायें हैं, अग्नि
मुख है, वरुण जीभ है, उत्पत्ति, पालन और लय उनकी चेष्टा है।

रोम राजि दष्टादस भारा * अस्ति सैल सरिता नस जारा
उदर उदधि अधगो जातना * जगमय प्रभु का बहुत कल्पना

अठारह प्रकार की वनस्पतियाँ ही उनकी रोमावलि हैं, पयंत हड्डियाँ हैं, समस्तनदियाँ
नसें हैं, उदर समुद्र है और नर्क नीचे की इन्द्रियाँ हैं। इस प्रकार प्रभु 'विश्व-रूप' हैं।

दोहा-अहंकार सिव बुद्धि अज, मन ससि चित्त महान।
मनुज वास सचराचर, रूप राम भगवान ॥१६॥

जिनका अहंकार महादेव हैं, बुद्ध ब्रह्माजी हैं, चन्द्रमा मन है, महत्त्व चित्त है, जहाँ
चराचर रूप भगवान श्रीरामचन्द्रजी ने मनुष्य रूप में निवास किया है।

अस विचारि सुनु प्राणपति, प्रभु सन वयर विहाइ।
प्रोति करहु रघुवीर पद, नम अहिवात न जाइ ॥२०॥

हे प्राणपति ! सुनो ऐसा विचारकर श्रीरामचन्द्रजी से वंद छोड़ कर उनके चरणों में
प्रोति करो, जिससे मेरा मुहाग न जाय।

बिहँसा नारि वचन सुनि काना * अहो मोह महिमा बलवाना
नारि सुभाउ सत्य कवि कहहों * अवगुन आठ सदा उर रहहों

स्त्री की बात कानों से सुनकर रावण हँसा और बोला-अहो ! मोह की महिमा प्रयत्न
है। कवि स्त्रियों का स्वभाव ठीक कहते हैं कि उनके हृदय में आठ अवगुण सदा रहते हैं।

साहस अनृत चपलता माया * भय अविवेक असौच अदाया
एपुकर रूप सकल तें गावा * अति विसाल भय मोहि सुनावा

साहस, झूठ, चंचलता, माया, भय, अज्ञान, अपवित्रता, और निर्दयता। तूने शत्रु का
सब प्रकार से कहा और मुझे भी बड़ा भय सुनाया।

सब प्रिया सहज बस मोरें * समुझि परा प्रसाद अव तोरें
निउँ प्रिया तोरि चतुराई * एहि विधि कहहु मोरि प्रभुताई

प्रिये ! यह सब सहज ही मेरे घस में है, अब तुम्हारी कृपा से मुझे समझ पड़ा है।
मेरी चतुराई मैंने जान ली, इसी बहाने से तुमने मेरी प्रभुता कही है।

वतकही गूढ मृगलोचचनि * समुझत सुखद सुनत भव मोचनि

सत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है ।

दोहा-हँसि बोलेउ दस मौलि तब, कपि कर बड़ गुन एक ।

जो प्रतिपालइ तासु हित, करइ उपाय अनेक ॥३२॥

तब रावण हँसकर बोला-वानरों में एक बड़ा गुण होता है कि जो उन्हें पालता है, उसकी भलाई के लिए वे अनेक उपाय करते हैं ।

धन्य कीस जो निज प्रभु काजा * जहँ तहँ नाचइ परिहरि लाजा
नाच कूदि करि लोग रिझाई * पति हित करइ धर्म निपुनाई

वानर धन्य हैं, जो अपने स्वामी के कार्य के लिए जहाँ-तहाँ लाज छोड़कर नाचते हैं । नाच-कूदकर, लोगों को रिझाकर स्वामी का हित करते हैं, यह उनकी धर्म-निपुणता है ।

अङ्गद स्वामिभक्त तब जाती * प्रभुगुन कसन कहसि एहि भाँती
में गुन गाहक परम सुजाना * तब कदु रटनि करउँ नहि काना

हे अङ्गद! तेरी जाति स्वामि-भक्त है, फिर तू अपने स्वामी के गुण इस प्रकार क्यों न कहेगा । मैं गुण-ग्राहक व बड़ा चतुर हूँ, इससे तुम्हारे कठोर वचनों पर ध्यान नहीं देता ।

कह कपि तब गुन गाहक ताई * सत्य पवनसुत मोहि सुनाई
वन विध्वंसि सुत बधि पुर जारा * तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा

अंगद बोले-तुम्हारी सच्ची गुण-ग्राहकता हनुमानने मुझे सुनाई थी । उसने तुम्हारी अशोक-वाटिका उजाड़ी, पुत्र को मारा, नगर को जलाया, तो भी तुमने उसका कुछ न विगाड़ा ।

सोइ विचारि तब प्रकृति सोहाई * दसकन्धर में कीन्हि ठिठाई
देखेउँ आइ जो कछु कपि भाषा * तुम्हरे लाज न रोष न माखा

इसी तुम्हारे सीधे स्वभाव को विचार कर, हे रावण ! मैंने ठिठाई की है । जो कुछ हनुमान ने कहा था-वही मैंने आकर देखा । तुम्हें न लाज है, न रोष है, न क्रोध है ।

दोहा-बक्र उक्ति धनु वचन सर, हृदय दहेउ रिपु कीस ।

प्रति उत्तर सड़सिन्ह मनहुँ, काढ़त भट दससीस ॥३३॥

अंगद ने वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी वाण मारकर शत्रु का हृदय जला दिया । उन वाणों को योद्धा रावण मानो प्रत्युत्तर रूपी सँडासी से निकालता है ।

जाँ असि मति पितु खाए कीसा * कहि अस वचन हँसा दससीसा
पितहि खाइ खातेउँ पुनि तोही * अवहीं समुझि परा कछु मोही

वह बोला-हे वानर ! तेरी बुद्धि ऐसी है, तभी तो तूने अपने पिता को खा लिया । ऐसा वचन फहकर रावण हँसा, तब अंगद बोले-पिता को खाकर अब तुझे भी खा जाता, परन्तु मुझे अब कुछ समझ में आ गया ।

बालि विमल जस भाजन जानी * हतउँ नतोहि अधम अभिमानी
कहु रावन रावन जग केते * मैं निज श्रवन सुने सुनु तेते

जो अत्यन्त चलशाली वीर आगे चलते हैं, इन पर श्रीरघुनाथजी की अत्यन्त कृपा है। ये युद्ध में यम को भी डीजा कर सकते हैं, ये नज, और नील नामक दो वानर हैं।

दोहा—पद्म अठारह निज कटक, चल इनकी भुज छांह।

तिज कर सुरभी सुमन लै, रघुपति पूजो वांह ॥ २ ॥

वानरों की अठारह पद्म सेना इनकी भुजाओं की छाया में चलती है। अपने हाथ से मनोहर सुगन्धित पुष्प लेकर श्रीरघुनाथजी ने इनकी भुजाओं का पूजन किया है।

**यह जो आवत अचल समाना * चौदह ताड़ उच्च परिनामा
बास पुलिन्दा के तट करई * अम्बुद निकर निरखि कर धरई**

यह जो पर्वत के समान चला आता है, जिसकी चौदह ताड़ के बुझों के बराबर है, जो पुलिन्दा नदी के तट पर रहता है और बादलों के समूह को देखते ही पकड़ लेता है।

**रक्त कमल दल सम सब देहा * जनु विकसेउ सन्ध्या कर मेहा
हतै मेदिनी पूँछ भँवाई * लंका साँह चितव जनु खाई**

इसकी देह लाल कमल के समान है, मानो संध्या का मेघ उदय हुआ हो। पूँछ घुमाकर मारे तो पृथ्वी फट जाय, लङ्का को और ऐसे देखता है, मानो छा जायगा।

**तारा सुवन बालि को जायो * अति जुझार रघुपति मन भायो
हृदयँ गगन इहि के प्रभु भातू * पञ्च पद्म इन कर परिमानू**

बालि से उत्पन्न यह तारा का पुत्र बड़ा ही वीर है और धोरामजी को बहुत ही प्रिय है उसके हृदयाकाश में प्रभु सूर्य के समान बसते हैं, इसके साथ पाँच पद्म वानर हैं।

**करै वज्र बासव कर भङ्गा * उदयाचल कहँ लेई उचङ्गा
परम चतुर सेनप इहि लागी * रघुपति कृपा परम वड़भागी**

यह इन्द्र के वज्र को भी तोड़ सकता है, उदयाचल को गोदी में उठा सकता है। यह सेनापति परम चतुर है और श्रीरघुनाथजी की कृपा से परम भागवान है।

दोहा—पाउँ धरा धरि चापै, पन्नग होइ अकाज।

सेन अग्रसर देखहु, यह अङ्गद युवराज ॥ ३ ॥

जो पृथ्वी पर चरण रखकर वा वा दे, तो शेषनाग व्याकुल हो जायें। देखो सेना के आगे चलने वाला यही युवराज अंगद है।

**ये देखहु जो चहुदिशि घुमड़े * मनहुँ लंक सावन घन उमड़े
आगे पीछै दश दिशि धावहि * शिला श्रृंग तरु तोरन आवहि**

अब इन वानरों को देखो, जो चारों ओर घुमड़े हुए हैं, मानो लंका में सावन के मेघ उमड़ आये हों। यह आगे-पीछे दशों दिशाओं में वीड़ते हैं और शिला, पर्वत व वृक्ष तोड़ते हैं।

सहस्र नाग बल सबहि समाना * सप्त पद्म इन कर परिनामा

रे कपि बर्बर खर्व खल, अब जाना तव ग्यान ॥३५॥

ऐसे रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य का बखान करता है । रे बकवादी, तुच्छ दुष्ट बानर ! मैंने तेरा ज्ञान जान लिया ।

सुनि अंगद सक्रोध कह बानी * बोलु सँभार अधम अभिमानी
सहसबाहु भुज गहन अपारा * दहन अनल सम जासु कुठारा

यह सुनकर अंगद क्रोधित हो बोले—रे नीच, अभिमानी ! सँभालकर बोल । सहस्राबाहु की सघन वन के समान भुजाओं को जलाने के लिए जिनका कुठार अग्नि के समान था ।

जासु परसु सागर खर धारा * बूढ़े नृप अग्नित बहु बारा
तासु गर्व जेहि देखत भागा * सो नर क्यों दससीस अभागा

जिनके कुठाररूपी समुद्र की तीक्ष्ण धार में असंख्य राजा अनेकों बार डूब गये, उन परशुराम जी का अहंकार जिन्हें देखते ही भाग गया, रे अभागे ! वे श्रीरामचन्द्रजी मनुष्य कैसे हैं ?

राम मनुज कस रे सठ बंगा * धन्वी कामु नदी पुनि गंगा
पशु सुरधेनु कल्पतरु रूखा * अन्न दान अरु रस पीयूषा

रे मूर्ख उद्दण्ड ! क्या रामजी मनुष्य हैं, कामदेव क्या धनुषधारी है, गंगाजी क्या साधारण नदी है ? कामधेनु क्या पशु है, कल्पवृक्ष क्या पेड़ है, अन्नदान क्या दान है, अमृत क्या रस है ?

बैनतेय खग अहि सहसानन * चिन्तामनिपुनि उपल दसानन
सुनु मतिमन्द लोक बैकुण्ठा * लाभकिरघुपति भगतिअकुण्ठा

गरुड़जी क्या पक्षी हैं ? शेषजी क्या सर्प हैं ? हे रावण ! चिन्तामणि क्या पत्थर है ? हे मन्द-मति रावण ! क्या बैकुण्ठ भी लोक है और श्रीरघुनाथजी को अविचल भक्ति क्या कोई साधारण लाभ है ?

दोहा—सेन सहित तब मानि मथि, वन उजारि पुर जारि ।

कस रे सठ हनुमान कपि, गयउ जो तब सुतमारि ॥३६॥

जो सेना समेत तेरा मान मर्दन कर, अशोक-वाटिका को उजाड़ कर, नगर को जलाकर एवं तेरे पुत्र को मारकर चले गये, रे शठ ! वे हनुमानजी क्या बानर हैं ?

सुनु रावन परिहरि चतुराई * भजसि न कृपासिन्धु रघुराई
जौं खल भएसि राम कर द्रोहो * ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही

रे रावण ! सुन, कपट छोड़कर दया के समुद्र श्रीरघुनाथजी का भजन क्यों नहीं करता ? रे दुष्ट ! जो तू श्रीरामजी का बैरी हुआ तो ब्रह्मा और शिवजी भी तेरी रक्षा नहीं कर सकते ।

मूढ़ वृथा जनि मारसि गाला * रात वयरु अस होइहि हाला
तव सिर निकर कपिन्ह के आगे * परिहहि धरनि राम सर लागे

रे खल ! व्यर्थ गाल मत बजा, श्रीरामजी से बैर करने से तेरा ऐसा हाल होगा कि उनके बाण लगने से तेरे सिर बानरों के आगे पृथ्वी पर गिरेंगे ।

वह गङ्गा का जल पीता है और पर्वत के शिखर के समान इसका शरीर है। क्षण-क्षण में जो सिंहनाद होता है, सो यही वानर गजंता चला आता है।

दोहा—यश त्रिलोक मंगल दलित, बल कर नाहिन अन्त।

यह कपि राजा केशरी, सुवन जासु हनुमन्त ॥ ५ ॥

तीनों लोकों में जिसका यश फल रहा है, जिसने अनेकों हाथी मारे हैं, जिसके बल का अन्त नहीं है, यह वही वानरों का राजा 'केशरी' है जिसका पुत्र—'हनुमान' है।

यह जो कुमुद पत्र सम देहा * जस कैलाश शरद कर मेहा
लोचन मधु पिंगल अति लौने * कामरूप चितवत चहुँ कौने

यह जो कुमुद के समान देह वाला, जैसे कैलाश-पर्वत के ऊपर शरद का मेघ होता है। जिसके नेत्र भूरे और सुन्दर हैं तथा जो इच्छानुसार देह धारण करने वाला और चारों कौनों को देखता है।

लंका साँह लँगूर फिराई * गर्जत प्रलयमेघ की नाँई
सुरपति साथ युद्ध कहँ गयऊ * तब ते कामरूप व्है भयऊ

लङ्का की ओर पूँछ फिराता हुआ प्रलय के बादलों के समान गरजता है, यह इन्द्र के साथ युद्ध में गया था, तबसे इच्छानुसार देह धारण करने वाला हो गया है।

मघवा इहि सन कोन्ह मितार्ई * करत सदा यह देव सहाई
सहस कोटि कपि इहि के संगी * राते पीत श्वेत बहु रंगी

इन्द्र ने इससे मित्रता कर ली है, यह सदा देवताओं की साहयता करता है। इसके साथ एक हजार करोड़ वानर हैं, जो लाल, पीले, सफेद और अनेकों अन्य रंगों के हैं।

वचन मृषा मम प्रभु यह नाहीं * अपर वालि जानहुँ मन माहीं
ददुँर शैल सदन यहि केरा * मन वच कर्म राम कर चेरा

हे प्रभु! मेरा यह वचन झूठा नहीं है, आप इसे अपने मन में दूसरा वालि ही समझिये। इसका निवास ददुँर पर्वत है और यह मन, वचन, कर्म से धीरामजी का दास है।

दोहा—गिरिवर लाँघत आवत, चलत उड़ावह रेणु।

तरुणि तेज इन्ह रूँधिआ, तारा तनय सुषेणु ॥ ६ ॥

बड़े-बड़े पर्वतों को लाँघता आता है, जिसके चलने से धूल उड़ती है और जिसने सूर्य के तेज को भी मन्द कर दिया है, उसका नाम सुषेण है और तारा इसकी बेटो है।

यह कपि लसत मनहुँ गिरि गेरू * दिन मुख छविजस लहत सुमेरू
सोइ कपि प्रथम लंक जेहि जारी * प्रभु के हिलगि आवत इहि वारी

यह वानर देखो, जो गेरू के पर्वत के समान शोभित है, जिसे प्रातःकाल सुमेरु-पर्वत की शोभा होती है। यह वही वानर है जिसने लङ्का जलाई थी। हे प्रभु! अब यह न जाने क्यों आता है ?

अञ्जनि गर्भ जन्म जब भयऊ * क्षुधित जननिसन अतिरिसठयऊ

सो दुख अरु जुवती विरह, पुनि निसिदिन मम त्रास ॥४१॥

उसे गुण हीन प्रतिष्ठा हीन समझ कर पिता ने वनवास दे दिया। वह दुखी और स्त्री के वियोग से दुखी, इस पर भी उसे रात-दिन मेरा डर रहता है।

दोहा-जिन्ह के बल कर गर्व तोहि, अइसे मनुज अनेक।

खाहि निसाचर दिवस निसि, मूढ़ समुझि तजि टेक ॥४२॥

जिनके बल का तुझे घमण्ड है, ऐसे मनुष्य संसार में बहुत से हैं, जिन्हें राक्षस दिन-रात भक्षण किया करते हैं। रे मूर्ख! हठ छोड़कर मन में समझ ले।

जब तेहि कीन्ह राम कै निन्दा * क्रोधवन्त अति भयउ कपिन्दा
हरि हर निन्दा सुनइ जो काना * होइ पाप गोघात समाना

रावण ने श्रीरामजी की निन्दा की तो अङ्गद बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि भगवान हरि और महादेवजी की निन्दा जो कानों से सुनता है, उसे गौ हत्या के समान पाप होता है।

कटकटान कपि कुञ्जर भारी * दुहु भुजदण्ड तमिक महि मारी
डोलत धरनि सभासद खसे * चले भाजि भय मारुत ग्रसे

कपि श्रेष्ठ अङ्गद कटकटाये और दोनों भुजायें पृथ्वी पर दे मारों। पृथ्वी डगमगाने लगी और सभासद आँधे गिर पड़े, वे भय रूपी भूत से ग्रसित होकर भाग चले।

गिरत सँभारि उठा दसकन्धर * भूतल परे मुकुट अति सुन्दर
कछु तेहि तै निज सिरन्हि सँभारे * कछु अङ्गद प्रभु पास पवारे

रावण गिरते-गिरते सम्हलकर उठा, परन्तु उनके मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ को तो उसने अपने सिरों पर रख लिया और कुछ अंगद ने प्रभु श्रीरामजी के पास फेंक दिये।

आवत मुकुट देखि कपि भागे * दिनहीं लूक परन विधि लागे
की रावन करि कोप चलाए * कुलिस चारि आवत अति धाए

मुकुट आते देख बन्दर भागे और बोले-हे विधाता! क्या दिन में ही तारे टूटने लगे, अथवा रावण ने क्रोध करके इन्हें फेंका है, जो यह चार वज्र बड़े वेग से दौड़ते हुए आ रहे हैं।

कह प्रभु हँसि जनि हृदय डेराहू * लूक न असिन केतु नहि राहू
ए किरोट दसकन्धर केरे * आवत बालि तनय के प्रेरे

प्रभु ने हँसकर कहा-जी में डरो मत। ये न उल्का हैं, न वज्र हैं, न केतु हैं और न राहु हैं, यह रावण के मुकुट अङ्गद के फेंके हुए आ रहे हैं।

दोहा-तरकि पवनसुत कर गहे, आनि धरे प्रभु पास।

कौतुक देखहि भालु कपि, दिनकर सरिस प्रकास ॥४३॥

कूब कर हनुमानजी ने उनको हाथ से पकड़ लिया और प्रभु के पास लाकर रख दिये। रीठ, वानर उनका तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था।

गुल-दुपहरिया के पुष्प भी लज्जाते हैं ।

शुक तुण्डहि नासिका लजावे * थके सुकवि नहि पटतर आवै
शीश जटा के मुकुट बनाये * भाल विशाल तिलक अति भाये

जिनकी नासिका तीते की नाक को बजाती है, थैल कवि थक गये कोई उपमा नहीं बनती।
सिर के ऊपर जटाओं का मुकुट बनाये हैं, विशाल मस्तरु पर तिलक अति सुतोमित हैं ।

दक्षिण दिसि लछिमन बलवीरा * राम वाहु सम अति रणधीरा

जिनकी दाहिनी ओर लक्ष्मणजी बंठे हैं और शौरधुनायजी को भुजाओं के समान बड़े
रणधीर हैं । हे नाथ ! तुम उन्हें शौरामजी के दर्शन करो ।

दोहा—वाम विभीषण सोहहीं, सिर अभिषेका राज ।

बीज मन्त्र सब जानहि, अकसर करहि सुकाज ॥ ८ ॥

जिनकी बायी ओर विभीषण हैं और जिनके मस्तक पर राज-तिलक शोभित है । यह
बीज-मन्त्र जानता है, अतः निश्चय ही थैल प्रभु (शौरधुनायजी) का कार्य करेगा ।

अब देखहु यह सेन सुहाई * भादों मेघ घटा जनु छाई
कन्या एक ब्रह्म उपजाई * नयन चारु अरु रूप लुभाई

अब इस सुहावनी सेना को देखूँ, जो मानो भादों के मेघों की घटा छा रही हो । एक
कन्या ब्रह्माजी ने उत्पन्न की थी, जिसके नेत्र सुन्दर और रूप मनमोहक था ।

बाल माहि दिनकर बल दीन्हा * श्रुतु जानी वासं वरि कीन्हा

जातक यमल वीर दोउ जाए * देव अंश वानर तनु पाए

उसके बालों पर सूर्य का वीर गिरा और श्रुतु जानकर इन्द्र ने उससे सम्भोग किया ।
उन्हीं के वीर्य से दो पुत्र उत्पन्न हुए । देवताओं के अंश से उन्होंने वानरों के शरीर पाये ।

किष्किन्धा पर इन्हकर थाना * देव सरिस मधुवन उद्याना

ऋष्यमूक इन्ह कर विश्रामा * चातुर्मास वसे जहं रामा

इनका निवास किष्किन्धा पर है, जहाँ का 'मधु-वन' देवताओं के 'मन्वन-वन' से भी
सुन्दर है । इनका विधाम ऋष्यमूक-पर्वत पर है, जहाँ शौरामजी चार महोत्सव रहे थे ।

बाली ज्येष्ठ राम रण मारा * यहि कहैं राजतिलक प्रभु सारा

तारा तासु भई पटरानी * जेहिकर सुत अंगद अति ग्यानी

इनके बड़े भाई 'धालि' को शौरामजी ने युद्ध में मार दिया और इस सुग्रीव को राज-
तिलक कर दिया । तारा इसकी पटरानी हुई है, जिसका पुत्र अंगद बहुत जानी हैं ।

सहस कोटि कर अर्बुद ऐका * अर्बुद सहसक विन्दु विवेका

सहस विन्दु गणगन मन माना * महा पद्म तेहि कर परिमाना

सहस्र करोड़ का एक अरब, सहस्र अरब का एक विन्दु और सहस्र विन्दु का एक
पद्म ज्योतिषियों ने कहा है ।

गलरि फल समान तव लंका * बसहु मध्य तुम्ह जातु असंका
में बानर फल खान न बारा * आसु दोन्ह न राम उदारा

तेरी लंका गलर के फल के समान है। तुम सब कीड़े उसमें निशंक रहते हो। मैं बानर
हूँ, फल खाते मुझे देर नहीं लगती, पर क्या कहूँ? उदार श्रीरामजी ने मुझे आज्ञा नहीं दी।

जुगति सुनत रावन मुसुकाई * मूढ सिखिहि कहँ बहुत झुठाई
बालि न कवहुँ गाल अस मारा * मिलि तपसिन्ह तँ भएसि लबारा

ऐसी युक्ति को सुनकर रावण मुस्कराया (और बोला-) रे मूर्ख! बहुत झूठ बोलना तुने
कहाँ से सीखा? बालि ने तो कभी गाल नहीं बजाये, तू तपस्वियों से मिलकर बकवादी हो गया है।

साँचेहुँ मैं लवार भुज बीहा * जौ न उपा रिउँ तव दस जीहा
समुझि राम प्रताप कहि कोपा * सभा माँझ पन करि पद रोपा

अङ्गद-बोला-रे वीस भुजा वाले! मैं सचमुच बकवादी हूँ, जो मैं तेरी दसों जीभों को
न उखाड़ डालूँ। फिर श्रीरामजी के प्रताप को स्मरण कर अङ्गदजी ने कोप कर सभा में
प्रण करके पैर जमा दिया।

जौं मम चरन सकसि सठ टारी * फिरहिं रामु सीता में हारी
सुनहु सुभट सब कह दससीसा * पद गहि धरनि पछारहु कीसा

(और बोले-) रे शठ! यदि मेरा पैर तू हटा सके, तो श्रीरामजी लौट जायेंगे और मैं
सीताजी को हार जाऊँगा। रावण बोला-मुनो, सब योधा मिलकर इस बानर का पैर
पकड़कर पृथ्वी पर पछाड़ दो।

इन्द्रजीत आदि बलवाना * हरषि उठे जहँ तहँ भट नाना
झपटीहि कहि बल विपुल उपाई * पद न टरइ बैठहिं सिरु नाई

मेघनाद आदि अनेक बलवान योद्धा प्रसन्न होकर जहाँ-तहाँ उठे, वे झपटे और बहुत बल
करके अनेक उपाय करते हैं। परंतु पाँव उठाये नहीं उठता, तब सिर झुकाकर बैठ जाते हैं।

पुनि उठि झपटीहि पद आराती * टरइ न कीस चरन एहि भाँती
पुरुष कुयोगी जिमि उरगारी * मोह विटप नहिं सकहिं उपारी

फिर उठकर राक्षस झपटते हैं, परंतु अङ्गद का चरण ऐसे नहीं टलता। जैसे-हे गरुड़!
कुयोगी पुरुष मोहलुपी वृक्ष को नहीं उखाड़ता।

दोहा-भूमि न छाँड़त कपि चरन, देखत रिपु मद भाग।

कोटि विघ्न ते सन्त कर, मन जिमि नीति न त्याग ॥४४॥

जैसे अनेक विघ्न होने पर भी सन्त कामन नीति नहीं छोड़ता, वैसे ही अंगद का पैर
नहीं उठता। यह देखकर शत्रु का घमण्ड जाता रहा।

कपि बल देखि सकल हिय हारे * उठा आपु कपि कें परचारे

प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य कर व चरणों में प्रणाम कर अङ्गदजी बोले-हे भगवत् ! हे श्रीरामजी ! वही गुणनिधान है, जिस पर आप कृपा करते हैं ।

स्वयं सिर सब काज, नाथ मोहि आदर दियउ ।

अस विचारि जुवराज, तनु पुलकित हरषित हियउ ॥ ५ ॥

कार्य तो सब आप ही सिद्ध हैं, परन्तु प्रभु ने मुझे आदर दिया है । ऐसा विचार कर युवराज का हृदय प्रसन्न और शरीर पुलकित हो गया ।

बन्दि चरन उर धरि प्रभुताई * अङ्गद चलेउ सबहि सिरु नाई
प्रभु प्रताप उर सहज असंका * रन वाँकुरा वालि सुत वंका

प्रभु के चरणों की बन्दना कर और उनकी प्रभुता हृदयमें धरकर सबको सिर नया अंगदजी चले । प्रभु के प्रताप से हृदय में रण-वाँकुरे वीर बालि-पुत्र अंगदजी सहज ही निर्भय हैं ।

पुर पैठत रावन कर वेटा * खेलत रहा सो होइ गै भेटा
वातहिं वात करष बढि आई * जुगल अतुल वय पुनि तरनाई

लज्जा में घुसते ही रावण-पुत्र से भेंट होगई, जो वहाँ खेल रहा था । तब यात ही वात में दोनों को क्रोध बढ़ आया, दोनों बड़े बलवान युवा थे ।

तेहि अंगद कहूँ लात उठाई * गहि पद पटकेउ भूमि भँवाई
निसिचर निकरि देखि भटभारी * जहँ तहँ चले न सकहिं पुकारी

उसने अंगद पर लात उठाई तो वह पंर पकड़कर अंगद ने उसे पृथ्वी पर पटक दिया । राक्षस-समूह ऐसे भारी योद्धा को देख इधर-उधर चले गये, पुकार नहीं मचा सके ।

एक एक सन मरमु न कहहों * समुझि तासु वध चुपकरि रहहों
भयउ कोलाहल नगर मझारी * आवा कपि लंका जेहिं जारी

एक दूसरे से भेद नहीं कहते, रावण-पुत्र का मरण जानकर सब चुप रह जाते हैं । नगर भर में बड़ा शोर मच गया कि वही वानर आया है-जिसने लज्जा जलाई थी ।

अब धौं कहा करिहि करतारा * अति सभोत सब करहिं विचारा
विनु पूछें मगु देहिं दिखाई * जेहि विलोकि सोइ जाइ सुखाई

अब न जाने विधाता क्या करने वाला है ? सब डरकर बहुत सोच-विचार करने लगे । अंगद के बिना पूछे ही रास्ता बतलाने लगे, जिसे वे देखते-वही डर के मारे सूझ जाता था ।

दोहा-गयउ सभा दरवार तब, सुमिरि राम पद कञ्ज ।

सिंह ठवनि इत उत चितव, धीर वीर बल पुञ्ज ॥२२॥

तब श्रीरामजी के चरणारविन्दों का स्मरण कर, सिंह की चाल से इधर-उधर निहारते हुए महाबली अंगदजी सभा के द्वार पर गये ।

तब रावण साँधकाल जानकर दुःखी होकर अपने महल में गया । रावण को समझाकर मन्दोदरी फिर कहने लगी—

कन्त समुञ्जि मन तजहु कुमतिही * सोहन समर तुम्हहि रघुपतिही
रामानुज लघु रेख खचाई * सोउ नाहि नाघेहु अस मनुसाई

हे पति ! मन में समझ कुवृद्धि छोड़ दो, आपको रामजी से युद्ध करते शोभा नहीं देता । आपकी ऐसी तो बहादुरी है कि लक्ष्मणजी ने धनुष रेखा खींच दी थी, वह भी आपसे नहीं लांघी गई !
प्रिय तुम्ह ताहि जितव संग्रामा * जाके दूर केर यह कामा
कौतुक सिन्धु नाघि तब लंका * आयउ कपि केहरी असंका

हे प्रिय ! क्या आप उसे युद्धमें जीत सकोगे, जिनके दूतों के ऐसे काम हैं कि खेल ही में समुद्र को लांघ सिंह के समान एक बहादुर वानर आपकी लंका में निघड़क चला आया ।

रखवारे हति बिपिन उजारा * देखत मोहि अच्छ तेहि मारा
जारि सकलपुर कीन्हेसि छारा * कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा

उसने रखवालों को मार, वाटिका को उजाड़ दिया और आपके देखते २ उसने अक्ष कुमार को मार डाला । उसने सब लंका को भस्म कर दिया, तब आपका बल और घमण्ड कहां गया ?

अब पति मूषा गाल जनि मारहु * मोर कह कछु हृदय विचारहु
पतिरघुपतिहि नृपत जनि मानहु * अग जग नाथ अतुल बल जानहु

हे पति ! झूठे गाल मत बजाओ, मेरा कहा कुछ हृदय में विचारो । हे स्वामी ! रामजी को केवल राजा ही मत मानो, उन्हें चराचर जगत के स्वामी और महा पराक्रमी जानो ।

बान प्रताप जान मारीचा * तासु कहा नाहि मानेहि नीचा
जनक सभा अगनित भूपाला * रहें तुम्हउ बल अतुल विसाला

उनके बाण के प्रताप को मारीच ने जाना था, उनका कहा आपने अपनी खोटाई से नहीं माना राजा जनक की सभामें असंख्यों राजा थे, वहां विशालबल गर्व वाले आप भी थे ।

भञ्जिज धनुष जानकी बिआही * तब संग्राम जितेहु किन ताही
सुरपति सुन जानइ बल थोरा * राखा जिअत आँखि गहि फोरा

श्रीरामजीने धनुष को तोड़ जानकी को व्याहा, तब उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता ? देवराज इन्द्र के पुत्र जयन्त ने जाना कि इसमें बल थोड़ा है, तो श्रीरामजी ने उसे जीवित रखकर उसकी एक आंख फोड़ दी ।

सूपनखा कै गति तुम्ह देखी * तदपि हृदयँ नाहि लाज विसेषी
शूर्पणखा की दशा तो आपने देखी ही है, तो भी हृदय में लाज नहीं आती !

दोहा—बधि विराध खरदूषनहि, लीलाँ हत्यो कबन्ध ।

बालि एक सर मारयो, तेहि जानहु दसकन्ध ॥४७॥

जिसने विराध और खरदूषण को मार कर, लीला से ही कबन्ध को मार डाला और बालि को एक ही बाण से मार दिया । हे नाथ ! उनको जानो ।

मेरे शुन वचन सुनो-प्रभु श्रीरामजी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे ।

दसन गहहृ तृन कण्ठ कुठारी * परिजन सहित संग निज नारी
सादर जनकसुता करि आगे * एहिविधिचलहु सकल भय त्यागे
बांतों में तिनका दाबो, गले में कुल्हाड़ी डालो और अपने कुटुम्बोजनों तथा स्त्री को साथ
लेकर आदर सहित जानकी की आगे करके, इस प्रकार सब भय त्यागकर चलो ।

दोहा-प्रनतपाल रघुवंसमनि, त्राहि त्राहि अब मोहि ।

आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करिगे तोहि ॥२४॥

'हे शरणागत-रक्षक रघुवंशमणि ! अब मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ।' ऐसे दोन
वचन सुनते हो प्रभु श्रीरामजी तुमको अभय कर देंगे ।

रे कपि पोच बोलु सम्भारी * मूढ़ न जानेहि मोहि सुरारी
कहु निज नाम जनक कर भाई * केहि नाते मानिये मिताई

(रावण बोला-) अरे अधम बन्दर ! संभाल कर बोल । रे मूढ़ ! क्या मुझ देवताओं
के शत्रु को नहीं जानता ? अरे भाई ! अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते
से मित्रता मानता है ?

अंगद नाम वालि करं बेटा * तासों कबहुँ भई ही भेंटा
अङ्गद वचन सुनत सकुचाना * रहा वालि वानर में जाना

मेरा नाम अंगद है और मैं वालिका पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी मित्रता हुई ? अंगदजी की
बात सुनते हो रावण सकुचाया और बोला-हाँ, 'वालिका' नामक एक बन्दर था, मैं उसे जानता हूँ ।

अङ्गद तुही वालि कर वालक * उपजेउ वंश अनल कुल घालक
गर्भ न गयउ व्यर्थ तुम्ह जायउ * निज मुख तापस दूत कहायउ

रे अंगद ! तू वालिका बेटा है ? तू अपने वंश में अग्नि के समान कुल-नाशक उत्पन्न हुआ । गर्भ
में ही क्यों न नष्ट होगया ? तू व्यर्थ पैदा हुआ, जो अपने मुख से ही तपस्विनों का दूत कहलाया ।

अब कह कुशल वालि कहँ अहई * विहँसि वचन तव अङ्गद कहई
दिन दस गयें वालि पहि जाई * वूझेहु कुशल सखा उर लाई

अब कुशल कहो, वालिका कहाँ है ? तब अंगद ने हँसकर कहा-दस दिन बीतने पर स्वयं
वालिका के पास जाकर मित्र को छाती से लगाकर कुशल पूछ लेना ।

राम विरोध कुशल जसि होई * सो सब तोहि सुनाइहि सोई
सुनु सठ भेद होइ मन ताके * श्रीरघुवीर हृदय नहि जाके

श्रीरामजी से विरोध करने से जैसी कुशल होती है, वह सब तुम्हें वही सुनावेंगे । रे
मूढ़ ! सुन, भेद तो उसी के मन में पड़ सकता है, जिसके हृदय में श्रीरघुनाथजी न हों ।

दोहा-हम कुल घातक सत्य तुम्ह, कुल पालक दससीस ।

अन्धउ बधिर न अस कहहि, नयन कान तव वीस ॥२५॥

हे अङ्गद ! मुझे बड़ा अचरज है, हे तात ! सत्य कहो, मैं तुमसे पूछता हूँ । रावण सब राक्षसों का सिरमौर है, जिसकी भुजाओं के अतुल पराक्रम की संसार में धाक है ।

तासु मुकुट तुम्ह चारि चलाए * कहहु तात कवनी विधि पाए
सुनु सर्वग्य प्रनत सुखकारी * मुकुट न होय भूप गुन चारी

उसके चार मुकुट तुमने फेंके । हे तात ! कहो, वे मुकुट कहां से पाये ? यह सुनकर अङ्गदजी बोले-हे सर्वज्ञ ! शरणागत को सुख देने वाले ! सुनिये-वे मुकुट नहीं, वरन् राजा के चार गुण हैं ।

साम दाम अरु दण्ड विभेदा * नृप उर बसहि नाथ कहि वेदा
नीति धर्म के चरन सुहाए * अस जियँ जानि नाथ पहि आए

हे नाथ ! साम, दाम, दंड और भेद-ये चार गुण राजाओं के हृदय में बसते हैं, यह वेदों में कहा है । यही चार नीति-धर्म के सुन्दर चरण हैं, हे नाथ ! ऐसा जानकर ये आपके पास आये हैं ।

दोहा—धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल दिवस दससीस ।

तेह परिहर गुन आए, सुनहुँ कोसला धीस ॥४६॥

परम चतुरता भवन सुनि, बिहँसे राम उदार ।

समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बालि कुमार ॥५०॥

धर्म से हीन और प्रभु से विमुख रावण काल के वश में है । हे कौशलाधीश ! सुनिये, गुण उसे छोड़कर आपकी शरण में आये हैं । उदार श्रीरामजी-अङ्गदजी की परम चतुराई कानों से सुनकर हँसे । तदनन्तर बालि-पुत्र ने लंका के सब समाचार कहे ।

रिपु के समाचार जब पाए * राम सचिव सब निकट बोलाए
लंका बाँके चारि दुआरा * केहि विधिलागिय कहहु विचारा

श्रीरामजी ने जब शत्रु के सब समाचार पाये, तब सब मन्त्रियों को पास बुलाकर कहा-लंका के चार विकट दरवाजे हैं, उनमें किस प्रकार प्रवेश करना चाहिए ?

तब कपीस रिच्छेसि विभीषन * सुमिरि हृदय दिनकर कुल भूषन
करि विचार तिन्ह मन्त्र दृढावा * चारि अनी कपि कटुक बनावा

तब सुग्रीव, जामवन्त और विभीषण ने हृदय में श्रीरामजी का स्मरण कर आपस में विचार पक्का किया । वानर-सेना की टोलियाँ बनाई ।

जथा जोग सेनापति कीन्हे * जूथप सकल बोलि तब लीन्हे
प्रभु प्रताप कहि सब समझाए * सुनि कपि सिंहनाद करि भाए

और उनके लिये यथोचित सेनापति बनाये । सब सेनापतियों को बुला लिया और सबको प्रभु का प्रताप कहकर समझाया । जिसे सुन सब वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े ।

हरषित रामचरन सिर नावहि * गहि गिरि सिखर वीर सब धावहि
गर्जहि तर्जहि भालु कपीसा * जय रघुवीर कोसलाधीसा

जामवन्त मन्त्री अति बूढ़ा * सो कि होइ अब समराखड़ा

तुम और सुग्रीव दोनों नदी-किनारे के वृक्ष हो और जो मेरा भाई विभीषण है, वह भी बड़ा डरपोक है। मन्त्री जामवन्त बहुत बूढ़ा है, वह समर में क्या उट सकता है ?

शिल्पि कर्म जानहि नल नीला * है कपि एक महा बलसीला
आव प्रथम नगर जेहि जारा * सुनत वचन कह वालिकुमारा

नल-नील तो शिल्प काम जानते हैं। परन्तु एक बानर बड़ा बलवान् है, जो पहले यहां आकर नगर जला गया था। यह सुनकर अङ्गदजी बोले—

सत्य वचन कहु निसिचर नाहा * साँचेहु कीस कीन्ह पुर दाहा
रावन नगर अल्प कपि दहई * सुनि अस वचन सत्य को कहई

हे राक्षसराज ! सच बात कहो, क्या सचमुच उस बानर ने लंका को जला दिया ? रावण के नगर को एक छोटा-सा बानर जला दे, ऐसी बात सुनकर कौन उसे सत्य कहेगा ?

जो अति सुभट सराहेहु रावन * सो सुग्रीव केर लघु धावन
चलइ बहुत सो वीर न होई * पठवा खबर लेन हम सोई

हे रावण ! जिसे तुमने बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा-सा दूत है। जो बहुत चलता है, वह योद्धा नहीं होता, उसे तो हम लोगों ने खबर लेने के लिये भेजा था।

दोहा—सत्य नगर कपि जारेहु, विन प्रभु आवसु पाइ।

फिरि न गयउ सुग्रीव पहिं, तेहिं भय रहा लुकाइ ॥२८॥

क्या सचमुच उस बानर ने प्रभु को आज्ञा पाये बिना नगर को जला दिया ? इतने से बहू अभी तक लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया, उनके डर से छिप गया है।

सत्य कहहि दसकण्ठ सब, मोहि न सुनि कछु कोह।

कोउ न हमारे कटक अस, तोसन लरत जो मोह ॥२९॥

हे रावण ! तुमने सच कहा, सुनकर मुझे कुछ क्रोध नहीं होता। हमारी सेना में ऐसा कोई भी नहीं—जो तुमसे लड़ते हुए शोभा पावे।

प्रति विरोध समान सन, करिअ नीति अस आहि।

जौं मृगपति वध मेंडुकन्हि, भलकि कहइ कोउ ताहि ॥३०॥

प्रीति और विरोध बराबर वालों से ही करना चाहिए, नीति ऐसी हो है। यदि सिंह लोमड़ी को मारे, तो क्या कोई उसे भला कहेगा ?

जद्यपि लघुता राम कहूं, तोहि वधें वड़ दोष।

तदपि कठिन दसकंठ सुनु, छत्रि जाति कर रोष ॥३१॥

यद्यपि तमको भारने से धीरामजी की लघुता और बड़ा दोष है, तो भी हे रावण ! मुनो,

कोटि कँगूरन्हि चढ़ गए, कोटि कोटि रनधीर ॥५२॥

नाना प्रकार के हथियार और धनुष-बाण लिये, करोड़ों उत्तम वीर रणधीर राक्षस लङ्का के कँगुरों पर चढ़ गये ।

कोटि कँगूरन्हि सोहहि कैसे * मेरुन सृङ्गनि जनु घन बैसे
वाजहि ढोल निसान जुझाऊ * सुनि धुनि होइ भटन्हि मन चाऊ

कँगुरों पर वे कैसे शोभायमान हो रहे हैं, जैसे सुमेरु-पर्वत के शिखर पर बादल बँठे हों । ढोल, नगाड़े और जुझाऊ वाजे बज रहे हैं, उन्हें सुनकर योद्धाओं के मन में उत्साह बढ़ रहा है ।

वाजहि भेरि नफोरि अपारा * सुनि कादउँ उर जाहि दरारा
देखन्हि जाइ कपिन्ह के ठट्टा * अति विशाल तनु भालु सुभट्टा

बहुत-सी तुरही और नफोरियाँ बज रही हैं, उन्हें सुनकर कायरों की छाती फटती है । उन्होंने जाकर वानरों के ठट्ट देखे, बड़े विशाल शरीर वाले रोछ बड़े कट्टर योद्धा हैं ।

धावहि गनहि न अवघट घाटा * पर्वत फोरि करहि महि वाटा
कटकटाहिं कोटिन्ह भट गर्जहि * दसन ओठ काटहिं अति तर्जहिं

रोछ-वानर दौड़ते हुए विकट घाटियों को नहीं गिनते हैं । वह पहाड़ों को फोड़ कर मार्ग बना लेते हैं । करोड़ों वीर दाँत कटकटाते और गरजते हैं, तथा दाँतों से ओठों को काट कर ललकारते हैं ।

उत रावन इत राम दोहाई * जयति जयति जय परी लराई
निसिचर निकर समूह ढहावहि * कूद धरहिं कपि फेरि चलावहि

उधर रावण की व इधर श्रीरामजी की दुहाई दी जा रही है । जय-जयकार करके दोनों ओर से लड़ाई होने लगी । राक्षस लोग ऊपर से पहाड़ फेंकते हैं और वानर उन्हें पकड़ कर फिर राक्षसों पर ही फेंक देते हैं ।

छन्द—धरि कुधर खण्ड प्रचण्ड मर्कट भालु गढ़ पर डारहीं ।

झपटहिं चरन गहि पटक महि भजि चलत बहुरि पचारहीं ॥

अति तरलतरुन प्रताप तरपाहिं तमकि गढ़ चढि चढि गए ।

कपि भालु चढि मन्दिरन्ह जहँ तहँ राम जसु गावत भए ॥

पहाड़ों के टुकड़ों को लेकर वानर और रोछ गढ़ के ऊपर फेंकते हैं । झपटकर राक्षसों को पाँव पकड़कर भूमि पर पटक कर भाग जाते हैं, फिर ललकारते हैं । बड़े फुर्तीले व प्रतापी वानर-भालू तमककर चढ़ गये और महलों पर चढ़कर जहाँ-तहाँ श्रीरामजी का यश गाने लगे ।

दोहा—एकु एकु निसिचर गहि, पुनि कपि चले पराइ ।

ऊपर आपु हेठ भट, गिरहिं धरनि पर आइ ॥५३॥

फिर वानर एक-एक राक्षस को पकड़ कर भाग चले । ऊपर आप और नीचे राक्षसों

बालि के निमल यश का पाव जानकर, रे अधम अभिमानो ! मैं तुझे नहीं मारता । हे रावण ! यह तो ब्रता-संसार में कितने रावण हैं ? मेने कानों से जितने सुने हैं, उन्हें मुन-वलिहि जितन एक गयउ पताला * राखेहु वांधि सिसुन्ह हयशाला खेलहि बालक मारहि जाई * दया लागि बलि दीन्ह छोड़ाई

एक रावण बलि को जीतने पाताल में गया, वहाँ उसे बालकों ने घुड़साल में बांध रखा । बालक खेलते-खेलते उसे मारते थे, तब बलि को दया आई तो उसको छुड़ा दिया ।

एक वहीरि सहसभुज देखा * धाइ धरा जिमि जन्तु विसेपा कौतुक लागि भवन लै आवा * सो पुलस्ति मुनि जाइ छोड़ावा

फिर एक रावण को सहस्रबाहु ने देखा और बौड़कर उसे अद्भुत जीव की तरह पकड़ लिया व तमाशे के लिए उसे अपने घर ले आया, उसको पुलस्त्य मुनि ने जाकर छुड़ाया ।

दोहा-एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बालि को काँख ।

इन्ह महुँ रावन तँ कवन, सत्य बदहि तजि माँख ॥३७॥

एक रावण को कहते हुए मुझे संकोच होता है कि वह बालि को काँख में रखा था । इनमें से तुम कौन से रावण हो ? क्रोध त्यागकर सत्य कहो ।

सुनु सठ सोइ रावन बलसीला * हरगिरि जानु जासु भुजलीला जानु उमापति जासु सुराई * पूजेउँ जेहि सिर सुमन चढ़ाई

रावण बोला-सुन, मुख ! मैं वही प्रतापी रावण हूँ, जिसकी भुजाओं की लीला कलारा-पर्यंत जानता है । जिसकी कीर्ति को शिवजी जानते हैं, जिनकी पूजा मैंने मस्तकहृषी पुष्प चढ़ाकर की है ।

सिर सरोज निज करन्हि उतारो * पूजेउँ अमित वार त्रिपुरारी भुज विक्रम जानहि दिगपाला * सठ अजहूँ जिन्हकें उर साला

सिरहृषी कमलों को अपने हाथों से फाट २ कर अनेकों वार शिवजी का पूजन किया है । रे शठ ! मेरी भुजाओंके प्रतापको दिग्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में यह आज भी चुमता है ।

जानहि दिग्गज उर कठिनाई * जब जब भिरउँ जाइ वरिआई जिन्हके दसन कराल न फूटे * उर लागत मूलक इव टूटे

दिग्गज मेरे हृदय की कठोरता को जानते हैं, जिनके कठोर दाँत-जब-जब से जबदंस्ती उनसे जाकर भिड़ा-मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, बल्कि वे मेरी छाती से लगकर मूली की तरह टूट गये ।

जासु चलत डोलति इमि धरनी * चढ़त मत्तगज जिमि लघु तरनी सोइ रावन जग विदित प्रतापी * सुनेहि न श्रवन अलीक प्रलापी

जिसके चलने से पृथ्वी ऐसे हिलने लगती है, जैसे मत्तवाले हाथा के चढ़ने में छोटी नाव । वही प्रतापी रावण मैं संसार में प्रसिद्ध हूँ । अरे मिथ्या बकवादा ! क्या तूने नहीं सुना ?

दोहा-तेहि रावन कहँ लघु कहसि, नर कर करसि बखान ।

हनुमानजी ने अपने दल को व्याकुल होते सुना, उस समय वे बलवान् पश्चिम-द्वार पर थे। वहाँ मेघनाद युद्ध कर रहा था, बड़ी कठिनाई हो रही थी।

पवन तनय मन भा अति क्रोधा * गर्जेउ प्रबल काल सम जोधा
कूदि लंकगढ़ ऊपर आवा * गहि गिरि मेघनाद कहूँ धावा

वीर हनुमानजी के मन में बहुत क्रोध हुआ, वे प्रबल योद्धा काल के समान गरजे और कूद कर लंका के ऊपर चढ़ गये और हाथ में पर्वत लेकर मेघनाद की ओर दौड़े।

भञ्जेउ रथ सारथी निपाता * ताहि हृदय महुँ मारेसि लाता
दूसर सूत विकल तेहि जाना * स्यन्दन घाल तुरत गृह आना

रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला और उसकी छाती में एक लात मारी। दूसरे सारथी ने जब मेघनाद को व्याकुल जाना, तब रथ पर चढ़कर तुरन्त ही राजमहल को ले आया।

दोहा—अंगद सुना पवनसुत, गढ़ पर गयउ अकेल।

रन बांकुरा बालिसुत, तरकि चढ़ेउ कपि खेल ॥५५॥

जब अङ्गदजी ने सुना कि हनुमानजी गढ़ पर अकेले ही गये हैं, तब समर में बाँके वीर अङ्गदजी सहज ही उछल कर किले पर चढ़ गये।

युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दोउ बन्दर * राम प्रताप सुमिरि उर अन्दर
रावन भवन चढ़े दोउ भाई * करहि कौसलाधीस दोहाई

युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बन्दर क्रोधित हुए और श्रीरामजी के प्रताप को स्मरण कर दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और श्रीरामजी की दुहाई देने लगे।

कलस सहित गहि भवनु ढहावा * देखि निसाचर पति भय पावा
नारि वृन्द कर पीटाहि छाती * अब दुइ कपि आए उत्पाती

उन्होंने कलशों सहित महल को पकड़कर गिरा दिया। यह देखकर राक्षसपति रावण डर गया। सब स्त्रियाँ हाथों से छाती पीटने लगीं कि अब दोनों उत्पाती बानर आ पहुँचे हैं।

कपिलीला करि तिन्हहि डेरावहि * रामचन्द्र कर सुजसु सुनावहि
पुनि कर गहि कञ्चन के खम्भा * कहेन्हि करिउ उत्पात अरम्भा

वे बानर-लौला करके उन्हें डराने और श्रीरामचन्द्रजी का सुयश सुनाने लगे, फिर हाथों से सोने के खम्भों को उखाड़कर कहा कि अब उपद्रव आरम्भ किया जाय।

गर्जि परे रिपु कटक मझारी * लागे मर्दे भुज बल भारी
काहुहि लात चपेटन्हि केहू * भजेहु न रामहि सो फल लेहू

गर्जकर शत्रु-सेना में कूद पड़े और अपनी विशाल भुजाओं से शत्रुओं को मारने लगे। किसी को लातों से, किसी को चपेटों से मारते हैं और कहते हैं कि श्रीरामजी का भजन नहीं किया—उसका यह फल लो।

दोहा—एक एक सन मर्दाहि, तोरि चलावहि मुण्ड।

ते तव सिर कन्दुक सम नाना * खेलहि भालु कीस चौगाना
जबहि समर कोपिहि रघुनायक * छुटहाँहि अति कराल बहु सायक
और तेरे उन सिरों से गंभों के समान रोछ-वानर घोगान देखेंगे । जिस समय संग्राम
में श्रीरामजी क्रोध करेंगे अत्यन्त पंने बाण छूटेंगे ।

तब कि चलहि अस गाल तुम्हारा * अस विचारि भजु राम उदारा
सुनत बचन रावन परजरा * जरत महानल जनु घृत परा

उस समय क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा ? ऐसा विचार कर उदार श्रीरामजी को भज । यह
बचन सुनते ही रावण मारे क्रोध के भवक उठा । मानो प्रज्वलित अग्नि में घो पड़ गया हो ।

दोहा—कुम्भकरन अस बन्धु मम, सुत प्रसिद्ध सक्रारि ।

मोरि पराक्रम नहि सुनेहि, जितेउँ चराचर झारि ॥३७॥

(वह बोला—) कुम्भकरण सरीखा मेरा भाई, इन्द्र का घट्ट विध्यात मेघनाव मेरा पुत्र
है और मेरे पराक्रम को तूने नहीं सुना कि सब चराचर जगत को मैं जीत चुका हूँ ।

सठ साखामृग जोरि सहाई * बाँधा सिन्धु इहइ प्रभुताई
नाघाहिं खग अनेक बारीसा * सूर न होहिं ते सुनि सब कीसा

रे मुख बन्दरों की सेना जोड़कर समुद्र लांघ लिया, यही बहादुरी है । अनेक पक्षी
समुद्र लांघ जाते हैं, पर वे शूर नहीं होते ।

मम भुज सागर बल जल पूरा * जहँ बूढ़े बहु सुर नर सूरा
बीस पयोधि अगाध अपारा * को अस वीर जो पाइहि पारा

मेरी भुजायें समुद्र हैं, उनमें बलरूपी जल भरा है, जिसमें बहुत से देवता और मनुष्य
डूब गये । कौन ऐसा वीर है, जो इन गम्भीर और अपार बीस समुद्रों का पार पावे ?

दिगपालन्ह मैं नीर भरावा * भूप सुजस खल मोहि सुनावा
जाँ पै समर सुभट तव नाथा * पुनि पुनि कहसि जासु गुन गाथा

मैंने दिगपालों को जल भराया है और रे दुष्ट ! तू मुझे एक राजा को बड़ाई सुना रहा है ।
जो तेरे स्वामी समर में अच्छे योद्धा हैं, जिनके गुणों का तू बारम्बार बघान कर रहा है,

तौ बसीठ पठवत केहि काजा * रिपुसन प्रीति करत नहि लाजा
हरगिरि मथन निरखु मम बाहू * पुनि सठ कपि निज प्रभुहि सराहू

तो उन्होंने दूत क्यों भेजा ? बंदी से सन्धि करने में लाज नहीं आती ? रे गठ बन्दर !
कंलाश-पर्वत को मथने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अपने प्रभु को बड़ाई करना ।

दोहा—सूर कवन रावन सरिस, स्वकर काटि जेहि सीस ।

हुने अनल अतिहरष बहु, बार साखि गौरीस ॥३८॥

मुझ रावण के समान शूरवीर कौन है जिसने अपने हाथों से प्रसन्नता पूर्वक अपने सिरों

सिचर अनो देखि कपि फिरे * जहँ तहँ कटकटाइ भट भिरे
दल प्रबल पचारि पचारी * लरत सुभट नहि मानहि हारी

तब वे राक्षस-सेना को देखकर लौट पड़े और जहाँ-तहाँ किटकिटाकर भिड़ गये। दोनों
बल सेनायें ललकार २ कर भिड़ गईं, लड़ते हुए योद्धा हार नहीं मानते हैं।

महावीर निसिचर सब कारे * नाना वरन बलीमुख भारे
सकल जुगल दल सम बल जोधा * कौतुक करत लरत करि क्रोधा

वीर राक्षस काले थे और बानर भी विशाल-काय और रंग-विरंगे थे। दोनों दल बल-
वान थे और समान बली योद्धा थे, वे क्रोध करके लड़ने लगे और खेल दिखलाने लगे।

प्राबिट सरद पयोद घनेरे * लरत मनहुँ मारुत के प्रेरे
अनहि अकम्पन अरु अति काया * विचलत सेन कीन्हि इन्ह माया

मानो वर्षा और शरद्-ऋतु के मेघ वायु के झकोरों से उड़-उड़कर लड़ रहे हैं। सेनापति
अकम्पन और अतिकाय राक्षसों ने अपनी सेना को विचलित देखकर राक्षसी माया रची।

भयउ निमिष महँ अति अँधियारा * बृष्टि होइ रुधिरापल छारा
पलभर में अँधेरा होगया। रुधिर, पत्थर और राख की वर्षा होने लगी।

दोहा-देखि निविड़तम दसहुँ दिशि, कपिकुल भयउ खभार।
एकहि एक न देखहीं, जहँ तहँ करहिं पुकार ॥५८॥

दसों दिशाओं में घना अन्धकार देखकर बानर-दल में खलबली मच गयी। एक को एक
नहीं देखते, सब जहाँ-तहाँ पुकारने लगे।

सकल मरमु रघुनायक जाना * लिए बोलि अंगद हनुमाना
समाचार सब कह समुझाए * सुनत कोपि कपि कुञ्जर धाए

यह सब रहस्य श्रीरघुनाथजी जान गये, तब अंगद और हनुमानजी को बुला लिया और
सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही दोनों वीर मत्त हाथी की तरह क्रोध कर दौड़े।

पुनि कृपाल हँसि चाप चढ़ावा * पावक सायक सपदि चलावा
भयउ प्रकाश कतहुँ तम नाही * ग्यान उदयँ जिमि संसय नाही

फिर कृपानिधान श्रीरामजी ने धनुष चढ़ाया और शीघ्र ही अग्नि-बाण चलाया, जिससे
प्रकाश होगया, कहीं अँधेरा नहीं रहा। जैसे ज्ञान के उदय होने से सब संशय दूर हो जाता है।

भालु बलोमुख पाइ प्रकासा * धाए हरष विगत श्रम त्रास
हनूमान अंगद रन गाजे * हाँक सुनत रजनीचर भास

रीछ और बानर उजाला पाकर क्रोध करके दौड़े। उनकी थकावट तथा डर जा
रहा। हनुमान और अंगद रण में गरजे, उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भागे।
भागत भट पटकहिं धरि धरनी * करहिं भालु कपि अद्भुत कर

उहाँ कहत दसकन्ध रिसाई * धरि मारहु कपि भागि न जाई
एहि विधि वेगि सुभट सब धावहु * खाहु भालु कपि जहँ तहँ पावहु

वहाँ रावण ने क्रोध करके कहा—इस बन्दर को मार डालो, भागने न पाये। इस प्रकार सब जल्दी बौड़ो और जहाँ-तहाँ रोछ-वानरों को पाओ या जाओ।

मर्कट हीन करहु महि जाई * जिअत धरहु तापस द्वौ भाई
पुनि सकोप बोलेउ जुवराजा * गाल बजावत तोहि न लाजा

तब जाकर पृथ्वी को बन्दरों से सुनो करदो और दोनों तपस्वी भाइयों को जीवित हो पकड़ लो। तब कोप करके अंगवजी बोले—तुझे गाल बजाते हुए ताज नहीं आती।

मरु गर काटि निलज कुलघाती * बल विलोकि विहरति नहि छाती
रे त्रिय चोर कुमारग गामो * खल मल रासि मन्दमति कामी

रे निलज कुलनाशक ! तू गला काटकर मरजा, मेरा पराक्रम देखकर नो तेरी छाती नहीं फटती। रे स्त्री चोर, कुमार्गी, महापापी, मन्द-बुद्धि और कामी !

सन्यपात जल्पसि दुर्वादा * भयसि कालवस खल मनुजादा
याको फल पावहिगो आगं * वानर भालु चपेटन्हि लागें

तू सन्निपात में व्यर्थ बक-बक करता है। रे बुष्ट नर-भक्षी ! अब तू काल के पच हो गया है। इस राम-निन्दा का फल तो आगे पावेगा, जब वानर और रोछों को चपेट छगेगी।

राम मनुज बोलत अस वानी * गिरहि न तव रसना अभिमानी
गिरिहि रसना संसय नाही * सिरन्हि समेत समर महि माहीं

रे अभिमानी ! ऐसी बात कहते तेरी जीभें भी नहीं गिरतीं। तेरी जीभें सिरों के सहित रणभूमि में गिरेंगी, इसमें संदेह नहीं है।

सो०—सो नर क्यों दसकन्ध, बालिवध्यो जेहि एक सर ।

बोसहुँ लोचन अन्ध, धिक तव जन्म कुजाति जड़ ॥ ६ ॥

तव सौनित को प्यास, तृषित राम सायक निकर ।

तजहुँ तोहि तेहि त्रास, कटु जल्पक निसिचर अधम ॥ ७ ॥

रे रावण ! वे मनुष्य कौसे हैं, जिन्होंने बालि को एक ही वाण में मार दिया ? तेरे जीतों नेत्र अन्धे हैं, रे नीच अज्ञानी ! तेरे जन्म को धिक्कार है। श्रीरामजी के वाण समूह तेरे रक्त के प्यासे हैं, रे फठोर बकबादी, नीच निसाचर ! इसी डर से तुझे छोड़ता हूँ।

मैं तव दसन मोरिवे लायक * आयसु मोहि न दोन्ह रघुनायक
असि रिस होति दसउ मुख तोरों * लंका गहि समुद्र महें बोरों

मैं तेरे दाँत तोड़ने में समर्थ हूँ, परन्तु मुझे श्रीरामजी ने आज्ञा नहीं दी। क्रोध तो ऐसा आता है कि तेरे दाँतों मुख तोड़ दूँ और लंका को (उखाड़ कर) समुद्र में डुबा दूँ।

वे दुष्ट राक्षसरूपी वन को जलाने के लिए कालाग्नि के समान हैं, गुणों के मण्डार तथा पूर्ण ज्ञानवान् हैं। शिवजी और ब्रह्माजी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे वंद करना कैसा ? परिहरि वयर देहु वैदेही * भजहु कृपानिधि परम सनेही ताके वचन वान सम लागे * करिआ मुँह करि जाहु अभागे

अतः वंद छोड़कर, सीताजी को दे दो और परम स्नेही श्रीरामजी का मजन करो। उनके वचन रावण को वाण के समान लगे, वह बोला-रे अभागे ! यहाँ से काला मुँह करजा।

बूढ़ भएसि नत मरतेउँ तोही * अब जनि नयन देखावसि मोही तेहि अपने मन अस अनुमाना * बध्यो चहत एहि कृपानिधाना

तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो मैं तुझे अभी मार डालता। अब तू मुझे अपना मुँह मत दिखा। माल्यवन्त ने अपने मन में अनुमान कर लिया कि इसे कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजी मारना चाहते हैं।

सौ उठि गयउ कहत दुर्बादा * तब सकाप बोलेउ घननादा कौतुक प्रात देखिअहु मोरा * करिहउँ बहुत कहौँ का थोरा

वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठ गया, तब मेघनाद क्रोध करके बोला-प्रातः काल मेरा कौतुक देखना। बहुत कुछ कहूँगा, थोड़ा क्या कहूँ।

सुनि सुत वचन भरोसा आवा * प्रीति समेत गोद बैठावा करत विचार भयउ भिनुसारा * लागे कपि पुनि चहूँ दुआरा

पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा हुआ, तब उसे प्रेम से गोद में बैठाया। रात भर विचार करते-करते सवेरा होगया रोछ-वानर चारों दरवाजों पर आ जुटे।

कोपि कपिन्ह दुर्गम गढ़ घेरा * नगर कोलाहलु भयउ घनेरा विविधायुध धर निसिचर धाए * गढ़ ते पर्वत शिखर ढहाए

वानरों ने क्रोधित हो कठिन किले को घेर लिया, तब नगर में बड़ी भारी हलचल मची। अनेकों प्रकार के हथियार लेकर राक्षस दीड़े और ऊपर से पहाड़ों के शिखर लुढ़काने लगे।

छन्द-ढाहे महीधर सिखर कोटिन्ह विविध विधि गोला चले।

घहरात जिमि पविपात गर्जत जनु प्रलय के बादले ॥

मर्कट विकट भट जुटत कटत न लटततनु जर्जर भए।

गहि सैल तेहि गढ़ पर चलावहि जहँ सो तहँ निसिचर हए ॥

पर्वतों के बहुत से शिखर लुढ़काये और बहुत से गोले चलाये, वे ऐसे घड़घड़ाते हैं, मानो प्रलयकाल के मेघ हों। विकट वानर मिड़ते हैं, काटते हैं और हारते नहीं, उनके शरीर लोह-लुहान हो गये। वे पर्वत लेकर गढ़ पर ऐसे चलाते हैं कि राक्षस जहाँ के तहाँ मर जाते हैं।

दोहा-मेघनाद सुनि श्रवन अस, गढ़ पुनि छेका आय।

उतरचौ वीर दुर्ग तें, सन्मुख चल्यो बजाय ॥६२॥

गहत चरन कह वालि कुमारा * मम पद गहे न तोर उवारा

अङ्गद का पराक्रम देख सब हृदय में हार गये, तब अङ्गद के कहने से रावण आप ही उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तो वालिकुमार ने कहा—मेरा चरण पकड़ने से तेरा उद्धार नहीं होगा।

गहसि न राम चरन सठ जाई * सुनतफिरामन अति सकुचाई

भयउ तेजहत श्री सब गई * मध्य दिवस जिमि ससि सोहई
रे शठ! जाकर रामजी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? कहते ही मन में बहुत सकुचाकर लोट पड़ा उसका सब तेज जाता रहा, छवि क्षीण हो गई, जैसे दोपहर में चन्द्रमा हो जाता है।

सिंहासन बैठेउ सिर नाई * मानहुँ सम्पति सकल गँवाई

जगदात्मा प्राणपति रामा * तासु विमुखा किमि लह विश्रामा
वह सिंहासन पर सिर झुका कर जा बंठा मानी सारी संपति गँवा दोही। जगत् के आत्मा और प्राणों के स्वामी धीरामजी से द्रोह करने वाले को कैसे आराम मिल सकता है?

उमा राम की भूकृति विलासा * होइ विश्व पुनि पावइ नासा

तून के कुलिस कुलिस तून करई * तासु दूत पन कहु किमि टरई
हे उमा! धीरामजी के भ्रू-विलास से संसार उत्पन्न होता है और नाश हो जाता है। जो तृण को वज्र और वज्र को तृण कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कैसे टल सकता है?

पुनिकपिकही नीतिविधि नाना * मान न ताहि कालु निअराना

रिपु सदमथि प्रभु सुजसु सुनायो * यह कहि चल्यो वालि नृप जायो
फिर अङ्गद ने अनेक प्रकार से नीति कही, परन्तु उसने एक न मानी, क्योंकि उसका काल समीप आ गया था। शत्रु के घमण्ड को चूर कर प्रभु का सुपुत्र सुनाया और ऐसा कहकर अङ्गदजी चले—

हतौ न खेत खेलाइ खेलाई * तोहि अचहि का करौ बड़ाई

प्रथमहि तासु तनय कपि मारा * सो सुनि रावन भयउ दुखारा
जातुधान अङ्गद पुन देखी * भय व्याकुल सब भए विसैयी
रण में तुम्हें खिला-खिलाकर न माहूँ, तब तक-जमो से अपनी क्या बड़ाई कहूँ? अङ्गद ने पहले ही उसके पुत्र को मार दिया था, यह सुनकर रावण को बहुत दुःख हुआ। अङ्गद का वचन देखकर सब राक्षस मारे डर के व्याकुल हुए।

दोहा—रिपुवल धरषि हरषि कपि, वाल तनय वल पुञ्ज।
पुलकि सरीर नयन जल, गहे राम पद कञ्ज ॥४५॥

वालिके पुत्र—महाबली अङ्गद ने शत्रु का वल मर्दन कर धीरामजी के चरणरुमल हृदय में लिये। उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल है।

साँझ जानि दसकाधर, भवन गयउ विललाइ।
मन्दोदरी रावनहि, बहुरि कहा समझाइ ॥४६॥

अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे * कौतुक ही प्रभु काटि निव

फिर मेघनाद भी श्रीरामजी के पास गया और अनेक दुर्वचन कहे । बहुत प्रकार
अस्त्र-शस्त्र चलाये, परन्तु प्रभु ने उन्हें सहज ही में काट दिया ।

देखि प्रताप मूढ़ खिसियाना * करै लाग माया विधि नान

जिसि कोउकरै गरुडसन खेला * डरपावै गहि स्वल्प सपेल

प्रभु के प्रताप को देखकर वह मूर्ख बहुत खिसियाया और भाँति २ की माया करने लगा
जैसे कोई गरुड के साथ खेल करे और सर्प का छोटा-बच्चा हाथ में लेकर डराना चाहे ।

दोहा-जासु प्रबल माया बस, शिव विरञ्चिबड़ छोट ।

ताहि दिखावहि निसिचर, निस माया मति खोट ॥६४॥

शिव, ब्रह्मा और सब छोटे-बड़े जिसको प्रबल माया के वश में हैं, नीच बुद्धि राक्षस
उनको अपनी माया दिखलाता है ।

नभ चढि वरष विपुल अङ्गारा * महि ते प्रकट होहि जल धारा

नाना भाँति पिशाच पिशाचो * मारु काट धुनि बोलहि नाचो

वह आकाश में जाकर बहुत-से अंगारे बरसाने लगा, धूमि से जल-धारायें प्रकट होने
लगीं । नाना भाँति के पिशाच और पिशाचनी 'मारो-काटो' की ध्वनि करके नाचने लगे ।

विष्ठा पूय रुधिर कच हाड़ा * वरषइ कबहुँ उपल बहु छाँड़ा

वरषि धूरि कीन्हैसि अँधियारा * सूझ न आपन हाथ पसारा

कभी वह विष्ठा, पीत्र, रक्त, केश और हाड़ बरसाता था, कभी बहुत से पत्थर फेंकता था ।
उसने धूल बरसाकर ऐसा अँधेरा कर दिया कि पसारा हुआ हाथ भी नहीं दीखता था ।

कपि अकुलाने माया देखें * सब कर मरन बना एहि लेखें

कौतुक देखि राम मुसुकाने * भए संभीत सकल कपि जाने

राक्षसी-माया देखकर वानर घबड़ा गये कि सबका मरना इसी बहाने से होगा । यह
देखकर श्रीरामजी मुस्कराये और जाना कि सब वानर डर गये हैं ।

एक वान काटी सब माया * जिमिदिनकरहर तिमिर निकाया

कृपादृष्टि करि भालु विलोके * भए प्रबल रन रहहि न रोके

तब उन्होंने एक वाण से सब माया दूर करदी, जैसे सूर्य के प्रकाश से अँधेरा दूर हो
जाता है । फिर कृपादृष्टि से सब वानर-रीठों को देखा, तो सब ऐसे प्रसन्न हो गये कि युद्ध
रोकने पर भी नहीं रुकते थे ।

दोहा-आयसु माँगि राम पहिं, अङ्गदादि कपि साथ ।

लछिमन चले क्रुद्ध होइ, वान सरासन हाथ ॥६५॥

श्रीरामजी से आज्ञा मांग अङ्गद आदि वानरों को साथ ले लक्ष्मणजी क्रोध करके धनुष-
हाथ में लेकर चले ।

जेहि जलनाथ बंधायउ हेला * उतरे प्रभु दल सहित सुबेला
कारुनीक दिनकर कुल केतू * दूत पठायउ तव हित हेतू

जिन्होंने खिलवाड़ में समुद्र पर सेतु बांध लिया और जो वानर-सेना समेत सुबेला पर आ उतरे हैं, उन्हीं बयावान, सूर्यवंश में श्रेष्ठ धीरामजी ने तुम्हारे हित के लिये दूत भेजा है।

सभा माँझ जेहि तव बल मथा * करि वरूथ महुँ मृगपति जया
अङ्गद हनुमत अनुचर जाके * रन बाँकुरे वीर अति बाँके

जिसने सभा में आकर तुम्हारे बल को ऐसे मथ डाला, जैसे हाथियों के मण्ड में सिंह।
जिनके अङ्गद व हनुमान जैसे रण-शूर बड़े बाँके वीर सेवक हैं।

तेहि कहँ पिय पुनिपुनि नरकहहू * वृथा मान ममता मद वहहू
अहह कन्त कृत राम विरोधा * काल विवस मन उपज न बोधा

हे पति ! उन्हें आप बार-बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान, ममता और मद का भार सहन कर रहे हैं। हे स्वामी ! आपने धीरामजी से बंद किया है। काल के घस हो जाने से आपके मन में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता।

काल दण्ड गहि काहु न मारा * हरइ धर्म बल बुद्धि विचारा
निकट काल जेहि आवत साई * तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहि नाई

काल दंड लेकर किसी को नहीं मारता, वह उसके धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी ! जिसका काल निकट आ जाता है, उसे आपके समान ही भ्रम हो जाता है।

दोहा—दुइ सुत मरे दहेउ पुर, अजहुँ पूर प्रिय देहु।

कृपासिन्धु रघुनाथ भजि, नाथ विमल जसु लेहु ॥४८॥

आपके दो पुत्र मारे गये, नगर जल गया। हे पति ! अब भी (भूल की पूर्ति कर बीजिये) कृपासिन्धु श्रीरघुनाथजी का भजन कर अपने घस को निर्मूल कर लीजिए।

नारि वचन सुनि बिसिखसमाना * सभाँ गयउ उठि होत विहाना
बैठि जाइ सिंहासन फूली * अति अभिमान त्रास सब भूली

मन्वोदरी के तीर के समान वचन सुनकर सबेरा होते ही रावण उठकर अपनी सभा को गया और भय घुलाकर अभिमान के साथ सिंहासन पर बैठ गया।

इहाँ राम अंगदहि बोलावा * आइ चरन पङ्कज सिर नावा
अति आदर समीप बैठारी * बोले बिहँसि कृपालु खरारी

यहाँ पर धीरामजी ने अंगदजी को बुलाया, अंगद ने आकर चरणारविंदों में सिर नवाया।
बड़े आदर के साथ अपने पास घंटाकर और हँसकर कृपालु धीरामजी बोले—

वालि तनय कौतुक अति मोही * तात सत्य कहँ पूछउ तोही
रावनु जातुधान कुल टीका * भुजबल अतुल जासु जग लीव

पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब बड़ा संकट हुआ, यह मेरे प्राण हर लेंगे।

वीर घातिनी छाँडिसि सांगी * तेजपुञ्ज लछिमन उर लागी
मुरछा भई सक्ति के लागें * तबचलि गयउ निकट, भय त्यागें

उसने वीर-घातिनी शक्ति छोड़ी, वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मणजी की छाती में लगी।
शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई, तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास आया।

दोहा-मेघनाद सम कोटि सत, जोधा रहे उठाइ।

जगदाधार सेष किमि, उठे चले खिसिआइ ॥६७॥

मेघनाद के समान सौ करोड़ योद्धा मिलकर उन्हें उठा रहे हैं, परन्तु जगत् के आधार
शेषजी कैसे उठ सकते हैं? जब वे न उठे, तब खिसियाकर चल दिये।

सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू * जारइ भुवन चारिदस आसू
सक संग्राम जीति को ताहो * सेवहिं सुर नर अग जग जाहो

हे पार्वती! सुनो, जिनकी क्रोधाग्नि चौदहों भुवनों को तुरन्त जला देती है और जिनकी
देवता, मनुष्य तथा चराचर जगत् सेवा करता है, उनको युद्ध में कौन जीत सकता है।

यह कौतूहल जानइ सोई * जा पर कृपा राम कै होई
संध्या भइ फिरीं द्वौ दाहनी * लगे सँभारन निज निज अनी

इस कौतुक को वही जानता है, जिस पर श्रीरामजी की कृपा हो। जब संध्या हुई
तो दोनों सेनायों लौट पड़ों, तब सेनापति अपनी-अपनी सेना सँभालने लगे।

व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर * लछिमन कहाँ बूझ करुनाकर
तब लगि लै आयउ हनुमाना * अनुज देखि प्रभु अति दुख माना

सर्वव्यापक, ब्रह्म, अजेय, भुवनों के स्वामी और करुणानिधान श्रीरामजी ने पूछा-लक्ष्मण
कहाँ हैं? तब तक हनुमानजी उन्हें ले आये, छोटे भाई को देखकर प्रभु ने बहुत दुःख माना।

जामवन्त कह वैद सुषेना * लंका रहइ सो पठइअ लेना
धरि लघु रूप गयउ हनुमन्ता * आनेउ भवन समेत तुरन्ता

जामवन्त ने कहा-लङ्का में सुषेण वैद्य रहता है, उसे लेने को किसी को भेजिये। हनु-
मानजी छोटा रूप धारणकर लङ्का में गये और सुषेण को तुरन्त घर समेत ही ले आये।

दोहा-राम पदारविन्दु सिर, नायउ आइ सुषेन।

कहा नाम गिरि औषधी, जाहु पवन सुत लेन ॥६८॥

सुषेण ने आकर रामचन्द्रजी के चरणों में मस्तक नवाया, फिर उसने पर्वत और
औषधि का नाम बतलाकर कहा-हे हनुमानजी! आप उसे लेने जाओ।

राम चरन सरसिज उर राखी * चला प्रभञ्जन सुत बल भाखी
उहाँ दूत एक मरमु जनावा * रावन कालनेमि गृह आवा

वे प्रसन्न होकर श्रीरामजी के चरणों में तिर नवाते हैं और पर्वतों के शिपर लेकर चढ़ते हैं। 'राजा रामचन्द्रजी को जय हो' कहकर रोछ-बानर गजंते और सत्कारते हैं।

जानत परम दुर्ग अति लंका * प्रभु प्रताप कपि चले असका
घटाटोप करि चहुँ दिसि घेरो * मुखहि निसान वजावहि भेरी

यद्यपि बानर जानते थे कि लंकागढ़ बड़ा दुर्गम है, तथापि वे प्रभु के प्रताप से निडर होकर चले। घटाघटि बादलों के समान चारों ओर से वे घेरकर मुँह से ही नगाड़े और तुरही बजाने लगे।

दोहा—जयति राम जय लछिमन, जय कपीस सुग्रीव।

गर्जहि सिंहनाद कपि, भालु महा बल सौं ॥५१॥

'श्रीरामजी को जय' 'लक्ष्मणजी को जय' कपिराज की जय! कहकर महा व्रतयान बानर और रोछ गरजने लगे।

लंका भयउ कोलाहल भारी * सुना दसानन अति अहंकारी
देखहु बन्दरन्ह केरि ढिठाई * विहँसि निसाचर सेन बोलाई

लंका में बड़ा हल्ला मच गया। जब अत्यन्त अहंकारी रावण ने सुना, तो बोला—इन बानरों की ढीठता तो देखो। यह कहकर यह हँसा और अपनी सेना बुलाई।

आए कीस काल के प्रेरे * छुधावन्त सब निसिचर मेरे
अस कहि अट्टहास सठ कीन्हा * गृह बैठे अहार विधि दीन्हा

बानर काल के भेजे यहाँ आये हैं और मेरे राक्षस भी भूये हैं। ऐसा कहकर मूर्ख रावण अट्टहास करके हँसा कि ग्रह्या ने घर बैठे भोजन दिया है।

सुभट सकल चारहुँ दिसि जाहू * धरि धरि भालु कीस सब खाहू
उमा रावनहि अस अभिमाना * जिमि टिट्टभखग सूत उताना

हे बोरों! चारों दिशाओं में तुम जाओ और पकड़ २ कर सब रोछ-बानरों को पाओ। हे पावती! रावण को ऐसा अभिमान या, जंता कि उल्टे सोने वाले टिट्टहरो को होता है।

चले निसाचर आयसु माँगी * गहि कर भिंडपाल वर साँगी
तोमर मुगदर परसु प्रचण्डा * सूल कृपान परिघ गिरिखण्डा

सब राक्षस आज्ञा मांगकर और हाथों में सुन्दर गो-फन, साँगी, बरछी, मुग्घर, मूसय, त्रिसूल, तलवार, फरसा और पर्वत की शिला लेकर चले।

जिमि अरुनोपल निकर निहारी * धावहि सठ खग माँस अहारी
चौंच भङ्ग दुख तिन्हहि न सूझा * तिमि धाए मनुजाद अबूझा

जैसे लाल रंग के बहुत से पत्थरों को देखकर मांसाहारी मूर्ख पक्षी उन पर बोड़ते हैं, और चौंच टूटने का दुःख उन्हें नहीं सूझ पड़ता, इसी प्रकार राक्षस बोड़े।

दोहा—नानायुध सर चाप धर, जातुधान बलवीर।

सर मज्जन कर आतुर आबहु * दिच्छा देउं ग्यान जेहिं पावहु

कपि ने जल मांगा, तब उसने कमण्डल दे दिया। कपि ने कहा—थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होऊंगा। मुनि ने कहा—सरोवर में स्नान कर शीघ्र लौट आओ, मैं दीक्षा दूंगा, जिससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा।

दोहा—सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब अकुलान।

मारी सो धरि दिव्य तनु, चली गगन चढि जान ॥७०॥

सरोवर में घुसते ही एक मकरी ने अकुलाकर हनुमानजी का पैर पकड़ लिया, हनुमानजी ने उसे मार डाला, तब वह दिव्य देह पाकर विमान पर चढ़कर आकाश को गई और कहने लगी—

कपि तब दरस भइउं निष्पापा * मिटा तात मुनिवर कर शापा
मुनि न होइ यह निसिचर घोरा * मानहु सत्य वचन कपि मोरा

हे कपि तुम्हारे दर्शन से मैं पाप रहित हो गई। हे तात ! मुनिवर का शाप मिट गया। हे कपि ! यह मुनि नहीं है, घोर राक्षस है। मेरा वचन सत्य मानिये।

अस गहि गई अपछरा जबही * निसिचर निकट गयउ कपि तबही

कह कपि मुनि गुरुदक्षिणा लेहू * पाछें हमहिं मन्त्र तुम्ह देहू

ऐसे कहकर जब वह अप्सरा चली गई, तब हनुमानजी निसाचर के पास गये। उन्होंने कहा—हे मुनि ! पहले गुरु-दक्षिणा ले लो, फिर हमें तुम मन्त्र देना।

सिर लंगूर लपेट पछारा * निज तनु प्रगटेसि मरती बारा

राम राम कहि छांडेसि प्राणा * सुनि मन हरष चलेउ हनुमाना

कपि ने उसका सिर पूँछ में लपेट कर पृथ्वी पर पटक दिया, तब उसने मरते समय अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और 'राम-राम' कहकर प्राण छोड़ दिया। यह देख मन में प्रसन्न होकर हनुमानजी चले।

देखा सैल न औषधि चीन्हा * सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा

गहि गिरि नभनिसि धावत भयऊ * अवधपुरी ऊपर कपि पयऊ

उन्होंने पर्वत को देखा, परन्तु औषधि नहीं पहिचान सके, तब एकदम पर्वत को उखाड़ लिया। पर्वत को हाथ में लेकर रात्रि में ही वे आकाशमार्ग से दौड़े और अयोध्या के ऊपर जा पहुँचे।

दोहा—देखा भरत विसाल अति, निसिचर मन अनुमान।

बिनु फर सायक मारेउ, चाप श्रवन लगि तान ॥७१॥

आकाश में भरतजी ने विशाल रूप देख और मन में राक्षस समझ कर धनुष को कान तक खींच कर बिना फल का वाण मारा।

परेउ मूर्छि सहि लागत सायक * सुमिरत राम राम रघुनायक

सुनि प्रिय वचन भरत तब धाए * कपि समीप अति आतुर आए

वाण लगते ही मूर्छित हो भूमि पर 'हे राम, हे रघुनाथजी !' उच्चारण करते हुए हनुमान जी गिर पड़े। प्रिय वचन सुनकर भरतजी उठ दौड़े और तुरन्त हनुमानजी के पास आये।

को कर पृथ्वी पर आ गिरते हैं ।

राम प्रताप प्रबल कपि जूया * मर्दहि निसिचर सुभट बरूया
चढ़े दुर्ग पुनि जहँ तहँ वानर * जय रघुवीर प्रताप दिवाकर

श्रीरामजी के प्रताप से वानरों के झुण्ड, राक्षसों के समूह का मर्दन करने लगे, फिर वानर गढ़ पर चढ़ गये और जहाँ-तहाँ सूर्य के समान प्रतापमय-श्रीरामजी की जय बोलने लगे ।

चले निसाचर निकर पराई * प्रबल पवन जिमि घन समुदाई
हाहाकार भयउ पुर भारी * रोवहि बालक आतुर नारी

राक्षसों के झुण्ड ऐसे भाग चले, जैसे प्रचंड वायु के वेग से बादलों के समूह तितर-बितर हो जाते हैं । लड्डापुरी में बड़ा हा-हाकार मच गया, बालक, अपाहिज और स्त्रियाँ रोने लगीं ।

सब मिलि देहि रावनहि गारी * राज करत एहि मृत्यु हंकारी
निज दल विकल सुना तेहि काना * फेरि सुभट लंकेस रिसाना

सब मिलकर रावण को गाली देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मौत को बुलाया । रावण ने जब कानों से सेना का भागना सुना, तब योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला-

जो रन विमुख सुना मैं काना * सो मैं हतव कराल कृपाना
सर्वसु खाइ भोग करि नाना * समर भूमि भए बल्लभ प्राना

मैं जिसे युद्ध से मुख छिपाकर लौटा हुआ सुनूँगा, उसे मैं अपनी पत्नी तलवार से मारूँगा । मेरा सर्वस्व खाया, अनेकों सुख भोग किये और आज रण-भूमि में प्राण प्यारे होगये ।

उग्र वचन सुनि सकल डेराने * चले क्रोध करि सुभट लजाने
सन्मुख मरन वीर कै सोभा * तब तिन्ह तजा प्रान कर लोभा

रावण के कड़े वचन सुन सब वीर डर गये और लज्जाकर क्रोध करके लौट पड़े । सामने लड़कर मरना ही वीरों की शोभा देता है, यह सोचकर उन्होंने अपने प्राणों का मोह छोड़ दिया ।

दोहा-बहु आयुध धरि सुभट सब, भिरहि पचारि पचारि ।

व्याकुल किए भालू कपि, परिघ त्रिशूलन्हि मारि ॥५४॥

बहुत से अस्त्र-शस्त्र धारण कर सब बड़े योद्धा तलवार मारकर भिड़ने लगे । उन्होंने परिधों और त्रिशूलों से मार २ कर रोछ-वानरों की व्याकुल कर दिया ।

भय आतुर कपि भागन लागे * जद्यपि उमा जोतिहहि आगे
कोउ कह वहँ अङ्गद हनुमन्ता * कह नलनील द्विविद बलवन्ता

(महादेवजी कहते हैं-) हे पार्वती ! डर के मारे वानर भागने लगे, यद्यपि आगे वे ही युद्ध में जीतेंगे । कोई वानर कहने लगे—अंगद और हनुमान कहाँ हैं ? यत्नवान नल, नील और द्विविद कहाँ हैं ?

निज दल विकल सुना हनुमाना * पच्छिम द्वार रहा बलवाना
मेघनाद तह करइ लराई * टूट न द्वार परम कठिनाई

के स्वभाव को विचार कर भरतजी के चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़कर हनुमानजी बोले—
दोहा—तव प्रताप उर राखि प्रभु, जइहउँ नाथ तुरन्त ।

अस कहि आयसु पाइ पद, बन्दि चलेउ हनुमन्त ॥७२॥

हे स्वामी ! आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरन्त चला जाऊँगा । तब आज्ञा पाकर और चरणों की वन्दना करके हनुमानजी चले ।

भरत बाहुबल सील गुन, प्रभु पद प्रीति अपार ।

मन महुँ जाय सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार ॥७३॥

हनुमानजी—भरतजी के शील, गुण और प्रभु के चरणों में अथाह प्रेम की मन ही मन वारम्बार सराहना करते हुए जा रहे हैं ।

इहाँ राम लछिमनहि निहारी * बोले वचन मनुज अनुसारी
अर्ध रात्रि गइ कपि नहि आयउ * राम उठाइ अनुज उर लायउ

श्रीरामजी—लक्ष्मणजी को देखकर मनुष्यों के अनुसार वचन बोले—आधी रात बीत गई, पर हनुमानजी नहीं आये । यह कहकर श्रीरामजी ने भाई को उठाकर हृदय से लगा लिया ।

सकउ न दुखित देखि मोहि काऊ * बन्धु सदा तब भृदुल सुभाऊ
मम हित लागि तजेउ पितु माता * सहेउ विपिन हिम आतप बाता

और बोले—हे भाई ! तुम तो मुझे कभी दुखित नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव तो सदा से ही बहुत कोमल था । तुमने मेरे हित के लिए माता-पिता को भी छोड़ दिया और वन में ठण्ड, धूप और वायु को सहा ।

सो अनुराग कहाँ अब भाई * उठहु न सुनि मम वच विकलाई
जौं जनतेहु वन बन्धु बिछोहू * पिता वचन मनतेउँ नहि ओहू

हे भाई ! वह नेम अब कहाँ है ? मेरे व्याकुल वचन सुनकर क्यों नहीं उठते ? जो मैं जानता कि वन में भाई का वियोग होगा, तो पिताजी के उन वचनों को भी नहीं मानता ।

सुत बित नारि भवन परिवारा * होहिं जाहिं जग बारहिं बारा
अस विचारि जियँ जागहु ताता * मिलहि न जगत सहोदर भ्राता

पुत्र, धन, स्त्री, घर और कुटुम्बी संसार में वारम्बार मिलते और बिछुड़ते हैं । हे तात ! हृदय में ऐसा विचार कर जागो कि संसार में (सगा भाई) दुबारा नहीं मिलता ।

जथा पंख बिनु खग अति दीना * मनि बिनु फनि करिवर करहीना
अस मम जिवन बन्धु बिनु तोही * जौं जड़ दैव जिआवै मोही

जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प, सूँड़ के बिना हाथी दीन होजाता है, वैसे ही—हे भाई ! यदि कहीं कठोर विधाता मुझे जीवित रखे, तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है ।

जइहउँ अवध कवन मुँहु लाई * नारि हेतु प्रिय बन्धु गँवाई
बरु अपजसु सहतेऊँ जग माहीं * नारि हानि विशेष क्षति नाही

रावन आगे परहिं ते, जनु फटहिं दधि कुण्ड ॥५६॥

एक को दूसरे से मसल देते हैं। सिरों को तोड़कर फेंकते हैं, तो वे सिर रावणके आगे जा गिरते हैं, मानो वही के मटके फूटते हैं।

महा महा सुखिया जे पावहिं * ते पद गहि प्रभु पास चलावहिं
कहइ विभीषनु तिन्ह के नामा * देहिं राम तिनहू निज धामा

जिन बड़े-बड़े सरदारों को पाते हैं, उनके पैर पकड़ कर प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण उनके नाम बतलाते और श्रीरामजी उनको अपना धाम देते हैं।

खल मनुजाद द्विजामिष भोगी * पावहिं गति जो जाचत जोगी
उमा राम मृदु चित करुनाकर * वैरभाव सुमिरत मोहि निसिंचर

जो दुष्ट राक्षस-ब्राह्मणों का मांस खाने वाले हैं, वे उस गति को प्राप्त हुए-जो योगी चाहते हैं। हे पावती ! श्रीरामजी बड़े कोमल-चित्त व दयालु हैं। (वे सोचते हैं कि) राक्षस चाहे वैर से सही-मुझे भजते तो हैं।

देहि परम गति सो जियँ जानी * अस कृपालु को कहहु भवानी
अस प्रभु भजहिं न जे भ्रम त्यागी * नर मतिमन्द ते परम अभागी

इस प्रकार अपने जी में जानकर वे उन्हें परमगति देते हैं। हे भवानी ! ऐसे दयालु कौन हैं, जो ऐसे प्रभु को अपना भ्रम छोड़कर नहीं भजते, वे मनुष्य मन्द-बुद्धि व बड़े माग्यहीन हैं।

अङ्गद अरु हनुमन्त प्रवेसा * कीन्ह दुर्ग अस कह अवधेसा
लङ्का दोड कपि सोहहिं कैसे * मथहिं सिन्धु दुइ मन्दरु जैसे

अंगदजी और हनुमानजी गढ़ में घुस गये, तब श्रीरामजी ने सबसे कहा-लंका में दोनों बानर कैसे शोभायमान हैं, मानो दो मन्दराचल समुद्र को मथ रहे हों।

दोहा-भुजवल रिपुदल दलि मलि, देखि दिवस कर अन्त।

कूदे जुगल विगत श्रम, आए जहँ भगवन्त ॥५६॥

अपनी भुजाओं के बल से शत्रु की सेना का मान-मर्दन कर, दिन को अस्त होते देपकर दोनों बिना परिश्रम ही कूद पड़े और जहाँ श्रीरामजी थे, वहाँ आ पहुँचे।

प्रभु पद कमल सीस तिन्ह नाए * देखि सुभट रघुपति मन भाए
राम कृपा करि जुगल निहारे * भए विगत श्रम परम सुखारे

उन्होंने प्रभुके चरणकमलों में मस्तक नवाया। दोनों योद्धाओं को देपकर रघुनाथजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों को कृपादृष्टि से देखा तो वे दोनों थम रहित और मुग्ध हो गये।

गए जानि अङ्गद हनुमाना * फिरे भालु मर्कट भट नाना
जातुधान प्रदोष वल पाई * धाए करि दससीस दोहाई

अंगद और हनुमानजी लौट गये, यह जानकर सब रीछ और बानर योद्धा भी लौट चले। राक्षस सायंकाल का बल पाकर रावण को दुहाई देते हुए बानरों के पीछे दौड़े।

समर कीन्ह तानें अति भारी * मारचौ तेहि युवराज प्रचारी
पुनि प्रहस्त क्रोधातुर धावा * नील माहि तेहि धरनि गिरावा

उसने बड़ी भारी लड़ाई की। उसे युवराज अंगद ने बलकार कर मार डाला। फिर क्रोधित होकर प्रहस्त चढ़ दीड़ा। उसे नील ने मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया।

चल्यो महोदर करि अतिक्रोधा * महावीर मारचो सो योधा
पुनि अतिकाय भिरचो रिसियाई * मरचो आठ दिन कीन्ह लराई

फिर महोदर अत्यन्त क्रोध करके चला, उस योद्धा को हनुमानजी ने मार डाला, फिर अतिकाय क्रोधित होकर मिड़ गया और आठ दिन लड़ाई करके मर गया।

कुम्भ निकुम्भ आइ रन ठाना * मरे पाँच दिन करि मैदाना
पुनि मकराक्ष महाभट आवा * लछिमन ते अति युद्ध मचावा

फिर कुम्भकर्ण के घेरे कुम्भ और निकुम्भ ने आकर रण ठाना। वे पाँच दिन युद्ध करके मर गये। तब महा योद्धा मकराक्ष आया, उसने लक्ष्मणजी से बड़ा युद्ध किया।

दोहा—तब लछिमन ने क्रोध करि, ताको डारो मारि।

कपि दल में आनन्द छयो, जय जयकारि पुकारि ॥ १ ॥

तब लक्ष्मणजी ने क्रोध करके उसको मार डाला। तब वानरों के दल में आनन्द छा गया और वे पुकार-पुकार कर जय-जयकार करने लगे।

❀ इति क्षेपक ❀

यह वृत्तान्त दसानन सुनेऊ * अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ
व्याकुल कुम्भकरन पहिं आवा * विविध जतन करि ताहि जगावा

यह समाचार जब रावण ने सुना, तब उसने बहुत दुःखी हो बारम्बार अपना सिर पीटा। फिर घबड़ाकर कुम्भकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसे जगाया।

जागा निसिचर देखिअ कैसा * मानहुँ काल देह धरि बैसा
कुम्भकरन बूझा कहु भाई * काहे तव मुख रहे सुखाई

कुम्भकर्ण जाग उठा, वह कैसा देख पड़ता था, मानो देह धारण किये हुए साक्षात् काल हो। कुम्भकर्ण ने पूछा—हे भाई! कहो, तुम्हारा मुख क्यों मुरझा रहा है?

कथा कही सब तेहि अभिमानी * जेहि प्रकार सीता हरि आनी
तात कपिन्ह सब निसिचर मारे * महा महा जोधा संघारे

तब घमण्डी रावण ने सब कथा कही, जिस प्रकार वह सीता को हर लाया था। फिर बोला—हे भाई! वानरों ने हमारे सब बड़े-बड़े राक्षस वीर मार डाले हैं।

दुर्मुख सुररिपु मनुज अहारी * भट अतिकाय अकम्पन भारी
अपर महोदर आदिक बीरा * परे समर महि सब रनधीरा

गहि पद डारहि सागर माहीं * मकर उरग झपधरि धरिखाहीं

भागते हुए राक्षसों को पृथ्वी पर पटक देते हैं। रोछ-वानर अद्भुत करने करते हैं और पकड़कर उन्हें समुद्र में फेंक देते हैं। उन्हें मगर, घड़ियाल, सांप और मछलियाँ पाते हैं।

दोहा-कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चले पराइ।

गर्जहि भालु बलीमुख, रिपुदल वल विचलाइ ॥५८॥

कुछ मारे गये, कुछ घायल हो गये और कुछ गढ़ की ओर भाग गये। शत्रु-सेना को तितर-बितर करके वानर-रोछ गरजने लगे।

निसा जानि कपि चारउं अनी * आये जहाँ कौसला धनी

राम कृपा करि चितवा सबही * भये विगत श्रम वानर तबही

रात हुई जानकर चारों सेनाओं के वानर वहाँ आये-जहाँ श्रीरामजी थे। ज्यों ही श्रीरामजी ने कृपा-दृष्टि से उनकी ओर देखा, त्यों ही सब वानरों की पकावट दूर हो गई।

उहाँ दसानन सचिव हँकारे * सब सन कहेसि सुभट जे मारे

आधा कटक कपिन्ह संहारा * कहहु बेगि का करिअ विचारा

वहाँ (लड्डू में) रावण ने मन्त्रियों को बुलाया और जितने षोड़ा मारे गये थे, उनके नाम सबको बतलाये और कहा—वानरों ने आधी सेना मार डाली। अब बचाओं, क्या विचार किया जाय ?

माल्यवन्त अति जरठ निसाचर * रावन मातु पिता मन्त्री वर

बोला वचन नीति अति पावन * सुनहु तात कछु मोर सिखावन

माल्यवन्त नाम का एक बूढ़ा राक्षस था, वह रावण का नाना और धोखे मन्त्री था। वह नीति के अति पवित्र वचन बोला-हे तात ! मेरी कुछ शिक्षा सुनो-

जब ते तुम्ह सीता हरि आनी * असगुन होहि न जाहि बखानी

वेद पुरान जासु जसु गायो * राम विमुख काहु न सुखपायो

जब से तुम सीताजी को हर लाये हो, तब से इतने असकुन होते हैं कि कहे नहीं जाते। वेद-पुराण जिनका यश गाते हैं, उनसे विरोध करने पर किसी ने सुख नहीं पाया।

दोहा-हिरण्याक्ष भ्राता सहित, मधुकैभट वलवान।

जेहि मारे सोइ अवतरेउ, कृपासिन्धु भगवान ॥६०॥

हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष और महाबली मधु-कैटन को जिन प्रभु ने मारा था। उन्होंने कृपासिन्धु भगवान ने अवतार धारण किया है।

* मास पारायण-पञ्चोत्तवां विश्राम *

काल रूप खल वन दहन, गुनागार गत बोध।

शिव विरञ्चि जेहि सेवाहि, तासों कवन विरोध

अनुज उठाइ हृदय तेहि लायो * रघुपति भगत जान मन भायो

उसे देखकर विभीषण सामने आया और उसने चरण पकड़कर अपना नाम बताया । तब भाई को उठाकर उसने अपनी छाती से लगा लिया और श्रीरघुनाथजी का भक्त जान कर वह उसे बहुत प्यारा लगा ।

तात लात रावन मोहि मारा * कहत परम हित मन्त्र विचारा
तेहि ग्लानि रघुपति पहि आयउं * देखि दीन प्रभु कै मन भायउं

हे तात ! हितकारी विचार करते हुए भी रावण ने मुझे लात मारी, उसी ग्लानि के सारे में श्रीरामजी के पास चला आया । दीन देखकर प्रभु के मन में अत्यन्त प्रिय लगा ।

सुनु सुत भयउ कालवस रावन * सो कि मान अब पर सिखावन
धन्य धन्य तैं धन्य विभीषन * भयउ तात निसिचरकुलभूषन
बन्धु बंस तैं कीन्ह उजागर * भजहु राम सोभा सुखसागर

(कुम्भकर्ण बोला-) हे पुत्र ! सुन, रावण काल के वश हो गया है । वह उत्तम सीख को कैसे माने ? हे विभीषण ! तुम धन्य हो, हे तात ! तुम राक्षस-वंश के भूषण होगये । हे भाई ! तुमने वंश को उजागर कर दिया, जो शोभा और सुख के निधान रामजी का भजन किया ।

दोहा-वचन कर्म मन कपट तजि, भजहु राम रनधीर ।

जाहु न निज पर सूझ मोहि, भयउं कालवस वीर ॥७६॥

मन, कर्म और वाणी से कपट को त्याग कर रणवाँकुरे श्रीरामजी का भजन करना । हे भाई ! अब तुम जाओ, क्योंकि इस समय मुझे अपना-पराया नहीं सूझता, मैं मृत्यु के आधीन हो रहा हूँ ।

बन्धु वचन सुनि चला विभीषन * आयहु जहँ त्रैलोक विभूषन
नाथ भूधराकार शरीरा * कुम्भकरन आवत रनधीरा

भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट चले और जहाँ त्रिलोकीनाथ श्रीरामजी थे, वहाँ आकर बोले-हे नाथ ! पर्वत के समान शरीर वाला रणधीर कुम्भकरण आ रहा है ।

इतना कपिन्ह सुनाजब काना * किलकिलाइ धाए बलवाना
लिये उठाइ विटप अरु भूधर * कटकटाई डारहिं तेहि ऊपर

जब वानरों ने कानों से यह सुना, तब वे बलवान् किलकिला कर दौड़े । वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर कटकटा कर उसके ऊपर डालने लगे ।

कोटि कोटि गिरि सिखर प्रहारा * करहि भालु कपि एकहिं बारा
मरयो न मन तनु टरयो न टारयो * जिमि गज अर्कफलनिकोमारयो

अनेकों पर्वतों के शिखरों का प्रहार रीछ-वानर एक ही साथ करते हैं । परन्तु न उनका मन ही विचलित हुआ और न शरीर ही हिला, जैसे हाथी मदार के फूलों के लगने से नहीं हटता ।

तब मारुतसुत सुठिका हन्यो * परयो धरनि व्याकुल सिर धुन्यो
पुनि उठि तेहिं मारेउ हनुमन्ता * घुमित भूतल परेउ तुरन्ता

मेघनाद ने कानों से यह सुना कि वानरों ने फिर गढ़ घेर लिया है, तब वह बोर किले से उतर कर धौंसा बजाता हुआ सामने चला ।

कहँ कौसलाधीस द्रौ भ्राता * धन्वी सकल लोक विख्याता
कहँ नल नील दुविद सुग्रीवा * अङ्गद हनुमन्त बल सौवा

(मेघनाद ने कहा) अयोध्या के राजा, सब लोकों में प्रसिद्ध धनुधारो दोनों भाई राम-लक्ष्मण कहाँ हैं ? नल, नील, द्विविद, सुग्रीव और बल को तोमा अङ्गद और हनुमान कहाँ हैं ?

कहाँ विभिषनु भ्राता द्रोही * आजु सबहि हठि मारउँ ओही
अस कहि कठिन वान सन्धाने * अतिसय क्रोध श्रवन लगि ताने

भाई से बँर करने वाला विभीषण कहाँ है ? आज सबको हठ पूर्वक माझंगा । ऐसा कहकर उसने अपने धनुष पर कठिन वाण संधान किये और बड़े क्रोध से कानों तक धनुष ताना ।

सर समूह सो छाँड़न लागा * जनु सपच्छ धार्वहि बहु नाना
जहँ तहँ परत देखि अहि वानर * सन्मुख होइ न सके तेहि अवसर

वह वाण समूह छोड़ने लगा, मानो पखों वाले बहुत से सर्प बौड़ रहे हैं । जहाँ-तहाँ वानर गिरते देख पड़ते थे, उस समय उसके सामने कोई नहीं ठहर सकता था ।

जहँ तहँ भागि चले कपि रोछा * बिसरी सबहि युद्ध की ईछा
सो कपि भालु न रन महँ देखा * कोन्हेसि जेहि न प्रान अवसेपा

वानर-रोछ जहाँ-तहाँ भागे, सबको युद्ध की सुधि भूल गई । ऐसा वानर या रोछ रण में कोई नहीं चीख पड़ा, जिसके प्राण मात्र अवरोध न कर दिये हों ।

दोहा—दस दस सर सब मारेसि, परे भूमि कपि वीर ।

सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद बलवीर ॥६३॥

दस-दस वाण उसने सबके मारे, जिससे वीर वानर पृथ्वी पर गिर पड़े । तब रणघोर मेघनाद सिंह के समान गर्जने लगा ।

देखि पवनसुत कटक विहाला * क्रोधवन्त जनु धायउ काला
महा सैल एक तुरत उपारा * अति रिस मेघनाद पर डारा

हनुमानजी वानर-सेना को व्याकुल देखकर क्रोध करके बौड़े, मानो काल हो बौड़ रहे । उन्होंने तुरन्त एक भारी पर्वत उखाड़ लिया और क्रोधित हो मेघनाद पर डारा ।

आवत देखि गयउ नभ सोई * रथ सारथी तुरत तब छोई
वार वार पचार हनुमाना * निकट न आव मरनु सो जाना

पर्वत को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया । रथ, सारथी और घोड़े सब छोड़े । हनुमानजी ने उसे बारम्बार ललकारा, परन्तु वह निकट नहीं आया, बल्कि रथ उनके बग का भेद जानता था ।

रघुपति निकट गयउ धननादा * नाना भाँति ज्हेति

दोहा—जय जय जय रघुवंस मनि, धाए कपि दै हूह ।

एकहि वार तासु पर, छाँड़ेन्हि गिरि तरु जूह ॥७८॥

‘रघुकुल-भूषण की जय हो, जय हो’ ऐसा कहते हुए हू-हू करके वानर दौड़े और उसके ऊपर एक साथ पर्वत और वृक्षों के समूह छोड़े ।

कुम्भकरन रण रङ्ग विरुद्धा * सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा
कोटिकोटि कपि धरिधरि खाई * जनु टीढी गिरि गुहाँ समाई

रण के रंग में विरुद्ध हुआ कुम्भकरण सामने ऐसे चला, मानो क्रोधित काल आरहा हो । वह वानरों को पकड़ कर खाने लगा, मानो टीढ़ियाँ पहाड़ की गुफा में घुस रही हैं ।

कोटिन्ह गहि सरीर सन मर्दा * कोटिन्ह मीजिमिलवमहि गर्दा
मुख नासा श्रवनन्हि की बाटा * निसरि पराहि भालु कपि ठाटा

करोड़ों वानरों को पकड़ कर शरीर से मल डाला और करोड़ों को हाथों से मसल कर घूल में मिला दिया । मुख, नाक और कानों के मार्ग से निकल कर रोछ-वानरों के ठट्ट के ठट्ट भागने लगे ।

रन मद मत्त निसाचर दर्पा * विश्वग्रसिहि जनु एहि विधि अर्पा
मुरे सुभट सब फिरहि न फेरे * सूझ न नयन सुनहि नहिं टेरे

रण के मद में मत्तवाला कुम्भकरण ऐसा गर्वित हुआ, मानो विधाता ने इसी को सारा विश्व अर्पित कर दिया है और यह उसे खा जायेगा । थोड़ा भागे, वे लौटाने से भी नहीं लौटते, वे आँखों से नहीं देखते और पुकारने पर भी नहीं सुनते ।

कुम्भकरन कपि सेन विडारी * सुनि धाए रजनीचर भारी
देखि राम विकल कटकाई * रिपु अनीक नाना विधि आई

कुम्भकरण ने वानर-सेना को तितर-बितर कर दिया, यह सुन राक्षस दौड़े आये । श्री रामजी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल हो रही है और शत्रु की सेना बहुत भाँति से आगई है ।

दोहा—सुनु सुग्रीव विभीषन, अनुज सँभारेउ सेन ।

मैं देखउँ खल बल दलहिं, बोले राजिव नैन ॥७९॥

तब कमल-नयन श्रीरामजी बोले—हे सुग्रीव, विभीषण और लक्ष्मण ! सुनो, तुम सेना को सँभालो और मैं इस दृष्ट के पराक्रम और सेना को देखता हूँ ।

कर सारंग साजि कटि भाथा * अरि दल दलन चले रघुनाथा
प्रथम कोन्ह प्रभु धनुष टँकोरा * रिपुदल बधिर भयउ सुनिसोरा

हाथों में धनुष और कमर में तर्कस बांधकर शत्रु-सेना को विध्वंस करने को श्री रघुनाथजी चले । प्रभु ने पहले धनुष की टँकोर की, जिसका घोर शब्द सुनकर शत्रु-सेना बहरी होगयी ।

सत्यसिंधु छाँड़े सर लच्छा * काम सर्प जनु चले सपच्छा
जहँ तहँ चले विपुल नाराचा * लगे कटन भट विकट पिशाचा

छतज नयन उर बाहु विसाला * हिमगिरि समतनु कछुएकलाला
उहाँ दसानन सुभट पठाए * नाना अस्त्र शस्त्र गहि धाए

उनके नेत्र कमल के समान, छाती चौड़ी, भुजायें लम्बी और हिमालय के समान गौर-वर्ण, कुछ लाली लिए हुए शरीर है। उधर रावण ने योद्धा भेजे, जो अनेक हथियार लेकर बोड़े।

भूधर नख विटपायुध धारी * धाए कपि जय राम पुकारी
भिरे सकल जोरिहि सन जोरो * इत उत जय इच्छा नहि थोरो

पर्वत, नख वृक्ष ही जिनके हथियार हैं, वे वानर 'श्रीरामजी की जय' पुकारते हुए बोड़े। सब अपनी-२ जोड़ी से निडू गये, दोनों ओर जीतने की इच्छा छोड़ी नहीं है।

मुठिकन्ह लातन्ह दाँतन्ह काटहि * कहि जय सीलमारि पुनि डाटहि
मारु मारु धरु धरु धरु मारु * सीस तोरि गहि भुजा उखारु

राक्षसों को वानर लात घूसों से मारते हैं, बाँतों से काटते हैं, विजयो-वानर उन्हें मारकर डाटते भी हैं। 'मारो, पकड़ो, पकड़कर मारडालो, सिर तोड़ दो और भुजा पकड़कर उखाड़ लो'

अस धुनि पूरि रही नव खण्डा * धावाहि जहँ तहँ रुण्ड प्रचण्डा
देखहि कौतुक नभ सुर वृन्दा * कवहुँक विसमित कवहुँ अनन्दा

ऐसी ध्वनि नवों खण्डों में भर रही है, प्रचण्ड रुण्ड जहाँ-तहाँ बौड़ रहे हैं। आकाश से देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं, उन्हें कभी चिपमय कभी आनन्द हो रहा है।

दोहा—रुधिरगाढ़ भरि भरिजस्यो, ऊपर धूरि उड़ाइ।

जनु अँगार रासिन्ह पर, मृतक धूल रही छाड़ ॥६६॥

रुधिर गढ़ों में भरकर जम गया है और ऊपर से धूल छा गई है। जैसे अँगारों पर मुँदों की राख छा जाती है।

घायल वीर विराजहि कैसे * कुसुमित किंसुक के तरु जैसे
लछिमन मेघनाद द्वौ जोधा * भिरहि परस्पर करि अतिक्रोधा

घायल योद्धा कैसे शोणित हैं, जैसे फूले हुए कपास के पेड़। लक्ष्मणजी और मेघनाद दोनों योद्धा एक दूसरे से बड़े क्रोध के साथ मिड़ते हैं।

एकहि एक सकइ नहिं जोती * निसिचर छलबल करइ अनोती
क्रोधवन्त तव भयउ अनन्ता * भञ्जेउ रथ सारथी तुरन्ता

परन्तु एक-दूसरे को जीत नहीं सकते। मेघनाथ छल-बल और अनोति भी करता था। तब अनन्त (लक्ष्मणजी) अत्यन्त क्रोधित हुए और मेघनाद के रथ को तोड़ डाला तथा शीघ्र ही सारथी को मार दिया।

नाना विधि प्रहार कर शोषा * राक्षस भउ प्राण अवशेषा
रावन सुत निज मन अनुमाना * संकट भयउ हरिहि मम प्राणा

शेषजी ने अनेक भाँति प्रहार किये, तब राक्षस के प्राणमात्र अवशेष रह गये। रावण

महि पटकड़ गजराज इव, सपथ करइ दससीस ॥ ८१ ॥

फिर गरजता हुआ बहुत से वानरों को पकड़-पकड़कर मतवाले हाथों की तरह भूमि पर पटकता हुआ रावण को डुहाई देने लगा ।

भागे भालु बलीमुख जूथा * वृकु विलोकि जिमि मेघ बरूथा
चले भागि कपि भालु भवानी * विकल पुकारत आरत वानी

उसे देख रोठ-वानरोंके जुण्ड ऐसे भागे, जैसे भेड़िये को देखकर भेड़ोंके जुण्ड भागते हों । शिवजी कहते हैं—हे भवानी ! रोठ-वानर घबड़ाकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले । यह निसिचर दुकाल सम अहई * कपिकुल देस परन अब चहई

कृपा वारिधर राम खरारी * पाहि पाहि प्रनतारित हारी
यह राक्षस अकाल के समान है, जो वानर-कुलरूपी देश में पड़ना चाहता है । हे शरणागत के दुःख हरने वाले खरारि श्रीरामजी ! आप कृपारूपी भेषों से जल बरसाकर रक्षा करिये, रक्षा करिये ।

सकरन बचन सुनत भगवाना * चले सुधारि सुरासन वाना
राम सेन निज पाछै वाली * चले सकोप महा बलसाली

ऐसे दोन बचन सुनते ही भगवान् धनुष-बाण सेनाल कर चले । सेना पीछे कर, क्रोध सहित बड़े ही पराक्रमी श्रीरामजी आगे चले ।

खौचि धनुष सर सम सन्धाने * छूटे तीर सरीर समाने
लागत सर धावा रिस भरा * कुधर उगमगत डोलत धरा

और धनुष खींचकर सी बाण चलाये । वे तीर छूटे और कुम्भकर्ण के शरीर में घुस गये । बाण लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा, जिससे पर्वत उगमगा गये और पृथ्वी हिल गई ।

लीन्ह एक तेहि सैल उपाटी * रघुकुल तिलक भुजा सोइ काटी
धावा वाम बाहु गिरि धारी * प्रभुसोइ भुजा काटि महि पारी

उसने एक पर्वत उखाड़ लिया, श्रीरामजी ने वह भुजा काट डाली । तब वह बांये हाथ में उस पहाड़ को लेकर दौड़ा । प्रभु ने वह भुजा भी काटकर भूमि पर गिरा दी ।

काटें भुजा सोह खल कैसा * पच्छहीन मन्दर गिर जैसा
उग्र विलोकनि प्रभुहि विलोका * प्रसन चहत मानहुँ त्रैलोका

भुजाओं के कट जाने से वह कैसा लगता है, जैसे पंखों के बिना मन्दराचल । फिर टेढ़ी दृष्टि से कुम्भकरण प्रभु को ओर देखने लगा, मानो तीनों लोकों को निगलना चाहता है ।

दोहा—करि चिक्कारि घोर अति, धावा बदन पसारि ।

गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकारि ॥ ८२ ॥

वह बड़े भयंकर शब्द से चिंथाड़ करके मुँह फंलाकर दौड़ा । आकाश में सिद्ध और देवता मारे डर के हा-हाकार मचाने लगे ।

श्रीरामजी के चरण कमलां को हृदय में रखकर व बल बधान कर हनुमानजी घते ।
उधर एक दूत ने सब भेद बतलाया, तब रावण कालनेमि के घर आया ।

दशमुख कहा मरमु तेहि सुना * पुनि पुनि कालनेमि सिर धुना
देखत तुम्हरि नगर जेहि जारा * तासु पन्थ को रोकनहारा
रावण ने तारा भेद कहा, उसने सुना और बारम्बार सिर धुना । उसने कृष्ण-तुम्हारे
देखते २ जिसने नगर को जला दिया, उसके मार्ग को रोकने वाला कौन है ?

भजिरघुपतिहिकरहु हित अपना * छाँड़हु नाथ मृषा जल्पना
नील कञ्ज तनु सुन्दर श्यामा * हृदयें राखु लोचन अभिरामा
हे नाथ ! श्रीरघुनाथजी का भजन कर अपना हित-साधन करो और मृषा को बरुयास
छोड़ दो । नेत्रों को आनन्ददायक कमल के समान सुन्दर श्याम शरीर को अपने हृदय में
धारण करो ।

में तै मोर मूढ़ता त्यागू * महा मोह निसि सोवत जाग
काल व्याल कर भच्छक जोड़ * सपनेहुँ समर कि जोतिअ सोई
में, तू और अपनत्वके नाथ की मूढ़ताको त्याग दो । महा मोहहृन्नी रात्रि से सोते हुए जाग
उठो । जो कालरूपी सपने का भक्षक है, क्या स्वप्न में भी तमर उसे कोई जोत सकता है ?
दोहा—सुनि दसकण्ठ रिसान अति, तेहि मन कीन्ह विचार ।

राम दूत कर मरौ वरु, यह खल रत मल भार ॥ ६६ ॥

यह सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ । तब कालनेमि ने मन में विचार किया कि
श्रीरामजी के दूतके हाथ से मरना अच्छा है । यह दुष्ट तो पाप-समूह में रत है ।

अस कहि चलारचिसिभगमाया * सर मन्दिर वर वाग बनाया
मारुत सुत देखा सुभ आश्रम * मुनिहि वृद्धिजल पियौ जाइश्रम
ऐसा अपने मन में कहकर कालनेमि चला और मार्ग में-सरोवर, मन्दिर और मुन्दर
वाग माया से बनाया । हनुमानजी ने घुम-आधम देपकर सोचा कि मुनि से पूछकर अन्न
पी लूँ, जिससे थकावट दूर हो जाय ।

राक्षस कपट वेष तहें सोहा * मायापति दूतहि चह मोहा
जाइ पवन सुत नायउ माथा * लगा सो कहन राम गुन गाया
यहाँ राक्षस कपट-वेष बनाकर बंठा था, यह भाषा से उन माया-पति के दूत को मोहित करना
चाहता था । पास जाकर हनुमानजी ने मस्तरु नवाया, तब यह श्रीरामजी के गुण गाने लगा—
होत महारनु रावनु रामहि * जितिहहिं राम न संसय या महिं
इहा रहें में देखउं भाई * ग्यान दृष्टि बल मोहि अधिकार्ई

रावण और श्रीराम में घोर संग्राम हो रहा है, परंतु श्रीरामजी जीतेंगे, इसमें संशय नहीं
है भाई ! मैं यहाँ रहकर ही तत्र देप रहा हूँ, क्योंकि जानदृष्टि का बल मुझमें अधिक है ।
माँगा जल तेहि दीन्ह कमण्डल * कह कपि नहिं अधाउं थोरे जल

अतुलनीय बलवान् श्रीरामजी समर-भूमि में शोभित हैं । मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान लाल नेत्र हैं, शरीर पर लोह की बूंदें हैं, दोनों हाथ धनुष और बाणों पर फेर रहे हैं, चारों ओर रीछ-वानर हैं । तुलसीदासजी कहते हैं कि बहुत से मुख वाले शेषजी भी उस समय की शोभा नहीं कह सकते ।

दोहा—निसिचर अधम मलाकर, ताहि दीन्ह निज धाम ।

गिरिजा ते नर मन्दमति, जे न भजहि श्रीराम ॥ ८३ ॥

(शिवजी कहते हैं—) हे पार्वती ! राक्षस नीच और पापी था, उसे भी अपना धाम दिया, ऐसे श्रीरामजी का जो भजन नहीं करते—वे मन्द, बुद्धि हैं ।

दिन के अन्त फिरों द्यौं अनी * समर भइ सुभटन्ह श्रम घनी
राम कृपां कपिदल बल बाढ़ा * जिमि तून पाइ लाग अति डाढ़ा

दिन का अन्त होने पर दोनों सेनायें लौटों, योद्धाओं का बड़ा श्रम हुआ । श्रीरामजीकी कृपा से वानर-सेना का बल बढ़ गया, जैसे घास पाकर अग्नि प्रचण्ड हो जाती है ।

छीजहि निसिचर दिन अरुराती * निज मुख कहे सुकृत जेहि भाँती
बहु विलाप दसकन्धर करई * बन्धु सौस पुनि पुनि उर धरई

राक्षस—रात-दिन ऐसे घटते हैं, जैसे अपने मुख से कहने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं । रावण भाई के सिर काँ हृदय से बारम्बार लगाकर बहुत विलाप करता है ।

रोवाहिं नारि हृदय हति पानी * जासु तेज बल विपुल बखानी
मेघनाद तेहि अवसर आयउ * कहि बहु कथा पिता समुझायउ

स्त्रियाँ हाथों से छाती पीटकर कुम्भकरण के तेज और पराक्रम को बहुत बखान कर रो रहीं हैं । उसी समय मेघनाद वहाँ आया और बहुत-सी कथायें कहकर पिता को समझाया ।

देखेउ कालि ओरि मनुसाई * अवाहिं बहुत का करौं बड़ाई
इष्टदेव सैं बल रथ पायउं * सो बल तात न तोहि देखायउं

फल मेरी वीरता देखना । अभी से मैं बहुत बड़ाई क्या कहूँ ? मैंने शिवजी से जो बल और रथ पाया है, उसे आपको नहीं दिखाया ।

एहि विधि जल्पत भयउ बिहाना * चहुँ दुआर लागे कपि नाना
इहि कपिभालु काल समवीरा * उत रजनीचर अति रनधीरा

लराहिं सुभट निज निज जय हेतू * बरनि न जाइ समर खग केतू

इस प्रकार बकवाद करते हुए सवेरा होगया, चारों द्वारों पर हजारों रीछ-वानर आ डटे । इधर फालके समान रीछ-वानर हैं और उधर रणधीर निसाचर हैं । हे पक्षिराज ! दोनों ओर के योद्धा अपनी-अपनी जीतके लिए लड़ने लगे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता ।

दोहा—मेघनाद मायामय, रथ चढि गयउ अकास ।

विकल विलोकि कौस उर लावा * जागत नहि बहु भाँति जगावा
मुख मलीन मन भए दुखारी * कहत वचन भरि लोचन वारी

हनुमानजी को व्याकुल देखकर छाती से लगा लिया। अनेक प्रकार से जगावा, पर वे चंतन्य न हुए। भरतजी उदास हो गये, मन में बहुत दुखो हुए और बाँधों में धाम् मरकर बोले—
जेहिविधिरामविमुखमोहिकोन्हा * तेहि पुनि यह दारुन दुखदोन्हा
जौं मोरें मन वच अरु काया * प्रीति राम पद कमल अमाया

जिस विधाता ने मुझे श्रीरामजी से विमुख किया, उसी ने फिर कठिन दुःख दिया है। जो मन, वचन और शरीर से श्रीरामजी के चरणारविन्दों में मेरी निष्कण्ठ प्रीति हो।

तौ कपि होइ विगत श्रम सूला * जौं मो पर रघुपति अनुकूल
सुनत वचन उठि बैठ कपोसा * कहि जय जयति कौशलाधीसा

जो मुझ पर श्रीरामजी प्रसन्न हों तो यह कपि यकावट और पीड़ा से छूट जाय। यह वचन सुनते ही हनुमानजी 'कौशलाधीश श्रीरामजी की जय हो, कहते हुए छठ बैठे।

सो०—लीन्ह कपिहि उर लाय, पुलकित तनु लोचन सजल।

प्रीति न हृदयँ समाइ, सुमिरि राम रघुकुलतिलक ॥ ८ ॥

भरतजी ने वानर को हृदय से लगा लिया, शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में जल भर आया। श्रीरामजी का स्मरण करके प्रीति हृदय में नहीं समाती।

तात कुसल कहु सुखनिधान की * सहित अनुज अरु मातु जानकी
कपि सब चरित समान वखाने * भए दुखो मन महुं पछिताने

हे तात! छोटे भाई लक्ष्मण और माता जानकीजी सहित सुख-निधान श्रीरामजी को कुसल कहो। हनुमानजी ने सब चरित्र संक्षेप में कहे, जिसे सुनकर भरतजी दुखो हुए और पछताने लगे।

अहह दैव मैं कत जग जायउं * प्रभु के एकहु काज न आयउं
जानि कुअवसर मन धरि धीरा * सुनु कपि सन बोले बलवीरा

हा देव! तत्कार में मैंने क्यों जन्म लिया, जो प्रभु के एक भी काम न आया? फिर भरतजी—हनुमानजी से कुसमय जानकर मन में घोरतः धरकर बोले—

तात गहर होइहि तोहि जाता * काजु नसाइहि होत प्रमाता
चहु मम सायक सैल समेता * पठवौं तोहि जहँ कृपा निकेता

हे तात! तुम्हें पहुँचने में देर होगी और सबेरा होते ही सब काम बिगड़ जायगा। इसलिए पर्वत समेत मेरे बाण पर बैठ जाओ तो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँ, जहाँ कृपानिधान श्रीरामजी हैं।

सुनि कपि मन उपजा अभिमाना * मोरे भार चलिहि किमि वाना
राम प्रभाव विचारि वहोरी * वन्दि चरन कह कपि करजोरी

यह सुनकर हनुमानजी के मन में अहंकार प्रकट हुआ कि मेरे बाण से बाण कैसे चलेगा—

हे पार्वती ! जिसका नाम जपकर मुनि भव-बन्धन से छूट जाते हैं, वे सर्वव्यापक, जगदाधार प्रभु क्या बन्धन में आ सकते हैं ?

चरित राम के सगुन भवानी * तर्क न जाहि बुद्धि बलवानी
अस विचारि जे तग्य विरागी * रामहि भजहि तर्क सब त्यागी

हे भवानी ! श्रीरामजी के सगुण-चरित्र बुद्धि, मन और वाणी से तर्क करने में नहीं आते। ऐसा विचार करो तत्वज्ञानी और विरक्त हैं, वे सब तर्कों को छोड़कर प्रभु का ही भजन करते हैं।

व्याकुल कटक कीन्ह घननादा * पुनि भा प्रगट कहत दुर्वादा
जामवन्त कह खल रहु ठाढ़ा * सुनिकर ताहि क्रोध अति बाढ़ा

मेघनाद ने सेना को वेसुध कर दिया और दुर्वचन कहता हुआ वह प्रकट होगया। उसे जामवन्त ने ललकारा-रे दुष्ट, खड़ा रह ! यह सुनकर मेघनाद का क्रोध बढ़ा।

बूढ़ जानि सठ छाँड़ेउं तोही * लागेसि अधम पचारै मोही
अस कहि तरल त्रिशूल चलायो * जामवन्त कर गहि सोइ धायौ

रे मूर्ख ! तुझे बूढ़ा समझकर छोड़ दिया था। रे नीच ! मुझको तू ललकारने लगा। ऐसा कहकर पैना त्रिशूल चलाया। जामवन्त उसे बीच में ही पकड़कर दौड़े।

मारिसि मेघनाद के छाती * परा भूमि घुमित सुरघाती
पुनि रिसान गहि चरन फिरायो * महि पछारि निज बल देखरायो

और वह त्रिशूल मेघनादकी छाती में मारा। वह देव घाती चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ा फिर गुस्तासे उसके पाँव को पकड़कर घुमाया व भूमि पर पटककर अपना पराक्रम दिखाया।

बार प्रसाद सो मरइ न मारा * तब गहि पद लंका पर डारा
इहाँ देवरिषि गरुड़ पठायो * राम समीप सपदि सो आयो

वरदान के प्रभावसे मेघनाद मारने से नहीं मरता। तब जामवन्तने उसका पैर पकड़कर लंका में फेंक दिया। यहाँ वानर-सेना में नारदजी ने गरुड़जी को भेजा, वे तुरन्तही रामजी के पास आये।

दोहा-खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरुथ ।

माया विगत भए सब, हरषे वानर जूथ ॥ ८६ ॥

पक्षिराज गरुड़जी ने सब मायामय सर्पों के समूह खा डाले, तब माया से रहित होकर वानरगण प्रसन्न हो गये।

गहि गिरि पादप उपल नख, धाए कीस रिसाय ।

चले तमोचर विकल तर, गढ़ पर चढ़े पराय ॥ ८७ ॥

फिर वानर क्रोध करके पर्वत, वृक्ष शिला और नख लेकर दौड़े। तब राक्षस विकल होकर भागकर गये।

मेघनाद कै सुरछा जागी * पितहि विलोकित्वाज अतिलागी

स्त्री के लिए प्यारे भाई को छोकर मैं ज्योष्या में कौन-सा मुँह लेकर जाऊँगा ? मैं संसार में अपवश भले ही सह लेता, क्योंकि स्त्री को हानि से कुछ विशेष हानि नहीं है ।

अब अपलोक शोक सुत तोरा * सहहि निरुर कठोर उर मोरा
निज जननी के एक कुमारा * तासु तान तुम्ह प्रान अधारा

अब तो, हे पुत्र ! शोक-निवा ओर तुम्हारा शोक दोनों ही मेरा कठोर और निष्पूर हृदय सहन करेगा । हे तात ! अपनी माता के तुम एक ही पुत्र हो, इससे तुम उनके प्राणाधार-हो ।

सौपेसि मोहि तुम्हहि गहि पानी * सब विधि सुखद परमहित जानी
उतरु कहा देहुँ तेहि जाई * उठि किन मोहि सिखावहु भाई

सब प्रकार से सुख देने वाला और हितकारी जानकर तुम्हारी माता ने हाथ पकड़ कर तुम्हें मुझे सौंपा था । अब मैं उन्हें जाकर क्या उत्तर दूँगा ? हे भाई ! उठकर मुझे यों नहीं समझाते ?

वहु विधि सोचत सोच विमोचन * स्वतसलिल राजिव दल लोचन
उमा एक अखण्ड रघुराई * नर गति भगत कृपालु देखाई

सोच को दूर करने वाले धीरामजी—बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं, कमलनेत्रों से आँसू बहा रहे हैं । हे उमा ! अखण्ड बयालु धीरामजी ने एक ओर भी मनुष्य की-सी दया दिखाई ।

सो०—प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भए वानर निकर ।

आइ गयउ हनुमान, जिमि करुना महे वीर रस ॥ ८ ॥

प्रभु के प्रताप को कानों से सुनकर वानर व्याकुल होगये । उसी समय हनुमानजी था गये, जैसे कण्ठा-रस में वीर-रस आ गया हो ।

हरषि राम भेटेउ हनुमाना * अति कृतग्य प्रभु परम सुजाना
तुरत वैद तव कोन्ह उपाई * उठि बैठे लछिमन हरपाई

प्रसन्न होकर धीरामजी—हनुमानजी से मिले । प्रभु किये हुए उपकार को मानने वाले और चतुर हैं । तब सुपेन बंध ने तुरन्त उपाय किया, जिससे लक्ष्मणजी आनन्दपूर्वक उठ बैठे ।

हृदय लाइ प्रभु भेटेउ भ्राता * हरपे सकल भालु कपि व्राता
कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा * जेहि विधि तवहिं ताहिले आवा

प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले, सब रीछ-वानरों की सेना आनन्दित हुई । फिर हनुमानजी ने बंध को जहाँ का तहाँ जिस प्रकार उसे लाये थे, वैसे ही पहुँचा दिया ।

हरि दिन धूम्रअक्ष बलवाना * चढ़ि कौन्ही अति समर महाना
महावीर तेहि कियौ निपाता * चढ़्यौ अकल्पन पुनि दुखादाता

एकादशी के दिन बलवान घुम्राक्ष ने घड़ाई को धीर बढ़ा भयंकर नंग्राम किया । महावीरजी ने उसे मार दिया, तब फिर दुःख देने वाला दशम्वन चढ़कर आया ।

जाइ कपिन्ह जो देखा बैसा * आहुति देत रुधिर अरु भैंसा
कीन्ह कपिन्ह तब जग्य विध्वंसा * जब न उठइ तब करहि प्रसंसा

वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ रुधिर व भैंसों को आहुति दे रहा है। तब वानरो ने यज्ञ-विध्वंस कर दिया। जब भी वह न उठा तब उसकी बहुत बड़ाई करने लगे। तदपिन उठइ धरेन्हि कच जाई * लातन्हि हति हति चले पराई
लै त्रिशूल धावा कपि भागे * आए जहँ रामानुज आगे

तो भी वह नहीं उठा, तब जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार २ कर वे भागने लगे। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, उसे देखकर बानर भागे और लक्ष्मणजी के आगे जा खड़े हुए। आवा परम क्रोध कर मारा * गर्ज घोर रवि बारहिं बारा
कोपि पवनसुत अंगद धाए * हति त्रिशूल उर धरनि गिराए

बड़े क्रोध का मारा मेघनाद वहाँ पर आया और बारम्बार गर्जना कर घोर शब्द-करने लगा। तब क्रोधित हो हनुमान व अंगद दौड़े। छाती में त्रिशूल मारकर उसने पृथ्वी पर गिरा दिया। प्रभु कहँ छाँड़ेसि शूल प्रचण्डा * सर हति कृत अनन्त जुग खण्डा
उठि बहोरि मारुति जुवराजा * हतहिं कोपि तेहि घाउ न बाजा

फिर उसने लक्ष्मणजी पर पैना त्रिशूल छोड़ा। श्रीलक्ष्मणजी ने वाण से काटकर उसके दो खण्ड कर दिये। फिर हनुमानजी और अंगदजी क्रोध कर उसे मारने लगे, परन्तु उसके चोट नहीं लगती।

फिरे वीर रिपु मरइ न मारा * तब धावा करि घोर चिकारा
आवत देखि क्रुद्ध जानु काला * लछिमन छाँड़े विसिख कराला

तब वीर लोट पड़े, क्योंकि शत्रु मारने से नहीं मरता। तब वह भारी शब्द करता हुआ दौड़ा, उस क्रोधवन्त को कालके समान आता हुआ देखकर लक्ष्मणजी ने तीव्र वाण छोड़े। देखेसि आवत पवि सम बाना * तुरत भयउ खल अन्तर धाना
विविध वेष धरि करइ लराई * कबहुँक प्रगट कबहुँ दुरी जाई

उन वज्र के समान वाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरन्त अन्तर्धान हो गया और भांति २ के वेष बनाकर युद्ध करने लगा। वह कभी तो प्रगट हो जाता और कभी छिप जाता देखि अजय रिपु डरपे कीसा * परम क्रुद्ध तब भयउ अहीसा
लछिमन मन यह मन्त्र दृढ़ावा * एहि पापिहि मैं बहुत खेलावा

शत्रु को पराजित हुआ न देखकर बानर डरे तब लक्ष्मणजी बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि इस पापी को मैंने बहुत खिला लिया।

सुमरि कोसलाधीश प्रतापा * सर सन्धान कीन्ह करि दापा
छोड़ा बान माँझ उर लागा * मरती बार कपटु सब त्यागा

कौशलपति श्रीरामजी के प्रताप को स्मरण कर लक्ष्मणजी ने वाण चढ़ाया। वाण छूटते

देवताओं के वंदी, मनुष्य-नदी योद्धा-दुमुंछ, अतिकाय, यरुम्न और महोरर वारि
रणधीर वीर समर में मारे गये ।

दोहा—सुनि दसकन्ध वचन तव, कुम्भकरण विलखान ।

जगदम्बा हरि आनि अब, सठ चाहत कल्याण ॥७४॥

रावण के वचन सुनकर कुम्भकरण विलख कर बोला—हे मूछ ! जगदम्बा सीताजी को
हरकर अब अपना नला चाहता है ।

भल न कीन्ह तैं निसिचर नाहा ✽ अब मोहि आव जगाएहि काहा
अजहूँ तात त्यागि अभिमाना ✽ भजहु राम होइहि कल्याणा
हे राक्षसराज ! तूने नला नहीं किया, अब आकर मुझे क्यों जगाया ? हे भाई ! अब
मैं भी धमण्ड त्यागकर धीरामजी को भजो, तो नला होगा ।

हैं दससीस मनुज रघुनायक ✽ जाके हनुमान से सायक
अहह वन्धु तैं कीन्ह खोटाई ✽ प्रथमहि मोहि न जगाएसि आई
हे रावण ! क्या वे रामजी मनुष्य हैं, जिनके हनुमानजी सरोखे सेवक हैं ? हा भाई !
तूने यह बुरा किया, जो पहले से आकर मुझे नहीं जगाया ।

कीन्हेहु प्रभु विरोध तेहि देवक ✽ सिव विरञ्चि सुर जाके सेवक
नारद मुनि मोहि ग्यान जो कहा ✽ कहतेउँ तोहि समय निरवहा
तुमने उस परम देवता से वंद किया है, जिनके शिव, ब्रह्मादि देवता सेवक हैं । नारद
मुनि ने जो ज्ञान मुझसे कहा था, वह तुमसे कहता, परन्तु अब तो समय हो जाता रहा ।
अब भरि अंक भेंदु मोहि भाई ✽ लोचन सफल करौ मैं जाई
श्याम गात सरसीरुह लोचन ✽ देखौं जाइ ताप त्रय मोचन

हे भाई ! अब मुझसे गोद भरकर मिल लो, जिससे मैं जाकर अपने नेत्रों को तरुन करूँ।
श्याम शरीर, कमल-नयन, तीनों तापों से छुड़ाने वाले धीरामजी के आकर दर्शन करूँ ।

दोहा—राम रूप गुन सुमिरत, मगन भयउ छन एक ।

रावन मांगेउ कोटि घट, मद अरु महिष अनेक ॥७५॥

धीरामजी के रूप और गुणों को मन में स्मरण करके वह एक क्षण के लिए मन में
मग्न हो गया, फिर रावण से अनेक घड़े मदिरा और भंसे मांगे ।

महिष खाइ करि मदिरा पाना ✽ गर्जा वज्राघात समाना
कुम्भकरन दुर्मद रन रङ्गा ✽ चला दुर्ग तजि सेन न सङ्गा

भंसे उाकर व मदिरा पीकर वह बच्च के समान गरजा । फिर मद-मत्त और लड़ाई के
रङ्ग में रंगा हुआ कुम्भकरण गड़ छोड़कर अकेला हो चला, साथ में सेना भी नहीं ली ।

देखि विभीषनु आगे आयउ ✽ परेउ धरनि निज नाम सुनाउ

करती व अनेक प्रकार से विनय करके पूजती थी। उसका सुख व आनन्द कौन कह सकता है ?
तहँ पति भुजा परी एहि भाँती * मनहुँ सकल दुख तरु की काँती
वहाँ उसके पति की भुजा गिरी, मानो सुखों के वृक्ष की कान्ति हो।

दोहा-तब निज दासिन देखि तहँ, शोणित सब भुजदण्ड।

भयउ समर आश्चर्यमय, मानहुँ खण्ड अखण्ड ॥ १ ॥

तब उसकी दासियों ने रक्त चुचाती हुई भुजा को देखा और बोलीं-आश्चर्यमय समर हुआ है, जिससे अखण्ड का खण्ड हुआ दीखता है।

सुनि कर सकल सखी सुख बैना * तजि सिंहासन उठी सुनैना
प्रेम सुभाय धुकधुके धरकी * सूचक अशुभ दहिन भुज फरकी

सब सखियों के मुख से यह वचन सुन सुलोचना सिंहासन छोड़कर उठ बैठी। प्रेम के कारण उसकी धुकधुकी धड़कने लगी और अशुभ-सूचक दाहिनी भुजा फड़कने लगी।

होत महारण रावन रामहि * वीर धुरीण मोर पिय ता महि

सकल सुरासुर सकहिं न जूझी * विधि बामता परम नहि बूझी

रावण और श्रीरामजी में महायुद्ध हो रहा है, मेरे वीर-शिरोमणि स्वामी भी उसी में हैं। यद्यपि समस्त सुर-असुर उनसे लड़ नहीं सकते तो भी विपरीत विधाता की गति जानी नहीं जाती।

इतना कहत गई चलि आपू * पतिभुज लगिकर कोटि विलापू
कंकण मणिगण भूषण सोई * महा विटप सम आन न होई

इतना कहकर वह आप स्वयं भी चली आई और पति की भुजा देखकर करोड़ों विलाप करने लगी। कंकण और मणियों से जड़ित महावृक्ष के समान यह दूसरे की भुजा नहीं है।

देखत मनहिं न आवत तेही * तासु प्रभाव सुना पहिले ही
नोंद नारि भोजन परिहरई * बारह वर्ष तासु कर मरई

परन्तु देखकर भी उसके मन में विश्वास नहीं होता, क्योंकि वह उसके प्रभाव को जानती थी। जो नोंद, स्त्री, भोजन को बारह वर्ष तक छोड़ देगा, उसी के हाथ से मेघनाद मरेगा।

दोहा-करि विचार मन टेक दै, मैं पतिदेवत नारि।

भुज लिखि मेटेहु दुचितइ, सुनि कर दीन्ह पसारि ॥ २ ॥

तब विचारकर मन में यह दृढ़ विश्वास किया कि यदि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ तो यह भुजा लिखकर मेरी द्विविधा मिटा देगी ! यह सुनकर भुजा ने हाथ फेला दिया।

लिखि रुख तासु सखी उठि धाई * सो तेहि खोजि खरी लै आई
दीन्ह हाथ मणिमय अँगनाई * लिखी लषण कीरति रुचिराई

उसका रुख देखकर एक सखी उठ दौड़ी और दौड़कर खड़िया ले आई। खड़िया हाथ में दे दी, तब वह भुजा मणि-जड़ित और आंगन में लक्ष्मणजी की सुन्दर कीर्ति लिखने लगी--

तब हनुमानजी ने उसको छातो में एक घूसा मारा, जिससे यह ब्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और तिर धुनने लगा। फिर उसने उठकर हनुमानजी को मारा, जिससे वे चकरा कर पृथ्वी पर गिर पड़े।

पुनि नल नीलहिं अवनि पछारेसि * जहंतहंहटकि पटकि भट डारेसि

चली बलीमुख सेन पराई * अति भय त्रसित नकोउ समुहाई

फिर उसने नल-नील को पछाड़ा और जहां-तहां पटक कर बोरों को मारा। वानरों को सेना नाग चली, मारे डर के कोई सामने नहीं आता।

दोहा-अङ्गदादि कपि मुरछित, करि समेत सुग्रीव।

काँख दावि कपिराज कहूँ, चला अमित बलसीव ॥७७॥

अङ्गदादि वानरों को सुग्रीव सहित मूछित कर, सुग्रीव को बगल में बसाकर अपार बल की सीमा कुम्भकरण तोट चला।

उमा करत रघुपति नर लीला * खेल गरुड़ जिमि अहिगन मीला

भृकुटि भंग जो कालहिं खाई * ताहि कि सोहइ एसि लराई

(शिवजी कहते हैं-) हे पावती! श्रीरामजी नर-लीला कर रहे हैं, जैसे साँवों के समूह में मिलकर गरुड़जी खिलवाड़ करते हों। जो मोह को चढ़ाने मात्र से काल की पा जाता है, उसे क्या ऐसी लड़ाई शोभा देती है?

जग पावनि कीरति विस्तरिहहिं * गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहहिं

मुरछा गइ मारुतसुत जागा * सुग्रीवहि तव खोजन लागा

प्रभु संसार को पवित्र करने वाली कीर्ति को फैलाते हैं, जिसे गा-गाकर मनुष्य भयसागर से पार हो जायेंगे। जब हनुमानजी की मूर्छा दूर हो गई, तो वे सुग्रीव को ढूँढ़ने लगे।

सुग्रीवहु कै मुरछा वीती * निकलु गयउ तेहि मृतक प्रतीती

काटेसि दसन नासिका काना * गरजि अकाश चले तेहि आना

सुग्रीव की मूर्छा दूर हुई तब वे बगल से निकल आये। कुम्भकरण ने उनको मरा जाना, कुम्भकरण के नाक-कान वाँतों से काटकर सुग्रीव आकाश में उछले, तब कुम्भकरण ने जाना।

गहेउ चरन गहि भूमि पछारा * अति लाघवं उठि पुनि तेहि मारा

पुनि आयउ प्रभु पहि बलवाना * जयति जयति जय कृपानिधाना

उसने पैर पकड़ सुग्रीव को भूमि पर पछाड़ दिया, तब बहुत जल्दी उठकर सुग्रीव ने उसे मारा। तत्पश्चात् प्रभु के पास बचवान सुग्रीव आकर बोले-हे कृपानिधान! आपको बच हो।

नाक कान काटे जिये जानी * फिर क्रोध करि मन महूँ ग्लानी

सहज भोम पुनि विनु श्रुतिनासा * देवात कपिदल उपजी त्रासा

नाक-कान काटे गये, यह जानकर वह क्रोध करके फिर लौटा, परंतु उसके मन में ग्लानि हुई। एक तो यह बंसे ही भयंकर था, दूसरे बिना नाक-कान का और भी हो गया। वानरों की सेना में यह देखकर बड़ा मय उत्पन्न हुआ।

शोक रूपी नदी में डूब गई, शरीर की सुधि न रही, दारुण विपत्ति किससे कहे ?

छनत प्रबोध सखी कोउ करई * बहुरि शोक दावानल जरई
छन छन उठत परत धरनी तल * पुनि रोवहि सराहि पतिकरबल

थोड़ी देर को कोई सखी सांत्वना देती है, परन्तु फिर वह शोक की आग में जलने लगती है। क्षण २ में पृथ्वी पर गिरती है, फिर पति का बल बखान कर रोती है।

दोहा—तिन्ह में सखी सयानि इक, कहि समुझाई बैन।

सोक छाँड़ि पति देवता, सुमति करौ मति ऐन ॥ ४ ॥

उनमें से एक चतुर सखी ने समझाकर यह बात कही—हे पतिव्रते ! शोक छोड़ दो और उचित कार्य करो, क्योंकि तुम तो बुद्धिमती हो।

मुनि कह सहसानन तिय जाता * सत्य कहत तुम सखी सुमाता
विधि निर्मित मो कहूँ दुख दाहू * सुख भरि पूर भवन सब काहू

यह सुनकर नाग-कन्या बोली—हे अच्छी माता सखी ! तुम सत्य कहती हो। विधाता ने ही मुझे यह दुख दिया है अयन्या मेरा घर सब सुखों और वस्तुओं से भरपूर है।

इतना कह मन्दिर तहँ जाई * देखत मनि गन धन बहुताई
देखत विभव न मन अनुरागा * पति पद प्रेम निपुन मन पागा

इतना कहकर वह भवन में आई और बहुत-सी मणियां व धन के ढेर देखे। वह वैभव देखकर भी उसका मन नहीं लुभाया और उसका चतुर मन पति के चरणों में ही लगा।

मनिमय शिविका रचेउ सुहाई * भुज चढाई पहिराय बनाई
आपनि चढ़त भई पुनि आई * सुर दुर्लभ सुख सदन विहाई

सुन्दर मणि-जटित पालकी बनाई, उस पर भुजा को सजाकर चढ़ाया फिर आप भी उस पर जा चढ़ी और देवताओं को भी दुर्लभ, सुखदायक भवन त्याग दिया।

प्रजा लोग गृह तजि सँग लागे * प्रेम उमँगि लोचन जल पागे
देखि जुहार नाग पति कन्या * सती सिरोमनि त्रिभुवन धन्या

प्रजा-जन भी घर त्यागकर साथ हो लिये। प्रेम के मारे नेत्रों में जल भर आया, तीनों लोकों में वन्य सतियों में शिरोमणि, नागराज की कन्या को देखकर सबने जुहार की।

दोहा—द्वारपाल दसकन्ध कहँ, खबरि जनाई जाल।

भयउ रजायसु बेगि तब, करुना वचन सुनाय ॥ ५ ॥

द्वारपाल ने जाकर रावण को खबर दी, तब रावण को आज्ञा हुई कि शीघ्र बुलालाओ। तब सुनकर वहाँ आकर दुःख भरे वचन बोली—

तुमहि अछत असि दसा हमारी * सुख तजि भइ सोक अधिकारी
नभ मगहोइ भुज मम गृह परी * वाण बिद्ध शोणित तनु भरी

सत्य-प्रतिज्ञ प्रभु ने एक लाष बाण छोड़े, वे ऐसे चले मानो पंच बाले ताँप चले हों।
जहाँ-तहाँ बाण समूह चले, जिससे भयंकर राक्षस योद्धा फटने लगे।

कटहिं चरन उरसिर भुज दण्डा * बहुतक वीर होहिं सत खण्डा
धूमि धूमि धायल महिं परहों * उठि सँभारि सुभट पुनि लरहों

उनके पैर, सिर, हृदय, भुजायें फटने लगे। बहुत से वीरों के सौ-सौ टुकड़े होने लगे। धायल राक्षस चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिरते हैं। अच्छे योद्धा संमलकर उठते और फिर लड़ते हैं।

लागतवान जलद जिमि गाजहिं * बहुतक देखि कठिन सर भाजहिं
रुण्ड प्रचण्ड मुण्ड विनु धावहिं * धरु धरु मारु मारु धुन गावहिं

बाण लगते ही वे मेघ के समान गजंते हैं, बहुत से कठिन बाणोंको देखकर भाग जाते हैं। बहुत से वीरों के प्रचंड रुण्ड विना सिरके बीड़ते हैं और पकड़ो, पकड़ो मारो-मारो चिल्लाते हैं।

दोहा—छन महँ प्रभु के सायकन्हि, काटे विकट पिशाच।

पुनि रघुवीर निषंग महँ, प्रविसे सव नाराच ॥ ८० ॥

क्षण भर में प्रभुके बाणों ने भयंकर राक्षसोंको फाट डाला। फिर रघुनाथजी के तक्षक में सव बाण आकर घुस गये।

कुम्भकरण मन दीख विचारी * हति छन मांझ निसाचर शारी
भा अति क्रुद्ध महा बलवीरा * कियो मृगनायक शब्द गँभीरा

कुम्भकरण ने मन में विचार करके देखा कि क्षणभर में ही धीरामजी नेसव राक्षस मार डाले, तब यह महाबली योद्धा बहुत क्रोधित हुआ और उसने सिंहके समान गम्भीर शब्द किया।

कोपि महीधर लेइ उपारी * डारइ जहँ मर्कट भट भारी
आवत देखि सैल प्रभु भारे * सरन्हि काटि रज सम कर डारे

फिर कोप करके पर्वतों को उखाड़कर उन्हें जहाँ भारी योद्धा होते हैं, वहाँ डाल देता है। उनको आते देखकर प्रभु बाणों से फाट २ कर उन्हें घूल के समान डाल देते हैं।

पुनि धनुतानि कोपि रघुनायक * छाँड़े अति कराल बहु सायक
तनुमहँ प्रवसि निसरि सर जाहीं * जिमि दामिनि घन मांझ समाहीं

फिर क्रोध करके धनुष खींच कर धीरघुनाथजी ने बहुत से कठोर बाण छोड़े। ये बाण कुम्भकरण के शरीर में घुसकर ऐसे पार होजाते हैं, जैसे विजली मेघों में समा जाती है।

सोनित खवत सोह तनु कारे * जनु कज्जल गिरि गेरु पनारे
विकल विलोकि भालुकपि धाये * विहँसा जबहिं निकट कपि आए

उसके काले शरीर से लोह बहता हुआ ऐसा सोहता है, मानो काबल के पहाड़से गेरु के पनाले बहरहे हैं। उसे विकल देख रोछ-वानर बीड़े, ये ज्योंही निकट आये, त्योंही यह हुआ।

दोहा—महानाद करि गर्जा, कोटि कोटि गहि कीस

और विलम्ब करो, फिर मेरे भयङ्कर युद्ध को देखना ।

आनि सीस तव शत्रुन केरा * विनु प्रयास नहि लागहिं बेरा
भोगत जन्तु पुराकृत भोगा * नतु कसनि सचर बनचर जोगा

तुम्हारे शत्रुओं के शीश मैं बिना परिश्रम के ही ले आऊँगा, देर नहीं करूँगा । जीव पूर्व जन्मों के कर्मों को भोगता है, नहीं तो वानरों और निसाचरों का क्या संयोग है ।

दोहा—मेरु उखारन हार जे, धरी धरनि कर बीच ।

ते भट खाए मशक सिसु, काल कुटिलता नीच ॥ ७ ॥

जो सुमेरु पर्वत को उखाड़ने वाले और हाथ के बीच पृथ्वी को धारण करने वाले राक्षस थे, उन्हें मच्छरों के समान वानरों ने खा लिया । यह नीच काल की कुटिलता है ।

क्रोधावेश घोर रव बोलहिं * हृदय सोक तरु अचल न डोलहिं
सभाधान नहिं मानत सोइ * सुनि प्रताप परितोष न होई

सुलोचना क्रोधावेश में विचारकर बोली—उसके हृदय में शोक है और मन स्थिर है । वह रावण के समझाने को नहीं मानती और उसे उसके बल का बखान सुनकर सन्तोष नहीं होता ।

नर वानर पुरुषारथ देखात * बड़ौ प्रभाव छोट करि लेखात
लाँघ सिन्धु कपि लंका जारी * लघु करि मानत ताहि सुरारी

मनुष्यों और वानरों का भारी बल देखकर भी आप छोटा करके मानते हैं । हे देव-शत्रु रावण ! समुद्र को लाँघकर जिस वानर ने लङ्का जलादी, उसे भी आप छोटा करके मानते हैं ।

कुम्भकरन अतिकाय महोदर * मम पति गिरेउ समेत सहोदर
ते रिपु चहत दसानन जीती * देखहु महा मोह कै रीती

कुम्भकरण, अतिकाय, महोदर और माइयों सहित मेरे पति जिनसे युद्ध करके मारे गये उन्हें आप जीतना चाहते हैं । अहा ! महा अज्ञान की रीति को देखो ।

उतर देउँ तौ पातक होई * अब विवाद करि सर्वस खोई
फिरहि राज्य कछु मोहिन काजू * विनु पिय सकल नरक कर राजू

आपको उत्तर हूँ तो पाप होगा, फिर सर्वस्व खोकर विवाद करने से क्या लाभ? राज्य लौटाने से भी मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि बिना पति के सब नरक के समान है ।

दोहा—तुरतहि उठि सुलोचना, गई मयतनया पास ।

पद गहि रोवत सकल कहि, प्रकट सोक इतिहास ॥ ८ ॥

सुलोचना तुरन्त उठी और मन्दोदरी के पास आई । शोक की समस्त कथा को कहकर उसके पैर पकड़कर रोने लगी ।

आदिहि ते सब कथा बखानी * सुनि सुनि रोवत रावन रानी
कह निजपति भुज लिखनि बहोरि * राम लखन महिमा नहिं थोरी

सभय देव करुणानिधि जान्यो * श्रवण प्रयत्न सरासनु तान्यो
विसिखनिकरिनिसिचरमुखभरेड * तदपि महाबलि भूमि न परेड

करुणानिधान प्रभु ने देवताओं को नयनीत जाना । तब फान तब धनुष घोंघरर गानों से राक्षस का मुँह भर दिया, तो नो वह महाबली भूमि पर नहीं गिरा ।

सरन्हि भरा मुख सम्मुख धावा * काल त्रोन सजीव जनु आवा
तव प्रभु कोपि तीव्र सर लीन्हा * धर ते भिन्न तासु सिर कोन्हा

वाणों से भरे मुख से वह सामने वीडा, मानो फालरूपी तर्कत शरीर धारण करके आवा हो । तब प्रभु ने कोप कर पना वाण लिया और उसका सिर धड़ से जलग कर दिया ।

सो सिर परेड दसानन आगे * विकलभयउजिमिफनिमनित्यागें
धरनि धसइ धर धाव प्रचण्डा * तव प्रभु काटि कोन्हा दुइ खण्डा

वह सिर रावण के आगे जा गिरा । उसे देउ रावण ऐसा व्याकुल हुआ, जैसे मणि छो जाने से साँप । कुम्भकरण का घड़ वीडा, जिससे पृथ्वी घसकने लगी । तब उसे काटकर प्रभु ने उसके दो टुकड़े कर दिये ।

परे भूमि जिमि नभ तें भूधर * हेठ दावि कपि भालुं निसाचर
तासु तेज प्रभु वदन समाना * सुर मुनि सवहि अचम्भा माना

वे दोनों छण्ड अपने नीचे बानर, रीछ और निसाचरों को दवाते हुए भूमि पर ऐसे पड़े, मानो आकाश से दो पहाड़ गिरे हों । कुम्भकरण का तेज प्रभु के मुख में समा गया, यह देख देवता, मुनि आदि सबने अचम्भा माना ।

सुर दुन्दुभी वजावहिं हरषहिं * अस्तुति करहिं सुमनवहु वरपहिं
करि विनती सुर सकल सिधाए * तेही समय देवरिपि आए

देवतागण आकाश में नगाड़े बजाने, प्रसन्न होने तथा स्तुति करते हुए पूल बरसाने लगे । जब विनती करके सब देवता चले गये, तब देवपि नारवजी आये ।

गगनोपरि हरि गुन गन गाए * रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए
वेगि हतहु खल कहि मुनि गए * राम समर महि सोभित भए

श्रीहरि के सुन्दर वीररस युक्त गुण समूह आकाश पर से ही नारवजी ने गाये, जो प्रभु के मन को बहुत भाये । दुष्ट रावण को जल्दी मारिये, यह कहकर मुनि चले गये और श्रीरामजी समर-भूमि में सुशोभित हुए ।

छन्द-संग्राम भूमि विराज रघुवर अतुलवल कोसल धनी ।
श्रम विन्दु मुखा राजीव लोचन अरुन तन सोनित कनी ॥

भुज जुगल फेरत सर सरासन भालु कपि चहुं दिसि वने ।
कह दास तुलसी कहि न सक छवि सेप जेहि आनन छने ॥

मैंने भी ऋषि की कही हुई कथा कही है, अब देर मत लगाओ ।

सुनत सासु मुख ते हित बानी * जाहूँ राम पहिँ अस जियँ जानी
बार बार चरनन्ह सिर नाई * चली जहाँ लक्ष्मण रघुराई

सासु के मुख से हित की बात सुनकर सुलोचना ने विचारा कि मैं श्रीरामजी के पास जाऊँ । बारम्बार मन्दोदरी के चरणों में सिर नवाकर वह श्रीराम-लक्ष्मणजी के पास चली ।

देखा कटक भालु कपि केरा * सिन्धु सुबेल महीधर घेरा
उमंगेउ मनहुँ महोदधि दूसर * हरित पीत कपि धूसर भूसर

उसने रीछ-वानरों की सेना को देखा कि बहु समुद्र और सुबेल-पर्वत को ऐसे घेरे हुए हैं, मानो दूसरा समुद्र उमड़ आया हो । सेना में हरे, पीले, धूसर और भूरे बानर हैं ।

पैठत कटक अतिहि सकुचाई * नव नारी जनु पर घर आई
आगे जाइ देखि रघुबीरा * छविमत श्यामल गौर सरीरा

वह सेना में घुसते हुए अत्यन्त सकुचाती है मानो नई स्त्री दूसरे घर आई हो । उसने आगे जाकर शोभायुक्त, श्याम और गौर वर्ण वाले श्रीराम-लक्ष्मणजी को देखा ।

सभा मध्य सोहत अघ मोचन * कीन्हेउसफल निरखिनिजलोचन
करत दण्डवत सिर धरि धरणी * तिहिकर चरित विभीषणवरणी

पापों के नाशक श्री रामजी सभा में शोभित हैं, उन्हें देखकर अपने नेत्र सफल किये । वह पृथ्वी पर मस्तक रखकर प्रणाम कर रही थी, तब उसका चरित्र विभीषण ने कहा कि—

पुत्रबधू दसकन्धर केरी * बड़ि पतिव्रता जाकि प्रभु हेरी
मेघनाद की नारि सुशीला * अस गति तव विरोध प्रणशीला

यह रावण की पतोहू है । बड़ी पतिव्रता जानकर उसे प्रभु ने देखा—यह मेघनाद की सुशील स्त्री है । हे प्रणतपाल श्रीरामजी ! आपके विरोध के कारण इसकी यह दशा हुई है ।

करत प्रनाम प्रेम नहिँ थोरे * करुणा बचन कहत कर जोरे
सुलोचना बड़े प्रेम से प्रणाम कर रही है, वह हाथ जोड़कर करुण वचन बोली—

दोहा—मृतकजानि हति भुजहिँ तब, लिखि समुझाई मोहि ।

महाराज रघुवंश मनि, माँगन आइ कछु तोहि ॥१०॥

जब मैंने पति को मृतक जाना तो उसकी भुजा ने मुझे आपकी सारी महिमा लिखकर समझायी । हे रघुवंश-मणि श्रीरामजी ! मैं आपसे कुछ माँगने आई हूँ ।

छन्द—परसे चरन कर प्रेम पूरन प्रनतपाल खरारि के ।

जेहि भजत शंकर सेष सुर मुनि धरनि भंजन भार के ॥

प्रभु जानि सो विनती सुलोचनि कहत करि विनती घनी ।

जय सोक हरन कृपालु जय जयति जय रघुकुल मनी ॥

गर्जेउ अट्टहास करि, भइ कपि कटकहि त्रास ॥ ८१ ॥

मेंघनाद नागामय रथ पर चढ़कर आकाश में गया धीर अट्टहास करके गर्जा, त्रिस्तो बानरों की सेना में नय उत्पन्न हुआ ।

सकित सूल तरवारि कृपाना * अस्त्र शस्त्र कुलिसायुध नाना
डारइ परसु परिघ पाषाणा * लागेउ वृष्टि करै बहु नाना

वह शक्ति, शूल, बाण, तलवार आदि अस्त्र-शस्त्र और फरसा आदि हथियार घसाने तथा बन्द, पारिघ और पत्थर डालने लगा एवं बहुत से बाणों को वर्षा करने लगा ।

दस दिसि रहे वान नभ छाई * मानहुँ मघा मेघ झरि लाई
धरु धरु मारु सुनिअ धुनि काना * जो मारइ तेहि कोउ न जाना

दसों दिशाओं में बाण छागए, मानो मघा नक्षत्र में मेघों ने झड़ो लगादी हो । पकड़ो-पकड़ो 'मारो-मारो यह शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मरता है, उससे कोई नहीं जान पाता ।

गहिंगिरितरु अकासकपि धारवाहि * देखाहि तेहि न दुखित फिरि आवहि
अवघट घाट वाट गिरि कन्दर * माया बल कीन्हेसि सरपिजर

पहाड़ और वृक्ष लेकर बानर आकाश में डीङ्ग आते हैं, परन्तु उसमें न देखकर दुःखी हो लौट आते हैं । दुर्गम घाटों, रास्ते और फनवराओं को माया के बल से भेषनाद ने बानों के पिंजड़े बना दिये ।

जाहि कहाँ व्याकुल भए वन्दर * सुरपति वन्दि परे जनु मन्दर
मारुतसुत अंगद नल नीला * कीन्हेसि विकल आदि बलसोला

बानर घबड़ा गये कि कहाँ जायें ? वे ऐसे व्याकुल हुए मानो पर्वत इन्द्र की कंब में पड़े हों । हनुमानजी, अंगद, नल, नील आदि सब बलवानों को भेषनाद ने व्याकुल कर दिया ।

पुनि लछिमन सुग्रीव विभीषन * सरन्हि मारि कीन्हेसि जर्जर तन
पुनि रघुपति सन जूझन लागा * सर छाँड़इ होइ लागहि तागा

फिर लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण के शरीर उसने बानों के मारे जर्जर कर दिये फिर धीरघुनायजी से लड़ने लगा । उसके बाण साँप बनकर लगते हैं ।

व्याल पास बस भए खरारी * स्ववस अनन्त एक अधिकारी
नट इव कपट चरित कर नाना * सदा स्वतन्त्र एक भगवाना

रन शोभा लागि प्रभुहि बंधायौ * नागपास देवन्ह भय पायो

जो स्वतन्त्र, अनन्त, अद्वितीय और विकार रहित हैं, वे उसी धीरामजी नागपास के बराबरी हो गये । धीरामजी सदैव स्वतन्त्र भगवान हैं, वे नट को प्राप्ति अनेक गेत करते हैं । रण की शोभा के लिए प्रभु बंध गये, परन्तु उससे देवता बहुत डर गये ।

दोहा-गिरिजा जासु नाम जपि, मुनि काटहि भवपास ।
सो कि बन्ध तर आवइ, व्यापक चित्स्व निवास ॥ ८२ ॥

सत्य-प्रतिज्ञ प्रभु की दानी मुक्तकर बातों ने मन में बड़ा भय होता । वे प्रभु का खूब
 देवकर कुछ कह नहीं सकते, (विचार करते हैं कि) देवें दिव्याता क्या कौतुक करता है ?
 सब देवहू कर सोच न जाई * जौ करि कृपा राम इहि ज्याई
 यदि श्रीरामजी हुआ करते हरे जिला को तो सब देवताओं का सोच नहीं जायगा ।

बोहा-राज्य विभीषण लंक कर, केहि विधि करिहि जाय ।
 ससुद्धि वैर धनदाइ जग, गहहि सरसन थाव ॥१२॥

विभीषण जाकर लंका का राज्य किस विधि में करे ? जब कि वैर को स्मरण कर
 भयदाइ प्रभु लेकर सींसा ?

प्रभु लख देखि कपिहू नय माना * प्रसन्नपाल भगवन्त सुजाना
 देखि बहुत रघुवर कर छोहू * विनय करत हसकथ पतोहू

प्रभु की हुसाली मुझ की देवकर बातों ने भय माना, क्योंकि सुजान भगवान् राम-
 राव के रसकहैं । श्रीरामायणी की कथनत क्या देवकर रामजी पुत्र-वधू सुजोचना विनय
 करते लगे—

तुम उदार सब दैवे लायक * कश्तामय देखे रघुनायक
 हमहुं विचारि दीख मन माहीं * जीवन ते अस मन ससाहीं

हे श्रीरामायणी ! तू उदार और सब कुछ देने में समर्थ है, मैंने आपको क्यातिदान
 देखा है । मैंने भी मन में विचार कर देखा किया है कि ऐसे जीने से मरना मरना है ।

भुजबल जीति लोक बस कोहे * चौदह भुवन भोग करि लीन्हे
 रण तीरथ याचक बड़ चीन्हा * प्राण सुधन लक्ष्मण कहै दीन्हा

सुजाओं के बल से जीतकर सब लोकों को बस में कर लिया और चौदह भुवनों के सुख
 भोगकर सुदुहरी तीर्थ में महान् याचक लक्ष्मणजी को पहिचान कर प्राणहारी उत्तम धन
 दे दिया ।

अब न उचित पति है उपकारा * तेहि पर अधिकतो बरसु तुम्हारा
 हमहुं जाय नरबसत साथी * लिखवतुनहि जस मिलत समाधी

अब यह उचित नहीं कि पुरस्कार में पति को देर रहे, क्योंकि सबसे अधिक लाभ तो
 आपका वर्तन ही है । मैं भी जाकर अब प्रसन्न-भावन करके नहीं आऊँ और आरसे उसी प्रकार
 मिलूँगी, जिस प्रकार योगीजन मिलते हैं ।

बोहा-निर्मल पति अवतर लखड, सुनहु नरय रघुवीर ।
 तुमहि मिलत नहि होय अब, यथासिधु गत नीर ॥१३॥

हे रामायणी ! यह सत्य सुनिधे कि सोम का समय प्राप्त हुआ है । अब मैं मिलने से
 फिर वाप नहीं होता, जैसे समुद्र में गया हुआ जल नहीं लौटता ।

मन की जानहार सुदेवा * नव सागर तापहु यह खेवा

तुरत गयउ गिरिवर कन्दरा * करौ अजय मख आसक धरा
मेघनाद की मूर्छा दूर हुई, तब पिता को देखकर उसे बहुत सज्जा आई। यह तुरन्त
एक सुन्दर पर्वत की ओर में गया और मन में निश्चय किया कि यज्ञेय यज्ञ करूँगा।

इहाँ विभीषण मन्त्र विचारा * सुनहु नाथ बल अतुल उदारा
मेघनाद मखद करइ अपावन * खल मायावो देव सतावन

यहाँ विभीषण ने यह विचार किया और कहा—हे अतुलनीय बलशाली उदार प्रभो !
सुनिये—यह दुष्ट, मायावो, देवताओं को सताने वाला—मेघनाद अपवित्र-यज्ञ कर रहा है।
जौं प्रभु सिद्ध होइ सो पावहि * नाथ वेगिपुनि जोति न जावहि
सुनि रघुपति अतिसय सुखमाना * बोले अङ्गदादि कपि नाना

हे स्वामिन् ! जो यह सिद्ध होगया तो शत्रु शीघ्र ही नहीं जीता जा सकेगा। यह
सुनकर श्रीरघुनाथजी बहुत प्रसन्न हुए और अङ्गदादि अनेक यानरों को बुलाकर बोले—
लछिमन संग जाहु सब भाई * करहु विध्वंस जग्य कर जाई
तुम लछिमन मारेहु रन ओही * देखि समय सुर दुख अति मोहो

हे भाईयो ! लक्ष्मण के साथ जाओ और यज्ञ-विध्वंस करो। हे लक्ष्मण ! तुम रण में
उसे मार डालो, क्योंकि देवताओं की भयभीत देखकर मुझे बहुत दुःख होता है।
मारेउ तेहि बल बुद्धि उपाई * जेहिं छीजहि निसिचर सुनु भाई
जामवन्त सुग्रीव विभीषण * सेन समेत रहेहु तीनिउ जन

हे भाई ! सुनो, उसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना, जिससे राक्षस नष्ट हो जाय।
हे जामवन्त, सुग्रीव और विभीषण ! तुम तीनों सेना समेत साथ रहना।
जब रघुवीर दोन्ह अनुसासन * कटि निपंग कसि साज सरासन
प्रभु प्रताप उर धरि रनधोरा * बोले घन इव गिरा गंभीरा

जब रघुनाथजी ने आज्ञा दी, तब कर्मर में तर्कस कस और धनुष संनात कर, प्रभु के
प्रताप को हृदय में धारण कर, लक्ष्मणजी मेघ के समान गम्भीर वाणी बोले—
जौं तेहि आजु वधें विनु आवौं * तौ रघुपति सेवक न कहावौं
जो सत शंकर करहि सहाई * तशपि हतउ रघुवीर दोहाई

जो आज उसको बिना मारे जाऊँ तो धोरपुनाथजी का सेवक न कहाऊँ। शंकरों शंकर
भी यदि उसकी सहायता करें तो भी मेघनाद को मार डालूँगा, मुझे धोरपुनाथजी की सीमा है।
दोहा—रघुपति चरन नाइ सिर, चलेउ तुरन्त अनन्त।
अंगद नील मयन्द नल, संग सुमट हनुमन्त ॥५८॥

धोरपुनाथजी के चरणों में सिर नवाकर लक्ष्मणजी तुरन्त चले। अङ्गद, नील, मयन्द,
नल और हनुमान आदि बोर मोड़ा साथ में हैं।

सुनि तिय बचन हँसेउ तब सीसा * चाँके चकित भालु भट कीसा
हँसेउ ठठाय बदन सब देखा * विस्मय भयउ सकल जिहिलेखा

तव स्त्री के वचन सुनकर शीश हँस उठा, आश्चर्य चकित होकर रोठ-वानर योद्धा चौक पड़े।
सवने देखा कि सिर ठठाकर हँसा, जिसे देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। (सुलोचना की पिता को
सहायतार्थ बुलाने की बात पर सिर हँस पड़ा कि कहीं नागराज भी भगवान को जीत सकते हैं ?)

कुलिश समान सुना नहिं जाई * रहा सो बदन बहुरि अरगाई
सकुचि कपीशहि तोषेउ नारी * बड़ आश्चर्य भयो बनचारी

वज्र के समान वह शब्द सुना नहीं जाता। फिर वह चुप हो गया। सुग्रीव को बड़ा
सङ्कोच हुआ और उन्होंने उस रमणी की बहुत प्रशंसा की, वानरों को बड़ा आश्चर्य हुआ।
पूछत कपिपति पद सिर नाई * कारण कौन हँसा सिर साँई

प्रभु कह सुन सुग्रीव कपीसा * शीश हँसे कर सुनहु अहीसा
तव वानर-राज रामजी के चरणों में सिर नवाकर बोले—हे स्वामी ! सिर क्यों हँसा, सो
कहिये ? प्रभु ने कहा—हे कपिराज सुग्रीव ! हे लक्ष्मण ! शीश के हँसने का कारण सुनो—

मन क्रम बचन पतिहि सेवकाई * तिय हित इहि सम अस न उपाई
अस जिय जानि करइ पति सेवा * तिहि पर सानुकूल मुनि देवा

मन, कर्म, वचन से पति की सेवा करना, इसके समान स्त्री के हित के लिए दूसरा उपाय नहीं है।
यह मन में जानकर जो स्त्री पति की सेवा करती है, उस पर देवता और मुनि प्रसन्न रहते हैं।
यह सतवति अहिराज कुमारी * तेहि सत ते हँसि शीश सुरारी

सुनि प्रभुवचन कपिन सुखमाना * पुनि पुनि चरण गहेउ हनुमाना
यह नागराज की कन्या सत्यवती है, उसी के सत से देव-शत्रु मेघनाद का शीश हँसा है।
के वचन सुनकर वानरों ने सुख माना और हनुमान ने बारम्बार उनके चरण पकड़े।

नु गिरिजा अस प्रभु प्रभुताई * केवल भक्तिहि देत बड़ाई
जासु दृष्टि जग उपजत नासा * अस कौतुक कर केतिक आसा

(शिवजी कहते हैं-) हे पार्वती ! प्रभु की महिमा ऐसी है कि केवल भक्तों को ही बड़ाई
देते हैं। जिनके दृष्टिपात से संसार उत्पन्न व नष्ट हो जाता है, उनके लिए यह ऐसी कौन-सी
आश्चर्य की बात है ?

दोहा—शीश पाइ प्रभु चरन गहि, बहु विधि विनय सुनाय ।

आज के दिन रण परिहरहु, मम हित कौसलराय ॥१५॥
शीश को पाकर प्रभु के चरण पकड़ कर सुलोचना ने अनेक प्रकार से विनती की—हे
कौशलाराज ! आज के दिन मेरे लिए युद्ध को छोड़ दीजिये।

बहुरि विभीषण पगन परी सो * रघुपति चरन दिए मन पुनि सो
तुम पितु सम दसकन्दर भाई * इहि कुल की तोहि लाज बड़ाई

ही मेघनाद की छाती में लगा, तब मरते समय उसने सब कपट छोड़ दिया ।

दोहा—रामानुज कहँ राम कहँ, अस कहि छाँड़ेसि प्राण ।

धन्य धन्य तव जननी, कह अद्भुत हनुमान ॥८८॥

लक्ष्मण कहाँ हैं ? रामचन्द्रजी कहाँ हैं ? ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिये । अद्भुत और हनुमानजी कहने लगे—तेरो माता को धन्य है !

विनु प्रयास हनुमान उठायो * लंका द्वार राखि पुनि आयो
तासु मरन सुनि सुर गन्धर्वा * चढ़ि विमान आए पुनि सर्वा

विना परिश्रम के हनुमानजी ने मेघनाद को उठा लिया और लङ्का के द्वार पर रखकर लौट आये । मेघनाद का मरना सुनकर देवता, गन्धर्व विमानों पर चढ़कर आकाश में आये ।

वरषि सुमन दुन्दुभी वजावहि * श्रोरघुनाय विमल जस गावहि
जय अनन्त जय जगदाधारा * तुम्ह प्रभु सब देवन्हि निस्तारा

और फूल बरसाकर, नगाड़े बजाने तथा श्रोरघुनायजी का निमंत्रण यज्ञ गाने लगे । हे अनन्त ! हे जगदीश्वर ! आपकी जय हो । आपने सब देवताओं का उद्धार कर दिया ।

अस्तुति कर सुर सिद्ध सिधाए * लछिमन कृपासिधु पहि आए

स्तुति करके देवता और सिद्ध चले गये, तब लक्ष्मणजी—कृपासिन्धु धोरामचन्द्रजी के पास आये ।

☉ क्षेपक—सुलोचना सती की कथा ☉

धरेउ शीश आनि प्रभु आगे * वानर भालु विलोकन लागे
प्रभु कौतुक निरखि सोइ शीशा * राखन कहेउ कौशलाधीशा

मेघनाद का सिर धोरामजी के आगे लाकर रखवा, तब उसे वानर और रोछ देखने लगे । लीलामय प्रभु ने उस सिर को देखकर कहा—इसे यत्नपूर्वक रखो ।

अब सो सुनहु भुजा तेहि केरी * खग जिमि गइ लंकेश्वर प्रेरी
मेघनाद आँगन महँ परी * बाणविद्ध शोणित तनु भरी

अब वह कथा सुनो कि जिस प्रकार बाण से प्रेरित होकर उसकी मुजा पक्षी की तरह लङ्का में गई । वह बाण से विद्ध और रक्त से सनी हुई मेघनाद के आँगन में जा पड़ी ।

राजति तहाँ सुलोचनि वैसी * रति ते सुचित रूप गुण जैसो
नाग सुता दसकन्ध पतोहू * वासव रिपु तिय छविखनिजोहू

वहाँ रति से अधिक सुन्दर रूपय गुण वाली सुलोचना बंठी हुई सुशोभित थी । यह यामु को नाग की कन्या, रावण की पुत्र-वधू, मेघनाद की स्त्री थी, जो सुन्दरता की पान थी ।

हेम सिंहासन सोहित वाला * सेवक विद्याधर त्रय काला

पूजत विविध विनय करि ताही * सुख प्रसोद को सकत र

स्वर्ण-सिंहासन पर वह रमणी शोभित थी, तीनों-कालों में विद्याधरों की स्त्रियाँ उस

शिर भुज धरि बैठि करि आसन * भइ जनु जोग सिद्धि कर बासन

सब लोगों को प्रणाम करके सन्तुष्ट किया, सबने यह कह उसकी बुद्धि की पुष्टि की कि धोरज धरो । तब शीश और भुजा रखकर वह आसन लगाकर बैठ गई, मानो योग के सिद्ध होने की पात्र हो गई हो ।

दोहा-देत अनल ज्वाला बढी, लपट गगन लगि धाय ।

लखी न काहू जात तेहि, सुरपुर पहुँची जाय ॥१७॥

अग्नि देते ही ज्वाला की लपटें बढ़कर आकाश में जा लगीं, परन्तु उसको जाते किसी ने नहीं देखा । इस प्रकार सुलोचना स्वर्ग में जा पहुँची ।

❀ इति क्षेपक-सुलोचना-सती की कथा ❀

सुत बध सुना दसानन जबहीं * मुरछित भयउ परेउ महि तबहीं

रावण ने ज्योंही पुत्र का मरण सुना, त्योंही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा ।

मन्दोदरी रुदन कर भारी * उर ताड़त बहु भाँति पुकारी

नगर लोग सब व्याकुल सोचा * सकल कहहि दसकन्धर पोचा

मन्दोदरी बहुत रोकर छाती पीटती हुई बहुत प्रकार से पुकारकर विलाप करने लगी । तब नगर के सब लोग व्याकुल होगये, सभी रावण को नीच कहने लगे ।

दोहा-तब दसकण्ठ विविध विधि, समुझाई सब नारि ।

नश्वर रूप जगत सब, देखहु हृदयँ विचारि ॥६०॥

तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेक प्रकार से समझाया कि यह सब संसार नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो ।

तिन्हहिं ज्ञान उपदेशा रावन * आपन मन्द कथा शुभ पावन

पर उपदेश कुशल बहुतेरे * जे आचरहिं ते नर न घनेरे

रावण ने उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया । यह स्वयं तो कुबुद्धि है, परन्तु इसकी बातें शुभ और पवित्र हैं । दूसरों को उपदेश देने में बहुत से लोग चतुर होते हैं, परन्तु जो उपदेश के अनुसार चलें, ऐसे लोग बहुत नहीं होते ।

दण्ड चारि तब तहँ निसि बीती * सन्ध्या बन्दन कीन्ह सप्रीती

लागे करन ध्यान दससीसा * बहुरि हर्षि जोरेउ कर बीसा

तब वहाँ चार घड़ी रात बीत गई । उसने प्रेम पूर्वक संध्या-वन्दन किया और बीसों हाथों को जोड़कर (शिवजी) का ध्यान करने लगा ।

शिव सेवक मन क्रम अनुरागी * सुनु खगेस तेहि ते बडभागी

मन्त्राकर्षक जप दसभाला * अहिरावण चित डोल पताला

हे गुरु ! सुनो, वह शिवजी का मन तथा कर्म से सेवक है, अतः अत्यन्त भाग्यवान है ।

नीद नारि भोजन सत कोटो * तजत तासु महिमा अति छोटी
अछय अखंड अलख अविनासी * अकुल अमितघट घट के वासी
जो नींद, स्त्री और भोजन को तो फरोड़ बर्यं तरु त्याग दें तो भी उनको महिमा अप्यन्त
छोटी है। वे अक्षय, अखंड, अलख, अविनाशी, अप्रमेय और अन्तर्पामी हैं।

प्रकटाहि पालहि पुनि संहरहौं * त्रिगुण रूप त्रय मूरति धरहौं
जो कालहु कर काल भयंकर * वरनत सेप सारदा संकर
वे ही उत्पन्न करते, पालन करते और सहार करते हैं। वे ही त्रिगुण रूप से तीन मूर्ति
ब्रह्मा, विष्णु, महेश का रूप धारण करते हैं। जो काल के काल हैं, उन्हें सेप, घारवा और
शङ्कर भी बघानते हैं।

लीला तनु सुर सेवक हेतू * तासु नाम भवसागर सेतू
मुनि मन पुण्डरीक जाको घर * वचन विवेक विचारि बुद्धि वर
जो देवता और भक्तों के हेतु लीला-शरीर धारण करते हैं, जिनका नाम भवसागर का
सेतु है कमलरूपी मुनियों का हृदय ही जिनका घर है, जो ज्ञान, विचार और बुद्धि में धंग्रु है।

दोहा-कोटि कल्प वरनत निगम, अगम जासु गुन गाय।

तम सरीर जड़ जीव विनु, किमिवरनइ लिखि हाय ॥ ३ ॥

जिनके गुणोंकी कथा फरोड़ों कल्प तक वर्णन करके शास्त्रों में अगम्य है, उनके गुण यह
तामसी जड़ शरीर प्राण विना केवल हाय से लिखकर कैसे वर्णन कर सकता है।

मम सिर गयो दरस रघुराई * तव प्रतीति लगि भुजा पठाई
इहिविधिलिखेउ सकलभुज वाती * परी भूमि तव अति विकलाती
मेरा सिर तो रघुनाथजी के दर्शन को गया है और तेरे विश्वास के लिए भुजा भेजी है
इस प्रकार भुजा ने सब बातें लिखीं। तब यह अति व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़ी।

वाँचि सकलभुज लिखित यथारथ * लछिमन राम नाम परमारय
नारि स्वभाव तदपि बहु भाँती * विलपाँह मिलि सखियन की पाँती
भुजा द्वारा लिखी हुई धीराम-लक्ष्मणजी के नाम की यथायंता पड़कर जो यह स्त्रियों
के स्वाभाविक धर्म से अनेक सपियों के बीच विलाप करने लगी।

गुन गन साहस सोल नाह को * कहि रोवति बलधिपुलवाँह को
जेहि भुजबल सुरनाथ विगोवा * सो भुज आजु समर महि सोवा
वह अपने पति के गुण समूह, साहस, शील और विशेष बाहुबल का बघान करके रोने
लगी-हाय ! जिस भुजा के बल से इन्द्र भी भाग गया था, वही आज रघुनाथ में पड़ी है।

मनिगन भूषन वसन विसारति * महि लोटय करतल सिर मारति
मगन सोक सरि तनु सुधि नाहीं * दारुन विपति कहिअ केहि पात्रो
सुलोचना मणियों के समूह, पहने और वस्त्र उतारने लगी तथा हाथोंसे सिर पीटने लगी।

लै पाताल देविहि बलि दैहौं * जस पूरन निसिचर कुल लैहौं
लै जाऊँ जानहु तुम्ह तबहौं * रवि सम तेज होइ निसि जबहौं

लेजाकर पाताल-देवी की बलि दूँगा और राक्षस-कुल में पूर्ण यश लूँगा। जब रात्रि में सूर्य के समान प्रकाश हो, -तब तुम जान लेना कि मैं उन्हें ले जाता हूँ।

दोहा—कहि अस बचन प्रबोध तेहि, सीस नाय बल भाखि।

आयउ रघुपति कटक महँ, निज देवी उर राखि ॥६२॥

ऐसा कहकर, सिर नवाकर, अपना बल बखान कर और अपनी इष्टदेवी को हृदय में रखकर वह श्रीरामजी की सेना में आया।

सूजन परत निसि अति अँधियारी * मर्कट भट जागहि तहँ भारी
कहहि जयति जय जयति कृपाला * अतिहि अगम निसि नहि गतिकाला

अत्यन्त अँधियारी रात्रि में सूजन नहीं पड़ता। भारी वीर वानर वहाँ जागरहे हैं और 'कृपालु श्रीरामजी की जय हो, जय हो' कहते हैं। रात्रि अत्यन्त अगम है, उसमें काल की भी गति नहीं है।

तहँ मारुत सुत रचा उपाई * निज लँगूर की कोटि बनाई
सो शोभा कछु वरनि न जाई * जनु भुजङ्गपति रह तहँ आई

वहाँ पवन-पुत्र हनुमानजीने उपाय रचा—अपनी पूँछ की परिधि बनाई। उनकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती, मानो सर्पों के राजा हों।

अरु जिमि देखिय सैल समाना * द्वार विराजत श्रीहनुमाना
देखि हृदय अहिरावन हारा * जिमिरवि उदयन तिमिर प्रसारा

और द्वार पर हनुमानजी विराजमान हैं, वे पर्वताकार दिखाई देते हैं। यह देखकर अहिरावण हृदय में हार गया, जैसे सूर्य के उदय होने पर अन्धकार नहीं फँल सकता।

युवित एकहू मन न ठहरानी * कपट वेष तेहि कीन्ह भवानी
वेष विभीषण कर अनुहारी * पवन तनय पहँ गो छलकारी

उसके मन में एक भी युक्ति नहीं जमती। हे भवानी! तब उसने कपट-वेष बनाया। विभीषण के समान वेष बनाकर वह छलो हनुमानजी के पास गया।

दोहा—सहज प्रतापी पवन सुत, पुनि सुरपति प्रियदास।

तिनहि निदरि चलि रामपहँ, मूढ़ हृदयँ नहि त्रास ॥६३॥

श्रीहनुमानजी सहज प्रतापी हैं, फिर देवताओं के स्वामी के प्रिय दास हैं, उनका निरादर करके वह श्रीरामजी के पास चला। मूढ़ के हृदय में भय नहीं है।

मर्म न जानेउ कछु सुत पवना * वेष विभीषण कै सो गवना
ठाढ़ होइ बोलेउ सुनु भ्राता * चलेउँ जहाँ कृपालु जन त्राता

पवन-पुत्र ने कुछ भेद नहीं जाना, वह विभीषण का वेष बनाकर गया, खड़ा होकर वह बोला—

आपके रहते मेरी यह वसा हुई है कि मैं सुख छोड़कर, आज दुःख की अधिकारिणी हुई हूँ। आकाश मार्ग से यह भुजा मेरे भवन में बाण से चिढ़ और रक्त से सनी हुई आ पड़ी। देखि भुजा मन में अति डरो * संसय जानि दीन्ह कर खरी लिखी राम लक्ष्मण महिमा इन * क्रम से सब कथा कही तिन

भुजा को देखकर मैं मनमें अत्यन्त डरी और सन्बेह जानकर इनके हाथ में मैंने पड़िया दी। तब इस भुजा ने श्रीराम-लक्ष्मणजी की महिमा सिधो और क्रम से सारी कथा कही।

ठगिसी रही बाँधि गुन गाथा * जरहुँ सङ्ग जो पावहुँ माथा रन कबन्ध भुज मम गृह आई * सिर तहँ गयउ जहाँ रघुराई

उस गुण-गाथा को पढ़कर मैं ठगो-सी रह गई। यदि मैं इनका सिर पाऊँ, तो ताप ही बत जाऊँ। छड़ रणभूमि में है, भुजा मेरे भवन में आ गई य सिर वहाँ गया है, जहाँ श्रीरामजी हैं।

करहु सो जतन मिलइ सोइसीसा * तुम समर्थ निसिचर कुल ईसा सुनत कुलिस सम गिरा बधू की * जीवन आस दसानन मूकी

हे राक्षसराज ! वही यत्न कीजिये, जिससे मुझे शोश मिल जाय। क्योंकि आप सामर्थ्यवान् हैं। पतोहू की बच्च के समान बाणों सुनकर रावण ने जीवन की आशा छोड़ दी।

तदपि धीर धरि कहत प्रबोधा * कहु कोमोहि समान जग जोधा तो भी वह धीरज धरकर समझाता है कि कहो, संसार में मेरे समान योद्धा कौन है ?

दोहा—राम लखन सुग्रीव नल, नील द्विविद हनुमन्त ।

तात विभीषन ऋषभ कर, आनव मार तुरन्त ॥ ६ ॥

राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, नल, नील, द्विविद, हनुमान, विभीषण और ऋषभ को मारकर मैं शीघ्र ही शोश को ले आऊँगा।

अब लगि रहेउ भरोसा भारो * कुम्भकरन घनताद सुरारो महूँ आजु लगि कीन्ह न जूझा * इन सब कर पुरुषारथ वृक्षा

अभी तक मुझे कुम्भकर्ण और देवताओं के शत्रु—मेघनाब का भरोसा था, इसी से मैंने आज तक युद्ध नहीं किया, अब मैं इन सबका बल जान गया।

मरे सो नर वानर के मारे * बात सुनत अति लाज हमाये गिनती कवन वीर में तिनकी * अति दुर्दसा कीन्ह कपि जिनक

वे मनुष्य और जानरों के मारने से मर गये। यह बात सुनने में मुझे बड़ी लज लगती है। क्योंकि उनकी बोरों में क्या गिनती है, जिनकी बानरों ने बड़ी दुर्दसा की ?

तजहु शोक कुल बधू पतोहू * उन समान जानि मानसि मोहू पुत्रि विलम्ब करौ घड़ि चारी * देखहु मोर पराक्रम भार

हे कुलबधू, पतोहू! शोक को छोड़ दो, मुझे उनके समान न समझना। हे दुजे ! बा

करहिं विविधि विधि जोग विरागी * रटहिं निरन्तर निसिदिन जा

ब्रह्मा आदि जिनको ध्यान में भी नहीं पाते, मुनि तथा शिवजी-पूजा में जिन्हें अथवा हृदय में धारण करते हैं। विरागी जिनके लिए विभिन्न जप व योग करते हैं तथा दिन-रात निरन्तर जाकर जिन्हें रटते हैं।

सोप्रभु तेहि देखेउ भरि लोचन * कृपासिंधु सेवक भय मोचन

बहुरि हृदय तेहि कीन्ह विचारा * रावन काज करौ अनुसारा

पुनि निज माया कृत गुन आई * कवनी भांति जायँ दोउ भाई

उन कृपासिंधु, सेवकों के भय को दूर करने वाले प्रभु को उसने नेत्र भरकर देखा और फिर मन में विचार किया कि रावण का कार्य कष्ट है। तब अपनी माया से उत्पन्न प्रभाव का स्मरण किया कि किस प्रकार यह दोनों भाई जायँ ?

दोहा-मोहनि ते सोहे सकल, मन्त्रह ते सुख सूँधि।

भयउ अदृश्य उठाइ तेहि, प्रभुहि चलेउ लै कूँधि ॥६५॥

उसने मोहिनी से सबको अचेत कर दिया और मन्त्रों से सबके मुख बन्द कर दिये। प्रभु को उठाकर अदृश्य हो, कूदकर ले चला।

एहिविधि प्रभुहि गयउ लै सोई * नभ मारग प्रकाश अति होई

सो प्रकाश जब रावन देखा * वचन प्रमान तासु करि लेखा

इस प्रकार वह प्रभु को ले गया। उस समय आकाश मार्ग में अत्यन्त प्रकाश हुआ। वह प्रकाश जब रावण ने देखा तो उसका वचन सत्य माना।

मन महुँ हर्ष करै अति भारी * अहिरावन लै गा असुरारी

लै निज लोक गयउ छिन माहीं * शोर भयउ तब कपिदल माँहीं

वह मन में अत्यन्त हर्ष करने लगा कि अहिरावण असुरों के शत्रुओं को ले गया। अहिरावण क्षण मात्र में अपने लोक को चला गया, तब वानर-दल में शोर हुआ।

जागे वानर श्रीहत झारी * देखिथ जिमि सरिता विनु वारी

अरु देखिय जिमिदिन विनु इन्दू * तेजहीन बासर जिमि चन्दू

वानर सोमाहीन होकर जागे। वे ऐसे दिखाई देते हैं, जैसे बिना पानी के नदी, बिना चन्द्रमा के रात्रि और दिन में चन्द्रमा।

रवि विनु दिवस जीव विनु देहा * जिमि दीपक विनु देखिथ गेहा

एकहि एक लाग तब पृछन * कहाँ गए त्रैलोक्य त्रिभूषन

जैसे सूर्य के बिना दिन, जीव के बिना देह और दीपक के बिना घर दिखाई देता है। तब वे एक दूसरे से परस्पर पृछने लगे कि त्रैलोक्य-भूषण श्रीरामजी कहाँ गये ?

दोहा-सोधा सब मिलि कटक तिन्ह, नहि पाये दोउ वीर।

शे व्याकुल सब भालु कपि, जिमिजलचर विनु सीर ॥६६॥

उसने आरम्भ से ही सब कथा कही, उसे सुन-सुनकर रावण की रानो रो रही हैं, फिर उसने अपने पति की भुजा द्वारा लिपों हुई—'धोराम-लक्ष्मण को महिमा को कथा ।'

कहेउ वहुरि दसकन्धर क्रोधा * मुए विडम्बन कीन्हेसि क्रोधा
सुनि निज पुत्रवधू की वानी * बोली दुखित मन्दोदरि रानो

फिर रावण का क्रोध करना और मृतकों को निन्दा करके सान्त्वना देना कहा। अपनी पुत्र-वधू को वाणी सुनकर मन्वोवरो दुःखो होकर कहने लगी—

कहाँ सो मानहूँ सत्य सयानी * सुनी जो नारद मुनि को वानी
पाछिल बात भई सब साँची * अनुभव कोन्ह न एकहु वाँची

हे सयानी ! मैंने नारद-मुनि को वाणी सुनी है, उसे कहते हैं तो सत्य मानना । पिछली सभी बातें सत्य हुईं, मैंने अनुभव किया है, एक भी नहीं बची ।

अगली कथा समाप्त समेता * सुनहु पुत्रि ऋषि वर्णउ जेता
अब पुत्री परिहर सब सोका * पति संग वेगि साध परलोका

हे पुत्री ! आगे की कथा जैसे ऋषि ने वर्णन की है, तो सब संक्षेप में सुनो । अब समस्त शोक को छोड़कर, पति के साथ जलकर परलोक को सुधार लो ।

जाहु राम पहि पति सिर लागी * तजि संकोच आनि सिर मांगी
आजु न होय लाज तव भूषण * समय हीन गुन गतिअ न दूषण

तुम पति के सिर के लिए धोरामजी के पास जाओ । संकोच छोड़कर, उसे माँग क्यों नहीं लाती ? आज तुम्हें लाज का भूषण नहीं है, क्योंकि कुसमय में गुण व बोध नहीं गिने जाते हैं ।

है पुनि श्वसुर विभीषण तोरा * बालितनय बालक सम मोरा
एक नारिब्रत रघुवर केरा * लपन सुजस तुम सुनेउ घनेरा

फिर वहाँ तुम्हारे श्वसुर विभीषण हैं, अज्ञव मेरे पुत्र के समान हैं और धोरपुनायनी एक नारी ब्रती हैं तथा लक्ष्मणजी की सुन्दर कौति तो तुमने सुनली है ।

जामवन्त मन्त्री सुग्रीवा * द्विविद मयन्द महाबल सौवा
जानहुँ ब्रह्मचर्य हनुमन्ता * शिव स्वरूप भवहर भगवन्ता

जामवन्त, सुग्रीव, द्विविद, मयन्द ये सब मन्त्री हैं और बल की सोमा हैं । हनुमानजी ब्रह्मचारी हैं, शिव-स्वरूप और संसार से छुड़ाने वाले भगवान जानो ।

सदा नीति रत राम नरेशा * तहाँ जात कहु कवन कलेशा
महाराज धोरामचन्द्रजी सर्वेष नीतिज्ञ हैं । फिर कहो, वहाँ जाने में कौन-सा बतेशा है ?

दोहा—विदित तोर पतिभुज लिखित, लछिमन राम प्रभाव ।

मैं हूँ ऋषि भाषित कहेउ, अब विलम्ब जनि लाव ॥ ६ ॥
अपने पति की भुजा द्वारा लिपि हुआ धोराम-लक्ष्मण का प्रभाव तुम्हें मात्र ही है ।

महावली जानै बहु माया * निश्चय वह दससीस पठाया

वह नागलोक में रहता है। मेरे शरीर जैसे वेष का दूसरा कोई नहीं है। वह महावली बहुत माया जानता है, निश्चय ही रावण ने उसे भेजा था।

जेहि बल होइ वहाँ सो जाई * ताहि जीति आनै दोउ भाई
कहहि भालुपति सुनु हनुमाना * तब बल तात सकल जग जाना
वेगि सो जतन विचारहु ताता * कृपासिंधु आनहु दोउ भ्राता

जिसमें बल हो वह वहाँ जाय और उसे जीतकर दोनों भाइयों को लावे। भालुपति जामवन्त बोले—हे हनुमानजी ! सुनो, आपके बल को समस्त जगत् जानता है। हे तात ! यह उपाय शीघ्र विचारो, जिससे वह कृपा के समुद्र दोनों भाई आवें।

दोहा—बिलखि कहेउ कपितपिबहुरि, भारतसुत सुन तात।

बिनु रघुपति धिकधिक जनम, पलुजुग सरिस बिहात ॥६८॥

फिर वानर-राज सुग्रीव ने बिलख कर कहा—हे तात पवनसुत ! सुनो, बिना श्रीरामजी के जन्म को धिक्कार हैं। एक-एक पल युगों के समान बीत रहा है।

तृषति होइ बिनु बारि दुखारी * तैसे हम सब बिना खरारी
बिनु रवि पंकज होइ मलीना * तैसेहि हम सब हैं हनुमाना

प्यासा बिना पानी के जैसे दुःखी होता है वैसे ही हम श्रीरामजी के बिना हैं। हे हनुमान ! हम सब ऐसे मलिन हैं, जैसे बिना सूर्य के कमल।

सीता सुधि जिषि औषधि आनी * तेहि प्रकार लावहु गुनगानी
यह सुनि बहुरि पवनसुत बोला * चित्त करहु थिर सेन न डोला

जिस प्रकार तुम सीताजी को खबर और औषधि लाये थे, उसी प्रकार गुणों के खान श्रीरामचन्द्रजी को लाओ। यह सुनकर पवनसुत हनुमानजी बोले—आप चित्त स्थिर करिये जिससे सेना विचलित न हो।

भुवन चारिदस तीनहु लोका * आनहु प्रभुहि तजहु तुम सोका
अबते सजग रहेउ सब भाई * लरेउ काल सों जो चढ़ि आई

चीवहों भुवनों और तीनों लोकों में से प्रभु को ले आऊँगा। आप शोक त्याग दीजिए, अब से सब भाई सजग रहें और यदि काल भी चढ़ आवे तो उससे लड़ें।

यह कहि गर्जि चलेउ हनुमाना * प्रलयकाल के मेघ समाना
चले जात इक तरतर गयऊ * गृद्धनि गृद्ध कहत अस भयऊ

यह कहकर गर्जना करके हनुमानजी प्रलयकाल के समान चले। चलते-चलते वे एक वृक्ष के नीचे गये। (वहाँ) एक गीधनी-गीध से इस प्रकार कह रही थी।

दोहा—गृद्ध नारि ही गर्भिनी, बोली पति सों बैन।

आनहु आमिष मनुज करि, खाँउ होव जिस चैन ॥६९॥

पृथ्वी का भार उतारने वाले, कृपा के समुद्र पर के राज धोरामजी के चरण सुलोचना ने प्रेम से पूर्ण होकर स्पर्श किये। जिनको शंकरजी, शेषजी तथा मुनिगण प्रणाम करते हैं, उन प्रभु को पहिधान सुलोचना बिनती करने लगी कि-हे शोक को दूर करने वाले ब्यानु रघुवंश में श्रेष्ठ धोरामजी ! आपकी जप हो।

छन्द-तव शरणहि आई जन सुखदाइ रघुराई करुणा सागर ।
पहि मस्तक पाउँ सँग जरि जाउँ पाउँ सुख शोभा अपार ॥
ममपति तनुत्यागीअतिवड़भागी अनुरागी जिनमुक्ति लहो ।
ममता किमि बरनूं तासु जासु जसु अचल जग पंवित्र रही ॥

हे ब्या के समुद्र, भक्तों को आनन्द देने वाले धोरघुनायजी ! मैं आपकी चरण में धाई हूँ। हे शोभा के धाम ! जो पति का मस्तक मुझे मिल जाय तो मैं उसके साथ ही जल जाऊँ। इससे मुझे शोच दे बिया जाय। मेरे पति ने शरीर त्याग बिया, वे भाग्यशास्त्रो व प्रेमो ये, जिन्होंने मुक्ति पाई। उनके प्रेम को किस प्रकार वर्णन करूँ, जिनकी भवत कीर्ति संसार में व्याप्त है।

यहविधिपदपंकजसेव्यरमा अजशिर निमि दोउ करजोर रही ।
सुनि पंकज लोचन वचन सुलोचन लोचनते जलधार बही ॥

इस प्रकार लक्ष्मी व ब्रह्मा द्वारा सेवित धोरघुनायजी के चरणकमलों में तिर नवाकर और हाथ जोड़कर सुलोचना पड़ी रह गई। तब उसके वचन सुनकर कमल-नयन धोराम-चन्द्रजी के नेत्रों से जल की धार बहने लगी।

दोहा-अस प्रभु दीनबन्धु हरि, कारन सहित दयाल ।

तुलसीदास सठ ताहि भजु, छाँड़ि कपट जञ्जाल ॥११॥

ऐसे स्वामी धोरामजी दीनों के हितैषी और बिना कारण हो ब्यानु हैं। तुलसीदासजी कहते हैं कि रे शठ ! कपट को छोड़कर उन्हें भज।

तुम अन्तर्यामी भगवाना * नहिं तव आदि अन्त अवसाना
करुणा वचन सुनत रघुवीरा * पुलक रोम भय तिथिल सरोरा

सुलोचना बोली-हे भगवन् ! आप अन्तर्यामी हैं। आपका आदि, मध्य और अन्त नहीं है। ऐसे दुष् भरे वचन सुन धोरघुनायजी पुलकित होकर रोमांचित हो गये और शरीर गिपित हो गया।

देहुं जियाइ तोर पति आजू * करु वसि लंक कल्प सत राजू
छाँड़ि सोच अब मन हर्षहि * तुरत भवत अपने फिरि जाहू

वे बोले-मैं आज तुम्हारे पति को जिता दूँ। तुम संकड़ों कर्त्यों तक तंडा का राज्य करो। शोक छोड़कर मन में प्रसन्न होओ और तुरन्त ही पर को तोट राजो।

सुनि अस कृपासिंधु की वानी * मनमहुं वनचर अति भय मानो
कहि न सकत कछु प्रभुरख देखी * कहा करव करतार विसेय

जब आप चलकर समुद्र के समीप आये तब, हे श्रेष्ठ कपि! आपको पसीना आया हुआ था। पसीना छुटकर समुद्र में गया, तब एक मछली ने उसे पी लिया और तब मैं वहाँ उत्पन्न हुआ। इहि प्रकार मैं तब सुत ताता * गोपहुँ नहिं निज पिता न माता अहिरावन सेवा मैं करिहौं * प्रभु आयसु इहि द्वारे रहिहौं

हे तात ! इस प्रकार मैं आपका पुत्र हूँ, मैं अपने माता-पिता को छिपाता नहीं हूँ। मैं अहिरावण की सेवा करता हूँ और स्वामी की आज्ञा से इस द्वार पर रहता हूँ।

दोहा-सत्य वचन हनुमान कहि, पुनि पूछी सब बात।

आनेउ लछिमन राम कहँ, कहा करत है तात ॥१००॥

हनुमानजी बोले-तेरा वचन सत्य है। फिर सब बात पूछी-हे तात ! वह श्रीराम-लक्ष्मणजी को लाकर क्या करता है ?

कहहु तात तेहि थल को नाऊँ * जान चहौं मैं निज प्रभु ठाऊँ यह वृत्तान्त न जानउँ ताता * अस मैं श्रवन सुनी कछु बाता

हे तात ! उस स्थान का नाम कौ ? मैं अपने स्वामी के स्थान को जानना चाहता हूँ। मकरध्वज बोला-हे तात ! मैं यह वृत्तान्त नहीं जानता हूँ, मैंने ऐसी कुछ बात सुनी है कि-

सीतापति अरु फनिपति साथ * सो ले आयउ निसिचर नाथा करत सो अहै होम धौं आजू * देवहि बलि देहहि अहिराजू

राक्षसराज-सीतापति श्रीरामजी और शेषपति लक्ष्मणजी को साथ ले आया है। वह आज तक होम करता है और उन्हें देवी की बलि देगा।

जो कछु निज श्रवन सुनि पायउँ * तात सकल मैं तुम्हहि सुनायउँ निज प्रभुकाजु लागि दुख सहऊँ * तुमसन सत्य मरसु मैं कहऊँ

जो कुछ अपने कानों से सुन पाया है, हे तात ! वह सब आपको मैंने सुना दिया। मैं अपने स्वामी के कार्य के लिए दुःख सहूँगा, तुमसे स्पष्ट भेद कहता हूँ।

जान कहौ पर जान न देऊँ * प्रभु आज्ञा तजि अजसु न लेऊँ सुनि अस पेलि चलेउ हनुमाना * भयउ क्रोध मकरध्वज जाना

आप यदि जाने के लिए कहें तो मैं जाने नहीं दूँगा, स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करके अपयश न लूँगा। ऐसे सुनकर हनुमानजी उसे ढकेल कर चले। यह जानकर मकरध्वज को क्रोध हो आया।

दोहा-कपि कहँ हनेसि मुष्टिका, कपि पुनि मारा ताहि।

एकहि एक हनेउ तब, बल समघटि कोउ नाहि ॥१०१॥

उसने कपि को मुक्का मारा, फिर कपिने उसको मुक्का मारा। वे एक दूसरे को मारते हैं, परन्तु दोनों का बल समान है, किसी का घटकर नहीं है।

एकहि एक सकै नहिं टारी * मारत सुत दोउ भद्र भारी

लोन्हेउ राम कपोत बुलाई ✽ मेघनाद सिर दीन्ह मंगा

हे देवोत्तम ! आप मन को बसा जानने वाले हैं । मघनागर को नंगा को पार लगाइये तब थीरामजी ने सुग्रीव को बुला लिया थीर मेघनाद का सिर मंगा दिया ।

पाय कृतारथ मानेउ आपू ✽ पिया विरह सम्भव पतिप

अंचल पोंछत मुख की धूरी ✽ करि मम प्राण संजीवनि मूर

उसे पाकर सुलोचना ने स्वयं को कृतार्थ माना । पति के विरह से उत्पन्न दुःख उने कि हुआ । हे मेरे प्राणों को संजीवनी मूल । ऐसा कहकर वह अंचल से मुख को पूत पोंछती है

देखि सन्देह कहत सुग्रीवा ✽ भुजमहि लिखासोमोहिनहिसेव

हँसहहि वदन तौ होइ है साँची ✽ नतरु निसावर माया काँच

यह देख सुग्रीव सन्देह करते हैं कि बिना प्राण और शोक के भुजा पड़िया लेकर कं लिख सकती है ? यह मुख हँस जाय तो यह बात सच्यो है, अन्यथा निसाचरों को झूठी माया है

कस अस ज्ञान मृतक भुज गावा ✽ जो मुनिवर साधन नहि पाव

प्रभु अस कहेंउ हँसव यह सीसा ✽ करत कुतर्क न उचित कपोस

थोछ मुनि जिस ज्ञान को साधन फरके नहीं पाते, उसे इस मृतक-भुजाने जहाँ से पाव है ? तब प्रभु ने कहा—हे वानरराज ! कुतर्क करना उचित नहीं है, यह सिर अभी हूँगा

दोहा—सिर सो कहत सुलोचना, हँसहु वेगि मम नाय ।

नतरु सत्य नहि मानि हैं, लिखा जो तुम्हरे हाथ ॥१४॥

तब सुलोचना सिर से कहने लगी—हे स्वामी ! शीघ्र हँसिये, अन्यथा आपकी भुजा जो कुछ लिपा है, उसे सच सत्य नहीं मानेंगे ।

क्षणक विलम्बु कीन्ह नहि बोला ✽ मृतक वदन मूंदत नहि खोल

पुनि पुनि कहत सो नाग कुमारी ✽ श्रमित भयउ रणमहें करिमार

उस सिर ने एक क्षणकी देरी की ओर वह मृतक-शोक बन्द हो रहा, भुजा नहीं । नाग चुता बारम्बार कहती है कि युद्ध में मार-काट करके आप चरु गये हैं ।

लगे लषन शर क्षोभ बढ़ावा ✽ प्रभु समीप कस मोह लजा

जौ मन वचन कर्म यह देही ✽ पति देवता न आन सनेह

श्रीलक्ष्मणजी का वाण लगने से आपने मेरे क्षोभ (दुःख) को बढ़ाया है । अब प्र थीरामजी के सामने मुझे क्यों लज्जित करते हो ? यदि मन, वचन और कर्म से यह गरी पति को देवता मानता हो, अन्य कित्ती का प्रेमो न हो—

तौ प्रभु सभा बीच सिर बोलै ✽ रहहि छाव जग सुयश अमो

जौ जानति तब यह गति साँई ✽ बोलि पठावति पितहि सहा

तो प्रभु थीरामजी को सभा के बीच यह शोक बोले, जिससे अनमोल उत्तम पग छा जाय । स्वामी ! यदि मैं आपकी इस गति को जानती तो सहायता के लिए अपने चिता को बुला लेती

जब ही होम सिद्ध तिन्ह जाना * लछिमन राम तुरत तहँ आना
ठाढ़ कीन्ह तहँ प्रभु कहँ आनी * निसिचर बहु आहुधि धर पानी
धरे गदा कोउ अरु धनु बाना * शक्ति शूल तरवारि कृपाना

जब उसने यज्ञ को सिद्ध (सफल) जाना तो तुरन्त ही राम-लक्ष्मण को वहाँ लाया और लाकर प्रभु को खड़ा किया। राक्षस अनेक हथियार हाथ में लिए हैं, कोई गदा लिए है, कोई धनुष-बाण, शक्ति, तलवार और कृपाण लिए हैं।

दोहा-तोमर मुग्दर परसु असि, पासि फाँसि अरु बेत।

करसि खड्गसर धनु गहाँहि, देखत रहँहि न चेत ॥१०३॥

वे तोमर, मुग्दर, परशु, तलवार, पाशु, फाँसी, बेंत, बरछी और धनुष बाण लिए हैं। देखते रहने पर भी उन्हें होश नहीं है।

माया बल ते सकल बिचक्षण * अति बिकराल मूर्ख दुर्लक्षण
एहि विधि सकल वीर तहँ रहहीं * अहिरावन आज्ञा अनुसरहीं

वे माया बल से पण्डित हैं परन्तु अत्यन्त बिकराल, मूर्ख और कुलक्षणों से युक्त हैं। इस प्रकार सारे वीर वहाँ रहते हैं अहिरावण की आज्ञा का अनुसरण करते हैं।

आयसु पाइ खड्ग तिन्ह काढ़े * मारन कह प्रभु पर भे ठाढ़े
कोउ कह राजनीति अनुसरहू * तोनि दण्ड विलम्ब अब करहू

आज्ञा पाकर उन्होंने तलवार निकाली और मारने के लिए प्रभु के समीप खड़े हुए। किसी ने कहा-राजनीति का पालन करो, अभी तीन पल की देर करो।

सुनि अस वचन मूँडि इमि कहई * सुमिरो जो तुम्हरे कोउ अहइ
नाहित काल आय नियराई * निसि सपनासम लखिदोउ भाई
कहहि मूढ़ प्रभु कहँ इमि बानी * कहत सकुच मोहि अतिहि भवानी

यह सुनकर मूर्ख (अहिरावण) बोला-तुम्हारे जो कोई हो उसका स्मरण कर लो। नहीं तो स्वप्न की रात्रि के समान दोनों भाइयों को काल आकर देखेगा। वह मूर्ख प्रभु से ऐसी बात कहता है, हे भवानी! मुझे कहने में संकोच होता है।

दोहा-फनिपति चितवहि राम कहँ, राम चितव अहिराज।

प्रभु कर कौतुत कहिय किमि, सुनहु गरुड़ खगराज ॥१०४॥

शेषपति लक्ष्मणजी-श्रीरामजी की ओर देखते हैं और श्रीरामजी-लक्ष्मणजी की ओर हे पक्षीराज गरुड़! प्रभु की लीला किस प्रकार कही जाय?

पुनि प्रभु मनमहँ कीन्ह विचारा * जपहि सकल जग नाम हमारा
हिइ अवसर सुमिरिय हनुमाना * निकटहि अहँहि वीर बलवाना
फिर प्रभु ने मन में विचार किया कि समस्त संसार हमारा नाम जपता है, इस अवसर पर

फिर वह विभीषण के चरणों में गिरी तो धीरघुनायजी के चरणों में मन लग गया। वह बोली—हे रावण के भाई ! आप मेरे पिता के समान हैं। इस कुल को साज और बड़ाई आपके ही हाथ है।

**मुनि पुलस्त्य परिवार के दीपा * पायउ फल रघुवीर समीपा
महा मोह वश अनभल माना * ज्ञान भयो तव गुण पहिचाना**

आप पुलस्त्य मुनि के वंश के वोपक हैं, आपने धीरामजी के सामोप्य रूपो फल की पाया है। अज्ञान के वश मैंने आपसे बुरा माना।

**युग युग करहु अकण्टक राजू * सहित सुयश अरु सुकृत समाजू
सुमिरत तुमहि सुजनगति पावा * रघुपति चरित संग करि गावा**

उत्तम पश और पुण्य-कर्मों के समाज सहित आप युग-युग तक निरकंटक राज्य करिये। आपको स्मरण करने से सज्जन मोक्ष पायेंगे, धीरघुनायजी के चरित्र के साथ आप नो गाये जायेंगे।

**सुनत विभीषण मन करुणा भर * प्रगट न कहत समय विरहाकर
काल कर्म गति कहि समुझाई * चली तुरत गुरु आयसु पाई**

यह सुनकर विभीषण के मन में करुणा भर आई, परन्तु यह अपने विरह को प्रकट नहीं करते। काल और कर्म की गति समझाई तो आज्ञा पाकर सुलोचना घली।

दोहा—बाहरि करि कपि कटकते, फिरेउ विभीषण आप।

विसरेउ दसमुख बैरहा, हृदय अधिक सन्ताप ॥१६॥

उसे बानर-सेना के बाहर पहुँचा कर विभीषण स्वयं लीटे। उस समय रावण का बंद भूल गया और हृदय में अत्यन्त दुःखी हुआ।

**सिर चढ़ाय पालकी चढ़ी सो * रघुपति कृपा प्रभाव बढ़ी सो
हृदय राखि भरति घनश्यामा * रसना रटत निरन्तर नामा**

सुलोचना सिर की चढ़ाकर पालकी पर चढ़ी। रामजी की कृपा से उसका प्रभाव बढ़ गया। हृदय में श्याम मूर्ति रखकर उसकी जोष निरन्तर राम-राम रटती है।

**सरित सिंधु सङ्गम जहँ पावन * अस सुधि पाय गयो तहँ रावन
सङ्ग मन्दोदरि सब रनिवासू * मनहु शोक रवि कोन्ह प्रकाशू**

जहाँ नवी और समुद्र का पवित्र सङ्गम था—वह वहाँ गई, ऐसी छत्र पाकर रावण भी वहाँ गया। साथ में मन्दोदरी एवं सब रनिवास था, मानो शोक-रूपी मूयं ने प्रकाश किया था।

**पाय रजायसु सेवक धाए * चन्दन अगर सुगन्ध बहु लाए
रचि हृदि दारुण चिता बनाई * जनु सुरलोक निसेनी लाई**

आज्ञा से उत्तम सेवक बोड़े और बहुत-सा चन्दन, अगर और सुगन्धि लाये। सजाकर हृदय फोड़ चिता बनाई, मानो स्वयं-लोक की सीढ़ी लगाई हो।

करि प्रणाम सब जन परितोषी * धीरज धरेसि तासु मति पं

दे दौध बन्दर ! तुझे डर नहीं है । मैं अहिरावण हूँ, तू मुझे नहीं जानता ? जम्बू-माली को और बेचारे रावण-पुत्र को तूने मार डाला है ।

दोहा—कालनेमि सम मैं नहीं, सुनहु वचन हनुमान ।

अस कहि खड़ग प्रहारकिय, कपि तनु वज्र समान ॥१०६॥

दे हनुमान ! सुन, मैं कालनेमि के समान नहीं हूँ । ऐसा कहकर कपि के शरीर पर तलवार से प्रहार किया, किन्तु हनुमानजी का शरीर तो वज्र के समान है ।

लै असि ताहि पवनसुत मारा * काटा सीस अनल सहँ डारा
पूर्णहृति करि तब ता सीसा * पुनि प्रभु को लै गयउ कपीसा

पवन-पुत्र ने तलवार छीनकर उसे मार डाला शिर काट कर अग्नि में डाल दिया । उस शिर को पूर्णाहृति करके कपिराज प्रभु को ले चले ।

मकरध्वज तब विनती कीन्हा * बन्धन छोरि राजु तेहि दीन्हा
इहँ कर राजु करहु तुम ताता * भजेउ सदा मम प्रभु दोउ भ्राता

तब मकरध्वज ने विनती की । उन्होंने उसको बन्धन से मुक्त करके राज्य दिया और कहा-हे तात ! यहां का राज्य करो और मेरे प्रभु दोनों भाइयों का सदैव भजन करो ।

अस कहि कपिनिज दलमहँ आवा * हरषे कटक समर सुख पावा
मृतक शरीर प्राण फिर आवा * गइ मनि फनिक मनहुँ फिर पावा

ऐसा कहकर कपिराज अपने दल में आये । सेना युद्ध में सुख पाकर हर्षित हुई, जैसे मृतक शरीर में पुनः प्राण लौट आये हों और सर्व मानो खोई मणि पा जाय ।

विठुरा मिलै वहुरि जिमि आई * तिमिसव भए निरखि दोउ भाई
मिलेउ कपीस चरन धरि माथा * पुनि पद परेउ निसाचर नाथा

जैसे विठ्ठल हुआ (प्रभु) फिर आकर मिल जाय, वैसे ही सब दोनों भाइयों को देखकर सुखी हुए । सुग्रीवजी उनके चरणों पर मस्तक रखकर मिले, फिर विभीषण ने भी चरणों पर मस्तक रखा ।

दोहा—जामवन्त अङ्गद सहित, मिले भालु अरु कांस ।

सनमाने प्रिय वचन कहि, लषन कौसलाधीस ॥१०७॥

जामवन्त और अंगद सहित सब भालु और वानर मिले । तब श्रीराम-लक्ष्मणजी ने प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया ।

वहुरि सवन्हि भेंटे हनुमाना * कहहि तात तुम राखेउ प्राणा
देवन्ह सुमन वृष्टि तब कीन्ही * प्रसुदित हृदय दुन्दुभी दीन्ही

फिर सबने हनुमानजी से भेंट की । वे कहते हैं-हे तात ! तुमने प्राणों की रक्षा की । तब देवताओं ने पुष्प-वृष्टि की और प्रसन्न हो दुन्दुभी बजाई ।

कपट सहित हरषे दोउ भाई * तेहि अवसर सुख कहि किमि जाई

रावण ने आकर्षण-मन्त्र का जप किया, जिससे पाताल में अहिरावण का मन झोल गया ।

लगेउ करन सो मन अनुमाना * केहि कारन दसमुख अकुलाना
निसिचर नाह भुवन वस जाके * जोतन कहूँ न वीर कोउ ताके

वह अपने मन में अनुमान करने लगा कि रावण क्यों व्याकुल है ? जिसने दोनों तोरों को अपने वश में किया है तथा जिसको जीतने के लिए कोई वीर नहीं है ।

मनक्रम वचन आन नहिं सेवी * धरेउ ध्यान उर कामद देवी
चलेहु बहुरि आयहु सो तहँवा * सिव मण्डप दसमुख रह जहँवा

मन, कर्म, वचन से जो दूसरे का भक्त नहीं था, उसने कामद-देवी का ध्यान किया । वह शीघ्र ही चलकर वहाँ आया, जहाँ शिव-मण्डप में रावण था ।

निसिचर पतिकहँ तेहि सिरनायउ * कर गहि निज आसन वैठायउ
उसने राक्षसराज को सिर नवाया तो रावण ने उसे हाथ पकड़कर अपने आसन पर बैठाया ।

दोहा-अहिरावन तव रावनहिं, पूछेउ सकल सप्रीति ।

प्रथम कही तेहि सब कथा, भगिनी कोन्ह अनीति ॥६१॥

तब अहिरावण ने रावण से सप्रेम कुशल पूछी । तब उसने पहले यह कथा कही कि बहिन (शूर्पणखा) ने जो अनीति की थी ।

वध खरदूषण जिमि सुधि आई * पुनि मरीच की कथा सुनाई
कहेसि बहुरि सीता कर हरना * पवनतनय बल लङ्का दहना

फिर खरदूषण के वध के जैसे समाचार पाये थे-वह और मारीच की कथा कहे । फिर सीता-हरण, पवन-पुत्र के बल और लंका-बहन की कथा ।

सेतु बाँधि जिमि प्रभु चलि आयउ * वालितनय सम्वाद सुनायउ
अवनि अकम्पन अरु अतिकाया * मरे समर महँ सुनि अहिराया

प्रभु सेतु बांधकर जिस प्रकार चले आये-वह और अंगद का सम्वाद सुनाया । (रावण बोला-) हे शेष-लोक के राजा ! सुनो-अवनि, अकम्पन और अतिकाय रण में मारे गये ।

तात कुशल अव आय सिरानी * कटक निसाचर सकल नसानो
कुम्भकरन घननादउ मारे * राम लपन ते मनुज विचारे

हे तात ! अब आकर तुमने कुशल पूछी है, जब सारी राक्षसी-सेना मारी गई । कुम्भकरन तथा मेघनाद भी जिन्होंने मार डाले, वे राम-सङ्घमण मनुष्य सनत रपये हैं ।

आनेउं बोलि तोहि निज पासा * कहु जे जतन होइ रिपु नासा
सुनत वचन कह केतिक वाता * हरि लै जैहाँ दोनों आता

अब तुम्हें अपने पास बुलाया है । वह उपाय कहो-जिससे शत्रुओं का नाश हो । यह कहकर वह बोला-यह फितनी-सी बात है ? मैं दोनों भाइयों को हर ले जाऊँगा ।

अपने मन मँ करहुँ विचारा * है नारान्तक तनय तुम्हारा
मूल अभुक्त माहि भा जोई * दिया बहाय मरा नहि सोई

मन्त्री बोला—अपने मन में विचार करो। तुम्हारा पुत्र नारान्तक है, जो अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुआ था, जिसे तुमने वहा दिया था, वह मरा नहीं है।

शम्भु प्रसाद ताहि कछु भयऊ * पुनि विहवाबल नृपति हयऊ
कोटि बहत्तर एक प्रभाऊ * राजा प्रजा भेद नहि काऊ

जिसके ऊपर शिवजी की कुछ कृपा हुई है। वह विहवाबलपुर में राज्य करता है।
घहाँ बहत्तर करोड़ राक्षस एक ही प्रभाव के हैं, राजा-प्रजा में कुछ भेद नहीं।

दोहा—तासु मन्त्र सुनि दसवदन, हृदय प्रमोद प्रमान ।

धूम्रकेतु कहँ बोलि ठिंग, समुझावत सनमान ॥ १ ॥

रावण ने उसके वचन सुनकर अति प्रसन्न होकर धूम्रकेतु दूत को अपने पास बुलाया
और आदरपूर्वक समझाकर भेजा।

नारान्तक उत्पत्ति यथा विधि * पुर विहवाबल गा कवनी विधि
अति सुन्दर शुचि यह सम्वाद * चित थिर करि सुनिये उरगादू

नारान्तक की उत्पत्ति कैसे हुई ? वह विहवाबलपुर में कैसे गया ? यह सम्वाद अत्यन्त
पवित्र और सुन्दर है। हे गरुड़जी ! उसे चित्ता स्थिर करके सुनिये—

पुर मँ उपजे खल इक साथी * तव सुनि हर्ष निसाचर नाथा
निज गुरु बोलि चरण सिर नाई * बूझा मुदित सो कलश धराई

वे सब दुष्ट (बहत्तर करोड़) लंका में एक साथ पैदा हुए ! यह सुनकर रावण बड़ा प्रसन्न
हुआ। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर चरणों में सिर नवाकर लग्न मुहूर्त पूछा।

भृगुनन्दन तव तेहि सन कहेऊ * आजु बाल सब मूलहि भयऊ
सत्य कहत दसमुख तुम पाहों * भए आजु ते सब पुर माहीं

तब शुक्राचार्यजी ने उससे कहा—आज सब बालक मूल नक्षत्र में हुए हैं। हे रावण !
में तुमसे सत्य कहता हूँ, आज जितने बालक तुम्हारे नगर में उत्पन्न हुए हैं—

वे सुत सब निज निज पितु घाती * मुख देखत सुन सुर आराती
घर राखे धन सहित विनाशा * होइ अवशि नहि उबरत आशा

वे सभी बालक अपने-अपने पिता के नाशक हैं। हे देव-शत्रु ! सुनो, उनका मुख देखते
ही और घर में रखते ही धन सहित विनाश हो जायगा, फिर उबरने की आशा नहीं है।

दोहा—सपदि करहु सब काज यह, लावहु बाल बटोरि ।

राखे होइहि हानि अति, कह दश वदन बहोरि ॥ २ ॥

हे भाई ! सुनो-मैं वहाँ जाता हूँ, जहाँ कृपालु वीनवाद्यु प्रभु हैं ।

मैं रघुपति सन आयसु पाई * सन्ध्या करन गयउं सुनु भाई
तेहि ते तुरत चलेउं प्रभु पाहीं * भइ विलम्ब जनि राम रिसाहीं

मैं रघुनाथजी से आज्ञा पाकर सन्ध्या-वन्दन को गया । देर हो जाने के कारण भोराम जी क्रोधित न हों, इसलिए शीघ्र ही पास जाता हूँ ।

सत्य वचन कपि निज मन माना * सुनु खगेश भावो बलवाना
कपट चतुर गति जानि न पाई * पर मन हरै हरै धन भाई

हनुमानजी ने वचन सत्य समझे । हे गरुड़जी ! सुनो, भावो बलवान् होता है । हे भाई ! कपटी की चतुर चाल जानी नहीं जाती । वह दूसरे के मन और धन को हर लेता है ।

आयसु पाइ गयऊ सो महँवा * फनिपति प्रभु दोनों रह जहँवा
कपिपति जामवन्त नल नीला * वालितनय सुपेन बलसीला

वह आज्ञा पाकर वहाँ गया, जहाँ भीशेपजी तथा प्रभु दोनों थे और वानर-राज सुग्रीव जामवन्त, नल, नील, अङ्गद और सुपेण आदि बलवान् थे ।

दोहा-द्विविद मयन्द कपीस गन, गव गवाक्ष कपि वार ।

सहित विभीषण अपर भट, सोए सब रनधीर ॥६४॥

द्विविद, मयन्द, गव-गवाक्ष आदि रणधीर वानर और अनेक योद्धाओं के साथ वीर विभीषण सोये हुए थे ।

तिन्हहि मध्य रावन ससि राहू * एक सङ्ग सोवत फनिनाहू
दच्छिन दिसि सोवत रघुनाथा * अनुज वाम दिसि तेहि पर हाथा

उनके मध्य में रावणरूपी चन्द्रमा को राहू के समान भोरामजी तथा शेषपति भीलश्मण जी एक साथ सोए हुए थे । बायीं ओर भीरघुनाथजी सोए हुए थे और बायीं ओर भीलश्मण जी सोए थे, जिन पर प्रभु का हाथ रखा था ।

प्रभु कर उर पर राजन कैसे * जातरूप पर फनिपति जैसे
कपि सब हैं जनु सागर क्षीरा * तहँ सोए मानहु दोउ वीरा

उनके वक्षस्थल पर प्रभु का हाथ कैसे शोभित है, मानो सोने पर तपंरात्र । वे सब वानर मानो क्षीर सागर हैं, वहाँ दोनों वीर रायन करते हैं ।

सुभग वान धनु धरे वनाई * लछिमन सहित नियर रघुराई
अहिरावन मन कीन्ह प्रनामा * देखि राम धन सुन्दर श्यामा

लक्ष्मणजी के साथ सुन्दर धनुष-बाण भीरघुनाथजी के पास रखे हैं । मेघस्था-भोराम को देखकर अहिरावण ने मन ही मन प्रणाम किया ।

ब्रह्मादिक जेहि ग्यान न पारवाहि * सुनि महेस पूजा मन

ज्ञान लहेउ सब संसय त्यागी * भए बिरंचि पद तब अनुरागी

उनको सन्तोषित करके गुरु ने मन्त्र दिया । शिक्षा पाकर वे चले गये । सबने सन्देह त्यागकर ज्ञान प्राप्त किया, तब ब्रह्माजी के चरणों के प्रेमी हुए ।

निराहार बैठे एक आसन * वर्ष सहस तप किय उरगासन
श्वास धारि कृत वरष हजार * रहे ऊर्ध्व मुख बिना आहारा

वे एक आसन से निराधार बैठे रहे । इस साँति हजार वर्ष तप किया फिर केवल श्वास धारण करके बिना भोजन किये हजार वर्ष तक ऊर्ध्व मुख से खड़े रहे ।

दोहा—एक पाद पुहुसी दिए, अपर अंग अनयास ।

सकल पुष्ट तनु मनु हरष, सपनेहुँ भूख न प्यास ॥ ४ ॥

एक पैर पृथ्वी पर रखे, अन्य सभी अंग आधार रहित, सभी शरीरों से पुष्ट और मन में प्रसन्न हैं । उन्हें स्वप्न में भी भूख-प्यास नहीं है ।

तप अति उग्र विचार विधाता * तिन्ह ढिग गमने मन मुसकाता
हंसारूढ कमण्डलु हाथे * श्वेत मुकुट शुचि चारिउ माथे

उनके तप को अत्यन्त उग्र विचारकर ब्रह्माजी मन में मुस्कराते हुए उनके निकट गये । वे हंस पर चढ़े, कमण्डल हाथ में लिए, चारों माथों पर पवित्र श्वेत मुकुट धारण किये हैं ।

आलन चारि नयन बसु नीके * चारिउ भाल भस्म शुभ टीके
महिमा किमि प्रभुसब जग अयना * भाष्यो दयासदन तब वयना

ब्रह्माजी के चार मुख, सुन्दर आठ नेत्र, चारों मस्तकों पर भस्म के श्वेत टीके हैं । जगत के निवास स्थान प्रभु की क्या उपमा दी जाय ? तब दयानिधान यह वचन बोले—

माँगहुँ वर जो सब मन भावा * सुनेइ सबनिविधि पद सिरनावा
नाथ चहत हम यह वरदाना * हमहि न कोउ जीतै मैदाना

जो सबके मन में भाये, वह वर माँगो । यह सुनकर सबने ब्रह्माजी के चरणों में सिर नवाये वे बोले—हे नाथ ! हम यह वरदान चाहते हैं कि हमें कोई भी संग्राम में न जीते ।

एवमस्तु विधि कहेव विचारी * आनि पाणि नहि मृत्यु तुम्हारी
हरिसुत है तुम्हार गुरु भाई * तेहि सन करेउन कबहुँ लराई

ब्रह्माजी ने विचार कर कहा—ऐसा ही होगा, किसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी । केवल सुग्रीव के पुत्र से मत लड़ना, क्योंकि वह तुम्हारा गुरु-भाई है ।

दोहा—जो तेहि सन करिहौ समर, मरिहौ वचन प्रमान ।

एकहि कहँ वरदान दै, यह कह कृपानिधान ॥ ५ ॥

उससे यदि तुम युद्ध करोगे तो मारे जाओगे, मेरा यह वचन सत्य है । एक नारान्तक को यह वरदान देकर कृपानिधान ब्रह्माजी ने कहा—

सबने मिलकर सेना में खोज की, परन्तु दोनों भाई नहीं मिले। सब मानू थोर बानर ऐसे व्याकुल हो गये, जैसे बिना पानी के जलचर जीव।

सकल कहहिं विधिकायह कीन्हा * रघुपति विना प्रान चह लीन्हा
सोक प्रसित धरि सकहिं न धीरा * कहाँ राम लछिमन दोउ वीरा

सच कहते हैं कि विधाता ने यह क्या किया ? थोरामजी के बिना यह प्राण सेना चाहता है। राम-लक्ष्मण दोनों भाई कहाँ हैं ? शोक के मारे वे धर्म धारण नहीं कर सकते।

करुना करें कपीस अपारा * वनी वात विधि चाह विगारा
कटक निसाचर सकल संहारी * रहा एक रिपु रावन भारी

कपीस सुग्रीव अत्यन्त दुःख करते हैं-वनी हुई वात विधाता ने विगाड़ दी। राक्षसों की सम्पूर्ण सेना का संहार हो गया, केवल एक प्रबल शत्रु रावण ही रह गया है।

सोउ न रहत राम शर लागे * भाइहु हम सब कोउ न अभागे
कवहुँ जो दससिर अरि जीतहिं * उत्तर कवन देव हम सीतहिं

यह भी थोरामजी के वाण लगने पर नहीं रहता। हे भाइयो ! हमारे समान अभागा कोई नहीं है। यदि हम कहीं शत्रु रावण को जीत भी लें तो हम सीताजी को क्या उत्तर देंगे ?

यहिकहि विकलमूर्छितमहि परेउ * लागे वज्र सैल जिमि गिरेउ
कहि न विभीषन को गति जाई * फिरइ वत्स जिमि धेनु लवाई

यह कहकर वे व्याकुल हो मूर्छित होकर गिर पड़े, मानो वज्र लगने से पर्वत गिरा हो। विभीषण की गति कही नहीं जाती, लावनों की गाय जैसे बछड़े को लिए फिरती हो।

दोहा—सहित पवनसुत ऋच्छपति, दुख मन भा बहु भांति।

खगपति सूझ न कतहुँ कछु, तुम अपार तेहि राति ॥६७॥

हनुमानजी तथा जामवन्त सहित सबकी बहुत भांति से दुःख हुआ। हे गरुड़जी ! रात्रि के अपार अन्धकार में किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता था।

पवनतनय पुनि काहे सब पाहीं * विसमय होइ एक मन माहीं
कोउ इक आव विभीषण वेषा * प्रभु के निकट जात में देखा

फिर हनुमानजी सबसे बोले—मन में एक विस्मय होता है। कोई व्यक्ति विभीषण के वेष में आया था, मैंने उसे प्रभु के निकट जाते हुए देखा था।

पूछत वचन कहेसि अति नीका * कपट न जानौ निसिचर जियका
वचन सुनत बोलेउ लंकेसा * अहिरावन लै गा अवधेसा

पूछने पर उसने अति मुन्दर वचन कहे। मैंने राक्षस के हृदय का कपट नहीं जाना। यह सुनकर विभीषण बोले—प्रभु को अहिरावण से गया।

पन्नग लोक वसत है सोई * सम तनु वेप अपर नहि कोई

लखि आशिष देवूझा तेही * दधिवल कवन काज गे जेही
तत्र नारान्तक पुर प्रभुताई * दधिवल नारद मुनिहि सुनाई

उसे देखकर मुनि ने आशीर्वाद देकर पूछा—दधिवल इस समय किस काम से, कहां गये थे ? तब दधिवल ने मुनि को नारान्तक का ऐश्वर्य सुनाया ।

सुनी निसाचर सम्पत्ति भारी * रहे ब्रह्मसुत हृदय विचारी
क्षणिक देवश्रुति मन अनुमाना * बार बार सुमिरे भगवाना

राक्षस की अधिक सम्पत्ति सुनकर नारदजी हृदय में विचार करने लगे । एक क्षण तक विचार कर मुनि ने बारम्बार भगवान का स्मरण किया ।

दोहा—दधिवल ते नारद कहेउ, सुनहु तात चितलाइ ।

तनु धरि जे हरिभक्त नहि, जन्म बाद जग जाइ ॥ ८ ॥

दधिवल से नारदजी बोले—हे तात ! मन लगाकर सुनो । जो शरीर पाकर भगवान के भक्त नहीं हुए, उनके जन्म जगत में वृथा हो गये ।

यह विचारि भजु रामहि ताता * उपजेउ ज्ञान सुनत मुनि बाता
श्रुति पद परषि आशिषा पाई * कपिपति सुत गमनेउ हरषाई

हे तात ! यह विचारकर श्रीरामजी को भजो । मुनि की बात सुनकर दधिवल को ज्ञान उत्पन्न हुआ । तब वह श्रुति के श्रवणों को स्पर्श करके और आशीर्वाद पाकर प्रसन्न होता हुआ चला ।

सपदि कोस तब पहुँचा तहँवा * पयनिधि मध्य रुचिरगिरिजहँवा
धवलागिरि तेहि नाम सुहावा * सुभग देखि कपिवर मन भावा

शीघ्र ही वह घानर वहाँ पहुँचा, जहाँ सागर के बीच में सुन्दर पर्वत था । धवलागिरि नामक मनोहर पर्वत को देखकर श्रेष्ठ कपि मन में बड़ा प्रसन्न हुआ ।

गौरि गिरीस सुमिरि रघुराई * कोन्ह निवास मनहि हर्षाई
नारद ताहि देइ उपदेशा * गए विरंचि धाम खग ईशा

श्रीशिव-पार्वती तथा रघुनाथजी का स्मरण करके वह मन में प्रसन्न होकर वहाँ पर रहने लगा । नारदजी उसे उपदेश देकर ब्रह्मलोक चले गये ।

उत दसमुख सुत विद्या पाई * जहाँ तहाँ कर विविध लराई
रावन दूत सभा को देखी * मन महँ चकित भयो विसेषी

उधर रावण का पुत्र नारान्तक विद्या पाकर जहाँ-तहाँ लड़ाई करने लगा । रावण का दूत (वहाँ आया और) सभा देखकर चकित हुआ ।

याम दिवस गत अवसर पावा * नारान्तक कहँ शीश नवावा
दीन्ह पत्रिका पद सिर नाई * कुशल तासु बूझेउ हर्षाई

एक पहर दिन बीतने पर अवसर पाकर उसने नारान्तक को शीश नवाया । चरणों में सिर नवा

गोधनी गनिणी थी। वह अपने पति से बोली-मनुष्य का मांस लाओ। मैं उसे खाऊँ तो जी में चैन हो।

तासु वचन सुनि खग अस कहेउ * अहिरावण रामहि लै गयेऊ
देइहि बलि देवहि सो जाई * बड़े भाग्य आमिष सो पाई

उसका वचन सुनकर पक्षी ने कहा-अहिरावण राम को ले गया है। यह बाकर देवी को बलि देगा। बड़े भाग्य हैं कि वह मांस मिलेगा।

कवनिहु जतन देव मैं आनी * अस कहि गृद्ध नारि सनमानी
जबहि पवनसुत यह सुधि पाई * चले हृदय सुमिरत रघुराई

किसी भी उपाय से मैं तुम्हें मांस ला दूँगा। ऐसा कहकर उसने मादा का आवरण किया। हनुमानजी ने जब यह समाचार पाया तो हृदय में धीरपुनाथजी का स्मरण करते हुए चले।

तुरत पतालहि तेहि छत गयऊ * अहिरावण पर प्रविसत भयऊ
द्वारपाल मकरध्वज कीसा * कपि सन डाटि कहत वह रीसा

वे उसी क्षण पाताल को गये और नगर में प्रवेश किया। (वही) मकरध्वज नाम का यानर द्वारपाल था। कपि (हनुमान) को डाटकर क्रोध से बोला-

निदरहि मोहि तोरि डर नाहीं * जिमि दोपक न पतङ्ग डराहों
माखसुत कर हौं मैं बालक * स्वामि भक्त भंजन मुखकालक

तू मेरा निरादर करता है, तुझे डर नहीं है! जैसे पतंगे को दोपक का डर नहीं होता। मैं पवन-पुत्र का बालक हूँ और काल का भी मुख-भञ्जन करने वाला स्वामि-भक्त हूँ।

सो०-सुनत वचन हनुमान, विसमयअस बोलत भये।

अरे मूढ़ अज्ञान, मोरें सुत सपनेहुँ नहीं ॥१०॥

यह सुनकर हनुमानजी आश्चर्य से बोले-अरे मूढ़ अज्ञानी! मेरे तो स्वप्न में भी पुत्र नहीं है।

कहत वचन सठ तोहि न खोरी * काम विवस कव मति मैं मोरी
मम सुत होसि मूढ़ केहि काजा * इतना कहत तोहि नहि लाजा

रे शठ! यह कहते तुझे डर नहीं लगता? मेरी बुद्धि काम के वश कब हूँ यो? रे मूढ़! मेरा पुत्र किस कारण बनता है? ऐसे कहते तुझे छात्र नहीं आता?

किहि प्रकार तैं मम सुत भइसी * निज उत्पत्तिमोसन किन कहसी
सुनत कहहि मकरध्वज वयना * कोन्ह तात तव लंका दहना

तू मेरा पुत्र किस प्रकार हुआ? अपनी उत्पत्ति की कथा सुनते क्यों नहीं करता? वह बोला-हे तात! जब आपने तज्जा-बहन किया।

जब आयउचलि उदिध समीपा * भयउ प्रस्वेद तुमहि कपि दीपा
छूटि प्रस्वेद सागर महें गयऊ * सो जप पियत तहाँ मैं

दिग योजन दल जब रहेउ, सुनि मुनीश सजान ॥१२॥

इस प्रकार नारान्तक तुरन्त ही अपने दल सहित लङ्का के निकट आया । हे ज्ञानी-मुनि ! जब चालीस कोस दल रह गया, तब जो कुछ हुआ सो सुनो ।

यहाँ कृपालु रमेश खरारी * असित जलद सम सैन निहारी
प्रभु सर्वज्ञ नीति हित हेतू * सचिव बोलि कह रघुकुल केतू

यहाँ लक्ष्मीपति कृपालु श्रीरामचन्द्रजी ने काले बादलों के समान सेना को आते देखा । प्रभु सर्वज्ञ हैं, तथापि नीति का पालन करने के लिए मन्त्रियों को बुलाकर बोले—

सखा विलोकहु दक्षिण ओरा * गर्जत घन आवत नहि थोरा
उमा राम सब अन्तरयामी * चरित हेतु पूछा अस स्वामी

हे सखा! दक्षिण की ओर देखो, बहुत से बादल गर्जते हुए आ रहे हैं । हे उमा ! श्री रघुनाथजी अन्तर्यामी हैं, किन्तु यह बात कौतुक के हेतु स्वामी ने पूछी ।

राम वचन सुनि दसमुख भ्राता * कह हँसि गहि प्रभुपद जलजाता
देव देव नहि दल जलवाहा * अहहि नारान्तक निसिचर नाहा

श्रीरामजी के वचन सुनकर विभीषण हँसकर और प्रभु के चरण कमल पकड़कर बोले— हे स्वामी ! यह बादलों का दल नहीं है, वरन् राक्षसों का राजा नारान्तक है ।

विहवावलपुर वसत गुसाईं * पठवा तेहि दसकन्ध बुलाई
आवत धूम्रकेतु चर संग * करत कुलाहल नाद उतंगा

हे गोसाईं ! यह विहवावलपुर में रहता है, इसे रावण ने बुला भेजा है । यह धूम्रकेतु दूत के साथ अत्यन्त फोलाहल और उच्च शब्द करता हुआ आता है ।

दोहा—तेहि संग गुणी अनेक प्रभु, गावत हनत निशान ।

सेन संग चतुरंग खल, डोलत विविध दिसान ॥१३॥

हे प्रभु ! इसके साथ अनेक गुणो भी हैं जो गाते और नगाड़े बजाते हैं । वे दुष्ट चतुरंगिनी सेना (हाथी, घोड़े, रथ और पैदल) लिए चारों दिशाओं में फिरते हैं ।

उत नारान्तक सेन समेता * गयऊ जहाँ दसकन्ध निकेता
सुतहि सुरारि मिला पुलकाई * कुशल बूझि पैठेउ हर्षाई

इधर नारान्तक सेना सहित रावण के महल को गया । रावण, पुत्र से पुलकित होकर मिला और कुशल पूछकर बड़ी प्रसन्नता से बैठ गया ।

देखि नारान्तक की समुदाई * दशमुख शठ सब सोच दुराई
जेहि विधि हरि लावा जगमाता * ताहि आदि कृत कृत बिख्याता

नारान्तक की सेना और ऐश्वर्य देखकर मूर्ख रावणने सब सोच भुला दिया और जिस प्रकार से जगत-जननी जानकीजी को हर लाया था, वह वृत्तान्त आरम्भ से सुनाया ।

सुतहि पूँछ ते वाँधि भवानी * चलेउवहोरिविलम्बवड़िजानी

एक दूसरे को हटा नहीं सकते । मारत और (उनके) पुत्र दोनों भारी योद्धा हैं । हे भवानी ! अधिक विलम्ब हुआ जानकर वे पुत्र को उसी की पूँछ में बाँधकर चले ।

धरि लघु रूप होम गृह देखा * जीव सजीव परै नहि लेखा
तहँ देवी कर मण्डप रहई * शोनित घटवहु को कहि सकई

सूक्ष्म रूप रखकर उन्होंने यज्ञशाला देखी, वहाँ जीव और प्राणियों की गिनती नहीं । वहाँ देवी का मण्डप है और बहुत से रपत नरे षड़ों का वर्णन कौन कर सकता है ?

विविध भाँति मेवा पकवाना * धरे आनि देवी अस्थाना
मलिन तहाँ सुमन लै आई * सुमन मध्य प्रविसे कपिराई

विविध भाँति के मेवा और पकवान देवी के स्थान पर रखे गये हैं । एक मालिन वहाँ पुष्प लेकर आई तो कपिराज एक पुष्प में प्रवेश कर गये ।

सुमनहु ते अधिकृत हलुकाई * सो लै सुमन मण्डपहि आई
सुमन सकल देवी पर चढ़ेउ * विकट रूप तब तहँ कपि वढ़ेऊ

वे पुष्प से भी अधिक हलुके होगये । वह पुष्प लेकर मण्डप में आई, सारे पुष्प देवी पर चढ़ गये, तब कपि का विशाल रूप बढ़ा ।

दोहा-छुवत चरन देवी तवै, धरनी गई समाय ।

मुख पसारि ठाढ़े भयउ, कपिछवि वरनिनजाय ॥१०२॥

हनुमानजी का चरण-स्पर्श करके देवी पृथ्वी में समा गई, तब हनुमानजी मुँह फाड़कर खड़े होगये । वह शोभा वर्णन नहीं की जाती ।

रूप देखि भा आनंद भारी * करहि विचार निसाचर शारी
कहहि कि देव प्रगट भइ आजू * वड़भागो भा निसिचर राजू

निशाचरों को वह रूप देखकर अत्यन्त आनन्द हुआ और वे विचार करके कहने लगे कि आज देवी प्रसन्न होकर प्रगट हुई है । राक्षसराज बड़भागो होगये ।

करि प्रनाम पुनि पूजा करहों * जोकुछआव सोकपिमुख भरहों
रहों जो सकल वस्तु समुझाई * वची न एकउ कपि सब खाई

फिर वे प्रनाम करके पूजन करने लगे । जो कुछ आता है, सो कपि के मुख में भर देते हैं । वहाँ जो सारी वस्तुओं के ढेर थे, वे एक भी न बचे, कपि ने सब खा लिये ।

कपि खिलार कौतुक विस्तारा * भा यह निसिचर कुल संहारा
अहिरावण उर भा सुख कैसे * चढ़े काँध पर बलि पशु जैसे

कपि के चलते कौतुक का विस्तार होता गया । राक्षस कुल का नाश होना ही था । अहिरावण के हृदय में कंसा सुप्त हुआ, जैसे कच्चे पर चढ़ने पर बलि के पशु के

एक दिशा में तो हनुमानजी इस प्रकार लड़ते हैं और दूसरी दिशा में बलधाम अङ्गदजी हैं।
दोहा—निसिचर सेना उदधि सम, मन्दर इव दोउ कीष।

मथत देखि जय रतन लागि, हँसे सकल सुर ईश ॥१५॥

राक्षसों की सेना समुद्र के समान और दोनों बानर-योद्धा मंदराचल के समान हैं। जो सेना-रूपी सागर को जय-रूपी रत्न निकालने के लिए मथते हैं। यह देखकर श्रीरामजी हँसे।

छंद—इमिनिरखि पराक्रम करत कीश। भा क्रोध परम रजनीचरीश
करि प्रलय क्रंद समघोरशोर। धरि कुधरि शस्त्र धाये कठोर

इस प्रकार बानरों को बड़ा पराक्रम करते देखकर नारान्तक को बड़ा क्रोध हुआ। प्रलयकाल के समान और बड़ा मयंकर शब्द किया और राक्षस कठोर शिला व शस्त्र लेकर दौड़े।

इक चार मारकर सरसमूह। किये विकल अस्त्रहनि कीशजूह
कोउ तेत दुहाई लषण राम। कोउ कहत विधाता भयो वाम

उसने एक ही चार में बाणों के समूह मारकर और अस्त्र प्रहार करके बानरों के झुण्ड व्याकुल कर दिये। वे कोई तो श्रीराम-लक्ष्मण की दुहाई देने लगे व कोई कहने लगे कि विधाता विपरीत हो गया है।

यहि बीच नारान्तक कर प्रधान। तेहि धाय गहेउ युवराज पान
बहु भट लपटाने अंग अंग। सब संग उड़ेउ अंगद उत्तंग

इसी बीच में नारान्तक के मन्त्री ने दौड़कर अङ्गद का पैर पकड़ लिया तथा और भी अनेक योद्धा उनके अङ्गों से लिपट गये। तब अङ्गदजी सबके साथ आकाश में जो उड़े।

नभ कीश कीन्ह कौतुक अभूत। रवि मंडल पहुँचे बालिपूत
अंगारे जारे तापन आँच। पुनि आयउ जहँ संग्राम रांच

आकाश में बालि-पुत्र ने विचित्र कौतुक किया कि सूर्य के निकट जा पहुँचे, जिससे तप-फर उनके अङ्ग जलने लगे (और वे नीचे गिर पड़े) तब अङ्गदजी युद्ध-भूमि में आये।

यहनिरखि अपरयूथपिशाच। फिर आइ गयउ सेना समाच
लै विषम शूल मारेसि प्रचण्ड। उरलाग आन अतिकठिन दण्ड

यह देखकर राक्षसों का दूसरा सेनापति पिशाचों की सेना सहित वहाँ आगया और एक बड़ा तीक्ष्ण त्रिशूल मारा। वह कठिन दण्ड उनकी छाती में आ लगा।

महि परेउ तनय तारा तुरन्त। लखि दौर परेऊ हनुमंत सन्त
सोइ सूल खँचि मारेऊ प्रचण्ड। ऊर लागि यूथपति सहसखण्ड

अङ्गदजी तुरन्त ही पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर साधु हनुमानजी दौड़े और कठिन त्रिशूल खँचकर उसीको मारा, उसके छाती में लगते ही सेनापति के हजारों टुकड़े होगये।

हम हनुमानजी का सुमिरण करें, ये बलवान धीर निकट हो हैं।

यह विचार प्रभु सुमिरन कीन्हा * होइहि सोइ जो विधि लिखदीन्हा
तब मारन कहँ उद्यत भयऊ * घन समान कपि गर्जत भयऊ

यह विचार कर प्रभु ने हनुमानजी का स्मरण किया। विधाता ने जो लिखा है, वह होगा। जब वह मारने को तैयार हुआ, तब भय के समान कपि गरजे।

निसिचर सकल त्रसित भै भारी * कहँहि वचन निज हृदयें विचारी
अहिरावन भल कीन्हा न काजू * आनेउ कपट वेप सुरराज

सारे राक्षस भयभीत हो गये। वे अपने हृदय में विचार कर कहने लगे-अहिरावण ने मला कार्य नहीं किया कि कपट वेप में देवताओं के स्वामी को हर साया।

तेहि ते देवि क्रुद्ध भइ आजू * अब भा सब कर परम अकाज
सभय भए सब निसिचर झारी * दूसरें कपि गर्जेउ अति भारी

इसी से देवी आज क्रुद्ध होगई है, अब सबका परम अहित हो गया। दूसरी बार कपि ने अत्यन्त धीर गर्जना की तो सब राक्षस व्याकुल होगये।

दोहा-प्रगट रूप करि पवन सुत, अट्टहास गम्भीर।

अति भय त्रसित निसाचर, सुनहु उमा मतिधीर ॥१०५॥

अपना स्वरूप प्रकट करके हनुमानजी ने गम्भीर हट्टहास किया। हे धीर-बुद्धि उमा! सुनो, निसाचर अत्यन्त डर गये।

उगमग भै निसिचर अभिमानी * मारत वह जिमि सागर पानी
तेहि छन कपि लीन्हे दोउ भाई * हते लागि निसिचर समुदाई

अभिमानी राक्षस विचलित हो गये, जैसे पवन के बहने से समुद्र का पानी घंचल हो जाता है। उसी क्षण कपि ने दोनों भाइयों को उठा लिया और ये राक्षस-समुदाय को मारने लगे।

खड्ग छुड़ाय लीन्हा हनुमाना * काटै लाग भुजा सिर नाना
काहुहि नाक कान विनु कीन्हा * धरि पद डारि अनलमहँ दीन्हा

हनुमानजी ने खड्ग छुड़ाती और बनेकों भुजा तथा सिर काटने लगे। किसी को चिना नाक का कर दिया, किसी को पकड़ कर पंर से रॉब कर अग्नि में फेंक दिया।

निज लंगूर की कोट बनाई * जिहि ते कोउ भागि नहि जाई
इहि विधि सब निसिचर संहारे * अहिरावण तब वचन उचारे

अपनी पूँछ का घेरा बना दिया, जिससे कोई भाग न जाय। इस प्रकार सब राक्षस मार डाले, तब अहिरावण बोला-

रे कपि ढीठ त्रास नहि तोही * अहिरावन में जान न मोही
जम्बु मालि कहँ जिमि तुम मारा * अब रावनसुत हतेउ विचारा

दोहा-शूल एक तेहि छाँड़ेउ, सो कर गहि ऋच्छेश ।

धाइ तासु उर मारेउ, भाँखि जयति अवधेश ॥१७॥

उसने एक त्रिशूल छोड़ा । उसे जामवन्त ने बीच में ही हाथ से पकड़ लिया और रघुनाथजी की जय कहकर दौड़कर उसकी छाती में मार दिया ।

लागत शूल सो मूर्छित भयऊ * जामवन्त तव करि गहि लयऊ

वार अमित महि माहिं पछारा * बाँधि गाढ़ि बारू महँ डारा

त्रिशूल लगते ही वह मूर्छित होगया, तब जामवन्त ने उसे हाथ में पकड़कर अनेक बार पृथ्वी पर पछाड़ा और बाँधकर बालू में गाड़ दिया ।

जागे सकल वलीमुख ऋच्छा * लगे करनरण निज निज इच्छा

जामवन्त यह हृदय विचारा * भरै नहीं यह खल मम मारा

उसी समय समस्त वानर-बालू जागे और अपनी-अपनी इच्छानुसार युद्ध करने लगे । जामवन्त ने मन में विचार किया कि यह दुष्ट मेरे मारने से नहीं मरता ।

विधि इच्छा पुनि ताहि उखारी * मुष्टि चारि उर माहिं प्रचारी

गहि पद संचारा गढ़ माहा * सपदि परा जहँ निसिचर नाहा

विधाता की इच्छासे उसको उखाड़ लिया और ललकार कर चार मुक्के उसकी छाती में मारे और पाँच पकड़कर लङ्का में फेंक दिया । वहाँ वह रावण के सामने जाकर गिरा ।

दसमुख तव हा हा करि धावा * नारान्तकहि हृदय निज लावा

निरखि निसाचर नहिं समुदाई * गढ़ महँ गे सब व्याकुल धाई

तब रावण 'हाय-हाय' कर दौड़ा और नारान्तक को हृदय से लगाया । उसको युद्ध में न देखकर राक्षसों के समूह घबड़ाकर किले के भीतर भागे ।

दोहा-कपिगण समय प्रदोष लखि, राम चरण धरि साथ ।

ठाढ़ भये सब तनु चितइ, दया दृष्टि रघुनाथ ॥१८॥

सन्ध्या समय देखकर वानर श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में मस्तक नवाकर खड़े हुए, तब धीरघुनाथजी ने उन्हें दया-दृष्टि से देखा ।

विनु श्रम कोन्ह सवन्ह जगदीसा * गए स्ववास भालु अरु कीसा

होत प्रभात नारान्तक जागा * पितु विलोकि लज्जा रस पागा

श्रीरामचन्द्रजी ने उन्हें श्रम रहित कर दिया, तब रोष्ठ-वानर अपने-अपने स्थानों को गये । प्रातःकाल होते ही नारान्तक जागा और रावण को देखकर लज्जित हुआ ।

रथ चढ़ि तुरत इकाकी धावा * नभ पथ समर भूमि महँ आवा

कोस कटक यह मर्म न जाना * होय लोप कीन्हेसि जरि वाना

तुरन्त वह अकेला ही रथ पर चढ़कर दौड़ा और आकाश-मार्ग से युद्ध-भूमि में आया । वानर-सेना ने यह भेद नहीं जाना और अदृश्य होकर बाणों की झड़ी लगादी ।

वहाँ दसानन सब सुधि पाई * दूतन्ह कही खबर सब जाई
सेना सहित दोनों भाई हृषित हुए । उस अवसर का जानन्य किस प्रकार कहा जाय ?
वहाँ रावण ने सब समाचार पाये । दूतों ने जाकर प्यार सुनायो ।

अहिरावन कर वध सुनि काना * भयउ तेज हित अति दुख माना
वचन वान सम लागेउ ताही * संभ्रम मूर्छि परेउ महि माहीं
मुखन सुखान लोचन जल वहई * वचनन आव पुनिपुनिसिर धुनई

अहिरावण का वध कानों से सुनकर तेजहोन होकर उसने अत्यंत दुःख माना । वे समाचार
उसे वान के समान लगे । वह चकराकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । मुँह मूछगया
नेत्रों से जल बहने लगा । उसका बोल नहीं आता और बारम्बार सिर धुनता है ।

दोहा—मयतनया तव आइ करि, बहु प्रकार समझाय ।

मानत मूढ़ न कालवस, परम क्रोध कहें पाय ॥१०८॥

तव मन्दोदरी ने आकर उसे अनेक प्रकार से समझाया, परन्तु यह मूढ़ कालवस नहीं
माना और अत्यन्त क्रोधित हुआ ।

॥ इति क्षेपक-अहिरावण की कथा ॥

⊗ अय क्षेपक-नारान्तक की कथा ⊗

नारि वचन सुनि तेहि रिस वाढी * उठि बैठेउ धरि धीरज गाढी
तेहि अवसर मन्त्री इक आवा * करि आदर दसमुख बैठवा

स्त्री के वचन सुनकर उसको क्रोध बढ़ा और अत्यन्त धैर्य धरकर उठ बैठा । उस समय
एक मन्त्री आया । रावण ने आदर पूर्वक उसे बैठवाया ।

सिन्धुरनाद नाम बलवाना * वृद्ध ज्ञानमय परम सुजाना
सदा विभीषण कर संग ठयऊ * कबहुँ दसमुख सभा न गयऊ

उस मन्त्री का नाम 'सिन्धुरनाद' था । यह बलवान, वृद्ध, परम ज्ञानी और चतुर था ।
यह सदा विभीषण के साथ रहता था और रावण की सभा में कभी नहीं गया था ।

आवा सो भल अवसर पाई * कहेसि नीति रावणहि बुझाई
ज्ञान कथा दसमुख न सुहानी * तव वहिराइ बात कह रानी

वह अच्छा अवसर जानकर आया और रावण की समझाकर नीति कहने लगा । रावण
की ज्ञान-कथा अच्छी न लगी तो यह बहलाकर दूसरी बात कहने लगा—

अक्षादिकन सुतन बल दूना * कस सुरारि मन मानहुँ ऊना
सचिव वचन सुनि दसमुख कहई * अब हमरे कुल को भट अहई

हे देव-शत्रु ! मन में भ्रान्ति क्यों मानते हो ? अभी तो अभय आदि पुत्रों से दूने पतन्यर पुत्र
यात्री हूँ । मन्त्री का वचन सुनकर रावण बोला-अब हमारे पुत्र में शोक से योद्धे ?

कर कहाँ चले, स्त्रियों के साथ लड़ने में तुम्हें लाज नहीं आती ?

सुनि मर्कटनि भयउ सुख भारी * तजी निशाचर दीन पुकारी
शिल प्रहार हव स्यंदन भञ्जा * आयुध तोरि सारथी गञ्जा

यह सुनकर वानरों को अत्यन्त सुख हुआ, उन्होंने आतंनद करती हुई राक्षसियों को छोड़ दिया। शिलाओं के प्रहार से उनके रथ और घोड़े चूर-चूर कर दिये तथा हथियारों को तोड़कर सारथी को मार डाला।

धरि पछारि रावण हग देखा * व्याकुल कीशन्ह कीन्ह विणेखा
लागे पद गहि लखन फिरावन * नाचहिं गाय रामयश पावन

रावण के देखते ही नारान्तक को पछाड़ दिया और बहुत व्याकुल कर दिया। वे राक्षसों के पैर पकड़कर फिराने लगे और रघुनाथजी का पवित्र यश गाने तथा नाचने लगे।

अस्ताचल रवि कीन्ह प्रवेशा * वन्दे चरण जाय अवधेशा
भये विगत श्रम वानर भालू * अनुज सहित मनमुदित कृपालू

सूर्यदेव ने अस्ताचल में प्रवेश किया तो वानरों ने कौशलापति के चरणों में सिर नवाया। रीठ-वानर श्रम-रहित हो गये और लक्ष्मण सहित कृपालु श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न हुए।

याम तीन यामिन गति जवहीं * उत नारान्तक जागेउ तवहीं
शोक विवश मीजत दोउ हाथा * लज्जित हृदयँ निशाचर नाथा

जब तीन पहर रात्रि बीत गई तो उधर नारान्तक जागा। शोक के कारण राक्षसराज नारान्तक दोनों हाथ मीजता है और मन में लजाता है।

छन्द-लज्जि कै रथै सँभारि वाजि साजि हृष्ट पुष्ट ।

शंक छाँड़ि शस्त्र माँड़ि गाढाष्ट वीर सङ्ग दुष्ट ॥

भेरि दुन्दुभी गाजि निशान गान काढ खेत कर्ता ।

धीर वीर अग्र गौन गाजि गाजि शब्द भर्ता ॥

लज्जित होकर, रथ को संभालकर, उनसे हृष्ट-पुष्ट घोड़े जोतकर, सब संदेह छोड़कर शस्त्रादि धाँधकर व अनेक वीरों को रथ को साथ लेकर बहुदुष्ट चला। भेरि, दुन्दुभी, नगाड़े बजाते हैं और फड़फड़ा-गान गाते हैं। धीरवान् वीर सेना के आगे चलते हैं और गर्ज-गर्जकर शब्द करते हैं।

जीव आश त्रास नास वाजि मोह छण्ड छण्ड ।

बंक शूर शंक दूर वीरता सपर चण्ड ॥

वाजि नाग शोर घोर पूरन दशों दिशान ।

धूरि दूरि मेघ ओघ शोध ना परा अपान ।

जीवन की आशा भय, घोड़ों के नष्ट होने का मोह छोड़ दिया, वीरतासे पूर्ण, प्रचंड बाँके शूरों ने संदेह को दूर कर दिया। हाथी-घोड़ों का दशों-दिशाओं में शोर मर गया। धूल से आकाश

तब रावण ने कहा—सब लोग यह काम जल्दी करो कि सब बालकों को बंदोर सारा, उनके रखने में अत्यन्त हानि होगी।

सेवक दशमुख आयसु पाई * धाए तुरत चरण सिर नाई
रावण आयसु नगर पुकारी * सुनहु सकल पुर नर अरु नारी

रावण को आज्ञा पाकर सेवक तुरन्त उसके चरणों में सिर नवाकर बोड़े। रावण को आज्ञा सारे नगर में फैला दी और कहा—हे नगर के पुरुष और स्त्रियो ! मुनो—

आजु अभुक्त मूल भए बालक * डारहु सागर सब कुल घालक
बोरे सबनि बाल इक ठाई * भावी वश मधुमाखी नाई

आज अभुक्त मूल में सब बालक हुए हैं, उन सब कुल-नामों को समुद्र में डाल दो। होनहार-वश सबने बालकों को एक ही जगह मधु-मण्डपों की तरह डाल दिया।

पाप अधार वृक्ष बट बोरा * पोवन लागे क्षोर चहुँ ओरा
पोवन क्षोर शब्द भर साती * पुष्ट भए खल निसिचर जाती

वे सब पाप के मूल बट के पत्तों से चिपटकर दूध पीते रहे। सात घण्टे तक दूध पीकर बृष्ट निशाचरों के बालक पुष्ट होगये।

पुनि सब एक सङ्ग तहँ जाई * सुरसरि सङ्गम मा जेहि ठाई
तहँ शिव मन्दिर परम सुहावा * सबकि विलोकिमुदित सिरनावा

फिर वे सब यहाँ गये, जहाँ गङ्गाजी का सङ्गम था। यहाँ अत्यन्त सुहायना शिवजी का मन्दिर था, उसे देखकर सबने प्रसन्न होकर सिर नवाया।

दोहा—जानति नहिँ उत्पत्ति निज, मन महँ करत विचार ।

गे तेहि ढिग जाकर विदित, रत्रि ते छठवाँ वार ॥ ३ ॥

वे अपनी उत्पत्ति नहीं जानते हैं और मन में विचार करते हैं। वे उनके पास गये, जिनका रविवार से छठवाँ वार विदित है। अर्थात् गुरुजी के पास गये।

हरि अरि गुरुनिज शिष्यन्ह चीन्हा * करत प्रणाम आशिष दीन्हा
कह निज नाम सबनि समुझावा * कुलगुरु जानि सुविनय सुनावा

दंत्यों के गुरु ने अपने शिष्यों को पहिचान लिया और प्रणाम करने पर आशीर्ष दिया। गुरुजी ने अपना नाम कहकर सबको समझाया। उन्होंने कुलगुरु जान मुन्दर विनती की।

निज उत्पत्ति वृक्षी शिर नाई * भृगुनन्दन सो सकल सुनाई
सुनि आपन वृत्तान्त लजाने * लखि रह्य भृगुनायक सनमाने

उन्होंने सिर नवाकर अपनी उत्पत्ति पूछी तो गुरुजी ने सब कथा कह सुनाई। वे अपना वृत्तान्त सुनकर सज्जित होगये। उनको चेष्टा देखकर गुरुजी ने उनका सम्मान दिया।

करि परितोष मन्त्र गुरु दीन्हा * शिक्षा पाइ गमन

सन्मुख कोउ कर न लड़ाई * कपिन्ह मारि रणभूमि सोवाई

वानरों को पसारा हुआ हाथ भी नहीं बोखता, जहाँ-तहाँ एक दूसरे को पुकारते हैं। कोई राक्षस सामने आकर नहीं लड़ता।

गए अनेक भजि सिंधु समीपा * सेन विकल लखि रघुकुल दीपा
सजि सारङ्ग तजा एक बाना * भा प्रकाश दिन तरुण समाना

अनेक वानर भागकर समुद्र-तट पर आ पहुँचे। श्रीरघुनाथजी ने सेना को व्याकुल देखकर धनुष चढ़ाकर एक बाण छोड़ा तो सूर्योदय के समान प्रकाश होगया।

लखि तम विगत भालुकपि हरणे * कटकटाय धाय रिपु घरषे
भिरे एक सन एक प्रचारी * लागे करन युद्ध अति भारी

अन्धकार को दूर हुआ देखकर रीछ-वानर प्रसन्न हुए और कटकटा कर दौड़कर शत्रुओं को मारने लगे। वे एक दूसरे को ललकार कर मिड़ गये और भारी युद्ध करने लगे।

दोहा-कोटि ब्यालीस तमोचर, नारान्तक कर घाति।

रामकृपा बल हति खलन्ह, कपिन्ह बिताई रात ॥२१॥

श्रीरामचन्द्रजी की कृपा से नारान्तक की सेना के ब्यालीस करोड़ राक्षसों का बल क्षीण करके वानरों ने वह रात बिताई।

प्रभु तुरीण महँ धरि शर तबही * कीन्ह प्रवेश उदय रवि जबहीं
देखि कटक निज परम बिहाला * नारान्तक भट कोटि कराला

सूर्यदेव उदय हुए, तब प्रभु श्रीरामजी के प्रकाशयुक्त बाण तरकस में लौटे। करोड़ों विकराल योद्धाओं की सेना को व्याकुल देखकर नारान्तक ने-

शर अस्तम्भन विपुल पँवारे * भए अचल कपि टरहिं न टारे
लै लै पास निसाचर धाए * बाँधत जिमि चुङ्गल शुक पाए

अनेक स्तम्भन (गति रोकने वाले) बाणों को चलाया, तो वानर अचल हो गये, वे टालने से भी नहीं टलते। अन्धन ले-लेकर राक्षस दौड़े, मानो चाँगली पर तोतों को पाकर बाँधने लगे हों।

जे कपि लखे विपुल बलवंका * तेइ मूर्छित फेंके गढ़ लंका
रावण देखि तनय की करनी * बन्दीजन जिमि भुजबल बरनी

नारान्तक जिन वानरों को बड़े बाँके बलवान् देखता है, उन मूर्छितों को लंका में फेंक देता है। रावण ने अपने पुत्र की करनी देखकर माटों की तरह उसका बल वर्णन किया।

अङ्गद हनुमान जब जागे * नारान्तक सङ्ग जूझन लागे
क्षण एक कोश न पायउ लरइ * पुनि शर हति मूर्छाविश करई

अङ्गद व हनुमानजी जब जागे तो नारान्तकसे फिर लड़ने लगे। एक क्षण भी ये दोनों लड़ने न पाये थे कि उसने बाण मारकर उन्हें फिर मूर्छित कर दिया।

दयउ नारान्तक कहं वरदाना * रहे असुर जे धरिउर ध्याना
तिन्ह सन वरब्रूहि विधि कहेऊ * सुनत प्रमोद सबनि उर लहेऊ

बह वरदान नारान्तक को दिया । अन्य जो हृदय में ध्यान धर रहे थे, उनसे ब्रह्माजी ने कहा कि देवासुर-संग्राम में हमारी विजय हो । आपसे यह वरदान मांगते हैं ।

सुनि विधि गिरा सबनि कह स्वामी * देहु एक वर अन्तर्यामी
देवासुर संग्रामहि माहा * जोतहि हम यह वर सुरनाहा

ब्रह्माजी की वाणी सुनकर सबने यही कहा कि हे स्वामी ! आप अन्तर्यामी हैं, यह एक वर बीजिए कि देवासुर-संग्राम में हमारी विजय हो । हम आपसे यह वर मांगते हैं ।

अस कहि रहे दनुज सिर नाई * तिन्ह सन कहेउ धिरंचि बुझाई
तुम्ह अजोत सबु सन सब भाँतो * वानर भालु त्यागि दुइ जाती

ऐसा कहकर वे राक्षस सिर नयाकर पड़े रह गये । ब्रह्माजी ने समझाकर उनसे कहा वानर और भालु, दो जातियों को छोड़कर तुम सबसे अजित रहोगे ।

यह विधि सब कहें दे वरदाना * ब्रह्मलोक गे ब्रह्म सुजाना
शिव प्रसाद नारान्तक पावा * अन्तरिक्ष पर सपदि वसावा

इस प्रकार वरदान देकर सुजानी ब्रह्माजी ब्रह्मलोक को चले गये । तब शिवजी की कृपा से नारान्तक ने आकाश में शीघ्र हो नगर (विहवावलपुर) को बसाया ।

दोहा-ऋतु रचि गुने कोटि सत, भवन वसे इक ठौर ।

जात रूपमय नग जटित, अति शोभित चहुँ ओर ॥ ६ ॥

एकहीस्थान पर बहत्तर करोड़ सोने तथा मणि-जड़ित घर बने हुए चारों ओर शोभा दे रहे हैं ।

हरि प्रेरित तेहि काल महँ, दधिवल पहुँचा आय ।

पुर विहवावल निरखि सो, कछु दिन रहा लुभाय ॥ ७ ॥

भगवान की इच्छा से उस समय वहाँ दधिवल नामक वानर आया । विहवावलपुर को देखकर मोहित होकर कुछ दिन वहाँ रहा ।

भावीवस निसिचर सँग कीशा * वर्ष एक पढ़ सुनहु मुनीशा
गुरु इक वार कहेउ रिसियाई * हतिहसि तें आपन गुरु भाई

हे मुनिराज ! मुनिषे, होनहार वरा यह वानर राक्षसों के साथ एक वर्ष तक पढ़ता रहा । एक वार गुरु ने क्रोधित होकर कहा-रे मूर्ख ! तू अपने गुरु-भाई को मारने जाता होगा ।

बिनु अध सुनि दधिवल गुरु शापा * विदा माँगि गमना करि दापा
मारग मिले देवऋषि तेही * गहेउ सुकण्ठ सुवन पग नेही

बिना अपराध के गुरु का धाप सुनकर दधिवल बिरा माँगकर अभिमान सहित वहाँ से चला आया । मार्ग में उसे देवर्षि नारदजी मिले । सुग्रीव-पुत्र ने प्रेम सहित उनके घरण पर

राक्षस-वानर-भालुओं का-सा वेष रखकर वानरों को खाने लगे-यह वानरों ने
 दोहा-तेहि अवसर जागे लखन, देखा सैन्य विना
 अहिरावन छल पवनसुत, समुद्रत उड़ा अका

उसी समय लक्ष्मणजी जागे तो सेना का नाश होते देखा । पवन-पुत्र कपट
 का छल समझकर आकाश में जा उड़े ।

गर्जेउ जाय भयंकर भारी * फटेउ हृदयसुनि नि
 मायाहर शर लखन पँवारा * उघरे कपट कपा

वे जाकर बड़े जोर से गरजे, उसे सुनकर कपटी राक्षसों के हृदय फट गये
 ने माया हरने वाले वाण को छोड़ा तो कपटरूपी किवाड़ खुल गये ।

नारान्तक के माया बीती * गयउ यज्ञशाला उ
 खोजेसि सकल सामग्री ताकी * कीन्ह अरम्भ विजय

नारान्तक की माया समाप्त होगई, तब वह प्रेम से यज्ञशाला में गया ।
 सामग्री ढूँढी और अपनी विजय के हेतु यज्ञ आरम्भ किया ।

यज्ञ आसुरी तेहि तब ठाना * पशु समूह बलि क
 भये निशामुख श्रमवश सैना * फिरे सुमरि सब र

तब उसने तामसी-यज्ञ का अनुष्ठान किया और बलि के लिए पशु-समूह
 सन्ध्या होने पर जब सेना थक गई तब सब श्रीरामजी का स्मरण करके लौटे
 तुरत अहीस राम पहुँ आए * सहित अनी प्रभु प
 कृपानयन निरखे मृग शाखा * प्रभु श्रम छीन दी

लक्ष्मणजी तुरन्त ही श्रीरामजी के पास आये और सेना समेत प्रभु के
 सिर नवाया । दीनदयालु प्रभुने वानरों को कृपादृष्टि से देखा और उन्हें श्रम र

दोहा-टिकहु धरनि सब सन कहा, सुखसागर रघु
 पाय रजायसु भातु कपि, चले सुमिरि श्री

सुख के समुद्र श्रीरघुनाथजी ने सबसे कहा कि अपने-अपने
 पाकर वानर-भालू श्रीरघुनाथजी का स्मरण करके चले ।

कहत सुनत इतिहास शुचि, निशि बीत
 खगपति आए देव ऋषि, जहँ शो

(कागभुशुण्डिजी कहते हैं-) हे गरुड़जी ! पवित्र इतिहास
 रात्रि बीत गई । तब देवर्षि नारदजी वहाँ आये-जहाँ श्रीर
 शीश नाइ प्रभु आसन दीन्हा * आशिर
 मुनि नीके हरि रूप विलोका * यथा इ

कर रावण को पत्रिका से और प्रसन्न होकर सबको कुशल पूछो ।

दोहा—नारान्तक निज कुशल करि, वृक्षा दसमुख हेतु ।

समाचार गढ़ लंक कर, वरणेउ दूत सचेतु ॥ ६ ॥

नारान्तक ने अपनी कुशल कहकर, रावण को कुशल पूछो । दूत ने सचेत होकर लंका-गढ़ के समाचार वर्णन किये ।

कहेउ वजाहु निसान घन, सजहु सेन चतुरङ्ग ।

जन्म भूमि जावा चहहूँ, पितु चारन के सह ॥ १० ॥

तब उसने कहा-घमासान नगाड़े वजाओ और चारों प्रकार की सेना सजाओ । मैं पिता के दूत के साथ जन्म-भूमि को जाना चाहता हूँ ।

आयसु दीन्ह नारान्तक राजा * लगे निसाचर साजन साजा
सुभग वाज गज उठ्ठर नाना * रथ खच्चर खेवर बहु याना

राजा नारान्तक को आज्ञा पाकर राक्षस अपने साज सजाने लगे । सुन्दर घोड़े, हाथी, ऊँट, रथ, खच्चर और बहुत से आकाश विमान ।

नाना अस्त्र शस्त्र गहि पानी * निसिचर अनो न जाइ बखानी
ते सब संजुग साज सजाई * विविध निषान हने हर्षाई

तथा नाना प्रकार के शस्त्र हाथ में लिए राक्षसों की सेना बपानी नहीं जाती । उन्होंने एकत्रित होकर साज सजाकर प्रसन्न होते हुए अनेक निशान बजाये ।

कन्त जात निश्चय जियँ जानी * विन्दुमती निज चित अनुमानो
राम विरोध न यह कल्याना * महुँ संग अब करहुँ पयाना

स्वामी का जाना निश्चय जानकर उसको स्त्री विन्दुमती ने मन में विचार किया कि धीरामजी से विरोध करने में इनका भला नहीं है । अतः अब मैं भी स्वामी के साथ चलूँगी ।

भूषन बसन सुअंग बनाई * कन्त चरन गहि विनय सुनाई
सास श्वसुर दर्शन हित नाथा * हमहूँ चलव प्राणपति साथा

सुन्दर अंगों में वस्त्राभूषण सजाकर उसने पति के चरण पकड़कर विनती की-हे प्राण-नाथ ! मुनो, सास-श्वसुर के दर्शनों के लिए मैं भी आपके साथ चलूँगी ।

दोहा—दशमुखसुत सुन तियवचन, हृदय हरपि सुख मानि ।

कहेउ चलहुसब सखिनसह, प्रमुदित छाँड़ि ग्लानि ॥ ११ ॥

रावण-पुत्र ने पत्नी की बात सुनकर हृदय में अत्यन्त सुख माना और कहा-सब तंकोष छोड़कर सधियों सहित प्रसन्न होकर हमारे साथ चलो ।

नारान्तक लंका तुरत, दल समेत नियरान ।

देखि तरणि सम तासु प्रकाशा * ठाढ़ भयउ कपि मन्दिर पासा

बल के धाम पवन-पुत्र साढ़े तीन घड़ी में वहाँ पहुँचे । उसके भवन का सूर्य के समान प्रकाश देखकर कपिराज उसके पास खड़े हो गये ।

क्षण एक कपि सम कीन्ह विचारा * प्रभु पहुँ चलिये कवन प्रकारा
जो गृह सहित जाउँ लै ऐही * नहिँ अस आयसु भक्त सनेही

एकक्षण हनुमानजी ने मनमें विचार किया कि प्रभु के पास कैसे चला जाय ? जो इसको घर समेत ले चलूँ, तो भक्त-प्रेमी की आज्ञा ऐसी नहीं है ।

अचल ध्यान करि दासु प्रनामा * तजि प्रवीनता भजि भगवाना
विधि प्रेरित दधिवल लघुशंका * करन उठेउ देखा भट बंका

दधिवलके अचल ध्यानको महावीरजी ने जाना तो चतुराई छोड़कर भगवानको स्मरण करने लगे । देव-इच्छा से दधिवल लघुशंका करने को उठा तो उसने बाँके वीर को देखा :

जय श्रीराम वायुसुत बोला * सुनदधिवलनिज लोचन खोला
पुनि हनुमान कहेउ सुनु भ्राता * चलहु विलोकन त्रिभुवन त्राता

पवनपुत्र ने 'जयश्रीराम' कहा, यह सुनकर दधिवल ने अपने नेत्र खोले । तब हनुमानजी ने कहा—हे भाई ! सुनो, तीनों लोकों के रक्षक—श्रीरामचन्द्रजी के दर्शन को चलो ।

दोहा—धूरजटी हृद मानसर, बसत हंस इव जोइ ।

सादर तुम्ह कहूँ लैन हित, पठवा मोहि प्रभु सोइ ॥२६॥

जो शिवजी के हृदयरूपी मानसरोवर में हंस की तरह बसते हैं, उन्हीं प्रभु ने आदर सहित तुम्हें लेने को मुझे भेजा है ।

सुनि शुभ वचन सुकण्ठ कुमारा * हरि पहुँ हरिसँग तुरत सिधारा
आए नाथ निकट मृगशाखा * देखे पद जे हर हियँ राखा

पवित्र वचन सुनकर सुग्रीव-पुत्र (दधिवल) कपिके साथ तुरंत प्रभुके पास चल दिया । दोनों वानर प्रभु के पास आये और वे चरण देखे—जो शिवजी ने हृदय में धारण कर रखे हैं ।

रहेउ चरण गहि प्रीति समेता * दधिवल निरखेउ कृपानिकेता
सानुज हरषि मिले सुखपुञ्जा * तासु पानि गहि निज करकञ्जा

दधिवल प्रीति सहित चरण पकड़े हुए रह गया । तब कृपा के धाम प्रभु ने उसे देखा । अपने कर-कमलों से उसकी बांह पकड़ कर प्रभु लक्ष्मणजी सहित उससे मिले ।

बैठे ताहि निकट बैठावा * तेहि अवसर सुकण्ठ तहँ आवा
निरखि तनय कपि अति हरषाना * मिलत प्रेम नहिँ जाइ बखाना

वे बैठे और उसे भी अपने पास बैठाया । उस समय सुग्रीव वहाँ आये तो पुत्र को देखकर वानर-राज बड़े प्रसन्न हुए, मिलने का प्रेम बखाना नहीं जाता ।

कुम्भकरन घननाद निपाता * कहि विलखा अहिरावन घाता
पितु मुख मलिन नारान्तक देखा * बोला छाल तव गर्व विसेखा

कुम्भकर्ण, मेघनाद और अहिरावण का वध कहते हुए व्याकुल हो गया। नारान्तक ने पिता का मुख मलिन देखा तो वह दुष्ट बड़े गर्व से बोला-

तजहु सकल संसय विबुधारी * करिहुँ प्रात समर अति भारी
चमू कीस विनु क्षिति कर ताता * धरिहौ तापस होत प्रभाता

हे देव-राय ! समस्त सन्नेह को त्याग दो, प्रातःकाल में बड़ा भारी युद्ध करूँगा। प्रातःकाल होते ही पृथ्वी को वानरों से रहित करके दोनों तपस्वियों को पकड़ लाऊँगा।

दोहा-सुनत बीस भुज सुत वचन, वार वार उर लाइ।

लाग करावन नृत्य जड़, गुणी समूह बुलाइ ॥१४॥

पुत्र के वचन सुनते ही रावण ने उसे बारम्बार हृदय से लगाया। यह मूर्ख गुणियोंको बुलाकर नृत्य कराने लगा।

शयन करहु कहि सुतहि निसाचर * उठा आप मतिमन्द अघाकर
सो रजनी गत भयउ प्रभाता * जागे रघुवर त्रय जग चाता

फिर वह मूर्ख, पापोंका घेर, राक्षस, रावण-पुत्र से 'तुम भी जाकर शयन करो' यह कहकर स्वयं उठा। जब रात्रि बीत जाने पर भोर हुआ तो तीनों लोकों के राक्षस और पुनायजी जागे।

कपि घेरा गढ़ यह सुनि काना * रावन सुत सब निपट रिसाना
साजि विपुल दल हनत निसाना * गढ़ ते चला निकर बलवाना

तब वानरों ने लड्डू को घेर लिया, यह सुनकर नारान्तक बड़ा क्रोधित हुआ, वहमहा, बली अपनी अपार सेना सजाकर नगाड़े बजाकर लड्डू से निकला।

चारि द्वार करि कठिन लराई * विशिख वरपिक पिदल विचिलाई
निकरे निसिचर गढ़ ते कैसे * शलभ समूह शैल ते जैसे

चारों द्वारों पर संग्राम करके बाणों की वर्षा करके उसने वानर-सेना को विचलित कर दिया। राक्षस लड्डू से इस प्रकार निकले, जैसे पर्यंत से टीढ़ो-बल निकलता हो।

मारुतसुत देखा कपि भाजे * कटकटाइ अति विक्रम गाजे
कपि लंगूर चहुँ ओर घुमाई * रोको खल निसिचर समुदाई

हनुमानजी ने देखा कि वानर भागने लगे तो वे कटकटा कर अमित बल से गये। चारों ओर अपनी पूँछ पुमाकर दुष्ट राक्षसों को निकलने से रोका।

पटकत महि निसिचर फल बेलू * केतिक देत विदिस दिसि मेलू
इक दिसि इमि हरि कृत संग्रामा * दिसि दूजी अंगद बलघामा

बेलके फलोंके समान राक्षसोंको पृथ्वीपर पटकने लगे, कितनों को दिसा-विदिसा में खँक्री

कि वानर तो स्वभाव से ही निशिदिन डरपोक होता है ।

वालिहि हतेउ जौन तपधारी * भा अङ्गद तिन्ह आज्ञाकारी
दधिवल यह वानर कुल रीती * हमरें करहि न अरि सन प्रीती

जिस तपस्वी ने वालि को मार डाला, अङ्गद उसी का आज्ञाकारी हुआ । हे दधिवल !
हमारे कुल में शत्रु से मेल नहीं करते, यह तो वानर-कुल की ही रीति है ।

यह कह प्रभु सन्मुख सो धावा * दधिवल लूम लपेट टिकावा
नारान्तक कह रे शठ वानर * तव मनु नहीं मोर डर कादर

यह कहकर वह प्रभु के सन्मुख दौड़ा, तो दधिवल ने उसे पूँछ में लपेट कर वहाँ ठहरा
दिया । नारान्तक ने कहा—रे मूर्ख कायर बन्दर ! क्या तेरे मन में मेरा डर नहीं ?

छाँड़ेउ मूढ़ समुझि गुरु भाई * अस कहि पेलि चला कठिनाई
तव सुकण्ठसुत क्रोधित भयऊ * सपदि जाति आगे गहि लहेऊ

रे मूर्ख ! तुझे गुरुभाई समझकर छोड़े देता हूँ, यह कहकर जोर से धक्का देकर चला ।
तब तो सुग्रीव-पुत्र को क्रोध हो आया और शीघ्र ही आगे जाकर उसे पकड़ लिया ।

दोहा—नारान्तक दधिवल भिरे, निरखि भालु अरु कीश ।

लगे लरन सँग निशिचर, कहि जय श्री जगदीश ॥२८॥

नारान्तक और दधिवल मिड़ गये । यह देखकर वानर भालु 'श्रीरामजी की जय हो'
यह कहकर राक्षसों के साथ लड़ने लगे ।

जामवन्त सन वचन मूढु, कहेउ सुकण्ठ पुकारि ।

कहेउ तात दधिवलकवहि, दनुजहि डारिहि मारि ॥२९॥

तब सुग्रीव ने जामवन्त से पुकार कर कोमल वचन कहे—हे तात ! दधिवल राक्षस को
कब तक मार डालेगा, सो ?

समर करत लागी अति वारा * यह सुनि बोले ऋक्ष भुवारा
क्षणक हृदय धरु धीर कपीसा * दधिवल गुरुसन लही अशीशा

क्योंकि युद्ध करते हुए, बड़ी वेर हो गई है । यह सुनकर भालुपति बोले—हे वानरराज !
क्षणभर हृदय में और धैर्य धरिये, दधिवल ने गुरु से आशीर्वाद पाया है ।

सो अवसर अब आनि तुलाना * एक पलक महँ महिरि अजाना
सुनि हरीश मन महँ अति हरषे * तवहीं विबुध सुमन बहु वरषे

वह अवसर अब आ चुका है, अज्ञानी नारान्तक एक क्षण में मर जायेगा । यह सुनकर
सुग्रीव मन में अत्यन्त प्रसन्न हुए, उस समय देवताओं ने बहुत पुष्प बरसाये ।

दधिवल धनि धनि भुजवलतौरा * रण कौतूहल कीन्ह न थोरा
हरि अस्तुति सुनि हरिसुत कोपा * कपिहिसहित खल भयउ अलोपा

सब चरित सुनेउ रघुकुल दिनेश। कह जाहु वेगि अहिराज शेष
चले माथ नाय शंकर मनाई। धनुषवाणवाँधि विकराल आइ

यह समाचर सुनकर रघुनायजी बोले-हे लक्ष्मण! तुम शीघ्र जाओ। लक्ष्मणजी मस्तक नचाकर, विकराल धनुष-वाण धारण करके और शिबजी को मनाकर चले।

दोहा-विगत भई मूर्छा तुरत, बहुरि चले युवराज।

लक्ष्मण चापि टंकोरि सुनि, फिरा कीशदल साज ॥१६॥

जैसे ही मूर्छा दूर हुई कि तुरंत अङ्गवजी फिर युद्ध करने चले। लक्ष्मणजी के धनुष को टंकोर सुनकर बानरों का समाज लौटा।

सुनत टंकोर सरासन निसिचर * वधिर भए नहिं सुनत शब्द पर
वर्षा विसिख कोन्हा रघुनाथा * काटे पाणि पाँय बहु माथा

धनुष को टंकोर सुनकर निशाचर बहरे होगये। दूसरा शब्द सुनाई नहीं देता था। लक्ष्मणजी ने बहुत से बाणों की वर्षा करदी और अनेकों हाथ-पंर और सिर फाट डाले।

इत कपि भालु विजय अभिलाषे * उतहिं निसाचर जय हित राखे
मास्त सुत अङ्गद बलवीरा * समर वाँकुरे अति रणधीरा

इधर भालु और बन्दर विजय चाहते हैं, उधर राक्षस अपनी जीत के हेतु लड़ते हैं। श्री महावीरजी और अङ्गवजी बलवान, युद्ध में बाँके और रण में धैर्य धारण करने वाले हैं।

सिंहनाद कोन्हा कपि दोऊ * भाजे कपि रण गाजे सोऊ
बहुतन के सिर तोरि चलावहिं * निज भुजबल रावणहि जनावहिं

दोनों बानरों ने सिंहनाद किया, तब भागे हुए बानर भी युद्ध करने लगे। ये अनेकों के सिर तोड़कर फेंक देते हैं और रावण को अपना भुज-बल दिखाते हैं।

मरे निशाचर अमित निहारी * रावन सुवन कोप भा भारी
रथ समेत ऊपर नभ जाई * भयउ अदृश्य अस्त्र झरि लाई

अनेक निशाचरों को मरे देखकर नारान्तक को बड़ा क्रोध हुआ। वह रथ समेत आकाश में जाकर अदृश्य हो गया और अस्त्रों की झड़ी लगा दी।

क्षणभहँकरि मूर्छित कपि सयना * पुनि सठ गाजइ राजिव नयना
गजि सो मनहुँ मेघ समुदाई * कहन लागि कटु वचन रिसाई

क्षणमात्र में बानर-सेना को मूर्छित कर वह मूर्छ धीरामजी के पास गया और मेघों के समान गरज कर क्रोध से कटु वचन कहने लगा-

होउ सजग निसिचर कुलद्रोही * वधु वैर लगि मारहुँ तोही
हे राक्षस-कुल-द्रोही! सावधान हो, आज मैं भाई के वंर के कारण तुझे मार दूँगा।

पुनि दधिवल हरि कीन्ह वड़ाई * श्रीपति श्रीमुख बहु विधि गाई

प्रभु को आज्ञा पाकर सुग्रीव ने वह शीश यत्न पूर्वक रख लिया। फिर प्रभु ने दधिवल की वड़ाई की और अपने श्रीमुख से अनेक भाँति से उससे वर्णन किया।

जासु वड़ाई क्रिय बढ़ ईसा * सखहि सराहत सो जगदीसा
दधिवल प्रभु अनुकूल विलोको * सफल जन्म लखि भयउ विसोकी

जिनकी वड़ाई करने से समर्थजन बड़े हुए हैं वे जगदीश्वर अपने सखा को सराहना करते हैं। प्रभु को अपने अनुकूल देखकर व अपना जन्म सफल समझकर दधिवल शोक रहित हो गया।

प्रेम वारि लोचन कर जोरी * बोलेउ गिरा भक्ति रस बोरी
जगदात्मा तुम्हार यह वाना * सन्तन करहु दीन मन माना

नेत्रों में प्रेमाश्रु भरकर, हाथ जोड़कर और वागों को भक्ति-रस में डुबोकर वे बोले-हे जगदात्मा प्रभु! आपका तो यह स्वभाव ही है कि आप सदैव दोनों के मन की बात करते हैं।

दोहा-वनचर पासर सहज जड़, बुद्धि विषम अज्ञान।

विरद स्वभाव कृपाल प्रभु, सेवक सुयश बखान ॥३१॥

मैं पापी वानर स्वभाव से ही सूख, छोटी बुद्धि वाला और अज्ञानो हूँ। तो श्री कृपालु प्रभु ने अपने यशस्वी स्वभाव के कारण ही सेवक के सुयश को बखाना है।

तव यश विसल विदित अवधेशा * कहत न पार पाव श्रुति शेषा
सो मैं प्रभु कहि सकहुँ न कैसे * पर्ण वणिक गजमणि गुण जैसे

हे अवध-नरेश! आपका निर्मल यश प्रगट है, उसे कहते हुए वेद और शेषजी भी पार नहीं पाते, हे प्रभु! उसे मैं कैसे नहीं कह सकता, जैसे कि कुँजड़ा गजमुक्ता के गुणों को नहीं कह सकता।

अस कहि हरि हरिपद लपटाने * देखि प्रेम कपि विवुध सिहाने
विनु अभिमान ताहि प्रभु जाना * दीनदयाल बहुरि सनमाना

यह कहकर दधिवल, प्रभु के चरणों में लिपट गया। उसका प्रेम देखकर वानर और देवता सिहाने लगे। उसे अभिमान रहित देखकर प्रभु ने अत्यन्त आदर किया।

माँगु वत्स जो वर मन भावा * सुनि दधिवल करि विनय सुनावा
नाम तुम्हार रूप गुण नासा * करहिं निरन्तर मम उर धामा

और कहा-हे तात! जो मन में आवे, वही वर माँगो। यह सुनकर दधिवल ने विनती करके कहा-हे तात! आपके रूप, गुण और नाम सदैव मेरे हृदय में धर बनावें।

होहिं मोहि पद पंकज कैसे * कामिहि वाम सूस धन जैसे
एवमस्तु तुम्ह कहँ वर एह * मम इच्छा कछु औरउ लेहँ

हे प्रभु! आपके चरणकमल मुझे ऐसे प्रिय हों, जैसे कामी पुत्र्य को स्त्री और कृपण को धन होता है। श्रीरामजी बोले-ऐसा ही होगा। तुम यह वरदान लो और मेरी तरफ से कुछ और भी लो।

बाण एक सत वज्र समाना * छाँड़ेसि शठ जहं कृपा निधान
लागत विपुल कीस मुरझाने * बहुतक कायर देखि परान

उस मुख ने वज्र के समान सी बाण, जहाँ शीरघुनायत्री थे, वहाँ छोड़े । बाण लग ही बहुत से बानर मुरझा गये और बहुत से कायर देखते ही भागने लगे ।

वे सब वीर हाँक दै धारवाहिं * नभ महे खोजत ताहि न पावहिं
तब सब वीर एक मति ठाना * लै गिरि तरु किय लंक पयान

तब वे सब बानर-योद्धा ललकार कर आकाश में वीड़ते हैं, किन्तु उसे वहाँ खोजने से मं नहीं पाते । तब सब वीरों ने एक सलाह की और वृषभ पर्वत लेकर लज्जा में गये ।

दस मुख भवन तासु कँगूरा * बैठे कपि पसारि लंगूर
कर ते डारि देहिं पाषाणा * बहुत दनुज भे चूर्ण समान

रावण के महल के कँगूरों पर पूँछ फँसाकर बँठ गये । वे हाथों से पत्थर डाल बेंते हैं उनसे बहुत से राक्षस चूर्ण हो गये ।

छन्द—भे चूर्ण निसिचर यूथ । गड़ निसिचरो भय गूथ ॥

मुख बोन आरत दीन । भई भवन रावन लीन ॥

राक्षसों के समूह चूर्ण हो गये, भय के मारे राक्षसियाँ भाग गईं, मुख से दुःख का आतं नाव करती हुई वे रावण के घर में घुस गईं ।

रिपु कान कर पद हीन अगणित दीन वचन पुकारहीं ।

गढ़ ते निकरि निशल अखिल खल विपिन वाट सिधारहीं ॥

पोपर परण सम धरणि लंका कम्प घट कीशन करी ।

ताते कपाट निपाट अरि तिय केश खँचत गहि परी ॥

अनेक शत्रुओं के हाथ पाँव तोड़ डाले । वे बोन-वचन पुकारते हैं और बुष्ट रावण के गढ़ से निकल कर धन को भाग जाते हैं । उन छः बानरों ने लज्जा को पोपल के पत्तों के समान कम्पित कर दिया । घरों के किवाड़ तोड़ डाले और शत्रुओं की स्त्रियों के बाल पकड़ हाथों से खींचकर घसोदने लगे ।

दोहा—भयउ कोलाहल लंक अति, नारान्तक सुनि कान ।

नभ ते स्यन्दन सहित शठ, प्रकट परम रिसियान ॥१६॥

लज्जा में अत्यन्त शोर हुआ । तब बुष्ट नारान्तक कानों से यह सुनकर आकाश से रूप सहित अत्यन्त क्रोध करके उतर कर प्रकट हुआ ।

निरखि दशा निज नारिन केरी * कहन लगा कटु गिरा घनेरी

सठ आयउ संग्राम विहाई * लरत तियन संग लाज न आई

अपनी स्त्रियों की यह वशा देखकर वह अत्यन्त क्रुद्धी बाणों से कहने लगा—मुखों... लीर-

प्रोतम प्रीति न करत उर, तुम कहँ नाथ अनीति ॥३३॥

हे रघुकुल में श्रेष्ठ रामजी ! रक्षा करिये, आपके यश में हमारे विश्वास को नष्ट न करिये । आप हमारे पति-प्रेम (सतीत्व) का उर नहीं मानते । सो, हे नाथ ! यह आपकी अनीति है ।

सती विनाश विनय सुनि बानी * पुलके दीन दयालु भवानी
दुहँन लीन्ह निज निकट बुलाई * परी युगल प्रभु पदतर आई

हे भवानी ! उन सतियों की निराशा-जनक विनयशुक्त वाणी सुनकर दीनदयालु पुलकित हो गये । उन दोनों को निकट बुलाया, तब वे दोनों प्रभु के चरणों में आकर गिर पड़ीं ।

तिन्हें उठाय राम बैठावा * जगदीश्वर मृदु वचन सुनावा
विन्दुमती तें परम सयानी * पति पद रत दृढ़ हृदय समानी

श्रीरामजी ने उन्हें उठाकर बैठाया और मधुर वचन कहे कि हे विन्दुमती ! तुम परम चतुर हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पति के चरणों में दृढ़ प्रेम है ।

बहुल करहुँ का तव गुन गाना * साँगु बेगि बर जो मन माना
सुनत वचन लोचन जल बाढी * जोरि जुगल कर दोउ भई ठाढी

मैं तुम्हारे गुणों का अधिक वर्णन क्या करूँ ? जो मन में आवे वही वरदान शीघ्र माँग लो । यह वचन सुनकर विन्दुमती के नेत्रों में जल भर आया और दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई ।

प्रभु तुम दानि देव तरुवर से * पग जल जात देखि सुरसरि से
देहुकन्त सिर सपदि मँगाई * दया शीलसागर रघुराई

हे प्रभु ! आप फल्पवृक्ष के समान दानी हैं, आपके चरणकमल गङ्गाजी के समान पवित्र हैं । हे दया और शील के समुद्र श्रीरघुनाथजी ! मेरे स्वामी का सिर शीघ्र मँगा दीजिए ।

दोहा—नारान्तक कर सीस तव, दीन्ह मँगाइ रमेश ।

पाइ स्वामि सिर भई पुलक, बोली दोउ उरगेश ॥३४॥

तब लक्ष्मीपति प्रभु ने नारान्तक का शीश मँगा दिया । स्वामी का सिर पाकर वे प्रसन्न हो गईं । हे गरुड़जी ! तब वे दोनों बोलीं—

नाथ विनय एक औरउ करहीं * दारु विना हम केहि विधि जरहीं
सुखसागर सुनि वचन प्रनामा * हनुमत अंगदादि भट नाना

हे नाथ ! हम एक विनती और करती हैं कि लकड़ियों के बिना हम कैसे जलेंगे ? उनके प्रमाणिक वचन सुनकर सुख के समुद्र प्रभु हनुमान व अङ्गदादि योद्धाओं से बोले—

कहा सखा लंका भई धावहु * चन्दन अगर भार बहु लावहु
पाइ राम अनुसासन धाए * लंकागढ गृह गृह सबु पाए

हे सखाओ ! लंका में जाओ और चन्दन व अगर के अनेक बोझ ले आओ । श्रीरामजी की आज्ञा पाकर वे दौड़े और लंका में घर-घर में दूढ़ने लगे ।

मेघों के समूह की भांति होगया, जिसमें अपना-पराया मात्रम नहीं पड़ता ।

दोहा-प्रलय मनहुँ चाहत करन, अनो तमीचर चण्ड ।

सुनु खगेश मर्कट विकट, जिमि धाये वरिचण्ड ॥१०॥

मानो निशाचरों की प्रचण्ड सेना प्रलय करना ही चाहती है । हे गण्डजो ! जिसप्रकार प्रलय वानर उस समय बड़े, सो सुनो ।

छन्द-निहारि हर्ष कीश ऋक्ष फूलि फूलि शैल भे ।

बजाइ कटकटाइ हूह एक वार कै अमे ॥

उपारि भूधरा अपार वृक्ष अश्म शृङ्गहैं ।

मरे निसाचर चण्ड झुण्ड सुण्डहू भङ्गहू ॥

निशाचरों को देखकर हर्षित होकर वानर-मातृ फूल-फूलकर पर्वतकार हो गये और अमय होकर एक साथ कट-कटाकर और 'हू-हू' करके बड़े । उन्होंने अनेक वृक्ष, पहाड़ और पर्वतों के शिखरों को उखाड़ लिया । तब निशाचरों के झुण्डों के चण्ड हो गये और तिर फूटने लगे ।

रदो रही मृगामतो सवार उष्ट्र मण्डहू ।

मतो विचित्र वाहिनी दई मनोज खण्डहू ॥

हलै धरा वलै विचारि भारि धारि को सकै ।

सुन पुकार जयति राम शत्रु से नहीं डरै ॥

जैसे सिंह मृगों के झुण्ड को मार डालता है । (वंसे ही वानरों ने राक्षस मारे) सवार ऊँट और घोड़े ऐसे लगते हैं, मानो कामदेव ने सेना को चण्ड-चण्ड कर दिया हो । वानरों के बल को विचार कर पृथ्वी हिलती है कि इनके मार को कौन सहन कर सकता है ? 'श्रीरामचन्द्रजी की जय हो' यह पुकार मुनाई पड़ती है वानर शत्रु से डरते नहीं हैं ।

सो०-शब्द करत अति घोर, इमि पहुँच्यौ दलभालु कपि ।

आयुध झरि अतिजोर, परै लागि घन प्रलय सम ॥ १ ॥

अत्यन्त घोर शब्द करता हुआ वानरों का बल इस प्रकार आ पहुँचा और अस्त्रों की वर्षा अत्यन्त जोर से होने लगी, जैसे प्रलय-काल के बादल बरस रहे हों ।

सजग होन कपि भालु न पाए * अतिसय निकट तमीचर आए

असित निशाचर अति अंधियारी * तापर करहि शरन्ह कै मारी

वानर-मातृ सावधान होने भी न पाये थे कि राक्षस अत्यन्त निकट आ गये । एक ही काले राक्षस, दूसरे अत्यन्त घोर अन्धकार, तिस पर नो शत्रु बाणों से मारने लगे ।

सूझहि कपन्हि न हाथ पसारे * जहँ तहँ एकन्ह एक-पकारे

प्रोतम प्रीति न करत उर, तुम कहँ नाथ अनीति ॥३३॥

हे रघुकुल में श्रेष्ठ रामजी ! रक्षा करिये, आपके यश में हमारे विश्वास को नष्ट न करिये । आप हमारे पति-प्रेम (सतीत्व) का डर नहीं मानते । सो, हे नाथ ! यह आपकी अनीति है ।

सती विनाश विनय सुनि वानी * पुलके दीन दयालु भवानी
दुहुँन लीन्ह निज निकट बुलाई * परी युगल प्रभु पदतर आई

हे भवानी ! उन सतियोंको निराशा-जनक विनययुक्त वाणी सुनकर दीनदयालु पुलकित हो गये । उन दोनों को निकट बुलाया, तब वे दोनों प्रभु के चरणों में आकर गिर पड़ीं ।

तिन्हें उठाय राम बैठावा * जगदीश्वर मृदु वचन सुनावा
विन्दुमती तें परम सयानी * पति पद रत दृढ़ हृदय समानी

श्रीरामजी ने उन्हें उठाकर बैठाया और मधुर वचन कहे कि हे विन्दुमती ! तुम परम चतुर हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पति के चरणों में दृढ़ प्रेम है ।

बहुत करहुँ का तव गुन गाना * साँगु बेगि बर जो मन माना
सुनत वचन लोचन जल बाढी * जोरि जुगल कर दोउ भई ठाढी

मैं तुम्हारे गुणों का अधिक वर्णन क्या करूँ ? जो मन में आवे वही वरदान शीघ्र माँग लो । यह वचन सुनकर विन्दुमती के नेत्रों में जल भर आया और दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई ।

प्रभु तुम दानि देव तरुवर से * पग जल जात देखि सुरसरि से
देहुकन्त सिर सपदि सँगाई * दया सीलसागर रघुराई

हे प्रभु ! आप फल्पवृक्ष के समान दानी हैं, आपके चरणकमल गङ्गाजी के समान पवित्र हैं । हे दया और शील के समुद्र श्रीरघुनाथजी ! मेरे स्वामी का सिर शीघ्र मंगा दीजिए ।

दोहा-नारान्तक कर सीस तब, दीन्ह सँगाइ रमेश ।

पाइ स्वामि सिर भई पुलक, बोलीं दोउ उरगेश ॥३४॥

तब लक्ष्मीपति प्रभु ने नारान्तक का शीश मंगा दिया । स्वामी का सिर पाकर वे प्रसन्न हो गईं । हे गणेशजी ! तब वे दोनों बोलीं-

नाथ विनय एक औरउ करहीं * दारु विना हम केहि विधि जरहीं
सुखसागर सुनि वचन प्रनामा * हनुमत अंगदादि भट नाना

हे नाथ ! हम एक विनती और करती हैं कि लकड़ियों के बिना हम कैसे जलेंगे ? उनके प्रमाणिक वचन सुनकर सुख के समुद्र प्रभु हनुमान व अङ्गदादि योद्धाओं से बोले-

कहा लखा लंका सहँ धावहु * चन्दन अगर भार बहु लावहु
पाइ राम अनुसासन धाए * लंकागढ़ गृह गृह सबु पाए

हे सखाओ ! लंका में जाओ और चन्दन व अगर के अनेक बोझ ले आओ । श्रीरामजी की आज्ञा पाकर वे दौड़े और लंका में घर-घर में हूँड़ने लगे ।

याम युगल तेहि कर वरदाना * राखेउ तेहि कारण भगवाना
रिपुहि खिलावत रघुकुल केतू * पालक विधि वाणी श्रुति सेतू

वो पहर का उसको वरदान था, इस कारण भगवान् ने उसे रखा। धोरघुनायजी शत्रु को खिला रहे हैं, क्योंकि यह देवताओं की वाणी के पालक और देव की मर्यादा के रक्षक हैं।

सो युग याम गये जब बीती * तब रघुवीर सजी जय रीती
हाँकि देइ कपि भालु जगाये * भए विगत मूर्छाँ सब धाये

जब दोपहर बीत गया तो—धोरघुनायजी ने विजय का साज सजाया। हाँक मारकर वानर-भालुओं को जगाया तो—वे मूर्छाँ दूर होने पर उठ बोड़े।

हनुमान अङ्गद जब जागे * राम लखन चरनन्ह अनुरागे
प्रभु पद सीस रहे धरि कौशा * तब हँसि बोले श्री जगदीशा

जब हनुमानजी और अङ्गदजी जागे—तो वे धोराम-लक्ष्मणजी के चरणों में अनुरक्त हुए। वे प्रभु के चरणों में ही सिर रखे रहे, तब धोरामचन्द्रजी हँसकर बोले—

सो०—विधि वाचा लगि आज, तात तुम्हहि मूर्छाँ भई।

पुनि कह प्रभु रघुराज, अब श्रम सपनेहुँ होत नहि ॥२॥

हे तात ! ब्रह्माजी की वाणी के कारण आज तुम्हें मूर्छाँ हुई। प्रभु धोरघुनायजी ने पुनः कहा कि अब तुम्हें स्वप्न में भी श्रम नहीं होगा।

सकल कपिन्ह कै मूर्छाँ बीती * तोरि पाश भजि राम सप्रीतो
रवन तनय युवराज निहारी * हरपे कहि जय जयति खरारी

समस्त वानरों की मूर्छाँ बीत गई, तब उन्होंने धोरामजी का स्मरण करके जग्यन तोड़ डाले। पवन-पुत्र और अङ्गद को देखकर वे 'धोरामजी की जय हो' कहकर प्रसन्न हुए।

दीन्ह नाथ अनुजहि अनुशासन * उठे तुरत गहि विसिख शरासन
लखन कहेउ रह तिष्ठ क्षण ऐका * तँ कीन्हे रण खेल अनेका

तब प्रभु ने छोटे भाई को आजा बो, तो वे प्रणाम करके धनुष बाण लेकर तुरन्त उठे। लक्ष्मणजी ने नारान्तक से कहा—एक क्षण खड़ा रह ! तूने युद्ध में अनेक फल किये हैं।

हनेउ लखन उर पवि समसायन * लगत गिरे रण महि अहिनायक
पुनि खलदल भा प्रवल अपारा * भक्षण करै भालु कपि धारा

उसने वचन के समान एक बाण लक्ष्मणजी के हृदय में मारा, जिसके सगते ही वे वृष्णों पर गिर पड़े। फिर बुष्ट-बल अति प्रबल हो गया और वानर सेना को पाने लगा।

चले पराय कौश भयभीता * अब न वचव करि काल प्रतीता
निशचरि धारि भालु कपि वेषा * लागे खान कपिन्ह अत्त देखा

वानर भयभीत होकर भागचले, उन्होंने ऐसा विश्वास कर लिया कि अब न

श्रीरामजी के बर से जैसा उचित था, वैसा ही दिन था पहुँचा । उसी को विचार कर विपत्ति उँका बनाकर लंका में आ उतरी ।

* इति शेषक-नारान्तक की कथा *

निसा सरानि भयउ भिनुसारा * लगे भालु कपि चारहुँ द्वारा
सुभ्रष्ट बोलाइ दसानन बोला * रत सन्मुख जाकर मन डोला
सो अवहीं बरु जाउ पराई * संजुग विमुख भएँ न भलाई

रात्रि बीत गई और सबरा हुआ तो रीछ-वानर चारों तरफों पर आ डटे । तब योद्धाओं को बुलाकर रावण बोला—रण के सन्मुख जाने से जिसका मन बचड़ाता हो, वह अभी भाग जाय, युद्ध में से भागने पर भलाई नहीं होगी ।

निज भुजबल मैं बयर बढ़ावा * दैहउँ उतरु जो रिपु चढि आवा
अस कहि भरत वेग रथ साजा * बाजे सकल जुझाऊ बाजा

मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बर बढ़ाया है, जो शत्रु चढ़ आया है, उसे इन्हीं भुजाओं से उतर दूँगा । ऐसा कहकर उसने बाघ-वेग वाला रथ सजवाया, उस समय युद्ध के जुझाऊ बाजे बजने लगे ।

चले वीर सब अतुलित बली * जनु कज्जल कै आँधी चली
असगुन असित होहि तेहि काला * गनइ न भुजबल गर्व विशाला

सब बढ़े ही बलवान योद्धा चले, मानों काजल की आँधी चली हो । उस समय बहुत से असगुन होने लगे, परन्तु वे अपनी भुजाओं के बल के घमण्ड में उनको नहीं गिनते ।

छन्द—अति गर्व गनइ न सगुन असगुन स्वर्वाहि आयुध हाथ ते ।

भट गिरत रथ ते बाजि गज चिक्करत भाजहि साथ ते ॥

गोनाय गीध कराल खर रव स्वाँन बोलहि अति घने ।

जनु काल दूत उलूक बोलहि वचन परम भयावने ॥

अत्यंत घमण्ड के मारे सगुन-असगुन नहीं गिनते । हाथ से हथियार छूट जाते हैं, योद्धा रथ से गिरते हैं, घोड़े-हाथी बड़े चिन्नाड़े से टूट साथ से भाग जाते हैं । गोदड़, गीध, कुत्ते और गधे बड़े भयंकर शब्द बोलते हैं और काल के दूतों के समान उल्लू बड़ी भयानक बोलो बोलते हैं ।

दोहा—ताहि कि सम्पति सगुन सुभ, सपनेहुँ मन विश्राम ।

भूत दोह रत मोह बस, राम विमुखा रति काम ॥१०८॥

ऐश्वर्य, सुन-शकुन और मन में शान्ति क्या उसे स्वप्न में भी हो सकती है, जो जीव यंत्री, अज्ञान के यश श्रीरामजी ने विमुच्य तथा कामी हो ?

चलेउ निशाचर कटकु अपारा * चतुरंगिनी अनो बहु धारा

त्रिविधि भाँति बाहन रथ जाना * विपुल गरन पताक ध्वज नाना

राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगिनी सेना में बहुत से दल हैं । अनेक सवारियाँ—

प्रभु ने प्रणाम करके उन्हें आसनविषा और आशीर्वाद पाकर अपना हित किया। मुनि ने नली प्रकार प्रभु का रूप निहारा, जैसे चन्द्रमा को देखकर चकोर प्रसन्न होता है।

पुलकि गात तव कह ऋषिराजा * सुनहुँ नाथ आयहु जेहि काजा
चतुरानन पठवां मोहि स्वामी * जदपि कृपानिधि अन्तर्यामी

तब पुलकित होकर ऋषिराज नारदजी बोले-हे नाथ ! मैं जिस कारण से जाया हूँ, जो मुनिये। हे स्वामी ! मुझे ब्रह्माजी ने भेजा है, यद्यपि आप कृपानिधान और अन्तर्यामी हैं।

सदा अनाथ नाथ भगवाना * विनयविरञ्चिकरिअ परिमाना
जव लगि होन प्रभात न पावहि * तवलगि हरिहरिसुतलै आवहि

हे भगवन् ! आप सदा ही अनाथों के रक्षक हैं। अतः ब्रह्माजी के वचनों को प्रमाणित कीजिए कि 'जब तक सबेरा न हो, तब तक बानर मुण्डोय के पुत्र (वधिवल) से जायें।'

नारान्तक वध है तेहि हाथा * दधिवल नाम भवत तव नाथा
नाथ बहुत इहि खलहि खिलावा * रण विलोकि देवन्ह दुख पावा

उसके हाथों नारान्तक का वध होगा। हे नाथ ! वधिवल नामक बानर आपका प्रकृत है। हे नाथ ! आपने इस दुष्ट को बहुत खेल खिलाया अब पुष्ट देखकर देवता दुःखवाते हैं।

सविनय नाइ शीशा वर भाखी * गवने मुनि प्रभु छवि उर राखी
नारद गये जवहि विधि लोका * मारुत सुत तनु राम विलोका

श्रेष्ठ वचन कहकर व विनयपूर्वक शीश नवाकर मुनि प्रभुको छवि हृदयमें रखकर चले गये। जब नारदजी ब्रह्मलोक को चले गये, तब प्रभु ने महाबोरजी को और देया।

तात तुरत तुम्ह गवनेहुँ तहंवां * वारिधि महुँ धौलगिरि जहंवां
तहँ दधिवल रह ध्यान लगाये * बहुत दिवस चलि गए सुभाये

और बोले-हे तात ! तुम शीघ्र ही यहाँ जाओ जहाँ समुद्र के बीच धवलगिरि है। यहाँ ध्यान लगाकर वधिवल को उत्तम भाव से रहते हुए बहुत दिन बीत गये हैं।

दोहा-अहै तपोवल तेजसी, तात तासु ढिग जाइ।
मन प्रसन्न करि चतुराई, आनहु वेगि बुलाइ ॥२५॥

वह तपोवल से तेजस्वी है। हे तात ! उसके पास जाकर चतुरता से मन प्रसन्न करके उसे शीघ्र बुला लाओ।

पवनकुमार पाइ अनुसासन * चले वन्दि पद हांस उदासन
वेगवन्त धावा कपि कैसे * वर नाराच धनुष तें जैसे

आज्ञा पाकर पवन-पुत्र प्रसन्न हो चरणों की कन्दना करके चले। ये उदास नहीं हैं-कपि कैसे वेग से बीड़े, जैसे धनुष से उत्तम बाण चलता हो।

लोक अर्द्ध घटिका तेहि ठामा * पहुँचे वायुपुत्र बल-रा

दोहा-दुहुँदिसि जय जयकार करि, निजनिज जोरी जानि ।

भिरे वीर इत रामहि, उत रावनहि बखानि ॥११०॥

दोनों ओर जय-जयकार करके अपनी-अपनी जोड़ी जानकर और इधर श्रीरामजी का और उधर रावण का सुयश बखान कर वीर भिड़ गये ।

रावनु रथी विरथ रघुवीरा * देखि विभीषण भयउ अधीरा
अधिक प्रीति मन भा सन्देहा * वन्दि चरन कह सहित सनेहा

रावण को रथ पर और श्रीरामजी को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर होगये । अधिक प्रेम के कारण मन में सन्देह हुआ, तब चरणों में प्रणाम करके वे सप्रेम बोले-

नाथ न रथ नाहि तनु पद त्राना * केहि विधि जितव वीरबलवाना
सुनहु सखा कह कृपा निधाना * जेहि जय होइ सो स्यन्दन आना

हे नाथ ! आप पर न रथ है, न कवच है और न पादुका हैं, फिर ऐसे बलवान रावण को कैसे जीतेगे ? यह सुनकर कृपानिधान बोले-हे सखा ! सुन, जिससे 'जय' होती है, वह रथ और ही है ।

सौरज धीरज तेहि रथ चाका * सत्य शील दृढ ध्वजा पताका
बल विवेक दस परहित घोरे * क्षमा कृपा समता रजु जोरे

'शूरता और धीरज' यह दोनों रथ के पहिये हैं, 'सत्य और शील' दृढ़ ध्वजा-पताका हैं। 'बल विवेक, संयम, परोपकार' वह चारों उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया व समता रूपी रस्तियों से बँधे हैं ।

ईस भजनु सारथ सुजाना * विरति चर्म संतोष कृपाना
दान परसु बुधि सवित प्रचण्डा * वर विग्यान कठिन को दण्डा

'ईश्वर का भजन' बड़ा चतुर सारथी है, 'वैराग्य' ढाल और 'सन्तोष' तलवार है । 'दान' फरसा और 'बुद्धि' प्रचण्ड शक्ति है तथा 'श्रेष्ठ ज्ञान' ही कठोर धनुष है ।

अमल अचल मन त्रोन समाना * सम जम नियम सिलीमुख नाना
कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा * एहि सम विजय उपाय न दूजा

सखा धर्ममय अस रथ जाके * जीतन कहँ न कतहुँ रिपु ताके

'संयम और नियम' ही वाण हैं, 'निर्मल और अचल मन' ही तर्कस है । 'ब्राह्मण और गुरु की पूजा' ही अभेद्य कवच है इसके बराबर विजय का दूसरा कोई उपाय नहीं है । हे सखा ! जिसके पास ऐसा 'धर्ममय' रथ हो, उसको जीतने वाला कोई नहीं है ।

दोहा-महा अजय संसार रिपु, जीति सकइ सो वीर ।

जाकेँ अस रथ होइ दृढ, सुनहु सखा मति धीर ॥१११॥

हे धीर-बुद्धि सखा ! तुमो, वह 'वीर' संसार रूपी अजय, प्रबल शत्रु को भी जीत सकता है, जिसके पास ऐसा 'दृढ़' रथ हो ।

सुनि प्रभु वचन विभीषण, हरषि गहे पद कञ्ज ।

गइ मणि पन्नग जनु पुनि पाई * देहो देह मोन जल जाई
सुख सुग्रीव सहेउ प्रभु भेंटे * अवगुण तीन ताहि क्षण मेंटे

छोई हुई मणि मानो सांप ने पा ली हो और मानो जीव को देह तथा मछनों को पानी मिलगया हो । प्रभु के मिलनेसे सुग्रीव को सुख प्राप्त हुआ और तीनों ताप बसी क्षण मिटगये ।

सो०—दधिवल बालिकुमार, मिले परस्पर हरप हिय ।

भयउ आय भिनुसार, न्हाइ सवन्ह प्रभु पद गहे ॥ ३ ॥

दधिवल और अंगव हृदय में प्रसन्न होकर परस्पर मिले । जब सपेरा हुआ तो स्नान कर सवने प्रभु के चरण पकड़े ।

जहें तहें समर करन वनचारी * चले कहत जय लखन खरारी
जहाँ नारान्तक प्रात प्रबोधा * रथ चढि चलेउ भयंकर योद्धा

धीरामजी व लक्ष्मणजी की जय' कहते हुए वानर जहां-तहां युद्ध करने को धते । उधर नारान्तक प्रातःकाल होने पर उठा और वह भयंकर योद्धा रथ पर चढ़कर धता ।

निशिचर हठी सुभट संग ताके * आयुध अखिल भयानक वांके
महि संग्राम निशाचर आढे * असित काल सम अति रिस वाढे

उसके साथ हठीले राक्षस-योद्धा हैं, जिनके हथियार तीक्ष्ण और भयंकर हैं । रजनीम में राक्षस काले मेघों के समान ढड़े हैं और उनमें बड़ा क्रोध भरा है ।

करि माया तेहि गात छिपावा * भयउ प्रगट जव प्रभु ढिग आवा
दधिवल लखा सखाचलि आयउ * भुजा पसारि हरपि उठि घायउ

नारान्तक ने माया करके अपना शरीर छिपा लिया और प्रभु के समीप आकर प्रष्ट हुआ । दधिवल ने मित्र की आते देखा तो-भुजा फंलाकर हर्षित होकर बोड़ा ।

नारान्तकहु दीख गुरु भाई * मुदित मिले उर उभय अघाई
भेंट सप्रेम वृद्धि कुशलाता * निज निज दशा कीन्ह विद्वयाता

नारान्तक ने भी गुरु-भाई को देखा तो-बोनों प्रसन्न हो अपाकर मिले । प्रेम सहित मिलकर कुशल पूछो ती-बोनों ने अपनी-अपनी रगा वपन की ।

दोहा—हरिपति पूत प्रवीन अति, सुन तेहि मुख विद्वयात ।

लगे बुझावन मित्र कहूं, सुनहु वीरपति वात ॥ २७ ॥

हे पक्षिराज गरुड़जी ! सुनिधे, सुग्रीव-युद्ध बहुत चतुर हैं उनके मुख से बड़ाई सुनकर यह मित्र को समझाने लगा ।

सुनहु वचन गुरु भ्राता केरा * नारान्तक भा क्रुद्ध घनेरा
कहत लाग खल ताहि कुमांतो * सहज समीत कीश दिन रातो

गुरु-भाई के वचन सुनकर उसको भारी क्रोध हुआ, वह युद्ध उससे बहुत घबराव करने लगा ।

छन्द-धरि गाल फारहि उर विदारहि अन्तावरी गल मेलहीं ।
 प्रह्लादपति जनु विविध तनु धरि समर अङ्गन खेलहीं ॥
 धरु मारु काहु पछारि घोर गिरा गगन महि भरि रही ।
 जय राम जो तून ते कुलिस करि कुलिस ते करि तून सही ॥

ये राक्षसों को पकड़कर उनके गाल फाड़ डालते हैं, छाती फाड़कर आँतें निकाल गलेमें पहिन लेते हैं, मानो नृसिंह भगवान् अनेक रूप धारण कर समरांगण में खेल रहे हों। पृथ्वी आकाश तक 'पकड़ो मारो, काटो पकड़ो' यह नयंकर गुँज गुँज रही है। 'श्रीरामजी को जय हो'—जो तिनके वज्र और वज्र को तिनका कर देते हैं।

दोहा—निजदल त्रिचलित देखेसि, बीस भुजा दस चाप ।

रथ चढ़ि चलेउ दसानन, फिरहु फिरहु करिदाप ॥११४॥

तब अपनी सेना को व्याकुल देखकर बीस भुजाओं में दसधनुष-बाण लेकर रावण को पकरके और गर्व सहित लौटो-लौटो कहकर चला ।

थायउ परम क्रुद्ध दसकन्धर * सन्मुख चले हूह दै बन्दर
 गहि कर पादप उपल पहारा * डारेसि तापर एकहि वारा

रावण बहुत क्रोधित होकर बीड़ा तब बानर 'हू-हू' करके सामने चले। हाथोंमें वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर उस पर एक ही साथ डालते हैं।

लागहि सैल वज्र तनु तासू * खण्ड खण्ड होइ फूटहि जासू
 चलान अजल रहा रथ रोपी * रन दुर्मद रावन अति कोपी

ये पहाड़ रावण के वज्र समान शरीर लगते ही टुकड़े-टुकड़े होकर फूट जाते हैं। बीड़ा घमंठी और अत्यन्त क्रोधी रावण अपने स्थान से नहीं हटा और अपना रथ रोके हुए वहाँ अचल पड़ा रहा।

इत उत झपटि दपटि कपि जोधा * मर्दे लागि भयउ अति क्रोधा
 चले पराइ भालु कपि जाना * त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना

ब्रह्म क्रोध करके रावण इधर-उधर बौर-बानरों को डाँटकर झपटते हुए मारने लगा। अनेक रीठ-बानर भाग चले और पुकारने लगे कि हे अंगद ! हे हनुमान ! रक्षा करो !

पाहि पाहि रघुवीर गोसाई * यह खल खाय काल की नाई
 तेहि देखे कपि सकल पराने * दसहुँ चायक सायक सन्धाने

हे स्वामी श्रीरघुनाथजी ! रक्षा करो, रक्षा करो। यह दुष्ट तो काल की तरह खाये जाता है। रावण ने जब बानर भागते हुए देखे, तब उसने दसों धनुषों पर बाण चढ़ाये।

छन्द—सन्धानि धनु सर निकर छाँड़ेसि उरग जिमि उड़ लागहीं ।
 रहे पूरि सर धरनी गगन दिसि विदिसि कहँ कपि भागहीं ॥

और फहा-हे बधियल ! तेरी मुजाओं के बल को धन्य हे । तूने युद्ध में अत्यन्त कोशल किया हे ।
बानरों की प्रशंसा सुनकर नारान्तक क्रोधित हुआ और बधियल के साथ अदृश्य होगया ।

योजन अयुत अष्ट नभ जाई * दधियल सुमिरि हृदय रघुराज
गहि मनुजाद भूमि पर डारा * करि चिकार तेहि मरती वार

अस्ती हजार योजन आकाश में जाकर बधियल ने हृदय में धोरघुनायजी का स्मरण
करके राक्षस को पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया । मरते समय उसने तीक्ष्ण नाद किया ।

छन्द—मरती समय अति शब्द करि दसमुख तनय हरिहर कही
तजि अधम तनु धरि सुभग वपु द्विजनाथ मुनिगति सो लही ।
जैहि हेतु सुर मुनि सिद्ध नाना भांति जलपत मख किये
श्रीराम करुनानिधि सो फल सहज ही वनुजहि दिये ।

मरते समय रावण-पुत्र ने अत्यन्त शब्द करके 'श्रीराम-तिथि' उच्चारण किया और
तामसी वेह छोड़कर उत्तम शरीर धारण किया । हे मरद्वाज मुनि ! उसने यह गति पाई
जिसके लिये मुनि, सिद्ध और देवता अनेक प्रकार के जप, तप और यज्ञ करते हैं । उसी फल
को दयासागर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ने राक्षस को सहज ही में प्रदान कर दिया ।

दोहा—देखि तासु गति विबुधगण, अभय भये खगराइ ।
प्रमुदित वरसे कुसुम जरि, राम चरन चित लाइ ॥३०॥

हे गरुड़जी ! उसकी गति को देखकर देवता लोग निभंय होगये और उन्होंने श्रीरामजी
के चरणों में मन लगाकर प्रसन्नता से फूल बरसाये ।

मरा नारान्तक दधियल जानी * तोरि तासु सिर गहि निज पानी
रुण्ड तासु महि लंक सँचारी * आपु चले जहँ नाय खरारी

दधियल ने नारान्तक को मरा जाना तो उनका सिर तोड़कर अपने हाथ में ले लिया
और रुण्ड को लड्डा में फेंक दिया । स्वयं वहाँ चला, जहाँ स्वामी धोरघुनायजी थे ।

आयउ दधियल प्रभु के पासा * देखि हर्ष उठि रमा निवासा
सानुज राम मिले अति प्रीती * भए प्रसन्न नाथ निति रीती

दधियल प्रभु के पास आया तो उसे देखकर लक्ष्मणपति श्रीरामजी उठे और लक्ष्मणजी
सहित अत्यन्त प्रेम से मिलकर प्रसन्न हुए । प्रभु की यह रीति हे ।

देखन कौतुक रिपुसुत कीशा * सुनहु सुकण्ठ कहाँ जगदीशा
नारान्तक कर शीश धरावहु * यतन समेत न सैत चलावहु

लीलामय प्रभु ने नारान्तक का सिर जानकर कहा-हे मुण्ड ! मुनो, नारान्तक का सिर
यत्नपूर्वक रख तो, यह व्यर्थ न जाय ।

नाथ रजाय पाल कपिराई * राखेउ तो सिर यतन कराई

ब्रह्माजी की वी हुई शक्ति लक्ष्मणजी के ठीक हृदय में लगी तो वीर लक्ष्मणजी विकल होकर गिर पड़े। रावण उन्हें उठाने लगा, परन्तु उसके बल की महिमा योंही रह गई। जिनके एक ही तिर पर समस्त ब्रह्माण्ड रज-कण के समान रक्खा है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों लोकों के स्वामी को नहीं भजता।

दाहा-देखि पवनसुत धायउ, बोलत वचन कठोर।

आवत कपिहि हन्यो तेहि, मुष्टि प्रहार प्रघोर ॥११६॥

यह देखते ही हनुमानजी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। उन्हें आते देखकर रावण ने मयङ्कर घूँसे का प्रहार किया।

जानु टेकि कपि भूमि न गिरा * उठा सँभारि बहुरि रिस भरा
मुठिका इक ताहि कपि सारा * परेउ सैल जनु वज्र प्रहारा

हनुमानजी घुटने टेक कर रह गये पृथ्वी पर नहीं गिरे फिर क्रोधित हो सँभलकर उठे और रावण के एक घूँसा मारा। वह ऐसा गिरा, जैसे वज्र के लगने से पर्वत गिरा हो। सुरछा गै बहोरि सो जागा * कपि बल विपुल सराहन लागा
धिगधिग सम पौरुष धिग सोही * जौँ तैं जियत रहेसि सुरद्रोही

मूर्छा दूर होने पर रावण जागा और हनुमानजी के बल की सराहना करने लगे। हनुमानजी बोले-रे देव शत्रु, मेरे पराक्रम और मुझको धिक्कार है, जो तू जीता ही रह गया। असकहिलछिमन कहँ कपिल्यायो * देखि दसानन विसमय पायो
कह रघुवीर सभुक्ति जियँ भ्राता * तुम्ह कृतान्त भच्छक सुरत्राता

ऐसा कहकर हनुमानजी-लक्ष्मणजी को ले आये, यह देखकर रावण को बड़ा अचम्भा हुआ। शीरधुनाथजी ने लक्ष्मणजी से कहा-हे भाई! हृदय में समझो कि तुम काल के भी भक्तक तथा देवताओं के भी रक्षक हो।

सुनत वचन उठि बैठ कृपाला * गई गगन सो सकति कराला
पुनि कोदण्ड वान गहि धाए * रिपु सन्मुख अति आतुर आए

यह वचन सुनतेही कृपालु लक्ष्मणजी उठ बैठे और वह कराल शक्ति आकाशमें चलीगई। तब लक्ष्मणजी फिर हाथ में धनुष बाण लेकर दौड़े और शीघ्र ही शत्रु के सामने आये।

छन्द-आतुर बहोरि विभंजि स्यंदन सूत हति व्याकुल कियो।

गिरचो धरनि दसकन्धर विकल तनु वान सत वेधयो हियो ॥

सारथो दूसर घालि रथ तेहि तुरत लङ्का लै गयो।

रघुवीर वन्धु प्रताप पुंज बहोरि प्रभु चरनन्हि नयो ॥

फिर उन्होंने शीघ्रता से रावण के रथ को तोड़कर सारथी को मारकर उसे व्याकुल कर दिया। रावण के हृदय में सौ बाण नारे, जिससे वह व्याकुल होकर भूमि पर

सो०—विहवावलपुर राज, करहु तात तुम मुदित मन ॥

छाँड़ि और सब काज, सिवा शम्भु पद भक्ति दृढ़ ॥ ४ ॥

हे तात ! तुम प्रसन्न मन से विहवावलपुर का राज्य करो और सब काम छोड़कर धीशिय-पावंतीजी के चरणों में दृढ़ भक्ति करो ।

दोहा—पाइ भक्ति वर राज्य वर, प्रभु चरनन्ह सिर नाइ ।

दधिवल पठयउ तुरत हठि, सुनहु क्षणय सुभाइ ॥३२॥

भक्ति और राज्य के उत्तम वरदान पाकर दधिवल प्रभु के चरणों में सिर नयाकर घला । हे श्रवण ! सुनो, उसे धीरामजी ने हठ करके उत्तम भाव से तुरन्त ही विदा किया ।

उतहि जहाँ बैठा दसभाला * विनु सिर वपु सो परा विशाला

देखि विकल आपुहि उठि धावा * पहिचानत तेहि अति दुख पावा

उधर जहाँ रावण बैठा था, वहाँ नारायण का बिना सिर का विनाश देह जाकर गिरा । उसे देखकर रावण स्वयं ही उठ दौड़ा और उसे पहिचान कर अत्यन्त दुःखी हुआ ।

शोक जलधि लंका लघु तरणी * चढ़ौ सकल निसिचर की धरणी

विन्दुमती कर गहि वैठाई * नाग सुता को कथा सुनाई

शोकरूपी सागर में लंकारूपी नाव पड़ी है, उसमें रावण की सारी शिवियाँ चढ़ी हैं । मन्दोदरी ने विन्दुमती का हाथ पकड़कर बैठाया और उसे सुलोचना की कथा सुनाई ।

सवनि बुझाय सासु पग लागी * तजि धन धाम स्वामि अनुरागी

सुनु सुत बधू न आन उपाऊ * जाहु जहाँ राजयं रघुराऊ

वह उसे सुनकर और सबको समझा-बुझाकर सासु के पैरों पड़ी और धन-धाम छोड़कर पति में प्रेम किया । (तब मन्दोदरी बोली—) हे पतिहू ! दूसरा उपाय नहीं है । तुम यहाँ जाओ, जहाँ धीरघुनायजी विराज रहे हैं ।

सासु वचन सुनि जानि प्रभाता * उठि निसिचर तिय पुलकि गाता

जातरूप मय जान मंगाई * निज कर गहि पति देह चढ़ाई

सासु के वचन सुनकर और प्रातःकाल हुआ जानकर विन्दुमती पुत्ररहित शरीर से उठी और स्वर्ण-विमान मंगाकर उसमें अपने हाथों से पति का देह चढ़ाया ।

चली अकेलि यान चढ़ि जवहीं * तासु सखी इक आई तवहीं

नाम चित्ररेखा अस तासू * गुण गन सुभग वसै तनु तासू

ज्योंही वह अकेली विमान पर चढ़कर चली, त्योंही उसकी सौत आई, उसका नाम चित्ररेखा था । जिसकी देह में उत्तम गुण समूह बसते थे ।

करि करि विनय चढ़ी तेहि संगी * कीन्ह पयान रंगी सतिरंगा

यह विनय करके उसके साथ चढ़ी और सतीत्य के रंग में रंगकर दोनों ने प्रस्थान किया ।

दोहा—पाहि पाहि रघुवंशमणि, हतहु न विरद प्रतीति ॥

लगा । इसी बीच में वानरों ने यज्ञ-विध्वंस कर दिया । यह देखकर रावण मनमें हारगया ।

दोहा-जग्य विध्वंस कुशल कपि, आए रघुपति पास ।

चले निसाचर क्रुद्ध होइ, त्यागि जिअन कै आस ॥११८॥

यज्ञ का विध्वंस कर सब वानर सकुशल रघुनाथजी के पास आये । तब रावण क्रोधित होकर जीने की आशा छोड़कर लंका से चला ।

चलत होहिं अति असुभ भयङ्कर * वैठहिं गीध उड़ाइ सिरन्ह पर
भयउ कालबस कहा न माना * कहेसि बजावहु जुद्ध निसाना

चलते ही भयंकर असुगुण होने लगे-गीध सिरों पर उड़ते हैं । काल के वश वह दुष्ट कित्ती का कहना नहीं मानता और बोला कि युद्ध के वाजे बजाओ ।

चली तमीचर अनी अपारा * बहु गज रथ पदाति असवारा
प्रभु सन्मुख धाए सकल कैसे * सलभ समूह अनल कहँ कैसे

राक्षसों की अपार सेना चली, जिसमें बहुत से हाथी, रथ, पैदल और घोड़सवार थे । प्रभु के सामने वह दुष्ट कैसे दौड़े-जैसे पतंगों के झुण्ड अग्नि की ओर दौड़ते हैं ।

इहाँ देवतन्ह अस्तुति कीन्ही * दारुन विपति हमहि एहि दोन्ही
अब जनि राभ खेलावहु ऐही * अतिसय दुखित होति बैदेही

यहाँ देवताओं ने प्रार्थना की इसने हमको बहुत दुःख दिया है । हे श्रीरामजी ! अब इसे मत खिलाइए, क्योंकि जानकीजी बहुत दुखित होती हैं ।

देव वचन सुनि प्रभु मुसुकाना * उठि रघुवीर सुधारे बाना
जटा जूट दृढ़ बाँधे साथे * सोर्हिं सुमन बीच बिच गाथे

देवताओं की प्रार्थना सुनकर प्रभु मुस्कराये और रघुनाथजी ने उठकर बाण सुधारे । जटाओं का जूड़ा साथे पर बाँधा, जिसके बीच-बीच में फूलों के गुच्छे सुशोभित हैं ।

अरुन नयन वारिद तनु श्यामा * अखिल लोकलोचन अभिरामा
करि तट परिकर कस्यो निषंगा * करि कोदण्ड कठिन सरंगा

लाल नेत्र, मेघ के समान श्याम शरीर, सब लोकों के नेत्रों को आनन्द देने वाले श्रीरामचन्द्रजी ने कमर में तरकस कसा और हाथ में कठोर धनुष लिया ।

छन्द-सारङ्ग कर सुन्दर निसङ्ग सिलीमुखाकार कटि कस्यो ।
भुजदण्ड पीन मनोहरायत उर धरासुर पद लस्यो ॥

कह दास तुलसी जवहिं प्रभु सर चाप कर फेरन लगे ।
ब्रह्माण्ड दिग्गज कमठ अहि महि सिंधु भूधर डगमगे ॥

हाथमें सारंग और कमर में तरकस कसा हुआ है । दृढ़ मनोहर लम्बी सुजायें और चौड़ी छाती पर नृगु-किन्हे शोभायमान हैं । तुलसीदासजी कहते हैं कि प्रभु हाथ में धनुष-बाण लेकर

कपिन्ह सोधि चन्दन बहु भारा * लाए जहँ तहँ नाथ उदारा
कह रघुवीर सुनहु लंकेशा * तात यह वड़ हितकर उपदेशा

वानर चन्दन के अनेक बोझ ढूँढ़कर वहाँ लाये, जहाँ उदार धीरामचन्द्रजी थे। तब धीरघुनायजी बोले—हे विनोयन ! मुनो, यह यज्ञ हितकारी उपदेश है।

विन्दुमती जहँ चाहत ठाँऊ * दाहभार सँग तुम तहँ जाऊ
दसकन्धर कर वैर विहाई * चिता चारु सुचि देहु बनाई

विन्दुमती जहाँ जाना चाहती है, वहाँ लकड़ियों के बोझों के साथ तुम जाओ। रावण के वंर को छोड़कर, एक सुन्दर और पवित्र चिता बना देना।

दोहा—रघुवर आज्ञा सीस धरि, उठे दशानन भाइ।

अयुत भार चन्दन अगरु, तेहि सँग चले लिवाइ ॥३५॥

विनोयन-धीरघुनायजी की आज्ञा स्मरण पर धारण करके उठे और उसके साथ चन्दन और अगरु के अनेक भार लिया ले चले।

दशमुख तियन सहित गा तहँवा * विन्दुमती चितरेखा जहँवा
देखत अति विलख विवुधारी * केलना करत निशाचर भारी

रावण भी स्त्रियों सहित वहाँ गया, जहाँ विन्दुमती और चितरेखा थीं। उन्हें देखकर देवताओं का शत्रु 'रावण' अत्यन्त दुःखी हुआ। सभी राक्षसों को स्त्रियाँ पिलाप कर रहीं हैं।

जथा जोग्य वैठी सब तैसें * पति गृह रहत रहीं नित जैसें
अग्नि दीन्हि ज्वाला अति धाई * पहँची सुरपुर सब तिय जाई

तब सब नारान्तक की स्त्रियाँ ऐसी बँठी, जैसे निन्द्य पति के घर रहती थीं। अग्नि देने पर लपटें अत्यन्त बढ़ीं और सभी स्त्रियाँ स्वर्गलोक को गयीं।

देखि दशा तिन्ह की सुर रमनी * तिन्हहि सराहि भवननिज गवनी
रावण सहित जुवति निज गेहा * गयउ भवन सोचति सन्देहा

उनकी दशा देखकर देवताओं को स्त्रियाँ उनकी सराहना करके अपने घरों को गयीं। रावण भी अपनी स्त्रियों सहित सन्देह व डर से नरा दूजा अपने महल को गया।

उमा चरित यह सुभग सुहावा * नाथ कृपा में तुमहि सुनावा
अपर चरित गिरिराज कुमारी * सुनहु कहउ तव प्रीति निहारी

शिवजी बोले—हे उमा ! धीरामजी की कृपा से यह सुन्दर मुद्रापना चरित्र मैंने तुमको सुनाया। हे पार्वती ! अब दूसरे चरित्र मुनो, मैं तुम्हारी प्रीति की वंशरूढ़ कहता हूँ।

दोहा—राम विरोधहि जस उचित, तस दिन पहँचा आइ।

सो विचारि करि लंक गढ़, उतरी विपति बजाइ ॥३६॥

कायरों को मर देने वाली बहुत ही अपवित्र रुधिर की नदी बह चली । दोनों सेनायों ही उसके दो किनारे हैं, रथ बालू हैं । पहिये भँवर हैं, वह भयानक रूपसे बह रही है । उसमें हाथी, घोड़े, पैदल, गधे और भांति-भांति के वानर 'जल-जीव' हैं, उनकी गणना कौन करे? बाण, बछी, बल्लम-सर्प और धनुष ही उसकी तरंगें हैं तथा डालें ही बहुत-से कछुए हैं ।

दोहा—वीर पराहिं जनु वट तरु, मज्जा बहु बह फेन ।

कायर देखि उरहिं तहँ, सुभटन्ह के मन चैन ॥१२०॥

योद्धा मानो वट के वृक्षों की भांति गिरते हैं । बहुत-सी चर्बी मानो 'फेन' बह रही है । उसे देखकर कायर डरते हैं और योद्धाओं के मन प्रसन्न होते हैं ।

मज्जाहिं भूत पिशाच वेताला * प्रथम महा झोटिंग कराला
काक कङ्क लै भुजा उड़ाहीं * एक ते एक छीनि ले खाहीं

इसमें भूत-प्रेत, वेताल और विकट झोटिंग प्रथम स्नान करते हैं । कौए व गोघ भुजायें लेकर दौड़ते हैं और एक दूसरे से छीन २ कर खाते हैं ।

एक कहहिं ऐसिउ सौंघाई * सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई
कहँरत भट घायल तट गिरे * जहँ तहँ मनहे अंध जल परे

कोई कहते हैं—अरे सूखों ! ऐसी अधिकता होने पर भी तुम्हारा दरिद्र नहीं जाता । योद्धा तट पर पड़े हुए ऐसे कराह रहे हैं, मानो जहां-तहां अन्धे जल में पड़े हों ।

खँचहिं गोघ आंत तट भए * जनु वंसी खेलत चित दए
बहु भट बहाहिं चढ़े खग जाहीं * जनु नावरि खेलहिं सरि माहीं

तट पर बंठे हुए गोघ आंतें खींच रहे हैं, मानो वे मन लगाकर वंशी खेल रहे हैं । बहुत से योद्धा रुधिर में बहे जाते हैं तथा उनके ऊपर पक्षी बंठे जाते हैं, मानो नदी में नावरि खेल खेल रहे हैं ।

जोगिनि भरि भरि खप्पर संचाहिं * भूत पिशाच बधू नभ नंचाहिं
भट कपाल करताल बजावहिं * चामुण्डा नाना विधि गावहिं

योगिनियां अपना २ खप्पर भरती हैं । आकाश में भूत-पिशाचों की स्त्रियां नाच रही हैं । योद्धाओं की घोषड़ियों की करताल बजाती हुई चामुण्डायें अनेक तरह से गाती हैं ।

जम्बुक निकर कटकट कट्टहिं * खाहिं हुआहिं अघाहिं दपट्ठहिं
कोटिन्ह रुण्ड मुण्ड बिनु डोलहिं * सोस परे सहि जय जय बोलहिं

गोबड़ों के मुण्ड के मुण्ड कटकटाते हैं । वे पाते और हुआ हुआ करते हुए झपटते हैं । बहुतसे धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं, उनके सिर पृथ्वी पर पड़े हुए जय-जय बोल रहे हैं ।

छन्द—बोलहिं सो जय जय मुण्ड रुण्ड प्रचण्ड सिर बिनु धावहीं ।
खप्परहिं खग अलुज्झि जुज्झहि सुभट भटन्हि ढहावहीं ॥

कपिन्ह सोधि चन्दन बहु भारा * लाए जहँ तहँ नाथ उदारा
कह रघुवीर सुनहु लंकेशा * तात यह बड़ हितकर उपदेशा

वानर चन्दन के अनेक बोझ ढूँढ़कर यहाँ लाये, जहाँ उदार धीरामन्त्रजी थे। तब धीरघुनायजी बोले—हे विनोपण ! सुनो, यह बड़ा हितकारी उपदेश है।

विन्दुमती जहँ चाहत ठाँऊ * दारुभार सँग तुम तहँ जाऊ
दसकन्धर कर वैर विहाई * चिता चार सुचि देहु बनाई

विन्दुमती जहाँ जाना चाहती है, यहाँ लकड़ियों के बोझों के साथ तुम जाओ। रावण के वंर को छोड़कर, एक सुन्दर और पवित्र चिता बना देना।

दोहा—रघुवर आज्ञा सीस धरि, उठे दशानन भाइ ।

अयुत भार चन्दन अगर, तेहि सँग चले लिवाइ ॥३५॥

विनोपण-धीरघुनायजी की आज्ञा सिर पर धारण करके उठे और उसके साथ चन्दन और अगर के अनेक भार लिवा ले चले।

दशमुख तियन सहित गा तहँवा * विन्दुमती चितरेखा जहँवा
देखत अति विलख विवुधारी * करुना करत निशाचर भारी

रावण भी स्त्रियों सहित यहाँ गया, जहाँ विन्दुमती और चित्ररेखा थीं। उन्हें देखकर देवताओं का शत्रु 'रावण' अत्यन्त दुषी हुआ। सभी राक्षसों को स्त्रियाँ विलाप कर रहीं हैं।

जथा जोग्य बैठी सब तैसें * पति गृह रहत रहीं नित जैसें
अग्नि दीन्हि ज्वाला अति धाई * पहुंची सुरपुर सब तिय जाई

तब सब नारान्तक की स्त्रियाँ ऐसी बंठी, जैसे नित्य पति के घर रहती थीं। अग्नि देने पर लपटें अत्यन्त बढ़ीं और सभी स्त्रियाँ स्वर्गलोक को गयीं।

देखि दशा तिन्ह की सुर रमनी * तिन्हहि सराहि भवननिज गवनी
रावन सहित जुवति निज गेहा * गयउ भवन सोचति सन्देहा

उनकी दशा देखकर देवताओं की स्त्रियाँ उनकी सराहना करके अपने घरों को गयीं। रावण भी अपनी स्त्रियों सहित सन्देह व डर से नरा हुआ अपने महल को गया।

उमा चरित यह सुभग सुहावा * नाथ कृपा में तुमहि सुनावा
अपर चरित गिरिराज कुमारी * सुनहु कहउ तव प्रीति निहारी

शिवजी बोले—हे उमा ! धीरामन्त्रों की कृपा से यह सुन्दर सुहावना चरित्र मैंने तुमको सुनाया। हे पार्वती ! अब दूसरे चरित्र सुनो, मैं तुम्हारी प्रीति को देखकर कहता हूँ।

दोहा—राम विरोधहि जस उचित, तस दिन पहुँचा आइ ।

सो विचारि करि लंरु गड़, उतरी विपति वजाइ ॥३६॥

लिये के समान जहाँ के तहाँ छोड़े रह गये। अपनी सेना को अचानक में छोड़ी देव हँसकर धनुष-बाण चढ़ाकर कोशत्रयपति नगवान हरि ने पल भर में नाया हरलो। तत्र वानर-सेना प्रसन्न हुई।

दोहा—बहुरि राम सब तन चितइ, बोले वचन गम्भीर ।

द्वन्द्व युद्ध देखहु सकल, श्रमित भए अति वीर ॥१२२॥

किर श्रीरामजी सबकी ओर देखकर गम्भीर वचन बोले-हे वीरो ! अब द्वन्द्व-युद्ध देखो, क्योंकि तुम सब बहुत थक गये हो।

अस कहि रथ रघुनाथ चलावा * विप्र चरन पङ्कज सिर नावा
तत्र लंकेश क्रोध उर छावा * गर्जत तर्जत सन्मुख धावा

ऐसा कहकर श्रीरामजी ने ब्राह्मणों के चरणकुमलों में शिर नवाकर रथ चला दिये। तत्र रावण के हृदय में क्रोध छा गया, वह गर्जता और लजकारता हुआ सामने आया।

जीतेहु जे भट संजुग साहीं * सुनत तापस मैं तिन्ह सम नाहीं
रावन नाथ जगत जस जाना * लोकप जाके बन्दीखाना

तुम, तपस्वी ! तूने जितने योद्धा संग्राम में जीते हैं, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरे यज्ञ को संतार जानता है, लोकपाल तक जितके बन्दीखाने में रहे हैं।

खरदूषण विराध तुम्ह नारा * बधेउ व्याध इव बालि विचारा
निसिचर निकट सुभट संधारेहु * कुम्भकरण भेधनाथहि नारेहु

खरदूषण और कबन्ध को तूने नारा। बधारे बाली को बहेजिया की नाई नारा, राक्षसों के समूह को नारा और कुम्भकरण, भेधनाथ को भी नारा।

आजु वयर सब लेहुं निवाही * जौं रन भूप भाजि नहि जाही
आजु करहुं खलु काल हवाले * परेहु कठिन रावन के पाले

यदि तुम रण-भूमि से भाग नहीं जाओ तो आज मैं सबका वर चुका दूँगा। आज तुम्हें काल के हवाले अवश्य कर दूँगा, क्योंकि आज तुम कट्टर रावण के पाले पड़े हो।

सुनि दुर्वचन कालवस जाना * विहेसि वचन कह कृपानिधाना
सत्य सत्य सब तत्र प्रभुताई * जल्पसि जनि देखाउ मनुसाई

रावण के दुर्वचन सुनकर उसे काल के आधीन जान कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजी हँसकर वचन बोले—तुम्हारी सब प्रभुता सत्य है, परन्तु धर्म बात मत करो, अपनी बहादुरी दिखाओ।

छंद—जनि कल्पना करि सुजसु नासहि नीति सुनहि करि छमा ।
संसार सहै नर त्रिविधि विधि पाटल रसाल पतस समा ॥

एक सुमनप्रद एक सुमन फल एक फलइ केवल लागहीं ।

एक कहाँहि कहहि करहि अपर एक करहि कहत न वागहीं ॥

रथ विमान आदि हैं, जिन पर अनेक रत्नों की ध्वजा-पताकाएँ फहरा रही हैं ।

चले मत्त गज जूय घनेरे * प्राविट जलद मरुत जनु प्रेरे
वरन वरन विरदैत निकाया * समर सूर जानहि बहु माया

बहुत से नतवाले हाथियों के गुण्ड चले, मानो वायु से उड़ाये हुए पर्वा के बादल चले हों । भाँति नाँति के राक्षसों के समूह हैं, जो लड़ाई में गुरबोर और वृत्त प्रकार की माया जानने वाले हैं ।

अति विचित्र वाहनी विराजी * पोर वसन्त सेन जनु साजी
चलत कटक दिग सिंधुर डगहि * छुमित पयोधि कुधर डगमगहि

ऐसी विचित्र सेना शोभायमान हुई, मानो वीर वसन्त शत्रु की सेना मर्त्री हों । सेना के चलते ही दिग्गज डगमगाने लगे, समुद्र उछलने लगा तथा पर्वत डगमगाने लगे ।

उड़ी रेनु रवि गयउ छिपाई * मरुत थकित वसुधा अकुलाई
पवन निसान घोर रव वाजहि * प्रलय समय के घन जनु गाजहि

ऐसी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गया, वायु स्थिर हो गई, पृथ्वी अकुला गई । डोल जोर लगाड़े बड़े घोर शब्द से बज रहे हैं, मानो महाप्रलय के बादल गरज रहे हों ।

भेरि नफीर वाजि सहनाई * मारु राग सुभग सुखदाई
केहरि नाद वीर सब करहीं * निज निज बल पौरुष उच्चरहीं

तुरही, नफीरी और सहनाई बज रही हैं तथा योद्धाओं को मुण्ड बने जाता मारु राग बज रहा है । वीर योद्धा सिंहनाद कर रहे हैं और अपना पराक्रम बयान रहे हैं ।

कहइ दसानन सुनहु सुभट्टा * मर्दहु भालु कपिन्ह के ठट्टा
हौं मारिहउं भूप द्वौ भाई * कस कहि सन्मुख फौज चलाई

यह सुधि सकल कपिन्ह जव पाई * धाए करि रघुवीर दोहाई

रावण कहने लगा—मुनो, वीर, योद्धाओ ! रोछ-वानरों के गुण्डों को मतल टालो । मैं बीनों राजकुमार भाइयों को मारुंगा । ऐसा कहकर सामने अपनी सेना चलायो । यह समाचार जब वानरों को मिला, तब श्रीरघुनाथ जी की बुहाई देते हुए ये सब बोड़े ।

छन्द—धाए विस्तार कराल मर्कट भालु काल समान ते ।

मानहुँ सपच्छ उड़ाइ भूधर वृन्द नाना वान ते ॥

नख दसन सैल महाद्रुमायुध सबल संक न मानहीं ।

जय राम रावन मत्त गज मृगराज सुयसु बखानहीं ॥

ये उड़े मयंकर काल के समान रोछ-वानर बोड़े, मानो पंखों सहित पर्वतों के समूह अनेक वाण लगने से उड़े जा रहे हों । नाचून, बाँत, पर्वत और विमान युद्ध ही उनके हथियार हैं, ये महाबली किसी का डर नहीं मानते । ये रावणरुपों नरवाने हाथों के निरु निरु के समान श्रीरामचन्द्रजी की जय बोलते हुए उनके यत्न का वर्णन कर रहे हैं ।



कच्छप, पृथ्वी और पहाड़ उर गये । दिशाओं के हाथों पृथ्वी को दाँतों से पकड़ कर चिघाड़ने लगे । यह कौतुक देखकर देवता हँसे ।

दोहा—तानेउ चाप श्रवन लागि, छाँड़े विसिख कराल ।

राम मारगन गन चले, लहलहात जनु व्याल ॥१२४॥

श्रीरामचन्द्रजी ने फान तक धनुष तान कर कराल बाण छोड़े । रामबाण ऐसे चले, मानो जपलपाते हुए साँप जा रहे हों ।

चले वान सपच्छ जनु उरगा * प्रथमहि हतेउ सारथी तुरगा
रथ विभञ्जि हति केतु पताका * गर्जा अति अन्तर बल थाका

पंथ वाले साँपों के समान बाण चले, उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मारा, फिर रथ को तोड़कर ध्वजा-पताका उड़ा दी । तब रावण बड़े जोरसे गरजा, परन्तु उसका बल भीतर से घट गया ।

तत्र रावन दस शूल चढ़ावा * बाजि चारिमहि मारि गिरावा
तुरग उठाइ कोपि रघुनायक * खँचि सरासन छाँड़े सायक

तब रावण ने दस शूल चलाये, जिन्होंने चारों घोड़े भूमि में गिरा दिये । तब घोड़ों को उठाकर श्रीरामजी ने क्रोध करके धनुष तानकर बाण छोड़े ।

तीस तीर रघुवीर पँवारे * भुजन्हि समेत सीस महि पारे
काटत ही पुनि भए नवीने * राम बहोरि भुजा सिर छीने

तीस बाण रामजी ने छोड़े, जिन्होंने तीसों भुजाओं सहित दसों सिर काट भूमि पर डाल दिये । फटते ही वे फिर नये प्रकट होगये, श्रीरामजी ने फिर मुजा व सिर काट डाले ।

पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा * अति कौतुकी कोसलाधीसा
रहे छाह नभ सिर अरु बाहू * मानहु अमित केतु अरु राहू

कोशलनाथ बड़े खिलाड़ी हैं, वे रावण की भुजाओं और सिरों को बार २ काटते हैं । वे फाटे हुए सिर आकाश में ऐसे छा रहे हैं, मानो बहुत से केतु और राहू हों ।

छन्द—जनु राहु केतु अनेक नभ पथ स्रवत सोनित धावहीं ।
रघुवीर तीर प्रचण्ड लागहि भूमि गिरन न पावहीं ॥

एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उड़त इमि सोहहीं ।
जनु कोपि दिनकर कर निकर तहँ तहँ विन्धुतुद पोहहीं ॥

मानो अनेक राहु-केतु खरिब डपकाते हुए आकाश-मार्ग में दौड़ रहे हैं, उनमें रामजी के तीसों बाण ऐसे लग रहे हैं कि पृथ्वी पर नहीं गिरने पाते, एक-एक बाण ने बहुत से सिरों को छेद दिया । ये आकाश में उड़ते हुए ऐसे सोनित हैं, मानो क्रोधित होकर सूर्य से अपनी किरणें निकाल कर अहाँ-तहाँ राहू विरो दिये हों ।

एहि मिस मोहि उपदेसेहु, राम कृपा सुख पुंज ॥११२॥

प्रभु के वचन सुनते ही विनोयन ने प्रसन्न होकर चरण पकड़कर कहा—हे कृपा ओर सुख के समूह श्रीरामजी ! आपने इसी बहाने से मुझे उपदेश दिया है ।

उत पचार दसकन्धर, इत अङ्गद हनुमान ।

लरत निसाचर भालु कपि, करिनिजनिज प्रभु आन ॥११३॥

उधर से रावण ने ओर इधर से अङ्गद व हनुमानजी ने ललकारा । राक्षस ओर रोछ वानर अपने-अपने स्वामी को बुलाई देते हुए लड़ने लगे ।

सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना * देखत रथ नभ चढ़े विमाना
हमहूँ उमा रहे तेहि सङ्गा * देखत राम चरित गण रङ्गा

ब्रह्मा आदि देवता, सिद्धि ओर मुनि विमानों पर चढ़े आकाश से युद्ध देख रहे हैं । हे पार्वती ! हम भी उनके साथ श्रीरामजी के चरित्र ओर युद्ध देखते थे ।

सुभट समररस दुहुँ दिसि माते * कपि जयसील रामवल ताते
एक एक सन भिरहिं पछारहिं * एकन्ह एक मदि महि पारहिं

लड़ाई के रस से दोनों ओर के योद्धा मस्त हो रहे थे, परन्तु श्रीरामजी के बलसे वानर विजयी थे । एक को एक ललकार कर तथा एक को एक मसल कर फेंक देता था ।

मारहिं काटहिं धरहिं पछारहिं * सीस तोरि सीसन्ह सन मारहिं
उदर विदारहिं भुजा उपारहिं * गहिपद अवनिपटकमटडारहिं

वे मारते, काटते, पकड़ते ओर पछाड़ते हैं तथा सिरों से सिर मारते हैं । पेट फाड़ते ओर भुजा उखाड़ते व पंर पकड़कर योद्धाओं को पृथ्वी पर पटक देते हैं ।

निसिचर भट महि गाढ़हिं भालू * ऊपर डारि देहिं बहु बालू
वीर बलीमुख जुद्ध विरुद्धे * देखियत पिपुल कालजनु क्रुद्धे

राक्षस योद्धाओं को रोछ घरतो में गाढ़ देते हैं ओर ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं । युद्ध में विरुद्ध हुए वानर ऐसे बीच पड़ते हैं मानो बहुत से काल क्रोधित हों ।

छन्द—क्रुद्धे कृतान्त समान कपि तनु स्रवत सोनित राजहों ।
मर्दहिं निसाचर कटक भट बलवन्त घन जिमि गाजहों ॥

मारहिं चपेटन्हि डाटि दाँतन्हि काटि लातन्हि मोजहों ।
चिक्करहिं मर्कट भालु छलवल करहिं खल जेहिं छोजहों ॥

क्रोधित कालके समान वानरों के शरीर से बहता हुआ रधिर मुक्तोमित है । बलवान राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते ओर बाबल के समान गरजते हैं । चपेटों से मारते काटते, दाँतों से काटते ओर लातों से मोजते हैं । रोछ वानर छिन्नकारते ओर इस प्रकार

छल-वत्न करते हैं कि दृष्ट राक्षस नष्ट हों ।

फिर रावण ने क्रोधित होकर तीव्र शक्ति छोड़ी, वह विभीषण के सामने ऐसी चली, मानो काल (यमराज का दण्ड) ही ।

आवत देखि सक्ति अति घोरा * प्रनतारित भञ्जन पन तोरा
तुरत विभीषण पाछें मेला * सम्मुख राम सहेउ सोइ सेला

नारी शक्ति को आते देखकर प्रभु ने अपने शरणागत के दुःख को दूर करने के सुवचन को स्मरण करके विभीषण तुरन्त पीछे कर दिया और स्वयं सामने जाकर उसको सह लिया ।

लागि सक्ति मूरछा कछु भई * प्रभु कृत खेल सुरन्ह विकलई
देखि विभीषण प्रभु श्रम पायो * गहि कर गदा क्रुद्ध होइ धायो

उस शक्ति के लगने से कुछ मूर्छा-सी हुई। प्रभु ने तो खेल किया पर देवताओं को घबराहट हो गई। विभीषण ने प्रभु को श्रम पाये देखकर हाथ में गदा लेकर क्रोध करके धावा किया।

रे कुभाय सठ मन्द कुबुद्धे * तैं सुर नर मुनि नाग विरुद्धे
सादर शिव कहूँ सील चड़ाए * एक एक के कोटिन्ह पाए

ये बोले-रे अनागे, मूर्ख, नीच, बुबुद्धि तूने देवता, मनुष्य, मुनि और नाग सभी से बैर किया। सादर सहित शिवजी को शिर चड़ाकर एक-एक के बदले में करोड़ों सिर पाये हैं।

तेहि कारण खल अब तक वाच्यो * अब तव काल सील पर नाच्यो
राम विमुख शठ चहसि सम्पदा * अस कहि हनेसि भाझ उरगदा

रे दुष्ट इसी से अब तक तू बचा है, अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। रे मूर्ख श्रीराम से विमुख होकर सम्पत्ति चाहता है, ऐसा कहकर रावण की छाती के बीचों-बीच गदा नारी ।

छन्द-उर भाझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत नहि पर्यो ।

दत्त ददन सोनित खदत पुनि सम्भारि धायो रिस भर्यो ॥

द्वौ भिरे अति बल मल्ल जुद्ध विरुद्ध एकु एकहि हने ।

रघुवीर बल दपित विभीषणु घालि नहि ता कहूँ गने ॥

छाती में गदा की नारी चोट लगते ही वह धरती पर गिर पड़ा और दत्तों मुठों से खिच

रहने लगा फिर सेमला और क्रोध में नरकर दौड़ा, बड़े बली कुत्ती लड़ने लगे और विरुद्ध होकर एक दूसरे को नारने लगे। श्रीरामजी के बल से गनित विभीषण नारको कुछ नहीं गिनता

दोहा-उना विभीषणु रावनहि, सम्मुख चितव कि काउ ।

तो अब भिरत काल उयो, श्रीरघुवीर प्रभाउ ॥१२७॥

(विभीषणो कहते हैं-) हे पार्वती ! विभीषण क्या कभी रावण के सामने आँध उठाकर भी देव मरता था। परन्तु अब वही काल के समान उससे घुड़ कर रहा है, यह भी प्रभु श्रीरघुनाथजी का ही प्रभाव है।

देखा श्रानित विभीषणु भारी * धायउ हनुमान गिरधारी

भयो अति कोलाहल विकल कपिदण्ड भालु बोलाहि आतुरे ।
रघुवीर करुनानिधि आरत बन्धु जन रच्छक हरे ॥

धनुष चढ़ाकर रावण ने बाणों के समूह छोड़े । वे रावण में ऐसे लगते हैं, जैसे उड़कर साँप लिपट जाते हैं । पृथ्वी-आकाश, विद्या-विदिना सब जगह बाण छा गये । चन्द्र कहाँ भागें ? बड़ा हुल्लड़ मच गया, तब राम-सेना धक्का कर पुकारने लगी कि हे रघुवीर, हे ब्यासिन्धु, भयत-रक्षक भगवान् ! हमारी रक्षा करो ।

दोहा-निजदल विकल देखि कटि, कसि निसङ्ग धनु हाथ ।

लक्ष्मिन चले क्रुद्ध होइ, नाइ रामपद माथ ॥११५॥

अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तर्कत कसकर, धनुष हाथ में लेकर लक्ष्मणजी श्रीरामजी के चरणों में सिर नवाकर क्रोध सहित चले ।

रे खल का मारेसि कपि भालू * मोहि विलोकि तोर में कालू
खोजत रहेउं तोहि सुतघातो * आजु निपाति जुड़ावउं छातो

(लक्ष्मणजी ने कहा-) रे दुष्ट ! वानर-रोहों को क्या मारता है । मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ । रावण बोला-रे पुत्रघारी ! मैं तुझे ही दूँड़ता था, आज तुझे मारकर छातो टांगे करूँगा ।

अस कहि छाँड़ेसि वान प्रचण्डा * लक्ष्मिन किए सकल सत खण्डा
कोटिन्ह आयुध रावन डारे * तून समान करि काटि निवारे

ऐसा कहकर रावण ने तोक्षण बाण छोड़े, लक्ष्मणजी ने सबके सौ टुकड़े कर दिये तब रावण ने अनेक हथियार घलाये, लक्ष्मणजी ने उनके तिनकों के समान टुकड़े कर दिये ।

पुनि निज वानन्हकोन्ह प्रहारा * स्यन्दनु भंजि सारयो मारा
सत सत सर मारे दस भाला * गिरिशृङ्गनप्रविसहिं जनु व्याला

फिर अपने बाणों से प्रहार किया । रम को तोड़कर सारयो को मार डाला, दलों मस्तकों में सौ-सौ बाण मारे, वे ऐसे घुस गये, जैसे पर्वतों के शिखरों में तपें पुसे हैं ।

पुनि सत सर मारेउ उर माहीं * परेउधरनि तल सुधि कछु नाहीं
उठा प्रवल पुनि मुरछा जागी * छाँड़ेसि ब्रह्म दीन्हि जो सांगो

फिर सौ बाण रावण के हृदय में मारे, जिससे चन्द्रभूमि पर निरपड़ा । देह को कुछ भी मुषि न रही । मूर्छा दूर होने पर महापत्नी फिर उठा धीर उसने ब्रह्मा को रो हुँद साकि छोड़े ।

छन्द-सो ब्रह्म दत्त प्रचण्ड सक्ति अनंत उर लागो सहो ।

परचो वीर विकल उठाव दसमुख अतुल बल महिमा रही ॥

ब्रह्माण्ड भवन विराज जाकें एरु सिर जिमि रज कनो ।

तेहि वह उठावन मूढ़ रावन जान नहिं त्रिभुवन धृतो ॥

देखि कपिन्ह अमित दससीसा * जहँ तहँ भजे भालु करु कीसा
भागे वानर धरहि न धीरा * त्राहि त्राहि लछिमन रघुवीरा

वानरों ने अगणित रावण देखे । भालु और वानर जहाँ-तहाँ भागे । वीर वानर धीरज नहीं धरते । लक्ष्मणजी ! हे रामजी ! रक्षा करो ।

दसं दिसि धावहि कोटिन्ह रावन * गर्जहि घोर कठोर भयावन
उरे सकल पुर चले पराई * जय कै आस तजहु अब भाई

दशों दिशाओं में अनेकों रावण दौड़े और महाघोर कठोर और भयंकर शब्दोंसे गरजने लगे । सब देवता डरगये और यह कहते हुए भाग चले कि भाइयो ! अब विजय की आशा छोड़ दो ।

सब सुर जिते एक दसकन्धर * अब बहु भए तक्रहु गिरिकन्दर
रहे विरंचि सम्भु मुनि ज्ञानी * जिन्हजिन्हप्रभुमहिमाकछुजानी

सब देवों को एक ही रावण ने जीत लिया, अब तो बहुत से रावण हो गये, इससे अब कन्दराओं को हूँदो । ब्रह्मा महादेव और ज्ञानी मुनि निमर रहे, जिन लोगों ने प्रभु की महिमा जानी थी,

छन्द-जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन्ह रिपु माने फुरे ।

चले विचलि मर्कट भालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे ॥

हनुमन्त अङ्गद नील नल अति बल लरत रन बांकुरे ।

मर्दहि दसासन कोटि-कोटिहि कपट भूमट अंकुरे ॥

जो प्रभु के प्रताप को जानते थे वे निर्भय रहे, वानरों ने शत्रु सच्चे मारे, इससे वानर-रीछ धबड़ाकर भाग चले और मारे डरके पुकारने लगे, हेदयालु रक्षा करो ! हनुमान, अंगद, नील, नल आदि महाबली बौद्धा मायावी रावणोंको जो छलसे उत्पन्न हुए थे, मसल २ कर मारने लगे ।

दोहा-सुरासार देखे विकल, हँस्यो कोसलाधीश ।

सजि सारङ्ग एक सर, हते सकल दससीस ॥१२६॥

देवता और वानरों को विकल देखकर श्रीरामजी हँसे और अपना धनुष तैनालकर एक बाण से पल भर में सब रावणों का नाश कर दिया ।

प्रभु छन महँ माया सब काटी * जिमि रवि उएँ जाहि तम फाटी
रावन एकु देखि सुर हरये * फिर बहु सुमन प्रभु पर वरये

प्रभुने अपनाधर में सब राक्षसी माया हटा ली, जैसे सूर्य के उगनेसे अंधकार दूर होता है । जब एक रावण रहा तब उसे देव देवता प्रसन्न हुए और लटि, फिर प्रभु पर बहुतसे फूल बरसाये ।

भुज उठाय रघुपति कपि फेरे * फिरे एक एकन्ह तब टेरे
प्रभु बल पाइ भालु कपि धाये * तरल तलिक संजुग महि आये

रघुनाथजी ने अपनी भुजा उठाकर वानरों को लौटाया । तबवे वानर एक दूसरे को पुकार कर तब फिर । प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़े और वेगसे जबरजबर संग्राम में आगये ।

गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उठे रथ पर डालकर तुरन्त लंका में ले गया। प्रताप के समूह श्रीरामचन्द्र के भाई-सहमणजी ने आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया।

दोहा—उहाँ दसानन जागि करि, करै लाग कछु जग्य।

राम विरोध विजय चहु, सठ हठ बस अति अग्य ॥११७॥

यहाँ रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। यह महामूर्ख हठ करके श्रीरामजी से बंद होने पर भी अपनी जीत चाहता है।

इहाँ विभीषण सब सुधि पाई * सपदि जाइ रघुपतिहि सुनाई
नाथ करइ रावण एक जागा * सिद्ध भएँ नहिं मरिहि अभागा

यहाँ विभीषण ने घबर पाई तो तुरन्त श्रीरघुनाथजी को जा सुनाई-हे नाथ! रावण एक यज्ञ कर रहा है। सिद्ध हो जाने पर यह अभागा नहीं मरेगा।

पठवहु नाथ वेगि भट वन्दर * करहिं विध्वंस आव दसकन्धर
प्रात होत प्रभु सुभट पठाए * हनुमदादि अङ्गद सब धाए

हे नाथ! वीर यानरों को शीघ्र भेजिये, यह विध्वंस करने तो रावण पुष्ट करने के लिए आवेगा। सबेरा होतेही प्रभुने योद्धाओंको भेजा तो अङ्गद, हनुमान आदि सब योर बौढ़ पड़े।

कौतुक कूदि चढ़े कपि लङ्का * पठये रावण भवन असङ्गा
जग्य करत जवहीं सो देखा * सकल कपिन्ह भा क्रोध विसेपा

वानर सहज ही में उछल कर लंका पर चढ़ गये और रावण के महल में घेपड़क हो घुस गये। उसे यज्ञ करते हुए देखकर उन्हें बहुत क्रोध हुआ।

रत ते निलज भाजि गृह आवा * इहाँ आई वक ध्यान लगावा
अस कहि अङ्गद मारी लाता * चितव न सठ स्वारथ मन राता

(ये बोले—) रे निलज्ज! रणभूमि से भागकर घर चला आया और यहाँ आकर पुण्ड्रे का-सा ध्यान लगाये बंठा है। ऐसा कहकर अङ्गद ने तात मारी, परन्तु उस मूर्ख ने नहीं देखा। क्योंकि वह अपने स्वार्थ में रत था।

छन्द—नहिं चितव जब करि कोप कपि गहि दसन लातन्ह मारहीं।

धरि केस नारि निकारि वहोरि तेगति दीन पुकारहीं ॥

तब उठेउ क्रुद्ध कृतान्त सम गहि चरन वानर डारई।

एहि बीच कपिन्हि दिध्वंश कृत मख देखि मन महू हारई ॥

जब नहीं देखा तो वानर बहुत क्रोधित होकर उसे बाँतो से काटने और तातोसे मारने लगे, फिर स्त्रियों की चोटी पकड़कर बाहर निकाल लाये। ये प्रति शोक होकर चिन्ताने लगे, तब रावण काल के समान क्रोध में भरकर उठा और यानरों को बंद पकड़ कर दूर करने

कोई रावण के शरीर को विदीर्णकर भाग जाते हैं तो कोई लातों से मारते हैं, तब तल और नील उसके शरीर पर चढ़ गये और उन्होंने अपने नखांसि रावण के कपालोंको पकड़ डाला ।

रुधिर देखि विपाद उर भारी * तिन्हहि धरन कहुं भुजा प्रसारी
गहे न जाहिं करहिं पर फिरहीं * जनु जुग मधुप कमल वन चरहीं

रुधिर देखकर क्रोधित हो उसवेव शत्रुने उनके पकड़ने के लिए भुजा फेंकाई, पर वे पकड़ने में नहीं आते । वे उसकी भुजाओं के ऊपर फिरते हैं, मानो दो सौ किलो के वनमें फिर रहे हों ।

कोप क्रुद्ध द्वौ धरेसि वहोरी * महि पटकत भजे भुजा मरोरी
पुनि संकोचि दस कर लीन्हे * सरन्हि मारि घायल कपि कीन्हे

फिर रावण ने क्रोध पूर्वक क्रुद्धकर दोनों को पकड़ लिया । पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजा मरोड़ कर भाग गये । तब उसने क्रोधित होकर दसों हाथों में दस धनुष लिये और बाण मारकर घानरों को घायल कर दिया ।

हनुमतादि मूरुछित करि वन्दर * पाइ प्रदोष हरसि दसकन्धर
मुरछित देखि सकल कपि वीरा * जामवन्त धायउ रनवीरा

हनुमान आदि सब घानरों को मूर्च्छित कर सन्ध्या समय जानकर रावण प्रसन्न हुआ । सब घानरों को मूर्च्छित देखकर रणधीर जामवन्त बोड़े ।

सङ्ग भालु मूधर तरु धारी * मारन लगे पचारि पचारी
भयउ क्रुद्ध रावन बलवाना * गहि पद महि पटकत भइ नाना
देखि भालुपति निज दल घाता * कोप माझ उर मारेसि लाता

साथ में जो जानू थे, वे पर्वत और वृक्ष लिए ललकार २ कर उसे मारने लगे । बलवान् रावण बहुत क्रोधित हुआ और अनेक योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटकने लगा । जामवन्त ने अपने बल का संहार होने देखकर कोप करके रावण के हृदय में लात मारी ।

छन्द-उर लात घात प्रचण्ड लागत विकल रथ ते महि परा ।

गहि भालु बीसहु कर मनहुं कमलन्हि वसे निसि मधुकरा ॥

मुरछित विलोकि बहोरि पद हति भालुपति प्रभु पहिं गयो ।

निसि जानि स्यमन्दन घालि तेह तब सूत जतनु करत भयो ॥

हृदय में लात की भारी चोट लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से नीचे पर गिर पड़ा । बांसों हाथों से रोठों को पकड़ते हुए ऐसा लगता है, मानो रात्रि में सौ किलो में बने हों । जामवन्त उसे मूर्च्छित देखकर फिर लात मारकर प्रभु के पास आये । रात्रि जानकर मारथी रथ में रावण को रखकर चतन्य करने का उपाय करने लगा ।

दोहा-मुरछा विगत भालु कपि, सब आए प्रभु पास ।

निसिचर सकल रावनहि, घेरि रहे अति चास ॥१३१॥

धुमाने लगे, तब ब्रह्माण्ड, दिग्गज, कच्छप, शेष पृथ्वी, समुद्र और पर्वत दोलने लगे ।

दोहा-सोभा देखि हरपि सुर, वरपहि सुमन अपार ।

जय जय जय करुनानिधि, जवि बल गुन आगार ॥११६॥

शोभा देखकर देवता प्रसन्न होकर अपार फूल वर्षा करने लगे । दया के समुद्र तथा शोभा, गुण और बल के घाम प्रभु को जय-जयकार करने लगे ।

एहीं बीच निसाचर अनी * कसमसात आई अति घनी
देखि चले सन्मुख कपि भट्टा * प्रलय काल के जनु घन घट्टा

इतने ही में राक्षसों की सेना बहुत घनी होने के कारण कसमसातो हुई आई। उसे देख कर वानर वीर सामने चले, मानो प्रलयकाल के बादलों की घटाये उमड़ घतो हों ।

बहु कृपान तरवारि चमक्काहि * जनुदहें दिसि दामिनिदमक्काहि
गज रथ तुरंग चिकार कठोरा * गर्जाहि मनहुं बलाहकु घोरा

कृपाण, शूल, तलवार चमक रहो हैं, मानो दशों दिशाओं में विजलियां घमक रहो हों। हाथी, रथ, घोड़ों के कठोर शब्द मानो भयंकर मेघ गरज रहे हों ।

कपि लंगूर विपुल नभ छाए * मनहुं इन्द्रधनु उएउं सुहाए
उठइ धूरि मानहुं जलधारा * वान बुन्द भै वृष्टि अपारा

वानरों की बहुत-सी प्रुँछें आकाश में छागई हैं, मानो सुन्दर इन्द्र-धनुष उषन्न हुए हों। धूलि उड़ती है, मानो जल की धार हो, बाणों को ऐसी शोभा हुई, मानो बहुत वर्षा होरहो हों ।

दुहुं दिसि पर्वत करहि प्रहारा * वज्रपात जनु वारहि वारा
रघुपति कोपि वान झरि लाई * धायल भए निसिचर समुदाई

दोनों ओर से योद्धा पर्वतों की वर्षा कर रहे हैं, मानो बारम्बार वज्रपात होरहा है। धीरघुनायजी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे बहुत से राक्षस पायल होगये ।

लागत वान वीर चिक्करहो * धूमि धूमि जहें तहें महि परहो
स्रवहि सैल जनु निर्जर भारी * सोनित सरि कादर भयकारी

बाण लगते ही वीर चीच मारकर चक्कर चारु जहाँ-तहाँ गिर पड़ते हैं । धरि को नदी ऐसी जान पड़ती है, मानो पहाड़ों से पानी के झरने बह रहे हों । यह नदी काजरों को भय देने वाली है ।

छन्द-कायर भयङ्कर रुधिर सरिता चली परम अपावनी ।
कोउ कूल दल रथ रेत चक्र अवत बहति भयावनी ॥

जलजन्तु गज पदचर तुरंग खर विविध वाहन को गने ।

सर सक्ति तोमर सर्प चाप तुरंग चर्म कमठ घने ॥

सुनि वचन हरष विषाद मन अति देखि पुनि त्रिजटाँ कहा ।

अब मरिहि रिपु एहि विधि सुनहु सुन्दरि तजहु संसय महा ॥

इसके हृदयमें जानकीजी का वास है, जानकी के हृदय में मेरा वास है तथा मेरे हृदय में अनेक लोफ हैं, अतः वाण लगते ही सबका नाश हो जायगा । यह सुनकर सीताजी के हृदय में बहुत आनन्द और दुःख हुआ । यह देखकर त्रिजटा ने फिर कहा—हे सुन्दरी ! अब भारी तन्वेह को दूर करके सुनो, शत्रु इस तरह मरेगा कि—

दोहा—काटत सिर होइहि विकल, छूटि जाइहि तव ध्यान ।

तव रावनहि हृदयँ अहुँ, मारहि राम सुजान ॥१३२॥

सिर काटते समय जब रावण व्याकुल हो जायगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जायगा, तब चतुर श्रीरामजी रावण के हृदय में वाण मारेंगे ।

अस कहि बहुत भाँति समुझाई * पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई
राम सुभाउ सुमिर बैदेही * उपजी विरह व्यथा अति देही

ऐसा कहकर सीताजी को बहुत माँतिसे समझाया फिर त्रिजटा अपने घरको चली गई । श्रीरामचंद्रजी के स्वभाव को स्मरण कर सीताजी के हृदयमें भारी विरह-व्यथा उत्पन्न हुई ।

निसिहिसिहि निंदति बहु भाँती * जुग सम भई सिरात न राती
करति विलाप मनहि मन भारी * राम विरहँ जानकी दुखारी

वे रात्रिकी ओर चंद्रमाकी बहुत माँतिसे निंदाकर रही हैं कि रात युग के बराबर होगई । काटे नहीं कटती । श्रीरामजी के विरह में दुःखित जानकीजी मन में बहुत विलाप करने लगीं ।

जब अति भयउ विरह उर दाहू * फरकेउ बाम नयन अरु बाहू
सगुन विचारि धरिउ मन धीरा * अब मिलिहहि कृपालु रघुवीरा

अब विरहसे हृदयमें बहुत जलन हुई, तबवाई आँख और भुजा फड़कने लगीं । यह शकुन विचार कर सीताजी ने मन में धीरज धारण किया कि अब कृपालु श्रीरघुनाथजी मिलेंगे ।

हाँ अर्जँ निसि रावनु जागा * निज सारथि सन खोजन लागा
सठ रनभूमि छड़ाइसि मोही * धिगधिग अधम मन्दतति तोही

यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से, जागा और अपने सारथी से सुँझलाने लगा-रे मूर्ख ! तुझे मुझे रण-भूमि से हटा दिया । रे नीच, मन्व-वृद्धि ! तुझे धिक्कार है, धिक्कार है ।

तेहि पदगहि बहुविधि समुझावा * भोरु भएँ रथ चढ़ि पुनि धावा
सुनि आगमन दशानन केरा * कपिल खरभर भयउ घनेरा

जहँ तहँ भूधर विटप उपारी * धाए कटकटाइ भट भारी

सारथीने चरण पकड़कर बहुत माँति से समझाया । तब भोर होने पर रावणरथ पर चढ़ फिर बीड़ा । रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली पड़ गई । भारी

वानर निसाचर निकर मर्दहि राम बल दपित गए ।
संग्राम अङ्गन सुभट सोवहि राम सर निकरन्हि हुए ॥

मुण्ड 'जय-जय' बोलते हैं और प्रचण्ड घड़ बिना शिर के बीते हैं। पक्षी घोषदियों में झगड़ कर लड़ मरते हैं, वीर दूसरे वीरों को गिराते हैं। धीरामजी के तेज से दपित वानर राक्षस-समूह को मसल डालते हैं। समरांगण में धीरामजी के बाण-समूहों से भरे दृष्ये घोड़ा सो रहे हैं।

दोहा-रावण हृदय विचारा, भा निसिचर संहारा ।

मैं अनेक कपि भालु बहु, माया करों अपार ॥१२१॥

रावण ने मन में विचारा कि राक्षसों का तो नाश होगया, मैं अकेला हूँ और वानर-रोछ बहुत हैं, इसलिए अब मैं अपार माया रचूँ ।

देवन्ह प्रभु पयादे देखा * उपजा उर अति छोम विसेपा
सुरपति निज रथ तुरत पठावा * हरप सहित मातिल लै आवा

देवताओं ने प्रभु को पंचत देखा तो जो में बहुत क्षोभ हुआ। देवराज ने अपना रथ तुरन्त भेज दिया, जिसे मातलि सहर्ष ले आया।

तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा * हरपि चढ़े कोसलपुर भूपा
चञ्चल तुरंग मनोहर चारी * अजर अमर मन सम गतिकारी

उस तेज पूर्ण अनुपम रथ पर कोसलपुर के स्वामी धीरामजी बैठकर चढ़े। उस रथमें चंचल और मनोहर घोड़े जुते हैं, जो अजर-अमर तथा मन के समान चंचल गति वाले हैं।

रथारूढ़ रघुनाथहि देखी * धाए कपि बलु पाइ विसेपी
सही न जाय कपिन्ह कै मारी * तव रावण माया विस्तारी

धीरामजी को रथ पर देखकर वानर विशेष बल पाकर बीड़े, जब वानरों को नार सहो नहीं गई, तब रावण ने माया फैलाई।

सो माया रघुवीरहि वाँची * लछिमन कपिन्ह सो मानीसाँचो
देखि कपिन्ह निसाचर अनी * अनुज सहित बहु कौसलधनी

वह माया धीरामजी के सिवाय लक्ष्मणजी तथा वानरों आदि ने सब मानतो। निगा-घरों की सेना में लक्ष्मण सहित बहुत से रामों को देखा।

छंद-बहु राम लछिमन देखि मर्कट भालु मन अति अपडरे ।
जनु चित्रलिखित समेत लछिमन जहें सो तहें चितवहि खरे ॥

निज सेन चकित विलोकि हँसि सरचाप सजि कोसल धनी ।
माया हरी हरि निमित्त महें हरयो सकल मर्कट अनी ॥

बहुत से राम-लक्ष्मण देखकर वानर रोछ मन में बहुत डर गये। लक्ष्मण समेत वे

लछिमन कपीस समेत । भए सकल वीर अचेत

जहाँ-तहाँ वानरों को बकाकर रावण फिर गरजा, तब लक्ष्मणजी और सुग्रीव आदि सब वीर अचेत होगये ।

हा राम हा रघुनाथ । कहि सुभट मीजहि हाय
एहि विधि सकलबल तोरि । तेहि कीन्ह कपट बहोरि

'हा राम ! हा रघुनाथ !' ऐसा कहकर श्रेष्ठ योद्धा हाय मलते हैं । इस प्रकार सबका बल तोड़कर उसने फिर कपट किया ।

प्रगटेसि विपुल हनुमान । धाइ गहे पाषान
तिन्ह राम घेरे जाय । चहुँ दिसि बरुथ बयान

तब बहुत से हनुमान प्रकट होगये, वे पत्थर ले-लेकर दौड़े और उन्होंने गुण्ड बनाकर चारों ओर से जाकर श्रीरामजी को घेर लिया ।

मारहु धरहु जनि धाइ । कटकटासि पूँछ उठाइ
चहुँ दिसि लंगूर विराज । तेहि मध्य कोसलराज

'मारो, पकड़ो, जाने न पावें' ऐसा कहकर पूँछ उठाकर कटकटाने लगे । वहाँ दिशाओं में पूँछ सोमित है, उनके बीच में अयोध्या पति प्रभु हैं ।

छन्द—तेहि मध्य कोसलराज सुन्दर श्याम तनु सोभा लही ।

जनु इन्द्र धनुष अनेक की वर वारि तुङ्ग तमालही ॥

प्रभु देखि हरष विषाद उर सुर वदत जय जय जय करी ।

रघुवीर एकहि तीर कोपि निमेष सहुँ माया हरी ॥

उनके बीच में कोसलराज श्रीरामजी के श्यामसुन्दर शरीर ने ऐसी शोभा पाई कि मागी अनेक इन्द्र-धनुषों का ऊँचे तमाल के वृक्ष के चारों ओर सुन्दर बाड़ा बना हो । प्रभु को देखकर वैद्यता आनन्द और शोक से मुक्त होकर 'जय-जय' बोलने लगे । तब श्रीरामजी ने क्रोध करके एक ही वाण से पलभर में सब राक्षसी माया हूरली ।

माया विगत कपि भालु हरषे विटप गिर गहि सब फिरे ।

सर निकर छाँड़े राम रावनु बाहु सिर पुनि सहि गिरे ॥

श्रीराम रावनु समर चरित अनेक कल्प जो गावहीं ।

सत सेष सारङ निगम कवि तेउ तदपि पार न पावहीं ॥

माया दूर होजाने पर वानर-रीछ बहुत प्रसन्न हुए और पर्यंत वे वृक्ष ले-लेकर सब लौट पड़े । श्रीरामजी ने वाण समूह छोड़े, जिससे रावण के भुजा और सिर कट-कटकर भूमिपर गिर पड़े । श्रीरामजी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि अनेक कल्पों तक सीकड़ों शेष व साख्या और कवि गावें तो भी पार नहीं पा सकते ।

वृथा बकवाद करके उत्तम दश का नाश मत करो। धमा रचकर नीति को सुनो, संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं—पाल, आम और बटल के समान। इनमें एक केवल फूल देते हैं, दूसरे फल-फूल दोनों देते हैं और तीसरे केवल फल देते हैं। इसी प्रकार एक कहते हैं करते नहीं। दूसरे कहते भी हैं और करते भी हैं, तीसरे कहते हैं करते नहीं।

दोहा—राम वचन सुनि विहँसा, मोहि सिखावत ग्यान।

वयरु करत नहि तव डरे, अब लागे प्रिय प्राण ॥१२३॥

श्रीरामजी के वचन सुनकर रावण ने हंसकर कहा—मुझे ज्ञान सिखाते हो, तब डर करते नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लगते हैं।

**कहि दुर्वचन क्रुद्ध दसकन्धर * कुलिस समान लाग छाँड़े सर
नानाकार सिलीमुख धाए * दिसिअरुविदिसगगनमहिछाए**

रावण दुर्वचन कहकर क्रोध करके बच्च के समान बाण छोड़ने लगा। अनेक प्रकार के बाण छोड़े, दिशा-विदिशा, आकाश और पृथ्वी में छा गये।

**पावक सर छाँड़ेउ रघुवीरा * छन महँ जरे निसाचर तीरा
छाँड़िसि तीव्र सक्ति खिसिआई * वान सङ्ग प्रभु फेरि चलाई**

तब रामजी ने अग्नि-बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षणमात्र में भस्म हो गये। तब उसने विस्मिया कर बहुत पानी शक्ति छोड़ी, प्रभु ने उसे बाण के साथ तोड़ा दिया।

**कोटिन्ह चक्र त्रिशूल पँवारै * विनु प्रयास प्रभु काटि निवारै
विफल होहि रावन सर कैसे * खल के सकल मनोरथ जैसे**

रावण ने अनेकों चक्र व त्रिशूल चलाये, परन्तु प्रभु ने उन्हें बिना परिश्रम हो काटकर बाल दिया। रावण के बाण कैसे निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ।

**तव सत वान सारथी मारेसि * परेउ भूमि जय राम पुकारेसि
राम कृपा करि सूत उठावा * तव प्रभु परम क्रोध कहँ पावा**

फिर उसने श्रीरामजी के सारथी को सौ बाण मारे, वह श्रीरामजी की जय पुकारता हुआ भूमि पर गिर पड़ा, तो श्रीरामजी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु के हृदय में अत्यन्त क्रोध हुआ।

छन्द—भए क्रुद्ध जुद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोन सायक कसमरे ।

कोदण्ड धुनि अति चण्ड सुनि मनुजाद सब मारत ग्रसे ॥

मन्दोदरी उर कम्प कम्पति कमठ भू भूधर त्रसे ।

चिक्करहि दिग्गज दसन गहि महि देखि कौतुक सुर हँसे ॥

युद्ध में विरुद्ध हुए श्रीरामजी बड़े क्रोधित हुए, तर्क में बाण चढ़ावड़ाने लगे। धनुषका शब्द सुनकर सब राक्षस भयस्थो वायु से प्रसित हो गये, मन्दोदरी का हृदय काँप उठा।

छन्द-प्रतिभा रुद्धि पति पात नभ अति वात वह डोलति मही ।
 वरषहिं बलाहक रुधिर कच्च रज असुभअति सक को कही ॥
 उत्तपात अमित बिलोकि नभ सुर विकल बोलहिं जय जए ।
 सुर समय जानि कृपालु रघुपति चाप सर जोरत भए ॥

सूतियां रोने लगीं, आकाश में वज्रपात होने लगा, प्रचंड पवन चलने लगी पृथ्वी डोलने लगी ! बादलों में रुधिर, बालू और धूल की वर्षा होने लगी । ऐसे बहुत अशकुन हुए उन्हें कौन कह सकता है ? बहुत से उपद्रव देखकर आकाश से देवताव्याकुल होकर जय र डोलने लगे । देवताओं को व्याकुल जानकर दयालु श्रीरामजी ने धनुष पर बाण चढ़ाया ।

बोहा-खैंचि सरासन शवन लागि, छाँड़े सर इकतीस ।

रघुनायक सायक चले, मानहुँ काल फनीस ॥१३६॥

और कान तक धनुष खींचकर इकतीस बाण छोड़े । श्रीरघुनाथजी के बाण ऐसे चले, मानो कालरूपी साँप हों ।

सायक एक नाभि सर सोषा * अपर लगे भुज सिर करि रोषा
 लै सिर बाहु चले नाराचा * सिर भुज हीन रुण्ड महि नाचा

एक बाण से नाभि-कुण्ड के अमृत को सुखा डाला । बाकी तीस बाण क्रोध पूर्वक सिरों और भुजाओं में जालगे । बाण सिरों व भुजाओं को ले चले ! बिना सिर और भुजाओं का रुण्ड पृथ्वी पर नाचने लगा ।

धारनि धसइ धर धाव प्रचण्डा * तब सरहित प्रभु कृत दुइ खण्डा
 गर्जेउ भरत घोर रब भारी * कहाँ राम रन हतौं पचारौ

धड़की प्रचंड दौड़से पृथ्वी धसकने लगी तब प्रभु ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े करदिये । भरते तनय वह घोर शब्द से गर्जकर बोला-राम कहाँ हैं ? मैं ललकार कर उनको रण में मारूँगा ।

डोली भूमि गिरत दसकन्धर * छुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर
 धरनि परेउ द्वौ खण्ड बढ़ाई * चापि भालु अर्कट समुदाई

रावण के गिरते ही पृथ्वी हिलगई, समुद्र, नदी, दिग्गज व पर्वत हिलगये । रावण अपने धड़ के दोनों खण्डों को फंलाकर रीछ-चानरों के समूह को दवाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा ।

मन्धोदरी आगे भुज सीसा * धरि सर चले जहाँ जगदीसा
 प्रविसे सब निषङ्ग महुँ जाई * देखि सुरन्ह दुन्दुभी बजाई

मन्धोदरी के आगे भुजा और सिर रखकर राम-बाण वहाँ चले-जहाँ जगत्पिता श्रीरामजी थे । सब आकर श्रीरामजी के तर्कस में प्रवेश कर गये, यह देख देवताओं ने नगाड़े बजाये ।

तासु तेज समान प्रभु आनन * हरषे देखि शम्भु चतुरानन
 जय जय धुनि पूरी ब्रह्मण्डा * जय रघुवीर प्रबल भुजदण्डा

दोहा—जिमिजिमिप्रभुहरतासुतिर, तिमितिमिहोहिं अहार ।

सेवत विषय विविध जिमि, नित नित नूतन मार ॥१२५॥

प्रभु ज्यों २ उसके सिर काटते हैं त्यों २ वे बढ़ते जाते हैं जैसे विषयों का सेवन करने से कामदेव नित-नित नवोन होता है ।

दसमुख देखि सिरन्ह कै वाढ़ी * विसरा मरन भई रिस गाढ़ी
गर्जेउ मूढ़ महा अभिमानी * धायउ दसहु सरासन तानी

अपने शिरों को वाढ़ देखकर रावण अपना मरण भूल गया अधिक क्रोधित हुआ । यह अत्यन्त अहंकारी मूर्ख गर्जा और दसों धनुषों को तानकर बोड़ा ।

समर भूमि दसकन्धर कोप्यो * वरषि वान रघुपति रथ तोप्यो
दण्ड एक रथ देखि न हरेऊ * जनु निहार महुँ दिनकर दुरेऊ

रणभूमि में रावण क्रोधित हुआ और वान वरसा कर रामजो का रथ ढक दिया । एक घड़ी तक रथ नहीं दीख पड़ा, वह छिप गया जैसे कुहरे में सूर्य छिप जाता है ।

हाहाकार सुरन्ह जब कीन्हा * तव प्रभु कोपि कारमुक लीन्हा
सर निचारि रिपु के सिर काटे * ते दिस विदिस गगन महि पाटे

जब देवताओं ने हा-हाकार किया तब प्रभु ने कोप करके धनुष हाथ में लिया और शत्रु के काटे हुए सिर आकाश में भागते हुए जय-जय ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं ।

काटे सिर नभ मारग धावही * जयजयधुनिकरिभय उपजावहिं
कहँ लछिमन सुग्रीव कपीसा * कहँ रघुवीर कौसलाधीसा

बाणों को काटकर उसके सिर काटे, वे दिशा-विदिशा आकाश ओर पृथ्वी में छा गये लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव कहां हैं ? अयोध्यापति रघुवीर कहां हैं ।

छन्द—कहँ राम कहि सिर निकर धाए देखि मकँट भजि चले ।

संधानि धनु रघुवंसि मनि हँसि सरहिं सिर वेधे भले ॥

सिर मालिका कर कालिका गहि वृन्द वृन्दन्हि बहु मिलीं ।

करि रुधिर सरि मज्जनु मनहुँ संग्राम वट पूजन चलीं ॥

राम कहां हैं ? ऐसा कहकर बहुत से सिर दीड़े उन्हें देखकर वानर भाग चले । तब श्रीरामचन्द्रजी ने हँसकर अपना धनुष तानकर बाणों से उन शिरोंको मत्तो मांति वेधदिया । मुण्ड मालाओं को लेकर बहुत सी कलिदायें मुण्ड को मुण्ड मिलीं जैसे रुधिर को नवी में स्नान कर संग्रामरूपी वह वृक्ष को पूजने जाते हो ।

दोहा—पुनि दसकन्धर क्रुद्ध होइ, छाँड़िउ सक्ति प्रचण्ड ।

चली विभीषन सन्मुख, मनहुँ काल कर दण्ड ॥१२६॥

छाती पीट-पीट कर अनेक प्रकार से विलाप करने लगीं और रोती हुई रावण के प्रताप का वखान करने लगीं ।

तव बल नाथ डोल नित धरनी * तेजहीन पावक ससि तरनी
सेव कमठ सहि सकहि न भारा * सो तनु भूमि परेउ भहि चारा

हे नाथ ! तुम्हारे बल से पृथ्वी नित्य कांपती थी, अग्नि, चन्द्रमा और सूर्य तेजहीन थे । शेष और कच्छप भी जिसका बोझ नहीं सह सके, वह शरीर आज धूल से भरा पड़ा है ।

वरुन कुवेर सुरेस समीरा * रन सन्मुख धरि काहुन न धीरा
भुजबल जितेहु काल जम साई * आज परेहु अनाथ की नाई

रण में तुम्हारे सामने वरुण, इन्द्र और मरुत इनमें से किसी ने धीरज धारण नहीं किया । हे स्वामी ! तुमने भुजाओं के बल से काल और यम को जी जीत लिया था । वही आप आज अनाथ के समान पड़े हो ।

जगत विदित तुम्हारि प्रभुताई * सुत परिजन बल वरनि न जाई
राम विमुख अस हाल तुम्हारा * रहा न कोउ कुल रोवनिहारा

तुम्हारा प्रभुता संसार में प्रगट है, तुम्हारे पुत्र और कुटुम्बियों का भी वर्णन नहीं किया जा सकता । प्रभु से विरोध करने के कारण ऐसा हुआ कि वंश में कोई रोने वाला भी न रहा ।

काल विवस पति कहा न माना * अग जग नाथु मनुज करि जाना
हे पति । काल के वश होने के कारण तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के स्वामी को मनुष्य करके जाना ।

छन्द—जान्यो मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं ।
जेहि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिय भजेहु नहि करुनामयं ॥
आजन्मते परद्रोह रत पापौध मय तव तनु अयं ।
तुम्हहू दियो जिन धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं ॥

साक्षात् श्रीहरि को मनुष्य करके जाना । राजसत्त्वपी वन को भस्म करने के लिए जो अग्नि के समान हैं । जिन्हें शिव आदि देवता मस्तक नवाते हैं, हे प्रियतम । ऐसे दयामय परमेश्वर को तुमने नहीं मजा । तुम्हारा यह पापों के समूह से युक्त शरीर जन्म से ही दूसरे से घेर करने में लगा रहा । ऐसे तुमको भी जिन्होंने अपना धाम दिया, उन निर्विकार ब्रह्म श्रीरामचन्द्रजी को मैं नमस्कार करती हूँ ।

दोहा—अहह नाथ रघुनाथ सम, कृपासिन्धु नहि आन ।

जोगिवृन्द दुर्लभ गति, तोहि दीन्ह भगवान ॥१३८॥

अहह, हे नाथ । श्रीरामजी के समान दयासागर दूसरा कौन है ? जो गति मुनियों की भी दुर्लभ है, यह उत्तम गति भगवान ने तुम्हें दी है ।

मन्दोदरी वचन सुनि काना * सुर मुनि सिद्ध सबन्हि सुख माना

रथ तुरङ्ग सारथी निपाता * हृदय मात्र तेहि मारेसि लाता

विभीषण को चका जानकर हनुमान जो पर्वत लेकर बोड़े, उन्होंने रावण के सारथी और घोड़ों समेत रथ को चक्रवाचुर कर दिया। फिर रावण को छाते में लात मारो।

ठाढ़ रहा अति कम्पति गाता * गयउविभीषणु जहं जनत्राता
पुनि रावण कपि हतेउ पचारी * चलेउ गगन कपि पूँछ पसारी

रावण पड़ा रहा, पर उसका शरीर बरबरा गया, विभीषण वहाँ गये, जहाँ जनार्दन नगवान थे, फिर रावणने ललकारकर हनुमान जो को मारा, तब वे पूँछ फँकाकर आकाश में चले।

गहिसि पूँछ कपि सहित उड़ाना * पुनि फिरिफिरेउ प्रबल हनुमाना
लरत अकास जुगल सम जोधा * एकहि एकु हनत करि जोधा

उतने पछ पकड़ली, हनुमान जो उसे नो साथ ले उड़े फिर आकाश में महाबली हनुमान जो उससे भिड़ गये। दोनों समान घोड़ा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को शीघ्र करके मारने लगे।

सोहहि नभ छलवल बहु करहीं * कज्जलगिरि सुमेरु जनु लरहीं
बुधिवल निसिचर परइ न पार्यो * तत्र मावतसुत प्रभुहि संभार्यो

आकाश में बहुत छल-वल करते हुए ऐसे जोनित हो रहे हैं, मानो कज्जलगिरि और सुमेरु-पर्वत लड़ रहे हों। युद्ध और बल से रावण हमारे नहीं हारता, तब हनुमान जो ने प्रभु को स्मरण किया।

छन्द-सम्भारि श्रीरघुवीर धीर पचारि कहि रावणु हन्यो ।

महि परत पुनि उठि लरत देवन्ह जुगल जय जय जय भन्यो ॥

हनुमन्त सङ्कट देखि मर्कट भालु क्रोधातुर चले ।

रन मत्त रावण सकल सुभट प्रचण्ड भुजवल दलमले ॥

धीर हनुमान जो ने रघुनाथ जो को स्मरण करके रावण को ललकार कर मारा, यह भूमि पर गिर कर फिर उठकर लड़ने लगा, यह देखकर देवताओं ने दोनों को त्रय-त्रयकार को। हनुमान जो को संकट में देखकर रोछ-वानर कोषित हो बोड़े, किन्तु रण में मतवाले रावणने अपनी प्रचण्ड नृजाओं के पराक्रम से सब वानरों को मत्त डाला।

दोहा-तब रघुवीर वचारे, धाए कीस प्रचण्ड ।

कपिवल प्रबल देखि तेहि, कोन्ह प्रगट पाखण्ड ॥१२८॥

तब श्री रघुनाथ जो ने ललकारा तो प्रचण्ड वानर बोड़े। वानरों के प्रबल दल को देख कर रावण ने माया प्रगट की।

अन्तरध्यान भयउ छन एका * पुनि प्रगटे लख रूप अनेका
रघुपति कटक भालु कपि जेते * जहं तहं प्रगट दसानन तेते

क्षण भर के लिए वह अन्तरध्यान होगया, फिर वह बृष्ट जनेक रूप होकर प्रगट हुआ। राम-सेना में जितने रोछ वानर थे, उतने ही रावण प्रगट हो गये।

जोरि पान सवही सिर नाए * सहित विभीषन प्रभु पहिं आए
तव रघुवीर बोलि कप लोन्हे * कहि प्रिय वचन सुखीसब कीन्हे

सबने हाथ जोड़कर सिर नवाये फिर विभीषण समेत प्रभु के पास आये । तब श्रीरघु-
नाथजी ने बानरों को बुला लिया और मधुर वचन सुनाकर सबको सुखी किया ।

छन्द—किए सुखी कहि वानी सुधासम बल तुम्हारे रिपु हन्यो ।
पायौ विभीषन राज तिहुँपर जसु तुम्हारौ नित नयो ॥
मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारो परम प्रीति जो गाइहैं ।
संसार सिंधु अपार पार प्रयास विनु नर पाइहैं ॥

प्रभु ने अमृत के समान यह मधुर वचन कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल
से शत्रु नारा गया और विभीषण ने राज्य पाया । तुम्हारा यश तीनों लोकों में बना रहेगा ।
जो मेरे साथ तुम्हारी सुन्दर कीर्ति परम प्रीति से गावेंगे, वे मनुष्य बिना परिश्रम ही अपार
संसार सागर से पार हो जावेंगे ।

दोहा—प्रभु के वचन श्रवन सुनि, नहिं अघाहि कपि पुंज ।

वार वार सिर नावहिं, गहहिं सकल पद कंज ॥१४०॥

प्रभु के वचन कानों से सुनकर बानरगण तृप्त नहीं होते । वे श्रीरामजी के चरणकमल
पकड़कर वारम्बार सिर नवाते हैं ।

पुनि प्रभु बोलि लियउ हनुमाना * लंका जाहु कहेउ भगवाना
समाचार जानकिहि सुनावहु * तासु कुसल लै तुम्हचलिआवहु

प्रभु ने हनुमानजी को बुलाया और कहा—तुम लंका में जाओ सीताजी को सब समाचार
सुनाओ और उनकी कुशल लेकर लौट आओ ।

तव हनुमन्त नगर सहँ आए * सुनि निसिचरी निसाचर धाए
बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही * जनकसुता देखाइ पुनि दीन्ही

तब हनुमानजी लंकापुरी में आये । यह सुनकर राक्षसी और राक्षस दौड़े । उन्होंने
बहुत प्रकार से हनुमानजी का सत्कार किया और जानकीजी को दिखा दिया ।

दूरहि ते प्रनाम कपि कीन्हा * रघुपति दूत जानकी चीन्हा
कहहु तात प्रभु कृपानिकेता * कुशल अनुज कहि सेन समेता

हनुमानजी ने दूर ही से प्रणाम किया । श्रीरघुनाथजी के दूत हनुमानजी को जानकीजी
ने पहचान लिया । वे बोलीं—हे तात ! कृपानिधान प्रभु, भाई लक्ष्मण और बानरों की सेना
सहित कुशल से तो है ?

सब विधि कुसल कोसलाधीसा * मातु समर जीत्यौ दससीसा
अविचल राज विभीषन पायौ * सुनि कपि वचन हरष उरछायौ

अस्तुति करत देवतन्ह देखे * भयजँ एक मैं इन्ह के लेखे
सठहु सदा तुम्ह मोर मरायल * अस कहि क्रोध गगन पर धायल

वह देवताओं को धीरामजी की स्तुति करते देखकर अपने मनमें विचार करने लगा कि इनकी समझ में मैं अकेला होंगा। रे मूर्खों! तुम सब से ही मेरी मार पाते आये हो, ऐसे कहकर क्रोध करके आकाश में बोड़ा।

हा हा कार करत सुर भागे * खलहु जाहु कहँ मोरे आगे
देखि विकल सुर अङ्गद धायौ * कूदि चरन गहि धरनि गिरायौ

तब हा-हाकार करते हुए देवता भागे। रावण कहने लगा-अरे बुद्धी! मेरे सामने से भागकर कहां जाओगे? देवों को व्याकुल देखकर अंगदजी बोड़े और कूदकर रावण का पैर पकड़कर भूमि पर गिरा दिया।

छन्द-गहि भूमि पार्यौ लात मार्यौ वालिसुत प्रभु पहिं गयो ।

सम्भारि उठि दसकन्धर शब्द कठोर रव गर्जत भयो ॥

करि दापि चापि चढाइ दस सन्धानि सर बहु वरपहों ।

किए सकल भट धायल भयाकुल देखि निज बल हरपहों ॥

पैर पकड़कर भूमि पर गिरा दिया और लात मारकर अंगदजी प्रभु के पास गये। रावण सँभलकर उठा और बड़े भयंकर शब्द से गर्जने लगा फिर घमंड के साथ दसों धनुष चढ़ाकर उनमें बाण सन्धान कर बहुत से बाणों की वर्षा करने लगा। तब योद्धाओं को उसने धायल कर दिया और अपने बल को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ।

दोहा-तब रघुपति रावन के, सीस भुजा सर चाप ।

काटे बहुत बड़े पुनि, जिमि तीरथ कर पाप ॥१३०॥

तब धीरघनाथजी ने रावण के सिर, भुजा व धनुष-बाण काट डाले, तब ये फिर नये ऐसे प्रकट होगये, जैसे तीर्थ में किये हुए पाप बढ़ते हैं।

सिर भुज बाढि देखि रिपु केरी * भालु कपिन्ह रिस भई घनेरी

भरत न मूढ़ कटेहुँ भुज सीसा * धाए कोटि भालु भट कौसा

शत्रु के शिर व भुजाओं को बढ़ते देख रोछ-वानरों को क्रोध आया और वे बोले-यह मूर्ख, भुजा और शीश कटने पर भी नहीं भरता। तब रोछ,वानर फिर क्रोध करके बोड़े।

बालि तनय मारुत नल नीला * वानरराज द्विविद बलसोला

विटप महीधर करहिं प्रहारा * सोइगिरितहगहिकपिन्ह सोमारा

अंगद, हनुमान, नल, नील, द्विविद व मयन्द-ये महा बलवान वानर वृक्ष और पहाड़ का प्रहार करते हैं। रावण उन्हीं वृक्ष और पहाड़ों को पकड़कर वानरों पर मारता है।

एक नखन्हि रिपु वपुष विदारी * भागि चलहि एक लातन्ह मारी

तब नल नील सिरन्हि चढि गयऊ * नखन्हि लिलार विदार

देखन भालु कीस सब आए * रच्छक कोपि निवारन धाए

हाथ में छड़ी लिए रक्षक चारों ओर चले, सब मन में प्रसन्न हैं। सब रोठ व बानर दर्शन करने के लिए आये, तब रक्षक क्रोध करके उन्हें रोकने बोड़े।

कह रघुवीर कहा मम मानहुं * सीतहि सखा पयादेहि आनहुं
देखाहि कपि जननी की नाई * विहसि कहा रघुवीर गोसाई

तब श्रीरामजी ने कहा—हे सखा! मेरा कहना मानकर सीताजी को पैदल ले आओ, जिससे सब बानर माता की तरह उनका दर्शन करें, गोस्वामी श्रीरघुनाथजी ने हँसकर यह कहा।

सुनि प्रभु वचन भालुकपि हरषे * नभ ते सुरन्ह सुमन बहु वरषे
सीता प्रथम अनल महुं राखी * प्रगट कीन्ह चह अन्तर राखी

प्रभु के वचन सुनकर रोठ-बानर प्रसन्न हुए। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाये। सीताजी को पहले अग्नि में प्रवेश करा दिया था, इसलिए अन्तःकरण के साक्षी भगवान् उनको प्रकट करना चाहते हैं।

दोहा—तेहि कारन करुनानिधि, कहे कछुक दुवादि ।

नमत जातुधानी सब, लागी करन विषाद ॥१४२॥

इसी कारण कृपानिधान श्रीरामजी ने कुछ दुवचन कहे, जिन्हें सुनते ही सब रानियाँ विषाद करने लगीं।

प्रभु के वचन सीस धरि सीता * बोली मन क्रम वचन पुनीता
लछिमन होहु धरम के नेगी * पावक प्रगट करहु तुम्ह वेगी

प्रभु के वचनों की सिर पर चढ़ाकर-मन, कर्म और वचन से पवित्र सीताजी बोली-हे लक्ष्मण! धर्म के नेगी बनकर शीघ्र ही अग्नि को प्रकट करो।

सुनि लछिमन सीता कै वानी * विरह विवेक धरम निति सानी
लोचन सजल जोरि कर दोऊ * प्रभुसन कछु कह सकत न कोऊ

सीताजी की विरह, विवेक, धर्म और नीति से भरी हुई वाणी सुनकर हनुमानजी नेत्रों में अल भरकर दोनों हाथ जोड़कर पड़े रह गये, वे प्रभु से कुछ कह नहीं सकते।

देखि राम रुख लछिमन धाए * पावक प्रगटि काठ बहु लाए
पावक प्रवल देखि वैदेही * हृदय हरष नहिं कछु भय तेही

श्रीरामजी का रुख देख लक्ष्मण शीघ्रतासे गये और बहुत-सी लकड़ियाँ लाकर अग्नि को प्रज्वलित किया, प्रवल अग्नि देख सीताजी के मनमें हर्ष हुआ, उन्हें कुछभी भय नहीं था।

जौ मन वच क्रम मम उर माहीं * तजि रघुवीर आनि गति नाहीं
तौ कृसानु सब कै गत जाना * मो कहूँ सो श्री खण्ड समाना

मूर्छा दूर होजाने पर रीछ-वानर प्रभु के पास आये। तंका में सब निशाचर बहुत भयभीत होकर रावण को घेर कर जा बंटे।

❀ मासपारायण-छब्बीसवाँ विधाम ❀

तेही निसि सीता पहिं जाई * त्रिजटा कहि * सब कथा सुनाई
सिर भुज बाढ़ि सुनत रिपुकेरी * सीता उर भइ त्रास घनेरी
उसी रात को सीताजी के पास जाकर त्रिजटा ने सब कथा कही। शत्रु के सिर और भुजाओं का बढ़ना सुनकर सीताजी के हृदय में अत्यन्त भय हुआ।

मुख मलीन उपजी मन चिन्ता * त्रिजटा सन बोली तब सीता
होइहिं कहा कहसि किन माता * केहि विधि मरहिं विश्व दुखदाता
मुँह पर उदासी छा गई और मनमें चिन्ता उत्पन्न हो गई। तब सीताजी त्रिजटा से बोलीं—हे माता ! क्या होगा, सो क्यों नहीं कहते ? यह संसार को दुःख देने वाला रावण किस प्रकार मरेगा ?

रघुपति सर सिर कटेहुँ न मरई * विधि विपरीत चरित सब करई
मोर अभाग्य जिआवत मोही * जेहिं सों हरिपद कमल विछोही
रघुनाथजीके धारणोंसे सिर कटने पर भी वह नहीं मरता। विधाता सब उल्टेचरित्र कर रहा है। मेरा अभाग्यही उसे जितारहा है जिसने मुझे भगवानके चरणकमलोंसे अलग कर दिया है।

जेहिं कृत कपट कनक मृग झूठा * अजहुँ सो दैव मोहि पर रूठा
जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाए * लछिमन कहं कटु वचन कहाए
जिसने कपट युक्त सोने का मृग बनाया, वही विधाता अब भी मुझ पर रूठा है। जिस विधाता ने मुझे असह्य दुःख सहाये और लक्ष्मण को कठोर वचन कहतवाये।

रघुपति विरह विसिष सर भारी * तकि मोहि बार बार जेहि भारी
ऐसेहु दुख जो राखि मम प्राना * सोइ विधि ताहि जिआवन आना
जिसने रघुनाथजीके विछोह रूपी धारणों से तक २ कर बार-बार मुझे मारा है, ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उसको जिता रहा है, दूसरा नहीं।

बहु विधि करत विलाप जानकी * करि करि सुरति कृपानिधान की
कहि त्रिजटा सुनु राजकुमारी * उर सर लागत मरइ सुरारी
प्रभु ताते उर हतहिं न तेही * एहि के हृदय वसति वैदेही
कृपानिधान श्रीरामजी की याव करके जानकीजी बहुत से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा बोलीं—हे राजकुमारी ! सुनो, हृदय में धाण लगने से ही रावण मरेगा। परन्तु प्रभु इस कारण इसके हृदय में धाण नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकीजी बसती हैं।

छन्द—एहि के हृदय वस जानकी उर जानकी मम वास है।
मम उदर भुअन अनेक लागत दान सब कर ना

विश्व द्रोह रत यह खल कामी * निज अघ गयउ कुमारग गामी

हे दीनबंधु दयालु रघुनाथजी ! हे देव ! आपने देवताओं पर बड़ी कृपा की संसार के घंरो, कामी और छोटे मार्ग पर चलने वाला रावण अपने पापों से आप ही नष्ट होगया ।

तुम्ह सब रूप ब्रह्म अविनासी * सदा एक रस सहज उदासी

अकल अगुन अज अनख अनामय * अजित अमोघ शक्ति करुनामय

आप सत्यरूप, ब्रह्म, अविनाशी, सदा एक रस, स्वभाव से ही उदासीन, अखंड, अगुण, अजन्मा, निर्दोष और करुणामय हैं ।

मीन कसठ सूकर नरहारी * वामन परशुराम बपु धरी

जब जब नाथ सुरन्ह दुख पायो * नाना तनु धरि तुम्हहि नसायो

आपने मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह, वामन और परशुराम अवतार धारण किये । हे नाथ ! जब २ देवताओं ने दुःख पाया, तब २ आपने वेह धारण कर हमारे दुःखों को दूर किया ।

यह खल मलिन सदा सुरद्रोही * काम लोभ मद रत अति कोही

अधम सिरोमणि तव पद पावा * यह हमरे मन बिसमय आवा

यह दुष्ट, फलुपित, देवताओं से महा वैर करने वाला, लोभी, अभिमानी तथा महाक्रोधी था । यह अधम-शिरोमणि भी आपके धाम को गया, यह हमारे मन में बड़ा ही बिसमय है ।

हम देवता परम अधिकारी * स्वार्थ रत प्रभु भगति बिसारी

भव प्रवाह सन्तत हम परे * अब प्रभु पाइ सरन अनुसरे

हम देवता परम अधिकारी हैं, परन्तु हम स्वार्थ में लीन होकर आपकी भक्ति को भूल गये हैं, इससे संसार के प्रवाह में पड़े हैं । हे प्रभु ! अब हम आपकी शरण हैं, हमारी रक्षा कीजिए ।

दोहा—करि विनती सुर सिद्ध सब, रहे जहँ तहँ कर जोरि ।

अतिसप्रेम तन पुलकिविधि, स्तुति करत बहोरि ॥१४५॥

सब देवता और सिद्धगण विनती करके जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे, फिर बड़े प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्माजी स्तुति करने लगे ।

छंद-जय राम सदा सुखधाम हरे । रघुनायक सायक चाप धरे

मेव बारद दारन सिंह प्रभो । गुनसागर नागर नाथ विभो

हे सुख के धाम शोहरि ! आपकी जय हो आप रघुवंश में श्रेष्ठ क्षीर धनुषधारी हैं । हे प्रभु ! आप संसार रूपी हाथी के नाम करने के लिए सिंह रूप हैं । हे नाथ ! आप गुणों के समूह, चतुर और समर्थ हैं ।

तन काम अनेक अनूप छवी । गुन गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवी

जसु पावन रावन नाग महा । खगनाथ जथा करि कोप गहा

आपके शरीर में अनेक कामदेवों के समान अनुपम शोभा है । सिद्ध, मुनीश्वर व कवि आपके गुणगाते हैं । आपका परा निमंत्र है, आपने गवड़ की तरह रावण रूपी सांप को पकड़ लिया ।

योद्धा जहाँ-तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर फटफटाते हुए बोड़े ।

**छन्द—धाए जो मर्कट विकट भालु कराल कर भूधर धरा ।
अति कोप करहिं प्रहार मारत भजि चले रजनीचरा ॥**

**बिचलाइ दल बलवन्त कीसन्ह घेरि पुनि रावनु लियो ।
चहुँदिसि चपेटन्ह मारिनखन्ह बिदारि तनुव्याकुल कियो ॥**

विकट भयंकर वानर और रीछ हाथों में पहाड़ लेकर बोड़े और सकोप प्रहार करते लगे, उनके मारने से राक्षस भाग चले । बलवान वानरों ने राक्षसी-सेना को विचलित कर फिर रावण को घेर लिया । चारों ओर से चपेटों से मार-मारकर और नजोंसे पसोद-पसोद कर उसे व्याकुल कर दिया ।

दोहा—देखि महा मर्कट प्रबल, रावनु कीन्ह विचार ।

अन्तरहितहोइ निमिषमहँ, कृत माया विस्तार ॥१३३॥

वानरों को महा प्रबल देखकर रावण ने अपने मन में विचार किया और अन्तर्धान होकर पलभर में राक्षसी माया फैला दी ।

**छन्द—जब कीन्ह तेहिं पाषण्ड । भए प्रगट जंतु प्रचण्ड
बेताल भूत पिशाच । कर धरें धनु नाराच**

जब रावण ने माया रची, तब भयंकर जीव उत्पन्न हुए । बंताल, भूत, पिशाच हाथ में धनुष-बाण धारण किये दिखाई दिये ।

जोगिन गहे कर वाल । एक हाथ मनुज कपाल

करि सद्य सोनित पान । नाचहिं करहिं बहु गान

योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की छोपड़ी लिये ताजा रुधिर पान करके बहुत प्रकार से नाचने और गाने लगीं ।

धरु मारु बोलहिं घोर । रहि पूरि धुनि चहुँ ओर

मुख वाद धावहिं खान । तब लगे कीस परान

तथा 'पकड़ो, मारो' यह कहकर बोलीं बोलने लगीं, यह ध्वनि चारों ओर फँल गई । वे खाने को दौड़ती हैं, तब वानर भागने लगे ।

जहँ जाहिं मर्कट भागि । तहँ वरत देखहि आगि

भये विकल वानर भालु । पुनि लागि वरपन वालु

जहाँ वानर भागकर जाते हैं, वहाँ ही आग जलती देखते हैं । तब वानर पचड़ा गये, फिर वालु बरसने लगी ।

जहँ तहँ थकित करि कीस । गर्जउ वहुरि दससँ

धिग जीवन देव शरीर हरे । तव भक्ति विना भवकूप परे

हे विनो ! यह सब यानर कृतार्थ हुए, जो सादर आपके श्रीमुख का दर्शन कर रहे हैं। हे श्रीहरि ! देवताओं के शरीर और जीवन का विकार है, जो भूलकर आपको भक्ति के विना संसार में पड़े हैं।

अव दीनदयाल दया करिये । मति सौरि विभेद करी हरिये
जेहिते विपरीत क्रिया करिए । दुख सो सुख मानि सुखी चरिए

हे दीनदयालु ! अब दया कीजिए और मेरी इस भव मानने वाली बुद्धि को हर लीजिये, जिससे मैं उल्टे काम कर रहा हूँ और दुःखों को मानकर सुखी हुआ फिरता हूँ।

खल खंडन मण्डन रम्य छमा । पद पङ्कज सेवित शम्भु उमा
नृप नायक दे वरदान मिदं । चरनाम्बुज प्रेमु सदा सुभदं

आप वृष्टों का नाश करने वाले और पृथ्वी के सुन्दर भूषण हैं। आपके चरणारविन्द श्रीशिव-पार्वतीजी द्वारा सेवित हैं। हे महाराज ! आप मुझे वरदान दीजिये कि आपके चरण कमलों में मेरा कल्याणदायक प्रेम सदा बना रहे।

दोहा—विनय कीन्ह चतुरानन, प्रेम पुलक अति गात ।

सोभा सिन्धु विलोकत, लोचन नहीं अघात ॥१४६॥

प्रेम से प्रफुल्लित बेह होकर ब्रह्माजी ने स्तुति की। सोभा के समुद्र श्रीरामजी के दर्शन करते हुए, उनके नेत्र तृप्त नहीं होते।

तेहि अवसर दशरथ तहँ आए * तनय विलोकि नयन जल छाए
अनुज सहित प्रभु वन्दन कीन्हा * आसिरवाद पिताँ तव दीन्हा

उसी समय दशरथजी वहाँ आये, पुत्र को देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। लक्ष्मण सहित प्रभु ने प्रणाम किया, तब पिता ने आशीर्वाद दिया।

तात सकल तव पुत्र्य प्रभाऊ * जीत्यौ अजय निसाचर राऊ
सुनि सुत वचन प्रीति अति वाढी * नयन सलिल रोमावलि ठाढी

(श्रीरामजी कहने लगे) हे पिताजी ! आपके समस्त पुत्र्यों के प्रभाव से अजेय राक्षस रावण को जीत लिया। पुत्र के वचन सुन कर प्रीति बढ़ी, नेत्रों में जल भर आया और शरीर के रोंग छड़े हो गये।

रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना * चितइ पितहि दीन्हेउ हृद ग्याना
ताते उमा मोच्छ नहि पायो * दपरथ भेद भगति मन लगायो

श्रीरामजी ने पहले स्नेह का अनुमान कर पिता को और देखकर ही उन्हें हृद ज्ञान दिया। हे पार्वती ! दशरथजी ने भेद-व्यक्ति में मन लगाया था, अतः मोक्ष नहीं पाई।

तगुनोपासक मोच्छ न लेहीं * तिन्ह कहँ राम भगति निज देहीं

दोहा—ताके गुन गन कष्ट कहे, जड़मति तुलसीदास ।

जिमि निजबल अनुरूप ते, माँछी उड़त अकास ॥१३४॥

उस युद्ध-चरित्र के कुछ गुण-समूह वड़-बुढ़ि तुलसीदास ने ऐसे कहे हैं, जैसे मषपो अपनी शक्ति के अनुसार आकाश को उड़ती है ।

काटे सिर भुज वार बहु, मरत न भट लंकेस ।

प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखि कलेस ॥१३५॥

अनेको वार सिर पर मुजा काटने पर भी लंकापति योदा रावण नहीं डरता । प्रभु तो सीला फर रहे हैं, परन्तु सिद्ध, मुनि और देवता, क्लेश देघकर व्याकुल हो रहे हैं ।

काटत बढ़हिं सोस समुदाई * जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई
मरत न रिपुश्रम भयउ विसेषा * राम विभीषन तनु सब देखा

काटते ही सिरों का समूह बढ़ता है, जैसे प्रत्येक ताम्र पर लोभ बढ़ता है । अधिक परिश्रम होने पर भी शत्रु नहीं मरता । तब श्रीरामजी ने विभीषण को ओर देखा ।

उमा काल मर जाकी ईच्छा * सो प्रभु जानकर प्रीति परोच्छा
सुनु सर्वग्य चराचर नायक * प्रनतपाल सुर मुनि सुखदायक

हे पावेंती ! जिसकी इच्छा से काल भी मर जाता है, वही प्रभु भवत की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं । विभीषण ने कहा—हे सर्वज्ञ ! हे चराचर के स्वामी ! मुनिये, आप सरणागत रक्षक और व मुनियों को सुख देने वाले हैं ।

नाभिकुण्ड पियूष बस जाकें * नाथ जिअत रावनु बल ताकें
सुनत विभीषन वचन कृपाला * हरषि गहे कर वान कराला

हे नाथ ! इसके नाभिकुण्ड में अमृतका वास है, उसी अमृत के बलसे रावण जीवित रहता है । विभीषण के यह वचन सुनते ही कृपालु श्रीरामजी ने प्रसन्न होकर करालपाण हाथ में लिये ।

असुभ होन लागे तव नाना * रोवाहिं खर सूकाल बहु स्वाना
बोलाहिं खग जग आरत हेतू * प्रगट भए जहँ तहँ नभ केतू

तब अनेक अशकुन होने लगे । बहुतसे सियार, गधे व कुत्ते रोने लगे । पक्षी अत्यंत संसार के दुःख के कारण बोलने लगे और आकाश में जहाँ-तहाँ पुच्छल-तारे बिपाई देने लगे ।

दसदिसि दाह होन अति लागा * भयउ परव विनुरवि उपरागा
मन्दोदरि उर कम्पति भारी * प्रतिमा स्रवहिं नयन मग वारी

दसों विसाओं में दाह होने लगा । बिना पर्व के ही मूर्ध-ग्रहण-सा होने लगा । मन्दोदरी का हृदय बहुत धरधराने लगा । मूर्तियाँ नेत्रों के मार्ग से जल बहाने लगीं ।

मुझे बड़ा घमण्ड था कि मेरे बराबर कोई नहीं है। अब, हे प्रभु ! आपके चरणारविंदों का दर्शन करके दुःख देने वाला घमण्ड दूर हो गया है।

कोउ ब्रह्म निर्गुन ध्याव । अव्यक्त जेहि श्रुति गाव
मोहि भाव कोसल भूप । श्रीराम सगुन सरूप

कोई निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करता है, जिनको वेद अदृश्य कहते हैं। परन्तु मुझे तो हे रामजी ! आपका सगुण स्वरूप ही अच्छा लगता है।

वैदेहि अनुज समेत । मम हृदय करहु निकेत
मोहि जानिए निज दास । दे भक्ति रमा निवास

श्रीजानकीजी और लक्ष्मणजी सहित मेरे हृदय में वास कीजिये और हे रमानिवास ! मुझे अपना वास जानकर अपनी भक्ति दीजिए।

छन्द—दे भक्ति रमानिवास त्रास हरन सरन सुखदायकं ।
सुखधाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकं ॥
सुरवृन्द रंजन द्वन्द भंजन मनुज तनु अतुलित बलं ।
ब्रह्मादि शङ्कर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलं ॥

हे लक्ष्मीनिवास ! मुझे अपनी भक्ति दीजिये। आप शरणागत के भय को दूर करके सुख देने वाले हैं। हे सुख के धाम ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शाप अनेकों कामदेवों के समान शोभा वाले, देवगणों को आनन्द देने वाले तथा द्रवों को दूर करने वाले हैं। मनुष्य शरीरधारी, अतुल बली, ब्रह्मा एवं शंकर द्वारा सेवित हैं। हे करुणा से कोमल श्रीरामजी ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ।

दोहा—अब करि कृपा बिलोकि मोहि, आयसु देहु कृपाल ।

काह करौं सुनि प्रिय वचन, बोले दीनदयाल ॥१४८॥

हे कृपालु ! अब आप कृपादृष्टि से देखकर मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं क्या कहूँ ? इन्द्र के प्रिय वचन सुनकर दीनदयालु बोले—

सुनु सुरपति कपि भालू हमारे * परे भूमि निसिचरन्हि जे मारे
मम हित लागी तजे इन्ह प्राणा * सकल जिआउ सुरेस सुजाना

सुनो, देवराज इन्द्र ! हमारे रोछ-चातर राक्षसों के द्वारा मारे हुए भूमि पर पड़े हैं। मेरे हित के लिए इन्होंने प्राण दिये हैं, सो हे चतुर इन्द्र ! इन सबको जीवित करदो।

सुनु खगेस प्रभु कै यह वानी * अति अगाध जानहि सुनि ग्यानी
प्रभु तक त्रिभुवन मारि जिआई * केवल सक्रहि दीन्हि बड़ाई

(काकभुगुण्डिजी कहते हैं—) सुनो, गरुडजी ! प्रभु की यह वाणी बड़ी गूढ़ है। जानो मुनिही

बरसहिं सुमन देव मुनि वृन्दा * जय कृपाल जय जयति मुकुन्दा

रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया, यह देखकर महादेवजी और ब्रह्माजी प्रसन्न हुए। जय-जय की ध्वनि ब्रह्मांड भर में छा गई-प्रबल भुजाओं वाले धीरयुतायजी को जय हो। देवता और मुनिगण फूल बरसाते हैं और कहते हैं-हे ब्यालु, हे मुकुन्द। आपकी जय हो, जय हो।

छन्द-जय कृपानन्द मुकुन्द द्वन्द हरन सरन सुखद प्रभो।

खलदल विदारन परम कारन कारुनोक सदा विभो ॥

सुर सुमन बरसहिं हरष संकुल वाज दुन्दुभि गहगही।

संग्राम अङ्गन राम अङ्ग अनङ्ग बहु शोभा लही ॥

हे कृपानिधान मुकुन्द ! हे दुःखों के हरने वाले, शरणागत को सुख देने वाले स्वामिन ! हे दुष्ट समूह का नाश करने वाले, सबके आवि कारण, दयावान् और सर्वव्यापक विभो ! आपकी जय हो। देवता, सिद्ध मुनि और गन्धर्व प्रसन्न होकर घमाघम नगाड़े बजा रहे हैं। संग्राम-भूमि में धीरामचन्द्रजी के अंगों ने अनेकों कामदेवों को शोभा प्राप्त की।

सिर जटा मुकुट प्रसून विच विच अति मनोहर राजहों।

जनु नीलगिरि पर तड़ित पटल समेत उडुगन भ्राजहों ॥

भुजदण्ड सर कोदण्ड फेरत रुचिर कनकत अति बने।

जनु रायमुनी तमाल पर वैठी विपुल सुख आपने ॥

सिर पर जटाओं के मुकुट के बीच में फूल अत्यन्त शोभित हैं। मानो नील पर्वत पर विजलियों के समूह सहित तारागण चमक रहे हों। वे भुजबंदों को धनुष बाण पर फेर रहे हैं। शरीर पर रक्त की बूँदें बहुत ही शोभित हैं। मानों बहुत-सी लाल मुनियाँ तमाल वृक्ष पर मग्न बंठी हों।

दोहा-कृपादृष्टि कर वृष्टि प्रभु, अभय किए सुरवृन्द।

भालु कीस सब हरषे, जय सुखधाम मुकुन्द ॥१३७॥

प्रभु ने कृपादृष्टि की वर्षा करके देवगणों को निमंत्रण कर दिया। वानर-रोछ प्रसन्न हुए और बोले-सुखनिधान मुकुन्द की जय हो।

पति सिर देखत मन्दोदरी * मुरछित विकल धरनि खसिपरी

जुवति वृन्द रोवत उठि धाई * तेहि उठाइ रावन पहि आई

पति के सिर को देखते ही मन्दोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, स्त्रियों रोती हुई उठ दौड़ीं और मन्दोदरी को उठाकर रावण के पास ले आईं।

पति गति देखि ते करहिं पुकारा * छूठे कच नहिं वपुष सम्मारा

उर ताड़ना करहिं विधि नाना * रोवत करहिं प्रताप नखाना

पति की वशा देखकर ये पुकारने और रोने लगी, सिरों के बाल पुल गये, वेह

हैं। काम, क्रोध और मदहमी शक्तियों के लिये सिद्ध के समान आप इस मन्त्र के हृदय में वास करिये।

त्रिपथ मनोरथ पुंज कंजवन । प्रवल तुषार उदार पार मन
भव वारिधि मन्दर परमन्दर । वारय तारत संसृति दुस्तर

अनेक विषयों के मनोरथ हर्षा कमल वन को मुषाने के लिये आप प्रबल पाला हैं। आप बड़े उदार और मन से परे हैं। आप संसार-सागर के लिए मन्दराक्षर हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और दुस्तर संसार को तारिये।

श्याम गात राजीव विलोचन । दीनबन्धु प्रनतारित मोचन
अनुज जानकी सहित निरन्तर । वसहु राम नृप मम उर अन्तर
मुनि रंजन नहि मण्डल मंडन । तुलसिदास प्रभु त्रास विखांडन

हे दीनबन्धु, श्याम शरीर, कमल-नयन, शरणागत के दुष्टों को दूर करने वाले, लक्ष्मण और जानकीजी समेत राजा रामचन्द्रजी! आप मेरे हृदय-मन्दिर में वास करिये। आप मुनियोंको आनन्द देने वाले, मण्डल के भूषण, तुलसीदासजी के प्रभु और भय को दूर करने वाले हैं। दोहा—नाथ जत्रहि कोसलपुरी, होइहि तिलक तुम्हार।

कृपासिन्धु मैं आवड, देखन चरित उदार ॥१५१॥

हे नाथ ! अयोध्यापुरी में जब आपका राजतिलक होगा, तब-हे कृपासिन्धु ! मैं आपके उत्तम चरित्र देखने के लिए वहां आऊंगा।

करि विनती जब शम्भु सिधाए * तब प्रभु निकट विभीषण आए
नाइ चरन सिर कह सृष्टु वानी * विनय सुनहु प्रभु सारङ्गपानी

जब शिवजी विनती करके चले गये, तब प्रभु के पास विभीषणजी आये और चरणों में मस्तक नवाकर शोभन वाणी से कहने लगे—हे शारङ्ग-धनुषधारी प्रभो ! मेरी विनती सुनो।

सकुल सदल तुम्ह रावन मारयो * पावन जस त्रिभुवन विस्तारयो
दीन मलीन हीन सति जाती * सो पर कृपा कीन्हि बहु भाँती

आपने कुटुम्ब और सेना नष्ट रावण को मारा अपना निर्मल वश तीनों लोकोंमें फैलाया और मुझ शीन, मजिन, बुद्धिहीन तथा जाति-हीन वाले पर आपने बहुत भक्ति से कृपा की।

अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजै * मज्जनु करिअ समर थम छोजै
देखि कोस मन्दिर सम्पदा * करेहु कृपा कपिन्हु कै सुदा

हे स्थानो ! अब अपने वासके घर को पवित्र कीजिये और चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की प्रतापट जाती रहे, हे कृपानु ! धन, धान व संपत्तिको देवकर आनन्द से धान्यों को बाँट दो।

सब विधि नाथ मोहि अपनाइअ * पुनि मोहि सति अवधपुर जाइअ
सुनत वचन सृष्टु दीनदयाला * सजल भए द्यौ नयन विसाला

अज महेश नारद सनकादी * जे मुनिवर परमारथ वादी
मन्दीवरी के वचन फानों से मुन देवता, मुनिसिद्ध सबने सुख माना । यहा, महादेव,
नारद और सनकादि जो परमार्थवाद धेष्ठ मुनि हैं ।

भरि लोचन रघुपतिहिनहारी * प्रेम मगन सब भए सुखारी
रुदन जरत देखीं सब नारीं * भयउ विभीषन मन दुख भारी

वे सब टकटकी लगाकर धीरामजी का दर्शन करते हुए प्रेम में मग्न होकर सुखी होगये ।
विभीषण ने सब स्त्रियों को रोते देखातो उनके मनमें बहुत दुख हुआ और वे उनके समीप गये ।

बन्धु दसा विलोकि दुख दीन्हा * तब प्रभु अनुजहि आयसु दीन्हा
लछिमन तेहि बहु विधि समझायो * बहुरि विभीषनु प्रभु पहि आयो

उन्होंने भाई को दशा देखकर बहुत दुख किया, तब प्रभु ने लक्ष्मण को आज्ञा दी ।
लक्ष्मणजी ने विभीषण को बहुत भांति से समझाया, फिर विभीषण प्रभु के पास आये ।

कृपादृष्टि प्रभु ताहि विलोका * करहु क्रिया परिहरि सब सोका
कीन्हि क्रिया प्रभु आयसु मानो * विधिवत देस काल जिये जानो

प्रभु ने विभीषण को कृपादृष्टि से देखा और कहा—सब दुखों को दूर कर रावणकी क्रिया
करो । विभीषण ने प्रभु की आज्ञा मानकर देश और काल को मन में जानकर विधि पूर्वक
अन्वेषित क्रिया की ।

दोहा—मन्दीवरी आदि सब, देइ तिलाँजलि ताहि ।

भवन गई रघुपति गुन, गन बरनत मन माँहि ॥१३६॥

मन्दीवरी आदि सब रानियां रावण को तिलाँजलि देकर मनमें धीरामजी के गुणगांन
करती हुई महल को चली गई ।

आइ विभीषन पुनि सिर नायो * कृपासिन्धु तब अनुज पठायो
तुम्ह कपीस अङ्गद नल नीला * जामवन्त मारुत नयसीला

सब मिलि जाहु विभीषन साथ * सारेहु तिलक कहेउ रघुनाया
पिता बचन में नगर न आवउँ * आपु सरिस कपि अनुज पठावउँ

फिर विभीषण ने आकर प्रणाम किया, तब दयासागर धीरामजी ने भाई लक्ष्मण को
बुलाकर कहा कि तुम, सुग्रीव अंगद, नल नील, जामवन्त और नीतिज्ञ हनुमान सब मिल
कर विभीषण के साथ जाओ और राजतिलक करो । मैं पिताजी की आज्ञा के कारण नगर
में नहीं जा सकता, पर अपने ही समान वानरों और भाई लक्ष्मण को भेजता हूँ ।

तुरत चले कपि सुनि प्रभु वचना * कीन्ही जाइ तिलक की रचना
सादर सिंहासन बैठारी * तिलक सारि अस्तुति अनुसारी

प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरन्त चले और जाकर तिलक की व्यवस्था की । आवर
पूर्वक सिंहासन पर बैठाकर राजतिलक किया और विनती की ।

सुनकर तुरन्त विनीयण आकाश में गये और वहाँ से सम्पूर्ण मणि और वस्त्र बरसा दिये ।
जोड़ जोड़ मन भावड़ सोड़ लेहीं * मनि मुख मेलि डारि कपि देहीं
हँसे राम श्री अनुज समेता * परम कौतुकी कृपा निकेता

जो जिसके मन में भाता है, वह लेता है । वानरगण मणिको मुख में रखकर फिर उगल देते हैं । श्रीरामजी, सीताजी व लक्ष्मण समेत हँसरहे हैं, क्योंकि कृपानिधान तो बड़े कौतुकी हैं ।
दोहा—मुनि जेहि ध्यान न पारवाहिं, नेति नेति कह वेद ।

कृपासिंधु सोड़ कपिन्ह सन, करत अनेक विनोद ॥१५६॥

मुनिराज जिनको ध्यान में श्री नहीं पाते, वेद जिनके लिए 'नेति-नेति' कहते हैं, वे ही श्रीरामजी वानरों के साथ अनेक प्रकार के खेल खेलरहे हैं ।

उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम ।

राम कृपा नहिं करहिं तसि, जसि निषकेवल प्रेम ॥१५७॥

(शिवजी कहते हैं—) हे पार्वती ! योग, जप, दान, तप, अनेक प्रकार के व्रत, यज्ञ और नेम से श्रीरामजी ऐसी कृपा नहीं करते, जैसी निष्कपट प्रेम से ।

भालु कपिन्ह पट भूषन पाए * पहिरि पहिरि रघुपति पहिं आए
नाना जिनस देखि सब कोसा * पुनि पुनि हँसत कोसलाधीसा

रीष्ट-वानरों ने वस्त्र-आभूषण पाये । उन्हें पहिन २ कर वे रघुनाथजी के पास आये । प्रभु कोसलाधीश वानरों को अनेक रङ्ग-विरंगे वस्त्र पहिने देखकर बार-बार हँसने लगे ।

चितइ सबन्हि पर कीन्ही दाया * बोले मृदुल वचन रघुराया
तुम्हरे बल मैं रावन मारचो * तिलक विभीषन कहँपुनि सारचो

श्रीरामजी ने उन सबको ओर देखकर दया की । वे कोमल वचन बोले-तुम्हारे ही सहारे मैंने रावण को मारा और विनीयण को राज्य दिया ।

निज निजगृह अब तुम्हसब जाहू * सुमिरेहु मोहि डरपहु जनि काहू
सुनत वचन प्रेमाकुल वानर * जोरि पानि बोले सब सादर

अब तुम अपने २ घर को जाओ, मुझे स्मरण करते रहना और किसी से नहीं डरना । यह वचन सुनते ही वानर नारे स्नेह के घबरा गये और हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले—

प्रभु जो कहहु तुम्हहि सब मोहा * हमरें होत वचन सुनि मोहा
दीन जानि कपि किए सनाथा * तुम्ह त्रैलोक ईस रघुनाथा

हे प्रभु ! आप जो कहें वह सब आपको शोभा देता है, परन्तु यह वचन सुनकर हमको मोह होता है । आपने दीन जानकर हम वानरों को सनाथ किया है । हे रघुनाथजी ! आप त्रिलोकी के स्वामी हैं ।

सुनि प्रभु वचन लाज सस मरहीं * मसक कहँ खगपति हित करहीं

वे बोले-हे माता ! कौशलाघोश प्रभु सब प्रकार से कुशल हैं। उन्होंने पुत्र में रावण को जीत लिया है, विभीषण ने अचल राज्य पाया है। कपि के वचन सुन हृदय में आनन्द छागया।

छन्द-अति हरष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा ।

का देउं तोहि त्रैलोक महँ कपि किमपि कहि वानी समा ॥

सुनु मातु मैं पायौ अखिल जग राजु आजु न संसयं ।

रन जीति रिपु दल बन्धु जुत पश्यामि राम मनामयं ॥

जानकीजी के मन में बड़ा आनन्द हुआ। शरीर पुलकित होगया आँखों में आनन्द के आंसू भर आये और वे बार-बार हनुमानजी से कहने लगी-हे हनुमान ! मैं तुम्हें क्या दूँ ? तीनों लोकों में इस बाणो के समान कुछ भी नहीं। वे बोले-हे माता ! मुनिये, आज मैं निःसन्देह सपूर्ण जगत का राज्य पा गया, जो मैं रण में शत्रु को सेना को जीत कर भाई सहित प्रभु को सकुशल देखता हूँ।

दोहा-सुनु सुत सद्गुण सकल तव, हृदय बसहिं हनुमन्त ।

सानुकूल कोसलपति, रहहुँ समेत अनन्त ॥१४१॥

सीताजी बोलीं-हे पुत्र ! सुनो, सब सद्गुण तुम्हारे हृदय में बसें और लक्ष्मणजी समेत श्रीरामजी सदा तुम्हारे अनुकूल रहें।

अब सोइ जतन करहु तुम्ह ताता * देखौं नयन श्याम मृदु गाता

तब हनुमान राम पाहि जाई * जनकसुता कै कुशल सुनाई

हे तात ! तुम अब वही उपाय करो, जिससे मैं प्रभु के कोमल श्याम शरीर के नेत्रों के वशंन कहूँ। तब हनुमानजी ने श्रीरामजी के पास जाकर सीताजी को कुशल सुनाई।

सुनि सन्देशु भानुकुल भूषन * बोलि लिये जुवराज विभीषन

मास्तसुत के सङ्ग सिधावहु * सादर जनकसुतहि लै आवहु

सूर्यवंश के शिरोमणि श्रीरामजी ने सीताजी का सन्देश सुनकर अंगद और विभीषण को बुलाया और कहा-हनुमानजी के साथ जाओ और आवर सहित जानकजी को ले आओ।

तुरतहिं सकल गए जहँ सीता * सेवहिं सब निसिचरी विनीता

बेगि विभीषन तिन्हहिं सिखायो * तिन्हबहु विधि मज्जन करवायो

सुनते ही तुरन्त वहाँ गये, जहाँ सीताजी थीं, सब राक्षसियां नम्रता से उनकी सेवाकर रही थीं। विभीषण ने तुरन्त सबको समझा दिया व उन्होंने आवरसे सीताजी को स्नान कराया।

बहु प्रकार भूषन पहिराए * सिबिका रुचिरसाजि पुनिल्याए

ता पर हरषि चढ़ि वैदेही * सुमिरि राम सुखधाम सनेही

और बहुत तरह के गहने पहनाये, फिर वे सुन्दर पालकी सजाकर ले आये। सीताजी प्रसन्न होकर उस पर सुख के धाम, स्नेही श्रीरामजी को स्मरण करके बैठ गईं।

बेतपानि रक्षक चहुँ पासा * चले सकल मन परम हुल

पुनि देखु अवधपुरी अति पावन * त्रिविध ताप भवरोग नसावन

फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन करते ही सब पाप भाग जाते हैं, फिर परम पवित्र त्रिवेणीजी में दर्शन करो, जो शोक हरने वाली और वेदलोक की सोझी है। तदनन्तर अवधपुरी को देखो, जो तीनों प्रकार के ताप और संसाररूपी रोग का नाश करने वाली है।

दोहा—सीता सहित अवध कहूँ, कीन्ह कृपाल प्रनाम।

सजल नयन तनु पुलकित, पुनि पुनि हरषित राम ॥१६३॥

फिर सीताजी सहित कृपालु प्रभु ने अवधपुरी को प्रणाम किया। (उक्त समय) सजल-नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्रीरामजी अत्यन्त हर्षित हुए।

पुनि प्रभु आइ त्रिवेनी, हरषित मज्जन कीन्ह।

कपिन्ह सहित विप्रन्ह कहूँ, दान विविध विधि दीन्ह ॥१६४॥

फिर त्रिवेणी पर आकर प्रभु ने वानरों समेत प्रसन्न होकर स्नान किया और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिये।

प्रभु हनुमन्तहि कहा बुझाई * धरि वटु रूप अवधपुर जाई

भरतहि कुसल हमारि सुनाएहु * समाचार लै तुम्ह चलि आएहु

तदनन्तर प्रभु ने हनुमानजी से समझाकर कहा—तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके अयोध्या को जाओ और वहाँ जाकर भरतजी को हमारी कुशल सुनाओ और फिर उनके समाचार लेकर जल्दी लौट आओ।

तुरत पवनसुत गवनत भयऊ * तब प्रभु भरद्वाज पहि गयऊ

नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही * अस्तुति करि पुनि आसिष दीन्ही

हनुमानजी तुरन्त चल दिये, तब प्रभु भरद्वाजजी के पास आये। मुनि ने नाना प्रकार से पूजा की, फिर स्तुति करके आशीर्वाद दिया।

मुनि पद बन्दि जुगल करजोरी * चढ़ि विमान प्रभु चले बहोरी

इहाँ निषाद सुना प्रभु आए * नाव नाव कहि लोग पठाए

दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में प्रणामकर विमान पर चढ़कर प्रभु चले। वहाँ निषाद ने जब सुना कि प्रभु आगये, तब, 'नाव कहाँ है' कहकर लोगों को बुलाया।

सुरसरि नाँधि जान तब आयो * उतरेउ तट प्रभु आयसु पायो

तब सीता पूजो सुरसरी * बहु प्रकार पुनि चरनन्हि परी

गंगाजी को लाँघ कर विमान पार आया और प्रभु की आज्ञा पाकर किनारे पर उतरा। तब सीताजी ने बहुत प्रकार से गङ्गाजी की पूजा की और फिर उनके पाँवों पर पड़ी।

दीन्हि असीष हरषि मन गङ्गा * सुन्दरि तब अहिवात अमङ्गा

सुनत गुहा धायउ प्रेमाकुल * आयउ निकट परम सुख संकुल

तब प्रसन्न मनसे गंगाजी ने आशीर्वाद दो-हे सुन्दरी! तुम्हारा सुहाग अटल रहे। निषादराज

(सोताजी ने कहा—) जो मन, कर्म, वचनसे मेरे हृदयमें धीरघुनायजीको छोड़कर बूसरी गतिनहीं है, तो अग्निदेव, जो सबके मनको जानते हैं, मेरे लिए चंदनके समान शीतल होजाये ।

छन्द—श्रीखण्ड सम पावक प्रवेश कियो सुमिरि प्रभु मेथिली ।

जय कोसलेस महेश बन्धित चरन रति अति निर्मलो ॥

प्रतिबिम्ब अरु लौकिक कलंक प्रचण्ड पावक महै जपे ।

प्रभुचरित काहु न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे ॥

प्रभु को स्मरण करके, जिनके चरण शिवजी द्वारा बन्धित हैं तथा जिनमें सोताजी की अत्यन्त निर्मल प्रीति हैं, उन कोयलपति की जय बोलकर आनकोजी ने चन्दन के समान शीतल अग्नि में प्रवेश किया । सब प्रतिबिम्ब व सांसारिक बोध प्रचण्ड अग्नि में जल गये । प्रभु के चरित्रको किसी ने नहीं जाना, यद्यपि देवता, सिद्ध, मुनि आकाश में खड़े देख रहे हैं ।

धरि रूप पावक पानि गहिश्री सत्यश्रुति जग विदित जो ।

जिमि क्षीरसागर इन्दिरा रामहि समर्पी आनि सो ॥

सो राम वाम विभाग राजति रुचिर अति शोभा भली ।

नव नील नीरज निकट मानहुँ कनक पंकज कली ॥

तब अग्नि ने रूप धारण करके वेदों में तथा जगत में प्रसिद्ध साक्षात् लक्ष्मी का हाथ पकड़कर श्रीरामजी को वैसे ही सोप दिया—जैसे क्षीरसागर ने 'लक्ष्मी' धीहरि भगवात् को दी थीं सोताजी श्रीरामजी के बायीं ओर विराजमान हैं, उनकी शोभा अत्यन्त सुन्दर है, मानो नवीन नील-कमल के पास सोने के कमल की कली खिलो हो ।

दोहा—वरषहि सुमन हरषि सुर, बाजहि गगन निसान ।

गावहि किन्नर सुर वधू, नाचहि चढ़ी विमान ॥१४३॥

देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे । आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, किन्नर गानकर रहे हैं, देवागनाएँ विमानों पर चढ़ कर नाच रही हैं ।

जनक समेत प्रभु, सोभा अमित अपार ।

देखि भालु कपि हरषे, जय रघुपति सुखसार ॥१४४॥


श्रीजानकोजी समेत प्रभु श्रीरामजीकी अपार शोभा को देखकर रोछ व दानर बहुत प्रसन्न हुए और सुख के समुद्र आनन्दकन्द धीरघुनायजी की जय बोलने लगे ।

तब रघुपति अनुसासन पाई * मातलि चलेउ चरन सिर नाई

आए देव सदा स्वारथी * वचन कहहि जनु परमारथी

तदनन्तर श्रीरामजी की आज्ञा पाकर मातलि स्वारथी प्रभु के चरणों में सिर नवाकर चला गया । फिर सदा के स्वार्थी देवता आये और ऐसे वचन कहने लगे, मानो यड़े ही परमारथी हैं ।

दीनवन्धु दयाल रघुराया * देव कीन्ह देवन्ह पर द



उत्तर काण्ड

* अथ मङ्गलाचरणम् *

श्लोक

केकोकण्ठाभनोलं सुरवरविलस द्विप्रपादाब्जचिह्नं ।
 शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् ॥
 पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुक्तं न्धुना सेव्यमानं ।
 नौमढ्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढं रामम् ॥

मोर-कंठ की कांति के समान नीलवर्ण देवों में श्रेष्ठ, द्वाह्यण के चरणकमलके चिह्नसे शोभित, शोभासे परिपूर्ण पीताम्बर धारण किये, कमल-नेत्र, सदा प्रसन्न मुख, हाथों में बाण और धनुष धारण किये, बानर-समूह समेत, भाई लक्ष्मण से सेवित, ऐसे जानकीजी के पति, रघुकुल में श्रेष्ठ, पुष्पक-विमान पर विराजित श्रीरघुनाथजी को मैं नमस्कार करता हूँ ।

कौशलेन्द्रपदकञ्जमंजुलौ कोमलावज महेशवन्दितौ ।

जानकीकरसरोजलालितौचिन्तकस्यमन भृङ्गिसङ्गिनौ ॥

ब्रह्मा और महादेवजी से वन्दित कोमल और जानकीजी के कर-कमलों से दुलरे हुए कौशलाधीश श्रीरामचन्द्रजी के सुन्दर चरण-कमलों में ध्यान करने वाले मत्तजननोंके मनरूपी भौरे बसे हैं ।

कुन्दइन्दुगौरसुन्दरं अम्बिकापतिअभोष्टसिद्धिप्रदम् ।

कारुणिककलकज्जलोचनं नौमि शङ्करमनंगमोचनम् ॥

कुन्द के पुष्प, चन्द्रमा और शंख के समान सुन्दर गौर वर्ण वाले, इच्छा के अनुसार सिद्धि के वाता, वयालु सुन्दर, कमल-नयन कामदेव को भस्म करने वाले, ऐसे पार्वतीजीके पति श्रीशंकरजी को मैं नमस्कार करता हूँ ।

जन रंजन भंजन सोक भयं । गत क्रोध सदा प्रभु बोध मयं
 अवतार उदार अपार गुणं । महिभार विभंजन ग्यान घनं
 आप भक्तों को सुखी करने वाले, शोक और भय को दूर करने वाले, क्रोध रहित और
 सदा ज्ञान स्वरूप हैं । आपका अवतार उदार, अपार गुण वाला, भूमि का भार हरने वाला
 तथा ज्ञान का समूह है ।

अजव्यापकमेकमनादिसदा । करुणाकर राम नमामि मुदा
 रघुवंस विभूषण दूषण हा । कृत धूप विभीषण दीन रहा
 किंतु आप अजन्मा, व्यापक और अनादि तथा सनातन हैं । हे करुणानिधान श्रीरामजी !
 मैं सहर्षे आपको नमस्कार करता हूँ । हे रघुवंश-भूषण ! हे दूषण संहारक ! जो विभीषण
 दीन था, उसे आपने राजा बना दिया ।

गुण ग्याननिधानअमानअजं । नित राम नमामि विभुं विरजं
 भुजदण्डप्रचण्डप्रताप बलं । खलवृन्द निकन्द महाकुसलं
 हे गुण और ज्ञान के स्थान, मान रहित, अजन्मा और माया रहित स्वामी श्रीरामजी !
 आपको नित्य प्रणाम करता हूँ । आपकी भुजाओं का प्रताप और बल प्रचण्ड है । आप दुष्ट
 समूह का नाश करने में बड़े प्रवीण हैं ।

विनु कारन दीनदयालहितं । छविधाम नमामि राम सहितं
 भव तारुन कारन काज परं । मन सम्भव दारुन दोष हरं
 आप बिना कारण ही दीनों पर दया और हित करने वाले हैं और हे शोभा के धाम !
 श्रीलक्ष्मणजी समेत मैं आपको प्रणाम करता हूँ । आप संसार से तारने में कारण हैं और
 कार्य से परे तथा कार्यरूप हैं तथा मन से उत्पन्न पापों को हरने वाले हैं ।

सर चाप मनोहर त्रोन धरं । जल जारुन लोचन भूपवरं
 सुख मन्दिर सुन्दर श्रीरमनं । मद मार मदा ममता समनं
 आप सुन्दर धनुष-बाण और तर्कसघारी हैं, कमल के समान ताल तेत्रों वाले हैं ।
 राजाओं में श्रेष्ठ और सुख के स्थान, लक्ष्मीजी से विहार करने वाले हैं, अहंकार, काम और
 मारी मोह के नाशक हैं ।

अनवद्य अखण्ड अगोचरगो । सब रूप सदा सब होइन गो
 इति वेद बदन्ति वदन्तकथा । रवि आतप भिन्न अभिन्न जथा
 आप दोष रहित, अखण्ड तथा इन्द्रियों से नहीं जाने जाते हैं । आप सर्वव्यपक होकर
 भी, वह नहीं हैं, ऐसा वेद कहते हैं । यह कहावत नहीं है । जैसे सूर्य से धूप अलग है और
 अलग भी नहीं हैं, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न, दोनों ही हैं ।

कृतकृत्य विभोसव वानरए । निरखन्ति तवानन सादर ॥

मेरे मन में पक्का भरोसा है कि रामजी अवश्य मिलेंगे, राकुन अच्छे हो रहे हैं। जो अवधि बीतने पर प्राण रह जाय तो जगत में मेरे समान नीच और कौन होगा ?

दोहा—राम विरह सागर महं, भरत मगन मन होत ।

विप्र रूप धरि पवनसुत, आइ गयउ जनु पोत ॥ ५ ॥

श्रीरामजी के वियोगरूपी समुद्र में भरतजी का मन डूबा जा रहा था कि इतने में पवन-पुत्र हनुमानजी ब्राह्मण का रूप धारण कर ऐसे आगये, जैसे जलमें डूबते हुए को नाव मिलजाय ।

बैठे देखि कुसासन, जटा मुकुट कृस गात ।

राम राम रघुपति जगत, स्रवत नयन जल जात ॥ ६ ॥

हनुमानजी ने देखा कि कुशा के आसन पर भरतजी बंठे हैं और जटाओं का मुकुट सिर पर है, शरीर दुबला हो रहा है । राम-राम, रघुनाथ' जप रहे हैं और कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है ।

**देखत हनुमान अति हरषेउ * पुलक गात लोचन जल वरषेउ
मन महुं बहुत भाँति सुख मानी * बोलेउ श्रवन सुधा सम वानी**

देखते ही हनुमानजी बहुत प्रसन्न हुए, वेह के रोम खड़े हो गये, नेत्रों से जल बहने लगा । मन में बहुत भाँति से सुख मानकर कानों को अमृत के समान वाणी बोले—

**जासु विरहँ सोचहु दिन राती * रटहु निरन्तर गुन गन पाँती
रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता * आयउ कुसल देव मुनि त्राता**

जिन प्रभु के वियोग में सोचते हुए दिन-रात दुःखी रहते हो और जिनके गुणगणों के समूहों की सदैव रटते रहते हो । वही रघुकुल-तिलक, सज्जनों की सुख देने वाले, देवताओं और मुनियों के रक्षक—श्रीरामजी कुशल पूर्वक आ रहे हैं ।

**रिपु रन जीत सुयस सुर गावत * सीता अनुज सहित प्रभु आवत
सुनतहि वचन दूर सब दूखा * तृषावन्त जिमि पाइ पियूपा**

जिनके सुन्दर यश की देवता गाते हैं, वे प्रभु शत्रु को युद्ध में जीतकर सीता य लक्ष्मण समेत आ रहे हैं । यह वचन सुनते ही भरतजी के सब दुःख दूर हो गये मानो प्यासे को अमृत मिलगया हो ।

**को तुम्ह तात कहाँ ते आए * ताहि परम प्रिय वचन सुनाए
मारुतसुत मैं कपि हनुमाना * नामु मोर सुनु कृपानिधाना**

हे तात! तुम कौन हो ? कहाँ से आये हो ? जो मुझे बहुत ही प्रिय वचन सुनाये । हनुमान जी ने कहा—हे कृपानिधान ! सुनिये; मैं पवन का पुत्र, वानर, जाति हूँ, मेरा नाम हनुमान' है ।

**दीनवन्धु रघुपति कर किङ्कर * सुनत वचन भेटेउ उठि सादर
मिलत प्रेम नहि हृदय समाता * नयन स्रवत जल पुलकित गाता**

मैं दीनवन्धु श्रीरघुनाथजी का वास हूँ, यह सुनकर भरतजी सादर उठकर मिले । मिलने-समय प्रेम मन में नहीं समाता, उनकी आँखों से आंसू बहने लगे, शरीर पुलकित हो गया ।

वार वार कहि प्रभुहि प्रनामा ✽ दशरथ हरषि गए सुरधामा
सगुण ब्रह्म को उपासना करने वाले मोक्ष नहीं लेते । उनको श्रीरामजी अपनी भक्ति
बेते हैं । प्रभु को वारम्बार प्रणाम करके दशरथजी आनन्द सहित देवलोक को गये ।

दोहा—अनुज जानकी सहित प्रभु, कुसल कोसलाधीस ।

सोभा देखि हरषि मन, अस्तुति कर सुर ईस ॥१४७॥

लक्ष्मण वं जानकीजी सहित कुशल प्रभु कौशलराज की शोना को तिहार कर मन में
बहुत प्रसन्न होकर देवराज इन्द्र स्तुति करने लगे—

छन्द—जय राम सोभा धाम । दायक प्रनत विश्राम ॥

धृत त्रोन वन सर चाप । भुजदण्ड प्रबल प्रताप ॥

हे शोभा के स्यान, शरणागत को शान्ति देने वाले, सुन्दर तर्कस और धनुष-बाणधारण
किये, लम्बी भुजाओं के प्रताप वाले श्रीरामजी ! आपको जय हो ।

जय दूषनारि खरारि । मर्दन निसाचर धारि ॥

यह दुष्ट मारेउ नाथ । भए देव सकल सनाथ ॥

हे खरदूषण के शत्रु और राक्षस-समूह का मान मर्दन करने वाले, आपको जय हो । हे
नाथ ! आपने इस दुष्ट को मारा, जिससे देवता सनाथ हो गये ।

जय हरन धरन भार । महिमा उदार अपार ॥

जय रावनारि कृपाल । किए जातुधान विहाल ॥

हे भूमि का भार उतारने वाले ! आपको जय हो । आपको महिमा उदार और अपार
है । हे रावण के शत्रु ! आपको जय हो, आपने राक्षसों को वेहाल कर दिया ।

लंकेस अति बल गर्व । किए वस्य सुर गन्धर्व ॥

मुनि सिद्ध नर खग नाग । हठि पन्थ सबकै लाग ॥

लंकापति रावण को अपने बल का घमण्ड था, उसने देवता और गन्धर्वों को अपने
वश में कर लिया था । मुनि, सिद्ध, पक्षी, मनुष्य और नाग इन सबके मार्ग में हठ करके
बाधा पहुँचाता था ।

पर द्रोह रत अति दुष्ट । पायो सो फल पापिष्ट ॥

अब सुनहु दीनदयाल । राजिव नयन विसाल ॥

दूसरों के साथ वंद करने में लगे रहने वाले अति दुष्ट पापी ने जंसा किया, बंसा हो
फल पाया । अब, हे दीनदयालु ! कमल के समान नेत्रों वाले ! मुनि—

मोहि रहा अति अभिमान । नहिं कोउ मोहि समान ॥

अब देखि प्रभु पद कंज । गत मान प्रद दुख पुंज ॥

भरतजी प्रसन्न होकर अयोध्यापुरी में आये और सब समाचार गुरुदेव को सुनाये। फिर राजमहल में खबर कराई कि धीरघुनायजी कुशल पूर्वक नगर में आ रहे हैं।

सुनत सजल जननी उठि धाई * कहि प्रभु कुशल भरत समुझाई
समाचार पुरवासिन्ह पाए * नर अरु नारि हरषि सब धाए

समाचार के सुनते ही सब मातायें दौड़ी, तब भरतजी ने प्रभु की कुशल कहकर समझाया। अयोध्या-वासियों ने जब (धीरघुनायजी के आगमन के) समाचार पाये, तब सब नर-नारी प्रसन्न होते हुए दौड़े।

दधि दुर्वा रोचन फल फूला * नव तुलसीदास मङ्गल मूला
भरि भरि हेम थार भामिनी * गावत चलि सिन्धुर गामिनी
दूध, दही, गीरोचन, फल-फूल और मंगल की जड़ (नवीन तुलसीदल) आदि सोने के थालों में भर-भरकर गजगामिनी स्त्रियां गीत गाती हुई चलीं।

जो जैसेहि तैसेहि उठि धावहि * बाल वृद्ध कहँ सङ्ग न लावहि
एक एक सन बूझहि भाई * तुम्ह देखे दयालु रघुराई
जो जैसे बँठे थे, वैसे ही उठ दौड़े। बालक व बूढ़ों को कोई साथ नहीं लेते और एक दूसरे से पूछते हैं कि तुमने दयालु धीरामजी को देखा है ?

अवध पुरी प्रभु आवत जानी * भई सकल शोभा कै खानी
बहइ सुहावनि त्रिविध समीरा * भइ सरजू अति निर्मल नीरा
अवधपुरी प्रभु को आते हुए जानकर, शोभा की खान हो गई। सरजू का जल बहुत निर्मल हो गया और तीनों प्रकार की सुहावनी पवन चलने लगी।

दोहा-हर्षित गुरु परिजन अनुज, भूसुर वृन्द समेत।
चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपानिकेत ॥ ८ ॥
गुरु वशिष्ठजी, कुटुम्बी, शत्रुघ्न और ब्राह्मण-मण्डली के साथ भरतजी अत्यन्त प्रेम भरे मन से कृपानिधान धीरघुनाथजी के पास चले।

बहुतक चढ़ीं अटारिन्ह, निरखहि गगन विमान।
देखि मधुर स्वर हरषित, करहि सुमंगल गान ॥ ९ ॥
बहुत-सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी हुई आकाश में विमान की देखती हैं और उठे देखकर, प्रसन्न हो मधुर स्वर से सुन्दर मंगल-गीत गाती हैं।

राका शशि रघुपति पुरि, सिन्धु देखि हरपान।
बढ़ह्यो कोलाहल करत जनु, नारि तरंग समान ॥ १० ॥
श्री रामजी-रूपी पूर्णचन्द्र की देखकर, मानो अयोध्या-रूपी समुद्र हर्षित होकर फोताहल करते हुए उमड़ चला हो और स्त्रियां मानो उसकी तरंगें हैं।
यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर * कपिन्ह देखावत नगर मनोहर

इसे जानते हैं। प्रभु त्रिलोकी को मारकर जिवा सकते हैं, यहाँ तो केवल इन्द्र को बड़ाई दो है।
सुधा वरषि कपि भालु जिआए * हरषि उठे सब प्रभु पहि आए
सुधा वृष्टि भै दुहुँ दल ऊपर * जिये भालु कपि नहि रजनीचर

इन्द्र ने अमृत वरसाकर वानर व रीछों को जिला दिया, वे प्रसन्न होकर उठे और प्रभुके पास आये। अमृत को वर्षा दोनों सेनाओं पर हुई, परन्तु रीछ-वानरजी उठे, राक्षस नहीं जिए।
रामाकार भए तिन्ह के मन * मुक्त भए छूटे भव बन्धन
सुर आँसिक सब कपि अरु रीछा * जिए सकल रघुपति को ईछा

क्योंकि उनके मन राम-रूप होगये थे। अतः वे सब संसार के बन्धन से छूटकर मुक्त होगये। किन्तु वानर और रीछ देवताओं के अंश थे, इस कारण वे सब धीरधुनायजी की कृपा से जी उठे।

राम सरिस को दीन हितकारी * कोन्हें मुकुत निसाचर झारी
खल मलधाम काम रत रावन * गति पाई जो मुनिवर पावन

श्रीरामजी के समान दीनों का हितकारी कौन है, जिन्होंने सब राक्षसों को संसार के बन्धन से छुड़ा दिया। नीच, महापापी और महाकामी रावण ने वह गति पाई, जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते।

दोहा—सुमन वरषि सुर चले, चढ़ि चढ़ि रुचिर विमान।

देखि सुअवसर प्रभु पहि, आयसु सम्भु सुजान ॥१४६॥

सब देवता फूलों की वर्षा करके विमानों पर चढ़कर चले, तब अच्छा समय देखकर शिवजी वहाँ आये।

परम प्रीति कर जोरिजुग, नलिन नयन भरि वारि।

पुलकित तनु गद्गद् गिरा, विनत करत त्रिपुरारि ॥१५०॥

त्रिपुरारि शंकरजी बड़ी प्रीति से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भर कर पुलकित और गद्गद वाणी से स्तुति करने लगे—

छंद—ममाभिरक्षय रघुकुलनायक। धृत वर चाप रुचिर कर सायक

मोहि महाघन पटन प्रभंजन। संसय विपिन अनल सुररंजन

हे रघुकुलमणि प्रभु ! सुन्दर हाथों में श्रेष्ठ धनुष-बाण धारण किये हुए आप मेरी रक्षां कौजिए। आप मोहरूपी घने वादलों के समूह के लिए वायुरूपी हैं, संसाररूपी वन के लिए अग्नि तथा देवताओं को आनन्द देने वाले हैं।

अगुनसगुन गुन मंदिर सुन्दर। भ्रम तम प्रबलं प्रताप दिवाकर

काम क्रोध मद गज पंचानन। वसहु निरन्तर जन मन कानन

आप सगुण-निगुण गुणों के भंडार, चमरूपी अंधकार को मिटाने के लिए प्रबल प्रतापीस्यं

हो गये। मुनि ने मित्कर कुशल पूछी, तब थोरघुनायजी ने कहा कि आप ही को क्या से हम लोग कुशल हैं।

सकल द्विजन मिलि नायउ माथा * धर्म धुरन्धर रघुकुल नाथा
गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज * नमत जिन्हिसुरमुनिशंकरअज

फिर धर्म-धुरन्धर रघुकुल के स्वामी थोरघुनायजी ने सब ब्राह्मणों से मित्कर उन्हें मस्तक नवाया, फिर भरतजी ने प्रभु धीरामचन्द्रजी के चरणकमल पकड़ लिये। जिन चरणारविदों को देवता, मुनि, शंकरजी और ब्रह्माजी नमस्कार करते हैं।

परे भूमि नहि उठत उठाए * वल कर कृपासिंधु उर लाए
श्यामल गात रोम भये ठाढ़े * नव राजीव नयन जल बाढ़े

भरतजी साष्टाङ्ग दण्डवत करते हुए पृथ्वी पर गिरकर पड़े रहे, वे उठाने से नो नहीं उठते। तब कृपासिंधु धीरामजी ने वल पूर्वक उठाकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर में रोम खड़े हो गये, नवीन कमल के समान नेत्रों में आंसू बहने लगे।

छन्द-राजीव लोचन खवत जल तनु ललित पुलकावलि वनी।

अति प्रेम हृदयँ लगाइ अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी ॥

प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोहि पहुँ जात नहिँ उपमा कही।

जनु प्रेम अरु शृङ्गार तनु धरि मिले वर सुषमा लही ॥

कमल के समान नेत्रोंसे आंसू बहरहे हैं, सुन्दर शरीर में रोम खड़े होगये हैं। त्रिलोकी-नाथ बड़े स्नेह से भाई भरत को हृदय से लगाकर मिले। प्रभु भाई से मिलते समय ऐसे शोभायमान हुए कि उनकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और शृङ्गार रस ही शरीर धारण कर परस्पर मिलते हुए विशेष शोभा को प्राप्त हुए हों।

बूझत कृपानिधि कुशल भरतहि वचन वेगि न आवई।

सुनु सिबा सो सुख वचन मनते भिन्न जान जो पावई ॥

अब कुशल कोसलनाथ आरत जानि जन दरसन दियौ।

बूढ़त विरह बारीस कृपानिधान मोहि कर गह लियौ ॥

दयानिधान धीरामजी-भरतजी से कुशल पूछते हैं, किन्तु भरतजी के मुख से जल्दी वचन नहीं निकलते। (शिवजी कहते हैं-) हे पावती! सुनो, वह मुख वचन और मन से परे है, उसे वही जानता है-जो पाता है। (भरतजी बोले-) हे कौशलनाथ! आपने दुःखी जानकर दास को दर्शन दिये तो- अब सब कुशल है। हे कृपानिधान! आपने मुझे वियोग-रूपी समुद्र में डूबते हुए हाथ पकड़ कर बचा लिया।

दोहा-पुनि प्रभु हरषि शत्रुहन, भैटे हृदय लगाइ।

लछिमन भरत मिले तब, परम प्रेम दोउ भाइ ॥१३॥

हे नाय ! आप सब भाँति से मुझे अपना लोजिये और फिर मुझे साथ लेकर अयोध्या-पुरी की सिधारिये । विभीषण के कोमल वचन सुनकर दोनदपालु प्रभु के दोनों विनालनेत्र सजल होगये ।

दोहा—तोर कीस गृह मोर सब, सत्य वचन सुनु भ्रात ।

भरत दसा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प सम जात ॥१५२॥

वे बोले—हे भाई ! सुनो, तुम्हारा धन-धान सब मेरा दिया है, यह बात ठीक है, परन्तु मैं सत्य कहता हूँ कि मुझे भरतको दसा को स्मरण करके एक-एक पल कल्प के समान बीत रहा है ।

तापस वेष गात कृष, जपत निरन्तर मोहि ।

देखों बेगि सो जतुन करि, सखा निहोरउँ तोहि ॥१५३॥

तपस्वी के वेष में दुबले शरीर से वे सदैव मेरा ही ध्यान कर रहे हैं । हे सखा ! यही उपाय करो, जिससे मैं उन्हें जल्दी देखूँ । मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ ।

बीते अवधि जाउँ जाँ, जिअत न पावउँ वीर ।

सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक सरोर ॥१५४॥

मैं अवधि बीत जाने पर जाऊँगा तो भाई को जोता न पाऊँगा । भरत की प्रीति को स्मरण कर प्रभु बारम्बार पुलकित हुए ।

करहु कल्पभरि राजु तुम्ह, मोहि सुमिरेहु मन माहि ।

पुनि मम धाम पाइहहु, जहाँ सन्त सब जाहि ॥१५५॥

अब तुम कल्प भर राज्य करना और मेरा स्मरण करते रहना । फिर तुम मेरे धाम की सिधारोगे, जहाँ सब सन्तजन जाते हैं ।

**सुनत विभीषण वचन राम के * हरषि गहे पद कृपानिधान के
वानर भालु सकल हरषाने * गहि प्रभु पद गुन विमल बखाने**

श्रीरामजी के वचन सुनते ही विभीषणने प्रसन्न होकर कृपानिधानके चरण पकड़ लिये । सब वानर और रीछ प्रसन्न हुए और प्रभु के चरण पकड़कर निमल गुण बखान करने लगे ।

**बहुरि विभीषण भवन सिधायो * मनि गन वसन विमान धरायो
लौ पुष्पक प्रभु आगेँ राखा * हँसि करि कृपासिधु तव भाखा**

फिर विभीषण महल की गये और वहाँ जाकर बहुत-सी मणियों और वस्त्रों से विमान को भरमाया । उस पुष्पक-विमान को लाकर श्रीरामवन्दनो के आगे रखवा, तब कृपानिधान भगवान हँसकर बोले—

**चढ़ि विमान सुनु सखा विभीषण * गगन जाइ वरपहु पट भूपन
नभ पर जाइ विभीषण तवही * वरषिदिए मणि अम्बर सबन्धे**

हे सखा विभीषण ! इस विमान पर बँडकर आकाश में जाकर वस्त्रानुरग वरपावो ।

दोहा—लछिमन सब मातिन्ह मिलि, हरपे आसिय पाइ ।

कैकेइ कहँ पुनि पुनि मिले, मन कर छोभुन जाइ ॥१५॥

लक्ष्मणजी सब माताओं से मिले और आर्शोवाद पाकर बहुत प्रसन्न हुए, फिर कैकेई से बारम्बार मिले, परन्तु उनके मन का क्षोभ नहीं जाता था ।

सासुन्ह सबनि मिली वैदेही * चरनन्हि लागि हरपु अति तेही
देहिं असीस वृद्धि कुशलाता * होइ अचल तुम्हार अहिवाता

सीताजी सब सासुओं से मिलीं और चरण लगकर बहुत ही आनन्द हुआ । सब सासुयें कुशल पूछकर, आर्शोवाद देती हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल रहे ।

सबरघुपति मुख कमल विलोकिहि * मंगल जानि नयन जल रोकिहि
कनक थार आरती उतारहि * बार बार प्रभु गात निहारहि

सब मातायें रघुनाथजी के मुखारविंद को देख रही हैं और मंगल-समय जानकर नेत्रों के जल को रोकती हैं । सोने के थाल से आरती और बारम्बार प्रभु के अंगों को निहारती हैं ।

नाना भांति निंछावर करहौं * परमानन्द हरपि उर भरहौं
कौसल्या पुनि पुनि रघुवीरहि * चितवत कृपासिन्धु रनधीरहि

वे नाना प्रकार से न्योछावर करती हैं और हृदय को आनन्द से परपूर्ण करती हैं । कौशल्याजी दया के समुद्र—रणधीर श्रीरघुनाथजी को बार-बार देखती हैं ।

हृदयँ विचारत वारहि वारा * कवन भांति लंकापति मारा
अति सुकुमार जुगल मेरे वारे * निसिचर सुभट महाबल भारे

और बारम्बार अपने हृदय में विचार करने लगीं कि इन्होंने लंकापति (रावण) को कैसे मारा ? यह मेरे दोनों बालक बहुत ही सुकुमार हैं और राक्षस तो नारी मोटा और बड़े ही बलवान थे ।

दोहा—लछिमन अरु सीता सहित, प्रभुहि विलोकति मातु ।

परमानन्द मगन मन, पुनि पुनि पुलकित गातु ॥१६॥

लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु श्रीरामजी को देखकर माताओं के मन परमानन्द में मग्न हैं और उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे हैं ।

लंकापति कपीस नल नीला * जामवन्त अंगद शुभसीला
हनुमतादि सब वानर वीरा * धरे मनोहर मनुज सरीरा

लंकापति विभीषण, सुग्रीव, नल, नील, जामवन्त, अंगद और हनुमानजी आदि उत्तम स्वभाव वाले सब वीर-वानर मनोहर मनुष्य शरीर धारण किये हैं ।

भरत सनेह सोल व्रत नेमा * सादर सब वरनहिं अति प्रेमा
देखि नगरवासिन्ह कै रीती * सकल सराहहिं प्रभुपद प्रीती

सब आदर सहित बड़े प्रेम से भरत जी के शीत, स्नेह व व्रत का वर्णन करने लगे नगर

देखि राम रुख वानर रोछा * प्रेम मगन नहिं गृह के ईछा

हे प्रभो ! आपके वचन सुनकर हम लाज के मारे मरते हैं । क्या मच्छर भी कभी मच्छर का हित कर सकता है ? धीरामजी का रुख देखकर वानर और रोछ प्रेम में डूब गये । किसी को घर जाने की इच्छा नहीं है ।

दोहा-प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उर राखि ।

हरष विषाद सहित चले, विनयविविधविधिभाखि ॥१५८॥

प्रभु की आज्ञा से सब रोछ-वानर धीरामजी के स्वरूप को हृदय में रखकर हृयं और विषाद सहित विनती कर चले ।

कपिपति नील रोछपति, अङ्गद नल हनुमान ।

सहित विभीषन अपर जे, जूथप कपि बलवान ॥१५९॥

कहि न सकहि कछु प्रेमबस, भरिभरि लोचन वारि ।

सनमुख चितवहिं राम तनु, नयन निमेष निवारि ॥१६०॥

जामवन्त, सुग्रीव, नील, नल, अंगद तथा हनुमान और विभीषण सहित जो बड़े वलवान सेनापति हैं, वे सब प्रेम के वश कुछ कह नहीं सकते । परन्तु आँखों में जल भर-भरकर और एकटक होकर धीरामजी के मुख की ओर देखते हैं ।

अतिसय प्रीति देखि रघुराई * लोन्हे सकल विमान चढ़ाई
मन महुँ विप्र चरन सिर नायो * उत्तर दिसहि विमान चलायो

उनकी अधिक प्रीति देखकर धीरघुनाथजी ने सबको विमान पर बँठा लिया और मन ही मन ग्राह्यणों के चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चला दिया ।

चलत विमान कोलाहल होई * जय रघुवीर करहिं सब कोई
सिंहासन अति उच्च मनोहर * श्री समेत प्रभु बैठे ता पर

विमान चलते ही भारी शब्द हुआ, सयलोग धीरामजी की जय बोलने लगे । विमानमें जो बहुत ऊँचा व मनोहर सिंहासन था, उसपर सीताजी सहित प्रभु धीरघुनाथजी विराजमान हुए ।

राजत रामु सहित भामिनी * मेरु सृग सम जनु घन दामिनी
रुचिर विमानचलेउ अति आतुर * कीन्ही सुमन वृष्टि हरषे सुर

धीरामचन्द्रजी के साथ सीताजी ऐसी सुशोभित हुईं, मानो नुमेरु पर्वत के शिखर पर बादल के साथ बिजली हो । यह सुन्दर विमान बड़ी शीघ्रता से चला तो देवताओं ने प्रसन्न हो-उस पर फूलों की वर्षा की ।

परम सुखदचलि त्रिविध बयारी * सागर सर सरि निर्मल वारी
सगुन होहि सुन्दर चहुँ पासा * मनप्रसन्न नभ निर्मल नभ आसा

सुन्दर सुख देने वाली शीतल, मन्द, सुगन्ध पवन चलने लगी । समुद्र, सरोवर-धोर

हैं। सोने के अनेक थालों में आरती सजाकर स्त्रियां मनोहर गीत गा रही हैं।

करहिं आरती आरतिहर के * रघुकुलकमल विपिनदिनकर के
पुर शोभा सम्पति कल्याणा * निगम शेष सारदा बखाना
तेउ यह चरित देखि ठगि रहहीं * उमातासु गुन किमि नर कहहीं

वे रघुवंशरूपी कमल-वन के सूर्य तथा दुःख को हरने वाले धीरामजी की आरती कर रही हैं। अयोध्यापुरी की शोभा सम्पत्ति और आनन्द को—वेद, शेष और सरस्वती वर्णन करते हैं। परन्तु यह चरित्र देखकर वे भी ठगे से रह जाते हैं। हे पावन्ती ! तब उसके गुणों को मनुष्य कैसे कह सकते हैं ?

दोहा—नारि कुमुदनी अवध सर, रघुपति विरह दिनेस ।

अस्त भए विकसित भई, निरखि राम राकेस ॥१८॥

स्त्रियां-रूपी कुमुदिनी अयोध्यारूपी सरोवर में धीरामजी के वियोग रूपी सूर्य के अस्त होजाने से धीरामजी-रूपी चन्द्रमा को देखकर खिल उठों।

होहिं सगुन सुभ विविध विधि, वाजहिं गगन निशान ।

पुर नर नारि सनाथ करि, भवन चले भगवान ॥२०॥

नाना प्रकार के शुभ शकुन होने लगे, आकाश में नगाड़े बजने लगे, नगर के सब पुरुष और स्त्रियों को सनाथ करके भगवान धीरामचन्द्रजी राज-भवन को चले।

प्रभु जानी कैकेई लजानी * प्रथम तासु गृह गए भवानी

ताहि प्रबोध बहुत सुख दीन्हा * पुनिनिज भवन गवन हरिकीन्हा

(महादेवजी बोले—) हे पावन्ती ! प्रभु ने जाना कि माता कैकेई लज्जित हैं तो पहले उन्हीं के महल में गये और उन्हें समझाकर बहुत सुख दिया, फिर प्रभु अपने महल में गये।

कृपासिन्धु जब मंदिर गए * पुर नर नारि सुखी सब भए

गुरु वसिष्ठ द्विज लिए बोलाई * आजु सुधरी सुदिन समुदाई

कृपासिन्धु रामजी जब अपने भवन में गये तब नगर के सब नर-नारी सुखी हुए। गुरुवसिष्ठजी ने ब्राह्मणों को बुलवा लिया और कहा—आज शुभ घड़ी और सुख देने वाला सुन्दर दिन है।

सब द्विज देहु हरषि अनुसासन * रामचंद्र वैठहिं सिंहासन

मुनि वसिष्ठ के वचन सोहाए * सुनत सकल विप्रह मन भाए

आप सब ब्राह्मण आनन्द पूर्वक आज्ञा बोलिए कि धीरामजी सिंहासन पर विराजमान हों। मुनि के वचन सुनते ही ब्राह्मणों को बहुत आनन्द हुआ।

कहहिं वचन मृदु विप्र अनेका * जग अभिराम राम अभियेका

अब मुनिवर विलम्ब नहिं कीजै * महाराज कहैं तिलक करीजै

तब अनेक ब्राह्मण मधुर वचनों से बोले—धीरामजी का अभियेक संसार को आनन्द देने वाला है। हे मुनीश्वर ! अब आप विलम्ब न कीजिए और महाराज को राज तिलक करवा लें।

गुह प्रभु का आना सुनते ही विह्वल होकर बौड़ा और परम आनन्दमें मग्न हो प्रभुके पास आया।
प्रभु सहित विलोकि बैदेही * परेउ अवनि तनु सुधि नहिं तेही
प्रीति परम विलोकि रघुराई * हरषि उठाइ लियो उर लाई

सोता समेत प्रभु को देखकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे शरीर की सुधि नहीं रही। तब
रघुनाथजी ने उसको परम प्रीति देखकर प्रसन्नता पूर्वक उठाकर उसे हृदय से लगा लिया।

छन्द—लियो हृदयें लाइ कृपानिधान सुजान रायं रमापति ।

बैठारि राम समीप बूझी कुशल सो करि वीनती ॥

अब कुशल पद पङ्कज विलोकि विरञ्चि शङ्कर सेव्य जे ।

सुखधाम पूरन काम राम नमामि राम नमामि ते ॥

वया के स्थान, सुजान, लक्ष्मीकान्त श्रीरामचन्द्रजी ने गुह को अपने हृदय से लगा लिया
और बहुत ही पास बैठकर कुशल पूछी। तब वह विनती करके बोला-जो ब्रह्माजी और
शिवजी से सेवित हैं, ऐसे आपके चरणारविन्दों के दर्शन करने से अब सब कुशल हैं। हे सुख
के धाम, पूर्ण काम श्रीरामजी! आपको मैं बारम्बार नमस्कार करता हूँ।

दोहा—समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुनहिं सुजान ।

विजय विवेक विभूति नित, तिन्हहिं देहिं भगवान ॥१६४॥

जो चतुर मनुष्य श्रीरघुनाथजी के 'समर-विजय सम्बन्धी' चरित्रों को सुनते हैं, उन्हें
भगवान विजय, ज्ञान और ऐश्वर्य देते हैं।

यह कलिकाल भलायतन, मन करि देखि विचारि ।

श्रीरघुनाथ नाम तजि, नाहिंन आन अधारि ॥१६५॥

अरे मन! विचार कर देख कि यह कलि-काल पापों का घर है जिसमें श्रीरघुनाथजी
नाम को छोड़कर, अन्य कोई आधार नहीं है।

❀ मासपारायण—सत्ताईसवाँ विश्राम ❀

॥ इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुष विध्वंसे षष्ठम सोपान समाप्तमः ॥

कलियुग के सम्पूर्ण पापों को नष्ट करने वाले श्रीरामचरितमानस का

यह छटवाँ सोपान समाप्त हुआ ॥

—:* इति लङ्का काण्ड समाप्त: *—

देखि मातु सब हरषी, जन्म सुफल निज जानि ॥२४॥

श्रीरामजी के बापों और लक्ष्मी रूप, गुणों की खान श्रीजानकीजी शोभायमान हैं। उन्हें देखकर सब मातायें अपना जन्म सफल जानकर, प्रसन्न हुईं।

सुनि खगेस तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनिवृन्द।

चढ़ि विमान आए सकल, सुर देखन सुखकन्द ॥ २५ ॥

काकभुशुण्डिजी बोले-हे गरुड़जी! उस समय ब्रह्माजी, शिवजी और मुनिगण तथा सब देवता विमानों पर चढ़कर आनन्दकन्द प्रभु के दर्शन करने के लिए आये।

प्रभु विलोकि मुनि मन अनुरागा * तुरत दिव्य सिंहासन मांगा
रवि सम तेज सो वरनि न जाई * बैठे राम द्विजन्ह सिरु नाई

प्रभुको देख मुनिके मनमें प्रेम भरआया। उन्होंने उसी समय सुन्दर सिंहासन मांगाया, जिसका तेज सूर्यके समान था, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। श्रीरामजी द्विजोंको प्रणाम करके बैठे।

जनक सुता समेत रघुराई * देखि प्रहरषे मुनि समुदाई
वेद. मंत्र तब द्विजन्ह उचारे * नभसुरमुनि जय जयति पुकारे

श्रीजानकीजी सहित श्रीरामजानकीजीको सिंहासन पर विराजमान देखकर मुनिगण बहुतही प्रसन्न हुए। उस समय ब्राह्मणों ने वेद-मन्त्र उच्चारण किये, आकाश में देवता और मुनि जय-जय करने लगे।

प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनिकीन्हा * पुनि सब विप्रन्ह आयसु दीन्हा
सुत विलोकि हरषीं महतारी * वार वार आरती उतारी

सब प्रथम वशिष्ठ मुनि ने तिलक किया, फिर सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्रको राज-सिंहासन पर विराजमान देखकर सब मातायें बहुत प्रसन्न हुईं और उन्होंने बारम्बार आरती उतारी।

विप्रन्ह दान विविध विधि दीन्हे * जाचक सकल अजाचक कीन्हे
सिंहासन पर त्रिभुवन साई * देखि सुरन्ह दुन्दुभी वजाई

ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से दान दिये और सब याचकों को सन्तुष्ट कर दिया। त्रिलोकीनाथ को सिंहासन पर देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाये।

छन्द-नभ दुन्दुभी बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहीं।
नार्चाहि अपछरा वन्द परमानंद सुर मुनि पावहीं ॥

भरतादि अनुज विभीषणाङ्गद हनुमानादि समेत ते।
गहे छत्र चमर व्यजन धनु असि चर्म शक्ति विराजते ॥

आकाशमें बहुत प्रकारसे नगाड़े बजने लगे, गन्धर्व और किन्नर गाने लगे, अक्षरायें नाचने लगीं। देवता और मुनि परमानन्द को प्राप्त करते हुए भरत आदि छोटे भाई, विभीषण, अंगद, हनुमान आदि सब छत्र, चंवर, पंखा तलवार, दाल और शक्ति आदि लिए। सुग्रीव

दोहा—रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर लोग ।

जहँ तहँ सोचहि नारि नर, कृस तनु राम वियोग ॥ १ ॥

श्रीरामजी के वनवास की अवधि का एक दिन रह गया है । नगर-निवासी बहुत ही आवुर हैं । श्रीरामजी के वियोग में जहाँ-तहाँ बँठे हुए सोच कर रहे हैं ।

सगुन होहि सुन्दर सकल, मन प्रसन्न सब केर ।

शुभ आगमन जनाव जनु, नगर रम्य चहुँ फेर ॥ २ ॥

सब सुन्दर-सुन्दर शकुन हुए, सबके मन प्रसन्न हुए और नगर चारों ओर से सुहावना होगया । मानो यह तीनों बातें प्रभु के आगमन की सूचना दे रही हों ।

कौसल्यादि मातु सब, मन अनन्द अस होइ ।

आयउ प्रभु श्री अनुज जुत, कहन चहत अब कोइ ॥ ३ ॥

कौशल्या आदि सब माताओं का मन ऐसा आनन्दित हुआ कि सीता और लक्ष्मण सहित रामजी आरहे हैं—ऐसा समाचार कोई कहना चाहता है ।

भरत नयन भुज दच्छिन, फरकत वारहि बार ।

जानि सगुन मन हरष अति, लागे करन विचार ॥ ४ ॥

भरतजी की बाहिनी आँख और बाहिनी भुजा फड़फड़ने लगी । शुभ शकुन जानकर भरतजी बहुत प्रसन्न होकर विचार करने लगे—

रहेउ एक दिन अवधि अधारा * समुझत मन दुख भयउ अपारा
कारन कवन नाथ नहि आयउ * जानिकुटिलकिधौंमोहिबिसरायउ

अवधि का एक दिन रह गया है, यह समझते ही भरतजी को बड़ा दुःख हुआ । किस कारण श्रीरघुनाथजी नहीं आये ? क्या मुझे कुटिल जानकर प्रभु ने मेरी सुधि भुला दी ?

अहह धन्य लछिमन बड़भागी * राम पदारविन्दु अनुरागी
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा * ताते नाथ सङ्ग नहि लीन्हा

अहा ! वे लक्ष्मण धन्य हैं, जो रामचन्द्रजी के चरणारविन्दों के प्रेमी हैं । प्रभु ने मुझे कपटी और छोटा समझा, इसी से प्रभु ने साथ नहीं लिया ।

जौ करती समझैं प्रभु भोरी * नहि निस्तार कल्प सत कोरी
जन अवगुन प्रभु मान न काऊ * दीनबन्धु अति मृदुल सुभाऊ

जो प्रभु मेरी करतूत को समझें तो करोड़ों कल्पों तक मेरा विस्तार नहीं हो सकेगा । परन्तु प्रभु अपने सेवक के दोष नहीं मानते, वे दीनबन्धु नगवान बड़े कोमल स्वभावके हैं ।

सारे जियाँ भरोस दृढ़ सोई * मिलिहहि राम सगुन शुभ होई
बोतें अवधि रहहि जौ प्राणा * अधम कवन जग मोहि समाना

भव पन्थ भ्रमत अमित दिवस निसि काल कर्म गुननि भरे ॥
जे नाथ करि करुना विलोके त्रिविध दुख ते निरवहे ।
भव खेद छेदन दच्छ हम कहूँ रच्छ राम नमामहे ॥

हे श्रीहरि ! आपकी कठिन माया के यशमें होने के कारण देवता, असुर, नाग और मनुष्य जड़-चेतन सभी संसार मार्ग (आवागमन) में कर्म और गुणों से भरे हुए दिन-रात घटक रहे हैं । उनमें से, हे नाथ ! जिन्हें आपने व्याहृष्टि से देख लिया है, वे ही तीनों दुःखों से छूट गये हैं । हे संसार सम्बन्धी दुःख दूर करने में समर्थ श्रीरामजी ! आप हमारी रक्षा करें, हम आपको नमस्कार करते हैं ।

जे ग्यान मान विपत्ति तव भव हरनि भक्ति न आदरी ।
ते पाइ सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥
विश्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे ।
जपि नाम तव विनुश्रम तरहिं भव नाथ सो समरामहे ॥

हे हरि भगवान् ! जो प्राणी अपने ज्ञान के अतिमान से मतवाले होकर संसार से छुड़ाने वाली आपकी भक्ति का आबर नहीं करते, वे देव-दुर्लभ पद पाकर भी नीचे गिरते हैं । जो आपका विश्वास करके सब आशाओं को छोड़कर, आपके दास होकर रहते हैं, वे आपके नाम को जपकर बिना परिश्रम ही संसार से तर जाते हैं । हे नाथ ! हम आपको नमस्कार करते हैं ।

जे चरन शिव अज पूज्य रज सुभ परसि मुनि पतनी तरी ।
नख निर्गता मुनि वन्दिता त्रैलोक पावनि सुरसरी ॥
ध्वज कुलिस अंकुस कंजुजुत वन फिरत कंटक किन लहे ।
पद कञ्ज द्वन्द्व मुकुन्द राम रमेश नित्य भजामहे ॥

जो चरण शिवजी और ब्रह्माजी द्वारा सेवित हैं, जिन चरणों की पवित्र रज को छूते ही गौतम ऋषि की पत्नी (अहिल्या) तर गई । जिन चरणों के नखों से मुनियों द्वारा वन्दित और तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगाजी निकली हैं और जो ध्वजा, घञ्च अंकुस व कमल-इन चिन्हों से अंकित हैं । जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटों के गद्दे पड़ गये हैं, हे मुकुन्द ! हे राम ! हे रमापति ! हम उन्हीं चरणारविंदों का नित्य प्रजन करते हैं ।

अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने ।
षष्ट कन्ध साखा पञ्च बीस अनेक पर्न सुमन घने ॥
फल जुगल विधि कटु मधुर वेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे ।
पल्लवत फूलत नवल नित संसार विटप नमामहे

कपि तव दरस सकल दुख बीते * मिले आजु मोहि राम पिरीते
बार बार बूझी कुसलाता * तो कहूँ देउँ काह सुनु भ्राता

हे हनुमानजी ! तुम्हारे दर्शन से सब दुःख दूर होगये मानो आज मुझे प्यारे धीरामजी मिलगये, फिर बारम्बार कुशलपूछी । भरतजी बोले-हे भाई ! इस समय में आपको क्या हूँ ?

एहि सन्देश सरिस जग माहीं * करि विचारि देखेउँ कछु नाहीं
नाहिन तात उरिन मैं तोही * अब प्रभु चरित सुनावहु मोही

संसार में इस सन्देश के बराबर कुछ भी अच्छा नहीं है, यह मैंने विचारकर देखा है । हे तात ! मैं तुमसे उद्धार नहीं हो सकता । अब मुझे श्रीरघुनाथजी के चरित्र सुनाओ ।

तव हनुमन्त नाइ पद माथा * कहे सकल रघुपति गुन गाथा
कहु कपि कबहुँ कृपालु गोसाईं * सुमिरहि मोहि दास की नाई

तब भरतजी के चरणों में मस्तक नवाकर हनुमानजी ने रघुनाथजी के सम्पूर्ण गुणों की गाथा कही । (भरतजी ने पूछा-) हे हनुमानजी ! कहो, क्यालु धीरामजी क्या कभी मुझे अपने दासकी तरह स्मरण करते हैं ?

छन्द-निज दास ज्यों रघुवंस भूषन कबहुँ मम सुमिरन करचौ ।
सुनि भरत वचन विनीत अति कपि पुलकितनुचरनन्हिपरचौ ॥
रघुवीर निज मुख जासु गुन गन कहत अग जग नाथ सो ।
काहे न होइ विनीत परम पुनीत सद्गुन सिन्धु सो ॥

रघुवंश-भूषण धीरामजी ने क्या कभी मुझे अपने दास के समान समझकर स्मरण किया ? भरतजी के ऐसे बहुत ही दीन वचन सुनकर हनुमानजी रोमांचित होकर चरणों में गिरपड़े । (और सोचने लगे-) जो धीरामजी चराचर के स्वामी हैं, जिनके गुणगान स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन करते हैं, वे भरत ऐसे विनय युक्त, बहुत ही पवित्र और सद्गुण के समुद्र क्यों न हों ?

दोहा-राम प्रानप्रिय नाथ तुम्ह, सत्य वचन मम तात ।

पुनिपुनि मिलत भरत सुनि, हरष न हृदयँ समात ॥ ७ ॥

(हनुमानजी बोले-) हे नाथ ! श्रीरघुनाथजी को तुम प्राणों के समान प्रिय हो । हे तात ! मेरा यह वचन सत्य है । यह सुनकर भरतजी को मिलते हुए हर्ष मन में नहीं समाता ।

सो०-भरत चरन सिरु नाइ, तुरत गयउ कपि राम पहि ।

कही कुसल सब जाइ, हरषि चलेउ प्रभु यान चढि ॥ १ ॥

फिर भरतजी के चरणों में सिर नवाकर हनुमानजी तुरन्त धीरामजी के पास गये और सब कुशल कही तब प्रसन्न होकर प्रभु विमान पर चढ़कर चले ।

हरषि भरत कोशलपुर आए * समाचार सब गुरुहि सुनाए
पुनि मन्दिर महँ बात जनाई * आवत नगर कुसल रघुराई

मद मोह महाममता रजनी । तम पुञ्ज दिवाकर तेज अनी
मन जातकिरातनिपातकिए । मृग लोक कुभोग सरे न हिए
हतिनाथअनाथनि पाहिहरे । विषयावन पांवर भूलि परे

आप भूमण्डल के अत्यन्त सुन्दर आभूषण हैं । उत्तम धनुषबाण औरतर्कस घारणकिये
हैं । मद, मोह और ममतारूपो भारी अँधेरी रात के अन्धकार समूह को दूर करने के लिए
आप महा प्रकाशमय सूर्य हैं । कामदेव-रूपो बहेलिया ने मनुष्यरूपो मृगोंके हृदयमें कुभोग-
रूपो बाण मारकर उनको गिरा दिया है । हे नाथ ! आप उते नष्ट करके उन अनाथों की
रक्षा कीजिए, जो विषयरूपो वन में भूले पड़े हैं ।

बहु रोगवियोगन्हिलोगहए । भव दंघ्रि निरादर के फल ए
भवसिंधु अगाध परे नर ते । पद पंकज प्रेम न जे करते
अतिदीन मलीन दुखोनितहीं । जिन्हके पद पंकज प्रीति नहीं
अवलम्ब भवंतकथाजिन्हके । प्रिय संत अनंत सदा तिन्हके

लोग बहुत-से रोगों और वियोगों से मारे हुए हैं, ये आपके चरणों के निरादर के फल
हैं । और जो लोग आपके चरणारविदों में प्रेम नहीं करते, वे अगाध संसार-सागर में पड़े हैं । ये
लोग नित्य ही अत्यन्त दीन, मलीन और दुखी रहते हैं, जो आपके चरणारविदों में प्रीति नहीं
करते । जिनको आपकी कथा का ही आश्रय है, उनको संत व भगवान सदा प्यार करते हैं ।

नहिं राग न लोभ न मान मदा । तिन्हके सम वैभव वा विपदा
एहि ते तव सेवक होत मुदा । मुनि त्यागत जोग भरोस सदा
करि प्रेम निरंतर नेम लिए । पद पंकज सेवत शुद्ध हिए
सममानि निरादार सादर ही । सब संत सुखी विचरंति मही

उनको न रोग है, न लोभ है, न घमण्ड है और न मद है । ऐश्वर्य अथवा विपत्ति एक
समान है । इसी से मुनिजन सदा योग का भरोसा छोड़ देते हैं और प्रसन्नतापूर्वक आपके
सेवक हो जाते हैं । जो निरन्तर नियम पूर्वक प्रेम करके शुद्ध हृदय से आपके चरणारविदों
की सेवा करते हैं तथा आदर और निरादर को समान मानते हैं, ऐसे सब सन्त सुखी होकर
पृथ्वी पर विचरते हैं ।

मुनि मानस पंकज भृङ्ग भजे । रघुवीर महा रन्धीर अजे
तव नाम जपामिनमामिहरी । भव रोग महा मद मान अरी
गुन सील कृपा परमातनं । प्रनमामि निरन्तर श्री रमनं
रघुनन्द निकन्दयद्वन्द्वयघनं । महिपाल विलोक्य ॐ ज्ञनं

सुनु कपीस अंगद लंकेसा * पावन पुरी रुचिर यह देसा

इधर सूर्यवंशहृषी कमल के सूर्य श्रीरामजी बानरों को नगर दिखाने लगे । (श्रीरामजी बोले-) हे सुग्रीव, अंगद और विभीषण ! सुनो, यह पवित्र पुरी और सुन्दर देश है ।

जद्यपि सब वैकुण्ठ बखाना * वेद पुरान विदित जगु जाना
अवधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ * यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ

यद्यपि सब वैकुण्ठ को बड़ाई करते हैं, वेद-पुराणों में प्रसिद्ध है और संसार जानता है । परन्तु वह भी मुझे अयोध्या के समान प्रिय नहीं है । यह बात कोई-कोई ही जानते हैं ।

जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि * उत्तर दिसि वह सरजू पावनि
जा मज्जन ते बिनाहिं प्रयासा * मम समीप नर पावहिं बासा

यह सुन्दर पुरी मेरी जन्म-भूमि है, इसके उत्तर में निर्मल और पवित्र सरयू बह रही है । जिसमें स्नान करने से बिना परिश्रम ही लोग मेरे समीप वास पा जाते हैं ।

अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी * मम धामदा पुरी सुखरासी
हरषे सब कपि सुनि प्रभु वानी * धन्य अवध जो राम बखानी

यहाँके निवासी मुझे बहुत प्रिय हैं, अयोध्यापुरी मेरे धाम को पहुँचाने वाली और सुखों की राशि है । प्रभु की वाणी सुनकर सब बानर प्रसन्न हुए । 'अवधपुरी' जिसकी बड़ाई स्वयं श्रीरामजी ने अपने श्रीमुख से की है, वह धन्य है ।

दोहा—आवत देखि लोग सब, कृपासिन्धु भगवान ।

नगर निकट प्रभु प्रेरेउ, उतरेउ भूमि विमान ॥११॥

कृपासिन्धु भगवान श्रीरामजी ने जब सब लोगों को आते देखा, तब नगर के निकट प्रभु की प्रेरणा से पुष्पक विमान पृथ्वी पर उतरा ।

उतरि कहेउ प्रभु पुष्पकहि, तुम्ह कुवेर पहिं जाहु ।

प्रेरित राम चलेउ सो, हरषु विरहु अति ताहु ॥१२॥

प्रभु ने पुष्पक विमान से उतरकर कहा कि तुम कुवेर के पास जाओ । श्रीरामजी की प्रेरणा से वह चला, तब उसे स्वामी के पास जाने का हर्ष तथा प्रभु से अलग होने का दुःख हुआ ।

आए भरत संग सब योगा * कूस तनु श्री रघुवीर वियोगा
वामदेव बसिष्ठ मुनि नायक * देखे प्रभु महि धरि धनु सायक

भरतजी के साथ में सबलोग आते, श्रीरामजी के वियोग से उन सबके शरीर दुर्बल होगये हैं । प्रभु ने मुनियों में श्रेष्ठ वामदेव व बसिष्ठजी को देखा, तब धनुष-बाण पृथ्वी पर रख दिये ।

धाइ धरे गुरु चरन सरोरुह * अनुज सहित अति पुलक तनोरुह
भेदि कुशल बूझी मुनिराया * हमरें कुशल तुम्हारिहि दाया

लक्ष्मण सहित बीहड़र गुरुजी के चरणकमल पकड़ लिये, दोनों के शरीर के रोमांच बढ़े

मंगल वह प्रकार पहिराये * द्विजन्ह दान नाना विधि पाए
 श्रीरामजी के चरणों में नित्य-नयी प्रीति है, जिन चरणों की सेवा-शिवजी, देवता,
 मुनि और ब्रह्माजी भी करते हैं। याचकों को बहुत प्रकार से वस्त्र पहिनाये गए और ब्राह्मणों
 ने अनेक दान पाये।

दोहा—ब्रह्मानन्द मगन कपि, सबके प्रभुपद नीति।

जात न जाने दिवस तिन्ह, गए मास षट बीति ॥ ३३ ॥

सब बानर परम आनन्द में मग्न हैं, प्रभु के चरणों में सबकी प्रीति है। दिन-रात जाते
 हुए किसी ने नहीं जाने; छः महीने बीत गये।

बिसरे गृह सपनेहुँ सुधि नाही * जिमि परद्रोह संत मन माहीं
 तब रघुपति सब सखा बोलाए * आइ सबन्हि सादर सिर नाए

सब अपने २ घरों की सुधि भूल गये, स्वप्न में भी किसी को घर की याद नहीं आई।
 जैसे-सन्तों के मन में दूसरों से द्रोह करने का विचार नहीं आता। तब श्रीरामजी ने सब
 सखाओं को बुलाया और सबने आकर सिर नवाया।

परम प्रीति समीप बैठारे * भगत सुखद मृदु वचन उचारे
 तुम्ह अति कीन्ह मोरि सेवकाई * मुख पर केहि विधि करौ बड़ाई

तब श्रीरामजी ने प्रेमपूर्वक सबको अपने पास बंठाया और भक्तों को सुख देने वाले
 कोमल वचन कहे-तुम सबने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं मुँह पर किस प्रकार बड़ाई करूँ ?
 ताते तुम्ह मोहि अति निय लागे * ममहित लागि भवन सुखत्यागे

अनुज राज सम्पति वैदेही * देह गेह परिवार सनेही

तुमने मेरे हित के लिए घर के सब सुख छोड़ दिये, इस कारण तुम सब मुझे बहुत प्यारे
 लगे हो। छोटे भाई, राज्य, सम्पत्ति, जानकी, देह, घर, परिवार और मित्र—

सब समनहिंमम तुम्हहि समाना * मृषा न कहउँ मोर यह आना

सबके प्रिय सेवक यह नीती * मोरें अधिक दास पर प्रीती

ये सब भी मुझे तुम्हारे समान प्रिय नहीं है। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरी आन है।
 यद्यपि सेवक सबको प्यारे होते हैं, यह नीति है। तथापि मुझे तो दास पर विशेष प्रीति है।

दोहा—अब गृह जाहु सखा सब, भजेहुँ मोहि दृढ़ नेम।

सदा सर्वगत सर्वहित, जानि कहेउ अति प्रेम ॥ ३४ ॥

हे सखाओ ! अब तुम सब अपने-अपने घर जाओ। वहाँ दृढ़ नियम से मेरा भजन
 करना और मुझे सदा सर्व-ध्यायक, सर्व-हितकारी समझकर अधिक स्नेह करना।

सुनु प्रभु वचन मगन सब भए * को हम कहाँ बसहि तनु मर
 एकटक रहें जोरि कर आगे * सकहिंन कछुकहि अति

प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम-मग्न होगए, हम कौन हैं? देह की सुधि भो
 हाय जोड़कर सामने खड़े एकटकी लगाये देखते रह गए। अत्यन्त स्नेह के

फिर प्रभु प्रसन्नता पूर्वक शत्रुघ्नजी को हृदय से लगाकर मिले, तत्पश्चात् भरतजी और लक्ष्मणजी से प्रेम पूर्वक मिले ।

भरतानुज लछिमन पुनि भेटे * दुसह विरह सम्भव दुख मेटे
सीता चरन भरत सिरु नावा * अनुज समेत परम सुख पावा

फिर शत्रुघ्नजी-लक्ष्मणजी से मिले और कठिन वियोग से उत्पन्न दुःख को मिटाया, फिर शत्रुघ्नजी समेत भरतजी ने सीताजी के चरणों में सिर नवाकर बहुत सुख पाया ।

प्रभु विलोकि हरषे पुरवासी * जनित वियोग विपति सब नासी
प्रेमातुर सब लोग निहारी * कौतुक कौन्ह कृपालु खारारी

प्रभु के दर्शन से सब प्रसन्न हुए और वियोग से उत्पन्न सब दुःख नष्ट हो गये । सब लोगों की स्नेह से व्याकुल देखकर कृपालु प्रभु ने यह कौतुक किया कि—

अमित रूप प्रगटे तेहि काला * जथाजोग मिले सबहि कृपाला
कृपादृष्टि रघुवीर विलोकी * किए सकल नर नारि विसोकी

उस समय कृपालु रामजी ने असंख्य रूप प्रकट किये और यथायोग्य सबसे मिले । दया की दृष्टि से श्रीरघुनाथजी ने सब नर-नारियों की ओर देखकर उन्हें शोक रहित कर दिया ।

छिन सहि सबहि मिले भगवाना * उमा सरमु यह काहु न जाना
एहि विधि सबहि सुखी करि रामा * आगे चले सील गुन धामा
कौसल्यादि मातु सब धाई * निरखि बच्छ जनु धेनु लवाई

क्षणभर में भगवान सबसे मिल लिये । परन्तु हे पार्वती ! यह भेद किसी ने नहीं जाना । इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्रीरामजी सबको सुखी कर आगे चले । तब सब मातायें ऐसे दौड़ों-जैसे हाल की व्याही हुई गायें बछड़े को चाहती हैं ।

छन्द—जनु धेनु बालक बच्छ तजि गृहँ चरन वन परवस गई ।

दिन अन्त पुर रुख खचत थन हुंकार करि धावत भई ॥

अति प्रेम प्रभु सब मातु भेंटी वचन मृदु बहु विधि कहे ।

गई विषम विपति वियोग भव तिन्ह हरष सुख अगनित लहे ॥

मानो गायें अपने छोटे बछड़ों को घर में छोड़, परवश चरने को वन में गई हों और दिनके अन्त में नगर की ओर थनों से दूध चुचाती और हुंकार करती हुई दौड़ी आ रही हों । प्रभु बड़े स्नेह के साथ सब माताओं से मिले और बहुत भाँति से मधुर वचन कहे । जिससे वियोग से उत्पन्न हुई सब कठिन आपत्ति दूर हो गई और उन्होंने प्रसन्न होकर बहुत सुख पाया ।

दोहा—भेटेउ तनय सुमित्राँ, राम चरन रति जानि ।

रामहि मिलत कैकेइ, हृदयँ बहुत सकुचानि ॥१४॥

श्रीरामचन्द्रजी के चरणों के प्रेमी जानकर पुत्र लक्ष्मणजी से माता सुमित्राजी मिली । श्रीरामचन्द्रजी से मिलती हुई कैकेई हृदय में बहुत लज्जित हुई ।

में बालक, बुद्धि, ज्ञान और बल से हों हूँ, मुझे दीन जानकर अपनी शरण में रक्षिए।
नीच टहल गृह के सब करिहों * पद पङ्कज विलोकि भव तरिहों
अस कहि चरन परेउ प्रभु पाहीं * अब जनि नाथ कहहु गृह जाहीं
में घर की सब छोटी २ सेवायें कहेगा और आपके चरणों के दर्शन करके भयसागरसे
तर जाऊंगा। ऐसे कहकर अङ्गदजी प्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले-हे नाथ ! अब
घर जाने की न कहियेगा।

दोहा-अङ्गद वचन विनीत सुनि, रघुपति करुनासौव ।

प्रभु उठाइ उर लायउ, कमल नयन राजीव ॥३७॥

अङ्गद के विनम्र वचन सुनकर कृष्णा की सोमा भगवान ने उन्हें उठाकर हृदयसे लगा
लिया और उनके कमल-नेत्रों में जल भर आया।

निज उर माल बसन मनि, बालितनय पहिराइ ।

विदा कीन्ह भगवान तब, बहु प्रकार समझाइ ॥३८॥

तब भगवान ने गले की माला, बस्त्र और आभूषण अङ्गदजी को पहिनाकर बहुत
प्रकार से समझाया और उनको विदा किया।

भरत अनुज सौमित्र समेता * पठवन चले भगत कृत चेता

अङ्गद हृदय प्रेम नहि थोरा * फिरिफिरि चितव राम की ओरा

भक्त की फरनी की याद करके भरतजी, शत्रुघ्नजी, बलरामजी सहित उनको पहुँचाने
चले। अङ्गदजी के हृदय में भी थोड़ा प्रेम नहीं है, वे फिर २ कर प्रभु की ओर देखते हैं।

बार बार करि दण्ड प्रनामा * मनु अस रहन कहहि मोहिरामा

राम विलोकनि बोलनि चलनी * सुमिरिसुमिरि सोचतहेंसिमिलनी

और बारम्बार दण्ड-प्रणाम करते हैं, मनमें यह विचार है कि श्रीरामजी मुझे रहने की
कह दें। वे श्रीरामजी की चितवन, बोल-चाल और हँसकर मिलने की याद करके सोचते हैं।

प्रभु रुख देखि विनयवहु भाषी * चलेउ हृदय पद पङ्कज राखी

अति आदर सब कपि पहुँचाए * भाइन्ह सहित भरत फिर आए

किन्तु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनम्र वचन कहकर अपने हृदय में भगवान के
चरणकमलों को रखकर वे चले। बड़े आदर से सब वानरों को पहुँचा कर भाइयों सहित
भरतजी लौट आये।

तब सुग्रीव चरन गहि नाना * भाँति विनय कीन्हे हनुमाना

दिन दस करि रघुपति पद सेवा * पुनि तब चरन देखिहउं देवा

तब हनुमानजी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक भाँति से विनय की ओर बोले-हे देवा
बस दिन श्रीरघुनाथजी की चरण-सेवा करके फिर आपके चरणों के दर्शन कहेगा।

पुन्य पुञ्ज तुम्ह पवनकुमारा * सेवहु जाइ कृपा आगारा

अस कहि कपि सबचले तुरन्ता * अङ्गद कहइ सुनहु हनुमन्

निवासियों को रीति और प्रभु के चरणों में उनका प्रेम देखकर उनकी बड़ाई करने लगे ।

पुनि रघुपति सब सखा बोलाए * मुनि पद लागहु सकल सिखाए
गुरु वसिष्ठ कुल पूज्य हमारे * इन्ह की कृपा दनुज रन मारे

फिर श्रीरामजी ने सखाओं को बुलाकर शिक्षा दी कि मुनि के चरणों को छुओ । ये हमारे पूज्य कुल-गुरु वसिष्ठजी हैं, इन्हीं की कृपा से राक्षस रण में मारे गये हैं ।

ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे * भए समर सागर कहँ बेरे
भम हित लागि जन्म इन्ह हारे * भरतहु ते मोहि अधिक पियारे
मुनि प्रभु वचन भगन सब भए * निमिष निमिष उपजत सुख नए

(श्रीरामजी गुरुजी से बोले-) हे मुनि ! यह सब मेरे सखा हैं, जो युद्ध रूपी समुद्र में मुझे जहाज के समान हुए हैं । मेरे हित के लिए यह अपने जन्म तक हार गये हैं, ये मुझे भरतजी से भी अधिक प्यारे हैं । प्रभु के यह वचन सुनकर सब प्रेम-मग्न हो गये, पल-पल में उन्हें नये सुखों का अनुभव होता है ।

दोहा-कौसल्या के चरनन्हि, पुनि तिन्ह नाउ साथ ।

आसिष दीन्हे हरषि तुन्ह, प्रिय सम जिधि रघुनाथ ॥१७॥

फिर उन सखाओं ने कौशल्याजीके चरणों में माथा नवाया, तब कौशल्याजी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और कहा-तुममुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो ।

सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुखकन्द ।

चढीं अटारिन्ह देखहि, नगर नारि तर बृन्द ॥१८॥

आनन्दकन्द श्रीरामजी महल को चले, तत्र पुष्प-वृष्टि से आकाश भर गया । नगर के स्त्री-पुरुषों के झुंड अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन करते हैं ।

कंचन कलस विचित्र सँवारे * सबहिंधरे सजि निज निज द्वारे
वन्दनवार पताका केतू * सबन्हि बनाए मंगल हेतू

सोने के कलश बहुत भाँति से सजाकर अपने-अपने द्वारों पर रखे । सभी ने मंगल के लिये वन्दनवार, ध्वजा और पताका लगादीं ।

बीथी सकल सुगन्ध सिंचाई * गजमनि रचि बहु चौक पुराई
नाना भाँति सुमंगल साजे * हरषि नगर निसान बहु बाजे

सब गलियां सुगन्धित जल से छिड़कवाई गयीं और गज-मुक्ताओं से रचकर बहुत-सी चौके पुराई गयीं । नाना प्रकार के सुन्दर साज सजाए गए और प्रसन्नता पूर्वक नगर में बहुत से आनन्द के बाजे बजाए गए ।

जहँ तहँ नारि निछावर करहीं * देहिं असीष हरष उर भरहीं
कंचन थार आरती नाना * जुवती सजे करहिं शुभ गाना

जहाँ-तहाँ स्त्रियों न्यौछावर कर रही हैं और हृदय में आनन्दित होकर आशीर्वाद दे रही

दोहा—बरनाश्रम निज निज धरम, निरत वेद पथ लोग ।

चलहिं सदा पावहिं सुखहिं, नहिं भय सोक न रोग ॥४२॥

सब लोग अपने २ वर्ण और आश्रम के अनुकूल-धर्म से रत हैं, वेद-मार्ग पर चلتते हैं । और सदा सुख पाते हैं । किसी को भय, शोक और रोग नहीं है ।

दैहिक दैविक भौतिक तापा * राम राज नहिं काहुहि व्यापा
सब नर करहिं परस्पर प्रीती * चलहिं स्वधर्म निरतिश्रुतिनीती

राम-राज्य में किसी को दैहिक दैविक और भौतिक ताप नहीं व्यापता । सब लोग आपस में प्रेम करते और वेद की रीति से अपने धर्म में मन लगाकर चلتते हैं ।

चारिउ चरन धर्म जग माहीं * पूरि रहा सपनेहुं अध नाहीं
राम भगति रत नर अरु नारी * सकल परम गति के अधिकारी

संसार में धर्म के चारों चरण पूर्णरूप से विद्यमान हैं, पाप तो स्वप्न में नहीं है । सब नर-नारी श्रीरामजी की भक्ति मन से करते हैं और सब ही मुक्ति के अधिकारी हैं ।

अल्प मृत्यु नहिं कवनिउ पीरा * सब सुन्दर सब विरज सरीरा
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना * नहिं कोउ अबुध न लच्छन हीना

न तो अकाल-मृत्यु ही होती है और न कोई पीड़ा ही होती है । सब लोग सुन्दर और अरोग्य शरीर वाले हैं । न कोई दरिद्रो है, न कोई दीन-दुखी है । न कोई अज्ञानी है और न कोई शुभ लक्षणों से हीन ही है ।

सब निर्दम्भ धर्मरत पुनी * नर अरु नारि चतुर सब गुनी
सब गुनग्य पण्डित सब ग्यानी * सब कृतग्य नहिं कपट सयानी

सभी पाखण्ड रहित, धर्म में रत व पुण्यात्मा हैं । पुरुष और स्त्री-सनी चतुर और मुक्त हैं । सभी गुणी, पण्डित, ज्ञानी तथा कृतज्ञ हैं, कपट और मूर्खता किसी में भी नहीं है ।

दोहा—रामराज नभगेस सुनु, सचराचर जग माहिं ।

काल कर्म सुभाव गुन, कृत दुख काहुहि नाहिं ॥४३॥

हे गरुड़जी ! सुनो, संसार में राम-राज्य में काल, कर्म, स्वभाव तथा गुणों से उत्पन्न दुःख कभी किसी को नहीं होता ।

भूमि सप्त सागर मेखला * एक भूप रघुपति कोसला
भुअन अनेक रोम प्रति जासू * यह प्रभुता कछु बहुत न तासू

सात समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी पर अयोध्यापति महाराज श्रीरामचन्द्रजी एक ही राजा हैं । जिनके एक-एक रोम में अनेक लोह हैं, उनकी यह प्रभुता कुछ बहुत नहीं है ।

सो महिमा समुझत प्रभु केरी * यह बरनत दीनता घनेरी
सोउ महिमाखगेस जिन्ह जानी * फिरि एहि चरिततिन्हैरति

दोहा—तव मुनि कहेउ सुमन्त सन, सुनत चलेउ हरषाइ ।

रथ अनेक बहु बाजि गज, तुरत सँवारे जाइ ॥२१॥

तव मुनि ने सुमन्त से कहा तो वे सुनते ही हर्षित होकर चले । उन्होंने अनेक रथ, हाथी और घोड़े तुरन्त सजवाए ।

जहँ तहँ धावन पठइ पुनि, मंगल द्रव्य मँगाइ ।

हरप समेत वसिष्ठ पद, पुनि सिर नायउ आइ ॥२२॥

फिर जहाँ तहाँ दूतों को भेजकर मंगल-द्रव्य मँगाकर, आनन्द पूर्वक आकर वसिष्ठजी के चरणों में सिर नचाया ।

ॐ नवान्ह पारायण—आठवाँ विश्राम ॐ

अवधपुरी अति रुचिर बनाई * देवन्ह सुमन वृष्टि झरि लाई

राम कहा सेवकन्ह बुलाई * प्रथम सखा अन्हवावहु जाई

अयोध्या को बहुत सुन्दर सजाया । देवताओं ने फूलों की वर्षा की झड़ी लगादी । श्रीरामजी ने सेवकों को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम जाकर पहले हमारे सखाओं को स्नान कराओ ।

सुनत वचन जहँ तहँ जन धाए * सुग्रीवादि तुरत अन्हवाए
पुनि करुनानिधि भरतु हँकारे * निज कर राम जटा निरुआरे

पह सुनते ही सेवक जहाँ-तहाँ दौड़े और तुरन्त ही सुग्रीव आदि सखाओं को स्नान कराया । फिर दयालु श्रीरामजी ने भरतजी को बुलाया और अपने हाथों से उनकी जटाओं को सुनसाया ।

अन्हवाए प्रभु तीनिउ भाई * भगत बछल कृपालु रघुराई
भरत भाग्य प्रभु कोमलताई * सेष कोटिसत सकहिं न गाई

फिर भक्त-व्रसल कृपालु श्रीरघुनाथजी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया । भरतजी के भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन सी करोड़ शेषजी भी नहीं कर सकते ।

पुनि निज जटा राम विचराये * गुरु अनुसासन साँगि नहाये
करि मज्जन प्रभु भूपन साजे * अंग अनंग देखि सत लाजे

फिर श्रीरामजी ने अपनी जटायें घोलनी और गुरुदेव की आज्ञा पाकर स्नान किया । स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किये, उन अंगों को शोभा देखकर संकड़ों कामदेव लजा गये ।

दोहा—तामुन्ह सादर जानकिहिं, मज्जन तुरत कराइ ।

दिव्य वसन वर भूपन, अँग अँग सजे बनाइ ॥२३॥

तामुओं ने सादर पूर्वक जानकीजी को तुरन्त ही स्नान कराया और उत्तम वस्त्र तथा दिव्य गहनों से अंग-प्रारंभ सजा दिये ।

राम वाम दिसि सोभित, रमा रूप गुन खानि ।

सागर निज मरजादाँ रहहीं * डारहि रतन तटन्हि नर लङ्गह
सरसिज संकुल सकल तड़ागा * अति प्रसन्न दस दिसि विभाग
समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे अपने किनारों पर रत्न डाल देते हैं, उन्हें मनुष्य
लेते हैं। सब तात्ताव कमलों से भरे हैं, वहाँ दिशाओं के विभाग बहुत हो प्रसन्न हैं।

दोहा-विधु महि पूर मयूखन्हि, रवि तप जितनेहि काज।
माँगें वारिद देहि जल, रामचन्द्र के राज ॥४५॥

धोरामजी के राज्य में चन्द्रमा अपनी शीतल किरणों से पृथ्वी को परिपूर्ण रखता है।
सूर्य उतना ही तपता है, जितने से काम बनता है और मेघ माँगने पर जल बरसा देते हैं।
कोटिन्ह वाजिमेध प्रभु कीन्हे * दान अनेक द्विजन्ह कर्ह दीन्हे
श्रुति पय पालक धर्म धुरन्धर * गुनातीत अरु भोग पुरन्दर
प्रभु धोरामजी ने करोड़ों अश्वमेध-यज्ञकिये वे ब्राह्मणों को असांख्य दान दिये। धोरामजी
वेद को मर्यादा के पालक, धर्मधुरन्धर, गुणों से परे और भोगों में इन्द्र के समान थे।

पति अनुकूल सदा रह सीता * सोभा खानि सुसील विनीता
जानति कृपांसिधु प्रभुताई * सेवत चरनकमल मन लाई
शोभा की खान, सुसील, विनम्र सीताजी सदा पति के अनुकूल हैं। कृपांसिधु धोरामजी
की प्रभुता को जानती हुई सीताजी मन लगाकर उनके चरणारविंदों की सेवा करती हैं।

जद्यपि गृह बहु सेवक सेवकियो * विपुल सदा सेवा विधि गुनी
निज कर ग्रह परिचरजा करई * रामचंद्र आयसु अनुसरई
दद्यपि महलों में बहुत से दास और दासियाँ हैं तथा वे सेवा करने में घुरते हैं। तो जो
सीताजी अपने हाथों से घर की दृष्ट करती हैं और धोरामजी की आज्ञानुसार चरती हैं।

जेहिविधि कृपांसिधु सुख मानहिं * सोइ कर श्रीसेवा विधि जानहिं
कौसल्यादि सासु गृह माहीं * सेवइ सबन्हि मान मद नाहीं
उमा राम ब्रह्मादि वन्दिता * जगदम्बा सन्तत मनिन्दिता

कृपांसिधु धोरामचन्द्रजी वित्त प्रकार से सुख मानें-सीताजी वही करती हैं, क्योंकि वे
सेवा की विधि को जानती हैं। वे घर में कौसल्यादि सासुओं की सेवा करती हैं, मान और
मद उनमें नहीं है। हे पार्वती! जगदम्बा सीताजी-ब्रह्मा आदि देवताओं से वन्दित और
सदा आनन्दित हैं।

दोहा-जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितव न सोइ।
राम पदारविन्दु रति, करत सुभावहि खोइ ॥४६॥
जिनके कृपा-कटाक्ष को देवता चाहते हैं, परन्तु जो उनको ओर देखती नहीं। एसे
धोरामजी अपने स्वभाव को छोड़कर धोरामजी के चरणों में प्रेम करती हैं।

सेवहिं सानुकूल सब भाई * रामचरन रति अति अधि
प्रभुमुख कमल विलोकत रहहीं * कबहुँ कृपालु हमहि कष्ट

छन्द-श्री सहित दिनकर वंशभूषण काम बहु छवि सोहई ।
 नव अम्बुधर वर गीत अम्बर गात सुर मन मोहई ॥
 मुकुटाङ्गुदादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजे ।
 अम्भोज नयन विशाल उर भुज धन्य नर निरखन्ति जे ॥

श्रीसीताजी सहित सूर्यवंश के भूषण श्रीरामजी अनेक कामदेवों की शोभा से शोभित हैं । नवीन मेघ के समान सुन्दर साँवले शरीर पर पीताम्बर मुनियों के मन को मोहित कर रहा है । मुकुट, भुजदण्ड और विचित्र आभूषण अंग-अंग में सजे हुए हैं । कमल के समान नेत्र हैं चौड़ी छाती, लम्बी भुजायें हैं । जो दर्शन करते हैं, वे धन्य हैं ।

दोहा-वह शोभा सुसमाज सुख, कहत न बनइ खगेस ।

बरनाहि सारद सेष श्रुति, सो रस जान महेस ॥ २६ ॥

हे पक्षिराज ! वह शोभा, यह समाज और वह सुख कहते नहीं बनता । सरस्वती, शेषजी और वेद निरन्तर उनका वर्णन करते हैं, उसका रस शिवजी ही जानते हैं ।

भिन्न भिन्न अस्तुति करि, गए सुरनिज निजधाम ।

बन्दी वेष वेद तब, आए जहँ श्रीराम ॥ २७ ॥

सब देवता अलग-अलग स्तुति करके अपने-अपने स्थान को चले गये, तब भादों का वेष धारण कर चारों वेद वहाँ आये, जहाँ श्रीरामजी थे ।

प्रभु सर्वग्य कोन्ह अति, आदर कृपानिधान ।

लखेउ न काहँ मरम कछु, लगे करन गुणगान ॥ २८ ॥

कृपानिधान सर्वज्ञ प्रभु ने उनका आदर किया, यह भेद किसी ने भी नहीं समझ पाया । वेद गुणगान करने लगे-

छन्द-जय सगुण निर्गुण राम रूप अनूप भूप सिरोमने ।

दसकन्धरादि प्रचण्ड निसिचर प्रवल खल भुजवल हने ॥

अवतार नर संसार भार विभंजि दारुन दुख दहे ।

जय प्रन्तपाल दयालु प्रभु संयुक्त सक्ति नमामहे ॥

हे सगुण और निर्गुण रूप अनुपम सौन्दर्य युक्त राज-शिरोमणि श्रीरामजी ! आपकी जय हो । आपने रावण आदि प्रचण्ड बलवान और दुष्ट राक्षसों को अपनी भुजाओं के बल से मारा है । आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार का भार दूर कर, सबके कठिन दुःख दूर कर दिये । हे शरणागत पालक, दयालु प्रभु ! आपकी जय हो । हम शक्ति रहित आपको नमस्कार करते हैं ।

* यजुर्वेद उवाच *

छन्द-तव विषम माया वश सुरासुर नाग नर अग जग हरे ।

सबके गृह गृह होहिं पुराना * रामचरित पावन विधि नाना
नर अरु नारि राम गुन गावहिं * करहिंदिवस निसि जातन जानहिं

सबके घरों में पुराणों और पवित्र रामचरित्र को कथायें अनेक भांति से होते हैं। स्त्री पुरुष श्रीरामजी का गुण-गान करते हैं, जिससे दिन-रात जाते हुए मात्रम नहीं होते।

दोहा—अवधपुरी वासिन्ह कर, सुख सम्पदा समाज।

सहस्र सेष नहिं कहि सकहिं, जहें नृप राम विराज ॥४८॥

जहां श्रीरामचन्द्रजी स्वयं राजा हैं, उस अयोध्यापुरी में निवास करने वालों के पुत्र-सम्पत्ति के समुदाय को हजारों शेषजी भी वर्णन नहीं कर सकते।

नारदादि सनकादि मुनीसा * दरसन लागि कोसलाधीसा
प्रतिदिन सकल अयोध्या आवहिं * देखि नगर विरागु विसरावहिं

नारद और सनकादिक मुनीश्वर कीसलाधीस श्रीरामचन्द्रजी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्यापुरी में आते हैं और नगर को देखकर बराग्य भूला देते हैं।

जात रूप मनि रचित अटारी * नाना रङ्ग रुचिर गज डारो
पुर चहुं पास कोटि अति सुन्दर * रचे कंगूरा रङ्ग रङ्ग वर

स्वर्ण और मणिपों की बनी हुई अटारियां हैं, उनमें अनेक रंगों की टालकर सुन्दर फलों बिछी हैं। पुरी के चारों ओर सुन्दर घेरा हैं, जिसमें सुन्दर रंग-विरंगे कंगूरे घने हैं।

नव ग्रह निकर अनीक बनाई * जनु घेरी अमरावति आई
महि बहु रङ्ग रचितगच काँचा * जो विलोकि मुनिवर मन नाचा

मानो नव-ग्रहों ने सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी पर अनेक भांति के रंग-विरंगे कांच (रत्नों) के फल बिछे हुए हैं, जिन्हें देखकर श्रेष्ठ मुनियों के मन भी नाच उठते हैं।

धवल धाम ऊपर नभ चुम्बत * कलसमनुहुं रविससिद्रुति निन्दत
बहु मनिरचित झरोखा भ्राजहिं * गृह गृह प्रति मनिदीप विराजहिं

स्वच्छ महल ऊपर आकाश की धूम रहे हैं, उनके कलश मानो चंद्रमा और सूर्य की कान्ति की निन्दा करते हैं। बहुत-सी मणिपों से जड़ी हुई चिड़कियां शोभित हैं और घर-घर में मणिपों के दीपक शोभायमान हैं।

छन्द—मनिदीप राजहिं भवन भ्राजहिं देहरों विद्रुम रचों।
मनि खम्भ भीतिविरञ्चि विरचों कनक मनि मरकतखचों ॥

सुन्दर मनोहर मन्दिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे ।

प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु वज्रन्हि खचे ॥

महलों में मणिपों के दीपक सुशोभित हो रहे हैं, मृगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं और

वेद-शास्त्रों ने कहा है कि जिनकी जड़ अदृश्य माया है, जो अनादि है, जिनके छः तने, पच्चीस शाखाएँ, अनेक पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिनके दो प्रकार के कड़वे और मोठे फल हैं। जिस पर उसी के आश्रित बेलि है और जिनके नित्य नये पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसाररूपी वृक्ष आपको नमस्कार करते हैं।

छन्द—जे ब्रह्म अजम अद्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्यावहीं ।
ते कहहुँ जानहुँ नाथ हम तव सगुन जसु नित गावहीं ॥
करनायतन प्रभु सद्गुना कर देव यह वर माँगहीं ।
मन वचन कर्म विकार तजि तव चरण हम अनुरागहीं ॥

जो मनुष्य 'ब्रह्म' को अजन्मा, अद्वैत, अनुभव से जानने योग्य और मन से परे जानकर उसका ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें। परन्तु, हे नाथ ! हम तो आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे कृपानिधान ! हे उत्तम गुणों के स्वान प्रभो, हे देव ! हम यही वर मांगते हैं कि मन, कर्म, वचन से विकारों को छोड़कर आपके चरणों में हमारा प्रेम हो।

दोहा—सब कें देखत वेदन्ह, विनती कीन्हि उदार ।

अन्तर्ध्यान भए पुनि, गए ब्रह्म आगार ॥ २८ ॥

सब लोगों के देखते हुए वेदों ने श्रीरामचन्द्रजी की यह श्रेष्ठ स्तुति की। फिर वे अन्तर्ध्यान होकर ब्रह्मलोक को चले गये।

वेनतेय सुनु शम्भु तव, आये जहँ रघुवीर ।

विनय करत गद्गद् गिरा, पूरित पुलकि शरीर ॥ ३० ॥

हे गरुड़जी ! सुनो, तब शिवजी वहाँ आये, जहाँ श्रीरघुनाथजी थे और पुलकित शरीर होकर गद्गद् बाणी से स्तुति करने लगे।

छन्द—जय राम रमा रमनं समनं । भव ताप भयाकुल पाहि जनं
अवधेश सुरेस रमेश विभौ । सरनागत माँगत पाहि प्रभो
दससीस विनासन बीसभुजा । कृत दूरि महाभय भूरि रुजा
रजनीचर वृन्द पतङ्ग रहे । सर पावक तेज प्रचण्ड दहे

हे रमा-रमण श्रीरामजी ! आपको जय हो ! आप संसार के पापों को दूर करने वाले और भय से व्याकुल जीवों के रक्षक हैं। हे अवधपति ! हे देवाधिपति ! हे लक्ष्मिनाय ! हे समर्थ प्रभो ! मैं सरनागत यही मांगता हूँ कि मेरी रक्षा कीजिए। आपने दश शीश और बीस भुजा वाले रावण को मारकर पृथ्वी के नारो नय-रोग को दूर कर दिया। राक्षसरूपी भुनगे आपके बाणदशी प्रचण्ड अग्नि के तेज से जलकर नष्ट हो गये।

महि मण्डल मण्डन चारुतरं । धृत सायंक चाप निषङ्ग वरं

बाँधे घाट मनोहर, स्वल्प पंक नहिं तीर ॥ ५० ॥

पुरी के उत्तर में निर्मल जल वाली गहरी नदी 'सरयू' बह रही है। मनोहर घाट बने हुए हैं, किनारे पर तनिक भी कीचड़ नहीं है।

दूर फराक रुचिर सो घाटा * जहाँ जल पिअहिं वाजिगज ठाठा
पनिघट परम मनोहर नाना * तहाँ न पुरुष करहिं अस्नाना

कुछ दूर पर सुन्दर घाट हैं, जहाँ घोड़े और हाथियों के झुंड पानी पीते हैं। जल भरने के लिये बहुत ही मनोहर घाट बने हैं, वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते।

राजघाट सब विधि सुन्दर वर * मज्जन तहाँ चारिउ नर
तीर तीर देवन्ह के मन्दिर * चहुँ दिसि तिन्हके उपवन सुन्दर

राज-घाट सब भाँति से सुन्दर व श्रेष्ठ है, जहाँ चारों घणों के मनुष्य स्नान करते हैं। सब घाटों के तट पर देवताओं के मन्दिर हैं, जिनके चारों ओर सुन्दर घणोचे हैं।

कहुँ कहुँ सरिता तीर उदासी * वसहिं ज्ञान रत मुनि संन्यासी
तीर तीर तुलसिका सुहाई * वृन्द वृन्द बहु मुनिन्ह लगाई

कहाँ २ नदी के किनारे विरयत, ज्ञानी, मुनि व संन्यासी निवास करते हैं। जहाँ-तहाँ उन सब मुनियों के लगाये हुए बहुत भाँति के सुहावने तुलसी के वृक्ष समूह शोभायमान हैं।

पुर शोभा कछु वरनि न जाई * बाहेर नगर परम रुचिराई
देखत पुरी अखिल अघ भागा * वन उपवन वापिका तड़ागा

पुरी की शोभा कुछ वर्णन नहीं की जाती, नगर के बाहर भी शोभा है। पुरी के बसंत करते ही सब पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन, उपवन, बावतियाँ और तालाव सुशोभित हैं।

छन्द-बापीं तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहर्षी ।

सोपान सुन्दर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहर्षी ॥

बहु रङ्ग कञ्ज अनेक खग कूजहिं मधुप गुञ्जारहीं ।

आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हुँकारहीं ॥

बहुत सुन्दर और विशाल बावली, तालाव और कुएँ शोभा दे रहे हैं। उनकी सुन्दर सीढ़ियाँ और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि भी मोहित हो जाते हैं। तालावों में अनेक रङ्गों के कोमल फूल खिल रहे हैं, भाँति-भाँति के पक्षी गूँज रहे हैं और भोरे गुंजार रहे हैं। सुन्दर बगीचों में कोयल आदि पक्षी मानो पथिकों की बुला रहे हैं।

दोहा-रमानाथ जहाँ राजा, सो पुर वरनि किजाइ ।

अनिमादिक सुख सम्पदा, रहीं अवध सब छाइ ॥ ५१ ॥

जहाँ सक्षमीपति भगवान राजा हों, क्या उस नगर का भी वर्णन किया जा सकता है ?

ऐसे मुनियों के मनरूपी कमलों के भँरि ! हे महा रणधीर और अजेय श्रीरघुनायजी ! मैं आपका नाम जपता हूँ और नमस्कार करता हूँ । आप संसाररूपी रोग को महा औषधि और अग्निमान के रात्रु हैं । आप गुण, शील और कृपा के स्थान हैं, हे रमारमण ! मैं आपको सर्वत्र नमस्कार करता हूँ । हे रघुनन्दन ! घोर द्वन्द्व का नाश कीजिए । पृथ्वीनाथ ! मुझ वीन-जन की ओर देखिये ।

दोहा—बार बार वर माँगउँ, हरषि देहु श्रीरंग ।

पद सरोज अनपायिनी, भगति सदा सत्संग ॥ ३१ ॥

हे श्रीरङ्ग ! बारम्बार मैं यही वर मागता हूँ, सो प्रसन्न होकर दीजिए कि आपके चरणारविदों में अटल भक्ति और सत्सङ्ग मुझे सदैव प्राप्त हो ।

वरनि उमापति राम गुन, हरषि गए कैलास ।

तव प्रभु कपिन्ह दिखाए, सब विधि सुख प्रद वास ॥ ३२ ॥

शिवजी जब श्रीरामजी के गुण वर्णन करके आनन्द पूर्वक कैलाश-पर्वत को चले गये, तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डर दिलवाये ।

सुनु खगपति यह कथा पावनी * त्रिविध ताप भवभय दावनी
महाराज कर शुभ अभिषेका * सुनत लहहिं नरविरति विवेका

हे गण्डजी ! सुनिए, यह कथा पवित्र करने वाली और तीनों तापों तथा भव-भय का नाश करने वाली है । महाराज श्रीरामचन्द्रजी के मङ्गलदायक राज्याभिषेक की कथा सुनते ही मनुष्य वैराग्य और ज्ञान को प्राप्त होंगे ।

जे सकास नर सुनहिं जे गावहिं * सुख सम्पति नाना विधि पावहिं
सर दुर्लभ सुख करि जग माहीं * अन्तकाल रघुपति पुर जाहीं

जो मनुष्य कुछ इच्छा रखकर इसे सुनें और गावेंगे, वे अनेक प्रकार के सुख और सम्पत्ति पावेंगे । वे संसार में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अन्त में वैकुण्ठ को पधारेंगे ।

सुनहिं विमुक्त विरत अरु विषई * लहहिं भगति गति सम्पति नई
खगपति रामकथा मैं बरनी * स्वमति विलास त्रास दुखहरनी

जो जीवन्मुक्त, ज्ञानी और विषयी सुनें, वे भी क्रमशः भक्ति, मोक्ष और सम्पत्ति पावेंगे । हे गण्डजी ! यह कथा मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन की है, जो भय तथा दुःख को दूर करने वाली है ।

विरति विवेक भगति दृढ़ करनी * मोहनदो कहुं सुन्दर तरनी
नित नव मङ्गल कोसलपुरी * हरषित रहहिं लोग सब कुरी

वैराग्य, ज्ञान और भक्ति को दृढ़ करने वाली यह कथा मोहरूपी नदी को पार करने के लिए सुन्दर नौका है । नित्य-नये मङ्गल अयोध्यापुरी में होते हैं, सब जातियों के लोग आनन्द से रहते हैं ।

नित नई प्रीति राम पद पंकज * जिन्हहिं नमत सिव सुर मुनिअज

सूर्य का उदय हुआ है, तब से तीनों लोकों में प्रकाश छा रहा है। परन्तु, इससे यदुतों को सुख और बद्धतों को शोक हुआ।

**जिन्हहि सोक ते कहउँ बखानी * प्रथम अविद्या निसा नसानी
अध उलूक जहँ तहाँ लुकाने * काम क्रोध कैरव सकुचाने**

जिन्हें दुःख हुआ, उनका मैं वर्णन करता हूँ। पहले तो अविद्यारूपी रात्रि नष्ट हो गई, फिर पापरूपी उल्लू जहाँ-तहाँ छिप गये और काम-क्रोधरूपी कुमुद मुरसा गये।

**विविध कर्म गुन काल सुभाऊ * ए चकोर सुख लहहि न काऊ
मत्सर मान मोद मद चोरा * इन्ह कर हुनर न कवनिहँ ओरा**

अनेक, कर्म, गुण, काल और स्वभाव—ये चकोर हैं, जो कमी सुख नहीं पाते। गह, अमिमान, मोह और मदरूपी जो चोर हैं—उनका हुनर फिती ओर नहीं चतता।

**धरम तड़ाग ग्यान विग्याना * ए पंकज बिकसे विधि नाना
सुख सन्तोष विराग विवेका * विगत सोक ए कोक अनेका**

धर्मरूपी तालाब में ज्ञान-विज्ञान रूपी अनेक तरह के कमल पिल उठे तथा सुख-संतोष और ज्ञान-वीराग्य रूपी चकवों का शोक दूर हो गया।

दोहा—यह प्रताप रवि जाके, उर जब करइ प्रकास।

पिछले वाढ़हि प्रथम जे, कहे ते पावहि नास ॥ ५३ ॥

यह राम-प्रताप सूर्य जिनके हृदय में जब प्रकाश करता है तो पिछले वर्णित गुण बढ़ते हैं और पहले वर्णित दोष नाश की प्राप्त होते हैं।

**भ्रातन्ह सहित रामु एक वारा * सङ्ग परम प्रिय पवनकुमारा
सुन्दर उपवन देखन गए * सब तर कुसुमित पल्लव नए**

एक बार श्रीरामजी भाइयों सहित परम प्रिय हनुमानजी को साथ लेकर सुन्दर बगीचे देखने गये। वहाँ सब वृक्ष फल-फूल और नये पत्तों से युक्त थे।

**जानि समय सनकादिक आए * तेज पुञ्ज गुन सील सुहाए
ब्रह्मानन्द सदा लयलीना * देखत बालक बहु कालीना**

शुभ समय जानकर वहाँ सनकादिक मुनि आये, जो बड़े तेजस्वी, गुणवान्, शीलवान् तथा सदा ब्रह्मानन्द में तबलीन रहते हैं। वे देखने में तो बालक हैं, परन्तु हैं—यति प्राचीन।

**रूप धरें जनु चारिउ वेदा * समदरसी मुनि विगत विभेदा
आसा बसन व्यसन यह तिनही * रघुपति चरित होइ तहँ सुनहो**

मानो चारों वेद ही शरीर धारण किये हैं। वे समदर्शी और भेद रहित हैं, विगाये हो उनके वस्त्र हैं उनको एक ही व्यसन है कि जहाँ श्रीराम-चरित्र को फया होता है—यहाँ ही जाकर वे उसे सुनते हैं।

तहाँ रहे सनकादि भवानी * जहँ घट सम्भव मुनिवर ग्या

परम प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा * कहा विविधविधिग्यान विसेषा
 प्रभु सन्मुख कछु कहनन पार्वहि * पुनि पुनि चरन सरोज निहारहि
 प्रभु ने उनका अत्यन्त प्रेम देखा, तब नाना प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया ।
 प्रभु के सामने कुछ कह नहीं सकते, वे बारम्बार चरणकमलों की ओर देखते हैं ।

तब प्रभु भूषन वसन मंगाए * नाना रंग अनूप सुहाए
 सुग्रीवहि प्रथमहि पहिराए * वसन भरत निज हाथ बनाए
 तब प्रभु ने रंग-विरंगे अतोखे सुन्दर आभूषण और वस्त्र मंगाये । पहले सुग्रीव को
 भरतजी के हाथ से वस्त्र-आभूषण पहिनाये ।

प्रभु प्रेरित लछिमन पहिराए * लंकापति रघुपति मन भाए
 अंगद वैठि रहा नहि डोला * प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला
 प्रभु की आज्ञा से लक्ष्मणजी ने विनीषण को वस्त्र-आभूषण पहिनाये, जो रघुनाथजी
 के मन को प्रिय लगे । अंगदजी बैठे रहे, और अपने स्थान से नहीं उठे तो उनकी प्रीति
 देखकर प्रभु ने भी उन्हें नहीं बुलाया ।

दोहा-जामवन्त नीलादि सब, पहिराए रघुनाथ ।

हियँ धरि राम रूप सब, चले नाइ पद साथ ॥ ३५ ॥

जामवन्त और नील आदि सबको श्रीरघुनाथजी ने वस्त्र-आभूषण पहिनाये । वे सब
 श्रीरामजी के स्वरूप को अपने हृदय में धारण करके चरणकमलों में मस्तक नवाकर चले ।

तब अंगद उठि नाइ सिर, सजल नयन करजोरि ।

अति विनीत बोलेउ वचन, मनहुँ प्रेमरस बोरि ॥ ३६ ॥

तब अंगदजी उठे और सिर नवाकर, आंखों में आंसू भर, हाथ जोड़कर अत्यन्त नम्र
 तथा मानो प्रेम-रस में डुबोये हुए वचन बोले-

सुनु सर्वग्य कृपा सुख सिन्धो * दीन दयाकर आरत बन्धो
 भरती वार नाथ मोहि वाली * गधउ तुम्हारेहि कोछें चाली

हे सर्वज्ञ ! हे दया और सुख के समुद्र, दोनों पर दया करने वाले, शरणागत रक्षक !
 हे नाथ ! मुनिषे, नरते समय मेरे पिता (बालि) भुझे आप ही को गोद में डाल गये थे ।

असरन सरन विरदु सम्भारी * मोहि जनितजहु भगत हित कारी
 मोरे तुम्ह प्रभु गुरु पितु माता * जाऊँ कहाँ तजि पद जलजाता

आप अपना अशरण-शरण यश विचारकर, हे भक्त-हितकारी ! भुझे न छोड़िये । मेरे तो
 गुरु, पिता और माता सब आप ही हैं । आपके चरणकमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ ?

तुम्हहि विचारि कहहु नरनाहा * प्रभु तजि भवन काज ममकाहा
 बालक ग्यान बुद्धि बल हीना * राखहु सरन नाथ जन दीना

हे महाराज ! आप ही विचारकर कहिये कि प्रभु को छोड़कर घरमें मेरा क्या काम है ?

हे भगवन् ! आप अनन्त और विकार रहित हैं। आपको जय हा ! आप निर्दोष, अनेक रूप एक (अद्वितीय) तथा क्या से पूर्ण हैं ।

जय निर्गुन जय जय गुनसागर * सुख मन्दिर सुन्दर अति नागर

जय इन्दिरा रमन जय भूधर * अनुपम अज अनादि सोमाकर

हे निर्गुण ! आपको जय हो । हे गुणों के समुद्र, सुख के मन्दिर, सुन्दर एवं परम चतुर ! आपको जय हो । हे लक्ष्मीपति ! आपको जय हो । हे भूमि को धारण करने वाले, अनुरम, अजन्मा, अनादि और शोभा की छान, आपको जय हो ।

ग्यान निधान अमान मानप्रद * पावन सुजस पुरान वेद वद

तग्य कृतग्य अग्यता भञ्जन * नाम अनेक अनाम तिरञ्जन

आप ज्ञान-निधान, मान रहित और प्रतिष्ठा देने वाले हैं। आपके पवित्र यज्ञ को पुरान और वेद वर्णन करते हैं। आप तत्व के जानने वाले, कृतज्ञ और अज्ञान को दूर करने वाले हैं। आपके नाम अनेक हैं, तो भी आप नाम और माया से रहित हैं ।

सर्व सर्वगत सर्व उरालय * वससि सदा हमकहुँ परिपालय

द्वन्द्व विपति भव फन्द विभंजय * हृदि वसि राम काममद गंजय

आप सर्वरूप, सब में व्याप्त और सबके हृदय में वास करते हैं, अतः आप सदा हमारा पालन कीजिए आप द्वन्द्व, विपत्ति और संसार के व्ययन का काटिए । हे धारामन् ! आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद को दूर कर दीजिए ।

दोहा—परमानन्द कृपायतन, मन परिपूरन काम ।

प्रेम भगति अनपायिनी, देहु हमहि शोराम ॥ ५६ ॥

हे परमानन्द ! हे कृपा के स्थान ! हे मनको कामनाओं का पूरने करने वाले शोरामजी ! आप हमको अपनी निर्मल प्रेम-भक्ति दीजिए ।

देहु भगति रघुपति अति पावनि * त्रिविधसाप भव दोष नसावनि

प्रनत काम सुरधेनु कलहतरु * होइ प्रसन्न दीजै प्रभु यह वरु

हे श्रीरघुनाथजी ! आप हमको अपनी अति पवित्र, तीनों प्रकार के तापों और संसार के फलेशों को नाश करने वाली भक्ति दीजिए । हे शरणागत की कामना पूर्ण करनेको कामधेनु और फल्पवृक्ष रूप प्रभु ? आप प्रसन्न होकर यही वरदान दीजिए ।

भव वारिधि कुम्भज रघुनायक * सेवत सुलभ सकल सुखदायक

मन सम्भव दारुन दुख दारय * दीनबन्धु समता विस्तारय

हे श्रीरघुनाथजी ! आप संसाररूपो समुद्र को सुपाने के लिए अगस्त्य ऋषि के समान हैं। आप सेवा से सुलभ और सुखदायक हैं, अतः मानस जन्म के बुझों को दूर कीजिए । हे दीनबन्धु ! हमें सम-दृष्टि दीजिए ।

आस त्रास इरिषादि निवारक * विनय विवेक विरति विस्तारक

हे पवनपुत्र ! तुम पुण्यों की राशि हो । जाकर कुरानिधान श्रीरामजी को सेवा करो ।
ऐसे कहकर सुयोध तुरन्त चल दिये, तब अंगद ने कहा—हे हनुमानजी ! तुमो—
दोहा—कहेउ दण्डवत प्रभुसन, तुम्हहि कहउँ कर जोरि ।

वार वार रघुनाथकहि, सुरति कराएहु मोरि ॥३८॥

जै तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि प्रभु ने मेरी दण्डवत कहता और श्रीरघुनाथजी को
वार-वार नेरी यात्र दिलाते रहना ।

अस कहि चलेउ बालिसुत, फिर आवउ हनुमन्त ।

तासु प्रीति प्रभुसन कही, बगन भयउ भगवन्त ॥४०॥

ऐसे कहकर अंगदजी चले । हनुमानजी लौट आये और आकर अंगद की प्रीति प्रभु से
कही । उसे सुनकर भगवान प्रेम में मग्न हो गये ।

कुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि ।

चित्त खगेस राम कर, समुझि परइ कहु काहि ॥४१॥

हे गण्डजी ! श्रीरामजी का हृदय वज्र से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक
कोमल है । तब कही—वह किसकी समझ में आ सकता है ।

पुनि कृपालु लियो बोलि निपादा * दीन्हे भूपत वसन प्रसादा
जाहु भवन मम सुभिरन करेहू * मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहू

फिर दयालु श्रीरामजी ने निपादराज को बुला लिया और प्रसादरूप आभूषण तथा वस्त्र
दिये (और बोले—) अब तुम घर जाओ, परन्तु मेरा स्मरण करते रहना और मन, कर्म
वचन से धर्म के अनुसार वर्तव्य करना ।

तुम्ह मम सखा भरतसम भ्राता * सदा रहेहु पर आवत जाता
वचन सुनत उपजा सुख भारी * परेउ चरन भरि लोचन वारी

तुम मेरे सखा एवं भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदैव आते-जाते रहना । यह
वचन सुनते ही निपादराज बहुत खुशी हुआ, यह आँखों में जल भरकर चरणोंमें गिर पड़ा ।

चरन नलिन उर धरि गृह आवा * प्रभु सुभाउ परिजन्हि सुनावा
रघुपति चरित देख पुरवासी * पुनि पुनि कहहि धन्य सुखरासी

फिर प्रभु के चरणकमलों की हृदय में धारण कर आया और प्रभु का स्वभाव अपने
कुटुम्बियोंको सुनाया । श्रीरघुनाथजी के यह चरित्र देखकर अयोध्या वासी वारम्बार कहते
हैं कि पुण्यों की राशि-प्रभु धन्य हैं ।

राम राज बैठे त्रैलोका * हरपित भए गए सब सोका
वयह न कर काहू सन कोई * राम प्रताप विषमता खोई

श्रीरामजी के राजसिंहासन पर बैठते ही तीनों लोक प्रसन्न होगये । उनके सब दुःख दूर होगये।
कोई किसी से डर नहीं करता । श्रीरामजी के प्रताप से सबके मन की विषमता दूर हो गई ।

दोहा—नाथ न मोहि सन्देह कछु, सपनेहुँ सोक न मोह ।

केवल कृपा तुम्हारिहि, कृपानन्द सन्दोह ॥ ५८ ॥

हे स्वामी ! मुझे स्वप्न में भी कुछ सन्देह, दुःख और मोह नहीं है । हे कृपा और प्रानन्द के समूह प्रभो ! यह केवल आप ही की कृपा है ।

करउँ कृपानिधि एक ढिठाई * मैं सेवक तुम्ह जन सुखदाई
सन्तन्ह कै महिमा रघुराई * बहु विधि वेद पुरान्ह गाई

हे कृपानिधान ! मैं सेवक हूँ और आप सेवक-मुषदाता हैं, इस कारण मैं एक ढिठाई करता हूँ । हे धीरघुनायजी ! सन्तों की महिमा बहुत-से वेद और पुराणों में गाई है

श्रोमुख तुम्ह पुनि कोन्ह बड़ाई * तिन्ह परप्रभुहि प्रीति अधिकाई
सुना चहउँ प्रभु तिन्हकरलच्छन * कृपासिन्धु गुन ज्ञान विचच्छन

और आपने भी अपने श्रोमुख से उनको बड़ाई की है तथा उन पर आपकी प्रीति भी बहुत है । हे प्रभु ! मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ । हे ब्यासियु ! आप गुण व ज्ञान में निपुण हैं ।

सन्त असन्त भेद विलगाई * प्रनतपाल मोहि कहहु बुझाई
सन्तन्ह के लच्छन सुनु भ्राता * अगनित श्रुति पुरान विल्याता

हे शरणागत पालक ! सन्त और असन्त दोनों के भेद अथवा समझकर मुझसे कहिये । श्रीरामजी बोले—हे भाई ! सुनो, संतों के लक्षण असंख्य है, जो वेद और पुराणों में प्रतिष्ठ हैं ।

सन्त असन्तन्हि कै असि करनी * जिमि कुठार चन्दन आचरनी
काटत परसु मलय सुनु भाई * निज गुन देइ सुगन्ध वसाई

सन्त और असन्तों को करनी ऐसी है, जैसे चंदन और कुल्हाड़ी को होता है । हे भाई ! सुनो कुल्हाड़ी चंदन को काटती है तो चंदन उसे अपना गुण देकर सुगन्धित कर देता है ।

दोहा—ताते सुर सोसहिं चढ़त, जग बल्लभ श्रोखण्ड ।

अनल दाहि पीटत घनहिं, परसु वदन यह दण्ड ॥ ५९ ॥

इसी से चंदन देवताओं के मस्तक पर चढ़ता है और जगत को प्यारा है तथा कुल्हाड़ी का मुख अग्नि में तपाकर घन से पीठा जाता है, उसे दण्ड मिलता है ।

विषय अलम्पट सोल गुनाकर * पर दुख दुखा सुखी सुखलख पर
सम अभूत रिपु विमद विरागी * लोभी मरष हरष भय त्यागी

सन्तजन विषयों से दूर और शील तथा गुणों को जान होते हैं । वे पराये दुःख को देख दुःखी और पराये सुख का देख सुखी होते हैं । वे समतर रहते हैं, इतोसे उनका कोई शत्रु नहीं होता । वे धमण्डरहित व विरक्त होते हैं और लासक, आनन्द तथा मग को त्याग देते हैं ।

कोमल चित दीनन्ह पर दाया * मनक्रमवच मम भगत अमाया
सवहि मानप्रद आपु अमानो * भरत प्रानसम मम तेजो

कोमलचित्त दीनन्ह पर दाया * मनक्रमवच मम भगत अमाया
सवहि मानप्रद आपु अमानो * भरत प्रानसम मम तेजो

बल्कि प्रभु को उस महिमा को जानकर इनके वर्णन में बड़ी दोनता है। हे गरुड़बो ! जिन्होंने यह महिमा जानी है, वे भी चरित्र में बड़ी प्रीति मानते हैं।

सोइ जाने कर फल यह लीला * कहहिं महा मुनिवर दमसीला
राम राज कर सुख सम्पदा * बरनि न सकहिं फनीस सारदा

अपनी इन्द्रियों को बश में करने वाले महामुनि कहते हैं कि इस रामचरित-मानस में प्रीति होना ही उसके जानने का फल है। राम-राज्य के सुख और सम्पत्ति को शेषजी तथा सरस्वती भी नहीं कह सकते।

सब उदार सब पर उपकारी * विप्र चरन सेवक नरनारी
एक नारि व्रत रत सब ज्ञारी * ते मन वच क्रम पति हितकारी

सब उदार और परोपकारी हैं, सब नर-नारी ब्राह्मणों के सेवक हैं। सब पुरुष एक नारी-व्रती है। स्त्रियाँ भी मन, वचन और कर्म से अपने पतियों का हित करने वाली हैं।

दोहा—दण्ड जतिन्ह कर भेद जहँ, नर्तक नृत्य समाज।

जीतहु मनहिं सुनिअ अस, रामचन्द्र के राज ॥४४॥

श्रीरामजी के राज्य में दण्ड केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद नृत्य-समाजमें रह गया है। 'जी' शब्द तो केवल मन को जीतने के लिए है, ऐसा राम-राज्य में सुनाई देता है।

फूलहिं फरहिं सदा तरु कानन * रहहि एक सँग गज पञ्चानन
खग मृग सहज बयरु बिसराई * सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई

वन में वृक्ष सदा फूलते-फलते हैं और हाथी तथा सिंह एक साथ रहते हैं। पशु-पक्षी स्वाभाविक वंर भूल गये और सभी ने आपस में प्रीति बढ़ा ली है।

कूँजहिं खग मृग नाना बृन्दा * अभय चरहिं वन करहिं अनन्दा
सीतल सुरभि पवन बह मन्दा * गुञ्जत अलिलै चलि मकरन्दा

अनेक भाँति के पशु-पक्षियों के झुण्ड शब्द करते हैं और वन में निर्भय घूमते हुए बिहार करते हैं। शीतल, सुगन्धित पवन चला करती है, भौरे पुष्पों का रस लेकर गुंजारते हैं।

लता विटप माँगे मधु चवहीं * मन भावतो धेनु पय स्रवहीं
कृषि सम्पन्त सदा रह धरनी * त्रेताँ भइ सतयुग कै करनी

लता और वृक्ष माँगने से ही मधु टपका देते हैं, गायें मन-चाहा दूध देती हैं। पृष्ठी सर्वेश्वरी से हरी-मरी रहती है। उस समय सतयुग की सब बातें त्रेता में हो गईं।

प्रगटीगिरिन्ह विविधि मनिखानी * जगदातमा भूप जग जानी
सरिता सकल बरहिं वर बारी * सीतल अमल स्वाद सुखकारी

जगत के आत्मा-भगवान को संसार का राजा समझकर पर्वतों में अनेक प्रकार की मणियों को खान प्रकट हो गईं। सब नदियों में शीतल निर्मल, मोठा, स्वादिष्ट और सुध-प्रद जल बहने लगा।

होता है कि वह अत्यन्त विपेले साँप को भी खा जाता है ।

दोहा-परद्रोही परनारि रत, परधन पर अपवाद ।

ते नर पाँवर पापमय, देह धरें मनुजाद ॥६१॥

जो ब्रह्मरों से द्रोह करते हैं तथा पराई स्त्री, पराये धन और पराई निन्दा में आसक्त रहते हैं । वे नीच, पापी वेह धारण किये हुए राक्षस ही हैं ।

**लोभइ ओढ़न लोभय डासन * सिस्नोदर पर जमपुर त्रासन
काहू की जाँ सुनहि बड़ाई * स्वाँस लेहि जनु जूड़ी आई**

लालच ही उनका ओढ़ना और विछोना है, वे मंथुन और उबर-पूति की चिन्ता में ही लगे रहते हैं, उनको यमपुरी का भय नहीं होता । यदि वे किसी को प्रशंसा सुन पाते हैं तो ऐसे श्वास लेते हैं, मानो जूड़ी आ गई हो ।

**जब काहू कै देखाहि विपती * सुखी भए मानहुँ जग नृपती
स्वारथ रत परिवार विरोधी * लम्पट काम लोभ अति क्रोधी**

वे जब किसी पर विपत्ति देखते हैं, तो ऐसे सुखी होते हैं कि मानो जगत के राजा होगये हों । वे अपने स्वार्थ में तीन कुटुम्ब-विरोधी, ठग, कामी, लोभी और क्रोधी होते हैं ।

**मातु पिता गुरु विप्र न मानहि * आपु गए अरु घालहि आनहि
करहि मोह बस द्रोह परावा * सन्त सङ्ग हरिकथा न भावा**

माता, पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते । आप तो नष्ट हैं ही, ब्रह्मरों को भी नष्ट करते हैं । मोह के बरा ब्रह्मरों से द्रोह करते हैं, सन्त-जनों की संगति और भगवत-कथा उन्हें अच्छी नहीं लगती ।

**अवगुन सिंधु मन्दमति कामी * वेद विदूषक परधन स्वामी
विप्रद्रोह परद्रोह विसेषा * दम्भ कपट जियं धरें सुवेषा**

वे अवगुणों के समुद्र, मन्व-बुद्धि, कामी, देवों के निन्दक और पराये धन के स्वामी बन जाते हैं । वे विशेष करके ब्राह्मणों और देवताओं से द्वेष करने वाले, पाषण्ड और कपट हृदय में भरे हुए तथा ऊपर से अच्छा वेप बनाये हुए रहते हैं ।

दोहा-ऐसे अधम मनुज खल, कृतजुत त्रेताँ नाहिं ।

द्वापर कष्टक वृन्द बहु, होइहहिं कलिजुग माहिं ॥६२॥

ऐसे नीच और छोटे मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते । द्वापर में जोड़े-से होंगे और कलियुग में झुण्ड के झुण्ड होंगे ।

**परहित सरिस धर्म नाहिं भाई * पर पीड़ा सम नाहिं अधमाई
निर्नय सकल पुरान वेद कर * कहेउँ तात जानाहिं कोविद नर**

हे भाई ! ब्रह्मरों के उपकार के बराबर धर्म नहीं है, ब्रह्मरों को कट देने के बराबर

सब भाई अनुकूल रहकर सेवा करते हैं। उनका श्रीरामजी के चरणों में बहुत प्रेम है। वे प्रभु के मुख-कमल की ओर निहारते हैं कि कृपालु कभी हमको कुछ आज्ञा दें।

राम करहिं भ्रातन्ह पर प्रीती * नाना भाँति सिखावहिं नीती
हरषित रहहिं नगर के लोग * करहिं सकल सुर दुर्लभ भोगा

श्रीरामजी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और अनेक प्रकार से नीति सिखाते हैं। नगर के लोग प्रसन्न होकर रहते हैं और देव-दुर्लभ सुख भोगते हैं।

अहनिसि विधिहि मनावतरहहीं * श्रारघुवीर चरन रति चहहीं
दुइ सुत सुन्दर सीताँ जाए * लव कुश वेद पुरान गाए

वे दिन-रात विधाता को मनाते रहते हैं और श्रीरामजी के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीताजी के दो सुन्दर पुत्र 'लव' और 'कुश' उत्पन्न हुए, जिनकी कीर्ति वेद-पुराणों ने गाई है।

दोउ विजयी विनयी गुनमन्दिर * हरि प्रतिबिम्ब मनहुँ अति सुन्दर
दुइ दुइ सुत सब भ्रातन्ह केरे * भए रूप गुन शील घनेरे

वे दोनों ही विजयी, विनम्र व गुणों के स्थान हैं और बहुत सुन्दर हैं, मानो श्रीहरि के ही पुत्र हों। दो-दो पुत्र सब भाइयों के भी हुए, वे सब हृषवान और बड़े शीलवान हुए।

दोहा—ग्यान गिरा गोतीत अज, माया मन गुन पार।

सोइ सच्चिदानन्द घन, प्रभु कर चरित उदार ॥४७॥

जो ज्ञान, वाणी और इन्द्रियों से परे हैं, और मन, माया व गुणों से भी परे हैं, वे ही सच्चिदानन्द उदार प्रभु मनुष्य-लीला कर रहे हैं।

प्रतिकाल सरजू करि मज्जन * बैठेहिं सभाँ सङ्ग द्विज सज्जन
वेद पुरान वसिष्ठ बखानहिं * सुनहिं राम जद्यपि सब जानहिं

श्रीरामजी प्रातःकाल सरयू में स्नान करके सभा में ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ बैठते हैं। वशिष्ठजी-वेद-पुराण की कथा कहते हैं और वे सुनते हैं, यद्यपि वे सब कुछ जानते हैं।

अनुजन्ह संजुत भोजन करहीं * देखि सकल जननी सुख भरहीं
भरत शत्रुहन दोनउ भाई * सहित पवनसुत उपवन जाई

वे भाइयों के साथ भोजन करते हैं, तब उन्हें देखकर सब मातायें सुखमें भर जाती हैं। भरत-शत्रुघ्न दोनों भाई हनुमानजी के साथ बगीचे में जाकर—

बूझहिं बैठि राम गुनगाहा * कह हनुमान सुमति अगवाहा
सुनतविमलगुनअतिसुख पावहीं * वहुरि वहुरि करि विनय कहावहीं

यहाँ बैठकर श्रीरामजी के गुणों की कथा पूछते हैं और हनुमानजी अपनी सुन्दर बुद्धि को उत्तममें गोता लगाकर कहते हैं। वे उन निर्मल गुणों को सुनते हुए बहुत सुख पाते और बारम्बार विनती करके कहलवाते हैं।

सनकावि मुनि यद्यपि ब्रह्मज्ञानी हैं, परन्तु वे भी नारदजी की सराहना करते हैं और गुण-गान सुनकर समाधि को भुला देते हैं और उसे आवर से सुनते हैं, वे अष्ट अधिकारी हैं।

दोहा—जीवनमुक्त ब्रह्म पर, चरित सुनहिं तजि ध्यान।

जे हरिकथा न करहिं रत, तिन्हके हिय पापान ॥६४॥

जीवनमुक्त और ब्रह्मपरायण सनकावि जैसे मुनि भी ब्रह्म-ध्यान छोड़कर धीरामजीके चरित्र सुनते हैं। ऐसी श्रीहरि-कथा में जो प्रीति नहीं करते, उनके हृदय परस्पर के तुल्य हैं।

एक बार रघुनाथ बोलाए * गुरु द्विज पुरवासी सब आए

बैठे गुरु द्विज अरु मुनि सज्जन * बोले वचन भगत भय भञ्जन

एक बार धीरघुनाथजी ने गुरु, ब्राह्मण व नगरवासियों को बुलाया, वे सब सभा में आये। जब गुरु, ब्राह्मण, मुनि व सज्जन सब बैठ गये, तब भक्तों के भय को दूर करने वाले प्रभु-बोले-

सुनहु सकल पुरजन मम वानी * कहउं न कछु ममता अरु आनी

नहिं अनीति नहिं कछु प्रभुताई * सुनहु करहु जो तुम्हहिं सोहाई

हे सब नगरवासियो! मेरी बात सुनो, मैं हृदय में कुछ ममता लाकर यह नहीं कहता, इसमें न अनीति है, न कुछ प्रभुता ही है। मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें जो अच्छा लगे, सो करना।

सोइ सेवक प्रियतम मम सोइ * मम अनुसासन मानै जोई

जौं अनीति कछु भाषौं भाई * तौ मोहि वरजहु भय विसराई

वही मेरा भक्त है और वही मेरा प्रिय है, जो मेरी आज्ञा माने। यदि मैं कुछ अनीति-पूर्ण बात कहूँ, तो-हे भाई! भय त्यागकर मुझे रोक देना।

बड़े भाग्य मानुष तन पावा * सुर दुर्लभ सब ग्रन्थहिं गावा

साधन धाम मोच्छ कर द्वारा * पाइ न जेहि परलोक संवारा

बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है, यह देवताओं को भी दुर्लभ है और सब ग्रन्थों ने भी ऐसा ही कहा है। यह साधन का धाम और मोक्ष का वरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने अपना परलोक नहीं सुधारा।

दोहा—सो परत्र दुख पावइ, सिर धुनि धुनि पछिताइ।

कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाइ ॥६५॥

वह परलोक में दुःख पाता है और काल, कर्म व ईश्वर को झूठा दोष लगाकर तिर धुन-धुनकर पछताता है।

एहि तनुकर फल विषय न भाई * स्वर्ग स्वल्प अन्तहु दुखदाई

नर तनु पाय विषम मन देहों * पलिट सुधा ते सठ विष लेहों

हे भाई! इस शरीर का फल विषय-भोग नहीं है। स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अन्त में दुःखदाई है। मनुष्य-शरीर पाकर जो विषयों में मन लगाते हैं वे मूर्ख अमृत के बबले बिप लेते हैं।

मणियों से जड़े हुए खम्भे हैं। मर्कत-मणियों से जड़ी हुई सोने की दीवालें-मानो ब्रह्माजी ने बनाई हैं। मन्दिर सुन्दर, लम्बे-चौड़े व मनोहर हैं। उनके आंगन स्फटिक मणियों के बने हैं और द्वार-द्वार पर सोने की क़िवाड़ हैं, जिनमें बहुत से हीरे जड़े हैं।

दोहा—चार चित्रशाला गृह, गृह प्रति लिखे बनाइ।

रामचरित जे निरखि मुनि, ते मन लेहिं चुराइ ॥४८॥

मनोहर चित्र शालायें घर, घर में हैं, जिनमें श्रीरामजी के चरित्र बड़ी सुन्दरता से अंकित हैं, जो देखते ही मुनियों के मन को हर लेते हैं।

सुमन बाटिका सबहिं लगाई * विविध भाँति कर जतन बनाई
लता ललित बहु जाति सुहाई * फूलहिं सदा बसन्त की नाई

सभी ने फूलों की बगीचियां अनेक प्रकार से यत्न करके बनाई हैं, जिनमें बहुत भाँति की सुन्दर, सुहावनी वेलें सदैव बसन्त ऋतु की भाँति फूलती हैं।

गुञ्जत मधुकर सुखर मनोहर * मास्त त्रिविध सदा बहु सुन्दर
नाना खग बालकन्हि जिआए * बोलत मधुर उड़ात सुहाए

जिन पर नौरे मधुर गुंजार करते हैं, तीनों प्रकार की सुन्दर वायु सदैव बहती है। अनेक प्रकार के पक्षी जो बालकों ने पाले हैं, वे मीठी बोली बोलते और उड़ते हुए सुन्दर लगते हैं।

मोर हंस सारस पारावत * भवननि पर सोभा अति पावत
जहँ तहँ देखहिं निज परछाहीं * बहु विधि कूजहिं नृत्य कराहीं

मोर, हंस, सारस और कबूतर महलों पर बंठे हुए शोभा पाते हैं। जहाँ-तहाँ अपनी परछाहीं देखकर बहुत-सी बोली बोलते और नाचते हैं।

सुक सारिका पढ़ावहिं बालक * कहहु राम रघुपति जन पालक
राज दुआर सकल विधि चारू * बीथीं चौहट रुचिर बजारू

बालक-तोता और मैना को पढ़ाते हैं कि कहो—राम ! रघुनाथ, भक्त-जन पालक ! राज-द्वार सभी प्रकार से सुन्दर हैं। गलियाँ, चौराहे और बाजार सब सुन्दर हैं।

छन्द—बाजार रुचिर बनइ वरन्त वस्तु बिनु गथ पाइए ।

जहँ भूप रमानिवास तहँ की सम्पदा किमि गाइए ॥

वैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहुँ कुवेर ते ।

सब सुखी सब सच्चरित सुन्दर नारि नर सिसु जरठ ते ॥

बाजार की सुन्दरता कही नहीं जाती, यहाँ बिना मोल किये वस्तुएँ मिलती हैं, जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हों, यहाँ की सम्पत्ति कैसे कही जा सकती है? अनेक बजाज, सराफ आदि बणिक ऐसे बंठे हैं, मानो कुवेर ही हों। स्त्री, पुरुष, बालक, बूढ़े—सदाचारी, सुखी व सुन्दर हैं।

दोहा—उत्तर दिसि सरजू बह, निर्मल जल गम्भीर ।

संसार में पुण्य एक ही है, दूसरा नहीं। वह यह है कि मन, कर्म और वचनों से ब्राह्मणों की पूजा करे। उन पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं, जो कपट त्याग कर ब्राह्मणों के सेवक हैं।

दोहा—औरउ एक गुप्त मत, सर्वहि कहउँ कर जोरि।

शङ्कर भजन विना नर, भगति न पावइ भोरि ॥६७॥

और भी एक गुप्त मत है, उसे हाथ जोड़कर आप सबको सुनाता है कि शिवजी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता।

**कहहु भगति पथ कवन प्रयासा * जोग न मख जप तप उपवासा
सरल सुभाव न मन कुटिलाई * जथा लाभ सन्तोष सदाई**

कहिपे, भक्ति-मार्ग में कौनसा परिश्रम है? इसमें न योग है, न यज्ञ है, न जप है, न तप है और न व्रत है। सरल स्वभाव रखे, मन में कुटिलता न रखे और न कुछ मिल जाय, उसी में सदा सन्तोष रखे।

**मोर दास कहाइ नर आसा * करइ तौ कहहु कहा विस्वासा
बहुत कहउँ का कथा बढाई * एहि आचरन वस्य में भाई**

जो मनुष्य मेरा भक्त होकर—दूसरों को आशा करे, तो फिर उसका विश्वास ही क्या हुआ? अधिक बात बढ़ाकर क्या कहे? हे भाइयो! मैं तो उसी आचरण के वश में हूँ।

**बैर न विग्रह आस न त्रासा * सुखमय ताहि सदा सब आसा
अनारम्भ अनिकेत अमानी * अनघ अरोप दच्छ विग्यानी**

किसी का किसी से बैर, झगड़ा, आशा डर नहीं है, उसके लिए सदा सब विचारों सुखदाई हैं। जो कोई (फल की इच्छा से) काम नहीं करता, जिसके डर, मान व क्रोध नहीं है, जो चतुर और ज्ञानवान है।

**प्रीति सदा सज्जन संसर्गा * तृन सम विषय स्वर्ग अपवर्गा
भगति पच्छहठ नहि सठताई * दुष्ट तर्क सब दूरि भगाई**

जो सरसंग से सदा प्रीति रखता है जो सांसारिक सुख स्वर्ग और मोक्ष को भी तिनके के समान समझता है, जो भक्ति-पथ में हट करता है और मूर्खता नहीं करता, सब कृतकों को जिसने दूर भगा दिया है।

दोहा—भम गुन ग्राम नाम रत, गत भमता मव मोह।

ताकर सुख सोइ जानइ, परमानन्द सन्दोह ॥६८॥

जो मेरे गुण-समूह और नाम में रत है और जो भमता, मव और मोह से रहित है, उसके सुख को वही जानता है—जो परमानन्द में मग्न है।

**सुनत सुधा सम वचन राम के * गहे सवनि पद कृपाधाम के
जननि जनक गुर बन्धु हमारे * कृपानिधान प्राण ते**

अग्निमादिक सिद्धियाँ और सुव्र-सम्पत्ति पुरी में छा रही हैं ।

जहँ तहँ नर रघुपति गुन गावहिं * बैठ परस्पर इहइ सिखावहिं
भजहु प्रनत प्रतिपालक रामहिं * सोभा सील रूप गुन धामहिं

जहाँ-तहाँ मनुष्य बड़े दृष्ट औरघुनायजी के गुण गारहे हैं और परस्पर यहाँ सिखला रहे हैं कि शरणागत-रक्षक व शोभा, शोज, हन और गुणाँ के धाम श्रीरामजी का भजन करो ।

जलज विलोचन श्यामल गातहिं * पलक नयन इव सेवक त्रातहिं
धृत सर रुचिर चाप तूनीरहिं * सन्त कञ्ज वनरवि रनधीरहिं

कमल-नेत्र और श्याम शरीर वाले को भजो । नित्रों को पलकों के समान अपने भक्त की रक्षा करने वाले प्रभु को भजो ! सुन्दर धनुष-बाण और तर्कस धारण करने वाले, सन्त-रूपी कमल-वन के सूर्य रणधीर श्रीरामजी को भजो ।

काल कराल व्याल खगराजहिं * नमत राम अकाम समताजहिं
लाभ मोह मृग जूथ किरातहिं * मनसिजकरि हरिजनसुखदातहिं

कालरूपी भयंकर सर्प के लिए गहड़ के समान श्रीरामजी को सब कामना और ममता को त्याग कर नमस्कार करो । लोभ और मोहलुपी मृगों के समूह के लिए किरातरूप एवं कामदेव रूपी हाथों के लिए सिंह के समान भक्त-सुखदाता श्रीरामजी को भजो ।

संसय सोक निविड तम भानुहिं * दनुज गहन वन दहन कृसानुहिं
जनकसुता समेत रघुनीरहिं * कस न भजहु भंजन भव भीरहिं

सन्देह और दुःखलुपी अन्धकार के लिए सूर्य के समान और राक्षसों घने वन को नष्ट करने के लिए अग्नि के समान श्रीरघुनायजी का भजो ! जानहानों सहित श्रीरघुनायजी का जो भव-भय को दूर करने वाले हैं, भजन क्यों नहीं करते ?

बहु वासना मत्तक हिम रासहिं * सदा एक रस अज अविनासहिं
मुनि रंजन भंजन महि भारहिं * तुलसिदास के प्रभुहिं उदारहिं

अनेक प्रकार की चाहना-इसो मच्छरों के लिए तुषार की राशि के समान और सदा एक रस, अजन्मा, अविनाशी-श्रीरामजी का भजो ! मुनिजनों को आनन्द देने वाले और भूमि का भार उतारने वाले-तुलसीदास के उदार प्रभु श्रीरामजी का भजो !

दोहा—एहि विधि नगर नारि नर, करहिं राम गुनगान ।

सानुकूल सब पर रहहिं, सन्तत कृपानिधान ॥ ५२ ॥

इस प्रकार अयोध्यापुरी के स्त्री-पुरुष श्रीराम-गुण-गान करते रहते हैं और कृपानिधान श्रीरामजी सब पर दया-भाव रखते हैं ।

जब ते राम प्रताप खगेसा * उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा
पुनि प्रकाश रहेउ तिहुँ लोका * बहुतेहिं सुख बहुतन्ह मन सोका

(काकभुशुण्डिजी कहते हैं—) हे गहड़ ! जब ते श्रीरामजी के प्रतापइसो अति प्रबल

परमात्मा ब्रह्म नर रूपा * होइहि रघुकुल भूपन भूपा

जब मैं इसे लेना न चाहता था, तब ब्रह्माजी ने मुझसे कहा—हे पुत्र ! जागे तुमको इस कार्य से लाभ होगा । स्वयं परब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूयण राजा होंगे ।

दोहा—तब मैं हृदय विचारा, जोग जाय व्रत दान ।

जा कहूँ करिअ सो पैहउँ, धर्म न एहि सम आन ॥७०॥

उस समय मैंने अपने हृदय में सोचा कि जिसके निमित्त योग, पञ्च, जप, तप, व्रत, दान किये जाते हैं उसे मैं पाऊँगा । तब तो इसके बराबर और दूसरा धर्म नहीं है ।

जप तप नियम जोग निज धर्मा * श्रुति सम्भव नाना सुभ कर्मा
ग्यान दया सम तीरथ मज्जन * जहँ लगी धर्म कहत श्रुतिसज्जन

जप, तप, नियम, योग, व्रत, स्वधर्म, वेदों से उत्पन्न अनेकों शुभ-कर्म, ज्ञानदया संयम तीर्थ, स्नान आदि, जिन धर्मों को वेद और सज्जनों ने जहाँ तक कहा है ।

आगम निगम पुरान अनेका * पढ़े सुने कर फल प्रभु एका
तव पद पङ्कज प्रीति निरन्तर * सब साधन कर फल यह सुन्दर

अनेकों शास्त्र और वेद-पुराणों के पढ़ने तथा सुनने का-हे प्रभु ! यही एक फल है कि आपके चरणारविंदों में सदा प्रेम रहे और सम्पूर्ण साधनों का भी यही उत्तम फल है ।

छूटइ मल कि मलहि के धोएँ * घृतकि पाव कोइ चारिदिलोएँ
प्रेम भगति जल बिनु रघुराई * अभिअन्तर मलकवहुँ निजाई

यथा मेल के धोने पर मल छूटता है और पानी को मचने से क्या कोई धो प्राप्त कर सकता है ? हे धीरामजी ! प्रेमपूर्ण भक्तिरूपी जल के बिना हृदय का मल कभी नहीं जा सकता ।

सोइ सर्वग्य तग्य सोइ पण्डित * सोइ गुनगृह विग्यान अखण्डित
दच्छ सकल लच्छन जुत सोई * जाकें पद सरोज रति होई

वही सर्वज्ञ, वही तत्त्व-ज्ञानी, वही गुणवान और वही पूर्ण विज्ञानी है वही परम प्रबोध और वही सर्वगुण सम्पन्न है, जिनका आपके चरणकमलों में प्रेम हो ।

दोहा—नाथ एक वर मांगउँ, राम कृपा करि देहु ।

जन्म जन्म प्रभु कमल, कवहुँ घटै जनि नेहु ॥७१॥

हे नाथ ! मैं आपसे एक चरवान मांगता हूँ, तो-हे धीरामजी ! कृपा करके दोत्रिये । हे प्रभु ! आपके चरणकमलों में जन्म-जन्मान्तर मेरा स्नेह कभी कम न हो ।

अस कह मुनि वसिष्ठ गृह आये * कृपासिन्धु के मन अति भाये
हनुमान भरतादिक भ्राता * सङ्ग लिए सेवक सुखदाता

ऐसा कहकर वसिष्ठमुनि अपने घर आये । वे दयासिन्धु रामजी के मनको बहुत प्रिय-रहे, किन्तु सेवकों को सुख देने वाले धीरामजी ने हनुमान और मरत आदि प्राइयों को

रामकथा मुनिवर बहु वरनी * ग्यान जोनि पावक जिमि अरनी

हे भवानी ! जहाँ ज्ञानी मुनिवर अगस्त्यजी थे, सनकादिक मुनि वहाँ गये । श्रेष्ठ मुनि ने वहाँ बहुत-सो श्रीराम-कथायें वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में बैसे ही समर्थ हैं, जैसे अग्नि को उत्पन्न करने के लिए अरणों ।

दोहा—देखि राम मुनि आवत, हरषि दण्डवत कीन्ह ।

स्वागत पूँछि पीतपट, प्रभु बैठन कहँ दीन्ह ॥ ५४ ॥

सनकादिक मुनियों को आते देखकर धोरामजी ने प्रसन्न होकर दण्डवत की ओर कुशब पृष्ठकर प्रभु ने बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया ।

कीन्ह दण्डवत तीनिउँ भाई * सहित पवनसुत सुख अधिकाई
मुनि रघुपतिछविअतुलविलोकी * भए जगन मन सके न रौकी

फिर तीनों भाइयों ने हनुमानजी सहित दण्डवत की तो सब बहुत प्रसन्न हुए । धोरबु-नाथजी की अपार शोभा को देखकर मुनि उसी में मग्न होगये और वे मन को न रोकसके ।

श्यामल गात सरोरुह लोचन * सुन्दर मंदिर भवफन्द विमोचन
इकटक रहे निशेष न लावहिं * प्रभु कर जोरें सीस नवावहिं

वे श्याम शरीर, कमल-नेत्र, सुन्दरता के स्थान व संसार के बंधन के छुड़ाने वाले रूप को एकटक होकर देख रहे हैं पलक नहीं लगाते और प्रभु दोनों हाथ जोड़े मस्तक नवा रहे हैं ।

तिन्ह कै दसा देखि रघुवीरा * खवत नयन जल पुलक सरीरा
कर गहि प्रभु मुनिवर बैठारे * परम मनोहर वचन उचारे

धोरबुनाथजी ने उसकी यह दशा देखी कि नेत्रों से जल वह रहा है और शरीर पुलकित है । तब प्रभु ने हाथ पकड़ कर मुनियों को बैठाया और अत्यन्त मनोहर वचन बोले—

आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा * तुम्हरे दरस जाहिं अघ खीसा
बड़े भाग्य पायइ सतसंगा * विनहि प्रयास होहि भल भंगा

हे मुनिश्वरों ! मुनिये आज मैं धन्य हूँ । आपके दर्शनों से पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर सत्सङ्ग तो बड़े ही भाग्य से मिलता है । जिससे बिना परिश्रम ही संसार (जन्म-मरण) के चक्र नष्ट होजाते हैं ।

दोहा—सन्त संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पन्थ ।

कहाँहि सन्त कवि कोविद, श्रुति पुरान सदग्रन्थ ॥ ५५ ॥

'सत्संग' मोक्ष का, और 'कामी का संग' आवागमन का मार्ग है—ऐसा सन्त, कवि, पण्डित, वेद-पुराण और सदग्रन्थ कहते हैं ।

मुनिप्रभुवचन हरषिमुनि चारी * पुलकित तनु अस्तुति अनुसारी
जय भगवन्त अनन्त अनामय * अनघ अनेक एक कहनामय

प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि प्रसन्न होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे—

सुजस पुरान विदित निगमागम * गावत सुर मुनि सन्त समागम
कारुणीक व्यलीक मद खण्डन * सब विधि कुसल कोसलामण्डन
कलिमल मथन नाम ममताहन * तुलसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन-

आपका सुन्दर यश पुराणों और वेद-शास्त्रों में प्रसिद्ध है। देवता, मुनि और सन्तजन उसे गाते हैं। हे कद्वानिधान ! आप मिथ्या अस्मिमान को दूर करने वाले, सब प्रकार से कुशल और अयोध्या के भूषण हैं। आपका नाम कलियुग के पापों को मथने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु ! मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए।

दोहा—प्रेम सहित मुनि नारद, वरनि राम गुन ग्राम।

सोभा सिन्धु हृदयं धरि, गए जहाँ विधि धाम ॥ ७३ ॥

नारदजी प्रेम सहित श्रीरामचन्द्रजी के गुण समूह वर्णन करके और शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में रखकर जहाँ ब्रह्मलोक है—वहाँ चले गये।

गिरजा सुनहु विसद यह कथा * मैं सब कहा मोरि मति जया
राम चरित सत कोटि अपारा * श्रुति सारदा न वरनै पारा

हे पावती! सुनो, यह मनोहर राम-कथा, जैसी मेरी बुद्धि थी, वैसे मैंने पूरी कही। श्रीरामजी के सौ फरोड़ अपार चरित्र हैं, जिन्हें वेद और सरस्वतीजी भी कहकर पार नहीं पा सकते।

राम अनन्त अनन्त गुनानी * जन्म कर्म अनन्त नामानी
जल सीकर महि रजगनि जाहीं * रघुपति चरित न वरनि सिराहीं

श्रीरामजी अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, उनके जन्म-कर्म और नाम अनंत हैं। जल की घूर्ण और पृथ्वीकी रेणु चाहें गिनीजा सकती है, परंतु रामजीके चरित्र वर्णन करने से समाप्त नहीं होते।

विमल कथा हरि पद दायनी * भगति होइ सुनि अनपायनी
उमा कहिउँ सब कथा सुहाई * जो शुण्डि खगपतिहि सुनाई

यह पवित्र राम-कथा-हरि-पद देने वाली है, इसे सुनकर अविचल भक्ति प्राप्त होती है।

हे उमा ! मैंने यह सब सुन्दर कथा कही, जो काकमुगुण्डिजी ने गढ़ड़जी को सुनाई थी।

कछुक राम गुन कहेउँ बखानी * अब का कहौं सो कहहु भवानी
सुनि सुभ कथा ऊमा हरषानी * बोली अति विनीत मृदु वानी

मैंने कुछ राम-गुण बखान कर कहे हैं, हैं भवानी! अब क्या सुनाऊँ सो कहो? पावतीजी पवित्र राम-कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुईं और बहुत विनम्र एवं कोमल वाणी बोली-हे शिष्यजी ! मैं बारम्बार धन्य हूँ, जो संसार के भय को दूर करने वाले श्रीरामचन्द्रजी के गुण मैंने सुने।

दोहा—तुम्हारी कृपां कृपायतन, अब कृत कृत्य न मोह।

जानेउ राम प्रताप प्रभु, चिदानन्द सन्दोह ॥ १

भूप मौलिमनि मण्डन धरनी * देहि भगति संसृति सरि तरनी

आप आशा, भय और ईर्ष्या आदि से छुड़ाने वाले तथा विनय, विचार और वैराग्य फैलाने वाले हैं। हे राज-शिरोमणि ! हे पृथ्वी के भूषण ! संसार रूपी नदी के लिए नौका-रूप अपनी भक्ति दीजिये।

मुनि मन मानस हंस निरन्तर * चरन कमल वन्दित अज शंकर
रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक * काल करम सुभाउ गुन भच्छक
तारन तरन हरन सब दूषण * तुलसिदास प्रभु त्रिभुवन भूषण

हे मुनियों के मनरूपी मानसरोवर के हंस ! ब्रह्माजी और महादेवजी आपके चरणकमलों की वन्दना करते हैं। आप रघुवंश की ध्वजा, वेद की मर्यादा के रक्षक तथा काल, कर्म, स्वभाव और गुण के रक्षक हैं। आप तरन-तारन और सब दोषों को हरने वाले हैं। हे तीनों लोकों के भूषण ! आप ही तुलसीदास के प्रभु हैं।

दोहा-बार बार अस्तुति करि, प्रेम सहित सिर नाइ ।

ब्रह्म भवन सनकादि गे, अति अभीष्ट वर पाइ ॥ ५७ ॥

प्रेम सहित सिर नवाकर बारम्बार स्तुति करके और अत्यन्त मन चाहा वरदान पाकर सनकादिक मुनि ब्रह्मलोक को चले गये।

सनकादिक विधि लोक सिधाए * भ्रातन्ह रामचरन सिर नाए
पूछत प्रभुहि सकल सकुचाहीं * चितवहिं सब भारतसुत पाहीं

सनकादिक मुनि ब्रह्मलोक को चले गये, तब तीनों भाइयों ने श्रीरामजी के चरणों में सिर नवाये। वे प्रभुसे पूछते हुए सकुचाते हैं, इस कारण सब हनुमानजी की ओर देख रहे हैं। सुनी चहहिं प्रभु मुख कै बानी * जो सुनि होइ सकल भ्रम हानी
अन्तर्यामी प्रभु सब जाना * बूझत कहेहु काह हनुमाना
वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसके सुनने से सब भ्रम दूर होजाते हैं। अन्तर्यामी प्रभु ने सब बात जानली और बोले-कहो, हनुमानजी ! क्या बात है।

जोरि पानि तव कह हनुमन्ता * सुनहु दीनदयाल भगवन्ता
नाथ भरतकछु पूछन चहहीं * प्रश्न करत मन सकुचत अहहीं

तब हनुमानजी ने हाथ जोड़कर कहा-हे दीनदयालु भगवन् ! सुनिये, हे नाथ ! भरतजी कुछ पूछना चाहते हैं, परन्तु प्रश्न करते हुए सकुचाते हैं।

तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ * भरतहि मोहि कछु अन्तर काऊ
सुनिप्रभु वचन भरत गहे चरना * सुनहु नाथ प्रनतारित हरना

तब प्रभु बोले-हे हनुमान ! तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो कि भरत के और मेरे बीच में कभी कुछ अन्तर नहीं है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर भरतजी ने चरण पकड़ लिए और कहा-हे शरणागतों को सुख देने वाले नाथ ! सुनिये-

ग्यानवन्त कोटिन्ह महँ कोऊ * जीवन मुक्त सुकृत जग सोऊ

वेदों में कहा है कि करोड़ों विरक्तों में से पूर्ण ज्ञान कोई एक ही पाता है और करोड़ों ज्ञानवानों में कोई एक ही जीवनमुक्त होता है, जगत में कोई विरक्ता ही ऐसा होगा।

तिन्ह सहस्र महँ सब सुखखानी * दुर्लभ ब्रह्मलीन विग्यानी
धर्मशील विरक्त अरु ग्यानी * जीवनमुक्त ब्रह्मपर प्राणी

हजारों जीवनमुक्तों में सुख की खान, ब्रह्म में लीन ज्ञानी-पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्म-शील, विरक्त, ज्ञानी, जीवनमुक्त और ब्रह्मलीन—ये सब एक से एक बढ़कर हैं।

सब ते सो दुर्लभ सुरराया * राम भगति रत गत मद माया
सो हरिभगति काग किमि पाई * विश्वनाथ मोहि कहहु बुझाई

हे देवोत्तम! जो मद व माया से रहित हो राम-भक्ति में प्रीति करता है, वह इन सबसे दुर्लभ है। ऐसी हरि-भक्ति का कामगुण्डिजी ने कैसे पाई? हे विश्वनाथ! वह मुझे समझाकर कहिए।

दोहा—राम परायन ग्यान रत, गुनागार मति धीर।

नाथ कहहु केहि कारन, पायउ काग सरीर ॥ ७७ ॥

हे नाथ! श्रीरामजी के भक्त, ज्ञान के भण्डार, गुण-निधान, धीर-बुद्धि प्राणी ने कोए की वेह किस कारण से पाई-सो कहिए?

यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा * कहहु कृपाल काग कहँ पावा
तुम्ह केहि भाँति सुना मदनारी * कहहु मोहि अति कौतुक भारी

प्रभु श्रीरामजी का यह पवित्र सुन्दर चरित्र कोए ने कैसे पाया? हे कृपालु! यह मुझसे कहिए और हे कामदेव के शत्रु! आपने किस भाँति से सुना, सो कहिये? यह मुझे बड़ा सन्देह है।

गरुड़ महाग्यानी गुनरासी * हरि सेवक अति निकट निवासी
तेहि केहि हेतु काग सन जाई * सुनी कथा मुनि निकर बिहाई

गरुड़जी तो महाज्ञानी, गुणवान, हरि के सेवक और बहुत ही समीप रहने वाले हैं, फिर किस कारण से उन्होंने मुनियों के समाज को छोड़कर कोए से जाकर क्या सुनी।

कहहु कवन विधि भा सम्बादा * दोउ हरि भगत काग उरगादा
गौरि गिरा मुनि सरल सुहाई * बोले सिव सादर सुख पाई

कागमुगुण्डिजी और गरुड़ इन दोनों भक्तों का संवाद किस भाँति से हुआ सो कहिए? पार्वतीजी की सीधी और सुहावनी याणी को सुनकर शिवजी प्रसन्न होकर यादर सहित बोले—

धन्य सती पावन मति तोरी * रघुपति चरित प्रीति नहिं थोरी
सुनत सकल पुनीत इतिहासा * जो सुनि सकल लोक भ्रमनासा

उपजइ रामचरन विश्वासा * भवनिधि तरनर विनहिं प्रयासा

हे सती! तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि निर्मल है। श्रीरामजी के चरणों में तुम्हारी क...

जिनका चित्त कोमल होता है, व वीनों पर दया करते हैं व मन, वचन, कर्मसे भक्त होते हैं। वे सबको मान देते हैं और स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत ! वे मुझे प्राणके तुल्य प्रिय हैं।
विगत काम मम नाम परायण * शांति विरति विनीत मुदितायन
सीतलता सरलता मयत्री * द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री

जो कामनाओं से रहित होकर मेरा नाम जपते हैं, वे शान्ति, वैराग्य, नम्रता तथा प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता मित्रता और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम होता है, जो धर्म को उन्नत करने वाला है।

ए सब लच्छन वसहिं जासु उर * जानेहु तात सन्त सन्तत फुर
समदम नियमनीति नहिं डोलहिं * परुष वचन कवहुं नहिं बोलहिं

हे भाई ! ये सब लक्ष्मणजिनके हृदयमें बसते हैं, उनको सदैव सच्चा मत जानो। जो सम, दम, नियम और नीति से चलायमान नहीं होते हैं और मुख से कभी कड़वे वचन नहीं बोलते।

दोहा—निन्दा अस्तुति उभय सम, समता मम पद कञ्ज ।

ते सज्जन मम प्रानप्रिय, गुन मन्दिरसुक पुञ्ज ॥ ६० ॥

जिनको निन्दा और स्तुति दोनों समान हैं और चरणकमलों में जिनका प्रेम है, वे गुणों के मन्दिर और सुख के समूह सन्त मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं।

सुनहु असन्तन्ह केर सुभाऊ * भूलेहुं सङ्गति करिअ न काऊ
तिन्ह कर संग सदा सुखदाई * जिमि कपिलहि घालइ हरहाई

अथ अंतों का स्वभाव सुनो, उनकी संगति कभी भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। उनकी संगति सदा सुख देने वाली है, जैसे कपिला-गाय को हरिया-गाय संगतिसे नष्ट कर डालती है।

खलन्हहृदयँ अति ताप विसेषी * जरहिं सदा पर सम्पति देखी
जहँ कहँ निन्दा सुनिहिं पराई * हरषहिं मनहुं परी निधि पाई

दुष्ट मनुष्यों के मनमें बड़ी जलन होती है, वे सदैव पराई सम्पदा देखकर जला करते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरों की निन्दा सुनते हैं, वहाँ ऐसे प्रसन्न होते हैं, मानो पड़ी सम्पत्ति पाई हो।

काम क्रोध मद लोभ परायण * निर्दय कपटी कुटिल मलायन
वयरु अकारन सब काह सों * जो कर हित अनहित ताह सों

वे काम, क्रोध, मद व लोभ में लिप्त तथा निर्दयी, कपटी, खोटे और मन में मंते होते हैं। बिना कारण ही सबसे बर करतें हैं, जो मलाई करता है, वे उसके साथ भी बुराई करते हैं।

झूठइ लेना झूठन देना * झूठइ भोजन झूठ चर्वना
बोलहिं मधुर वचन जिमि मोरा * खाइ महा अहि हृदयँ कठोरा

उनका झूठा ही लेना, झूठा ही देना, खाना और झूठा ही चर्वना होता है। (ऊपरसेतो) वे ऐसे मोठे वचन बोलते हैं, जैसे मोर मोठे स्वर से कुहकता है, परन्तु उनका हृदय ऐसा कठोर

माया कृत गुण दोष अनेका * मोह मनोज आदि अविवेका
उस पर्वत पर वह पक्षी बसता है, उसका नाश करवान्त में नो नहीं होता । मायाकृत
अनेक गुण, दोष और मोह व काम आदि कुचिचार-

रहे व्यापि समस्त जग माहीं * तेहगिरि निकट कबहुँनहिं जाहीं
तहँवसिहरिहिंभजइ जिमिकागा * सो सुनु उमा सहित अनुरागा
जो संसार में फँस रहे हैं, वे उस पर्वत के निकट नो नहीं जाते । वहाँ रहकर व काम
जैसे श्रीहरि को भजता है, सो-हे उना प्रेम से उते सुनो ।

पीपर तरु तर ध्यान सो धरई * जाप जग्य पाकरि तर करई
आँव छाँह कर मानस पूजा * तजि हरिभजन काजु नहिं दूजा
वह पीपल के नीचे ध्यान लगाता है, पाकर के नीचे पत्र फरता है और आम को छाया में
मानसिक पूजा करता है । श्रीहरि-भजन को छोड़कर, उसको दूसरा काम नहीं ।

वर तर कह हरि कथा प्रसंगा * आवहिं सुनहिं अनेक विहंगा
रामचरित विचित्र विधि नाना * प्रेम सहित कर सादर गाना
वरगव के नीचे श्रीहरि की कथा का प्रसंग कहता है । अनेक पक्षी वहाँ जाते और कथा
सुनते हैं । श्रीराम-चरित के विविध साधनों को वह प्रेमपूर्वक आदर सहित गान करता है ।

सुनहिं सकल मतिविमल मराला * वसहिं निरन्तर जे तेहिं ताला
जब मैं जाइ सो कौतुक देखा * उर उपजा आनन्द विसेपा
निर्मल बुद्धि वाले सब हंस, जो सदैव उस तालाब पर बसते हैं-उसे सुनते हैं । जब वहाँ
पहुँचकर मैंने यह कौतुक देखा तो मेरे हृदय में विशेष आनन्द हुआ ।

दोहा-तब कछु काल मराल तनु, धरि तहँ कीन्ह निवास ।

सादर सुनि रघुपति गुन, पुनि आयउँ कैलास ॥ ८० ॥

तब मैंने हंस की देह धरकर कुछ समय तक वहाँ वास-किया और आबर पूर्वक धोरु-
नायजी के चरित्र सुनकर कंसाश को लोट आया ।

गिरिजा कहेउँ सो सब इतिहासा * मैं जेहिं समय गयउँ खग पासा
अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु * गयउ काग पहिं खगकुल केतू
हे पावँतो ! जिस समय मैं उस पक्षी के पास गया, तो सब कथा तो मैंने कही । अब
जिस कारण गरुड़जी काकमुशुण्डिजी के समीप गये, तो कथा सुनो-

जब रघुनाथ कीन्ह रन क्रीडा * समुझत चरित होति मोहिबोडा
इन्द्रजीत कर आपु बँधायो * तब नारद मुनि गरुड़ पठायो

जिस समय श्रीरामचन्द्रजीने पुत्र-लीला की, उस लीला का स्मरण करते हुए मुझे लाज लगती
है कि मेघनाद के द्वारा नाग-प्राय में जब आप बँध गये, तब नारद-मुनिने गरुड़ को भेजा ।

हे तात! सब पुराण तथा वेदों का यह निर्णय मैंने तुमसे कहा, संतजन इसको जानते हैं।
नर शरीर धरि जे पर पीरा * करहिं ते सर्वाहिं महाभव भीरा
करहिं मोहवस नर अघ नाना * स्वारथ रत परलोक नसाना

मनुष्य देह धारणकर जो दूसरों को क्लेश देते हैं, वे जगत में बड़े कष्ट भोगते हैं। जो मनुष्य स्वार्थ में लीन और मोह के वश होकर अनेक पाप करते हैं, उनका परलोक नष्ट होजाता है।
कालरूप तिन्ह कहँ मैं ज्ञाता * सुभ अरु असुभ कर्म फल दाता
अस निचार जे परम सयाने * भर्जाहिं मोहि संसृति दुख जाने

हे भाई! उन दुष्टों के लिए मैं कालरूप हूँ और उनके कर्मों के अनुसार भले-बुरे फलका देने वाला हूँ। ऐसा समझकर जो परम चतुर हैं, वे संसार को दुखमय समझकर मेरा भजन करते हैं।
त्यागहिं कर्म सुभासुभ दायक * भर्जाहिं मोहि सुरनर मुनिनायक
सन्त असन्तन्ह के गुन भाखे * तेन परहिं भव जिन्ह लखि राखे

शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर वे देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी 'मुझको' भजते हैं। यह सन्त-असन्तों के लक्षण मैंने कहे, इनको जिन्होंने समझ रक्खा है, वह संसाररूपी बन्धन में नहीं फँसते।

दोहा—सुनहु तात मायाकृत, गुन अरु दोष अनेक।

गुन यह भयउ न देखि अहिं, देखिअ सो अवित्रेक ॥६३॥

हे भाई! सुनो, माया के बनाये हुए गुण और दोष बहुत हैं। गुण इसी में है कि दोनों को ही न देखा जाय, उन्हें देखना ही अज्ञान है।

श्रीमुख वचन सुनत सब भाई * हरबे प्रेम न हृदयं समाई
करहिं विनय अति बारहिं बारा * हनुमान हियँ हरष अपारा

प्रभु के श्रीमुखसे यह वचन सुनते ही भरत आवि सब भाई प्रसन्न होगये, उनके हृदयते प्रेमनहीं समाता, ये बार २ बहुत ही विनती करते हैं, तब हनुमानजी के हृदय में भी अति हर्ष हुआ।

पुनि रघुपति निज मन्दिर गए * एहि विधि चरितकरत नित नए
बार बार नारद मुनि आवहिं * चरित पुनीत राम के गावहिं

फिर वहाँ से श्रीरघुनायजी अपने महल में गये। इस तरह से नित्य-नये चरित्र करते हैं। नारद मुनि बार-बार आते हैं और श्रीरामचन्द्रजी के पवित्र चरित्र गाते हैं।

नित नवचरित देखि मुनिजाही * ब्रह्मलोक सब कथा कहाही
सुनि विरंचिअतिसयसुखमानहिं * पुनि पुनि तात करहु गुनगानहिं

मुनि नित्य-नये चरित्र देख जाते हैं और सब कथा ब्रह्मलोक में जाकर कहते हैं। उसे सुनकर ब्रह्माजी बहुत सुख पाते हैं। हे तात! बारम्बार राम-गुण-गान करो।

सनकादिक नारदहिं सराहहिं * जद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आवहिं
सुनि गुनिगान समाधि विसारी * सादर सुनहिं परम अधिकारी

बस बारम्बार वर्णन करते हुए चले ।

तब खगपति विरञ्चिर्पहिङ्गयऊ * निज सन्देह सुनावत भयऊ
तब विरञ्चि रामहि सिरु नावा * समुञ्जि प्रताप प्रेम अति छावा

तब गरुड़जी ब्रह्माजी के पास गये और अपना संदेह उन्हें सुनाया । उसे सुन ब्रह्माजीने श्रीरामजी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके हृदय में प्रेम छा गया ।

मन महुँ करइ बिचार विधाता * माया वश कवि कोविद ग्याता
हरिमाया कर अमित प्रभावा * विपुल वार जेहि मोहि नचावा

ब्रह्माजी मन में विचार करने लगे कि कवि, पंडित और ज्ञानोत्सव हो माया के आधीन हैं । श्रीहरि की माया का बड़ा भारी प्रभाव है, जिसने मुझे भी अनेकों बार चपकर में डाला है ।

अग जगमय जग मम उपराजा * नहिं आचरज मोह खगराजा
सुनि बोले विधि गिरा सुहाई * जान महेस राम प्रभुताई

यह चराचर जगत मेरा ही रचा हुआ है । मैं ही जब माया मोहित हो जाता हूँ तो पक्षिराज को मोह होना कोई आश्चर्य नहीं है । तब ब्रह्माजी सुन्दर वाणी बोले—श्रीरामजी को प्रभुता को तो महादेवजी ही जानते हैं ।

वैनतेय शंकर पहिं जाहू * तात अनत पूछत जनि काहू
तहँ होइहि सब संसय हानी * चलेउ विहंग सुनत विधि वानी

हे गरुड़जी ! तुम शंकरजी के पास जाओ । हे तात ! और कहीं किसी से मत पूछना । वहाँ तुम्हारा सन्देह दूर होगा । ब्रह्माजी की वाणी सुनते ही गरुड़जी त्रियजी के पास चले ।

दोहा—परमातुर विहंगपति, आयउ तब मो पास ।

जात रहेउ कुवेर गृह, रहिहुँ उमा कैलास ॥ ८३ ॥

तब गरुड़जी बहुत आतुर होकर मेरे पास आये, मैं उस समय कुवेर के घर जा रहा था । हे पार्वती ! तब तुम कैलाश पर ही थीं ।

तेहि मम पद सादर सिर नावा * पुनि आपुन सन्देह सुनावा
सुनि ताकिर विनती मृदु वानी * प्रेम सहित मैं कहेउ भवानी

गरुड़जी ने आवर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर अपना सन्देह सुनाया । गरुड़जी की विनम्र और मधुर वाणी सुनकर, हे भवानी ! मैंने प्रेम सहित यह कहा—

मिले गरुड़ मारग महँ मोही * कवन भांति समुझावौ तोही
तबहिं होइ सब संसय भंगा * जब बहु काल करिअ सतसंगा

हे गरुड़ ! तुम मुझे मानें मैं मिले हो अतः मैं तुम्हें किस तरह समझाऊँ ? तमो तुम्हारा संशय दूर होगा, जब बहुत समय तक सतसंग किया जाय ।

सुनिअ तहाँ हरि कया सुहाई * नाना भांति मुनिन्ह जो

ताहि कवहुँ भल कहइ न कोई * गुञ्जा ग्रहइ परसि मनि खोई
आकर चारि लच्छ चौरासी * जोनि भ्रमत यह जिव अविनासी

उसे कोई भी भला नहीं कहता, जो पारस-मणि को त्याग कर बदले में घुँघची ले लेता है। अविनाशी जीव चार खानों और चौरासी-लाख योनियों में घूमता है।

फिरत सदा माया कर प्रेरा * काल कर्म सुभाव गुन घेरा
कवहुँक करि करुना नर देही * देत ईस बिनु हेतु सनेही

और सदा माया-वश, काल, स्वभाव व गुणों से घिरा हुआ घूमा करता है। कभी कृपा करके, बिना ही हेतु स्नेह करने वाला परमात्मा उसे मनुष्य-देह दे देता है।

नर तनु भव बारिधि कहुँ बेरो * सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो
करनधार सद्गुन दृढ़ नावा * दुर्लभ साज सुलभ करि पावा

इस संसार सागर में मनुष्य-शरीर जहाज के तुल्य है और मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस दृढ़ नाव का केवट है। इस प्रकार यह जीव दुर्लभ साधन सहज ही पाजाता है।

दोहा—जो न तरै भवसागर, नर समाज अस पाइ।

सो कृत निदक मन्दमति, आत्माहन गति जाइ ॥६६॥

ऐसे साधन को पाकर भी जो मनुष्य इस भवसागर से पार नहीं जाता, वह मन्द-बुद्धि, कृतघ्न, आत्म हत्या करने वाले की गतिको पाता है।

जो परलोक इहाँ सुख चहहू * सुनि मम वचन हृदय दृढ़ रहहू
सुलभ सुखद मारग यह भाई * भगति मोरि पुरान श्रुति गाई

यदि परलोक व इसलोक में सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर हृदय में दृढ़ता से रक्खो, हे भाइयो! पुराण और वेदों में मेरी भक्ति को सहज और सुखदायक मार्ग कहा गया है।

ग्यान अगम प्रत्यहू अनेका * साधन कठिन न मन कहुँ टेका
करत कष्ट बहु पावइ कोऊ * भगतिहीन मोहि प्रिय नहि सोऊ

ज्ञान अगम है, उसकी प्रीति से अनेक विघ्न हैं। उनका साधन भी कठिन है, क्योंकि उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। यदि बहुत कष्ट उठाकर कोई उसे पा भी लेता है, तो बिना भक्ति के वह भी मुझे प्रिय नहीं लगता।

भगति सुतन्त्र सकल सुखखानी * बिनु सत्सङ्ग न पावहि प्राणी
पुन्य पुंज बिनु मिलहि न सन्ता * सत्संगति संसृति कर अन्ता

भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परन्तु बिना सत्संग के प्राणी उसे पा नहीं सकते। और संतजन बहुत से पुण्यों के बिना नहीं मिलते। सत्संग ही आवागमन का अन्त करता है।

पुन्य एक जग महुँ नहि दूजा * मन क्रम वचन विप्रपद पूजा
सानुकूल तेहि पर सुनि देवा * जो तजि कपट करइ द्विज सेवा

पावती! प्रभु की माया बड़ी प्रबल है। ऐसा ज्ञानवान कौन है, जिसे यह मोहित नहीं करती ?
दोहा—ग्यानी भगत सिरोमनि, त्रिभुवनपति कर जान।

ताहि मोह माया नर; पावैर करहिं गुमान ॥८५॥

जो ज्ञानी भक्तों में श्रेष्ठ हैं और त्रिलोकीनाथ के वाहन हैं, उन गरुड़जी को भी माया ने मोह लिया। तब भी नीच मनुष्य अभिमान करते हैं।

☉ मासपारायण—अट्ठाईसवाँ विश्राम ☉

दोहा—सिव विरञ्चि कहूँ मोहइ, को है वापुरो आन।

अस जियँ जानि भजहिं मुनि, मायापति भगवान ॥८६॥

जब माया शिवजी और ब्रह्माजी को भी मोहित कर देती है तब भला और कोई बच्चा किस गिनती में है ? ऐसा अपने जी में समझकर मुनि माया के स्वामी का भजन करते हैं।

गयउ गरुड़ जहँ वसइ भुसुण्डा * मति अकुण्ठ हरिभगति अखण्डा
देखि सैल प्रसन्न मन भयऊ * माया मोह सोच सब गयऊ

जहाँ निर्वोद्य बुद्धि तथा पूर्ण-भक्त काकमुशुण्डिजी रहते थे, वहाँ गरुड़जी गये, उस पर्वत को देखकर गरुड़जी का चित्त प्रसन्न हो गया और माया-मोहसे उत्पन्न हुआ सब दुःख दूर हो गया।

करि तड़ाग मज्जन जलपाना * वट तर गयउ हृदयँ हरपाना
वृद्ध वृद्ध विहङ्ग तहँ आए * सुनै राम के चरित सुहाए

तालाब में स्नान और जलपान करके मन में प्रसन्न हो वे वट-वृक्ष के नीचे गये, बड़े-पूज्य पक्षी वहाँ धोरामजी के सुहावने चरित्रों को सुनने के लिए आये थे।

कथा आरम्भ करै सोइ चाहा * तेही समय गयउ खगनाहा
आवत देखि सकल खगराजा * हरपेउ वायस सहित समाजा

वे कथा आरम्भ करना ही चाहते थे कि उसी समय गरुड़जी जा पहुँचे ।। गरुड़जी को देखकर काकमुशुण्डिजी समाज समेत प्रसन्न हुए।

अति आदर खगपति कर कीन्हा * स्वागत पूछि सुआसन दीन्हा
करि पूजा समेत अनुरागा * मधुर वचन बोलेउ तब कागा

उन्होंने गरुड़जी का बहुत आदर किया और कुशल पूछकर उत्तम आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकमुशुण्डिजी मधुर वचन बोले—

दोहा—नाथ कृतारथ भयउं मैं, तव दर्शन खगराज।

आयसु देहु सो करौं अब, प्रभु आयहु केहि काज ॥८७॥

हे नाथ, पक्षीराज ! आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ, अब आप जो वाता दें—मैं यही कहूँ । हे प्रभो ! आप किस कार्य के निमित्त आये हैं ?

श्रीरामजी के अमृत-तुल्य वचन सुनते ही सबने कृपानिधान के चरण पकड़ लिये और कहा—हे दयानिधान! आप ही हमारे माता-पिता, गुरु व बन्धु हैं तथा प्राणों से अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी * सब विधि तुम्ह प्रनतारित हारी अस सिख तुम्ह बिनु देइ न कोऊ * मातु पिता स्वारथ रत ओऊ हे श्रीरामजी! हमारे शरीर, धन, घर और सब प्रकार से हित करने वाले आप ही हैं। आप शरणागतों के दुःख हरने वाले हैं, आपके सिवाय हमको ऐसी सीख कोई नहीं दे सकता। माता-पिता भी स्वार्थी हैं।

हेतु रहित जग जुग उपकारी * तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी स्वारथ भीत सकल जग माहीं * सपनेहुँ प्रभु परमारथ नाहीं हे असुरों के शत्रु! आप और आपके भक्त बिना प्रयोजन के ही संसार का उपकार करते हैं। जगत में भी सभी स्वार्थ के मित्र हैं, हे प्रभु! परमार्थ तो स्वप्न में भी नहीं हैं।

सबके वचन प्रेम रस साने * सुनि रघुनाथ हृदय हरषाने निज निज गृह गए आयसु पाई * बरनत प्रभु बतकही सुहाई सबके प्रेम-रस में भरे वचन सुनकर श्रीरघुनाथजी हर्षित हुए। सब आज्ञा पाकर प्रभु के सुहावने उपदेश वर्णन करते हुए अपने-अपने घरों को गये।

दोहा—उमा अवधवासी नर, नारि कृतारण रूप।

ब्रह्म सच्चिदानन्द धन, रघुनाथक जहँ भूप ॥६८॥

हे उमा! वहाँ सब अयोध्या-वासी स्त्री-पुरुष पुण्यरूप हैं, जहाँ स्वयं परब्रह्म सच्चिदानन्दधन श्रीरघुनाथजी राजा हैं,।

एक वार वसिष्ठ मुनि आए * जहाँ राम सुखधाम सुहाए अति आदर रघुनाथक कीन्हा * पद पखारि पदोदक लीन्हा

एक दिन जहाँ सुख के धाम श्रीरामचन्द्रजी थे, वहाँ वसिष्ठ-मुनि आये। श्रीरघुनाथजी ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर चरणामृत लिया।

राम सुनहुँ मुनि कह कर जोरी * कृपासिन्धु विनती कछु भोरी देखि देखि आचरण तुम्हारा * होत मोह मम हृदय अपारा तब मुनि हाथ जोड़कर बोले—हे कृपासिन्धु श्रीरामजी! मेरी कुछ विनय सुनिये। आपके आचरण देख-देखकर मेरे मन में अपार मोह होता है।

महिमा अमित वेद नहिं जाना * मैं केहि भाँति कहउँ भगवाना उपरोहित्य कर्म अति मन्दा * वेद पुरान स्मृति कर निन्दा

हे भगवन्! आपकी महिमा अपार है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकारसे उसे कह सकता हूँ? पुरोहित-कर्म बहुत ही नीच है वेद-पुराण और स्मृतियों ने भी इसकी निन्दा की है।

जब न लेउँ तब विधि कर मोही * कहा लाभ आगे सुत तोही

वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना * चित्रकूट जिमि बसे भगवाना

धोरामजी का वन-गमन, फेष्ट को प्रीति गंगाजो से पार उतर कर प्रयाग में निवास, वाल्मीकिजी से प्रभु का मिलाप और जैसे भगवान-चित्रकूट में बसे, वह सब कहा ।

सचिवागमन नगर नृप मरवा * भरतागमन प्रेम बहु वरना
करि नृप क्रिया सङ्ग पुरवासी * भरत गएँ जहँ प्रभु सुखरासी

मंती का पुरी में लौटना, राजा का मरण, भरतजी का आना और उनका अत्यन्त स्नेह वर्णन किया, फिर राजा की क्रिया करके नगरवासियों के साथ भरतजी जहाँ सुखनिधान प्रभु थे, पहुँच गये ।

पुनि रघुपति बहु विधि समझाए * लै पादुका अवधपुर आए
भरत रहन सुरपतिसुत करनी * प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि वरनी

फिर रामजी ने उनको बहुत भाँति से समझाया, जिससे वे पड़ाऊँ लेकर अपोष्पापुरी लौट आये । फिर भरतजी के निवास की विधि, इन्द्र-पुत्र जयन्तकी नीच करनी और अत्रि-भेंटका हास्य कहा ।

दोहा—कहि विराध बध जेहि विधि, देह तजी सरभंग ।

वरनि सुतीछन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त सतसंग ॥६०॥

विराध का बध और जैसे शरभङ्ग ने वेह छोड़ी थी—वह क्या कहो, फिर सुतीक्ष्ण का प्रेम तथा प्रभु और अगस्त्य का सत्संग वर्णन किया ।

कहि दण्डक वन पावनताई * गोध मयत्री पुनि तेहि गाई
पुनि प्रभु पंचवटी कृत वासा * भञ्जो सकल मुनिन्ह की वासा

वण्डक-वन का पवित्र करना कहकर, गोधराज की मित्रता कहो फिर प्रभु ने पंचवटी में वास किया और सब मुनियों के मय को बुर किया ।

पुनि लछिमन उपदेश अनूपा * सूपनखा जिमि कोन्हि फुरूपा
खरदूषन बध बहुरि बखाना * जिमि सब मरभु दसानन जाना

फिर जैसे लक्ष्मणजी को अनुपम उपदेश किया और सूपनखा को फुरुप किया, यह सब कहा । फिर खरदूषण का बध और जिस प्रकार रावण ने समाचार जाना, यह सब समझाकर कहा ।

दसकन्धर मारीच बतकहो * जेहि विधि भई सो सब तेहिकहो
पुनि माया सीता कर हरना * श्रो रघुवीर विरह कछु वरना

फिर जिस प्रकार रावण व मारीच में बात-चीत हुई, सो सब उन्होंने कहो । तदनन्तर माया की सीता का हरण और धोरधुनावजी के विरह का कुछ हास्य वर्णन किया ।

पुनि प्रभुगोधक्रियाजिमिकीन्हो * बधि कबंध सवरिहि गति दोन्हो
बहुरि विरह बरनत रघुवीरा * जेहि विधि गएँ सरोवर तोरा

फिर जैसे जटायु की क्रिया प्रभु ने की और कबन्ध का बध करके सवरो की पतिव्रता तथा धोराम विरह का कुछ कहते हुए जिस तरह से पम्पा सरोवर के किनारे गये, सो सब कहा ।

पुनि कृपालु पुर बाहेर गए * गज रथ तुरंग मंगवात भए
देखि कृपा करि सकल सराहे * दिए उचित जिन्ह जिन्ह तेइ चाहे

फिर कृपालु श्रीरामजी पुर के बाहर गये, वहाँ पहुँचकर हाथी, रथ, घोड़े मंगवाये। उन्हें देखा
वया करके प्रभु ने सबकी बड़ाई की, फिर उचित रीति से जिसने जो चाहा, उसे वही दिया।

हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई * गए जहाँ सीतल अँवराई
भरत दीन्ह निज बसन उसाई * बैठे प्रभु सेवहिं सब भाई

संसार के संपूर्ण श्रमको हरने वाले प्रभु श्रम पाकर वहाँ गये, जहाँ शीतल अँवराई थी। भरत
जी ने वहाँ अपना वस्त्र बिठाविया, प्रभु उस पर बैठ गये, तब सब भाई उनकी सेवा करने लगे।

मारुतसुत तब मारुत करई * पुलक गात लोचन जल भरई
हनूमान सम नहिं बड़भागी * नहिं कोउ राम चरन अनुरागी

तब हनुमानजी पुलकित देह से आँखों में जल भरकर हवा करने लगे। हनुमानजी के
घरावर न तो कोई बड़भागी है और श्रीरामजी के चरणों का प्रेमी ही है। (शिवजी कहते
हैं-) हे पार्वती ! जिनकी प्रीति और सेवा वारम्बार प्रभु ने अपने मुख से सराही है।

दोहा—तेहिं अवसर मुनि नारद, आए करतल बीन।

गावन लागे राम कल, कीरति सदा नवनीत ॥७२॥

उस समय वीणा हाथ में लिए हुए नारद मुनि वहाँ आये और वे श्रीरामजी की सुन्दर
तथा नित्य-नवीन सुकीर्ति गाने लगे—

मामवलोकय पङ्कज लोचन * कृपा विलोकनि सोच विमोचन
नील तामरस श्याम काम अरि * हृदय कंज मकरन्द मधुप हरि

हे कृपादृष्टि से शोक को छुड़ाने वाले कमल-नयन ! मेरी ओर निहारिये। हे श्रीहरि !
आप नील-कमल के समान श्याम-वर्ण तथा कामदेव के शत्रु और शिवजी के हृदय-कमल के
मकरन्द को पान करने वाले 'स्रमर' हैं।

जातुधान बरुथ बल भंजन * मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन
भूसुर ससि नव वृन्द बलाहक * असरन सरन दीनजन गाहक

आप राक्षस-सेना के बल का नाश करने वाले, मुनि और सज्जनों को आनन्द देने वाले तथा
पापों को नष्ट करने वाले, ब्राह्मण-रूपी चैती के लिए आप मेघ समूह हैं और अशरण को
शरण देने वाले तथा दीनजनों को ग्रहण करने वाले हैं।

भुजबलविपुल भारमहि खण्डित * खरदूषण विराध वध पंडित
रावनारि सुखरूप भूपवर * जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर

आपके बाहु-बल से पृथ्वी का भार उतारने वाले, खर-दूषण और विशिरा को मारने में
प्रवीण, रावण के शत्रु, सुखरूप, राजाओं में अष्ट तथा दशरथ-कुलरूपी कुमुदिनी के चन्द्रमा
'श्रीरामजी' आपकी जय हो।

राक्षस और वानरों को लड़ाई विविध प्रकार से वर्णन की। फिर कुम्भकण्ठ और मेघ-
नाभ का बल पराक्रम और संहार वर्णन किया।

निसिचर निकर मरन विधि नाना * रघुपति रावन समर बखाना

रावन बध मन्दोदरि सोका * राज विभोषन देव असोका

फिर अनेक राक्षसों के समूह का मरण और राम-रावण युद्ध वर्णन किया। रावण-बध,
मंवीवरी का शोक, विभोषण का राजतिलक और देवताओं का दुःखसे छूट जाना यह वर्णन किया।

सीता रघुपति मिलन बहोरी * सुरन्ह कोन्ह अस्तुति करजोरी

पुनि पुष्पक चढ़ि कपिन्ह समेता * अवध चले प्रभु कृपानिकेता

फिर सीता-रामजी का मिलन कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुतिकी ओर
फिर पुष्पक-विमान पर सीता सहित चढ़कर कृपा के घाम प्रभु अयोध्या की चले-यह कहा।

जेहि बिधि राम नगर निज आए * वायस विसद चरित सब गाए

कहेसि बहोरि राम अभिषेका * पुर वरनन नृपनीत अनेका

जिस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी अपने नगर में आये, वे सब चरित्र काकमुशुण्डिजी ने विस्तार
से कहे। फिर श्रीरामचन्द्रजी का राज्यभिषेक कहा, अयोध्यापुरी का वर्णन करके अनेक भाति
की राजनीति कही।

कथा समस्त भुशुण्डि बखानी * जो मैं तुम्ह सन कही भवानी

सुनि सब रामकथा खगनाहा * कहत वचन मन परम उछाहा

हे भवानी ! जो सब कथा काकमुशुण्डिजी ने गूढ़ से कही थी, वही मैंने तुमसे कही है।
गूढ़जी सम्पूर्ण राम-कथा सुनकर मन में बहुत प्रसन्न होकर बोले-

सो०-गयउ मोर सन्देह, सुनेउँ सकल रघुपति चरित।

भयउ रामपद नेह, तव प्रसाद वायस तिलक ॥ १ ॥

हे काकमुशुण्डिजी ! सम्पूर्ण श्रीरामचरित्र मैंने सुना, जिससे मेरा सन्देह जाता रहा।
आपकी कृपा से श्रीरामजी के चरणों में प्रेम हो गया।

मोहि भयउ अति मोह, प्रभु बन्धन रनमहुँ निरखि।

चिदानन्द सन्दोह, राम विकल कारन कवन ॥ २ ॥

रण-क्षेत्र में प्रभु को नाग-पाश में बंधा देखकर मुझे बहुत ही मोह हुआ था कि सच्चिदान-
न्द श्रीरामचन्द्रजी विकल हुए-इसका क्या कारण ?

देखि चरित अति नर अनुसारी * भयउ हृदय मम संसय भारी

सोइ भ्रम अब हितकरि मैं माना * कोन्ह अनुग्रह कृपानिधाना

अत्यंत ही साधारण मनुष्यों के-से चरित्र देख मेरे मनमें भारी संदेह हुआ था, उसी क्षणकी प्रभु
मैंने अपना हितकारो समझा है, क्योंकि इसी बहाने से रयानिधान प्रभुने मुझपर कृपा की है।

जो अति आतप व्याकुल होई * तर छाया सुख जानई सोई

हे कृपावान ! मैं आपको कृपा से कृत्य-कृत्य होगई । मेरा मोह जाता रहा और हे प्रभु ! सच्चिदानन्दघन श्रीरामजी का प्रताप मैंने जान लिया ।

दोहा-नाथ तवानन ससि स्रवत, कथा सुधा रघुवीर ।

श्रवन पुटिन्हि मन पान करि, नहिं अघात मति धीर ॥ ७५ ॥

हे नाथ ! हे धीर-बुद्धि ! आपका मुखरूपी चन्द्रमा राम-कथा रूपी अमृत टपकाता है । कर्णपुटी से उसे पान करके भी मेरा मन नहीं अघाता ।

रामचरित जे सुनत अघाहीं * रस विसेषि जाना तिन्ह नाहीं
जीवन मुक्त महामुनि जेऊ * हरि गुन सुनहिं निरन्तर तेऊ

श्रीरामजी का चरित्र सुनकर जो अघा जाते हैं, उन्होंने राम-कथा का विशेष रस जाना ही नहीं । जो जीवनमुक्त महामुनि हैं, वे ही सदैव मन लगाकर भगवान के गुण सुनते हैं ।

भवसागर चह पार जो जावा * रामकथा ता कहँ दृढ़ नावा
विषइन्ह कहँ पुनि हरि गुन ग्रामा * श्रवन सुखइ अरु मन अभिरामा

जो प्राणी भवसागर से पार जाना चाहे, उसके लिए राम-कथा दृढ़ नौका है । विषयों लोगों को भी यह राम-गुण समूह कानों को सुख देने वाला और मन को विश्राम देने वाला है ।

श्रवनवन्त अस को जग माहीं * जाहि न रघुपति चरित सोहाहीं
ते जड़ जीव निजात्मक घाती * जिन्हहिं न रघुपतिकथा सुहाती

ऐसे पान वाले कौन हैं, जिन्हें श्रीरघुनाथजी के चरित्र अच्छे नहीं लगते ? वे प्राणी मूर्ख हैं और अपनी आत्मा के घातक हैं, जिन्हें श्रीरघुनाथजी की कथा नहीं सुहाती है ।

रामचरित मानस तुम्ह गावा * सुनिव मैं नाथ अमित सुख पावा
तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई * कागभुशुण्डि गरुड प्रति गाई

आपने रामचरित-मानस का गान किया, उसे सुनकर, हे नाथ ! मैंने बहुत ही सुख पाया । यह जो आपने कहा कि यह मनोहर कथा कागभुशुण्डिजी ने गरुडजी से कही थी ।

दोहा-विगत ग्यान विग्यान दृढ़, रामचरन अति नेह ।

वायस तनु रघुपति भगति, मोहि परम सन्देह ॥ ७६ ॥

जो वैराग्य और ज्ञान-विज्ञान में दृढ़ तथा रामजी के चरणों में जिनका बड़ा स्नेह है, ऐसे कागभुशुण्डिजी का कोए का शरीर है और श्रीराम-भक्ति भी उन्हें प्राप्त है यह मुझे बड़ा संदेह है ।

नर सहस्र महँ सुनहुँ पुरारी * कोउ एक होइ धर्मव्रत धारी
धर्मशील कोटिन्ह महँ कोऊ * विषय विमुख विराग रत होऊ

हे त्रिवुरारी ! सुनिये, हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही धर्म-व्रत धारण करने वाला होता है और हजारों धर्मशीलों में विषय-त्यागी और वैरागी कोई बिरला ही होता है ।

कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई * सम्यक ग्यान सुकृत कोउ लहई

मोह न अन्ध कीन्ह केहि केही * को जग काम नचाव न जेही
तृष्णा केहि न कीन्ह बोराहा * केहि कर हृदय क्रोध नहि दाया

इनमें से किस-किस को मोह ने अन्धा नहीं किया ? संसार में ऐसा कौन है, जिसे कामदेव ने नहीं नचाया ? तृष्णा ने किसे मतयासा नहीं बनाया और क्रोध ने किसे नहीं जलाया ?

दोहा—ग्यानी तापस सूर कवि, कोविद गुन आगार ।

केहि कै लोभ विडम्बना, कीन्हि न एहि संसार ॥६७॥

इस संसार में ऐसे कितने तपस्वी, शूर, कवि, पण्डित और गुणनिधान हैं, जिनकी सोम ने विडम्बना नहीं की ?

श्रीमद वक्र न कीन्ह केहि, प्रभुता वधरि न काहि ।

मृगलोचनि के नैन सर, को अस लाग न जाहि ॥६८॥

लक्ष्मी के भव ने किसे टेढ़ा और प्रभुता ने किसे बहुरा नहीं कर दिया ? ऐसा कौन है—जिसे मृग-नयनी स्त्री के नयन-बाण नहीं सगे ?

गुन कृत सन्यपात नहि केहीं * कोउ न मान मद तजेउ निवेहीं
जोवन ज्वर केहि नहि वहकावा * ममता केहि कर जस न नसावा

गुणों का किया सन्निपात किसे नहीं हुआ ? ऐसा कौन है, जिसे मान और भव नहीं ध्याया ? यौवन के ज्वर ने किसे नहीं वहकाया और ममता ने किसके पशु का नाश नहीं किया ?

मत्सर काहि कलङ्क न आवा * काहि न सोक समीर डोलावा
चिन्ता साँपिन को नहि खाया * को जग जाहि न व्यापी माया

मत्सरने किसे कलंक नहीं लगाया ? शोकरूपों वापुने किसे डंवाडोल नहीं किया ? चिन्तारूपी नागिन ने किसे नहीं डसा । संसार में ऐसा कौन है, जिसे माया ने अपने पशु में नहीं किया ?

कोट मनोरथ दारु सरीरा * जेहि न लाग घुन को अस धीरा
सुत बित लोक ईषना तीनी * केहि कै मति इन्ह कृतन मलीनी

ऐसा धैर्यवान कौन है, जिसके शरीर रूपी फाट में मनोरथ रूपी कौड़ा न लगा हो ? पुत्र, धन और स्त्री की वासनाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं किया ?

यह सब माया कर परिवारा * प्रबल अमित को वरने पारा
सिव चतुरानन जाहि डेराहीं * अपर जीव केहि लेखे माहीं

यह माया का परिवार बड़ा प्रबल है और अपार है । इसे कौन धरन कर सकता है ? महादेवजी और ब्रह्माजी भी जिससे डरते हैं, तो दूसरे जीव किस लेखे में हैं ?

दोहा—व्यापि रहेउ संसार महुँ, माया कटक प्रचण्ड
सेनापति कामादि भट, दम्भ कपट पाखण्ड

प्रीति है। अब वह अति पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनकर सब संदेह दूर हो जाता है, रामजीके चरणों में विश्वास होता है और बिना प्रयास केही मनुष्य संसारसागर से पार हो जाता है।
 दोहा—ऐसे प्रश्न विहङ्गपति, कीन्ह काग सन जाइ।

सो सब सादर कहउ मैं, सुनहु उमा मन लाइ ॥ ७८ ॥

ऐसे ही प्रश्न काकमुशुण्डिजी से गरुड़जी ने जाकर पूछा था। वह सब आदरपूर्वक कहता हूँ। हे पावन्ती! मन लगाकर सुनो।

मैं जिमि कथा सुनीभव मोचनि * सो प्रसङ्ग सुनु सुमुखि सुलोचनि
 प्रथम दच्छ गृह तव अवतारा * सती नाम तव रहा तुम्हारा
 हे सुमुखी! हे सुलोचनी! संसार से छुड़ाने वाली क्या जिस तरह से मैंने सुनी, वह प्रसंग सुनो! पहले वक्ष के घर तुम्हारा नाम 'सती' था।

दच्छ जग्य तव भा अपमाना * तव अति क्रोध तजे तुम्ह प्राणा
 मम अनुचरन्ह कीन्ह मख भंगा * जानहु तुम्ह सो सकल प्रसंगा
 वक्ष-यज्ञ में जब तुम्हारा अपमान हुआ, तब बहुत क्रोध करके तुमने प्राण त्याग दिये थे और मेरे गणों ने यज्ञ-विध्वंस कर डाला था। वह सब प्रसङ्ग तुम जानती ही हो।

तव अति सोच भयउ मन मोरें * दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरें
 सुन्दर वन गिरि सरित तड़ागा * कौतुक देखत फिरउ वैरागा
 उस समय मेरे जी में अत्यन्त शोक हुआ और हे प्रिये! तुम्हारे विछोह से मैं दुखी हो गया। मैं विरक्त होकर सुन्दर वन, पर्वत, नदी और तालाबों के कौतुक देखता फिरता था।

गिरि सुमेरु उत्तर दिसि दूरी * नील सैल एक सुन्दर भूरी
 तासु कनकमय सिखर सुहाए * चारि चरु मोरे मन भाए
 सुमेरु-पर्वत के उत्तर में दूर, अति मनोहर एक नील-पर्वत है। उसके चार सुन्दर स्वर्ण-मय शिखर हैं। ये मेरे मन को बहुत अच्छे लगे।

तिन्ह पर एक एक विटप विसाला * वट पीपर पाकरी रसाला
 सैलोपरि सर सुन्दर सोहा * मनि सोपान देखि मन मोहा
 उन शिखरों पर एक-एक वृक्ष बड़ पीपल, पाकर व आम के हैं। पर्वत के ऊपर एक मनोहर तालाब सुशोभित है, सोड़ियों में मणि जड़ी देखकर मेरा मन मोहित होगया।

दोहा—सीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहु रंग।

कूजत कलरव हंस गन, गुञ्जत मञ्जुल भृङ्ग ॥ ७९ ॥

उत्तम ठण्डा, निमल, मोठा जल था, उसमें रङ्ग-धिरंगे कमल खिले थे। हंस मधुर शब्द कर रहे थे और नीर गुंजार रहे थे।

तेहि गिरिवत्सइ रुचिरखग सोई * तासु नास कल्पान्त न होई

जे मति मलिन विषय बस कामी * प्रभु पर मोह धरहि इमि स्वामी
हे गरुण ! श्रीराम-लीला राक्षस-मोहक और भक्त-सुप्रकारो है । हे स्वामी ! जो मतिन बुद्धि, विषयी तथा कामी हैं, वे प्रभु पर आरोप करते हैं ।

नयन दोष जा कहैं जत्र होई * पीत वरन तसि कहैं कह सोई
तव जेहि दिसि भ्रम होइ खगेसा * सो कह पच्छिम उयउ दिनेसा
हे गरुण ! जब जिसे नेत्र-रोग और बिशा भ्रम हो जाता है, तो वह क्रमशः चन्द्रमा की पीले रङ्ग का धोर सूर्य को पश्चिम में उदय हुआ कहता है ।

नौकारुढ़ चलत जग देखा * अचल मोह बस आपुन लेखा
बालक भ्रमहिं न भ्रमहिं गृहादी * कहहिं परस्पर मिथ्यावादी
नौकारुढ़ जगत की चलता बेषरु मोहवश अपने को अचल समझता है । यातक घूमते हैं, घर बाकि नहीं । पर वे आपस में झूठ कहते हैं ।

हरि विषयक अस मोह विहङ्गा * सपनेहुं नहिं अग्यान प्रसङ्गा
मायावस मतिमन्द अभागो * हृदयें जमनिका बहुविधि लागी
ते सठ हठ बस संसय करहौं * निज अग्यान राम पर धरहौं
हे गरुड़ ! हरि के विषय में ऐसा ही मोह है । नगवान में अज्ञान तो स्वप्न में भी नहीं है, किन्तु जो मायावश, मन्द-बुद्धि, अभाग हैं और जिनके हृदय पर अनेक परदे पड़े हैं, वे मूर्ख हठ के बश सन्देह करते हैं और अज्ञान श्रीरामजी पर घटित करते हैं ।

दोहा—काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप ।

ते किमि जानहिं रघुपतिहि, मूढ़ परे तम कूप ॥१०३॥

जो काम, क्रोध, मद व लोभ में फँसे हैं और दुःखरूपी घर में आसक्त हैं, वे श्रीरघुनाथजी को कैसे जान सकते हैं ? वे मूर्ख अन्धकाररूपी कूप में पड़े हैं ।

निर्गुन रूप सुलभ अति, सगुन जान नहिं कोइ ।

सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनिमन भ्रम होइ ॥१०४॥

निर्गुण-रूप अत्यन्त सुलभ है, परन्तु सगुण को कोई नहीं जानता है । सुगम और अगम अनेक चरित्रों को सुनकर मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है ।

सुनु खगेस रघुपति प्रभुताई * कहहुं जयामति कया सुहाई
जेहिविधि होइ भयउ प्रभु मोही * सोउ सब कया सुनावहु तोही

हे पक्षिराज ! सुनिये, श्रीरामजी की प्रभुता की मनोहर कथा में जयबो बुद्धि के अनुसार कहता हूँ । हे प्रभो ! जिस तरह से मुझे मोह हुआ, यह सब कथा भी आपकी मुनाता है ।

राम कृपा भाजन तुम्ह ताता * हरि गुन प्रीति मोहि सुखदाता
तदपि नहीं कछु तुम्हहिं दुरावज * परम रहस्य मनोहर आवज

बन्धन काटि गयउ उरगादा * उपजा हृदयँ प्रचण्ड विषादा
प्रभु बन्धन समुझत बहु भाँती * करत विचार उरग आराती

नागपाश का बन्धन काटकर जब गच्छुजी घर लौट गये, तब उनके हृदय में बड़ा विषाद हुआ। प्रभु के बन्धन को स्मरण कर गच्छुजी मन में बहुत भाँति से विचार करने लगे—

व्यापक ब्रह्म विरज वागीसा * माया मोह पार परमीसा
सो अवतार सुनेउँ जग माहीं * देखेउँ सो प्रभाव कछु नाहीं

जो सर्व-व्यापक विकार रहित, वाणी के स्वामी, माया-मोह से परे परमेश्वर हैं, उनका जगत में अवतार मैंने सुना था, सो कुछ प्रभाव नहीं देखा।

दोहा—भव बन्धन ते छूटहिं, नर जपि जाकर नाम।

खर्व निसाचर बाँधेउ, नाग पाश सोइ राम ॥ ८१ ॥

जिसका नाम जपकर मनुष्य संसार के बन्धन से छूट जाते हैं, उन श्रीरामजी को तुच्छ राक्षस ने नागपाश में बाँध लिया।

नाना भाँति मनहिं समुझावा * प्रगट न ग्यान हृदयँ भ्रम छावा
खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई * भयऊ मोहवश तुम्हरिहि नाई

नाना प्रकार से गच्छुजी ने अपने मन को तमझाया, परन्तु बोध नहीं हुआ, हृदय में भी भ्रम छा गया। उस खेद से मनमें दुखी हो, तर्क बढ़ाकर गच्छुजी तुम्हारी ही भाँति मोहके वश होगये।

व्याकुल गयउ देवरिषि पाहीं * कहेसि जो संसय निज मन माहीं
सुनि नारदहि लागि अति दाया * सुनु खग प्रबल राम कै माया

तब व्याकुल होकर वे नारदजी के पास गये और जो सन्देह अपने मन में था, सो उनसे कहा। उसे सुनकर नारदजी को बड़ी दया लगी, वे बोले-सुनो, गच्छुजी! रामजी की माया बड़ी प्रबल है।

जो ग्यानिन्ह करचित अपहरई * वरिआई विमोह मन करई
जेहि बहु वार नचावा मोही * सोई व्यापी विहंगपति तोही

जो ज्ञानियों के चित्त को भी हर लेती है और जबदस्तो विशेष मोह के वश में कर देती है। जिसने मुझे जो अनेकों वार नचाया है, है गच्छु! वही माया तुम्हें व्याप गई है।

महा मोह उपजा उर तोरें * मिटिहि न वेगि कहे खग मोरें
चतुरानन पहि जाहू खगेसा * सोइ करेहु जेहि होइ निदेसा

तुम्हारे मनमें बड़ा भारी मोह प्रकट होगया है। हे गच्छुजी! मेरे कहने से यह शीघ्र नहीं मिटेगा। इस कारण, हे पक्षिराज! ब्रह्माजी के पास जाओ, उनकी आज्ञा हो, तुम वही करना।

दोहा—अस कहि चले देवरिषि, करत राम गुन गान।

हरि माया बल वरनत, पुनि पुनि परम सुजान ॥ ८२ ॥

इस प्रकार कह चतुर देवर्षि नारद श्रीरामचन्द्रजी के गुण गान करते हुए और हरि-माया का

अपने प्रभु का मुख देखकर मैं नेत्रों को सकल करता हूँ। मैं छोटे कोए का रूप धरकर प्रभु के साथ अनेक बाल लीलायें देखा करता हूँ।

दोहा—लरिकार्ई जहँ जहँ फिरहिं, तहँ तहँ सङ्ग उड़ाउं ।

जूठन परइ अजिर महँ, सो उठाइ करि खाउं ॥१०७॥

लड़कपन में वे जहाँ जहाँ घूमते हैं, वहाँ वहाँ में उनके साथ उड़ता है और वांगन में जो जूठन पड़ती है, उसे उठाकर खा लेता है।

एक वार अतिसय सब, चरित किए रघुवीर ।

सुमिरत प्रभु लीला सोइ, पुलकित भयउ सरौर ॥१०८॥

एक वार श्रीरघुनाथजी ने सब बाल चरित्र अत्यधिक किए, उन चरित्रों को स्मरण करने से भुशुण्डिजी का शरीर पुलकित हो गया।

कहइ भुशुण्डि सुनहु खगनायक * रामचरित सेवक सुखदायक
नृप मन्दिर सुन्दर सब भाँती * खचित कतक मनि नाना जाती
हे पक्षिराज ! धीरामजी के भक्त सुखकारी चरित्र सुनिए। राज मन्दिर सब नाँति से सुन्दर है, वहाँ अनेक मणियाँ सोने से जड़ी हुई हैं।

वरनि न जाइ रचिर अँगनाई * जहँ खेलहिं नित चारिउ भाई
बाल विनोद करत रघुराई * विचरत अजिर जननि सुखदाई
सुन्दर वांगन का वर्णन नहीं किया जाता, वहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। धीरघुनाथजी माताओं को सुख देने वाली बाल लीला करते हुए वहाँ विचरते हैं।

मरकत मृदुल कलेवर श्यामा * अङ्ग अङ्ग प्रति छवि बहु कामा
नव राजीव अरुन मृदु चरना * पदज रचिर नख ससिदुतिहरना
मरकत मणियों के तुल्य साँवला शरीर है, अंग अंग में अनेकों कामदेवों की शोभा है। नवीन लाल कमल के समान कोमल चरण हैं, अंगुलियों बहुत सुन्दर और चन्द्रमा की काँति को हरने वाली हैं।

ललित अंक कुलसादिक चारो * नूपुर चारु मधुर रवकारी
चारु पुरट मनि रचित वनाई * कटि किंकिन कल मुखर सुहाई
वज्रादिक के सुन्दर चार चिन्ह हैं, सुन्दर मधुर ध्वनि से बजने वाले नूपुर हैं। सुन्दर मणियों से जड़ी सोने की करघनी की सुरीली ध्वनि सुहावनी लगती है।

दोहा—रेखा त्रय सुन्दर उदर, नामो रचिर गंभीर ।

उर आयत भ्राजत विविध, बाल विभूषण चौर ॥१०९॥

सुन्दर उदर पर तीन रेखायें हैं, नामि मनोहर और गहरी है, विद्याय वसत्यन पर बालकों के अनेक आभूषण और वस्त्र सोनित हैं।

अरुन पानि नख करज मनोहर * बाहु विसाल विभूष

जेहिं महुं आदि मध्य अवसाना * प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना

और वहाँ सुन्दर हरि-कथा सुनी जाय, जो अनेक प्रकार से मुनिग्रों ने गाई है और जिसके आदि, मध्य और अन्त में प्रभु श्रीरामजी का ही निरूपण है।

नित हरिकथा होइ जहँ भाई * पठवउं तहाँ सुनहुं तुम्ह जाई
जाइहि सुनत सकल सन्देहा * रामचरन होइहि अति नेहा

हे भाई ! जहाँ नित्य हरि-कथा होती है, वहाँ मैं तुम्हें भेजता हूँ—तुम जाकर सुनो। कथा सुनते ही सब संशय दूर हो जायगा और श्रीरामजी के चरणों में दृढ़ प्रेम हो जायगा।

दोहा—विनु सतसंग न हरिकथा, तेहि विनु मोहन भाग।

मोह गएँ विनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग ॥ ८४ ॥

सतसंग के बिना हरि कथा नहीं मिलती, बिनाकथा के मोह नहीं भागता और मोह के दूर हुए बिना श्रीरामजी के चरणों में स्नेह नहीं होता।

मिलहिं न रघुपति विनु अनुरागा * किए जोग जप ग्यान विरागा
उत्तर दिसि सुन्दर गिरि नीला * तहं रह कागभुशुण्डि सुशीला

बिना प्रेम के योग, जप, ज्ञान और व्रतारम्य करने पर श्री श्रीरघुनाथजी नहीं मिलते। उत्तर दिशा में एक सुन्दर नील-पर्वत है, वहाँ पर परम सुशील काकभुशुण्डिजी रहते हैं।

राम भगति पथ परम प्रवीना * ग्यानी गुन गृह बहु कालीना
रामकथा सो कहइ निरन्तर * सादर सुनहिं विविध विहंगवर

वे राम-भक्ति के मार्ग में बड़े चतुरब गुणनिधान हैं और बहुत ही प्राचीन हैं। वे राम-कथा सदैव कहा करते हैं, जिसे अनेकों प्रकार के श्रेष्ठपक्षी आदर के साथ सुनते हैं।

जाइ सुनहु तहँ हरि गुन भूरी * होइहि मोह जनित दुख दूरी
मैं जय तेहि सब कहा बुझाई * चलेउ हरष सम पद सिरु नाई

वहाँ जाकर श्रीहरि के गुण समूहों को सुनो, जिससे मोह से उत्पन्न हुआ तुम्हारा दुःख दूर हो जायगा। इस प्रकार जब मैंने गरुड़जी से सब हाल समझाकर कहा, तब वे प्रसन्न हो मेरे चरणों में प्रणाम करके चले गये।

ताते उमा न मैं समुझावा * रघुपति कृपाँ मरमु मैं पावा
होइहिं कीन्ह कवहुँ अभिमाना * सो खोवन चह कृपानिधाना

हे पार्वती ! मैंने इस कारण गरुड़जी को नहीं समझाया कि श्रीरघुनाथजी की कृपा से मैंने सब भेद जानलिया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसकी कृपानिधान दूर करना चाहते हैं।

कष्टु तेहि ते पुनि मैं नहिं राखा * समुझत खग खग ही कै भाषा
प्रभु माया बलवन्त भवानी * जाहि न मोह कवनअस ग्यानी

फिर कुछ इस कारण मैंने उसको नहीं रोका कि पक्षी-पक्षी की ही भाषा समझते हैं। हे

अपने प्रभु का मुख देखकर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ । मैं छोटे कोए का रूप धरकर प्रभु के साथ अनेक बाल लीलायें देवा करता हूँ ।

दोहा—लरिकार्ई जहँ जहँ फिरहिं, तहँ तहँ सङ्ग उड़ाउं ।

जूठन परइ अजिर महँ, सो उठाइ करि खाउं ॥१०७॥

लड़कपन में वे जहाँ जहाँ घूमते हैं, वहाँ वहाँ मैं उनके साथ उड़ता हूँ और जांगन में जो जूठन पड़तो है, उसे उठाकर खा लेता हूँ ।

एक वार अतिसय सब, चरित किए रघुवीर ।

सुमिरत प्रभु लीला सोइ, पुलकित भयउ सरोर ॥१०८॥

एक वार श्रीरघुनाथजी ने सब बाल चरित्र अत्यधिक किए, उन चरित्रों को स्मरण करने से भृशुण्डिजी का शरीर पुलकित हो गया ।

कहइ भृशुण्डि सुनहु खगनायक * रामचरित सेवक सुखदायक

नृप मन्दिर सुन्दर सब भाँती * खचित कनक मनि नाना जाती

हे पक्षिराज ! धीरामजी के भक्त सुखकारी चरित्र सुनिए । राज मन्दिर सब नाति से सुन्दर है, वहाँ अनेक मणियाँ सोने से जड़ी हुई हैं ।

वरनि न जाइ रचिर अँगनाई * जहँ खेलहिं नित चारिउ भाई

बाल वितोद करत रघुराई * विचरत अजिर जननि सुखदाई

सुन्दर आंगन का वर्णन नहीं किया जाता, वहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं । धीरघुनाथजी माताओं को सुख देने वाली बाल लीला करते हुए वहाँ विचरते हैं ।

मरकत मृदुल कलेवर श्यामा * अङ्ग अङ्ग प्रति छवि बहु कामा

नव राजीव अरुन मृदु चरना * पदज रचिर नख सतिदुतिहरना

मरकत मणियों के तुल्य सांवला शरीर है, अंग अंग में अनेकों कामदेवों की शोभा है । नवीन लाल कमल के समान कीमल चरण हैं, अंगुलियों बहुत सुन्दर और चन्द्रमा की कांति को हरने वाली हैं ।

ललित अंक कुलसादिक चारो * नूपुर चारु मधुर रचकारो

चारु पुरट मनि रचित बनाई * कटिकिंकिनकल मुखर सुहाई

वज्रादिक के सुन्दर चार चिन्ह हैं, सुन्दर मधुर घन्टि से बजने वाले नूपुर हैं । सुन्दर मणियों से जड़ी सोने की करघनी की सुरीली ध्वनि सुहावनी लगती है ।

दोहा—रेखा त्रय सुन्दर उदर, नामी रचिर गँगीर ।

उर आयत भ्राजत विविध, बाल विभूषण चोर ॥१०९॥

सुन्दर उदर पर तीन रेखायें हैं, नामी मनोहर और गहरी है, विद्यात्रय पदस्थ पर बालकों के अनेक आभूषण और वस्त्र शोभित हैं ।

अरुन पानि नख करज मनोहर * बाहु विसाल विभूषण ९

सदा कृतार्थ रूप तुम्ह, कह मृदुवचन खगेस ।

जेहि कै अस्तुति सादर, निज मुख कीन्ह महेस ॥८८॥

गरुड़जी कोमल वाणी से वचन बोले—आप तो सर्व ही कृतार्थ-रूप हैं । शिवजी ने आवर सहित अपने श्रीमुख से जिनकी वड़ाई की है ।

सुनहु तात जेहि कारन आयउं * सो सब भयउ दरस तव पायउं
देखि परम पावन तव आश्रम * गयउ मोह संसय नाना भ्रम

हे तात ! सुनिये, जिस कारण से मैं यहाँ आया हूँ, वह सब आपके दर्शन पाते ही पूरा होगया । आपके इस अत्यन्त पवित्रआश्रम को देखकर मेरा मोह, संशय और अनेकों भ्रम जाते रहे ।

अब श्रीराम कथा अति पावनि * सदा सुखद दुख पुञ्ज नसावनि
सादर तात सुहावहु मोही * बार बार विनवउं प्रभु तोही

अब श्रीरामजीकी अत्यन्त पवित्र, सदा सुख देने वाली एवं दुःख के समूह को नाश करने वाली कथा-हे तात ! मुझे आवर सहित सुनाइये । हे प्रभो ! मैं आपसे बार २ यही विनती करता हूँ ।

सुनत गरुड़ कै गिरा विनीता * सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता
भयउ तासु मन परम उछाहा * लाग कहैं रघुपति गुन गाहा

गरुड़जी की विनय, सीधी, प्रेमभरी, सुखदायक और अत्यन्त पवित्र वाणी सुनते ही काक भृशुण्डिजी के मनमें परम उत्साह हुआ और वे श्रीरघुनाथजी के गुणों की कथा कहने लगे—

प्रथमहि अति अनुराग भवानी * रामचरित सर कहेसि बखानी
पुनि नारद कर मोह अपारा * कहेहि बहुरि रावन अवतारा
प्रभु अवतार कथा पुनि गाई * तव सिसु चरित कहेसि मनलाई

हे भवानी ! उन्होंने प्रथम तो बड़े प्रेम से रामचरित-मानस का रूपक कहा, फिर नारदजी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा । फिर प्रभु के अवतार की कथा कही । तदनन्तर मन लगाकर श्रीरामजी के बाल चरित्र कहे ।

दोहा—बालचरित कहि विविध विधि, मन महँ परम उछाह ।

रिपि आगमन कहेसि पुनि, श्री रघुवीर विवाह ॥८९॥

अनेकों बालचरित्र कहकर मनमें बहुत आनन्द हुआ, फिर विश्वामित्रजी का आगमन कहकर श्रीरघुनाथजी का विवाह वर्णन किया ।

बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा * पुनि नृप वचन राज रस भंगा
पुरवासिन्ह कर विरह विषादा * कहेसि राम लछिमन सम्बादा

फिर श्रीरामजी के राजतिलक प्रसंग, फिर राजा दशरथ के वचनों से राजतिलक का न होना, नगर-वासियों की विरह-व्यथा और श्रीराम-लक्ष्मण का सम्बाद कहा ।

विपिन गवन केवट अनुरागा * सुरसरि उतरि निवास प्रयागा

हे गरुणजी! इतनी शंका मन में लाते ही श्रीरामजी द्वारा प्रेरित माया मुझे व्याप गई, परन्तु वह माया मुझे न तो बुझवाई हुई और न अन्य जीवों के समान उसने मुझे संसार के चक्कर में ही डाला।

नाथ इहाँ कछु कारन आना ✽ सुनहु सो सावधान हरिजाना
ग्यान अखण्ड एक सीतावर ✽ माया वस सब जीव चराचर
हे स्वामी! यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है, उसे सावधान होकर मुनिये—एक सीतापति श्रीरामचन्द्रजी ही पूर्ण ज्ञानवान् हैं और सब चराचर जीव माया के वश में हैं।

जाँ सबकें रह ग्यान एक रस ✽ ईश्वर जीवहि भेद कहहु कस
माया वस्य जीव अभिमानी ✽ ईस वस्य माया गुनखानी
जो सबको एक सा ही ज्ञान हो तो कहो—ईश्वर और जीव में भेद कंसा? अभिमानी जीव माया के वश में हैं और यह तीनों गुणों की छान-माया ईश्वर के आधीन है—

परवस जीव स्ववस भगवन्ता ✽ जीव अनेक एक श्रीकन्ता
मुधा भेद जद्यपि कृत माया ✽ विनु हरि जाइन कोटि उपाया
जोवपराधीन है, ईश्वर स्वाधीन है। जीव अनेक हैं, ईश्वर एक है। यह भेद यद्यपि माया के किये हुए हैं, तो भी ईश्वर की कृपा के बिना करोड़ों उपाय करने पर भी यह नहीं मिटते।
दोहा—रामचन्द्र के भजन विनु, जो चह पद निवनि।

ग्यानवन्त अपि सो नर, पसु विनु पूँछ विपान ॥११२॥

जो श्रीरामचन्द्रजी के भजन के बिना मोक्ष-पद चाहे, यह मनुष्य बहुत ज्ञानवान् होने पर भी बिना सींग और पूँछ का पशु है।

राकापति षोडस उअहिं, तारागन समुदाय।

सकल गिरिन्ह दव लाइअ, विनु रवि रात न जाय ॥११३॥

चाहे सब तारों के साथ चंद्रमा सोलह कलाओं से उदय हो और सब पर्वतों में आग लगादी जाय, परन्तु सूर्य के उदय हुए बिना रात नहीं जाती।

ऐसेहि विनु हरिभजन खगेसा ✽ मिटइ न जीवन केर कलेसा
हरि सेवकहिं न व्यापि अविद्या ✽ प्रभु प्रेरित व्यापइ तेहि विद्या
हे गरुणजी! ऐसे ही बिना हरि भजन के जीवों का बनेरा नहीं मिटता। हरि-भक्त को अविद्या नहीं व्यापती, बल्कि प्रभु की प्रेरणा से विद्या ही व्यापती है।

ताते नास न होइ दास कर ✽ भेद भगति वाढ़इ विहङ्गवर
भ्रम तें चकित राम मोहि देखा ✽ विहंसे सो तुनु चरित विसेया
इसी से वास का नास नहीं होता और हे पक्षिधनु! भेद-भक्ति बढ़ती है। जब श्रीरामजी ने मुझे भ्रम से चकित देखा, तब हँसे। यह विसृष्ट चरित्र मुनिये—

तेहिं कौतुक कर मरम न काहँ ✽ जाना अनुज न मात ।

दोहा—प्रभु नारद सम्वाद कहि, मारुत मिलन प्रसङ्ग ।

पुनि सुग्रीव मितार्ई, बालि प्राण कर भङ्ग ॥८१॥

प्रभु और नारदजी का सम्वाद कहकर हनुमानजी से मिलने का प्रसंग कहा फिर सुग्रीव की मितता कहकर बालि का मरण कह सुनाया ।

कपिहि तिलक करि प्रभु कृत, सैल प्रवरषन वास ।

वरनत वर्षा सरद अरु, राम रोष कपि त्रास ॥८२॥

सुग्रीव को राजतिलक करके प्रभु ने प्रवरषण-पर्वत पर वास किया और वहाँ वर्षा व शरद ऋतु का वर्णन करके, श्रीरामजी का क्रोध और सुग्रीव आदि के भय-प्रसंग कहे ।

जेहि विधि कपिपति कीस पठाए * सीता खोज सकल दिसि धाए.

विवर प्रवेश कीन्ह जेहि भाँती * कपिन्ह बहोरि मिला सम्पाती

फिर जिस प्रकार सुग्रीव ने सब वानरों को भेजा, वे सीताजी की खोज में सब ओरगये, जिस भाँति वानरों ने गुफा में प्रवेश किया और उन्हें सम्पाती मिला, वह सब कथा कही ।

सुनि सब कथा समोर कुमारा * नाँघत भयउ पयोधि अपारा

लङ्का कपि प्रवेश जिमि कीन्हा * पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीन्हा

सम्पाती से सब कथा सुनकर हनुमानजी अपार समुद्र को लाँघ गये और लङ्का में हनुमानजी ने जिस प्रकार प्रवेश किया, फिर जैसे सीताजी को धँयँ दिया, वह सब कथा कही ।

वन उजारि रावनहिं प्रवोधी * पुरि दहि नाँघेउ बहुरि पयोधी

आए कपि सब जहँ रघुराई * वैदेही की कुशल सुनाई

फिर अशोक-याटिका को उजाड़कर, रावण को समझाकर, लंका-दहन करके, फिर समुद्रको लाँघकर आना कहा, फिर सब वहाँ आये, जहाँ रामजी थे, उन्हें सीताजी के कुशल समाचार सुनाये ।

सेन समेत जथा रघुवीरा * उतरे जाइ वारि निधि तीरा

मिला विभीषन जेहि विधि आई * सागर विग्रह कथा सुनाई

फिर जिस प्रकार श्रीरामजी सेना समेत समुद्र के किनारे उतरे, जिस प्रकार विभीषण जाकर मिले—वह और समुद्र के बाँधने की कथा सुनाई ।

दोहा—सेतु बाँधि कपिसेन जिमि, उतरी सागर पार ।

गयउ बसीठी वीरवर, जेहि विधि बालिकुमार ॥८३॥

पुन बाँधकर जिस प्रकार सेना पार उतरी और जिस तरह बालि-पुत्र वीर श्रेष्ठ अंगद हस्त बनकर लङ्का में गये—वह कथा कही ।

निसिचर कीस लराई, वरनेसि विविध प्रकार ।

कुम्भकरन घननाद कर, बल पौरुष संहार ॥८४॥

सो सब अद्भुत देखेउँ, वरनि कवन विधि जाइ ॥११६॥

जो न कसो देखा या, न सुना या ओर मन में सो नहीं समता था, वह सब आरवर्ष में देखा । तब किस भांति से उसका वर्णन किया जाय ?

दोहा—एक एक ब्रह्माण्ड महँ, रहेउँ वरष सत एक ।

एहि विधि देखत फिरेउँ मैं, अण्ड कटाह अनेक ॥११७॥

मैं एक एक सौ वर्ष एक एक ब्रह्माण्ड में रहा, इस भांति मैं अनेक ब्रह्माण्ड देखता फिरा ।

लोक लोक प्रति भिन्न विधाता * भिन्न विष्णु सिवतनु दिसि त्राता
नर गन्धर्व भूत वैताला * किन्नर निसिचर पशु खगव्याला

प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, विष्णु शिव, मनु ओर विकपाल, मनुष्य, गन्धर्व, भूत, वैताल, किन्नर, वंश्य, पशु पक्षी ओर नाग ये ।

देव दनुज गन नाना जाती * सकल जीव तहँ आनहि भांती
महि सरि सागर सर गिरि नाना * सब प्रपञ्च तहँ आनइ आना

अनेक जाति के देवता ओर वंश्य ये, सब जीव वहाँ ओर हो प्रकार के ये । भूमि, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत ओर सृष्टि वहाँ दूसरी हो प्रकार की थी ।

अण्डकोष प्रति प्रति निज रूपा * देखेउँ जिनस अनेक अनूपा
अवधपुरी प्रति भवन निहारी * सरजू भिन्न भिन्न नर नारों

हर एक ब्रह्माण्डों में मैंने अपना रूप देखा ओर बहुत सो अनोची वस्तुयें देवी तथा प्रत्येक ब्रह्माण्ड में अवधपुरी ओर सरजू नदी एवं भिन्न भिन्न स्त्री पुरुष देवे ।

दशरथ कौशल्या सुनु ताता * विविध रूप भरतादिक म्नाता
प्रति ब्रह्माण्ड राम अवतारा * देखेउँ बाल विनोद अपारा

दशरथजी, कौशल्याजी तथा भरत आदि माई भिन्न भिन्न रूप के ये । प्रत्येक ब्रह्माण्ड में रामावतार ओर अपार बाल चरित्र देखा ।

दोहा—भिन्न भिन्न मैं दोख सबु, अति विचित्र हरिजान ।

अगनित भुवन फिरेउँ प्रभु, राम न देखेउँ आन ॥११८॥

हे हरि बाहन ! वहाँ मैंने सभी को भिन्न भिन्न तथा अत्यन्त विचित्र देखा । मैं अगनित ब्रह्माण्डों में फिरा, परन्तु प्रभु श्रीरामजी को दूसरे रूप में नहीं देखा ।

सोइ सिसुपन सोइ सोभा, सोइ कृपालु रघुवीर ।

भुवन भुवन देखत फिरेउँ, प्रेरित मोह समोर ॥११९॥

मोहरूपी पवन की प्रेरणा से मैं वही बाल लोता, वही शोभा ओर उन्हीं दशानु धोरणु-नाथजी को लोक लोक में देखता फिरता था ।

जों नहि होत मोह अति मोही * मिलतेउँ तात कवन विधि तोही

जो प्राणी धूप से व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया के सुख को चाहता है। जो मुझे मोह न होता तो-हे तात ! मैं आपसे किस प्रकार मिलता ?

सुनतेउँ किमि हरिकथा सुहाई * अति विचित्र बहुविधि तुम्हगाई
निगमागम पुरान मत ऐहा * कहहि सिद्ध मुनि नहि सन्देहा

और कैसे यह सुहावनी हरि-कथा सुनता, जिसको बहुत विधिसे आपने गाया है? शास्त्र, वेद व पुराणों का यही मत है और यही सिद्ध व मुनिजन भी कहते हैं, इसमें कुछ संदेह नही कि-सन्त विशुद्ध मिलहिं पर तेही * चितवहिं राम कृपा करि जेही
राम कृपा तव दरसन भयऊ * तव प्रसाद सब संसय गयऊ

निर्मल सन्त उसी को मिलते हैं, जिसे श्रीरामजी कृपादृष्टि से देखते हैं। श्रीरामजी की कृपा से ही आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा सब संदेह जाता रहा।

दोहा-सुनि विहंगपति बानी, सहित विनय अनुराग।

पुलकगात लोचन सजल, मन हरषेउ अति काग ॥६५॥

पक्षिराज गरुड़जी की विनय और प्रीति युक्त वाणी सुन काकभुशुण्डिजी बहुत प्रसन्न हुए, उनका शरीर पुलकित होगया और नेत्रों में जल भर आया।

श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास।

पाई उमा अति गोप्य मपि, सज्जन करहिं प्रकास ॥६६॥

हे पायंती! अच्छी बुद्धि वाले, सुशील पवित्र कथा प्रेमी और हरि-भक्त श्रोता को पाकर सज्जन अत्यन्त गोपनीय रहस्य को भी प्रगट कर देते हैं।

वोलेउ कागभुशुण्डि बहोरी * नभग नाथ पर प्रीति न थोरी
सब विधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे * कृपापात्र रघुनाथक केरे

फिर कागभुशुण्डिजी-जिनकी गरुड़जी पर विशेष प्रीति थी, वोले-हे नाथ ! आप सब तरह से मेरे पूज्य हैं और श्रीरघुनाथजी के कृपा-पात्र हैं।

तुम्हहिं न संसय मोह न माया * सो पर नाथ कीन्ह तुम्ह दाया
पठइ मोह मिस खगपति तोही * रघुपति दीन्हि बड़ाई मोही

आपको संदेह, मोह व माया कुछ नहीं है। हे नाथ ! मुझ पर आपने दया की है। हे पक्षिराज ! मोह के वहाने से आपको भेजकर श्रीरघुनाथजी ने मुझे बड़ाई दी है।

तुम्ह नित मोह कहा खग साई * सो नहि कछु आचरज गोसाई
नारद भव विरञ्चि सनकादी * जे मुनिनाथक आत्मवादी

हे पक्षियों के स्वामी ! आपने जो अपना मोह कहा सो-हे स्वामी ! यह कुछ आश्चर्य नहीं है, नारदजी, महादेवजी, ब्रह्माजी और सनकादि मुनीश्वर जो आत्मज्ञान का वर्णन करते रहते हैं।

हस्त-कमल मेरे सिर पर रखकर दीनव्याजु ने मेरा सय दुःख दूर कर दिया ।

कोन्ह राम मोहि विगत विमोहा * सेवक सुखद कृपा सन्दोहा

प्रभुता प्रथम विचारि विचारी * मन महँ होइ हरप अति भारी

सेवकों को सुख देने वाले, कृपा के समूह धीरामचंद्रजी ने मुझको मोह रहित करविया। तब जो महिमा पहले देखी थी, उसे विचार कर मेरे मन में बड़ा भारी आनन्द हुआ ।

भगत बछलता प्रभु कै देखी * उपजी मम पद प्रीति विसेपी

सजल नयन पुलकित करजोरी * कोन्हिउँ बहुविधि विनय बहोरी

प्रभु की भक्त-वत्सलता देखकर मेरे मन में अत्यन्त प्रीति प्रकट हुई । सजल-नेत्र, पुलकित शरीर होकर हाथ जोड़कर मैंने बहुत विनती की ।

दोहा-सुनि सप्रेम मन वानी, देखि दीन निज दास ।

वचन सुखद गम्भीर मृदु, बोले रमा निवास ॥१२२॥

प्रेम सहित मेरी वानी सुनकर और अपने भक्त को दीन देखकर लक्ष्मी-निवास धीरामजी सुखदायक, गम्भीर और मधुर वाणी बोले-

कागमुशुण्डि माँगु वर, अति प्रसन्न मोहि जानि ।

अनिमादिकसिध्दिअपररिधि, मोच्छसकलसुखखानि ॥१२३॥

हे कागमुशुण्डिजी ! मुझे अति प्रसन्न जानकर अनिमादिक आठों सिद्धि, नवों निधि एवं सब सुखों की खान मोक्ष आवि का वर मांग लो ।

ग्यान विवेक विरति विग्याना * मुनि दुर्लभ गुन जे जग जाना

आजु देउँ सब संसय नाही * माँगु जो तोहि भाव मन माहौं

ज्ञान, विवेक, बंधारण्य, विज्ञान और वे अनेक गुण जो संसार में मुनियों को भी दुर्लभ हैं, आज यह सब तुम्हें दूँगा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । तुम्हारे मन में अच्छा लगे, सो माँग लो ।

सुनि प्रभु वचन अधिक अनुरागेउँ * मन अनुमान करन तव लागेउँ

प्रभु कह देन सकल सुख सही * भगति आपनी देन न कहौ

प्रभु के वचन सुनकर मैं अत्यन्त प्रेम में मग्न हो गया, तब अपने मनमें विचार करने लगा कि प्रभु ने मुझे संपूर्ण सुख देने को कहे, यह तो सत्य है । परन्तु अपनी भक्ति देने के लिए नहीं रहा ।

भगति हीन गुन सब सुख. ऐरे * लवन विना बहु व्यन्जन जैसे

भगति हीन सुख कवने काजा * अस विचारि बोलेउ खगराजा

बिना भक्ति के सब गुण और सुख कैसे हैं । जैसे नमक के बिना बहुत से भोजन पशायं । हे पक्षिराज ! बिना भक्ति के सुख किस काम के ? इस प्रकार मन में विचार करके मैं बोला-

जौँ प्रभु होइ प्रसन्न वर देहू * मो पर करहु कृपा अरु नेह

मन भावत वर माँगउँ स्वामी * तुम्ह उदार उर अन्तर

मायाह्वी प्रबल सेना संसार में फैली हुई है। उसके सेनापति काम आदि हैं और योद्धा वनम, कपट और पाचण्ड है।

सो दासो रघुवीर कै, समझें मिथ्या सोपि।

छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहउँ पद रोपि ॥१००॥

वह श्रीरामजी की चेरी है। यद्यपि विचारने पर वह मिथ्या ही हैं, तो मो-हे नाथ ! मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम कृपा के बिना वह नहीं छूटती।

जो माया सब जगत नचावा * जासु चरित लखि काहुँ न पावा
सोइ प्रभु भू विलास खगराजा * नाच नटी इव सहित समाजा

जिस माया ने सब जगत को नचाया है और जिसका चरित्र कोई नहीं देख पाया। हे गुरु ! वही माया प्रभु के अक्रुटि-विलास से अपने समाज सहित नटी के समान नाचती है।

सोइ सच्चिदानन्द धन रामा * अज विग्यान रूप बलधामा
व्यापक व्याप्य अखण्ड अनन्ता * अखिल अमोघ सक्ति भगवन्ता

भगवान-सर्वव्यापक, पूर्ण, अनन्त, सम्पूर्ण, अमोघ, शक्तिमय, सच्चिदानन्दधन, प्राकृत, विज्ञान-स्वरूप और गुणनिधान हैं।

अगुन अगम्य गिरा गोतोता * समदरसो अनद्य अजीता
निर्मल निराकार निरमोहा * नित्य निरञ्जन सुख सन्दोहा

वे निर्गुण, महान, धाणी और इन्द्रियों से परे, समदर्शी, अनित्य, अजेय, निर्मल, निराकार, मोह रहित, नित्य, माया रहित और सुख की राशि हैं।

प्रकृति पार प्रभु सब उर वासी * ब्रह्म निरोह विरज अविनासी
इहाँ मोह कर कारन नाहीं * रवि सन्मुख तम कवहुँ कि जाहीं

प्रभु प्रकृति से परे अन्तर्धामो, ब्रह्म, इच्छा-रहित, निर्विकार और अविनाशी हैं। यहाँ मोह का कारण ही नहीं है। अन्धकार क्या कभी सूर्य के सामने जा सकता है ?

दोहा-भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तनु भूप।

किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप ॥१०१॥

भगवान प्रभु श्रीरामजी ने अपने भक्तों के निमित्त राजा का शरीर धारण कर मनुष्यों के से बहुत ही पवित्र चरित्र किये हैं।

जथा अनेक भेष धरि, नृत्य करइ नट कोइ।

सोइ सोइ भाव दिखावइ, आपुन होइ न सोइ ॥१०२॥

जैसे कोई नट अनेकों बेष धारण कर नृत्य करता है और वही भाव दिखता है, परंतु वह स्वयं वही नहीं हो पाता।

असि रघुपति लोला उरगारी * दनुज विमोहनि जन सुखकारी

काँय वचन मन मम पद, करेसु अचल अनुराग ॥१२७॥

सुनो, काग ! मुझे अपने भयत सदैव प्यारे लगते हैं। ऐसा सततकर छोड़कर, वचन राम मन से मेरे चरणों में निरचल प्रेम करना।

अब सुनु परम विमल मम वानी * सत्य सुगम निगमादि वखानी
निज सिद्धान्त सुनावउ तोही * सुनि मनधरुसव तजिनजु मोही

अब मेरी, सत्य, सहज, वेदादि में वर्णित परम वाणी सुनो-में "निज-सिद्धान्त" सुनाता है, उसे मन में रखो और सब छोड़कर मुझको भजो।

मम माया सम्भव संसारा * जीव चराचर विविध प्रकारा
सब मम प्रिय सब मम उपजाए * सवते अधिक मनुज मोहि भाए

संसार मेरी माया से उत्पन्न है। नाति-नाति के जो चराचर जीव हैं, वे सभी मेरे ही उत्पन्न किये हुए हैं। किन्तु मनुष्य मुझको सबसे अधिक प्यारे हैं।

तिन्हमहँ द्विजद्विजमहँ श्रुतिधारी * तिन्ह महँ निगम धर्म अनुसारी

तिन्हमहँ प्रिय विरक्त पुनि ग्यानी * ग्यानिहु ते अति प्रिय विग्यानी

मनुष्यों में भी ब्राह्मण, ब्राह्मणों में वेद-ज्ञाता, उनमें भी वेदोक्त आचरण पाते, उनमें भी विरक्त मुझे प्रिय हैं।। फिर विरक्तों में ज्ञानी और ज्ञानी से भी अधिक प्रिय विज्ञानी हैं।

तिन्हतेपुनिमोहिप्रिय निज दासा * जेहि गति मोरि न दूसरि आसा

पुनिपुनि सत्य कहउँ तोहि पाहौं * मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाहौं

विज्ञानियों से भी अधिक मुझे अपना दास प्रिय है, जिसे मेरी ही गति है, कोई दूसरा जाता नहीं। मैं बारम्बार तुमसे सब कहता हूँ कि मुझकी भयत के समान प्यारा दूसरा कोई नहीं।

भगति हीन विरञ्चि कित होई * सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई

भगतिवन्त अति नीचहु प्राणी * मोहि प्रानप्रिय अस मम वानी

भक्ति-हीन चाहे ब्रह्मा ही क्यों न हो मुझे सब जीवों के समान ही प्यारा है। परन्तु भक्ति करने वाला अति नीच भी मुझकी प्राणों के समान प्यारा है, ऐसी मेरी प्रीति है।

दोहा-सुवि सुसील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लागि।

श्रुति पुरान कहँ नीति अस, सावधान सुनु काग ॥१२८॥

पवित्र, सुशील और बुद्धिमान सेवक-कहो, किते प्यारा नहीं लगता ? वेद-पुरान ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काग ! तुम मन लगाकर सुनो।

एक पिता के विपुल कुमारा * होई प्रथक गुन सील अचारा

कोउ पण्डित कोउ तापस ग्याता * कोउ धनुवन्त सूर कोउ दाता

एक पिता के अनेक पुत्र अलग-अलग गुण, शील और आचरण पाते होते हैं। कोई विद्वान, कोई तपस्वी, कोई धनी, कोई बाँझा और कोई दानी होता है।

हेतात! आप श्री रघुनाथजी के कृपा-पात्र हैं। श्रीहरि के गुणानुवादां में आपको प्रीति है, जो मुझे सुखदाई है। इसलिए मैं आपसे कुछ छिपाता नहीं हूँ, बहुत ही गूढ़ और मनोहर चरित्र कहता हूँ।

सुनहु राम कर सहज सुभाऊ * जन अभिमान न राखहिं काऊ
संसृति भूल शूलप्रद नाना * सकल सो दुखदायक अभिमाना

मुनिये, रामजी का सहज स्वभाव है कि वे अपने भक्तों के घमण्ड को कभी नहीं रखते। अभिमान संसार में जन्म-मरण का कारण और नाना प्रकार के कष्टों को देने वाला है।

ताते करहिं कृपानिधि दूरी * सेवक पर ममता अति भूरी
जिमि सिसुतनु ब्रन होइ गोसाँई * मातु चिराव कठिन की नाई

इसलिए कृपासिन्धु उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि उनका भक्तों पर बहुत ही प्रेम है। हे स्वामी! जैसे बालक के हृदय में फोड़ा हो जाता है तो माता फड़ा हृदय करके उसे चिरवा देती है।

दोहा—जदपि प्रथम दुख पावइ, रोवइ बाल अधीर।

व्याधि नास हित जननी, गिनत न सो सिसुपीर ॥१०५॥

यद्यपि बालक पहले दुःख पाता है और अधीर होकर रोने लगता है, तो भी व्याधि दूर होने के लिए माता बालक की पीड़ा को नहीं गिनती।

तिमि रघुपति निज दास कर, हरहिं मान हित लागि।

तुलसिदास ऐसे प्रभुहि, कसन भजहु भ्रमत्यागि ॥१०६॥

ऐसे ही श्री रघुनाथजी अपने भक्त के लिए उसके घमण्ड को हर लेते हैं। तुलसीदासजी कहते हैं—भ्रम छोड़कर ऐसे स्वामी को क्यों नहीं भजते?

राम कृपां आपनि जड़ताई * कहहुं खगेस सुनहु मन लाई
जब जब राम मनुज तनु धरहीं * भगत हेतु लीला बहु करहीं

हे गण्डगी! मन लगाकर मुनिये, मंथोरामजी की कृपा और अपनी मर्त्यता की बात कहता हूँ। श्रीरामजी जब जब मनुष्य वेष्ट धारण करते हैं और भक्तों के लिए अनेक चरित्र करते हैं।

तब तब अवधपुरी में जाऊँ * बालचरित विलोकि हरषाऊँ
जन्म महोत्सव देखउँ मैं जाई * वरष पाँच तहँ रहउँ लोभाई

तब तब मैं अयोध्यापुरी को जाता हूँ और प्रभु के बालचरित्र देखकर प्रसन्न होता हूँ। जन्मोत्सव देखता हूँ और तुम्हाकर पाँच वर्ष वहाँ रहता हूँ।

इष्टदेव मम बालक रामा * सोभा वपुस कोटि सत कामा
निज प्रभु बदन निहारि निहारी * लोचन सुफल करउँ उरगारी
लघु वायस वपु धरि हरि सङ्गा * देखउँ बालचरित बहु रङ्गा

यानक रूप श्रीरामजी मेरे इष्टदेव हैं, जिनमें अरुनों कामदेवों की शोभा है। हे गण्डगी!

नेत्रों से मुख रूपा करके माता की ओर देखने लगे कि मूष लगे है।

देखि मातु आतुर उठि धाई * कहि मृदु वचन लिए उर लाई
गोद राखि कराव पय पाना * रघुपति चरित ललित करगाना

यह देखकर माता तुरन्त उठ बोड़ी ओर मधुर वचन कहकर हृदय से लगा लिया। ये गोव में लेकर धोरघुनायजी का चरित गाती हुई मूष पिलाने लगे।

सो०—जे सुख लागि पुरारि, असुभ वेष कृत सिव सुखद।

अवधपुरी नर नारि, तेइ सुख महँ सन्तत भगन ॥ ४ ॥

जिस सुख के लिए सुखवाता पुरारि शिवजी ने अमङ्गल वेष धारण किया है, अवधपुरी के नर-नारी सर्वथ उसी सुख में मान रहते हैं।

सोई सुख लवलेस, जिन्ह वारक सपनेहुँ लहेउ।

ते नहिं गर्नाहिं खगेस ब्रह्म सुखाहिं सज्जन सुमति ॥ ५ ॥

हे गरुड़जी ! उस सुख का कुछ अंश स्वप्न में भी जिन्होंने पा लिया है, वे उत्तम-बुद्धि वाले सत्पुरुष ग्रहणानन्द को भी कुछ नहीं समझते।

मैं पुनि अवध रहेउँ कछु काला * देखेउ वाल विनोद रसाला
राम प्रसाद भगति वर पायउँ * प्रभु पद वन्दि निजाश्रम आयउँ

फिर मैं अवधपुरी में कुछ दिन तक निवास करके प्रभु के बाल-चरित देखता रहा। धीरामचन्द्रजी की कृपा-भक्ति का वर पाकर प्रभु के चरणकमलों में प्रणाम कर मैं अपने आश्रम की लौट आया।

तब ते मोहि न व्यापी माया * जब ते रघुनायक अपनाया
यह सब गुप्त चरित मैं गावा * हरि माया जिमि मोहि रचावा

जब से धोरघुनायजी ने मुझे अपनाया है, तब से मुझे माया नहीं घ्यापी। धीरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित मैंने कह सुनाया।

निज अनुभव अग कहउं खागेसा * विनु हरिभजन न जाहिं कलेसा
राम कृपा विनु सुनु लागराई * जानि न जाइ राम प्रभुताई

हे गरुणजी ! अब मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि बिना हरि-भजन किये क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षिराज ! सुनो, रामजी की कृपा के बिना धीरामजी की महिमा नहीं जानी जाती।

जानें विनु न होइ परतोती * विनु परतोति होइ नहिं प्रीतो
प्रीति विना नहिं भगति दृडाई * जिमि लागपति जल कै चिकनाई

बिना महिमा जाने विश्वास नहीं होता, बिना विश्वास के प्रीति नहीं होती और बिना प्रीति के भयत नहीं होती, जैसे जल की चिकनाई नहीं ठहरती।

सो०—विनु गुरु होइ कि ग्यान, ग्यानकि होइ विरागविनु।

हेतात! आप श्री रघुनाथजी के कृपा-पात्र हैं। श्रीहरि के गुणानुवादों में आपकी प्रीति है, जो मुझे सुखदाई है। इसलिए मैं आपसे कुछ छिपाता नहीं हूँ, बहुत ही गूढ़ और मनोहर चरित्र कहता हूँ।

सुनहु राम कर सहज सुभाऊ * जन अभिमान न राखहिं काऊ
संसृति मूल शूलप्रद नाना * सकलसो दुखदायक अभिमाना

सुनिये, रामजी का सहज स्वभाव है कि वे अपने भक्तों के घमण्ड को कभी नहीं रखते। अभिमान संसार में जन्म-मरण का कारण और नाना प्रकार के कष्टों को देने वाला है।

ताते करहिं कृपानिधि दूरी * सेवक पर ममता अति भूरी
जिमि सिसुतनु व्रन होइ गोसाँई * मातु चिराव कठिन की नाई

इसलिए कृपासिन्धु उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि उनका भक्तों पर बहुत ही प्रेम है। हे स्वामी! जैसे बालक के हृदय में फोड़ा हो जाता है तो माता कड़ा हृदय करके उसे चिरवा देती है।

दोहा—जदपि प्रथम दुख पावइ, रोवइ बाल अधीर।

व्याधि नास हित जननी, गिनत न सो सिसुपीर ॥१०५॥

यद्यपि बालक पहले दुःख पाता है और अधीर होकर रोने लगता है, तो भी व्याधि दूर होने के लिए माता बालक की पीड़ा को नहीं गिनती।

तिमि रघुपति निज दास कर, हरहिं मान हित लागि।

तुलसिदास ऐसे प्रभुहि, कसन भजहु भ्रमत्यागि ॥१०६॥

ऐसे ही श्री रघुनाथजी अपने भक्त के लिए उसके घमण्ड को हर लेते हैं। तुलसीदासजी कहते हैं—भ्रम छोड़कर ऐसे स्वामी को क्यों नहीं भजते ?

राम कृपाँ आपनि जड़ताई * कहहुँ खगेस सुनहु मन लाई
जब जब राम मनुज तनु धरहीं * भगत हेतु लीला बहु करहीं

हे गहड़जी! मन लगाकर सुनिये, मैं श्रीरामजी की कृपा और अपनी मूर्खता की बात कहता हूँ। श्रीरामजी जब जब मनुष्य वेह धारण करते हैं और भक्तों के लिए अनेक चरित्र करते हैं।

तब तब अवधपुरी में जाऊँ * बालचरित विलोकि हरषाऊँ
जन्म महोत्सव देखउँ में जाई * वरष पाँच तहँ रहउँ लोभाई

तब तब मैं अयोध्यापुरी को जाता हूँ और प्रभु के बालचरित्र देखकर प्रसन्न होता हूँ। जन्मोत्सव देखता हूँ और तुलनाकर पाँच वर्ष वहीं रहता हूँ।

इष्टदेव मम बालक रामा * सोभा बपुस कोटि सत कामा
निज प्रभु बदन निहारि निहारी * लोचन सुफल करउँ उरगारी
लघु वायस बपु धरि हरि सङ्गा * देखउँ बालचरित बहु रङ्गा

बालक रूप श्रीरामजी मेरे इष्टदेव हैं, जिनमें अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गहड़जी!

सुन्दर सुख देने वाले धीरघुनायजी का भजन करो ।

निज मति सरिस नाथ मैं गाई * प्रभु प्रताप महिमा खगराई
करेऊँ न कछुकरिजुगतिविसेखी * यह सब मैं निज नयनहि देखी
हे स्वामी ! मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप की महिमा गाई है, मैंने इतमें
कुछ बात युक्तियों से बढ़ाकर नहीं कही । यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है ।

महिमा नाम रूप गुण गाथा * सकल अमित अनन्त रघुनाथा
निज निज मति मुनि हरि गार्वाहि * निगम सेप शिव पार न पावहि

धीरघुनायजी की महिमा-नाम, रूप व गुणों की कथा अगणित जोर अनन्त है । मुनिजन
अपनी बुद्धि के अनुसार हरि-गुण गाते हैं । वेद, सेप और महादेवजी भी उनका पार नहीं पाते ।

तुम्हहि आदि खग मसक प्रजन्ता * नभ उड़ाहि नहिं पावहि अन्ता
तिमि रघुपति महिमा अवगाहा * तात कवहुँ कोउ पावकि थाहा

आपसे लेकर मच्छर तक आकाश में उड़ते हैं परन्तु उसका अन्त नहीं पाते । हे तात ! इसी
प्रकार धीरघुनायजी की महिमा अपरम्पार है । उसकी याह पया कभी कोई वा सकता है ?

राम काम सत कोटि सुभगतन * दुर्गा कोटि अमित अरि मईन
सक्र कोटि सत सरिस विलासा * नभ सत कोटि अमित अवकासा

धीरामचन्द्रजी अरवों कामदेवों के समान सुन्दर देह वाले हैं और अनन्त कोटि दुर्गाओं
के समान शत्रु-नाशक हैं । अरवों इन्द्रों के समान उनका ऐश्वर्य है और अरवों आकाशों के
समान वे अवकाश विस्तार वाले हैं ।

दोहा—मरुत कोटि सत विपुलवल, रवि सतकोटि प्रकास ।

ससि सत कोटि सुसीतल, समन सकल भव त्रास ॥१३१॥

ये अरवों पवनों से भी बढ़कर बतवान हैं, अरवों सूर्यों के समान प्रकाशवान है, अरवों
चन्द्रमाओं के समान शीतल और संतार के दुर्षों का नाश करने वाले हैं ।

काल कोटिसत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग दुरन्त ।

धूम्रकेतु सत कोटि सम, दुराधरप भगवन्त ॥१३२॥

ये अरवों कालों के समान अति कठिन, दुरन्त व दुर्गम हैं वे अरवों धूम्रकेतुओं के तुल्य प्रबल है ।

प्रभु अगाध सत कोटि पताला * समन कोटि सत सरिस कराला
तीरथ अमित कोटि सम पावन * नाम अखिल अध पग नसावन

अरवों पातालों के समान अगाह हैं और अरवों यमों के समान मयंकर हैं । वे करोड़ों तीर्थों के
समान पवित्र करने वाले हैं । प्रभु का नाम समस्त पातकों के संपूह को नाश करने वाला है ।

हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा * सिंधु कोटि सत सम गम्भीरा
कामधेनु सत कोटि समाना * सकल काम दायक

करोड़ों हिमालय के समान धीरघुनायजी स्थिर हैं और अरवों समुद्रों के समान

कन्ध वाल केहरि दर ग्रीवा * चारु चिबुक आनन छवि सींवा

उनकी लाल हथेलियां, उंगलियां और नख मनोहर हैं। लम्बी भुजाओं पर सुन्दर आभूषण हैं। बाल-सिंह के समान कन्धे व शंख के तुल्य गर्दन है। मनोहर ठोड़ी और मुख तो मानो शोभा की सीमा ही हैं :

कलबल बचन अधर अरुनारे * दुइ दुइ दसन बिसद वर बारे

ललित कपोल मनोहर नासा * सकल सुखदससि कर सम हासा

तोतले बचन, लाल-लाल सुन्दर सुन्दर होठ, छोटे-छोटे उज्ज्वल दो-दो दांत हैं। सुन्दर गाल-मनोहर नासिका और चन्द्रमा की किरणों के समान सबको सुख देने वाली मुस्कान है।

नील कञ्ज लोचन भव मोचन * भाजत भाल तिलक गोरोचन

विकट भृकुटि सम श्रवन सुहाए * कुञ्चित कच मेचक छवि छाए

नीलकमल के समान नेत्र भव-भय से छुड़ाने वाले हैं, गोरोचन का तिलक माथे पर शोभायमान है। भौंहें टेढ़ी हैं और कान-सुन्दर व सुहावने हैं, घने काले घुंघराले बाल शोभा दे रहे हैं।

पीत झीनि झिगुली तनु सीही * किलकनिचितवनिभावतिमोही

रूपरासि नृप अजिर बिहारी * नाचहिं निज प्रतिबिम्ब निहारी

पीले रङ्ग की वारीक झुंगली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बड़ी प्रिय है। राजा दशरथ के आंगन में बिहार करने वाले रूप की राशि भगवान अपनी परछाईं देखकर नाचते हैं।

मोहिसनकरहिविधि विधिक्रीडा * बरनत मोहि होति अति ब्रीडा

किलकत मोहि धरन जब धावहिं * चलेउँ भाग तब पूष देखावहिं

मेरे साथ अनेक प्रकार के ऐसे खेल करते हैं, जिन चरित्रों को वर्णन करते हुए मुझे बड़ी लज्जा आती है। जब वे किलकारते हुए मुझे पकड़ने को दौड़ते हैं और मैं भाग जाता हूँ, तब मुझे पूषा दिखाते हैं।

दोहा—आवत निकट हँसहि प्रभु, भाजत रुदन कराहिं।

जाउँ समीप गहन पद, फिर चितव पराहिं ॥११०॥

मेरे निकट आने पर वे हँसते हैं और भागने पर रोते हैं। जब मैं पांव छूने उनके पास जाता हूँ तो वे फिर-फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं।

प्राकृत सिसु इव लीला, देखि भयउ मोहि मोह।

कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानन्द सन्दोह ॥१११॥

साधारण बालक के समान चरित्र देखकर मुझे मोह हुआ कि सच्चिदानन्द भगवान यह क्या लीला कर रहे हैं?

एतना मन आनत खगराधा * रघुवर प्रेरित व्यापी माया

सो माया न दुखित मोहि काहीं * आन जीव इव संसृत नाहीं

पुनिपुनि कागचरन सिर नावा * जानि राम सम प्रेम बढ़ावा
 पिछले मोह को याव करके गरुड़जी बहुत पछताये कि मैंने धनादि द्रव्य को मगुध्य करके माना । गरुड़जी ने कारुमुमुक्षुजी के चरणों में शीरा नयाया और उन्हें धोरामजी के ही समान स्नेह बढ़ाया ।

गुरु विनुभवनिधितरहि न कोई * जों विरञ्चि शंकर सम होई
संसय सर्प ग्रसेउ मोहि ताता * दुखद लहरि कुतर्क बहु भ्राता

बिना गुरु के कोई भवसागर से तर नहीं सकता, चाहे यह द्रव्य और विषयों के समान ही क्यों न हो । वे बोले-हे तात ! मुझे संशयरूपी सर्प ने उस लिया था और यही कुतर्करूपी बहुत-सी दुःख देने वाली लहरें आरहो यों ।

तव सरूप गारुणि रघुनायक * मोहि जिआयउ जन सुखदायक
तव प्रसाद मम मोह नसाना * राम रहस्य अनुपम जाना

भवतों को सुख देने वाले धोरघुनायजी की कृपा से आपका स्वरूप मुझे गारुड़ो हुआ । आपके द्वारा प्रभु ने मुझे जिला लिया । आपको कृपा से मेरा मोह जाता रहा और मैंने भी धोरामजी का अनुपम गूढ़ रहस्य जान लिया ।

दोहा-ताहिप्रसंसिविविध विधि, सोस नाइ कर जोरि ।

वचन विनीत सप्रेम मृदु, बोलेउ गरुड़ वहोरि ॥ १३४ ॥

उनकी विविध प्रकार से प्रशंसा करके मस्तक नवाकर और हाथ जोड़कर प्रेम-पूरवक विनती भरे कोमल वचन से गरुड़जी पुनः बोले-

प्रभु अपने अविवेक ते, बूझउं स्वामी तोहिं ।

कृपासिंधु सादर कहहु, जानि दास निज मोहि ॥ १३५ ॥

हे प्रभो ! हे स्वामी ! अपने अज्ञान के घात में आपसे पूछता हूँ, हे कृपासिंधु ! मुझे तेपक जानकर आवर सहित मेरे प्रश्नों का उत्तर बोजिए ।

तुम्ह सर्वग्य तग्य मम पारा * सुमति सुसील सरल आचारा
ग्यान विरति विग्यान निवासा * रघुनायक के तुम्ह प्रिय दासा

आप सब कुछ जानने वाले, तत्व-ज्ञानी, मोह से परे, बुद्धिमान, सुशील, सरल आचरण वाले, ज्ञान, चराम्य और विज्ञान के स्थान हैं । आप धोरघुनायजी के प्यारे भक्त हैं ।

कारन कवन देह यह पाई * तात सकल मोहि कहहु बुझाई
रामचरित सर सुन्दर स्वामी * पायहु कहाँ कहहु नभगामी

आपने यह कौए की देह किस कारण से पाई ? हे तात ! सब बात मुझे समझाकर कहिये हे स्वामी ! यह सुन्दर 'रामचरित-मानस' आपने कहाँ से पाया ? हे आकाशगामी ! सो कहिये ।

नाथ सुना मैं अस सिव पाहीं * महा प्रलयहुँ नास तव नाशों
मुधा वचन नहि ईश्वर कहई * सोउ मोरें मन संस

जानु पानि धाए मोहि धरना * श्यामल गात अरुन कर चरना

उस खेल का भेद किसी ने नहीं जान पाया, भाइयों और माता पिता आदि ने भी नहीं जाना । श्याम शरीर और लाल २ हाथ पाँव वाले प्रभु घुटनों और हाथों से चलकर मुझे पकड़ने बीड़े ।

जब मैं भागि चलेऊँ उरगारी * राम गहन कहँ भुजा पसारी

जिमि जिमि दूरि उड़ाऊँ अकासा * तहँ हरि भुज देखऊँ निज पासा

हे गरुड़जी ! जब मैं उड़ चला, तब श्रीरामजी ने मुझे पकड़ने को भुजा फँलाई । ज्यों-ज्यों मैं आकाश में उड़कर दूर होता था, त्यों त्यों हरि को भुजा को अपने पास देखता था ।

दोहा—ब्रह्मलोक लागि गयउँ मैं, चितयउं पाछ उड़ात ।

जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजहि मोहि तात ॥११४॥

मैं पीछे को देखता और उड़ता हुआ ब्रह्मलोक तक गया, परन्तु—हे भाई ! श्रीरामचंद्रजी की भुजा और मुझमें केवल दो अंगुल का अन्तर रहा ।

सप्तावरन भेद करि, जहाँ लगें गति मोरि ।

गयउँ तहाँ प्रभु भुज निरखि, व्याकुल भयउँ बहोरि ॥११५॥

सातों आवरणों को भेदकर जहाँ तक मेरी गति थी—वहाँ तक गया, परन्तु वहाँ भी प्रभु की भुजा को देखकर मैं घबड़ा गया ।

मूँदेउँ नयन त्रसित जब भयउँ * पुनि चितवत कोसलपुर गयउँ

मोहि विलोकि राम मुसुकाहीं * बिहँसत तुरत गयउ मुख माहीं

जब मैं घबड़ा गया, तब मैंने आँखें बन्द करलीं । फिर आँखें खोलकर देखा कि मैं पुनः अयोध्या में पहुँच गया हूँ । तब मुझे देखकर श्रीरामजी मुस्कराने लगे और उनके हँसते ही मैं उनके मुख में चला गया ।

उदर माँझ सुनु अण्डज राया * देखउँ बहु ब्रह्माण्ड निकाया

अति विचित्र तहँ लोक अनेका * रचना अधिक एक तें ऐका

हे पक्षिराज ! सुनो, उनके पेट में मैंने बहुत से ब्रह्माण्डों के समूह देखे । वहाँ अनेकों अति विचित्र लोक थे, उनकी रचना एक से एक बढ़कर थी ।

कोटिन्ह चतुरानन गोरीसा * अगनित उडुगन रवि रजनीसा

अगनित लोकपाल जम काला * अगनित भूतल भूमि विसाला

फरोड़ों ब्रह्मा व शिवजी, अगणित नक्षत्र, सूर्य, चन्द्रमा, लोकपाल, यम, काल, पर्वत व भूमि

सागर सरि सर विपिन अपारा * नाना भाँति सृष्टि विस्तारा

सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर * चारि प्रकार जीव सचराचर

अनेक समुद्र, नदी, वन और सृष्टि का विस्तार देखा । देव, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर और चारों प्रकार के जड़ चैतन जीव देवे ।

दोहा—जो नहिं देखा नहिं सुना, जो मनहूँ न समाइ ।

अति नीचहुसन प्रीति, करिअ जानि निज परम हित ॥ ११ ॥

हे सपों के शत्रु गच्छइजो ! वेद-मत से सत्पुरुष ऐसी नीति कहते हैं कि अपना परम हित जानकर महानीच से भी प्रीति करना चाहिए ।

पाट कीट तें होइ, तेहि तें पाटम्वर रुचिर ।

कृमि पालइ सब कोइ, परम अपावन प्राण सम ॥ १२ ॥

रेशम कीड़े से होता है, उससे रेशमो बरत बनते हैं । इसी से परम अपवित्र कीड़े को भी सब लोग अपने प्राणों की भाँति पालते हैं ।

स्वारथ साँच जीव कहुँ ऐहा * मन क्रम वचन राम पद नेहा

सोइ पावन सोइ सुभग सरोरा * जो तनु पाइ भजिअ रघुवीरा

जीवन का सच्चा स्वार्थ यही है कि मन, कर्म और वाणों से धीरामजी के चरणों में स्नेह हो । वही शरीर पवित्र और सुन्दर है, जिस शरीर को पाकर कि धीरपुत्रायजी का भजन किया जाय ।

राम विमुख लहि विधिसम देही * कृषि कोविद न प्रससहिं तेहो

रामभगति एहि तनु उर जामो * ताते मोहि परम प्रिय स्वामो

जो धीरामजी से विमुख है, वह चाहे ब्रह्मा के समान बहेपा जाय, तो भी चतुर विद्वान् उसकी प्रशंसा नहीं करते । हे स्वामो ! इस शरीर से धीरामजी को भक्ति मेरे हृदय में उत्पन्न हुई, इसी से यह शरीर मुझे परम प्रिय है ।

तजहुँ न तनु निज इच्छा मरना * तनु विनु वेद भजन नहिं वरना

प्रथम मोहै मोहि बहुत विगोवा * राम विमुख सुख कवहुँ न सोवा

अपनी इच्छा से मरण होने पर भी मैं इस संसार को नहीं छोड़ता । क्योंकि वेदों में कहा है कि बिना शरीर के भजन नहीं होता । पहले मुझे भी मोहने बहुत सताना था । धीरामजी से विमुख होकर मैं सुख से कभी नहीं सोया ।

नाना जन्म कर्म पुनि नाना * किए जोग जप तप भख दाना

कवन जोनि जन्मेउं जहँ नाहीं * मैं खगेस भ्रमि सब जग माहीं

अनेक जन्म लेकर नाना प्रकार के कर्म, योग, जप, तप, व्रत, दान आदि किये । हे पक्षिराज ! संसार में ऐसी कौनसी योनि है, जिसमें घूम-घूमकर मैं नहीं जन्मा ?

दोहा—प्रथम जन्म के चरित अब, कहउं सुनहु विहगेस ।

सुनि प्रमु पद रति उपजइ, जातें मिटहि कलेस ॥ १३७ ॥

हे पक्षिराज ! सुनिये, अब मैं अपने पूर्व-जन्म के चरित कहता हूँ । उन्हें सुनकर मनु के चरणों में स्नेह उत्पन्न होगा, जिससे बलेग मिट जायेंगे ।

पुरुष कल्प एक प्रमु, कलिजुग मल अध मूल ।

भ्रमत मोहि ब्रह्माण्ड अनेका * बीते मनहुं कल्प सत एका
फिरत फिरत निज आश्रम आयउं * तहें रह पुनि कछु काल गँवायउं

अनेक ब्रह्माण्डों में घूमते २ मानो मुझे सौ कल्प बीत गये । फिरते २ में अपने आश्रम में लौट आया, तब फिर वहाँ रहकर कुछ समय बिताया ।

निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायउं * निर्भर प्रेम हरषि उठि धायउं
देखेउं जन्म महोत्सव जाई * जेहि विधि प्रथम कहा मैं गाई

जब अपने प्रभु का जन्म अयोध्यापुरी में सुन पाया, तब मैं प्रेम में मग्न हो सानन्द उठ बोड़ा । वहाँ जाकर जन्मोत्सव देखा, जैसा कि मैं पहले गा चुका हूँ ।

राम उदर देखेउं जग नाना * देखत बनइ न जाइ बखाना
तहें पुनि देखेउं राम सुजाना * मायापति कृपाल भगवाना

श्रीरामजी के पेट में बहुत से जगत देखे । वे देखते ही बनते थे, कहते नहीं बनते फिर वहाँ माया के स्वामी दयालु भगवान श्रीरामजी को देखा ।

करेउं विचार बहोरि बहोरी * मोह कलित व्यापति मति मोरी
उभय घरी महें मैं सब देखा * भयउ भ्रमित मन मोह विसेखा

मैं बारम्बार विचार करता था । मेरी बुद्धि मोह की कीचड़ में व्याप्त थी, यह सब मैंने दो ही घड़ी में देखा । मन में अधिक मोह से मैं थक गया ।

दोहा—देखि कृपाल विकल मोहि, विहँसे तब रघुवीर ।

विहसत हो मुख बाहेर, आयउं सुनु मतिधीर ॥१२०॥

जब कृपालु श्रीरघुनाथजी ने मुझे व्याकुल देखा तो वे हँस विधे । हे धीर-बुद्धि गरुड़जी ! उनके हँसते ही मैं बाहर आ गया ।

सोइ लरिकार्ई मो सन, करन लगे पुनि राम ।

कोटि भाँति समुझावउं, मनु न लहइ विश्राम ॥१२१॥

फिर श्रीरामजी मेरे साथ वहाँ बाल-लोला करने लगे, मैं करोड़ों भाँति से अपने मन को समझाता था, परन्तु मुझे शान्ति नहीं मिली ।

देखि चरित यह सो प्रभुताई * समुझत देह दसा विसराई
धरनि परेउ मुख आव न वाता * त्राहि त्राहि आरत जनत्राता

यह चरित्र देखकर और उस महिमा को समझते ही मुझे देह की मुधि भूल गई । हे बोन-नक्तों के रक्षक ! मेरी रक्षा कीजिये, यह कहता हुआ धरती पर गिर पड़ा मुख से बात नहीं निकलती थी ।

प्रेमाकुल प्रभु मोहि विलोकी * निज माया प्रभुता तब रोकी
कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ * दीनदयाल सकल दुख हरेऊ

तब प्रभु ने मुझे प्रेम-विबहल देखकर अपनी माया की प्रभुता को रोक लिया और अपना

मारग सोइ जा कहूँ जोइ भावा * पण्डित सोइ जो गाल वजावा

मिथ्यारम्भ दम्भ रत जोई * ता कहूँ सन्त कहूँ सब कोई

जिसको जो अच्छा लगे, वही मार्ग है और वही पण्डित है—जो डोंग मारता है, झूठी बातें करता है और पाषण्ड में लगा है, उसी को सब लोग सन्त कहते हैं।

सोइ सयान जो परधन हारी * जो कर दम्भ सो बड़ आचारी

जो कह झूठ मसखरी जाना * कलियुग सोइ गुनवन्त बखाना

जो पराया धन हर लेता है—वही चतुर है, जो बहुत पाषण्ड करता है—वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलना और हँसी करना जानता है—कलियुग में वही गुणवान् कहलाता है।

निराचार जो श्रुति पथ त्यागी * कलियुग सोइ ग्यानी वैरागी

जाकेँ नख अरु जटा बिसाला * सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला

जो आचार-स्रष्ट और देव-मार्ग को त्यागे हुए हैं—वही कलियुग में भानी और वैरागी है। जिसके बड़े-बड़े नख और लम्बो जटाएँ हैं—कलियुग में वही प्रसिद्ध तपस्वी है।

दोहा—अशुभ वेष भूषण धरें, भच्छाभच्छ जे चाहि।

तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर, पूज्यते कलियुग माहि ॥१४१॥

जो अमङ्गल-वेष और अमङ्गल-भूषण धारण किये हैं और नश्य-अमश्य सब पाते हैं, कलियुग में वही योगी, सिद्ध और वही पूज्य हैं।

सो०—जे अपकारी चार, तिन्ह कर गौरवमान्य तेइ।

मन क्रम वचन लवार, तेइ वकता कलिकाल महूँ ॥ ११ ॥

जो पराया अहित करते हैं, जन्हों को गौरव मिलता है और ये हो धन्य हैं। जो मन, कर्म और वचन से लवार हैं—वे ही कलियुग में वषता कहलाते हैं।

नारि विवस नर सकल गोसाईं * नार्चाहि नट मर्कट की नाईं

सूद्र द्विजन्ह उपदेसहि ग्याना * मेलि जनेऊ लेहि कुदाना

हे गोसाईं! सब पुरुष-स्त्री के वश में हैं और ये नट के पन्जर की नाति नाचते हैं। ब्राह्मणों को—सूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और यज्ञोपवीत गले में डालकर कुदान लेते हैं।

सब नर काम लोभ रत क्रोधी * देव विप्र श्रुति सन्त विरोधी

गुन मन्दिर सुन्दर पति त्यागी * भर्जाहि नारि पर पुरुष अभागी

सब लोग काम, लोभ और क्रोध में रत हैं, देवता, ब्राह्मण, देव और सन्तजनों से विरोध करते हैं। गुणवान् सुन्दर पति को छोड़कर अभागिनो स्त्रियों पर-पुष्ट्यों से प्रीति करते हैं।

सौभागिनी विभूषण हीना * विधवन्ह के सिङ्गार नवीना

गुरु सिष बधिर अन्ध का लेखा * एक न सुनइ एक नहि देखा

सुहागिन-स्त्रियाँ तो आभूषणों से रहित हैं और सिषबानों के निरव-नवे शृंगार होते

हे प्रभु ! जो आप मुझ पर प्रसन्न होकर वर देते हैं और मुझ पर दया व स्नेह करते हैं, तो-
हे स्वामी ! मैं अपना मन-चाहा वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और सबके हृदय की जानते हैं।

दोहा—अविरल भगति विशुद्ध तव, श्रुति पुरान जो गाव ।

जेहि खोजत जोगीस मुनि, प्रभु प्रसाद कोउ पाव ॥१२४॥

आपकी जिस अटल और पवित्र भक्ति को वेद तथा पुराणों ने गाया है, जिसे योगीश्वर
मुनि खोजते हैं और आपकी कृपा से फोई-कोई पाते हैं।

भरत कल्पतरु प्रनत हित, कृपासिन्धु सुखधाम ।

सोइ निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम ॥१२५॥

हे भक्तों के कल्पवृक्ष ! दीन-हितकारी ! हे दया के समुद्र और सुख स्थान श्रीरामजी !
दया करके वही अपनी भवती मुझे दीजिए।

एवमस्तु कहि रघुकुलनायक * बोले वचन परम सुखदायक
सुनु वायस ते सहज सयाना * काहे न माँगिसि अस वरदाना

रघुवंश के स्वामी 'एवमस्तु' कहकर अति सुखदायक वचन बोले—हे कांग ! सुनो, तुम
सहज ही चतुर हो, फिर ऐसा वरदान क्यों न माँगोगे।

सब सुखखानि भगति ते माँगी * नहि जग कोउ तोसम बड़भागी
जो मुनि कोटि जतन नहि लहहीं * जे जप जोग अनल तनु दहहीं

तुमने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली ! संसार में तुम्हारे समान बड़भागी कोई नहीं
है। वे मुनि-जो जप और योग की अग्नि से अपने शरीर को सुखा डालते हैं और करोड़ों
उपायों से भी जिसको प्राप्त नहीं कर पाते।

रीझेउ देखि तोरि चतुराई * माँगेहु भगति मोहि अति भाई
सुनु विहङ्ग प्रसाद अब मोरें * सब शुभ गुन बसिहहि उर तोरें

तुम्हारी चतुराई देखकर मैं रीझ गया। तुमने भक्ति मांगी, सो मुझे बहुत ही अच्छी
लगी। हे पक्षी ! सुनो, अब मेरे प्रसाद से तुम्हारे हृदय में सब अच्छे गुण बसेंगे।

भगति ग्यान विज्ञान विरागा * जोगु चरित्र रहस्य विभागा
जानव ते सब ही कर भेदा * मम प्रसाद नहि साधन खेदा

भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वंराग्य, योग चरित्र और उनके रहस्य के भेदों को तुम जानोगे।
मेरी कृपा से तुम्हें साधन का कष्ट नहीं होगा।

दोहा—माया सम्भव भ्रम सब, अब न व्यापिहहि तोहि ।

जानेसु ब्रह्म अनादि अज, अगुन गुनाकर मोहि ॥१२६॥

अब तुम्हें माया से उत्पन्न भ्रम नहीं सतावेंगे। मुझे ब्रह्म, अनादि, अजन्मा, निर्गुण
और गुणों की ज्ञान जानना।

मोहि भगत प्रिय सन्तत, अस विचारि सुनु काग ।

करहि पाह पावहिं दुख, भय रुच सोक वियोग ॥१४४॥

सब लोग कलियुग में वर्णसंकर और मर्पावा से च्युत होगये। ये पाप करके कुप, भय, रोग, शोक और वियोग पाते हैं।

श्रुति सम्मत हरि भगति पथ, संजुत विरति विवेक।

तेहि न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पन्थ अनेक ॥१४५॥

जो वेद-सम्मत और वैराग्य तथा ज्ञान से युक्त श्रीहरि-भक्ति का मार्ग है, उस पर तो लोग चलते नहीं और अज्ञान के बश अनेक नये पन्थों की कल्पना कर लेते हैं।

बहु दाम सँवारहि धाम जती। विपया हरिलीन्हि न रहि विरती
तपसी धनवन्त दरिद्र गृही। कलि कौतुक तात न जात कही

सन्यासी बहुत-सा धन लगाकर आश्रम सजाते हैं, वैराग्य उनमें नहीं रहा उन्हें विपयों ने हर लिया है। तपस्वी धनवान् और गृहस्थो बरिदो है। हे तात ! कलियुग का कौतुक कुछ नहीं जाना जाता।

कुलवन्ति निकारहिं नारि सती। गृह आनहिं चेरि निवेरि गतो
सुत मानहिं मात पिता तब लौं। अवलानन दीख नहीं जब लौं

पुरुष कुलवन्ती और पतिव्रता स्त्री को घर से निकाल देते हैं और अज्ञो चाल को टांङ्क कर दासी को घर में रखते हैं। लड़के माता-पिता को तब तक ही मानते हैं—जब तक कि वे स्त्री का मुँह नहीं देखते।

ससुरारि पियारि लगी जब तें। रिपु रूप कुटुम्ब भए तब तें
नृप पाप परायन धर्म नहीं। करि दण्ड विडम्ब प्रजा नितहीं

जब से ससुराल प्यारी लगने लगी, तब से कुटुम्बी शत्रु होगये। राजा पाप में लगे गये, उनमें धर्म नहीं रहा। वे नित्य ही प्रजा को दण्ड देकर सताते हैं।

धनवन्त कुलीन मलीन अपी। द्विज विन्ह जनेउ उधार तपो
नहिं मान पुरान न वेदहिं जो। हरि सेवक सन्त सही कलि सो

नीच जाति का होने पर भी 'धनवान्' कुलीन कहलाता है। जनेऊ मात्र ही ब्राह्मणों का विन्ह होगया है और नंगे शरीर रहना ही तपस्वी का रूप है। जो पुरान और वेदों को नहीं मानते-कलियुग में वे ही 'हरि-भक्त' और 'साधू' कहलाते हैं।

कवि वृन्द बहु न उदार सुनी। गुन दूषक त्रात न कोपि गुनी
कलि वारहिं वार दुकाल परै। विनु अन्न दुखी सब लोग मरै

कवि तो बहुत हैं, परन्तु संसार में कोई उदार पुरुष मुने में नहीं आते। गुनी में शोक लगाने वाले हैं, परन्तु गुणी कोई नहीं है। कलियुग में वार-वार प्रकृत पड़ता है, सब लोग अन्न के बिना दुखी हो मरते हैं।

दोहा—सुनु खगेस कलि कपट हठ, दम्भ द्वेश पाखण्ड।

कोउ सर्वग्य धर्मरत कोई * सब पर पितहि प्रीति सम होई
कोउ पितु भगत वचन मन कर्मा * सपनेहुँ जान न दूसर धर्मा

कोई सर्वज्ञ व कोई धर्मत्मा होता है, परन्तु पिता की सब पर एक समान प्रीति होती है, किंतु उनमें जो कोई मन, क्रम, वचन से पिता का भक्त हो, स्वप्न में भी दूसरा धर्म न जानता हो—

जो सुत प्रिय पितु प्रान समाना * जद्यपि सो सब भाँति अयाना
एहि विधि जीव चराचर जेते * त्रिजग देव नर असुर समेते

वह पुत्र पिता को प्राण-प्रिय होता है, चाहे वह सब प्रकार से मूर्ख ही हो। ऐसे ही त्रिलोकी में देवता, मनुष्य व असुरों समेत जितने भी जड़ और चेतन प्राणी हैं—

अखिल विश्व यह मोर उपजाया * सब परि मोहि बराबरि दाया
तिन्ह महँ जो परि हरि मद माया * भजे मोहि मन वच अरु काया

यह समस्त विश्व मेरा ही उत्पन्न किया हुआ है और मेरी दया सब पर एक समान है। वन में जो मद और माया को त्याग कर मन, वाणी तथा देह से मुझे भजते हैं।

दोहा—पुरुष नपुंसक नारि वा, जीव चराचर कोइ।

सर्व भाव भज कपट तजि, मोइ परम प्रिय सोइ ॥१२६॥

पुरुष, नपुंसक, स्त्री अथवा चराचर जीव कोई हो, सब प्रकार से छल छोड़कर जो मेरा भजन करे, वही मुझको बहुत प्यारा है।

सो०—सत्य कहउ खग तोहि, सुचि सेवक मम प्रानप्रिय।

अस विचारि भजु मोहि, परिहरि आस भरोस सब ॥ ३ ॥

हे पक्षिराज ! मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सच्चा भक्त मुझे प्राण-प्रिय है, ऐसा समझकर सब आशा-भरोसा छोड़कर मुझको भजो।

कवहुँ काल नहिं व्यापिहि तोही * सुमिरेसु भजेसु निरन्त मोहो
प्रभु वचनामृत सुनि न अघाऊँ * तनु पुलकित मन अति हर्षाऊँ

तुम्हें कभी काल नहीं, व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभुके वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, पुलकित शरीर से मैं मन में बहुत ही प्रसन्न था।

सो सुख जानइ मन अरु काना * नहिं रसना पहिं जाइ बखाना
प्रभु सोभा सुख जानहिं नयना * किमिकहिसकहिंतिनहिनहिवयना

वह सुख मन और कान ही जानते हैं। जिन्हा से कहा नहीं जा सकता, प्रभु की सुन्दरता का सुख नेत्र ही जानते हैं। वे उसे कैसे कह सकते हैं—उनके जीन तो है ही नहीं।

बहु विधि मोहि प्रबोध सुघ देई * लगे करन सिसु कौतुक तेई
सजल नयनकछु मुख करि रुखा * चितइ मातु लागी अति भूखा

बहुत भाँति से मुझे समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बाल-लीला करने लगे। सम्भ्रन

गुणउ बहुत कहिकाल कर, विनु प्रयास निस्तार ॥१४८॥

हे गरुड़जो ! सुनिये, कलियुग यद्यपि पाप और दोषों का भण्डार है, तो भी इसमें एक विशेष गुण है कि इसमें बिना परिश्रम हो उद्धार हो जाता है ।

दोहा—कृतजुग त्रेताँ द्वापर, पूजा मख अरु जोग ।

जो गति होइसो कलिकाल, नाम ते पावहि लोग ॥१४९॥

सतयुग, त्रेता और द्वापर में पूजा, यज्ञ और योग से जो गति मिलती है, वही गति कलियुग में लोग केवल भगवान के नाम से हो पा जाते हैं ।

कृतजुग सब जोगी विज्ञानी * करि हरि ध्यान तरहि भव प्रानी
त्रेताँ विविध जग्य नर करहीं * प्रभुहि समपि कर्म भव तरहीं

सतयुग में सब योगी और ज्ञानी होकर धीहरि का ध्यान करते हैं, तब भवसागर से नार हो पाते हैं । त्रेतायुग में लोग अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को भगवान के अर्पण करके संसार से पार हो आते हैं ।

द्वापर करि रघुपति पद पूजा * नर भव तरहि उपाय न दूजा
कलियुग केवल हरिगुन गाहा * गावत नर पावहि भव याहा

द्वापर में धीरामजी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तरते हैं, दूसरा उपाय नहीं । परन्तु कलियुग में मनुष्य केवल हरि-गुण गाकर ही भवसागर को पार पा जाते हैं ।

कलियुग जोग न जग्य न ग्याना * एक अधार राम गुन गाना
सब भरोस तजिजो भजिरामहि * प्रेम समेत गाव गुन ग्रामहि

कलियुग में योग, यज्ञ व ज्ञान नहीं हैं केवल राम-गुण-गान ही एक आधार है । जो सब भरोसों को त्यागकर धीरामजी का भजन करते हैं और प्रेम सहित उनके गुण-समूहों को गाते हैं ।

सोइ भव तर कछु संसय नाहीं * राम प्रताप प्रगटि कलि माहीं
कलि कर इक पुनीत प्रतापा * मानस पुन्य होहि नहि पापा

वही भवसागर से तरते हैं, इसमें कुछ भी संसय नहीं । कलियुग में नाम का प्रताप प्रत्यक्ष है । कलियुग का एक और पवित्र प्रताप है कि मन से किया पुण्य तो होता है, परन्तु पार नहीं होता ।

दोहा—कलिजुग सम जुग आननहिं, जो नर कर विश्वास ।

गाइ राम गुन गन विमल, भव तर विनहिं प्रयास ॥१५०॥

कलियुग के समान दूसरा युग नहीं है । जो मनुष्य विश्वास रखकर धीरामजी के चरितों का गान करे तो बिना ही प्रयास के संसार से तर जावे ।

प्रगट चारि पद धर्म के, कलि महुँ एक प्रधान ।

जैन केन विधि दीन्हें, दान करइ कल्याण ॥१५१॥

धर्म के चार चरण प्रतिष्ठ हैं, उनमें से कलियुग में एक दान ही मुख्य है । कितने भी विधि से दिया गया दान कल्याण ही करता है ।

गावहिं वेद पुरान सुख कि लहिअ हरिभगति विनु ॥ ६ ॥

गुरु के बिना क्या ज्ञान और ज्ञान के बिना क्या वैराग्य हो सकता है ? वेद व पुराण कहते हैं कि श्रीहरि-भक्ति के बिना क्या सुख मिलता है ?

कोउ विश्राम कि पाव, तात सहज सन्तोष विनु ।

चलै कि जल विनु नाव, कोटि यतन पचिपचिमरिअ ॥ ७ ॥

हे तात ! स्वाभाविक सन्तोष के बिना क्या कोई विश्राम पा सकता है ? करोड़ों उपाय करके पच-पच मरिये, परन्तु फिर भी क्या बिना जल के नाव चल सकती है ?

विनु सन्तोष न काम नसाहों * काम अछत सुख सपनेहुं नाहीं

रामभजनविनु मिटिहि किकामा * थल बिहीन तरुकवहुं कि जामा

सन्तोष के बिना कामना नष्ट नहीं होती और कामनाओं के रहते हुए स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता । श्रीरामजी के भजन के बिना क्या कामनायें मिट सकती हैं ? क्या पृथ्वी के बिना वृक्ष कभी जमा है ?

विनु विज्ञान कि समता आवई * कोउअवकास कि नभ विनु पावइ

श्रद्धा बिना धर्म नहिं होई * बिनु भहि गन्ध न पावइ कोई

विज्ञान के बिना क्या भाव आता है ? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश (पोल) पा सकता है ? श्रद्धा के बिना धर्म-कार्य नहीं हो सकते क्या पृथ्वी-तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है ?

विनु तप तेज कि कर विस्तारा * जल विनु रस कि होइ संसारा

शीलकि मित्तु विनु बुध सेवकाई * जिमि विनु तेज न रूप गोसाईं

बिना तप के क्या तेज फल सकता है ? बिना जल के संसार में क्या रस हो सकता है ? बुद्धिमान को तप बिना क्या शील मिल सकता है ? हे स्वामी ! जैसे तेज के बिना रूप नहीं मिलता ।

निज सुख विनु मनहोइकिधीरा * परम कि होइ विहीन समीरा

कवनिउ सिद्धि कि विनु विश्वासा * विनु हरिभजन न भवभय नासा

आत्म-सुख के बिना क्या मन स्थिर रह सकता है ? वायु के बिना क्या स्पर्श हो सकता है ? विश्वास के बिना क्या कोई सिद्धि मिल सकती है ? हरि-भजन के बिना संसाररूपी भय का नाश नहीं हो सकता है ।

दोहा—विनु विश्वास भगति नहिं, तेहिं विनु द्रवहिं नरामु ।

राम कृपा विनु सपनेहुं, जीव न लह विश्रामु ॥१३०॥

विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना श्रीरामजी क्या नहीं करते । श्रीराम जी भी कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी विश्राम नहीं पा सकता ।

सो०—अस विचारि मति धीर, तजि कुतर्क संसय सकल ।

भजहु राम रघुवीर, कत्नाकर सुन्दर सुखद ॥ ८ ॥

हे धीर-बुद्धि ! ऐसा विचार कर सब कुतर्क और संशयों को छोड़कर कृष्णानिधान और

वहाँ एक वेद-ज्ञाता ब्राह्मण सदैव शिव-पूजन किया करता था, उसे कोई दूसरा काम नहीं था वह परम साधु परमार्थ का जानने वाला शिवजी का उपासक था, परन्तु धोहरि-निन्दक न था तेहि सेवउँ मैं कपट समेता * द्विज दयाल अति नीति निकेत वाहिज नम्र देखि मोहि साईं * विप्र पढ़ाव पुत्र को नाई

मैं उसकी सेवा कपट से करता था, वह बड़ा दयालु और नीतिवान था। हे स्वामी! ऊपर से नम्र देखकर ब्राह्मण ने मुझे पुत्र के समान पढ़ाया।

सम्भु मन्त्र मोहि द्विजवर दीन्हा * सुभ उपदेश विविध विधि कोन्हा जपउँ मन्त्र सिव मन्दर जाई * हृदय दम्भ अहमित अधिकारी

फिर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मुझे शिवजी का मन्त्र दिया और अनेक प्रकार का उपदेश दिया। मैं शिवालय में जाकर शिव-मन्त्र जपता था, मेरे हृदय में पापघ्न और अहंकार बसा गया।

दोहा—मैं खल मल संकुल मति, नीच जाति वस मोह।

हरिजन द्विज देखे जरउँ, करउँ विष्णु कर द्रोह ॥१५४॥

मैं दुष्ट, मलिन-बुद्धि, नीच जाति का मोह बसा ब्राह्मण और भक्तों को देखते ही नत जाता था और धोहरि से द्रोह करता था।

सो०—गुन नित मोहि प्रबोध, दुखित देखि आचरन मम।

मोहि उपजइ अतिक्रोध, दम्भिहि नीति कि भावई ॥१५॥

गुरुदेव मुझे नित्य समझाते और आचरणों को देख बुझो होते थे, पर मुझे बहुत क्रोध आता था। दम्भी को क्या नीति भली लगती है ?

एक वार गुरु लोन्हा बोलाई * मोहि नीति बहु भाँति सिखाई सिव सेवा कर फल सुत सोई * अविरल भगति राम पद होई

एक दिन गुरुजी ने मुझे बुलाकर बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र ! शिवजी की पूजा का यह फल है कि धोरामजी के चरणों में प्रविष्ट हो।

रामहिं भजहिं तात शिव धाता * नर पाँवर कै केतिक वाता जासु चरन अज शिव अनुरागी * तासु द्रोह सुख चहसि अनागी

हे तात ! महादेवजी और ब्रह्माजी ने धोरामचन्द्रजी का मन्त्र करते हैं, कुछ मनुष्य को तो यात हो कितनी है ? शिवजी और ब्रह्माजी जिनके चरणों में प्रीति करत हैं, उनमें द्रोह करके, रे अनागे ! तू सुख चाहता है।

हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहेऊ * सुनि खगनाय हृदय मन दहेऊ अधम जाति मैं विद्या पाए * भयउ जया अहि दूध पिआए मानि कुटिल कुभाग्य कुजाती * गुरु कर द्रोह करउ विनराती

गुरुजी ने शिवजी को 'हरि-गुरु-सेवक' कहा, यह सुनकर-हे गुरुजी ! मेरा हृदय बल गया। मैं अधम-जाति का विद्या पाकर ऐसा हो गया, जैसे दूध पिाने से तार। अर्थात् :

भगवान् अरवों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं को देने वाले हैं ।

सादर कोटि अमित चतुराई * विधि सतकोटि सृष्टि निपुनाई
विष्णु कोटि सम पालन कर्ता * रुद्र कोटि सम सत संहर्ता

उनमें करोड़ों सरस्वती के समान चतुराई है, अरवों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचने की निपुणता है । अरवों विष्णुओं के समान पालन-कर्ता और करोड़ों रुद्रों के समान संहार-कर्ता हैं ।

धनद कोटि सत सम धनवाना * माया कोटि प्रपञ्च निधाना
भार धरन सत कोटि अहीसा * निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा

वे अरवों कुवेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान प्रपञ्च रचने वाले हैं । भार उठाने में अरवों शेष, नागों के समान हैं । सीमा और उपमा से रहित प्रभु श्रीराम-चन्द्रजी जगदीश्वर हैं ।

छन्द-निरुपम न उपमा आन राम समान रामु निगम कहैं ।

जिमि कोटिसत खद्योत सम रवि कहत अति लघुता लहैं ॥

एहि भाँति निजनिज मति विलास मुनींस हरिहि बखानहीं ,

प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानहीं ॥

श्रीरामचन्द्रजी उपमा रहित हैं, उनकी उपमा नहीं है । वेद कहते हैं कि श्रीरामजी के समान श्रीरामजी ही हैं । जैसे अरवों जुगुनुओं को सूर्य के समान कहने में बहुत ही छोटापन लगता है, इसी प्रकार अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार मुनीश्वर श्रीहरि का गान करते हैं । प्रभु तो भाव-भाव के ग्राहक और बहुत दयालु हैं, प्रेम से सुनकर सुख मानते हैं ।

दोहा-राम अमित गुनसागर, थाह कि पावइ कोइ ।

सन्तन्ह सनजसिकछु सुनेउँ, तुम्हहि सुनायउँ सोइ ॥१३३॥

श्रीरामचन्द्रजी तो अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या कोई उनकी थाह पा सकता है ? मैंने सन्तजनों से जैसा कुछ सुना था, वैसा ही आपको सुनाया ।

सो०-भाव वस्य भगवान्, सुख निधान करुना भवन ।

तजि ममता मद मान, भजिअ सदा सीता रमन ॥ ८ ॥

सुख के समुद्र, करुणानिधान भगवान् भाव के वश में हैं । इसलिए ममता, मद और मान को छोड़कर सर्वदा सीतापति श्रीरामजी का भजन करना ही उचित है ।

सुनि भुशुण्डि के वचन सुहाए * हरषित खगपति पंख फुलाए
नयन नीर मत अति हरषाना * श्रीरघुपति प्रताप उर आना

कामभुशुण्डिजी के मनोहर वचन सुनकर गरुड़जी ने प्रसन्न होकर अपने पंख फेला दिये, उन्होंने श्रीरघुनाथजी का प्रताप हृदय में धारण किया । उनकी आँखों में जल आ गया और मन बहुत प्रसन्न हुआ ।

पाछिल मोह समुझि पछिताना * ब्रह्म अनादि मनुज करिजाना

महादेवजी का शप मुनकर गुरुदेव ने हा-हाकार किया। मुझे कपिते बेघर जनको बहुत दुःख हुआ।

दोहा—करि दण्डवत सप्रेम द्विज, सिव सन्मुख कर जोरि।

विनय करत गद्गद् गिरा, समुझि घोर गति मोरि ॥१५८॥

तब मेरी भयङ्कर गति समझकर वे ब्राह्मण प्रेम सहित शिवजी के सामने हाथ जोड़कर दण्डवत करके गद्गद वाणी से स्तुति करने लगे—

नमामीशमीशान निर्वाण रूपं। विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं

निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। चिदाकाश माकाश वाशं भजेऽहं

हे ईशान विशा के ईश्वर, मोक्ष-स्वरूप, विभु व्यापक, ब्रह्म और वेद-स्वरूप। मैं आपकी नमस्कार करता हूँ। स्वतन्त्र, निर्गुण एक रस, इच्छा रहित सूक्ष्म और स्थूल, आकाश में बास करने वाले आपका मैं भजन करता हूँ।

निराकार ओंकार मूलं तुरीयं। गिराग्यान गोतीत मीशं गिरीशं

करालं महाकाल कालं कृपालं। गुणागार संसार पारं नतोऽहं

निराकार, ओंकार की जड़, समाधि पूर्ण, वाणी और इन्द्रियों से परे, कंठारापति, महाकाल के भी काल दयालु, गुणों के भण्डार, संसार से परे मैं आपको नमस्कार करता हूँ।

तुषाराद्रि संकाश गौर गंभीरं। मनोभूत कौटिप्रभा श्रीशरीरं

स्फुरन्मौलि कल्लोलिनीचारुगङ्गा। लसदभाल भालेन्दु कंठे भुजङ्गा

जो हिमालय के समान गौर-वर्ण और गम्भीर हैं, करोड़ों कामदेवों के समान काञ्चिमान शरीर वाले हैं। जिनके मस्तक पर सुन्दर गंगाजी विराजमान हैं, जिनके भात पर का चन्द्रमा तथा गले में सर्प घोभायमान हैं।

चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं। प्रसन्नाननं नीलकंठ दयालं

मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं। प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि

जिनके कानों में चञ्चल कुण्डल हैं, सुन्दर मृदुटो और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नील-कण्ठ और दयालु हैं। जो वाघम्बर धारण किये हैं तथा मुण्ड-माताधारो हैं, उन सबके स्वामी शिवजी को मैं भजता हूँ।

प्रचण्ड प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं। अखण्डं अजं भानुकोटि प्रकाशं

त्रयःशूल निर्मूलनं शूल पाणिं। भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं

तेज पूर्ण, श्रेष्ठ, सामर्थ्यवान परमेश्वर, अखण्ड, अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान देवीप्यमान, तीनों प्रकार के, बुद्धों को दूर करने वाले, हाथ में त्रिशूल किये हुए, भाव मे प्राप्त होने वाले-पार्वतीजी के पति को मैं भजता हूँ।

कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी। सदा सच्चादनानन्द दाता पुर

हे स्वामी ! शिवजी से मैंने ऐसा सुना है कि महाप्रलय में जो आपका नाश नहीं होता । संकरजी असत्य बचन नहीं कहते, यह मेरे मन में संशय है ।

अग जग जीव नाग नर देवा * नाथ सकल जगु काल कलेवा
अण्ड कटाह अभित लयकारी * कालु सदा दुरतिक्रम भारी

हे नाथ ! चराचर जीव, नाग, मनुष्य और देवता आदि सभी इस संसार में काल के कलेवा हैं । असंख्य ब्रह्माण्डों का नाश अनिवार्य है ।

सो०—तुम्हारे न व्यापत काल, अति कराल कारन कवन ।

मोहि सो कहहु कृपाल, ग्यान प्रभाव कि जोग बल ॥ १० ॥

यह भयंकर काल जिस कारण आपको नहीं व्यापता है, हे कृपालु ! वह मुझे कहिये । यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है ?

मोहा—प्रभु तव आश्रम आएँ, मोर मोह भ्रम भाग ।

कारन कवन सो नाथ सब, कहहु सहित अनुराग ॥ १३६ ॥

हे प्रभु ! आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह-भ्रम भाग गया । हे नाथ ! इसका क्या कारण है ? वह सब प्रेम सहित कहिये ।

गरुड़ गिरा सुनि हरषेउ कागा * बोलेउ उमा परम अनुरागा
धन्य धन्य तव सति उरगारी * प्रश्न तुम्हारि मोहि अति प्यारी

हे उमा ! गरुड़जी की वाणी सुनकर भुगुण्डिजी प्रसन्न हुए और सप्रेम बोले-हे गरुड़जी ! आपकी बुद्धि बड़ी धन्य है । आपके प्रश्न मुझे बहुत प्यारे लगे ।

सुनि तव प्रश्न सप्रेम सुहाई * बहुत जन्म कै सुधि मोहि आई
सब निज कथा कहउँ मैं गाई * तात सुनहु सादर मन लाई

तुम्हारे प्रश्न मेरे सुन्दर प्रश्न सुनकर मुझे अनेकों जन्मों की सुधि आई । हे तात ! मैं अपनी कथा वर्णन करता हूँ, मन लगाकर सुना ।

जप तप मद्य सप्त दस व्रत नाना * विरति निवेक जोग विग्याना
सब कर फल रघुपति पद प्रेमा * तेहि विनु कोउ न पावइ छेमा

जप, तप, ध्यान, संयम, दान, व्रत, दान, वैराग्य, योग, विज्ञान आदि इन सबका फल श्रीरघुनाथजी के चरणों में प्रेम होना है । इसके बिना कोई कल्याण नहीं पाता ।

एहि तनु रामभगति में पाई * ताते मोहि ममता अधिकाई
जेहि ते कहु निज स्वारथ होई * तेहि पर ममता कर सब कोई

इस तरीक से मैंने श्रीरामजी की भक्ति पाई है, अतः इस देह पर मुझे अधिक प्रेम है । जिससे अपना कुछ स्वार्थ हो, उस पर सभी लोग प्रेम करते हैं ।

सो०—पन्तगारि अस नीति, श्रुति सम्मत सज्जन कहहि ।

शाप अनुग्रह होइ जेहि, नाय थोरेहि काल ॥१६२॥

हे वीनदयानु शंकरजी ! अब इस पर दयानु हो जाइये । जिससे-हे नाय ! थोड़े हो समय में आपके थाप से इसका छुटकारा हो जाय ।

एहि कर होइ परम कल्याण * सोइ करहु अब कृपानिधाना
विप्र गिरा सुनि परहित सानी * एवमस्तु इति भइ नम वानी

हे कृपानिधान ! अब वही कीजिए, जिससे इसका परम कल्याण हो । ब्राह्मण की परमाय से नरो हुई वाणी सुनकर यह आकाशवाणी हुई- 'एवमस्तु !'

जदपि कोन्ह एहि दारुन पापा * मैं पुनि दीन्ह कोपि कर शापा
तदपि तुम्हारि साधुता देखी * करिहउ एहि पर कृपा विशेषी

यद्यपि इसने घोर पाप किया है और मैंने भी क्रोध करके थाप दिया है, तो भी तुम्हारी सज्जनता देखकर इस पर मैं विशेष कृपा करूँगा ।

क्षमासील जे पर उपकारी * ते द्विज मोहि प्रिय जया खरारी
मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाइहि * जन्म सहस्र अवसि यह पाइहि

हे विप्र ! जो क्षमावान और परोपकारी हैं, वे मुझे ऐसे प्यारे हैं, जैसे रामजी ! मेरा थाप व्यर्थ नहीं जायगा, अतः यह हजार जन्म अवश्य पावेगा ।

जनमत मरत दुसह दुख होई * एहि स्वल्पउ नहि व्यापहि सोई
कवनेउ जन्म मिटहि नहि ग्याना * सुनहु सूद्र मम वचन प्रमाना

परन्तु जन्मने और मरने में जो कठिन दुःख होता है, वह दुःख इसे कुछ नहीं धरेंगे । और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नष्ट नहीं होगा । हे सूद्र ! मेरा प्रानापिक वचन सुन-

रघुपति पुरी जन्म तव भयऊ * पुनि ते मम सेवा मम दयऊ
पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरें * राम भगति उपजहि उर तोरें

श्रीरघुनाथजी की पुरी में तेरा जन्म हुआ, फिर मेरी सेवा में तूने मन लगाना । अब पुरी के प्रभाव से और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम-भक्ति उत्पन्न होगी ।

सुनु मम वचन सत्य अब भाई * हरितोपन व्रत द्विज सेवकाई
अव जनि करसि विप्र अपमाना * जानेसु सन्त अनन्त समाना

हे भाई ! अब तू मेरा सत्य वचन सुन-ब्राह्मण सेवा ही धोहरि को द्रव्य करने जाना व्रत है । अब कभी ब्राह्मण का अपमान मत करना और सन्तों को सर्वत्र ब्रह्मण के समान ही जानना ।

इन्द्र कुलिस मम सूल विशाला * काल दण्ड हरि चक्र कराला
जौं इन्ह कर मारा नहि मरई * विप्र द्रोह पावक सो जरई

इन्द्रके वचन, मेरे विशाल त्रिशूल, कालके दण्ड व धोहरि के कठिन चक्र का मारा नो नो ।

नर अरु नारि अवध रत, सकल निगम प्रतिकूल ॥१३८॥

हे प्रभु ! पहले कल्प में पहिली कलियुग पाप की जड़ था । पुनः और इसी तमो अवधों और वेद के विरोधी थे ।

तेहि कलियुग कोललपुर जाई ✽ जन्मत अवधें सुदू तनु पाई
सिध वैचक बल क्रम अरु बानी ✽ जान देव निन्दक अभिमानी

उसी कलियुग में अवधपुरी में जाकर मैं सुदूरका तरोर पाकर जन्मा । मैं बल, क्रम और बल से शिवजी का भक्त था, परन्तु अन्य देवताओं का निन्दक और घमण्डो था ।

धन अरु मत्त परम बाचाना ✽ उर बुद्धि उर दम्भ विशाला
जदपि रहेउं रघुपति राजधानी ✽ तदपि न कछु प्रहिमा तव जानी

धन के चयने में मत्त रहता हुआ मैं बड़ा बकबासीया मेरी बुद्धि तो बड़ी थी और मैं घमण्डो था । यद्यपि मैं रामजी की राजधानी में रहता था, तो भी मैंने तब उसकी महिमा कुछ नहीं जानी ।

अब मैं जाना अवध प्रभावा ✽ निगमग्राम पुरान अस गावा
कवनहुं जन्म अवध बस जाई ✽ राम परायन सो परि होई

अवधपुरी का प्रभाव मैंने जाना । वेद, शास्त्र और पुराणों में ऐसा कहा है कि कोई किसी भी जन्म में अवधपुरी में वास करे तो यह जन्म तमय अवश्य श्रीराम का भक्त हो जायगा ।

अवध प्रभाव जान तव प्रानी ✽ जव उर बसहि राम धनुषानी
सो कलिकाल कठिन उरगारी ✽ पाप परायन सब नर नारी

अयोध्याके प्रभाव हो प्राची तमो जानता है, अब श्रीरामजी धनुषबाण द्वारा मैंने लिए उसके हृदय में वास करें । हे गण्डगी ! यह कलियुग बड़ा कठिन था, क्योंकि सब नर-नारी पापमें लिप्त थे ।

बोहा—कलिमल प्रसे धर्म सब, लुप्त भए, सदग्रन्थ ।

दग्निमृत्निजमतिकल्पिकरि, प्रगट किए बहु पाप्य ॥१३९॥

कलि-काल में पापों ने सब धर्मों को क्या किया, सदग्रन्थ लुप्त हो गये । पापविश्यों ने जगती धर्म से कल्पना करके अनेक पाप प्रकट कर दिये

भए जात सब मोह बस, लोभ प्रसे शुभ कर्म ।

सुनि हरिजान ग्याननिधि, कहउ कछुक कलि धर्म ॥१४०॥

मैंने सब मोह के बस हो गये, लोभ ने शुभ-कर्मों को धम किया । हे जानवान गण्डगी ! अब कलियुग के कुछ धर्म कहता हूँ, तो सुनिये—

वरन धर्म नहि आथम चारी ✽ धृति विरोध रत सब नर नारी
द्विज धृति वैचक भूप प्रजासन ✽ कोउ नहिमान निगम अनुसासन

कलियुग में धर्म, धर्म और नारी आपस नहीं रहते । सब नर-नारी वेद के विरोध में जाते रहते हैं । ब्राह्मण-धर्मों के बंधन वाले, राजा-प्रजा को या जाने वाले होते हैं, वेद को माना ही कोई नहीं मानता ।

मन ते सकल वासना भागी * केवल राम चरन लय लागी
बड़ा होने पर पिता ने मुझे पढ़ाया। मैंने तमसा, मुना, विचार किया, पर पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगा। मन से सब इच्छायें दूर हो गईं, केवल धीरामजी के चरणों में लगन लग गई।

कहु खगेस अस कवन अभागी * खरी सेव सुनधेनुहि त्यागी
प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई * हारेउ पिता पढ़ाइ पढ़ाई
हे गुरुजी! कहिये, कौन ऐसा अभागी होगा, जो कामधेनु को छोड़कर गधों को सेवा करेगा? प्रेम में मगन रहने के कारण मुझे कुछ नहीं सुहाता था। पिता पढ़ा पढ़ाकर हार गये।

भए काल बस जव पितु माता * मैं वन गयउ भगत जनमाता
जहँ जहँ विपिन मुनोश्वर पावउ * आश्रम जाइ जाइ तिर नावउ
जब माता-पिता मर गये, तब मैं भक्त-व्यस्तल प्रभुका नजन करने के लिए वन को पलागया। वनमें जहाँ-जहाँ मैं मुनीश्वरों को पाता था, वहाँ-वहाँ उनके आश्रमों में आकर तिर नगता।

बूझउं तिन्हहि राम गुन गाहा * कहहि सुनउं हरपति खगनाहा
सुनत फिरउं हरिगुन अनुवादा * अव्याहत गति शम्भु प्रसादा
मैं उनसे राम-गुण-गाथा पूछता और वे कहते। हे गुरुजी! मैं प्रसन्न होकर मुनता, इसतरह मैं हरि का गुणानुवाद सुनता फिरता था। शिवजी की कृपासे मेरी सब जगह अगाध गति थी।
छूटी त्रिविधि ईषना गादी * एक लालसा उर अति वादी
रामचरन वारिज जव देखौं * तव निज जन्म सुफल करिलेखौं

मेरी तीनों प्रकार (धन, पुत्र, मान) की प्रयत्न इच्छायें जाती रहीं। हृदयमें पहले एक सातता अत्यन्त बढ़ी कि धीरामजी के चरणारविषों के वचन कहे, तब अपना जन्म सुफल समझू।
जेहि पूँछउं सोइ मुनि अस कहई * ईश्वर सर्व भूतमम अहई
निर्गुन मत नहि मोहि सोहाई * सगुन ब्रह्म रति उर अधिकारी
जिस मुनि से पूछता, वह यही कहते कि 'ईश्वर सर्व-भूतमय' है। परन्तु यह निर्गुण-मत मुझे नहीं सुहाता था और सगुण-ब्रह्म में मेरी प्रीति बढ़ रही थी।

दोहा-गुरु के वचन सुरति करि, रामचरन मन लाग।

रघुपतिजस गावत फिरउं, छिन-छिन नव अनुराग ॥१६७॥

गुरु के वचनों को स्मरण करते ही मेरा मन धीरामजी के चरणों में लग गया। मैं क्षण-क्षण में नये प्रेम से धीरघुनायजी का यश गाता फिरता था।

मेरु सिखर बट छायाँ, मुनि लोमस आसीन।

देखि चरन तिर नायउं, वचन कहेउं अति दीन ॥१६८॥

सुमेरु-पर्वत की चोटी पर बट की छाया में तामस-श्रुषि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में शीश नवाया और बहुत ही दीन वचन कहे।

हैं। गुरु और शिष्य का अन्धे और बहिरे का-सा बर्ताव होता है। एक (शिष्य) सुनता नहीं और एक (गुरु) देखता नहीं।

हरइ शिष्य धन सोक न हरई * सो गुरु घोर नरक महुं परई
भातु पिता बालकन्हि बोलावहि * उदर भरे सोइ धर्म सिखावहि

जो गुरु-शिष्य का धनको हरे, परन्तु उसका अज्ञान दूर नहीं करे तो वह गुरु घोर नरक में गिरता है। भाता-पिता अपने बालक को जिससे पेट भरे, वही धर्म सिखाते हैं।

दोहा—ब्रह्म ज्ञान बिनु नारि नर, कर्हि न दूसरि बात।

कौड़ी लागि लोभ बस, कर्हि विप्र गुरु घात ॥१४२॥

स्त्री-पुरुष-ब्रह्मज्ञान के सिवाय दूसरी बात नहीं करते वे लोभ के बश थोड़े से ही धन के लिए ब्राह्मण और गुरु को मार डालते हैं।

वावहि सूद्र द्विजन्ह सन, हम तुम्ह ते कछु घाटि।

जानइ ब्रह्म सो विप्रवर, आंखि देखावहि डाटि ॥१४३॥

शूद्र-ब्राह्मणों से वाद-विवाद करते हैं कि 'हम' तुमसे क्या कम हैं? जो ब्रह्म को जाने वही थोष्ट ब्राह्मण है। ऐसे कपट कर आंख दिखाते हैं।

पर त्रिय लक्ष्मण कपट सयाने * मोह द्रोह समता लपटाने
जे अभेदवादी ग्यानी नर * देखा सैं चरित्र कलियुग कर

जो पराई स्त्री में आसक्त, ठगने में चतुर और मोह, द्वेष तथा समता में फँसे हुए हैं, वे ही ननुष्य अभेदादी (अर्द्धतवादी) जानी कहलाते हैं। मैंने कलियुग के ऐसे चरित्र देखे।

आपु गए अरु तिन्हू घालहि * जे कहुं सत मारग प्रतिपालहि
कल्प कल्प भरि एक एक नरका * परहि जे दूषहि श्रुतिकर तरका

स्वयं तो नष्ट होते ही हैं, परन्तु जो कोई सद्मार्ग पर चलते हैं, उनकी भी नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद को दोष लगाते हैं, वे एक कल्प भर एक २ नरक में पड़े रहते हैं।

जे वरनाश्रम तेलि कुमारा * स्नपच किरात कोल कलवारा
नारि सुई गृह संपति नासी * मूँड़ मुड़ाइ होहि सन्यासी

तेली, कुम्हार, चाण्डाल, किरात, कोल, कलवार आदि जो नीच हैं, वे स्त्री के मरने पर जोर घर की सम्पत्ति नष्ट होजाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी बन जाते हैं।

तैं विप्रन्ह सन पाँय पुजावहि * उभय लोक निज हाथ नसावहि
विप्र निरच्छर लोलुप कामी * निराचार सठ बृषली स्वामी

वे ब्राह्मणों से अपने पाँव पुजाते हैं और अपने हाथों अपने दोनों लोक विगाड़ लेते हैं। ब्राह्मण, सूर्य, लोनी, कामी आचार हीन, मूर्ख और नीच जाति की स्त्री के स्वामी होते हैं।

दोहा—भए वरनशंकर कलि, भिन्न सेतु सब लोग।

बारम्बार अनुपम कथा कहकर सगुण-मत का पण्डन कर, निर्गुण-मत का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी * सगुण निरूपण करि हठ भूरी उत्तर प्रतिउत्तर मैं कीन्हा * मुनि तनु भए क्रोध के चीन्हा

तब मैं निर्गुण-मत का पण्डन करके हठ पूर्वक सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने पार-विवाह किया तो मुनि के हृदय में क्रोध उत्पन्न हुआ।

मुनि प्रभु बहुत अवज्ञा किए * उपज क्रोध ग्यानिन्ह के हिएँ अतिसय रगर करै जाँ कोई * अनल प्रगट चन्दन ते हाँई

हे प्रभो ! मुनिसे, बहुत अपमान किये जाने से ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कोई चन्दन की लकड़ी को बहुत रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जायगी।

दोहा—बारम्बार सकोप मुनि, करइ निरूपण ग्यान।

मैं अपने मन बैठ तब, करउँ विविध अनुमान ॥१७१॥

श्रेष्ठ क्रोध सहित बारम्बार ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं चंठा-चंठा अपने मन में अनेक प्रकार के विचार करने लगा।

क्रोध कि द्वैत बुद्धि विनु, द्वैत कि विनु अग्यान।

माया बस परिछिन्न जड़, जोव कि ईस समान ॥१७२॥

द्वैत-बुद्धि के बिना क्रोध कंसा, और द्वैत-बुद्धि क्या बिना अज्ञान के हो सकता है ? माया के बस में रहने वाला परिछिन्न जड़-जोव क्या ईश्वर के समान हो सकता है ?

कवहुँ कि दुख सबकर हितताकें * तेहि कि दरिद्र परसमति जाकें परद्रोही कि होहि निसंका * कामी नर कि रहहि अकलंका

जो सबका हितकारी है, उसे क्या कमी दुःख हो सकता ? जिसके पास पारस-मणि है, उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है ? परद्रोही क्या निमंत्र्य रह सकता है ? कामी क्या कलङ्क से बच सकता है ?

वंश किरहि द्विज अनहित कीन्हे * कर्म कि होहि स्वरूपहि चीन्हे काहू सुमति किखल संग जामो * सुभगति पावकि परत्रिय गामो

यादमण के साथ बुराई करने पर क्या वंश रह सकता है ? स्वप्न का पहिचान होने पर क्या कर्म हो सकते हैं ? बुरी संगति से क्या किसी को सुबुद्धि उपजती है ? पराई स्वामी क्या कभी अच्छी गति पा सकता है ?

भव कि परहि परमात्मा विदक * सुखी किहोहि कवहुँ हरि निंदक राजु कि रहइ नीति विनु जाने * अघकि रहहि हरिचरित बखाने

ईश्वरके जानने याते क्या संसार में पड़ सकते हैं ? हरि-निंदक क्या कभी सुखी रह सकते हैं ? नीति के जाने बिना क्या राज्य रह सकता है ? हरिगुण गान करने से क्या पाप रह सकते हैं ?

मान मोह मारदि मद, व्यापि रहे ब्रह्मण्ड ॥१४६॥

हे पक्षिराज गरुड़जी ! सुतो-कलियुग में छल, हठ, दम्भ, ईर्ष्या, पाखण्ड, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार संसार भर में फैल रहे हैं ।

तामस धर्म करहिं नर, जप तप व्रत मख दान ।

देव न बरषहिं धरनि जल, वए न जामहिं धान ॥१४७॥

मनुष्य जप, व्रत और दान-तामसी-भाव से करते हैं । देवता पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते और घोषा हुआ अन्न उपजता नहीं ।

छन्द—अबला कच भूषन भूरि छुधा । धीनहीन दुखी ममता बहुधा
सुख चाहहिं मूढ न धर्म रता । मति थोरि कठोर न कोमलता

स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनको भूष बहुत लगती है । धनहीन और अधिक ममता होने के कारण वे दुखी रहती हैं । कलियुग में वे मूर्ख सुख तो चाहती हैं, परन्तु धर्म में प्रीति नहीं करतीं । उनकी बुद्धि थोड़ी और कठोर है, उसमें कोमलता नहीं होती ।

नर पीड़ित रोग न भोग कहीं । अभिमान विरोध अकार नहीं

लघु जीवन सम्वत पञ्चदशा । कल्पांत न नास गुमानु असा

मनुष्य रोग से पीड़ित हैं, उन्हें सुख नहीं मिलता । बिना कारण ही लोग अभिमान और विरोध करते हैं । बस पांच वर्ष की थोड़ी आयु होने पर भी ऐसा घमण्ड है कि मानो कल्पों तक भी नाश नहीं होगा ।

कलिकाल विहाल किए मनुजा । नहिं मानत कोऊ अनु जातनुजा

नहिं तोष विचार न क्षीतलता । सब जातिकुजाति भए मँगता

कलियुग ने मनुष्यों को बेहाल कर डाला । कोई बहिन-बेटी को भी नहीं मानता । न सन्तोष है, न विचार है, न शान्ति है, सब जाति-कुजाति मंगता बन गये हैं ।

इरषा पारुषच्छर लोलुपता । भरपूर रही समता विगता

सब लोग वियोग विषोक हुए । वरनाश्रम धर्म अचार गए

उग्र, कठोरता, छल, लालच हो रहे हैं, समता जाती रहो । सब लोग वियोग व अधिक दुःख से मर पड़े हैं । वर्णाश्रम, धर्म और विचार जाता रहा है ।

दम दान इया नहिं जानपनी । जड़ता पर वंचनताति घनी

तनु पोसक तारि नरा सगरे । परनिन्दक जे जुग मो वगरे

अन्नियों को जीतना, दान, दया और समझदारी किल्ली में नहीं । मूर्खता और ठगार्ई बहुत बढ़ चुके हैं । सब स्त्री-पुरुष अपने शरीर को पुष्ट करने वाले हैं । पराये निन्दक संसार में बहुत पैदा हो गये हैं ।

दोहा—सुनु व्यालारि कराल कलि, मल अवगुन आगार ।

(काकमुमुक्षुजि कहते हैं—) हे गरुड़जी ! श्रुति का इसमें कुछ बोध नहीं था । मउके हृदय में प्रेरणा करने वाले रघुकुल-शिरोमणि धोरामजी हैं । कृपातिग्धु ने मुनि को बुद्धि को भोली करके मेरे प्रेम की परीक्षा ली ।

मनवचक्रम मोहि निज जन जाना * मुनि मति पुनि फेरो भगवाना
ऋषि मम सहज सीलता देखी * रामचरन विश्वास विसेयी

मन, कर्म, वचन से मुझको अपना दास जानकर भगवान् ने फिर मुनि को बुद्धि पतट की । श्रुति ने मेरी सहनशीलता देखी और धोरामचन्द्रजी के चरणों में विश्वास देखा ।

अति विस्मय पुनि पुनि पछताई * सादर मुनि मोहि लोन्ह बुलाई
ममपरितोष विविध विधिकोन्हा * हरपित राम मन्त्र तब दोन्हा

तब मुनि ने बड़े आश्चर्य के साथ बार-बार पछता करके मुझे-आवर पूर्वक बुलाताया । उन्होंने अनेक भांति से मेरा सन्तोष किया, फिर प्रसन्न होकर मुझको राम-मन्त्र दिया ।

बालक रूप राम कर ध्याना * कहेउ मोहि मुनि कृपा निधाना
सुन्दर सुखद मोहि अति भावा * सो प्रयमहिं मैं तुम्हहिं सुनावा

कृपानिधान मुनिने मुझको बाल-स्वरूप धोरामचन्द्रजी का ध्यान बतलाया । सुन्दर मुख देने वाला ध्यान मुझको बहुत ही अच्छा लगा । वह मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ ।

मुनि मोहि कछुक काल तहें राखा * रामचरित मानस तब भाषा
सादर मोहि यह कथा सुनाई * पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई

मुनि ने मुझको कुछ समय तक वहाँ रखा, तब धोरामचरित-मानस का वर्णन किया । आदर सहित मुझे यह कृपा सुनकर मुनि सुन्दर वाणी बोले—

रामचरित सर गुप्त सुहावा * शम्भु प्रसाद तात मैं पावा
तोहि निज भगत रामकर जानी * ताते मैं सब कहेउं बखानी

हे तात ! यह गुड़ और सुन्दर रामचरित-मानस मैंने शिवजी को कृपा से पाया था । तुम्हें धोरामचन्द्रजी का निज-भवत जाना, इसीसे मैंने सब चरित्र तुमसे रूहा ।

रामभगति जिन्ह के उर नार्हो * कबहुँ न तात कहिअ तिन्ह पाहो
मुनिमोहि विविधभांति समुझावा * मैं सप्रेम मुनिपद सिर नावा

हे तात ! जिनके हृदयमें धोरामजीकी प्रपित न हो, उनके आगे यह कृपा कर्म नहीं कहनी चाहिए । मुनि ने मुझे बहुत भांतिसे समझाया, तब मैंने प्रेम से मुनिके चरणोंमें सिर नयाया ।

निज करकमल परसि मम सोसा * हरपित आसिप दीन्ह मुनीसा
रामभगति अबिरल उर तोरे * बसहि सदा प्रसाद अब मोरे

मुनीश्वर ने अपने कर-कमलों से मेरा घोरा स्पर्श करके आनन्द पूर्वक आर्घ्यवाद दिया कि अब मेरे प्रसाद से तुम्हारे हृदय में अटल राम-प्रसिप बसेगी ।

दोहा—सदा रामप्रिय होउ तुम्ह, शुभ गुन भवन अमान ।

नित जुग धर्म होहिं सब केरे * हृदय राम माया के प्रेरे
शुद्ध सत्य समता विग्याना * कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना

युगों के धर्म सबके हृदय में श्रीरामजी की प्रेरणा से नित्य उत्पन्न हुआ करते हैं। शुभ सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, सतयुग का प्रभाव जानो।

सत्य बहुत रज कछु रति कर्मा * सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा
बहु रज स्वल्प सत्व कछु तामस * द्वापर धर्म हरष भए मानस

सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण अधिक हो, सत्वगुण बहुत थोड़ा हो, कुछ तमोगुण भी हो, मन में आनन्द और भय हो—यह द्वापर का धर्म है।

तामस बहुत रजोगुण थोरा * कलि प्रभाव विरोध चहुँ ओरा
बुध जुग धर्म जानि मन माहीं * तजि अधर्म रति धर्म कराहीं

तमोगुण अधिक हो, रजोगुण कम हो, चारों ओर विरोध हो—यह कलियुग का प्रभाव है। बुद्धजन युगों के धर्म जानकर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं।

काल धर्म नहिं व्यापहि ताही * रघुपति चरन प्रीति अति जाही
नट कृत विकट कपट खगराया * नट सेवकाहि न व्यापइ माया

श्रीरघुनाथजी के चरणों में जिनकी अति प्रीति है, उसे काल-धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षि-राज! जैसे नट का किया हुआ विकट कपट और उसकी माया नट के सेवक को नहीं व्यापती।

दोहा—हरिमाया कृत दोष गुण, विनु हरिभजन न जाहिं।

भजिअ राम तजिकाम सब, अस विचारि मन माहिं ॥१५२॥

श्रीहरि की माया के किये हुए दोष गुण हरि-भजन के बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को त्याग कर श्रीरामजी का भजन करना चाहिये।

तेहि कलिकाल वरष बहु, वसेउँ अवध विहँगेस।

परेउँ दुकाल विपति वस, तव मैं गयउँ विदेस ॥१५३॥

हे पक्षिराज! उस कलियुग में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब विपत्ति के कारण मैं परदेश चला गया।

गयउँ उजैनी सुनु उरगारी * दीन मलीन दरिद्र दुखारी
गएँ काल कछु सम्पति पाई * तहें पुनि करउँ शम्भु सेवकाई

हे गरुड़जी! मैं दीन, मलीन, दरिद्री और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ समय बीतने पर थोड़ा धन पाकर मैंने वहाँ शिवजी का पूजन किया।

विप्र एक वैदिक सिन पूजा * करइ सदा तेहि काजु न दूजा
परम साधु परमारथ विन्दक * शंभु उपासक नहिं हरि निन्दक

तब तब जाइ रामपुर रहऊँ * सिसुलीला विलोकि सुख लहऊँ
पुनि उर राखि राम सिसुरूपा * निज आश्रम आवउँ खगभूपा
तब-तब मैं अयोध्या में जाकर रहता हूँ और बाल-लता देखकर मुग्ध पाता हूँ। फिर
हे गरुड़जी ! धीरामजी का बालस्वरूप अपने हृदय में रखकर आश्रम में आजाता हूँ।

कथा सकल मैं तुम्हहि सुनाई * काग देह जेहिं कारन पाई
कहेउँ तात सब प्रश्न तुम्हारी * राम भगति महिमा अति भारी
जिस कारण मैंने कीए की देह पाई, वह सब क्या मैंने आपको सुनाई। हे तात ! मैंने
आपके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। अहा ! धीराम-भक्ति को बड़ी भारी महिमा है।

दोहा—ताते यह तनु मोहि प्रिय, भयउ राम पद नेह।

मुनि प्रभु दरसन पायउ, गयउ सकल सन्देह ॥१७७॥

यह 'काग शरीर' मुझे इसी से प्रिय है कि इससे धीरामजी के चरणों में प्रेम हुआ। प्रभु
के दर्शन पाये और सब सन्देह जाता रहा।

⊗ मासपारायण—उन्तीसवाँ विश्राम ⊗

दोहा—भगतिपच्छहठ करि रहेउ, दीन्ह महाऋषि शाप।

निज दुर्लभ वर पायउ, देखउ भज प्रताप ॥१७८॥

मैं भक्ति-पक्ष पर ही हठ पूर्वक अड़ा रहा, जिससे महर्षि ने मुझे शाप दिया। भजनका
प्रताप तो देखिये कि फिर भी मैंने दुर्लभ वर पाया।

जे असि भगतिजानि परिहरहीं * केवल ग्यान हेतु श्रम करहीं
ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी * खोजत आकु फिरहिं पय लागी

ऐसी भक्ति को जो जान-बूझकर छोड़देते हैं और केवल ज्ञान के लिए परिश्रम करते हैं,
वे मूर्ख अपने घर की कामधेनु को छोड़कर, ब्रूध के लिए अकीए के वृक्ष जोखते फिरते हैं।

सुनु खगेस हरि भगति बिहाई * जे सुख चाहहिं आन उपाई
ते सठ महासिंधु विनु तरनी * तैर पार चाहहिं जड़ करनी

हे पक्षिराज ! सुनिये, जो लोग भगवद्भक्ति को छोड़कर दूसरे उपाय से मुग्ध चाहते हैं, वे
मूर्ख महासागर को बिना नौका के ही अपनी जड़ करनी पर तैर कर पार करना चाहते हैं।

सुनु भुशुण्डि के वचन भवानी * बोलेउ गरुड़ हरपि मृदु वानी
तव प्रसाद प्रभु मम उर माही * संसय सोक मोह भ्रम नाहीं

(शियजी बोले—) हे भवानी ! भुशुण्डिजी के कथन सुनकर गरुड़जी जानंदाित होकर मधुर
वाणी से बोले—हे प्रभो ! आपको कृपा से मेरे हृदय में संसय दुःख, मोह और भ्रम नहीं रहा।

सुनेउ पुनीत राम गुन ग्रामा * तुम्हरी कृपा लहेउ विश्रामा

भाग्य-हीन और जाति का नीच में गुरुजी से रात-दिन द्रोह करने लगा ।

अति दयालु गुरु स्वल्प न क्रोधा * पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा
में खल हृदय कपट कुटिलाई * गुरु हित कहइ न मोहि सोहाई

गुरु बड़े दयालु थे, वे क्रोध नहीं करते थे, मुझे वारंवार अच्छे ज्ञान की शिक्षा देते थे। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता थी गुरुदेव ने मेरी भलाई की बात कही, पर मुझे न सुहाई ।

दोहा—एक बार हर मन्दिर, जपत रहेउँ सिव नाम ।

गुरु आयउअभिमान नत, उठि नहिं कीन्ह प्रनाम ॥१५५॥

मैं एक बार शिवालय में शिवजी का नाम जप रहा था, उसी समय वहाँ गुरुजी आये परन्तु मैंने घमण्ड के मारे उन्हें प्रणाम नहीं किया ।

सो दयालु नहिं कहेउ कछु, उर न रोष लवलेष ।

अति अब गुरु अपमानता, सहि नहिं सके महेश ॥१५६॥

गुरुजी तो दयालु थे । उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उनके मन में कुछ भी क्रोध न था । परन्तु गुरुजी के अपमान से महापाप हुआ, अतः शिवजी उसे न सह सके ।

मन्दिर माँझ भइ नभ बानी * रे हत भाग्य अग्य अभिमानी
जद्यपि तव गुरु कै नहिं क्रोधा * अति कपाल चित सम्यक बोधा

मन्दिर में आकाशवाणी हुई कि अरे अमाने, अज्ञानी ! यद्यपि तेरे गुरु के हृदय में क्रोध नहीं है । वे बड़े दयालु हैं, उनके हृदय में पूर्ण ज्ञान है ।

तदपि साम सठ दैहउँ तोही * नीति विरोध सोहाइ न मोही
जाँ नहिं दण्ड करौँ खल तोरा * भ्रष्ट होइ श्रुति मारग मोरा

तो भी रे दुष्ट ! मैं तुझे शाप दूँगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे नहीं सुहाता । अरे नीच ! यदि मैं तुझे बण्ड न दूँगा तो मेरी सयादा नष्ट हो जायगी ।

जे सठ गुरु सन इरषा करहीं * रौरव नरक कोटि जुग परहीं
त्रिजगजोनि पुनि धरहिं सरीरा * अयुत जन्म भरि पावहिं पीरा

जो गुरु से द्वेष करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौरव-नरक में पड़े रहते हैं । फिर तिर्यक-योनि में जन्म पाकर दस हजार जन्मों तक दुःख पाते हैं ।

बैठि रहेसि अजगर इव पापी * सर्प होहि खल मलमति व्यापी
महा बिटप कोट महुँ जाई * रहु अधमाधम अधगति पाई

रे पापी नीच ! अपने गुरु को देख तू अजगर की भाँति घंटा रहा । तुझे पाप-बुद्धि ने घेर लिया है तू सर्प होजा । रे नीच ! तू अधम गति को पाकर बड़े वृक्ष के खोखले में जाकर रह ।

दोहा—हाहाकार कीन्ह गुरु, दारुन सुनि सिव शाप ।

कम्पित मोहि विलोकि अति, उर उपजा परिताप ॥१५७॥

माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ * नारि वर्ग जानइ सब फोऊ
पुनि रघुवीरहि भगति पियारी * माया खलु नतंको विचारी
मुनिये, माया और भक्ति—ये दोनों स्त्री-जाति हैं, यह सब कोई जानते हैं। फिर भक्ति तो श्रीरघुनाथजी की अति प्यारी है और दुष्ट माया बेचारी तो तदा नाचती रहती है।

भगतिहि सानुकूल रघुराय * ताते तेहि डरपति अति माया
रामभगति निरुपम निरुपाधी * वसहि जासु उर सदा अवाधो
श्रीरघुनाथजी भक्तिके अति अनुकूल हैं, इस कारण भक्ति से माया च्युत डरती है। उसमा और उपाधि रहित राम-भक्ति जिसके हृदय में सर्वव्यतिना वाधा के पास करती है।

तेहि बिलोकि माया सकुचाई * करि न सकइ कछु निज प्रभुताई
अस विचारि जे मुनि विरयानी * जाचहि भगति सकल गुनखानी
उसे देखकर माया लज्जित होती है, अपनी प्रभुता उसपर कुछ नहीं कर सकती। ऐसा विचार कर ही जो जानो मुनि हैं, वे सब गुणों की ध्यान भक्ति को ही मांगते हैं।

दोहा—यह रहस्य रघुनाथ कर, वेगि न जानइ कोइ।

जो जानइ रघुपति कृपा, सपनेहुँ मोह न होइ ॥१८०॥

श्रीरघुनाथजी के इस गूढ़ मर्म को कोई शोध नहीं जान पाता। श्रीरघुनाथजी की कृपा से जो इसे जान लेता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता।

औरउ ग्यान भगति कर, भेद सुनहु सुप्रथीन।

जो सुनि होइ रामपद, प्रीति सदा अविछीन ॥१८१॥

हे चतुर गरुड़जी ! ज्ञान और भक्ति का और भी भेद मुनिये, जिसे मुनकर श्रीरामजी के चरणों में सदा अविच्छिन्न प्रेम हो जाता है।

सुनहु तात यह अकथ कहानी * समुझत वनइ न जाइ बखानी
ईश्वर अंश जीव अविनासी * चेतन अमल सहज सुखरासी
हे तात ! यह अकथनीय कथा मुनिये, जो समझने में आती है, पर कही नहीं जा सकती। जोव ईश्वर का अंश है और अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभावसे ही मुग्ध की राशि (आनन्दमय) है।

सो माया बस भयउ गोसाईं * वैध्यो कीर मकंठ की नाई
जइ चेतनहि ग्रन्थि परि गई * जदपि मृषा छूटत कठिनई
हे स्वामी ! यह माया के बस होकर तोते और चम्बर की प्राप्ति फंस गया है। ऐसे जड़ (माया) व और चेतन (जीव) में गांठ पड़ गई है। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि उसके छूटने में कठिनाई है।

तव ते जीव भयउ संसारो * छूटि न ग्रन्थि न होइ सुखारी
श्रुति पुरान बहु कहेउ उपाई * छूटि न अधिक अधिक अरुझाई
तभी से यह जीव संसारो हो गया है, न तो गांठ छूटती है और न यह मुग्ध होता है। वेदपुराणों ने बहुत से उपाय कहे हैं, परन्तु यह गांठ नहीं छूटती, अधिक अधिक उलझती ही जाती है।

चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी । प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी

कलाओं से परे, कल्याणदाता, कल्प का अन्त करने वाले, सज्जनों को सदा आनन्द देने वाले, सच्चिदानन्दघन, अज्ञान को हरने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभो ! प्रसन्न हूजिए, प्रसन्न हूजिए ।

न यावद उमानाथ पादारविन्दं । भजंतीह लोके परे वानराणां
न तावत्सुखं शान्तिं सन्तापनास । प्रसीद प्रभो सर्वं भूतादिवासं

हे उमानाथ ! जब तक अनुष्य आपके चरणारविन्दों को नहीं भजते, तब तक उन्हें इस लोक में अथवा परलोक में सुख-शान्ति नहीं मिलती और न दुःख का नाश होता है । अतः हे सब जीवों में वास करने वाले प्रभो ! प्रसन्न हूजिए ।

न जानामि योगं जपं नैव पूजा । नतोऽहं सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं
जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानं । प्रभो पाहि आपनन्मामीश शम्भो

हे शम्भु ! मैं न तो योग जानता हूँ, और न जप व पूजा ही । मैं तो सदैव आपको ही प्रणाम करता हूँ । हे प्रभो ! बुढ़ापे और जन्म के दुःखों से क्लेशित मुझ दुखी को दुःख से रक्षा कीजिये । हे ईश्वर ! हे शिवजी ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ ।

श्लोक-रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ।

ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति ॥ ८ ॥

यह रुद्राष्टक ब्राह्मण द्वारा शिवजी की प्रसन्नता के लिए कहा गया । इसको जो भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान् शंकरजी प्रसन्न होते हैं ।

दोहा-सुनि बिनती सर्वग्य सिव, देखि विप्र अनुराग ।

पुनि मन्दिर नभ वानी, भइ द्विजवर वर माँगु ॥१५८॥

जब सर्वज्ञ शिवजी ने ब्राह्मण की बिनती सुनी और प्रेम को देखा, तब मन्दिर में आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ! वर माँगो ।

जौं प्रसन्न प्रभु सो पर, नाथ दीन पर नेहु ।

निज पद भगति देइ प्रभु, पुनि दूसर वर देहु ॥१६०॥

ब्राह्मण बोला-हे प्रभो ! हे नाथ ! जो आप मुझ दीन पर प्रसन्न हैं और स्नेह रखते हैं, तो अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिये ।

तव माया वस जीव जड़, सन्तत फिरइ भुलान ।

तेहि पर क्रोध न करिअ प्रभु, कृपासिन्धु भगवान ॥१६१॥

आपकी माया के वश यह जड़ जीव निरन्तर भूला फिरता है । हे कृपा के समुद्र भगवान् ! इस पर क्रोध न कीजिए ।

शङ्कर दीनदयालु अब, एहि पर होहु दयाल ।

फिर तीनों अवस्थायें (जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तीनों गुण-सत्य, रजतम) रुका रुकान से तुरीयावस्था-रूपी सई को निकाल कर मत्तो-मांति संभालकर उसको ढङ्गे बरती बनावे ।

सो०— एहि विधि लेसै दीप, तेज रासि विद्यानमय ।

जातहिं जासु समीप, जरहिं मदादिक सलम सब ॥ ३ ॥

इस मांति तेजपुञ्ज विज्ञानमय दीपक को जलाये, जिसके पास जाते हो सब याद सब पतंगे जल जायं ।

सोहमस्मि वति आवृत्ति खण्डा * दीप सिखा सोइ परम प्रचण्डा
आतम अनुभव सुख सुप्रकाशा * तव भव मूल भेद भ्रम नासा

'सोहमस्मि' (वह ब्रह्म मैं हूँ), यह जो अण्ड विचार है, वही उस दीपक को बड़े सोइग ज्योति है । जब आत्मानुभव के सुख का प्रकाश अन्दर फैलता है, तब संसार के कारण हुए भेद (भ्रम) का नाश हो जाता है ।

प्रबल अविद्या कर परिवारा * मोह आदि तम मिटइ अपारा
तव सोइ बुद्धि पाइ उजियारा * उर गृह वैठि ग्रन्थि निहारा

और महाबली अविद्या के परिवार-मोह आदि का घोर अन्धकार दूर हो जाता है । तब वही विज्ञान का निरूपण करने वालो बुद्धि उजाता पाकर हृदय-रूपी घरमें बैठकर उस जड़-चेतन की गांठ को खोलती है ।

छोरन ग्रन्थि पाव जो सोई * तव यह जीव कृतारय होई
छोरत गृन्थि जानि खगराया * विघ्न अनेक करइ तव माया

यह बुद्धि उस गांठ को खोल सके, तब यह जीव कृतारय हो । हे पशिरात्र ! गांठ घोलते हुए जानकर माया अनेकों बाधायें करती हैं ।

रिद्ध सिद्धि प्रेरइ बहु भाई * बुद्धिहि लोभ दिखावहि आई
छल बल करिचलि जासि सनीपा * अञ्चल वात बुझावहि दीपा

हे भाई ! वह बहुत-सी श्रद्धि-विद्धिओं को नेत्रों से, जो साक्षर बुद्धि को साधक विद्याओं हैं । वे वाय-पेच और छल-बल करके दोनके के सब बुद्धि अन्धको बाधु से उसे गुमा देती हैं ।

होइ बुद्धि जौ परम सयानी * तिहूतनु चितवन अनहित जानी
जौ तेहि विघ्न बुद्धि नहि वाघी * तौ बहोरि नुर करहि उपाधी

यदि बुद्धि बहुत ही चतुर हुई तो उनको छुड़ बनकर इनको मार नहीं देती । यदि इन विघ्नों में बुद्धि न फँसे तो फिर देवता बाधा करते हैं ।

इन्द्रो द्वार झरोखा नाना * जहें तहें नुर के करि याना
आवत देखहि विषय वयारी * ते हठि देहि कसट उधारी

इन्द्रियों के द्वार अनेक झरोखे हैं, उन प्रत्येक द्वारों पर देवता बाधा करते हैं । जब ये विषयरूपी वायु को आता देखते हैं, तो हठ करके दिखाई देते हैं ।

मरता, वह ब्राह्मण-द्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है।

अस विवेक राखहु मन माहीं * तुम्ह कहँ जग दुर्लभ कछु नाहीं
औरउ एक आसिषा मोरी * अप्रतिहत गत होइहिं तौरी

ऐसा विवेक मन में रखो, फिर तुम्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबोध गति होगी।

दोहा-सुनि सिव वचन हरषि गुर, एवमस्तु इति भाखि।

मोहि प्रबोधि गयउ गृह, शम्भुचरन उर राखि ॥१६३॥

महादेवजी के वचन सुनकर गुरुजी प्रसन्न हुए और 'एवमस्तु' कहकर, मुझे समझाकर व शिवजी के चरणों को हृदय में रखकर घर गये।

प्रेरित काल विंध्य गिरि, जाइ भयउँ मैं ब्याल।

पुनि प्रयास बिनु सो तनु, तजेउँ गएँ कछु काल ॥१६४॥

समय की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर वह शरीर कुछ समय बीतने पर मैंने बिना कष्ट के ही छोड़ दिया।

जोइ तनु धरउँ तजउँ पुनि, अनायास हरिजान।

जिमि नूतन पट पहिरइ, नर पटि हरइ पुरान ॥१६५॥

हे गरुड़जी ! मैं जो शरीर धारण करता, उसे बिना परिश्रम के ही छोड़ देता था। जैसे मनुष्य नये वस्त्र पहिनकर पुराने वस्त्रों को छोड़ देता है।

सिव राखी श्रुतिनीति अरु, मैं नहिं पाव कलेश।

एहिविधि धरेउँ विबिध तनु, ग्यान न गयउ खगेश ॥१६६॥

हे गरुड़जी ! शिवजी ने वेद की मर्यादा रखी और मैंने भी कलेश नहीं पाया। मैंने अनेक शरीर धारण किये, पर मेरा ज्ञान नहीं गया।

त्रिजग देव नर जोइ तनु धरऊँ * तहँ तहँ रामभजन अनुसरऊँ
एक सूल मोहि बिसर न काऊँ * गुर कर कोमल सील सुभाऊँ

पशु, पक्षी, देवता, मनुष्य जो शरीर धारण करता, वहाँ श्रीरामजी का भजन जारी रखता, परन्तु एक दुःख मुझे बना रहा, गुरुजी का कोमल, शील-स्वभाव मुझे कभी नहीं भूला। अन्त देह द्विज कै मैं पाई * सुर दुर्लभ पुरान श्रुति गाई
खेलेउँ तहँ बालकन्ह मीला * करउँ सकल रघुनायक लीला

मैंने अन्त में ब्राह्मण का देह पाया, जो देवताओं की भी दुर्लभ है, ऐसा पुराण और देवों में कहा है। वहाँ मैं बालकों में मिलकर खेलता और सदैव श्रीरघुनायकजी को लीलायें किया करता।

प्रौढ़ भए मोहि पिता पढ़ावा * समुझउँ सुनउँ गुनउँ नहिं भावा

फिर तोनो अवस्थायें (जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तोनो गुण-तारय, रजतम) करा कृपात से तुरीयावस्था-रूपी हुई को निकाल कर मत्तो-मांति संमातकर उसको कड़ी पत्तो बनाये ।

सो०— एहि विधि लेसै दीप, तेज रासि विग्यानमय ।

जातहिं जासु समोप, जरहिं मदादिक सतम सव ॥ ३ ॥

इस भांति तेजपुञ्ज विज्ञानमय दीपक को जलाये, जितके पास जाते हो मय आदि तय पतंगे जल जायं ।

सोहमस्मि ब्रति आवृत्ति खण्डा * दीप सिखा सोइ परम प्रचण्डा
आतम अनुभव सुख सुप्रकाशा * तव भव मूल भेद भ्रम नासा

'सोहमस्मि' (वह ब्रह्म मैं हूँ), यह जो अखण्ड विचार है, यही उस दीपक को बड़ी तीव्र ज्योति है । जब आत्मानुभव के सुख का प्रकाश अन्तर फँसता है, तब संसार के कारण रूप भेद (भ्रम) का नाश हो जाता है ।

प्रबल अविद्या कर परिवारा * मोह आदि तम मिटइ अपारा
तव सोइ बुद्धि पाइ उजियारा * उर गृह वैठि ग्रन्थि निहारा

और महाबली अविद्या के परिवार-मोह आदि का घोर अन्धकार दूर हो जाता है । तब वही विज्ञान का निरूपण करने वाली बुद्धि उजाता पाकर हृदय-रूपी घरमें बैठकर उस जड़-चेतन की गांठ को खोलती है ।

छोरन ग्रन्थि पाव जो सोई * तव यह जीव कृतारय होई
छोरत गृन्थि जानि खगराया * विघ्न अनेक करइ तव माया

यह बुद्धि उस गांठ को खोलसके, तब यह जीव कृतार्थ हो । हे परिवारा ! गांठ खोलते हुए जानकर माया अनेकों बाधायें करती हैं ।

रिद्ध सिद्धि प्रेरइ बहु भाई * बुद्धिहि लोभ दिखावहि आई
छल बल करिचलि जासि समीपा * अञ्चल वात बुझावहि दीपा

हे भाई ! यह बहुत-सी श्रद्धि-सिद्धियों को भेजती है, जो आरुह्य बुद्धि को तात्पर्य रिपातो हैं । वे चाप-पेच और छल-बल करके दीपक के पास पहुँचकर अंचल की वायु से उसे घुसा देती हैं ।

होइ बुद्धि जाँ परम सयानी * तिन्हतनुचितवन अनहित जानी
जाँ तेहि विघ्न बुद्धि नहि वाधी * तौ बहोरि सुर करहि उपाधी

यदि बुद्धि बहुत ही चतुर हुई तो उनको वायु जानकर उनको और नहीं देखती । यदि इन विघ्नों में बुद्धि न फँसे तो फिर देवता बाधा करते हैं ।

इन्द्रो द्वार शरोखा नाना * जहें तहें सुर बैठे करि याना
आवत देखहि विषय वयारी * ते हठि देहि क्साट न्यारी

इन्द्रियों के द्वार अनेक शरोखे हैं, उन प्रत्येक द्वारों पर देवता प्रयास । जब ये विषयरूपी वायु को आता देखते हैं, तो हठ करके क्लियाड़ घाँस देते हैं ।

दोहा—सुनि मम वचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज ।

मोहि सादर पूँछत भए, द्विजआयहुकेहि काज ॥१६६॥

हे गरुड़जी ! मेरे नम्रतायुवत मधुर वचन सुनकर दयालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे—हे विप्र ! आप किस कार्य से यहाँ आये हैं ?

तब मैं कहा कृपानिधि, तुम्ह सर्वज्ञ सुजान ।

सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि कहहु भगवान ॥१७०॥

तब मैंने कहा—हे कृपानिधान ! आप सर्वज्ञ हैं और परम चतुर हैं, हे भगवान् ! सगुण-ब्रह्म की आराधना (की प्रतिक्रिया) आप मुझसे कहिये ।

तब मुनीस रघुपति गुन गाथा * कहे कछुक सादर खगनाथा

ब्रह्मग्यान रत मुनि विग्यानी * मोहि परम अधिकारी जानी

हे गरुड़जी ! तब ऋषि ने श्रीरघुनाथजी के गुणों की कुछ कथायें आदर के साथ कहीं । फिर वे ब्रह्म-ज्ञान में लीन मुनि मुझे उत्तम अधिकारी जानकर—

लागे करन ब्रह्म उपदेसा * अज अद्वैत अगुन हृदयेसा

सकल अनीह अनाम अरूपा * अनुभव गम्य अखण्ड अनूपा

'ब्रह्म'का उपदेश करने लगे कि ब्रह्मा अजन्मा है, निर्गुण है और हृदयका स्वामी है। वह कलाओं से परे, इच्छारहित, नाम रहित, रूप रहित अनुभवसे जानने योग्य, अखण्ड और उपमा रहित है ।

मन गौतीत अमल अविनासी * निर्विकार निरबधि सुखरासी

सो तें ताहि तोहि नहि भेदा * बारि बोचि इव गावहु वेदा

वह मन व इन्द्रियों से परे, निर्वाण, नाश रहित, निर्विकार, निस्सीम तथा सुखों की राशि है, वह 'ब्रह्म' तू है । जल और तरंग की भाँति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है, ऐसा वेद कहते हैं ।

बिबिध भाँति मोहि मुनि समुझावा * निर्गुन मत मम हृदयें न आवा

पुनि मैं कहेउं नाइ पद सीसा * सगुन उपासन कहहु मुनीसा

मुनि ने मुझे बहुत भाँति से समझाया, परन्तु निर्गुणमत मेरे मन में नहीं बँठा । मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा—हे मुनिवर ! मुझे सगुण-ब्रह्म की उपासना बतलाइए ।

रामभगति जल मम मन भीना * किमि बिलगाइ मुनिस प्रवीना

सोइ उपदेस कहहु करि दाया * निज नयनन्हि देखौं रघुराया

राम-भक्तिरूपी जल में मेरा मन मछली हो रहा है । हे मुनिश्वर ! वह उससे अलग कैसे रह सकता है ? आप दया करके मुझे वही उपदेश दीजिए कि मैं अपने नेत्रों से श्रीरघुनाथजी का दर्शन करूँ ।

भरि लोचन बिलोकि अवधेसा * तब सुनिहउं निर्गुन उपदेसा

मुनि पुनि कहि हरिकथा अनूपा * खण्ड सगुन मत अगुन निरूपा

अयोध्यापति श्रीरामजी की नेत्र भरकर देख लूँ, तब निर्गुण का उपदेश मैं सुनूँगा । मुनिने

फिर तीनों अवस्थायें (जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तीनों गुण-सत्त्व, रजतम) इसी क्रमान्ते सुरीयावस्था-रूपी रई को निकाल कर मत्तो-मांति संमातकर उसको कड़ो बरसो बनावे ।

सो०- एहि विधि लेसै दीप, तेज रासि विद्यातमय ।

जातहिं जासु समीप, जरहिं मदादिक सलम तत्र ॥ ३ ॥

इस मांति तेजपुञ्ज विज्ञानमय दीपक को जलावे, जिसके पास जाते हो सब आदि सब पतंगे जल जायं ।

सोहमस्मि वति आवृत्ति खण्डा * दीप सिखा सोइ परम प्रचण्डा
आतम अनुभव सुख सुप्रकाशा * तव भव मूल भेद भ्रम नासा

'सोहमस्मि' (वह ब्रह्म मैं हूँ), यह जो अण्ड विचार है, वही उस दीपक को बड़ी तीव्र ज्योति है । जब आत्मानुभव के सुख का प्रकाश अन्तर फलता है, तब संसार के कारण रूप भेद (भ्रम) का नाश हो जाता है ।

प्रबल अविद्या कर परिवारा * मोह आदि तम मिटइ अपारा
तब सोइ बुद्धि पाइ उजियारा * उर गृह वैठि ग्रन्थि निहारा

और महाबली अविद्या के परिवार-मोह आदि का घोर अन्धकार दूर हो जाता है । तब वही विज्ञान का निरूपण करने वाली बुद्धि उजाला पाकर हृदय-रूपी घरमें बैठकर उस जड़-चेतन की गांठ को खोलती है ।

छोरन ग्रन्थि पाव जो सोई * तव यह जीव कृतारय होई
छोरत गृन्थि जानि खगराया * विघ्न अनेक करइ तव माया

यह बुद्धि उस गांठ को खोल सके, तब यह जीव कृतारय हो । हे परिराज ! गांठ पोतते हुए जानकर माया अनेकों बाधायें करती हैं ।

रिद्ध सिद्धि प्रेरइ बहु भाई * बुद्धिहि लोभ दिखावहि आई
छल बल करिचलि जासि समीपा * अञ्चल वात बुझावहि दीपा

हे भाई ! यह बहुत-सी श्रद्धि-सिद्धियों को भेजती है, जो आकर बुद्धि को सासब विघाती हैं । वे वाय-पेच और छल-बल करके दीपक के पास पहुँचकर अंचल की वायु से उसे घुसा देती हैं ।

होइ बुद्धि जाँ परम सयानी * तिन्हतनुचितवन अनहित जानी
जाँ तेहि विघ्न बुद्धि नहिं बाधी * तौ वहोरि सुर करहि उपाधी

यदि बुद्धि बहुत ही चतुर हुई तो उनको शयु जानकर उनको ओर नहीं देखती । यदि इन विघ्नों में बुद्धि न फँसे तो फिर देवता बाधा करते हैं ।

इन्द्रो द्वार झरोखा नाना * जह तह सुर बैठे करि याना
आवत देखहि विषय ब्यारी * ते हठि देहि कपाट उघारी

इन्द्रियों के द्वार अनेक झरोखे हैं, उन प्रत्येक द्वारों पर देवता अड्डा बनाये बंटे हैं । जब ये विषयरूपी वायु को आता देखते हैं, तो हठ करके ठिक्काई घात देते हैं ।

पावन जस कि पुण्य बिनु होई * बिनु अघ अजस कि पावइ कोई
लाभकिकछु हरिभगति समाना * जेहि गावहिं श्रुति सन्त पुराना

बिना पुण्यके क्या पवित्र यश मिल सकता है और क्या पाप किये बिना कोई अपयश पा सकता है! हरि-भक्तिके समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है, जिसकी महिमा वेद, संत और पुराण गाते हैं ?

हानि कि जग एहि सभ कछु भाई * भजइ न रामहि नर तनु पाई
अघ कि पिसुनता सभ कछु आना * धर्म कि दया सरिस हरिजाना

हे भाई ! संसार में क्या इसके बराबर भी कोई और हानि है कि मनुष्य-देह पाकर भी श्रीरामजी का भजन न किया जाय ? चुगली के बराबर क्या कोई दूसरा पाप है और हे गरुड़जी ! दया के समान कोई दूसरा धर्म है ?

एहि विधि अमित जुगति मनगुनेऊँ * मुनि उपदेश न सादर सुनेऊँ
पुनि पुनि सगुन पच्छु मैं रोया * तब मुनि बोलेउ बचन सकोपा

इस प्रकार मैं श्रुनेकों युक्तियां मन में सोचता और मुनि का उपदेश सादर नहीं सुनता था । जब बारम्बार मैंने सगुण का समर्थन किया, तब मुनि क्रोध भरे वचन बोले—

मूढ़ परम सिख देउं न मानसि * उत्तर प्रत्युत्तर बहु आनसि
सत्य वचन विश्वास न करहीं * बायस इव सबही ते डरहीं

रे मूढ़ ! मैं तुझे उत्तम शिक्षा देता हूँ, उसे तू नहीं मानता और बहुत से उत्तर, प्रत्युत्तर करता है । सत्य वचन का विश्वास नहीं करता और कोए की भांति सभी से डरता है ।

सठ स्वपच्छु तव हृदयँ बिसाला * सपदि होहि पच्छी चाण्डाला
लोन्ह शाप मैं सीस चढ़ाई * नहि कछु भय न दीनता आई

रे शठ ! तेरे हृदय में बहुत पक्षपात है, अतः तू इसी समय चाण्डाल होजा । मुनि का शाप मैंने अपने सिर पर चढ़ा लिया, परन्तु मुझे न तो डर लगा और न दीनता ही आई ।

दोहा—तुरत भयउं मैं काग तब, पुनि मुनिपद सिर नाय ।

सुनिरि राम रघुवंसमनि, हरषित चलेउं उड़ाय ॥१७३॥

मैं तुरन्त कीभा हो गया । तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी का स्मरण करके आनन्द पूर्वक उड़ चला ।

उमा जे रामचरन रत, विगत काम मद क्रोध ।

निज प्रभु भय देखिहिं जगत, केहि सनकरहिं विरोध ॥१७४॥

(शिवजी बोले—) हे पार्वती ! जो श्रीरामजीके चरणों के प्रेमी हैं, वे काम मद और क्रोधसे रहित होकर सब संसार को अपने स्वामी के रूप में देखते हैं, फिर वे किससे विरोध करें ?

सुनु खगेस नहि कछु ऋषिदूषन * उर प्रेरक रघुवंश विभूषन
कृपासिंधु मुनि मति करि भोरी * लोन्हीं प्रेम परिक्षा मोरी

भोजन करिअ तृप्ति हित लागी * जिमि सो असन पचवे जठरा-
असि हरिभगति सुगम सुखदाई * को अस मूढ़ न जाहि सुहा

जैसे तृप्ति के लिए भोजन किया जाता है, परन्तु उस भोजन को जठराग्नि अपने ज्ञान पथ
देती है। जिसे ऐसी सुगम और सुख देने वाली हरि-भक्ति न मुह्ये, ऐसा भूखं चीन होगा।
दोहा—सेवक सेव्य भाव विनु, भवन तरिअ उरगारि।

भजहु राम पद पङ्कज, अस सिद्धान्त विचारि ॥१८७॥

हे गरुड़जी ! 'सेवक' सेवा भाव के बिना संसार से तर नहीं सकते। ऐसा सिद्धान्त समत
कर धोरामजी के चरणकमलों को भजिये।

जो चेतन कहँ जड़ करइ, जड़हि करइ चैतन्य।

अस समर्थ रघुनायकहि, भजहि जीव ते धन्य ॥१८८॥

जो चेतन को जड़ कर देते हैं और जड़ को चेतन कर देते हैं, ऐसे समर्थ धोरघुनायक
को जो प्राणी भजते हैं, वे धन्य हैं।

कहेउँ ग्यान सिद्धान्त बुझाई * सुनहु भगति मनि कौ प्रभुताई

राम भगति चिन्तामनि सुन्दर * बसइ गरुड़ जाके उर अन्तर

मैंने यह ज्ञान का सिद्धान्त समझाकर कहा, अब मनिरूपी भक्ति को प्रभुता मुनिये। हे
गरुड़जी ! जिसके हृदय में यह बसती है—

परम प्रकास रूप दिन राती * नाँह कछु चहिअ दिया घृतवाती

मोह दरिद्र निकट नाँह आवा * लोभ वात नाँह ताहि बुझावा

यह दिन-रात अत्यन्त प्रकाशित रहता है, उसे बिया घी, यत्ती कुछ भी नहीं चाहिए।
मोहरूपी दरिद्र उसके पास नहीं आता और लोभरूपी वायु उसे बुझा नहीं सकती।

प्रबल अविद्या तम मिटि जाई * हरहिं सकल सलभ समुदाई

खल कामादि निकट नाँह जाहीं * बसइ भगति जाके उर माहीं

अविद्या-रूपी अन्धकार मिट जाता है और महादि-रूपी पतङ्गों के समूह हार जाते हैं।
राम आवि दुष्ट उसके पास भी नहीं जाते—जिसके हृदय में भक्ति बसती है।

रल सुधा सम अरि हित कोई * तेहि मनि विनु सुखपावन कोई

शार्पाँह मानस रोग न भारी * जिन्ह के बस सब जीव दुखारी

उनके लिए बिप अमृत के तुल्य और शत्रु मित्र हो जाते हैं। उस मनि के बिना शार्प मुग्ध
पैपाता। जिसके वश हो सब जीव दुखी रहते हैं, वे बड़े-से मानस-रोग उनको नहीं रूपावने।

मभगति मनि उर बस जाके * दुख लवलेश न सपनेहु ताके

र सिरोमनि तेइ जग माहीं * जे मनि लागि सुजतन करगौ

धोराम-प्रवितरूपी मनि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न से भी दुःख नहीं भोगने
में वे हो लोग परम चतुर हैं, जो प्रवितरूपी मनि के लिए उत्तम प्रयत्न करने हैं।

काम रूप इच्छा मरन, ग्यान विराग निधान ॥१७५॥

तुम सदैव श्रीरामजी के प्रिय उत्तम गुणों के स्थान, अहङ्कार रहित, कामरूप, इच्छा से मृत्यु के आधीन एवं ज्ञान और वैराग्य के निधान होओ ।

जेहिं आश्रम तुम्ह बसब पुनि, सुमिरत श्रीभगवन्त ।

व्यापहि तहँ न अविद्या, जोजन एक पर्यन्त ॥१७६॥

फिर जिस आश्रम में तुम श्रीभगवान् का स्मरण करते हुए वसोगे, वहाँ एक योजन तक अविद्या (माया) नहीं व्यापेगी ।

काल कर्म गुण दोष सुभाऊ * कष्टदुख तुम्हहिं न व्यापिहिकाऊ

राम रहस्य ललित विधि नाना * गुप्त प्रगट इतिहास पुराना

काल, कर्म, गुण, दोष स्वभाव आदि से उत्पन्न दुःख तुम्हें कभी नहीं व्यापेगा । श्रीरामजी की गुप्त और प्रगट जितनी सुन्दर कथायें, जो इतिहास और पुराणों में गाई हैं—

बिनु श्रम तुम्ह जानव सब सोऊ * नित नव नेह राम पद होऊ

जो इच्छा करिहहु मन माहीं * हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहीं

वे सब तुम बिना परिश्रम ही जान जाओगे । श्रीरामजी के चरणों में तुम्हारा नित्य-नया अनुराग होगा । तुम मन से जो कुछ करोगे, वह भगवान् की कृपा से कुछ दुर्लभ नहीं होगा ।

सुनि सुनि आसिष सुनु मतिधोरा * ब्रह्म गिरा भइ गगन गभीरा

एवमस्तु तव वच सुनि ग्यानी * यह मम भगत कर्म मन बानी

हे धीर-बुद्धि गरुड़जी ! सुनिये, मुनि की आशीर्वाद सुनकर आकाश से गम्भीर ब्रह्म-वाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि! तुम्हारा वचन ऐसा ही हो । यह मन, कर्म और वाणी से मेरा भक्त है ।

सुनिनभगिरा हरष मोहि भयऊ * प्रेम मगन सब संसय गयऊ

करि विनती सुनि आयसु पाई * पद सरोज पुनिपुनि सिरु नाई

आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ । मैं मन में मगन हो गया और सब सन्देह जाता रहा तब विनती करके मुनि की आज्ञा पाकर उनके चरणों में बारम्बार सिर तवाकर—

हरष सहित एहि आश्रम आयउँ * प्रभु प्रसाद दुर्लभ वर पायउँ

इहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा * बीते कल्प सात अरु बीसा

मैं हर्ष पूर्वक इस आश्रम में आया । प्रभु के प्रसाद से मैंने दुर्लभ वर पाया था । हे पक्षिराज ! सुनो यहाँ बसते हुए मुझे सत्ताईस कल्प बीत गये ।

करउ सदा रघुपति गुनगाना * सादर सुनिहिं विहंग सुजाना

जव जव अवधपुरी रघुवीरा * धरहिं भगत हित मनुज सरीरा

मैं यहाँ सदैव राम-गुण गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर से सुनते हैं । श्रीरामजी जय-जय भवतों के हित के लिए अयोध्या में सरीर धारण करते हैं—

बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख कौन सा है ? सो पोंड़े हो में विचार कर कहिये ।

सन्त असन्त मर्म तुम्ह जानहु * तिन्हकर सहज सुभाउ वधानहु
कवन पुण्यश्रुति विदित विशाला * कहहु कवन अघ परम कराला

सन्त और असन्तों का भेद आप जानते हैं, उनका सहज स्वभाव कहिये । हे छगनु !
वेदों में प्रसिद्ध महान पुण्य और घोर पाप कौनसा है ? सो कहिये ।

मानस रोग कहहु समुझाई * तुम्ह सर्वग्य कृपा अधिकाई
तात सुनहु सादर अति प्रीती * मैं संक्षेप कहउँ यह नीती

फिर मानस-रोगों को समझाकर कहिये, आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर आपको विशेष कृपा है । (मृगुन्नि
जो बोले-) हे तात ! अति आदर और प्रेम के साथ सुनिये, मैं यह नीति संक्षेप में बतला दूँ-

नर तनु सम नहि कविनउँ देही * जीव चराचर जाचत तेही
नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी * ग्यान विराग भगति सुख देनी

मनुष्य-देह के बराबर कोई देह नहीं, चर-अचर सभी जीव नितकी चाहना करते हैं, यह
मानस-देह नरक-स्वर्ग और मोक्ष को सोझी है और ज्ञान, वंशाय व भक्ति मुझको देने चाहते हैं ।

सो तनु धरि हरि भजहि नजे नर * होहिं विषय रत मन्द मन्द तर
काँच किरिच बदलें ते लेहीं * कर ते डारि परसमनि देहीं

ऐसा शरीर पाकर भी जो हरि-भजन नहीं करते और विषयों में प्रीति करते हैं, वे मुझ से जो
बढ़कर मूर्ख हैं । वे हाथसे पारस-मणि को फेंककर, उसके बदले में काँच का टुकड़ा ले लेते हैं ।

नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं * सन्त मिलन सम सुख जग नाहीं
पर उपकार वचन मन काया * सन्त सहज सुभाउ खगराया

जगत में दरिद्रता के समान दुःख नहीं है और सन्त-मिलन के बराबर जगत में सुख नहीं है । हे
गच्छजो ! वचन, मन और शरीर से परोपकार करना, यह सन्तों का सहज स्वभाव है ।

सन्त सहहि दुख परहित लागी * परदुख हेतु असन्त अमागी
भोज तरु सम सन्त कृपाला * परहित नितसह विपति विसाला

दूसरों की भलाई के लिये सन्त दुःख सहते हैं और अमागी असन्त दूसरों को दुःख देने के
लिए । दयालु सन्त भोज-तरु के वृक्ष के समान पराये हित के लिए भारी विपत्ति मरने हैं ।

सन इव खाल पर बन्धन करई * खाल कड़ाइ विपति सहि मरई
खल विनु स्वारथ पर अपकारी * अहि मयक इव सुनु उरगारी

फिर दुष्टजन सन के तुल्य दूसरों को बांधते हैं अपनी खाल घिघयाकर विपत्ति मरकर मरने
हे गच्छजो ! सुनो, दुष्ट अकारण ही दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, जैसे मान और चूने-

पर सम्पदा विनासि नसाहीं * जिमिकृषिह्नितिमउपलविलाहीं
दुष्ट उदय जग आरति हेतू * जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू

ये पराई सम्पदाको नष्ट करने के आप भी मित जाते हैं जैसे मृती को नष्ट करने के अग्नि गत जाते हैं ।
दुष्टजनों का उदय प्रसिद्ध अधम-ग्रह 'केतु' की मूर्ति उदय हो पार देने के लिए होता है ।

एक बात प्रभु पूछते तोही * कहहु बुझाइ कृपानिधि मोही

मैंने आपकी कृपा से पवित्र चरित्र सुने और शान्ति पाई। हे प्रभो! अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, तो मुझे समझाकर कहिये।

कहहि सन्त मुनि वेद पुराना * नहिं कछु दुर्लभ ग्यान समाना

सोइ मुनि तुम्हसुन कहेउ गुसाई * नहिं आदरेहु भगति को नाई

संत, मुनि, वेद और पुराणों का कथन है कि ज्ञान के बराबर कुछ दुर्लभ नहीं है, वह ज्ञान आपसे लोमश ऋषि ने कहा। परन्तु, हे गोसाईं! आपने भक्ति के बराबर उसका आदर नहीं किया।

ग्यानहि भगतिहि अन्तर केता * सकल कहहु प्रभु कृपानिकेता

मुनि उरगारि वचन सुख माना * सादर बोलेउ काग सुजाना

हे कृपा के घाम प्रभो! ज्ञान और भक्ति में कितना अन्तर है? तो सब मुझसे कहिये। गण्डगी के वचन सुन, सुख मानकर चतुर काकमुण्डगी बोले—

भगतिहि ग्यानहि नहिं कछु भेदा * उभय हरहिं भव सम्भव खेदा

तात मुनीस कहहि कछु अन्तर * सावधान सोउ सुनु विहङ्गवर

ज्ञान और भक्ति में कुछ भेद नहीं है, दोनों ही संसार-जनित दुःखों को हर लेते हैं हे तात! इसमें मुनीश्वर कुछ अन्तर बतलाते हैं। हे पक्षीथेष्ठ! उसे सावधान होकर सुनिये।

ग्यान विराम योग विज्ञाना * ए सब पुरुष सुनहु हरिजाना

पुरुष प्रताप प्रबल सब भाँती * अबला अबल सहज जड़ जाती

हे गण्डगी! मुनी-ज्ञान, धैर्य, योग, विज्ञान—ये सब पुरुष हैं। पुरुषों का प्रताप सब तरह से प्रबल होता है और स्त्रियों-स्वभाव से ही बलहीन और जड़-प्रकृति की होती हैं।

बोहा—पुरुष त्यागि सक नारिहि, जो विरक्त मति धीर।

न तु कामी विषया वस, विमुख जो पद रघुवीर ॥१७६॥

जो पुरुष विरक्त और धीर बुद्धि हैं, वे ही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे जो कामी और विषयों में फँसे हुए, श्रीरामायण के चरणों से विमुख हैं।

सो०—सोउ मुनि ग्यान निधान, मृगनयनी विधुमुख निरखि।

विवस होहि हरिजान, नारि विष्णु माया प्रगट ॥ १५ ॥

ज्ञान-निधान मुनि जो मृग-नयनी स्त्री के चन्द्रमुख को देखकर विवश हो जाते हैं। हे गण्डगी! श्रीहरि को माया ही स्त्री-रूप से प्रकट है।

इहाँ न पक्षपात कछु राखहुं * वेद पुरान सन्त मति भापहुं

मोह न नारि नारि के रूपा * पन्धगारि यह रीति अनूपा

मैं यहाँ कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद-पुराण और सन्तों का मत ही कहता हूँ। हे गण्डगी! स्त्री के रूप पर स्त्री मोहित नहीं होती, यह विजयन रीति है।

बोहा—एक व्याधि वस नर मरहि, ए असाधि बहु व्याधि ।

पीड़हि सन्तत जीव कहै, तो किमि लहै समाधि ॥१६१॥

एक ही रोग के बराबर होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं । ये जीव को सदैव क्लेश देते हैं, फिर वह सान्ति कैसे पावे ?

नेम धर्म आचार तप, ग्यान जग्य व्रत दान ।

भेषज पुनि कोटिन्ह नहिं, रोग जाहिं हरि जान ॥१६२॥

हे गुरुजी ! नियम, धर्म, अचार, तपस्या ज्ञान, जप, तप और दान जादि करोड़ों औषधियाँ हैं । परन्तु इनसे ये रोग नहीं जाते ।

एहिविधि सकल जीव गज रोगी * सोक हरष भय प्रीति वियोगो

मानस रोग कछुक में गाए * हहिं सबके लखि विरलेन्हि पाए

इस भाँति जगत में सब रोगी हैं, जो दुःख, भय, प्रीति और वियोग से दुखे हैं । भोग-से मानस-रोग मेंने कहे हैं, ये होते तो सबकी हैं, किन्तु बोड़े हो लोगो ने इन्हे जान पाया है।

जाने ते छीजहिं कछु पापी * नास न पावहिं जन परितापी

विषय कुपथ्य ...

जानने से ये पापी वृ

विषयरूपी कुपथ्य पाकर

रामकृपा नासहिं सब रोगा * जौ एहि भाँति बनै संजागा

सद्गुरु वैद वचन विश्वासा * संजम यह न विषय कै आसा

श्रीराम-कृपा से सब रोग नष्ट हो जायें, यदि संयोग वरत सद्गुरु रूपी पंचों के वचनों पर विश्वास हो और 'विषयों की आशा न करें' यही संजम है ।

रघुपति भगति संजीवन मूरी * अनूपान श्रद्धा मति पूरी

एहिविधि भलेहि सो रोगन साहो * नाहिंत कोटि जतन नहिं जाहो

राम-भक्ति संजीवनी बूँटी है, श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान है । इस प्रकार से मते हो बुरे रोग नष्ट हो जायें, नहीं तो यह करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते ।

जानिअ तब मन विरहज गोसाई * जब उर बल विराग अधिकाई

सुमति छुधा बाढ़इ नित नई * विषय आस दुर्वलता गई

हे गुसाई ! तब ही मन को निरोगी समझना चाहिए, जब हृदय में विराग्य का पल उड़ जाय । सुबुद्धि-रूपी मूष विन-दिन बढ़ती रहे और विषयों की आशाएँ दुर्वलता जाती रूँ।

विमल ग्यान जल जब सो नहाई * तब रह रामभगति उर छाई

सिव अज शुक सनकादिक नारद * जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद

सब कर मत खगनायक एहा * करिअ राम पद पंरुज नेहा

जब शुद्ध ज्ञानरूपी जलसे मनुष्य स्नान करेगा, तब मनमें राम-भक्ति छात्रायेगी । महादेवजी

जीव हृदयं तम मोह विसेषी * ग्रन्थि छूट किमि परइ न देखी
अस संयोग ईस जब करई * तवहुं कदाचित सो सिह अरई

जीव के हृदय में अज्ञानरूपी अंधकार विशेषरूपसे छारहा है, इससे यह गांठ दीख नहीं पड़ती, फिर वह कैसे टूटे ? जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग करे, तब ही वह कदाचित छूट पाती है।

सात्विक श्रद्धा धेनु सहाई * जाँ हरिकृपा हृदय बस आई
जप तप व्रत जम नियम अपारा * जे श्रुति कह सुनु धर्म अचारा

ईश्वर की कृपा से सात्विक श्रद्धारूपी कामधेनु यदि जीव के हृदय में आकर बसे और जप, तप, व्रत, यम, नियम आदि उत्तम धर्म और आचरण जो वेदों में कहे हैं।

तेइ तून हरित चरै जब गाई * भाव भच्छ सिसु पाइ पेन्हाइ
सोइ निवृत्ति पात्र विश्वासा * निर्मल मन अहीर निज दासा

उस (धर्माचार-रूपी) घास को गाय चरे और शुद्ध भावरूपी बछड़े को पाकर पन्हाए। निवृत्ति (विषयों में हटना) रस्ती है, विश्वास बर्तन है, और स्वयं अपने बश में रहने वाला शुद्ध मन अहीर है।

परम धर्ममय पथ दुहि भाई * अवटै अमल अकाम बनाई
तौष मरुत तव छाँ जुड़ावै * धृति सम जावनु देइ जमावै

हे भाई ! ऐसे धर्मरूपी दूध को दुहे, फिर निष्काम भावनारूपी अग्नि से उसे ओटावे, तब सन्तोष और क्षमारूपी वायु से ठण्ड करके संयम तथा धर्मरूपी जामन देकर उसे जमावे।

मुदिताँ मथै विचार मथानी * दम अधार रजु सत्य सुवानी
तव मथि काढि लेइ नदनीता * विमल विराग सुभग सुपुनीता

फिर प्रसन्नतारूपी मटकी में विचाररूपी मथनी को दम्परूपी छम्भे में अटका कर सत्य और मोठी वाणीरूपी थोरी लगाकर उसे मथे और निर्मल एवं अत्यन्त पवित्र वंराग्य रूपी मयघन उसमें से निकाल ले।

दोहा—जोगअगिन करि प्रगट तव, कर्म सुधा शुभ लाइ।

बुद्धि सिरावै ग्यान घृत, ममत मल जरि जाइ ॥१८२॥

फिर योगरूपी अग्नि प्रकट करके अच्छे-बुरे कर्मरूपी ईंधन लगा दे। जब ममतारूपी मल जल जाग तो उस शुद्ध ज्ञानरूपी घी को बुद्धिरूपी वायु से शीतल करे।

तव दिग्ग्यान रूपिनी, बुद्धि विसद घृत पाइ।

चित्त दिया भरि धरै दृढ़, समता दिअटि बनाइ ॥१८३॥

तब विज्ञान का निहणन करने वाला बुद्धिरूपी घी पाकर उसे चित्तरूपी दीपक में भर कर, समदृष्टि रूपी ममता का दीपक बनाकर उस पर धरे।

तीनि अवस्था तीनि गुन, तेहि कपास तें काढि।

तूल तुराय सँवारि पुनि, बाती करै सुगाढि ॥१८४॥

* गरुड़जी द्वारा भुयुण्डिजी को बिनती ३
 प्रभु रघुनायजी को छोड़कर किसकी आराधना की जाय, भुक्त सरोधे मूर्खरामो जिनका
 है ? हे नाय ! आप विज्ञानरूप हैं आपको मोह नहीं है आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है
 पूँछिह रामकथा अति पावनि * शुकसनकादि शम्भु मन भावनि
 सतसंगति दुर्लभ संसारा * निमिष दण्ड भरि एकउ वारा
 आपने मुझसे अति पवित्र राम-कथा पूछी, जो शुकदेवजी, सनकादि और महादेवजी के
 मन को प्रिय है । संसारा में पल भर अथवा घड़ी भर का एक बार सतसङ्ग मो दुर्लभ है ।
 देखि गरुड़ निज हृदय विचारी * मैं रघुवीर भजन अधिकारी
 शकुनाधम सब भाँति अपावन * प्रभुमोहि कोन्हु विदित जगपावन
 हे गरुड़जी ! अपने मन में विचार कर देखिये कि क्या मैं भी धोरघुनायजी के भजन
 का अधिकारी हूँ ? पक्षियों में अधम और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परन्तु प्रभु ने मुझे भी
 संसारा को पवित्र करने वाला कर दिया ।
 दोहा—आजु धन्य मैं धन्य अति, जद्यपि सब विधि हीन ।
 निज जन जानि राम मोहि, सन्त समागम दीन ॥ १८५ ॥
 यद्यपि मैं सब प्रकार से नीच हूँ, तथापि आज मैं अत्यन्त धन्य हूँ । जो धोरामजी ने
 मुझे अपना दास जानकर सन्त-समागम दिया ।
 नाथ जथामति भाषेउँ, राखेउँ नहि कष्टु गोइ ।
 चरित सिन्धु रघुनायक, थाह कि पावइ कोइ ॥ १८६ ॥
 हे नाथ ! मैंने अपनी मति के अनुसार सब कह सुनाया, कुछ भी छिपाया नहीं । धोरघु-
 नायजी के चरित्ररूपी समुद्र को पाह क्या कोई पा सकता है ।
 मिरि राम के गुनगन गाना * पुनि पुनि हरष भुशुण्डि सुजाना
 हिमा निगम नेति करि गाई * अतुलित बल प्रताप प्रमुताई
 धोरामजी के अनेक गुणगनों को स्मरण करके कारुमुयुण्डिजी बारम्बार आनन्दित
 हो जितकी महिमा, अतुलित बल, प्रताप और प्रमुता ये सब ने 'नेति-नेति' कहकर गाई है ।
 अज पूज्य चरन रघुराई * मो पर कृपा परम मृदुनाई
 सुभाय कहूँ सुनेउँ न देखेउँ * केहि खगेस रघुपति सम लेखेउँ
 हावेवजी और ब्रह्मजी भी जिन धोरघुनायजी की चरण-सेवा करते हैं, मुझ पर कृपा
 की परम फौजलता है । ऐसा स्वभाव किसी का न मुझना है और न दृष्टना है ना
 गरुड़जी ! धोरघुनायजी के समान किसी समझें ।
 सिद्ध विमुक्त उदासी * कवि कोविद कृतग्य सन्यासी
 सूर सुतापस ग्यानी * धर्म निरत पण्डित विग्यानी
 सिद्ध, जोषमुक्त, उदासीन, कवि, विद्वान्, तत्त्व-ज्ञाना, मन्थानो, योगी, तपस्वी
 सूर, सुतापस और विज्ञानी आदि—

जीव हृदयं तम मोहं त्रिसेषी * ग्रन्थि छूट किमि परइ न देखी
अस संयोग ईस जब करई * तवहुं कदाचित सो सिरु अरई

जीव के हृदय में अज्ञानरूपी अंधकार विशेषरूपसे छारहा है, इससे यह गाँठ दोख नहीं पड़ती, फिर वह कैसे छूटे ? जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग करे, तब ही वह कदाचित छूट पाती है।

सात्विक श्रद्धा धेनु सहाई * जाँ हरिकृपा हृदय बस आई
जप तप व्रत जम नियम अपारा * जे श्रुति कह सुनु धर्म अचारा

ईश्वर की कृपा से सात्विक श्रद्धारूपी कामधेनु यदि जीव के हृदय में आकर बसे और जप, तप, व्रत, यम, नियम आदि उत्तम धर्म और आचरण जो वेदों में कहे हैं।

तेइ तून हरित चरै जब गाई * भाव भच्छ सिसु पाइ पेन्हाइ
सोइ निवृत्ति पात्र विश्वासा * निर्मल मन अहीर निज दासा

उस (धर्माचार-रूपी) घास को गाय चरे और शुद्ध भावरूपी बछड़े को पाकर पन्हाए। निवृत्ति (विषयों में हटना) रस्सी है, विश्वास बर्तन है, और स्वयं अपने वश में रहने वाला शुद्ध मन अहीर है।

परम धर्ममय पथ दुहि भाई * अवटै अमल अकाम बनाई
तौष मरुत तव छाँ जुड़ावै * धृति सम जावनु देइ जमावै

हे भाई ! ऐसे धर्मरूपी दूध को दुहे, फिर निष्काम भावनारूपी अग्नि से उसे ओटावे, तब सन्तोष और क्षमारूपी वायु से ठण्ड करके संयम तथा धर्मरूपी जामन देकर उसे जमावे।

मुदिताँ मथै विचार मथानी * दम आधार रजु सत्य सुवानी
तव मथि काढ़ि लेइ नवनीता * विमल विराग सुभग सुपुनीता

फिर प्रसन्नतारूपी मटकी में विचाररूपी मयनी को दम्परूपी लुम्मे में अटका कर सत्य और मीठी वाणीरूपी डोरी लगाकर उसे मथे और निर्मल एवं अत्यन्त पवित्र विराग्य रूपी मयखन उसमें से निकाल ले।

दोहा—जोगअग्नि करि प्रगट तव, कर्म सुधा शुभ लाइ।

बुद्धि सिरावै ग्यान घृत, ममत मल जरि जाइ ॥१८२॥

फिर योगरूपी अग्नि प्रकट करके अच्छे-बुरे कर्मरूपी ईंधन लगा दे। जब ममतारूपी मल जल जाग तो उस शुद्ध ज्ञानरूपी घी को बुद्धिरूपी वायु से शीतल करे।

तव विग्यान रूपिनी, बुद्धि विसद घृत पाइ।

चित्त दिया भरि धरै हृद, समता दिअटि बनाइ ॥१८३॥

तव विज्ञान का निरूपण करने वाला बुद्धिरूपी घी पाकर उसे चित्तरूपी दीपक में भर कर, समदर्शित रूपी ममता का दीबट बनाकर उस पर धरे।

तीनि अवस्था तीनि गुन, तेहि कपास तें काढ़ि।

तूल तुराय संवारि पुनि, बाती करै सुगाढ़ि ॥१८४॥

दोहा—तासु चरन सिरु नाइ करि. प्रेम सहित मतिघोर ।

गयउ गरुड़ वैकुण्ठ तव, हृदय राखि रघुवीर ॥१६६॥

तब कागमुशुण्डिजी के चरणों में प्रीतिपूर्वक मस्तक नवाहर घोर-चंडि मरुड़ो धोराम-चन्द्रजी को हृदय में रखकर वैकुण्ठ को चले गये ।

गिरजा सन्त समागम, सम न लाभ कछु आन ।

विनु हरिकृपा न होइ सो, गावहि वेद पुरान ॥२००॥

हे पार्वती ! सन्त समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है । परन्तु यह लाभ मोहरि की कृपा के बिना नहीं होता, यह वेद-पुराण कहते हैं ।

कहेउँ परम पुनीत इतिहासा * सुनत श्रवन छूटाहि भव पासा

प्रनत कल्पतरु करुना पुञ्जा * उपजइ प्रीति राम पद कञ्जा

मैंने यह परम इतिहास कहा, इसको कानों से सुनते हो संसार के बन्धन छूट जाते हैं और वीन-भवतों को कल्पवृक्ष के समान-बया के मूल धोरामचन्द्रजी के चरणकमलों में प्रेम उत्पन्न होता है ।

मन क्रमवचनजनित अघ जाई * सुनहि जे कथा श्रवन मन लाई

तीर्थाटन साधन समुदाई * जोग विराग ग्यान निपुनाई

जो यह राम-कथा कानों से मन लगाकर सुनते हैं, उनके मन, कर्म और वाणों से उत्पन्न पाप नष्ट हो जाते हैं । तीर्थ-यात्रा आदि साधन, योग, धोराम्य और ज्ञानको चतुरता आदि-

नाना कर्म धर्म व्रत दाना * संजम दम जप तप मख नाना

भूत दया द्विज गुन सेवकाई * विद्या विनय विवेक बड़ाई

अनेक कर्म, धर्म, व्रत, दान तथा अनेक संयम, नियम, यत, व्रत व ज्ञानों पर दया, प्राण्य और गुरु को सेवा, विद्या, विनय, विवेक, बड़प्पन तथा-

जहँ लगि साधन वेद बखानी * सबकर फलहरि भगति भवानो

सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई * राम कृपाँ काहँ एक पाई

हे भवानो ! वेदों में जितने साधन कहे हैं, उन सबका फल मोहरि-भक्ति हो है । यह धोराम-भक्ति जो वेदों में गाई है, उसे धोरामजी को कृपा से कितनी बिरसे ने हा पाई है ।

दोहा—मुनिदुर्लभ हरिभगति नर, पारवाहि विनहि प्रयास ।

जे हरि कथा निरन्तर, सुनहि मानि विश्वास ॥२०१॥

जो जोग इस कथा को विश्वास मानकर सर्व-य सुनते हैं, वे बिना परिश्रम हो 'मोहरि-भक्ति' को पा जाते हैं, जो मुनियों को भी दुर्लभ है ।

सोई सर्वग्य गुनी सोइ ग्याता * सोइ महिमण्डित पण्डित दाता

धर्म परायन सोइ कुल त्राता * रामचरन जाकर मन राता

यहो सर्वज्ञ, गुणो, ज्ञानी, पृथ्वी का भूषण, पण्डित, दाता, धर्मात्मा और कुलका रक्षक है । जिसका मन धोरामजी के चरणों में लगा है ।

जीव हृदयं तम मोह विसेषी * ग्रन्थि छूट किमि परइ न देखी
अस संयोग ईस जब करई * तबहुँ कदाचित सो सिरु अरई

जीव के हृदय में अज्ञानरूपी अंधकार विशेषरूपसे छारहा है, इससे यह गाँठ दोख नही पड़ती, फिर वह कैसे छूटे ? जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग करे, तब ही वह कदाचित छूट पाती है।

सात्विक श्रद्धा धेनु सहाई * जाँ हरिकृपा हृदय बस आई
जप तप व्रत जम नियम अपारा * जे श्रुति कह सुनु धर्म अचारा

ईश्वर की कृपा से सात्विक श्रद्धारूपी कामधेनु यदि जीव के हृदय में आकर बसे और जप, तप, व्रत, यम, नियम आदि उत्तम धर्म और आचरण जो वेदों में कहे हैं।

तेइ तून हरित चरै जब गाई * भाव भच्छ सिसु पाइ पेन्हाइ
सोइ निवृत्ति पात्र विश्वासा * निर्मल मन अहीर निज दासा

उस (धर्माचार-रूपी) घास को गाय चरे और शुद्ध भावरूपी बछड़े को पाकर पन्हाए। निवृत्ति (विषयों में हटना) रस्ती है, विश्वास वर्तन है, और स्वयं अपने बश में रहने वाला शुद्ध मन अहीर है।

परम धर्ममय पय दुहि भाई * अवटै अमल अकाम बनाई
तौष मरुत तब छमाँ जुड़ावै * धृति सम जावनु देइ जमावै

हे भाई ! ऐसे धर्मरूपी दूध को दुहे, फिर निष्काम भावनारूपी अग्नि से उसे ओटावे, तब सन्तोष और क्षमारूपी घायु से ठण्ड करके संयम तथा धर्मरूपी जामन देकर उसे जमावे।

मुद्धिताँ मथै विचार मथानी * दम अधार रजु सत्य सुवानी
तव मथि काढ़ि लेइ नवनीता * विमल विराग सुभग सुपुनीता

फिर प्रसन्नतारूपी मटकी में विचाररूपी मथनी को दम्परूपी छम्मे में अटका कर सत्य और मोठी वाणीरूपी डोरी लगाकर उसे मथे और निर्मल एवं अत्यन्त पवित्र वंराय्य रूपी मषखन उसमें से निकाल ले।

दोहा—जोगअग्नि करि प्रगट तब, कर्म सुधा शुभ लाइ।

बुद्धि सिरावै ग्यान घृत, ममत मल जरि जाइ ॥१८२॥

फिर योगरूपी अग्नि प्रकट करके अच्छे-बुरे कर्मरूपी ईंधन लगा दे। जब ममतारूपी मल जल जाग तो उस शुद्ध ज्ञानरूपी घी को बुद्धिरूपी वायु से शीतल करे।

तब विग्यान रूपिनी, बुद्धि विसद घृत पाइ।

चित्त विद्या भरि धरै दृढ़, समता दिअटि बनाइ ॥१८३॥

तब विज्ञान का निरूपण करने वाला बुद्धिरूपी घी पाकर उसे चित्तरूपी दीपक में भर कर, समदृष्टि रूपी ममता का दीपक बनाकर उस पर धरे।

तीनि अवस्था तीनि गुन, तेहि कपास तें काढ़ि।

तूल तुराय सँवारि पुनि, बाती करै सुगाढ़ि ॥१८४॥

दोहा—रामचरन रति जो चहें, अयवा पद निवनि ।

भाव सहित सो यह कथा, करहि श्रवण पुट पान ॥२०३॥

जो श्रीरामजी के चरणों में स्नेह चाहें अथवा मोक्ष चाहें यह इन कथाओं अर्चना को प्रेम सहित कान-रूपी अंघोरा से पान करे ।

रामकथा गिरजा में बरनी * कलिमलि समनि मनोमलहरनी

संसृति रोग संजीवन मूरो * रामकथा गावाहि श्रुति सूरो

हैं पावती ! मैंने यह राम-कथा वर्णन की, जो कतिपय के पाप और मनकी मत्तिनता को हरने वाली है । यह राम-कथा संसाररूपी रोग के लिए संजीवनी है, वेद और पण्डित ऐसा कहते हैं ।

एहि महँ रुचिर सप्त सोपाना * रघुपति भगति केर पन्याना

अति हरि कृपा जाहि पर होई * पाउँ देइ एहि मारग सोई

इसमें जो सात सोपान हैं, वे ही श्रीराम-महित के मार्ग हैं । जिस पर भोहरि को परम कृपा होगी—वही इस मार्ग में पाँव धरेगा ।

मन कामना सिद्ध नर पावा * जे यह कथा कपट तजि गावा

कहहि सुनहि अनुमोदन करहो * ते गोपद इव भवनिधि तरहो

जो कपट छोड़कर यह कथा गावेगा, यह अपनी सब कामनाओं को सिद्ध पायेगा । जो इस कथा को कहते-सुनते व अनुमोदन करते हैं, वे संसार सागर की-पार को भाति पार कर जाते हैं ।

सुनि सब कथा हृदय अति भाई * गिरजा बोली गिरा सुहाई

नाथ कृपाँ मम गत सन्देहा * रामचरन उपजेउ नव नेहा

सब कथा सुनकर पार्वतीजीके हृदयको बहुत प्रिय लगी, तबवे मुद्रावनो बानो बोली-हूँनाप ! आपकी कृपासे मेरा संदेह जाता रहा और श्रीरामजीके चरणोंमें नया अनुराग उत्पन्न हुआ ।

दोहा—मैं कृतकृत्य भइउँ अब, तव प्रसाद विश्वेस ।

उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेस ॥२०४॥

हे विश्वनाथ ! मैं आपकी कृपा से कृतार्थ हुई, अब मन में श्रीरामचन्द्रजी की भक्ति दृढ़ हो गई और सब बलेश दूर हो गये ।

यह शुभ शम्भु उमा सम्वादा * सुख सम्पादन समन विपादा

भव भञ्जन गञ्जन सन्देहा * जन रंजन सञ्जन प्रिय ऐहा

श्रीशिव-पार्वतीजी का यह सम्वाद सुन कर उत्पन्न और दुःख को दूर करने वाला है । वावागमन से छुड़ाने वाला, सन्देहों को मिटाने वाला और सज्जनों का प्रिय है ।

राम उपासक जे जग माहो * एहि सम प्रियतिन्हके कष्ट नाहो

रघुपति कृपाँ जयामति गावा * मैं यह पावन चरित सुहावा

संसार में जो रामोपासक हैं, उनको इसके समान कुछ भी धारा नहीं है । राम-
से यह सुन्दर पवित्र चरित्र मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है ।

जब जो प्रभञ्जन उर गृह जाई * तबहि दीप विग्यान बुझाई
ग्रन्थि न छूटि मिटा सो प्रकासा * बुद्धि विकल भइ विषय बतासा

ज्यों ही विषयरूपी वायु हृदयरूपी घर में पहुँचती है, त्योंही वह विज्ञानरूपी दीपक बुझ जाता है। गाँठ भी न छूटी और उजाला मिट गया। विषयरूपी वायु से बुद्धि व्याकुल होगई।

इन्द्रिन्ह सुरन्ह न ग्यान सोहाई * विषय भोग पर प्रीति सदाई
विषय समीर बुद्धि कृत भोरी * तेहि विधि दीप कि बार बहोरी

इंद्रियों के देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता, क्योंकि उनको प्रीति सदाही विषय-भोगोंपर रहती है। जब विषयरूपी पवनने बुद्धि को भुला दिया, तो फिर उसी विधिसे दीपकको कौन जलावे—
दोहा—तब फिर जीवबिबिधविधि, पावइ संसृति क्लेस।

हरिभाया अति दुस्तर, तरि न जाइ बिहँगेस ॥१८५॥

तब जीव लौटकर फिर अनेक प्रकार के सांसारिक-क्लेशों को पाता है। हे पक्षीराज ! प्रभु की माया बहुत बलवान है, वह सहज ही पार नहीं की जाती।

कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक।

होइ घुनाच्छर न्याय जाँ, पुनि प्रत्यूह अनेक ॥१८६॥

'विवेक'—फहने में कठिन, समझने में कठिन और साधन में भी कठिन है। जो संयोग-वश सिद्ध भी हो जाय, तो फिर अनेक विघ्न हैं।

ग्यान पन्थ कृपान कै धारा * परत खगेस होइ नहि बारा
जो निर्विघ्न पन्थ निर्वहई * सो कैवल्य परम पद लहई

हे पक्षीराज ! ज्ञान का मार्ग—कृपाण की धारा है, इसमें गिरते देर नहीं लगती। जो ज्ञानी विना बाधाओं के इस मार्ग को निवाह ले जाता है, वही कैवल्यरूपी परम (मोक्ष) पाता है।

अति दुर्लभ कैवल्य परम पद * सन्त पुरान निगम अगम वद
राम भजत सोइ मुक्ति गौसाई * अनइच्छित आवत वरिआई

संत, पुराण, वेद और शास्त्र कहते हैं कि कैवल्यरूपी परमपद अति दुर्लभ है। किंतु हे गोसाईं ! वही मुक्ति श्रीरामजी के भजन से विना इच्छा किये ही जबरदस्ती आ जाती है।

जिसिथल बिनुजल रहि न सकाई * कोटि भाँति कोउ करे उपाई
यथा मोच्छ सुखु सुनु खगराई * रहि न सकइ हरिभगति विहाई

जैसे विना पृथ्वी के जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों उपाय करे। वैसे ही—हे पक्षीराज ! हरि-भक्ति को छोड़कर मोक्ष नहीं रह सकता।

अस विचारि हरिभगत सयाने * सुक्ति निरादरि भगति लुभाने
भगति करत बिनु जतन प्रयासा * संसृति मूल अविद्या नासा

ऐसा विचारकर चतुरहरि, भक्त मुक्ति का आदर न करके, भक्तिपर लुभा जाते हैं। भक्ति करने से विना उपाय और परिश्रम किये ही संसार की मूल अविद्या का नाश वैसे ही हो जाता है।

दोहा—मो सम दीन न दीनहित, तुम्ह समान रघुवीर ।

अस विचारि रघुवंसमनि, हरहु विषम भवपीर ॥२०५॥

हे श्रीरघुनाथजी ! मेरे समान दोन ओर आपके समान दोन रघुवीर कौन होगा? ऐसा विचार कर, हे रघुवंसमनि ! संसार की विषम पीड़ा को हर लीजिये ।

कामिहिनारि पियारजिमि, लोमिहिप्रियजिमिदाम ।

तिमि रघुनाथ निरन्तर, प्रिय लागहु मोहि राम ॥२०६॥

कामी को स्त्री और लोमी को घन जैसे प्यारा लगता है, वैसे ही-हे धीरघुनाथजी ! हे रामजी ! आप मुझे सदा प्रिय लगे ।

श्लोक-यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविना श्रोशम्मुना दुर्गमम् ।

श्रीमद्दरामपदाब्ज भक्तिमनिशं प्राप्त्यैतु रामायणम् ॥

मत्वा तद्दरघुनाथनामनिरतं स्वान्तस्तमः शान्तये ।

भाषावद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम् ॥

पहले जिस दुर्गम रामायण को श्रेष्ठ कवि भगवान् चंकर ने धीरामजी के चरण-रुमतां में निरन्तर भक्ति प्राप्त होने के लिये रचा था, उसी मानस (रामायण) को धीरामजी के नाम में लीन 'तुलसीदासजी' ने अपने हृदय के जन्मकार को दूर करने के लिए इस 'मानस' रूप में भाषा-वद्ध किया है ।

पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदम् ।

मायामोह मलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम् ॥

श्रीमद्दामचरितमानसमिदं भवतयाव गाहन्ति ये ।

ते संसारपतङ्ग घोरकिरणैर्दहन्ति नो मानवा ॥

यह 'रामचरित-मानस' पुण्यरूप, पापाहारो, सर्वत्र मंगलकारो, विज्ञान और भक्तिदायक माया, मोह व फलेत का नाश करने वाला, परम निर्मल, प्रेमरूपो जल से पूर्ण तथा मंगल-मय है । जो लोग इस 'मानस-सरोवर' में भक्ति-पूवंक स्नान करते हैं, वे संसाररूपो प्रचण्ड सूर्य की उग्र किरणों से सन्तप्त नहीं होते ।

⊙ मात पारायण—तोसयी विश्राम ⊙

⊙ नवान्हपारायण—नवी विश्राम ⊙

॥ इति धीमदरामचरितमानसे सरुतरुचिररुप विद्मंते सत्रम सोपान समाप्तमः ॥

कतिपुग के सम्पूर्ण पावों को नष्ट करने वाले धीरामचरितमानस का

यह सातवीं सोपान समाप्त हुआ ॥

सो मनि जदपि प्रगट जग अहई * रामकृपा बिनु कोउ नहि लहई
सुगम उपाय पाइवे केरे * नर हत भाग्य देहि भट मेरे

यद्यपि यह मणि जगत-प्रत्यक्ष है, तो भी श्रीरामजी की कृपा के बिना कोई उसे ले नहीं सकता। उसके पाने के उपाय सहज हैं, परन्तु अभाग्य मनुष्य उसे ठुकरा देते हैं।

पावन पर्वत वेद पुराना * रामकथा रुचिराकर काना
मर्मा सज्जन सुमति कुदारी * ग्यान बिराग नैन उरगारी

वेद-पुराण पवित्र हैं, श्रीराम-कथायें उनमें सुन्दर खानें हैं, सन्त-जन मर्मा हैं। सुन्दर वृद्धि कुदाल है, ज्ञान-वैराग्य दो नेत्र हैं।

भाव सहित खोजइ जो प्रानी * पाव भगतिमनि सब सुखखानी
सोरें मन प्रभु अस विश्वासा * राम ते अधिक रामकर दासा

जो प्रेम सहित खोजता है, वही सब सुखों को खान 'भक्तिरूपी-मणि' को पाता है। हे प्रभो ! मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि राम-भक्त श्रीरामजी से भी बढ़कर है।

राम सिंधु धन सज्जन धीरा * चन्दन तरु हरि सन्त समोरा
सब कर फल हरि भगति सुहाई * सो बिनु सन्त न काहूँ पाई
अस विचारि जोइ कर सतसङ्गा * रामभगति तेहि सुलभ बिहङ्गा

श्रीरामजी समुद्र हैं तो धीर-सज्जन मेघ हैं, श्रीहरि चन्दन के वृक्ष हैं तो सन्त-वायु हैं, और सबका फल सुन्दर हरि-भक्ति है। उसे सन्तों के बिना किसोने नहीं पाया। हे गरुड़जी ! ऐसा विचार कर जो सत्संग करता है, उसे श्रीराम-भक्ति सुलभ हो जाती है।

दोहा-ब्रह्म पयोनिधि मन्दर, ग्यान सन्त सुर आहि।

कथा सुधा मथि काढहि, भगति मधुरता जाहि ॥१८८॥

ब्रह्म समुद्र है, ज्ञान मन्द्राचल है और सन्त देवता हैं, जो उस समुद्र को मथकर कथा-रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्तिरूपी मधुरता बसती है।

विरति चर्म असि ग्यान मद, लोभ मोह रिपु मारि।

जय पाइअ सो हरिभगति, देखु खगेस विचारि ॥१८९॥

हे गरुड़जी ! विचार कर देखिये, वैराग्यरूपी ढाल और ज्ञानरूपी तलवार से जो लोभ-मोहरूपी शत्रुओं को मारकर विजय पातो है, वही हरि-भक्ति है।

पुनि सप्रेम बोलेउ खगराऊ * जो कृपालु मोहि ऊपर भाऊ
नाथ मोहि निज सेवक जानी * सप्त प्रश्न मम कहहु बखानी

फिर पक्षिराज गरुड़सप्रेम बोले-हे कृपालु ! जो आपका मुझ पर स्नेह है तो मुझे सेवक जानकर मेरे सात प्रश्नों का उत्तर बखान कर कहिये।

प्रथमहि कहहु नाथ मतिधीरा * सबते दुर्लभ कवन सरीरा
वड़ दुख कवन कवन सुख भारी * सोउ संक्षेपहि कहहु विचारी

हे धीर-वृद्धि ! हे नाथ ! प्रथम तो यह बतलाइये कि सबसे दुर्लभ शरीर कौनसा है ? सबसे



* अथ मंगलाचरणम् *

श्लोक

शौर्यं प्रसिद्धं कमनीय गात्रं महानुभावं रघुवंश केतुम् ।

स्वयं प्रभुः सद्बिनयादिसिंधुः सीतासुवामं प्रणमामि रामम् ॥

धोरता में प्रसिद्ध, कोमल शरीर वाले, परम उदार, रघुवंश की परमात्मा स्वयं प्रभु बिनय आदि के समुद्र और याम भाग में थीसोताओ सहित मुघोनित्र धीरामचन्द्रओ को में नमस्कार करता हूँ ।

प्रफुल्लनीलात्पललोचनं विधुप्रतिद्वेषमुखाम्बुज छुतिम् ।

शिरसिपुष्प प्रभु कोमलाच्छवि नमामिरामं ह्यमेध कृत्परम् ॥

जिनका प्रफुल्लित बेह और नील-कमल के समान मुखर नेत्र हैं, चन्द्रमा जिनके मुखार-बिन्दु को कान्ति से द्वेष मानता है । जिनके कोमल अंगों को छवि शिरस के पुष्प के समान है तथा जो अश्वमेध करने में थोड़ा है, ऐसे रामचन्द्रओ को में नमस्कार करता हूँ ।

दाहा-रघुपति कथा पुनीत अति, सुनि पुलके हरियान ।

बोलेउ दोउ कर जोरि पुनि, सुनिये कृपानिधान ॥ १ ॥

अति पवित्र धीराम-कथा सुनकर गड़गड़ो प्रकृतित हो गये छिन्न शेरों हाथ जोड़कर बोले- हे कृपानिधान सुनिये-

सुरसरि सम पावन भयो, नाथ हृदय अब मोर ।

जन्म जन्म छूटै नहीं, नाथ पशाम्बुज तोर ॥ २ ॥

हे नाथ । अब मेरा हृदय देख-नही (गंगाओ) के समान पवित्र होकर । के समान । आपके चरणकमलों का प्रेम मुझसे जन्म-जन्मान्तर न छूटे ।

सन्त उदय सन्तत सुखकारी * विश्व सुखद जिमि इन्दु तमारी
परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा * परनिन्दा सम अघ न गिरिंसा

संतों का उदय सदा सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय संसार भर को सुखदायक है। अहिंसा को वेदों ने सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है और पराई निंदा के समान बड़ा पाप नहीं है।

हर गुरु निन्दक दादुर होई * जन्म सहस्र पाव तनु सोई
द्विज निन्दक बहु नरक भोगिकरि * जग जन्मइ बायस सरीर धरि

शङ्करजी और गुरु की निंदा करने वाला मंदक होता है और हजार जन्मों तक यही देह पाता है। ब्राह्मण-निन्दक बहुत से नरक भोगकर भी कौए फों देह धारण कर जन्म लेता है।

सुर श्रुति निन्दक जे अभिमानी * रौरव नरक परहिं ते प्राणी
होहिं उलूक सन्त निन्दा रत * मोहनिसाप्रिय ग्यान भानु गत

जो घमंडी व वेदों के निन्दक हैं, वे रौरव नरक में पड़ते हैं, साधु-निन्दक उलूक होते हैं, उन्हें ज्ञान रूपी सूर्य अस्त होने पर मोहरूपी रात्रि प्रिय होती है। सबके निन्दक चमगादड़ होकर जन्मते हैं।

सुनहु तात अब मानस रोगा * जिन्ह तें दुख पावहिं सब लोगा
मोह सकल व्याधिन्ह कर सूला * तिन्ह तें पुनि उपजहिं बहु सूला

हे तात ! अब ये मानस-रोग सुनिये, जिनसे सब लोग दुःख पाते हैं। सब रोगों की जड़ मोह है उससे फिर बहुत से रोग उत्पन्न हो जाते हैं।

काम वात कफ लोभ अपारा * क्रोध पित्त नित छाती जारा
प्रीति करहिं जौं तीनिउ भाई * उपजत सन्यपात दुखदाई

काम वायु है, अत्यन्त लोभ कफ है और क्रोध पित्त है, जो नित्य छाती जलाता है। यदि ये तीनों भाई प्रीति कर लें तो दुखदाई सन्यपात रोग उत्पन्न हो जाता है।

विषय मनोरथ दुर्गम नाना * ते सब सूल नाम को जाना
समता दाद कण्डु हरषाई * हरष विषाद गरह बहुताई

विषयों के मनोरथ अनेक शूल हैं, उन सबके नाम कौन जान सकता है ? ममता-दाद है, ईर्ष्या-खाज है और शोक-गलगण्ड रोगों की अधिकता है।

पर सुख देखि जरनि सोई छई * कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई
अहंकार अति दुखद उमरुआ * दम्भ कपट मद मान नेहरुआ

पराये सुखको देखकर हृदय में दाह होना हो क्षय है, दुष्टता और मनका छोटापन ही कोड़ है। अहंकार महा दुखदाई, गांठ (टीका) का रोग है। दंभ, कपट, मद और मान-ये नेहरुआ रोग हैं।

तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी * त्रिविध ईषना तरुन तिजारी
जुगविधि ज्वर मरुतर अविवेका * कहँ लगि कहौं कुरोग अनेका

तृष्णा बड़ा भारी गल्लोदर रोग है, तीनों प्रकार की ईच्छा (स्त्री, पुत्र धन) बलवती तिजारी है। मरुतर तथा अविवेक दो उदर हैं। अनेकों बुरे रोग हैं, कहाँ तक कहें ?

रुद्र सहस्र वर्ष खम ईसा * कीन्ह चरित रति रहि जगदीसा
 सो सब विसद कथा विस्तारी * कहीं सुनीं जग हित उरगारी
 हे गरुड़जी ! थीरामजी ने ग्यारह हजार वर्ष रहकर चरित किये हैं । यह सब हमारा
 के उपकार के हेतु विस्तार पूर्वक कहता है, सो मुनिये ।

दोहा—विधि वर वचन संभारि उर, राजत कदनाएन ।

जुगल जोरि शोभा निरखि, लजति कोटिसत नैन ॥ ४ ॥

श्रद्धाजी के वचनों को मानकर कदनासागर प्रभु विराजमान रहे मुगत जोड़ी हो शोभा
 देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित होते हैं ।

अनुज सचिव प्रभु प्रजा बुलाए * गुरु गृह सादर मुनि संग आए
 मकर मास रवि पर्व सुहावा * विदा मांगि गुरुपद सिरु नावा

थीरामजी एक समय छोटे माई, मंत्री, प्रजा अदि को बुलाकर बड़े आदरते गुहरी के पर
 आये । मकर-मास में सूर्य-पर्व जानकर सबने गुरुजी से विदा मांगकर घरघोमें तिर नवाया ।

काशी क्षेत्र धर्ममय जाना * चले सकल सजि वाहन नाना
 चतुरङ्गिनी अनी सब साथी * एहि विधि गवन कीन्ह रघुनाया

काशी क्षेत्र को धार्मिक जानकर सब अनेक सवारियां सजाकर चले । चतुरङ्गिनी सेना
 साथ में लेकर थीरघुनाथजी ने गमन किया ।

बीच वास करि शिवपुर आए * सादर पुरिहि सौस सब नाए
 आइ सुरसरिहि कीन्ह प्रनामा * अभय अनन्त पाइ विश्रामा

बीच में ठहर कर काशी आये और सबने पुरी को प्रणाम किया । धाकर गयाजी को
 प्रणाम किया और अत्यन्त सुख पाकर प्रसन्न हुए ।

महिसुर दण्ड यती सग्यासी * पूजे कृपासिधु सुखरासी
 दीन्ह दान कछु वरनि न जाई * धनद कुवेर सुरेस लजाई

कृपा के समुद्र, सुख की राशि-प्रभु ने ब्राह्मणों, बन्धियों, प्रतिघों और सग्यासियों का
 पूजन किया और इतना दान दिया- जिसका जपन नहीं हो सकता । त्रिनेश्वर कुवेर धनद
 कुवेर और देवराज इन्द्र भी लज्जित होगये ।

दोहा—तहाँ रहे प्रभु अमित दिन, सुखो किये मुनिवृन्द ।
 आए पुनि निज नगर महँ, हरपित कदनाकन्द ॥ ५ ॥

इस प्रकार प्रभु ने वहाँ बहुत दिन रहकर मुनियों को सुखो दिया । फिर कदनासागर
 प्रभु प्रसन्न हो अपने नगर में आये ।

प्रतिदिन अवध अनन्द उछाहू * दान देहि प्रतिदिन नगनाहू
 दुख परिपंच सोक नहि काहू * कुवचन कवट्ट न सुन नगनाहू

अयोध्या में निरपन्धे आनन्द होते हैं और प्रशासक त्रिनेश्वर दान देते हैं ।

ब्रह्माजी, शुक्रदेवजी, सनकादिक, नारदादि और जो ब्रह्मज्ञान में चतुर मुनि हैं। हे गरुड़जी ! उन सबका मत यही है कि श्रीरघुनाथजी के चरणकमलों में प्रीति करनी चाहिए।

श्रुति पुरान सब ग्रन्थ कहाहीं * रघुपति भगति बिनासुख नाहीं
कमठ पीठ जामहिं बरु बारा * बन्ध्या सुत बर काहुहि मारा

वेद-पुराण और सब ग्रन्थों में कहा है कि श्रीराम-भक्ति के बिना सुख नहीं है। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग आवें और बाँध का पुत्र भले ही किसी को मार डाले।

फूलाहिं नभ बरु बहु बिधि फूला * जीव न लहि सुख हरि प्रतिकूला
तृषा जाइ बरु मृगजल पाना * बरु जामहि सस सीस विषाना

आकाशमें चाहे भाँतिर के फूल फूलने लगे, परन्तु श्रीहरिके विरोधीको सुख नहीं मिलता। चाहे मृग-तृष्णा का जल पीनेसे प्यास जाती रहे और खरगोशके सिरपर भलेही सींगहो जायें।

अन्धकार बरु रविहि नसावै * राम बिमुख न जीव सुख पावै
हिम ते अनल प्रगट बरु होई * राम विमुख सुख पाव न कोई

अंधेरा चाहे सूर्य का नाश करदे और चाहे बर्फ से अग्नि प्रकट होजाय, परन्तु श्रीराम-चन्द्रजी से विमुख कोई सुख नहीं पा सकता।

दोहा—बारु मथै घृत होइ बरु, सिकता ते बरु तेल।

बिनु हरि भजन न भव तरिअ, यह सिद्धान्त अपेल ॥१६३॥

पानी को मथने से घी और बालू से तेल भले ही निकल आवे, परन्तु श्रीरामजी के भजन बिना भवसागर से नहीं तारा जा सकता, वह सिद्धान्त अटल है।

मसकहि करइ बिरञ्च प्रभु, अजहि मसक ते हीन।

अस बिचारि तजि संसय, रामहि भजहि प्रवीन ॥१६४॥

प्रभु मच्छर को ब्रह्मा और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा समझ सन्देह त्याग कर चतुर लोग श्रीरामजी को ही भजते हैं।

श्लोक—विनिश्चिन्तं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे।

हरिं नरा भजन्ति ते येषतिदस्तर तरन्ति ते ॥

मैं आप से निश्चय की हुई बात कहता हूँ—मेरा वचन अन्यथा नहीं है। जो मनुष्य श्रीहरि का भजन करते हैं, वे इस अपार संसार से तर जाते हैं।

कहेउं नाथ हरि चरित अनूपा * व्यास समास स्वमति अनुरूपा
श्रुति सिद्धान्त ऐसेइ उरगारी * राम भजिअ सब काज बिसारी

हेनाथ ! मैंने हरिके अनेकचरित्र अपनी बुद्धिके अनुसार कहे विस्तार से और कहींसंक्षेप में कहे हैं। हेगरुड़जी ! वेदोंका सिद्धान्त हैकि सबकामको भुलाकर रामजीकोही भजना चाहिए।

प्रभु रघुपति तजि सेइअ काही * मोहि से सठ पर समता जाही
तुम्ह विज्ञानरूप नहि मोहा * नाथ कीन्ह मो पर अति छोहा

रुद्र सहस्र वर्ष खम ईसा * कीन्ह चरित रति रहि जगदीसा
सो सब विसद कथा विस्तारी * कहीं सुनों जग हित उरगारी
हे गरुड़जी ! श्रीरामजी ने ग्यारह हजार वर्ष रहकर चरित किये हैं । यह सब संसार
के उपकार के हेतु विस्तार पूर्वक कहता है, सो सुनिये ।

दोहा—विधि वर वचन सँभारि उर, राजत करनाएन ।

जुगल जोरि शोभा निरखि, लजति कोटिसत नैन ॥ ४ ॥

ब्रह्माजी के वचनों को मानकर कदनासागर प्रभु विराजमान रहे जुगल जोड़ी की गोवा
देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित होते हैं ।

अनुज सचिव प्रभु प्रजा बुलाए * गुरु गृह सादर मुनि संग आए
मकर मास रवि पर्व सुहावा * विदा मांगि गुरुपद सिरु नावा

श्रीरामजी एक समय छोटे भाई, मंत्री, प्रजा अदि को बुलाकर बड़े आदरसे गुरुजी के घर
आये । मकर-मास में सूर्य-पर्व जानकर सबने गुरुजी से विदा मांगकर चरणोंमें तिर नयाया ।

काशी क्षेत्र धर्ममय जाना * चले सकल सजि वाहन नाना
चतुरङ्गिनी अनी सब साथी * एहि विधि गवन कीन्ह रघुनाथा

काशी-क्षेत्र को धार्मिक जानकर सब अनेक सवारियां सजाकर चले । चतुरंगिनी सेना
साथ में लेकर श्रीरघुनाथजी ने गमन किया ।

बीच वास करि शिवपुर आए * सादर पुरिहि सीस सब नाए
आइ सुरसरिहि कीन्ह प्रनामा * अभय अनन्त पाइ विश्रामा

बीच में ठहर कर काशी आये और सबने पुरी को प्रनाम किया । आकर गंगाजी को
प्रनाम किया और अत्यन्त सुख पाकर प्रसन्न हुए ।

महिसुर दण्ड यती सन्यासी * पूजे कृपासिंधु सुखरासी
दीन्ह दान कछु वरनि न जाई * धनद कुवेर सुरेस लजाई

कृपा के समुद्र, सुख की राशि-प्रभु ने ब्राह्मणों, दण्डियों, यतियों और सन्यासियों का
पूजन किया और इतना दान दिया-जिसका वर्णन नहीं हो सकता । जिसे देखकर धनपति
कुवेर और देवराज इन्द्र भी लज्जित होगये ।

दोहा—तहाँ रहे प्रभु अमित दिन, सुखी किये मुनिवृन्द ।

आए पुनि निज नगर महँ, हरषित करनाकन्द ॥ ५ ॥

इस प्रकार प्रभु ने वहाँ बहुत दिन रहकर मुनियों को सुखो किया । फिर कदनासागर
प्रभु प्रसन्न हो अपने नगर में आये ।

प्रतिदिन अवध अनन्द उछाहू * दान देहि प्रतिदिन नरनाहू
दुख परिपंच सोक नहि काहू * कुवचन कबहुँ न सुन खगराहू

अयोध्या में नित्य-नये आनन्द होते हैं और महाराज नित्य दान देते हैं । हे पक्षिराज ।

तरहिं न विनु ऐसे सम स्वामी * राम नमामि नमामि नमामी
सरन गएँ मोरे अघ रासी * होहि शुद्ध नमामि अविनासी

ये मेरे स्वामी रामजीकीसेवा किये बिना नहीं तर सकते । ऐसेरामजीकीमें वारंवार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जानेसे मुझसे पापी भी शुद्ध होजाते हैं, उनको नमस्कार करता हूँ ।

दोहा—जासु नाम भव शेषज, हरन घोर त्रय सूल ।

सो कृपालु मोहि तोपर, सदा रहहि अनुकूल ॥१८७॥

जिनका नाम संसार रोग की औषधि है और तीनों तापोंको हरने वाला है, वे कृपालु प्रभु मेरे और आपके ऊपर सदैव प्रसन्न रहें ।

सुनि भुसुण्डिके वचन शुभ, देखि राम पद नेह ।

बोलेउ प्रेम सहित गिरा, गरुण विगत सन्देह ॥१८८॥

काकभुशुण्डिजी के सुन्दर वचन सुनकर और श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सन्देह रहित होकर गरुड़जी प्रेम पूर्वक बोले—

मैं कृतकृत्य भयउँ तब बानी * सुनि रघुवीर भगति रस सानी
रामचरन नूतन रति भई * माया जनित विपति सब गई

श्रीराम-भक्ति के रस से सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य होगया । श्रीरामजी के चरणों में मेरी नूतन प्रीति हुई और माया से उत्पन्न विपत्ति चली गई ।

मोह जलधि बोहित तुम्ह भए * सो कहूँ नाथ विविधि सुख दए
सो पहुँ होइ न प्रति उपकारा * बन्दउँ तब पद बारहिं बारा

मोहरूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको आप नौकाहुए । हे नाथ ! आपने मुझे अति सुखदिया । मुझसे आपका प्रत्युपकार नहीं होगा, मैं तो बारम्बार आपके चरणों की वन्दना करता हूँ ।

पूरन काम राम अनुरागी * तुम्हसम तात न कोउ बड़भागी
सन्त विटप सरिता गिरिधरनी * परहित हेतु सबन्हि कै करनी

हे तात ! आप पूर्णकाम हैं, श्रीरामजी के प्रेमी हैं और आपके समान बड़भागी कोई नहीं है । सन्त, वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी—इन सबको करनी दूसरों की भलाई के लिए ही होती है ।

सन्त हृदय नवनीत समाना * कहा कविन्ह पर कहै न जाना
निज परिताप प्रबड नवनीता * पर दुख द्वहिं सन्त सुपनीता

संत का हृदयमनुमानके समान कवियोंने कहा है, परन्तु उनसे कहते नहीं बना, क्योंकि मकखन तो स्वयं को ताप पाकर विघलता है और पवित्र संत पराये दुःखको देखकरहो विघल जाते हैं ।

जीवन जन्म सुफल मम भयऊ * तब प्रसाद संसय सब गयऊ
जानेहु सदा मोहि निज किंकर * पुनि पुनि उमा कहइ विहंगवर

मेरा जीवन और जन्म सफल होगया और आपकी कृपा से सब सन्देह जातारहा । शिवजी बोले-हे पायंतो । पति श्रेष्ठ गरुड़जी बारम्बार कह रहे हैं कि मुझे सदैव अपना सेवक जानियेगा ।

संसार में जहाँ तक कवि व पण्डित हैं, वे सब मिलकर भी राम-राज्य के गुण समझ नहीं कर सकते। कज्जल-गिरि की स्याही बनाई जाय और समुद्र की बयात बनाई जाय—
करहिं लेखनी सुरतरु डारी * सप्तद्वीप महिषत्र विचारी
बाणी हरि हर विधि समुदाई * सहस कल्पसत लिखहिं बनाई
कल्पवृक्ष की कलम बनाकर, सातों द्वीपों का पृथ्वी-पत्र (फागन) बनाया जाय और सरस्वती, यमुना, शोहरि और शंकरजी समूह बनाकर सात हजार कल्पों तक लिखें—
सो०—तदपि न पारहिं पार, राम राजु कौतुक अमित।

सुनु अब चरित अपार, जस खगपति आगे भयउ ॥ १ ॥

तो भी राम-राज्य की सीताओं का पार नहीं पा सकते। हे पण्डितों ! अब जो अगर चरित्र आगे हुए, उन्हें सुनिये—

राजत रामसभा सब भ्राता * तहें आयो इक द्विज विलखाता
कहुक कहत मुख करत पुकारा * हंस वंश बूढ़चौ संतारा

सब भाई राम-सभा में विराजमान थे, वहाँ एक ब्राह्मण विलखाता हुआ था। यह मुझ से यह कहु-बचन पुकार कर कहता था कि 'संसार में सूर्य-वंश के रहते हुए संतार दूब गया।' रघु दिलीप शिवि सगर नरेशा * अमित प्रभाव भए अवधेशा
पितु जीवत सुत त्यागेऊ प्राणा * प्रभु अन्तर्यामी सुनि काना

रघु, दिलीप, शिवि, सगर जादि बड़े प्रतापी अयोध्या के राजा हुए, परन्तु ऐसा कभी नहीं हुआ कि पिता के रहते हुए-पुत्र प्राण त्याग दे। अन्तर्यामी प्रभु यह बातें जानते गुनहर—
नर लीला करि राम कृपाला * लगे विचार करत तत्काला
कारन कवन मृतक सुत भयऊ * द्विज दुख देखि दुखित प्रभु भयऊ

'नर-लीला के हेतु' कृपालु धोरामजी विचार करने लगे कि कित्त कारण से ब्राह्मण का पुत्र मर गया ? ब्राह्मण को बुझो देख प्रभु दुषित होगये।

प्रभुचित देखि गगन भइ वानी * शूद्र तपै सुनु सारंग पानो
विन्ध्याचल गंभीर वन माहीं * द्विज सुत हेतु मरण नरनाहीं

प्रभु का विचार-मग्न देख आकाशवाणी हुई कि हे सारंगसनि ! आरके राज्य में विन्ध्याचल पर्वत के गंभीर वन में शूद्र तप कर रहा है, इसी कारण इस ब्राह्मणके पुत्र की मृत्यु हुई है।

छन्द—एहि भांति द्विजसुत मृतक सुनि रथ साजि प्रभु आतुर चले ।

द्वै परम सैल विलोकि पावन मुदित चित सन्मुख चले ॥

पुनि क्रोध संयुत विशिख छाँड़े माय लै सुरपुर गयो ।

वर भक्ति आरति जान तेहि दै आपु तोरय व्रत कियो ॥

नीतिनिपुन सोइ परम सयाना * श्रुति सिद्धान्त नोक तेहि जाना
 सोइ कविकोविद सोइ रणधीरा * जां छल छाँड़ि भजइ रघुवीरा
 वही नीतिज्ञ, परम चतुर, वेद-सिद्धान्तों का ज्ञाता, कवि, पण्डित और रणधीर है, जो कपट छोड़कर श्रीरघुनाथजी को भजता है।

धन्य सो देस जहाँ सुरसरी * धन्य नारि पतिव्रत अनुसरी
 धन्य सो भूप नीति जो करई * धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई

वही देश धन्य है-जहाँ गङ्गाजी हैं, वही स्त्री धन्य है-जो पतिव्रत-धर्म का पालन करती है। वही राजा धन्य है-जो नीतिके अनुसार चलता है वही ब्राह्मण धन्य है-जो अपने धर्मसे नहीं डिगता।

सो धन धन्य प्रथम गति जाकी * धन्य पुण्य रत मति सोइ पाकी
 धन्य धरा सोइ जहँ सतसंगा * धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा

वही धन धन्य है-जिसकी प्रथम गति (दान) हो, वही बुद्धि धन्य व परिपक्व है-जो पुण्य में रत हो। वही धन्य है-जहाँ सत्सङ्ग हो और वही जन्म धन्य है-जिसमें अखंड ब्राह्मण-भक्ति हो।

दोहा-सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत।

श्रीरघुनाथ परायण, जेहि जन उपज विनीत ॥२०२॥

हे उमा ! सुनो, वही वंश धन्य है-जो जगत-पूज्य तथा परम पवित्र हो जोर जिसमें श्रीरघुवीर-परायण विनीत-पुरुष का जन्म हो।

मति अनुरूप कथा मैं भाषी * जद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी
 तव मन प्रीति देखि अधिकारई * तव मैं रघुपति कथा सुनाई

अपनी मति के अनुसार यह कथा मैंने कही, यद्यपि पहले इसे छिपा रखा था। जब मैंने तुम्हारे मन में अधिक प्रेम देखा, तब यह कथा कही है।

यह न कहिअ सठ ही सठसोलहि * जो मनलाइन सुनि हरिलीलहि
 अनलोभिकोधिहिकामिडि * जो न भजइ सचराचर स्वामिहि

यह उसे नहीं सुनानी चाहिए-जो राठ व हठी हो, जो हरि-चरित्रों को मन लगाकर न मता हो, लोभो, क्रोधो, कामो हो और जो चराचर के प्रभु श्रीरामजी को नहीं भजता हो।

द्विज द्रोहिहि न सुनाइअ कबहूँ * सुरपति सरिस होइ नृप जवहूँ
 रामकथा के तेइ अधिकारी * जिन्ह के सतसंगति अति प्यारी

ब्राह्मण-द्रोहीको यह कथा कभी न सुनावे, चाहे इन्द्र के समान राजा हो क्यों न हो। राम कथा सुनने के अधिकारी वे ही पुरुष हैं, जिसको सज्जनों को सङ्गति अत्यन्त प्रिय लगती हो।

गुरु पद प्रीति नीति रत जेई * द्विज सेवक अधिकारी तेई
 ता कहँ यह विशेष सुखदाई * जाहि प्राणप्रिय श्रीरघुराई

गुरु के चरणों में जिनकी प्रीति है, जो प्रीति-परायण हैं, ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। उसीको यह राम-कथा सुख देने वाला है, जिनकी श्रीरघुनाथजी प्राणप्रिय हैं।

जब एक युग राज्य करते बोल गया, तब कृपाजु प्रभु ने विचार किया कि अब एक हजार वर्ष तक पिता का राज्य में और भोगूँ ।

त्यागों जनकसुता वन माहीं * राखों श्रुतिपथ धर्म न जाहीं
 मैं मन ठीक सिया पहुँ आए * सादर बोले वचन सुहाए
 सीताजी को घन में भेज दूँ, जिससे वेद-मार्ग रहे और धर्म न जाय ऐसा मन में बुद्धि
 निश्चय करके सीताजी के पात आये सादर सुन्दर वचन बोले-

निज छायाँ महि राखि विनीता * रहौ जाय निज धाम पुनीता
 प्रभु पद बन्दि गई नभ सोई * जीव चराचर लखी न कोई
 हे सीते! तुम अपना प्रतिबिम्ब पृथ्वी पर छोड़कर अपने पवित्र-धाम में जाकर रहो । प्रभु के
 चरणोंको बंदना करके सीताजी आकाशको घली गईं, इसे किसी चराचर प्राणीने नहीं जाना ।
 तासन प्रभु अस कहा बुझाई * मन भावत मांगहुँ वर गाई
 नाथ साथ मुनिधाम सुहाई * आई तजि गृह मन सकुचाई
 तब उस(छाया)से प्रभुने समझाकर कहा-जो मनको चाये, सो वर मांगो । सीताजी बोलीं-हे
 नाथ! आपके साथ मुनिजनोंके सुन्दर स्थान छोड़कर मैं पर आई हूँ, इससे मनमें यज्ञसंकोच है ।

मुनितिय भूषन सकल सुहाए * पहिराए प्रभु जो मन भाए
 हँसि कहि कृपानिकेत सकारे * पूजहिं मन अभिलाप तुम्हारे
 तब प्रभु ने मुनियों की स्त्रियों के-से वस्त्राभूषण उनकी रधि के अनुसार पहिनाये, फिर
 कृपा के धाम प्रभु ने हँसकर कहा-प्रातःकाल तुम्हारे मन को अभिलाषा पूर्ण होगी ।

दोहा-प्रात होत जब जगतिपति, जागे रमा निवास ।
 जाचक गावत मुदित मन, लखि मुख कञ्जप्रकास ॥ १० ॥

प्रातःकाल जगत्पति, लक्ष्मी-निवास-धोरामचन्द्रजी जागे तो पाचक उनके कमल-समान
 प्रकाशमान मुख को देख हर्षित होकर गुण गाने लगे ।

भरत शेष रिपुदमन समेता * आए जहँ प्रभु कृपानिकेता
 कीन्ह प्रनाम माथ महि लाई * बोले नहिं कष्ट श्रीरघुराई
 भरतजी, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जहाँ कृपा के धाम प्रभु थे वहाँ आये और पृथ्वी पर
 सिर नवाकर प्रणाम किया, परन्तु धोरपुनायजी कुछ नहीं बोले ।

बदन विलोकि संसंकित अंगा * श्रीहत देखि वपुष कर रंगा
 थर थर कांपत तीनों भाई * जानि न जाइ चरित रघुराई
 प्रभु का फान्तिहोन-मुख, संकित-शरीर और मलिन-रङ्ग देखकर तीनों भाई पर-पर
 कांपने लगे । धोरपुनायजी का चरित्र जाना नहीं जाता ।

लेइ स्वांस अरु कुसमय जानी * बोले गूढ़ मनोहर वानी
 वचन मोर उर राखहु भ्राता * लै वन जाहु जानकी साया

एहि कलिकाल न साधन दूजा * जोग जग्य जप तप व्रत पूजा
रामहिं सुभिरिअ गाइअ रामहि * संतत सुनिय राम गुन ग्रामहि

इस कलियुग में कोई दूसरा साधन, योग, यज्ञ, तप, व्रत, पूजा आदि नहीं है। अतः श्रीरामजी का ही स्मरण करना, श्रीरामजी के ही गुण गाना और श्रीरामजी केही गुणगानों को निरन्तर सुनना चाहिए।

जासु पतित पावन बड़ बाना * गावहिं कवि श्रुति सन्त पुराना
ताहि भजहि मनतजि कुटिलाई * राम भजे गति केहिं नहिं पाई

पतिद्वार करनाही जिनका महान् वाना (प्रण) है, कवि, वेद, संत व पुराण ऐसा कहते हैं। रे मन! कपट त्यागकर तू उन्हीं प्रभुको भज! श्रीरामजीको भजने से किसने मुक्ति नहीं पाई?

छन्द—पाई न केहि गति पतित पावन राम भजि सुनु सठ मना ।

गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना ॥

आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अघ रूप जे ।

कहि नाम बारेक तेहि पावन होहिं राम नमामि ते ॥

रे मुखें मन ! श्रीरामजी को भजकर किसने गति नहीं पाई? वेश्या, अजामिल, व्याध, गीध, गजेन्द्र आदि अनेकों पापी उन्हींने तार दिये। अहीर, यवन किरात, खल चाण्डाल आदि महापापी भी एक बार ही जिनका नाम लेकर पवित्र होगये, उन रामको मैं नमस्कार करता हूँ।

रघुवंस भूषण चरित यह नर कर्हि सुनिं जे गावहीं ।

कलिमल मनोमल धोइ बिनु श्रम रामधाम सिधावहीं ॥

सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरै ।

दारुन अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरै ॥

रघुवंश-भूषण श्रीरामचन्द्रजी का यह चरित जो मनुष्य कहेंगे, सुनेंगे एवं गावेंगे, वे बिना परिश्रम के ही कलियुग के पाप और मन के दोषरूपी मल को धोकर श्रीरामजी के धामको चले जावेंगे। जो मनुष्य पांच-सात चौपाइयों को मनोहर जानकर हृदय में धारण करेंगे, उनकी भी पांचों इन्द्रियों से उत्पन्न अविद्या को श्रीरघुनाथजी हर लेंगे।

सुन्दर सुजान कृपानिधान अनाथ पर करि प्रीति जो ।

सो एक राम अकाम हित निर्वाणप्रद सम आन को ॥

जाकी कृपा लवलेस ते मतिमन्द तुलसीदास हूँ ।

पायो परम विश्रामु राम समान प्रभु नाहीं कहूँ ॥

जो सुन्दर, चतुर, कृपानिधान, अनाथों पर स्नेह करने वाले हैं, ऐसे एक श्रीरामचन्द्रजी ही है। बिना धारण ही हित करने वाले श्रीरामजी के समान मोक्ष देने वाला कौन है? जिनकी थोड़ी ही कृपा से मुझ मन्द-मति तुलसीदास ने भी परम विश्राम पाया, ऐसे श्रीरघुनाथजी के समान प्रभु कहीं भी नहीं।

त्रिसुवन पति प्रभु सब जग जाना * गावहि जेहि श्रुति वेद पुराना

सूर्यवंश संतार में प्रसिद्ध है। इकरपत्री हमारे बिना और लोग-जायमाना है। दोनों चौकों के स्वामी आपको संतार जानता है, जिनका वह वेद और पुरान गाते है।

सत्य शक्ति तब प्रगट गुसाई * वरनि न सकाहि वेद अहिराई
शोभा खानि जानकी माता * रहित अमंगल नंगल दाता

वे आपको सत्य-शक्ति प्रत्यक्ष हैं, जिनका वेद और ज्ञेयों को बनने नहीं कर सकते। वे जानकीजी शोभा की धान और मंगल को देने वाली है।

छाया जेहि तिय पतिव्रत धरही * ते नारी भवकूप न परहीं
जल विनु मीन कि जियहि कृपाला * कयो कि रह विनु वारिद माला

उनकी छाया के भी अनुसार पतिव्रत-धर्म करनेसे स्त्रियों संतार के भय से बच जाती है। हे कृपालु ! मछली क्या बिना जल के जी सकती है ? यैती क्या बिना जेप के हो सकती है ?

असतुम विनु छिन जियै कि सोता * ज्ञानवन्त अति निपुण विनीता
सुनि करुणामय वचन सप्रोती * कहौ भरत तुम सुन्दर नीतो

इसो प्रकार बिना आपके क्या ज्ञानमान, चतुर सोताओं धन मात्र भी जी सकती है ? रामजी, भरतजी के प्रेम से कदना भरे वचन सुनकर योने-हूँ भरत ! तुमने मुझको कष्टों से।

दोहा—तदपिनृपहि चाहिअ सदा, राजनीति धन धर्म।

वसुधा पालहि सोच तजि, वचन नीति शुभ कर्म ॥ १२ ॥

तो भी राजा को सदा नीति, धन और धर्म की रक्षा, सोच छोड़कर नीति पुरज मानो और पवित्रकर्मों से पृथ्वी का पालन करना चाहिए।

दूत चरित जस सुन्यो सो कहेऊ * कुल कलंक यह दाख्य नयेऊ
तरणि वंश नृप भये अनेका * एक एक ते निपुण विवेका

दूत से जो चरित्र सुना या, सो कहूँ सुनाया और बोले-दुत्त में यह पारो हमें क मना। सूर्यवंश में अनेक राजा एक से एक जानो हुए हैं।

रघु दिलीप स्वायम्भुव जाना * सगर भगोरय वेद बखाना
दशरथ विदित जान जग नीके * वचन न टारेउ लालच जो के

राजा रघु, दिलीप, स्वायम्भुव-मनु, सगर, मागोरय अदि जिनका नाम वेदों में भी माना है। महाराज दशरथ तो संतार में मन्त्रो-भाति विदित है, जिनसे मापों के मोहने का बचन न छोड़ा।

तेहि कुल रञ्चक सुनिय कलंकू * रहे जोव जग अधम असंकू
सुनु सर्वज्ञ सकल भयहारी * रहित कलंक विदेह कुमारी

उसो कुल में योड़ा भी कलंक सुनने पर यदि मान रहे तो भी बड़े अधम हैं। भाउजी बोले-हे सम्पूर्ण भय का नाश करने वाले ! मुनिने, सोताओं हमें क रक्षित हैं।

* श्रीगणपति-वन्दना *

गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरें ॥ टेक ॥
 तीन लोक तेतीस कोटि सुर, द्वार खड़े सब अरज करें ॥
 ऋद्धि सिद्धि दक्षिण वाम विराजें, आन-वान सो चमर करें ।
 धूप दीप अरु लिए आरती, भक्त खड़े जयकार करें ॥गण०॥
 गुड़ के मोदक भोग लगत हैं, मूषक वाहन चढ़ा करें ।
 सौम्य रूप सेवा गणपति की, विघ्न भगें जा दूर परें ॥गण०॥
 भादों मास की शुक्ल चतुर्दशी, दिन दोपहरा पूर्ण करें ।
 लिया जन्म गणपति प्रभुजी ने, दुर्गा मन आनन्द भरें ॥गण०॥
 अद्भुत बाजे वजे इन्द्र के, देव-वधू जहाँ गुन गान करें ।
 श्रीशङ्कर के आनंद उषज्यौ, नाम सुनत सब विघ्न टरें ॥गण०॥
 आय विधाता बैठे आसन, इन्द्र-अप्सरा नृत्य करें ।
 देखि 'वेद' ब्रह्माजी जाकौ, 'विघ्न-विनायक' नाम धरें ॥गण०॥
 एक-दन्त गज-वदन विनायक, त्रिनयन रूप अनूप धरें ।
 पग थम्भा-सा उदर पुष्ट है, देखि चन्द्रभा हास्य करें ॥गण०॥
 देय शाप श्रीचन्द्रदेव को, कलाहीन तत्काल करें ।
 चौदह लोक में फिरे गणपती, तीन लोक में राज्य करें ॥गण०॥
 गणपति की पूजा करने से, काम सभी निर्विघ्न सरें ।
 'श्रीप्रताप श्रीगणपति की, हाथ जोरि स्तुति करें ॥गण०॥



दिखियत नहीं मुनिन के धामा * जात कहाँ प्रिय अनुज सनामा
खगमृगजीवविविध भरि व्याला * करि केहरि बृक वाघ भृगाला
हे देवर ! यहां मुनियों के आधम बिघाई नहीं देखे, तुम वहाँ नारहे हो ? वहाँ पत्थो
हिरन, सिंह, सांप, हाथी, बाघ, भेड़िया व सियार भरे हैं।

कोउ मुनि मिलत न आवत जाता * निकसत प्राणं तात मम माता
सीय विकल लखिमनहि अहीसा * कहन लगे कहा कीन्ह विधीसा
कोई मुनि आते-जाते भी नहीं मिलते। मेरे शरीर से प्राण निकले जाते हैं। सीताजी
को व्याकुल देखकर लक्ष्मणजी कहने लगे कि प्रह्ला ने यह क्या किया ?

मूर्छित रथ ते भे विकरारा * भूमि गिरत तव आप सँभारा
सिय बिलोकि मन धीरज आना * जीवन विनु अब निकसत प्राणा
सीताजी रथ में मूर्छित हो गईं, परन्तु पृथ्वी पर गिरते हुए लक्ष्मणजी ने संभाल ली।
सीताजी को व्याकुल देख मन में कहने लगे कि अब बिना जीवन के प्राण निकले जाते हैं।

दोहा—धरणि सुता व्याकुल निरख, प्राण कण्ठगत जान।

तजन चाहत तनु शेष तव, धिकधिक जीवन प्राण ॥ १५ ॥

जानकीजी की व्याकुलता देख और उनके प्राण कण्ठगत जानकर वे भी अपने जीवन
को धिक्कारते हुए शरीर छोड़ने को उद्यत होगये।

प्राण विना लक्ष्मण कहँ देखी * गगन गिरा तव भाई विसेपी
सुनु सोमित्र जाहु सिय त्यागी * जनक पुत्रिका जियहि सुभागी
लक्ष्मणजी को निष्प्राण देखकर आकाशवाणी हुई—हे लक्ष्मण ! तुम सीता को त्यागकर
चले जाओ, सीतागयती सीताजी जीती रहेंगी।

गगन गिरा सुनि धीरज कीन्हा * हाथ जोड़ परिदक्षिण दीन्हा
लै रथ धरन वन्दि सिय केरे * चले अवध उर प्राप्त घनेरे

आकाशवाणी सुन लक्ष्मण को धर्म हुआ और हाथ जोड़कर परिदक्षिण की। रथ में उठकर
सीताजी के चरणों की वन्दना करके वे मन में बड़े दुःखी हो अयोध्यागुगे की ओट दिव।

जागी सीय सकल दिसि देखा * नहिं रथ अरव नहीं तहँ शेषा
सहि दुख प्रथम रहे हैं प्राणा * पुनि सोइ चहत न करन पयाना

सीताजी ने मुँहसे जागकर चारों ओर देखा, परन्तु उनको वही रथ, घोड़े और लक्ष्मणजी न
बोध पड़े। वे बोली—मेरे प्राणों ने पहले भी दुःख सहारा है, प्रत्येक वक भी नहीं बिदा पाना चहते।

करुणा करत विपिन अतिभारी * वाल्मीकि आए वनचारी
सीता वाल्मीकि मुनि जाना * वन आवन निज चरित यगाना

सीताजी वन में अत्यन्त विताप कर रही थी, इतने ही में वाल्मीकि मुनि वृन्देश्वर हुए।

सुनेउँ सकल गुनन प्रभु केरे * पूरे नाथ अनुग्रह मेरे
तत्र प्रसाद वायस कुल नाथा * हृदय बसी अब प्रभु गुन गाथा

प्रभु के सम्पूर्ण गुण-समूह सुनकर मेरे मनोरथ पूर्ण हो गये । हे काग श्रेष्ठ ! आपकी कृपा से मेरे हृदय में अब प्रभु के गुणों की कथा बसी है ।

मन सन्तोष न हृदय अधाहीं * यथा उदधि सरिता सब जाहीं
पशु पक्षी जड़ जङ्गम जाती * सचराचर बरनत बहु भाँती

मेरे मन में संतोष है, परन्तु हृदय नहीं अधाता, जैसे सब नदियों के मिलने से भी समुद्र नहीं भरता । पशु, पक्षी, स्थावर, जंगम और चर-अचर जीव जिनका वर्णन नहीं हो सकता ।

जे जन अवध वसहिं सुखधामा * लिये सङ्ग सादर श्रीरामा
तजि निज अवध गए सह देहा * यह सुन नाथ परम सन्देहा

जो मनुष्य सुखधाम अयोध्या में वास करते थे, उनको श्रीरामजी सादर साथ लेकर अयोध्या को छोड़कर, संदेह स्वर्गलोक को गये । सो हे नाथ ! यह मुझे बड़ा भारी संदेह है ।

अब प्रभु भोहि कहहु समुझाई * जान पिता मैं करौं ढिठाई
यह इतिहास पुनीत कृपाला * जिमिमुख कीन्ह राम महिपाला

हे नाथ ! मैं आपको पिता के समान जानकर ढिठाई करके कहता हूँ कि अब आप मुझे वह पवित्र कथा सुनाइए, जैसे कि कृपालु पृथ्वीपति धीरामजी ने अश्वमेध-यज्ञ किया ।

दोहा—अस कहि गद्गद् कण्ठसूदु, पुलकावली शरीर ।

सुनि सप्रेम हर्षेउ बिहँग, वायस अति मति धीर ॥ ३ ॥

ऐसा कहकर गहड़जी का कण्ठ गद्गद् और शरीर पुलकित होगया । यह सुनकर धैर्यवान काकभुशुण्डिजी प्रसन्न होकर बोले—

राम कृपाँ तुम्हारे मन माहीं * संसय सोक मोह भ्रम नाही
धन्य धन्य तुम्ह धनि खगराया * कीन्ही अमित मोहि पर दाया

हे गहड़जी ! श्रीरामजी की कृपा से आपके हृदय में संशय, शोक, मोह, भ्रम कुछ भी नहीं है । आप बारम्बार धन्य हैं । आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की ।

अतिप्रिय वचन रसग्य तुम्हारे * लागत नाथ मोहि अति प्यारे
तत्र तनु प्रीति देखि खगराया * मिटहि अमङ्गल कोटि अमाया

हे नाथ ! आपके रसोले व मीठे वचन मुझे बहुत प्रिय लगते हैं । आपके हृदय की प्रीति देखकर बहुत से अमंगल नाश हो जाते हैं ।

सुनु अब राम रहस्य अनूपा * चरित अनूप अवधपुर भूपा
अज अद्वैत अमल अधिनासी * रहित सकल कलिमल भव फाँसी

अब आप अवध-नरेश श्रीरामजी के गूढ़ एवं अनुपम चरित्र सुनिये । वे अजन्मा, अद्वैत अधिनाशी हैं और कल्पियुग के पाप तथा भव-बन्धन से रहित हैं ।

वर चाहिए सोइ दिये मांगत मातु करुणाकर तवै ।
तनु शोधि करि शुभ योग अगनी जाति भई सादर सबै ॥

शोक सुनकर धोरामजी, लक्ष्मण सहित अपने मनन में गये और अपने ज्ञान से माताओं को समझाया, तब उनके हृदय-पट पुल गये । जो २ वरदान माताओं ने चाहे—वही २ कृपा सागर ने उनको दिये । तब उन्होंने योगाग्नि से गुड़ करके अपने-अपने शरीरों को त्याग दिया ।
दोहा—योग अग्नि तनु भस्म करि, सकल गई पतिधाम ।

भरत शत्रु सूदन लषण, शोक मगन भए राम ॥ १७ ॥

योगाग्नि से शरीरों को भस्म कर सब पति-धाम को गई, तब धोरामजी, भरत, लक्ष्मण, और शत्रुघ्नजी शोक में मग्न होगये ।

विधिवत किये कर्म श्रुति गाये * प्रभु ते गुरु सादर करवाये
दीन्ह दान पुनि कोटि प्रकारा * को अस कवि जो वरणें पारा

धोरामजी से विधि पूर्वक, धेड़ के अनुकूल कर्म—गुरु ने धावर से करवाये । धनेक प्राणि से दान दिया । ऐसा कवि जगत में कौन है, जो उतना वर्णन कर पार पा सके ।

एक वार गुरु गृह सुखदाई * लै संग अनुज सचिव रघुराई
कोन्ह दण्डवत महि सिर नाई * बैठे प्रभु वर आसिप पाई

एक वार सुखदाई धोरामजी—गुरु के घर मन्त्री और छोटे भाइयों के साथ गये । दृष्टी पर मस्तक टेक कर प्रणाम किया और धेड़ आर्घ्यवाद पाकर बैठ गये ।

तव प्रसाद जप यज्ञ अनेका * कोन्हे अमित एक ते ऐका
नाथ सकल पुरजन मन माहीं * देखा अश्वमेध प्रभु चाहौं

वे बोले—आपकी कृपा से मेने अनेकों एक से एक उत्तम यज्ञ किये हैं । परन्तु, हे नाथ ! सारे पुरवासियों के हृदय में एक अश्वमेध-यज्ञ देवने की इच्छा है ।

जस कछु आयसु दीजै नाथा * सो भैं करव नाथ पद माया
सुनि पुलके मुनि वचन सप्रीती * कस न कहौं तुम सुन्दर नीती

हे नाथ ! आप यदि आज्ञा दें तो—उसे मैं आपके चरणों में मस्तक नवाकर कहूँ । ऐसे प्रीति युक्त वचन सुनकर मुनि बड़े प्रसन्न हुए और बोले—आप ऐसे नीति युक्त वचन क्यों न कहेंगे ?

पूजहि मन अभिलाष तुम्हारी * उठहु भरत अय करहु तैयारी
सुनि मुनि वचन भरत रिपुंदमन * हरपि सचिव लछिमन गृह गवन

प्रतापी आपका मनोरथ पूर्ण करें । हे भरत ! उठो, और उचित प्रणय करो । मुनि के वचन सुनकर भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मणजी प्रसन्न होकर घर गये ।

दोहा—सेवक पुरजन सचिव सब, सादर तुरत बुलाए ।
हाट वाट पुर द्वार गृह, रचहु बितान -

सुनेउँ सकल गुनन प्रभु केरे * पूरे नाथ अनुग्रह मेरे
तव प्रसाद बायस कुल नाथा * हृदय बसी अब प्रभु गुन गाथा

प्रभु के सम्पूर्ण गुण-समूह सुनकर मेरे मनोरथ पूर्ण हो गये । हे काग श्रेष्ठ ! आपकी कृपा से मेरे हृदय में अब प्रभु के गुणों की कथा बसी है ।

मन सन्तोष न हृदय अघाहीं * यथा उदधि सरिता सब जाहीं
पशु पक्षी जड़ जड़म जाती * सचराचर बरनत बहु भाँती

मेरे मन में संतोष है, परन्तु हृदय नहीं अघाता, जैसे सब नदियों के मिलने से भी समुद्र नहीं भरता । पशु, पक्षी, स्थावर, जंगम और चर-अचर जीव जिनका वर्णन नहीं हो-सकता ।

जे जन अवध बसहिं सुखधामा * लिये सङ्ग सादर श्रीरामा
तजि निज अवध गए सह देहा * यह सुन नाथ परम सन्देहा

जो मनुष्य सुखधाम अयोध्या में वास करते थे, उनको श्रीरामजी सादर साथ लेकर अयोध्या को छोड़कर, संदेह स्वर्गलोक को गये । सो हे नाथ ! यह मुझे बड़ा भारी संदेह है ।

अब प्रभु मोहि कहहु समुझाई * जान पिता मैं करौं ढिठाई
यह इतिहास पुनीत कृपाला * जिमिमुख कीन्ह राम महिपाला

हे नाथ ! मैं आपको पिता के समान जानकर ढिठाई करके कहता हूँ कि अब आप मुझे वह पवित्र कथा सुनाइए, जैसे कि कृपालु पृथ्वीपति श्रीरामजी ने अश्वमेध-यज्ञ किया ।

दोहा—अस कहि गद्गद् कण्ठसृदु, पुलकावली शरीर ।

सुनि सप्रेम हर्षेउ लिहँग, बायस अति मति धीर ॥ ३ ॥

ऐसा कहकर गच्छुजी का कण्ठ गद्गद् और शरीर पुलकित होगया । यह सुनकर धैर्यवान काकभुशुण्डिजी प्रसन्न होकर बोले—

राम कृपाँ तुम्हारे मन माहीं * संशय शोक मोह भ्रम नाहीं
धन्य धन्य तुम्ह धनि खगराया * कीन्ही अमित मोहि पर दायाँ

हे गच्छुजी ! श्रीरामजी की कृपा से आपके हृदय में संशय, शोक, मोह, भ्रम कुछ भी नहीं है । आप चारम्बार धन्य हैं । आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की ।

अतिप्रिय वचन रसग्य तुम्हारे * लागत नाथ मोहि अति प्यारे
तव तनु प्रीति देखि खगराया * मिटहि अमङ्गल कोटि अमाया

हे नाथ ! आपके रसीले व मोठे वचन मुझे बहुत प्रिय लगते हैं । आपके हृदय की प्रीति देखकर बहुत से अमंगल नाश हो जाते हैं ।

सुनु अब राम रहस्य अनूपा * चरित अनूप अवधपुर भूपा
अज अद्वैत अमल अविनासी * रहित सकल कलिमल भव फाँसी

अब आप अवध-नरेश श्रीरामजी के गूढ़ एवं अनुपम चरित्र सुनिये । वे अजन्मा, अद्वैत अविनाशी हैं और कलियुग के पाप तथा भय-बन्धन से रहित हैं ।

कह कुशल रघुपति सब भाई * गद्गद् कण्ठ न कष्ट कहि जाई

राजा के मनमें जितना आनंद हुआ उसकी सरस्वती और रोपनागनी वरन नही कर मन्त्रे । शिथिल अंगोंसे महाराज द्वार पर आये और दूतों को रोपकर बड़े गुणोंद्वारा वे दोनों-मोराम-चंद्रजी और सब भाइयों को कुशल कहां । गद्-गद् कण्ठ से उनसे कुछ कहा नहीं जाया ।

दोहा-भूप प्रेम तेहि समय जस, कहि न सकहि मतिधीर ।

तुलसी भयउ उछाहवस, जय जय शब्द गंभीर ॥२१॥

उस समय राजा का जैसा प्रेम था, उसे कोई धंधेयान भी नहीं कह सकता । तुलसीदास जी कहते हैं-उस समय मारे आनन्द के गम्भीर जय-शब्दकार हुआ ।

पूजे विधि प्रकार नृप, सादर दूत हंकारि ।

गुरु गृह गवने सुकुटमणि, पाय पदारथ चारि ॥२२॥

राजा ने आदर सहित दूतों को बुलाकर सम्मान किया । तब राजा मानो चारों पक्षों पाकर गुरु के घर गये

सकल कथा महिपाल सुनाई * शतानन्द आनंद अधिकाई
चलहु नृपति मुख देखिअ जाई * साजहु जाय सकल कटकाई

राजा जनक ने सारी कथा कह सुनाई, तब शतानन्दजीके मन में बड़ा भारी आनन्द हुआ । वे कहने लगे-हे राजन ! चलें, जाकर यज्ञ देखें अनयो सारी सेना को जाकर तयारों ।

करि विनती नृप मन्दिर आए * सादर सेवक सकल बुलाए
साजु सेन चतुरङ्ग सुहाई * भवन गए सबही समझाई

विनती करके राजा राज-महल में आये और आदर सहित सेवकों को बुलाकर वहां-चतुरंगिणी सेना सजाओ । सबको समझाकर ये गये ।

पत्नी सहित नारि नृप आए * वांचि नृपति पुनि सकल सुनाए
आनंद सब रनिवास बुलाई * दिए दान महि देवन्ह आई

वे पत्निका के साथ अन्तःपुर में आये और उसे पढ़कर सबको बुलाया । पारे आनन्द के सारे रनिवास ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत-सा दान दिया ।

वांचत प्रेम न हृदयं समाता * चरवर वोलि कहौ हंसि वाता
नगर गाँव पुर मंगल साजहु * अमित अपार वाजने वाजहु

पत्नी पढ़ते समय स्नेह हृदय में नहीं समाता । अपने दूतों को बुलाकर वे हंसकर बोलें-नगर, ग्राम और घरों में मङ्गल सजाओ और नाना प्रकार के दाने बजाओ ।

दोहा-चलेउ राउमुनिगण सहित, विपुल वजाय निरान ।

प्रात तीसरे पहर सोई, अबध नगर नियरान

इस प्रकार राजा जनक मुनि के सहित बहुत से दाने बजाकर बने । इन्होंने

सुनिहहिं जहँ तहँ वेद पुराना * दूसर धर्म न काहू जाना
दिन दिन प्रीति देखि भगवाना * अति आनन्द सकल सुर जाना

लोग जहाँ-तहाँ वेद-पुराण सुनते हैं, कोई दूसरा धर्म नहीं जानते । लोग प्रभु की कृपा देखकर बड़े ही प्रसन्न हैं ।

शिव सखत परमान हमारा * भए सोच बस राम उदारा
अश्वमेध मख करौं सोहाई * गाय तरहिं नर भव समुदाई

फिर उदार श्रीरामजी ऐसा विचार कर सोचके वश होगये कि मुझे यहां केवल १०० वर्षही रहना है । अतः एक अश्वमेध-यज्ञ करूँ, जिसे गाकर संतारी-मनुष्य जवसागर से तर जायें ।

पुनि तुरत निज धाम सिधावौं * बिधि वर वचन न चूक लगावौं
प्रात जाइ गुरु भवन सप्रीती * हौं करिहौं सब सुन्दर रीती

फिर तुरन्त अपने धाम को जाऊँ और ब्रह्माजी के वचन में कोई चूक न करूँ । प्रातः-फाल ही सप्रेम गुरुजी के घर जाकर उनकी आज्ञा से नीति सहित सुन्दर यज्ञ करूँगा ।

दोहा—अस विचारि उर राखि कर, कृपासिंधु मतिधीर ।

किये चरित नाना अमित, हरन शोक भवभोर ॥ ६ ॥

कृपासिंधु, धीर-बुद्धि प्रभु ने हृदय में ऐसा विचार करके अनेकों अनौखे चरित्र किये, जो शोक और भव-भय को दूर करने वाले हैं ।

रघुवर राज विराज अति, सकल अवनि अध भाग ।

विचरहिं मुनिकानन विपुल, बसहिं सहित अनुराग ॥ ७ ॥

राम-राज्य के होने से पृथ्वी का सब पाप दूर हो गया । मुनिजन प्रीति और स्नेह के साथ निर्जन-वन में निर्भय हो विचरने लगे ।

अवनि सुहावनि कानन चारू * खगमग इक सँग करहिं विहारू
वैर न सुनिअ राम के राजा * रहैं वैर विनु सब खगराजा

हे पक्षिराज ! पृथ्वी और वन शोभायमान थे, पशु और पक्षी एक साथ विहार करते थे । राम-राज्य में वैर तो चुनाई भी नहीं देता था । सब प्रेम से रहते थे ।

नाना ग्रन्थ स्मृति समुदाई * गाय न सकहिं राम प्रभुताई
सादर चतुरानन गौरीसा * कोटि कोटि अगनित अहिईसा

अनेकों ग्रन्थ व स्मृतियों के समुदाय भी श्रीरामजी की प्रभुता नहीं गा सकते । सरस्वती, ब्रह्मा, महादेव और करोड़ों शेषनाग तथा—

कविकोविद जहँ लगि जग माहों * राम राजु गुन सकहिं न गाहों
असित आदि कज्जलगिरि भूरी * पयनिधि पात्र सारिता रूरी

दोनों ओर के गुरु, नारद व सनकादिक मुनियों ने यह वचन कहा—हे अनारि पुत्र ! सुनिये, सोने की सुन्दर मणियों से जड़ित, परम शोचवान सोताजी के रूप को एक सुन्दर स्त्री (प्रतिमा) बनाइये ।

अङ्ग अङ्ग सब भूषण साजे * तासु रूप लखि रतिपति लाजे
सहसा लखि न सकहि नरनारी * सिय देखहिं सब अचरज नारी

उसके अंग-अंगमें सब भूषण सजाये गये, उसके रूप को देखकर कामदेव भी लज्जित हुआ था। स्त्री-पुरुष उसे अचानक पहिचान नहीं सके, सोताजी को देखकर सबको भारी आश्चर्य हुआ ।
दोहा—तेहि अवसर शोभा अमित, को कवि बरनै पार ।

जगदाधार कृपालु प्रभु, कीन्हे चरित अपार ॥२५॥

उस समय की अपार शोभा का वर्णन करके कौन कवि पार पा सकता है ? वर्णन के आधार कृपालु प्रभु ने अपार चरित्र किया ।

युग सहस्र जे विप्रवर, सुन्दर परम प्रवीन ।

जानहिं श्रुतिकर मति सकल, रहि मख सङ्ग अधीन ॥२६॥

बो हजार षष्ठ और चतुर ग्राहण जो वेद-मत को भली-भांति जानते थे, उन सब के अधीन (निमित्त) नियुक्त किये गये ।

मकर मास ऋतुं शिशिर सुहाई * मख मण्डल बैठे रघुराई
तव बोले गुरु वचन सुहाये * आनहु वाजि जो वेद बताये

माघ की सुन्दर शिशिर-ऋतु में धीरपुत्राजी यज्ञगाता में बंटे । तब गुरुजी बोले वंसा वेद में कहा है, वंसा घोड़ा लाओ ।

लछिमन सुनि गुरु वचन अनन्दे * वार वार पद पङ्कज बन्दे
हयशाला सादर चलि आये * विविध विभूषण तेहि पहिराये

लक्ष्मणजी गुरु के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न हुए । वे बार-बार उनके चरणरुमतीं से बन्दना करके आवर सहित घुड़गाता में आये और उस घोड़े को अनेकों भाँति के विभूषण पहिनाये ।

श्वेतवर्ण सुन्दर श्रुति कारे * रवि हय लजित मनोज सँवारे
जीन जड़ाउ न जाय बखाना * रवि हय चढ़ि आवत जगजाना
माथे मोर पंख मणि लागे * सोउ नभ नयन देखि अनुरागे

उस घोड़े का श्वेत-वर्ण था, कान काले थे, जो मूर्खदेव के घोड़ों को भी लज्जित करता था, मानो कामदेव ने अपने हाथों से ही बनाया हो । उसके ऊपर बड़ा-बड़ा जीन रखे थे, ऐसा भात होता था, मानो मूर्खदेव ही चले आ रहे हों । माथे पर मोरपंख और मणि लगी थी, मानो आकाश में तारे पिल रहे हों ।

दोहा—पछि सहस्र दस वीर वर, रामानुज रणधीर ।
मध्य ताहि आनेहु तहाँ, जहाँ राम रघुवीर ॥२७॥

* श्रीरामायण-लवकुश काण्ड *

अंति ब्राह्मण-पुत्र का मरना सुनकर प्रभु शोच ही रय सजाकर चले और सामने
 पर्वतों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। फिर क्रोध पूर्वक प्रभु ने एक बाण मारा, जो
 क मस्तक को लेकर देवलोक को चला गया। प्रभु ने उसे दुखी देखकर अपनी
 क्ति दो और स्वयं प्रभु ने वहां तोर्य एवं व्रत किया।
 -द्विजवर बालक मृतक जो, उठि बैठे हरषाय।
 आये पुर रघुपति भगत, भय भञ्जन सुखदाय ॥ ८ ॥

उसी समय ब्राह्मण का मरा हुआ पुत्र प्रसन्न होकर उठ बैठा, तब भक्त-भयहारी, सुख-
 क श्रीरघुनाथजी नगर में आये।
 ठ मध्यान्ह कीन्ह रघुनन्दन * पृजिपुरारि भक्त उर चन्दन

भोजन शयन जगतपति कीन्हा * निज निज धाम सबन्हपगदीन्ह
 श्रीरघुनाथजी ने उठकर मध्यान्ह-संध्याकी और भक्त-सुखदायक शिवजी की पूजा की। त
 तगदीश्वर प्रभु ने भोजन करके शयन को, तो सब लोग अपने २ स्थानों को चले गये।
 रहा दिवस जब घटिका चारी * जुरी सभा तब आय खरारी
 सुनि पुराण प्रभु अनुज समेता * दिए दान शुभ दया निकेता

जब चार घड़ी दिन शेष रह गया, तो श्रीरामचन्द्रजी की समा जुड़ी। प्रभुने सब भाइयों
 समेत पुराण सुने और दया के धाम प्रभु ने शुभ-दान दिये।
 सबही सन्ध्या वन्दन कीन्हा * भवन चले प्रभु आयसु दीन्हा
 नित्यकोटिचर अवध सिधावहि * साँझ समय सब खबर सुनावहि
 पृथक पृथक सुनि चरवर वानी * बोले न एकु सो सुनहु भवानी

फिर सन्ध्या-वन्दन आदि करके प्रभु से आज्ञा पाकर सब अपने २ घर चले गये। नित्य
 अनेकों दूत अयोध्या में जाते और संध्या समय आकर प्रभु की सब समाचार सुनाते थे।
 अलग-अलग दूतों को वाणी प्रभु ने सुनी। हे पार्वती! सुनो, उनमें से एक दूत नहीं बोला।
 छन्द-कछु कही नहिं पूछि सादर बचन वेगि न आवहीं
 एक रजक पतिनिहि कहत डाटत व्यङ्ग बचन सुनावहीं
 सुनि वचन कृपानिधान चर के मध्य उर राखे हरी
 निशि स्वप्न देखत जगतपति पुनि जागि दारुण दुख करी
 जब उस दूत ने कुछ न कहा, तब श्रीरामजी ने उससे आदर के साथ पूछा।
 व्यंग-वचन कह रहे न बना। वह बोला-हे प्रभु! एक घोड़ी अपनी स्त्रीको
 रात्रि को स्वप्न में भी ऐसा ही देखा तो जागकर बड़े दुखी हुए।
 दोहा-बीती अवधि प्रणाम युत, कीन्ह विचार कृपाल
 एक सहस्र पितु राजु को, भोगों में यहि काल

अगम तासु तप शङ्कर जाना * दीन्ह सूल सुन कृपानिधाना

उसे रावण ने मधु-वानव को दिया था। उसने बहुत विनय में उसे लिया, उसे ही पुत्र लवणासुर हुआ, जिसने तावर तिवजो को सेवा की। हे कृपानिधान! उसका इतिहास तप जानकर शंकरजी ने उसे एक त्रिमूल दिया।

दोहा—तेहि बल प्रभु सो नहि गनइ, अमर दनुज नर नाग।

जीति सकल निज वश किये, पय सचही के लाग ॥२६॥

प्रभु! वह उसी के बल से देवता, मनुष्य, नाग किसी को नहीं गिनता। गरवों को छोड़कर वश में कर लिया है और सबके पीछे पड़ा रहता है।

तासु चरित सुनि मन मुसुकाने * रिपु सन्तहि बल दें तनमाने
सेन सङ्ग चतुरङ्ग बनाई * लिए साथ दोउ तनय सोहाई

उसका हाल सुनकर धीरधुनायजी मन में हँसे और शत्रुपक्षों को भजना बल देकर सम्मान किया। उन्होंने सेना और दोनों सुन्दर पुत्रों को साथ लिया।

सुनि प्रभु वचन निशान अपारा * तीन सहस्र हने एकहि वारा
धसकै बसुधा कुञ्जर गाजे * दस सहस्र रय रविरय लाजे

प्रभु के वचन सुनते ही तीन हजार नगाड़े एक साथ बजे। हाथियों के गरजने से पृथ्वी धसकने लगी। दस हजार रथ सूर्य के रथ को लज्जित करते हैं।

पूरचौ शंख चले दल साजी * अमित अखण्ड दुन्दुभी वाजी
चमू चपल अति सुभग जुझारा * घेरचो नगर वीर वरियारा

शंख बजाते हुए सेना सजाकर चली। बाकायत में अनेक दुन्दुभियों बजो। युद्धाङ्ग शेर घोड़ों की चपल सेना ने लवणासुर का नगर घेर लिया।

विपुल निसान हने तेहि काला * सुनि निसिचरपति गर्व विशाला
सुभट प्रचारत गर्जत आवा * देखि कटक निज अतिसुख पावा

उस समय अनेक नगाड़े बजे, जिन्हें सुनकर लवणासुर को बड़ा अभिमान हुआ। वह घोड़ों की चलकारता हुआ आया और अपनी सेना को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ।

मारु शब्द सुनहि भट गाजहि * विपुल बाजने दौउ दिसि बाजहि
निज प्रभु कहि जय जोरी जानी * हवि मिरे भट हठ मन मानी

मारुका शब्द सुनकर वीर प्रसन्न होने लगे, दोनों ओर अनेकों बाजे बजने लगे। धरने-धरने स्वामी की जय बोलकर और अपनी २ जोड़ी जानकर हठ टानकर घोड़ा प्रसन्नता से निकरने लगे।

दोहा—विचलित अनी विलोकि निज, लवणासुर वरवण्ड।

सङ्ग तनय मातङ्ग भट, दूसर केतु अछ

वरवण्ड लवणासुर अपनी सेना को विचलित होते देख अपने शत्रुओं

साँस लेकर और कुसमय जानकर श्रीरामजी मनोहर गूढ़ वाणी बोले-हे तात ! मेरे वचन हृदय में रखकर जानकी को वन में ले जाओ ।

सुखि सहस्र सुनि वचन कराला * जरे गात उर उपजी ज्वाला
हँसत कि सत्य कहत रघुराया * असमञ्जस उर सुनि खगराया

ऐसे कठोर वचन सुनकर सब सहस्र कर सूख गये । शरीर जलने लगे और हृदय में दाह उत्पन्न हुआ । सब इस दुविधा में पड़ गये कि प्रभु यह सत्य कह रहे हैं अथवा हँसी कर रहे हैं ?

दोहा-भरत आदि व्याकुल अनुज, नहीं आवत कहि बैन ।

जोरि जुगल कर शत्रुहन, कहत नीर भरि नैन ॥ ११ ॥

भरत आदि सब भाई व्याकुल थे, किसी के मुख से वचन नहीं निकलते । तब दोनों हाथ जोड़कर शत्रुघ्नजी ने नेत्रों में जल भरकर कहा-

सुनि प्रभुवचन हृदय बिलखाना * जगत मातु सिय सब जग जाना
जगतपिता प्रभु सब उर वासी * सत चेतन घन आनंद रासी

हे प्रभु! आपके वचन सुनकर हृदय में बड़ी व्याकुलता हो रही है । सीताजी जगतको माता हैं, इसे सारा संसार जानता है और आप जगत के पिता, अन्तर्यामी और सच्चिदानन्द की राशि हैं ।

कारन कवन जानकी त्यागी * सन क्रम वच तब पद अनुरागी
सुनु सर्वग्य संगभिणी जानी * रिस परिहास कि सत्य सुबानी

किस कारणसे आपने जानकीजी त्याग दीं ? वे तो मन, कर्म, वचन से आपके चरणों की प्रेमिका हैं । हे सर्वज्ञ ! वे गभिणी सुनी हैं, आपने यह वचन क्रोध में, हँसी में या सत्य कहे हैं ?

पंकज नयन नीर भरि आये * कहि प्रिय वचन अनुज समझाये
आयसु मोर टरहि जो ताता * रहहि न प्रान तात मम गाता

यह सुनकर श्रीरामजी के कमल-नेत्रों में जल भर आया । उन्होंने प्रिय वचन कहकर सब भाइयों को समझाया-हे तात ! यदि मेरी आज्ञा टलेगी तो मेरे प्राण शरीर में न रहेंगे ।

हरि इच्छा भावी बलवाना * तुम्ह कहँ तात सदा कल्याणा
यह मम वचन पालि लघु भाई * तात जानकिहि जाहु लिवाई

ईश्वर की इच्छा और होनहार बलवान है । हे तात ! तुम्हारे लिए सर्वदा कल्याण है हे छोटे भाई ! मेरे इन वचनों को मानकर जानकीजी को वन में लिवा ले जाओ ।

सो०-सुनि प्रभु वचन कठोर, भरतकहेउ जुग जोरि कर ।

नाथ मोहि मति थोरि, सुनु विनती सर्वग्य प्रभु ॥ २ ॥

प्रभु के कठोर वचन सुनकर भरतजी ने हाथ जोड़कर कहा-हे नाथ ! मेरी मति तो थोड़ी है और आप सर्वज्ञ प्रभु हैं, अतः मेरी विनय सुनिये ।

हंस वंश जग में विख्याता * दशरथ पितु कोसल्या माता

होते समय वे पुकारे कि 'हे रघुकुल में भृगु भोरामजी !,
मूर्छित बन्धु सुबाहु विलोको * भइ रिस अमित रहत नहि रोको
कठिन वाण करि क्रोध अपारा * छाँड़ैउ तीन कोटि एक बारा

सुबाहु ने भाई को मूर्छित देखा तो उन्हें अत्यन्त क्रोध हुआ । वे रोकने में भी न रुके
और उन्होंने क्रोधित हो तीन करोड़ कराल वाण छोड़े ।

ताहि विकल करि अनुज समीपा * आतुर आयो रघुकुल दोषा
लागे वाण तास तनु माहों * परची अवनितनु सुधि कछु नाहों

उस राक्षस को व्याकुल करके रघुकुल-मणि सुबाहु घोघ्र हां भाई के निकट आये । पुन-
केतु के शरीर में वाण लगे थे, उन्हें कुछ होता न था और वे प्रचेत हुए भूमि पर पड़े थे ।

ऐचि साँस तनु बाहर कोन्हा * राम नाम वर औषधि दोन्हा
उठि शुचि अङ्ग अनुज के सङ्गा * लोन्ह विहंसि धनुवाण निपङ्गा

सुबाहु ने श्वांस को शरीरसे खींचकर बाहर कर दिया और राम-नाम को भृगु प्रोषधि
उन्हें दी । उसे सुनते ही वे सब भाई के साथ उठे और उनका अंग मुग्ध हो गया । तब पुन-
केतु ने हँसकर फिर धनुष-वाण लिया ।

जाग्यौ निसिचर देखि लराई * चल्यौ कुमक लै सँग निज भाई
सर वैरो तेहि काल सकाई * हार समर महँ सुनु खगराई

कंटन राक्षस मूर्छासे जागा तो उसने पुढ होते देखा, तब वह अपने भाई राम्यहने सहायता लेने
आया । हे गरुण ! सुनो, उस देव-शत्रु से काल भी डरता था, यह भी पुढ में हार गया ।

नायेउ माथ आनि कर जोरी * तात समर रुचि पूजा मोरी
रावण रिपु लघु भ्राता जानू * तनय तासु बल शीश निधानू

उसने आकर मस्तक नवाया और कहा—हे तात ! आज पुढ में मेरी इच्छा पूर्ण हुई है ।
रावण के शत्रु भोरामजी के छोटे भाई शत्रुघ्नजी के पुन-वत और गोत के निधान है ।

कोटिन्ह सूर कमर हम मारे * बालक नृपति निरखि हिय हारे
रिपु बल सुनि करहृदय कलापू * पायसि मोहि जानि निज आपू

रवि तनया गहि सेना डारों * तनय समेत अनुज रिपु मारों

करोड़ों योद्धा हमने पुढ में मारे हैं, परन्तु राम-पुत्रों को देखकर हम हृदय में हार गये
हैं । स्वामी ने वंरो का बल सुन-हृदय में कुछ मानकर हमें भेजा है । (सरनामुर बोला—)
मैं सब सेना को यमुना में डुबा दूँगा और पुत्रों सहित भाई के शत्रु को मारूँगा ।

दोहा—भिरे समर सहरोष अति, फिरे सामने कूर ।
लागे लोहा लेत हठ, समर वीर बलपूर ॥३१॥

योद्धा रण में क्रोधित हो मिड़ गये और कायर जो पुराकर माने । सोझा बन्दने सगा,
रण में बली और वीर योद्धा हठ करके रह गये ।

रिहर दिव देखि सुहाई * पावक अविटि कनक सम गाई
नर मुनि सपनेहुं नाही * यह चरित्र जग लखि अनखाहीं

श्रीराम, विष्णु, महेश आदि देवताओं ने श्रीसीताजी को आग में तपाते हुए शुद्ध स्वर्ण के
कहकर प्रशंसा की है। सुर, नर, मुनि कोई ऐसा नहीं है, जो इस चरित्र को देख
में भी अनखता हो।

रहाँहि कोटि सत रोग वश, भोगहिं नरक निवास ॥ १३

रहाँहि कोटि सत रोग वश, भोगहिं नरक निवास ॥ १३
वे नख अवश्य ही करोड़ों रौरव-नरकों में निवास करेंगे और रोग के वश रहकर नरक
में भी अनखता हो।

सुनि सौमित्र छाँड़ि हठि सोच * आए भरत लखन के पोछे
रक्ष रख देखि नयन करि तीछे * जग भल कहै कहौ किन पोच

श्रीरामजी के क्रोधित रख और तिरछे नेत्र देखकर भरतजी लक्ष्मणजी के पोछे चलेगये।
श्रीरामजी बोले—हे सौमित्र! हठ और सोच छोड़कर सुनो, संसार चाहे मला कहे या बुरा।
जनकसुतहि रथ तुरत चढ़ाई * मोहि बिनु सोच जन्म भरमरिहौ

यदि तुम मेरी आज्ञा को टालकर उत्तर दोगे तो मेरे बिना शोक में जन्म भर पछिता-
ओगे। अतः जानकी को तुरन्त रथ पर चढ़ाकर गंगाजी के समीप पहुँचाकर लौट आओ।
अति गहवर वन जहाँ न कोई * छाँड़हुं तात यतन कर सोई

अत्यन्त गम्भीर वन में जहाँ कोई न हो, हे तात! वहाँ सीता को छोड़ आना। उदास
होकर मेरे वचनों को मत फेरो। तब लक्ष्मणजी अपना मरण मन में जानकर चले।
सुभग विमान सोय बैठाई * पद भूषन भरि धरे बनाई

अति अनन्द सम चली जानकी * अतिसय प्रिय करुनानिधान की
सुन्दर विमान में सीताजी को बैठाकर, वस्त्र और भोजन रखे। श्रीरामजी की प्रि
तमा सीताजी मन में प्रसन्न होकर चलीं।

दोहा—विवरण लखन निहारिसिय, चकित विकल भइ बाल ।
हृदय विचारन कहि सकत, मणि बिनु व्याकुल व्याल ॥ १४

सीताजी-लक्ष्मणजी को व्याकुल देखकर विस्मित होकर ऐसी घबड़ाई, जैसे
बिना साँप! वे हृदय के विचार कह नहीं सकतीं।
उतरि देवसरि यान सोहावा * अति उद्यान देखि भय
कारण अपर जानि भयभीता * बोली वचन मनोहर
गंगाजी के किनारे विमान से उतरकर घना जंगल देखकर वे डरीं। कुछ स
के मनोहर वचन बोलीं—

श्री रामायण ना० टी०



सबदुरा द्वारा जखमिय पत के पीड़े की दृश्यता

* श्रीरामायण-लवकुच काण्ड *

जो ने वाल्मीकि मुनि को पहिचान कर अपना वन आने का सब हाल वर्णन किया ।
मुनि पुत्री में जनक की, राम प्रिया जग जान ।
यागन हेतु न जान कछु, विधिगति अति बलवान ॥ १६ ॥
मुनि । मैं राजा जनक की पुत्री और श्रीरामजी की स्त्री हूँ, यह जगत जानता है ।
व्यागे जाने का कारण कुछ नहीं जानती, ब्रह्मा की गति बड़ी प्रबल है ।
लषण गए पहुँचाई * हेतु न कछु जानौं मुनिराई
कन्या मिथिलापति भोरा * परमशिष्य सब विधि पितु तोरा
देवर लक्ष्मण मुझे यहां पहुँचा गये हैं, परन्तु हे मुनिवर ! मैं इसका कारण कुछ नहीं जानती ।
वाल्मीकिजी बोले-हे पुत्री ! मुनो तुम्हारे पिता मिथिलापति जनक मेरे परम शिष्य हैं ।
व्रन्ता अब जनि कर सुकुमारी * मिलि हैं तोहि शेष हितकारी
सादर पर्णकुटी सिय आनी * करि मज्जनु पुनि सब गति जानी
हे सुकुमारी ! अब तुम चिन्ता न करो, अन्त में तुम्हें हितकारी श्रीरामजी फिर मिलेंगे ।
आदर सहित सीताजी को पर्णकुटी में लावे और स्वयं स्नान करके सब स्थिति मुनो ।
विविध भाँति मुनि धीरजदीन्हा * सिय तब सुरसरि मज्जन कीन्हा
सुमिरि राम मूरति उर राखी * दीन्हे फल मुनि आशिष भाखी
मुनि ने बहुत भाँति से धर्म दिया, तब सीताजी ने गंगाजी में स्नान किया फिर श्रीरामचन्द्रजी
का स्मरण कर उनकी मूर्ति हृदय में धारण की । मुनि ने आशीर्वाद कहकर फल दिये ।
मुनिवर कथा अनेक प्रसंगा * कहहि सुनाहि सिय संग बिहंगा
ज्ञान अनेक प्रकार पढाये * लक्ष्मण अवध सुनौ तब आये
मुनि अनेक कथायें कहते हैं और सीताजी के साथ पक्षीगण सुनते हैं । मन में बहुत से
ज्ञान धारण करते हुए लक्ष्मणजी अयोध्या में आये ।
छन्द-आए जो लछिमन त्यागि सीतहि विकल निज आश्रम गए
वहु भाँति रोदति मातु सन कहि सीय दाहन दुख दए
सुनि सहमि मूर्छित मातु वाणी विकल जिमि भनिमनि गए
रोदति केहि भाँति को कह विपति दाहन दुख भए
लक्ष्मणजी-सीताजी को त्याग कर आये और व्याकुल होकर अपने भवन में गये
माता से सीताजी को वाचन दुःख देने का हाल रोकर कहने लगे । सुनकर माता मूर्ति
दुःख को कौन कह सकता है । सब रो-रोकर कहती हैं कि इस
सुनि शोक राउरि सहित लछिमन प्रभू निज मन्दिर
निज ज्ञान दै समझाय तेहि तब खुले पट अन्तर

मल्लयुद्ध दोउ भिरे प्रचारी * लरहि सुखेन न मानहि हारो
हे गरुड़जी ! बाणों को बाण काटते हैं और प्रनेक कोचुक होंगे हैं। रात्री और पुत्र
करते हैं और प्रसन्नता से लड़ते हैं, हार नहीं मानते ।

मुष्टिक एक वज्र सम मारी * विकल लपणमन मानहि हारो
सुमिर कोशलाधीश खरारी * मारचो बाण विकल लव डारो

तब लवने वज्र के समान एक घूँसा लक्ष्मणजी को मारा उन्होंने ध्याकुल हो मन में हार मान
ली, फिर लक्ष्मणजी ने धीरामजी का स्मरण करके बाणते सबको ध्याकुल करके गिरा दिया ।

सुमिरि सिया मन चरण सुहाये * गत मूर्छा लव आतुर आये
शक्रजीत अरि जे शर मारे * ते सब बाल काट महि डारे

सोताजी और मुनिके चरणों का स्मरणकर लव मूर्छा से जागकर अतुरी शोड़े। शिवरात्री
ने मेघनाद आदि शत्रुओं को मारा था, उन सबको बानकों ने काटकर पुत्रों पर गिरा दिया ।

दोहा—रामानुज विस्मय विकल, देखि सबल आराति ।

सिया त्यागि उर शोक बड़, प्राण देहुं केहि भांति ॥ ३७ ॥

लक्ष्मणजी बलवान् शत्रु को देवकर बड़े दयाकुल और विस्मय हुए । हृदय में सोताजी
के त्याग का बड़ा शोक है। वे सोचते हैं कि कित्त भांति से प्राण त्यागूँ ।

कुशकरि क्रोध विशिखसो लोन्हा * मन्त्र प्रेरि मुनिवर जो दीन्हा
नाक रसातल भूतल माहीं * तेहि शर छुटै वचै कोउ नाहीं

तब लवने क्रोध करके उस बाण को सिया जो मुनि गान्धोर्विजयने मन्त्र पढ़कर दिया
था। पृथ्वी, आकाश और पाताल में कोई जीव उस बाण के छूटने से नहीं बच सकता था ।

मारचौ ताकि शेष उर माही * परचो धरनितल सुधि कछु नाहीं
चली भाजि सब आनि अपारा * कोसलपुर महें परी पुकारा

कुशने बाण को तानकर लक्ष्मणजी के हृदय में मारा। ये मूर्च्छित होकर पुत्रों पर गिर
पड़े, उन्हें कुछ सुधि न रही। तब सारी सेना भागवती और प्रयोग में बाहर पड़ार हो ।

वरनी सकल युद्ध कै करनी * लछिमन वीर परे जिमि धरनी
जेहिं विधि सकल कटक संहारा * निज लोचन हम नाय निहारा

उन्होंने युद्ध का यह सारा हाव कहा, जिस तरह से बोर लक्ष्मणजी भूमि पर गिरे थे। यह
बोले हे नाय ! जिस प्रकार उन्होंने सारी सेना को मारा यह सब प्ररनी जीवों में देखा है ।

दोहा—भरत जोरि कर कहेउ तव, वचन अमित विलवाइ ।

सोय त्यागि फल दीन्हा विधि, तव बोलेउ रघुराइ ॥ ३८ ॥

तब भरतजी ने हाथ जोड़कर प्रणम्य हुए होकर कहा कि यह सोताजी का प्राण प्राण
का फल प्रह्ला ने दिया है। तब धीरामजी बोले—

सेवक, प्रजा और नन्त्रियों को आवर से बुलाकर कहा-बाजार, गली, नगर, घर और द्वारों का मण्डप बनाकर सजाओ ।

गुरु समेत प्रभु अवधहिं आए * देखि बनाव बहुत सुख पाए
मिथिलापुर चर तुरत सिधाए * देश देश के नृपति बुलाए

गुरुजी के साथ प्रभु अयोध्या में आये और सजावट देखकर बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने तुरन्त ही जनकपुर को दूत भेजे और अनेक राजा बुलाये ।

जामवन्त सुग्रीव विभीषण * अरु नल नील द्विविद कुलभूषण
आये सब जहाँ राम कृपाला * बरुण कुवेर इन्द्र यम काला

जामवन्त, सुग्रीव, विभीषण, नल, नील, द्विविद आदि अपने कुल में उत्तम व्यक्तियों को बुलाया । बरुण, कुवेर, यम, काल आदि सब वहाँ आये, जहाँ पर कृपालु श्रीरामचंद्रजी थे ।

चठि विमान सुरत्रिया सुहाई * करत गान कलकण्ठ लजाई
अर्वाहिं मुनिगण यूथ घनेरे * देहिं कृपानिधि सुन्दर डेरे

विमानों पर चढ़कर सुन्दर देवाङ्गनायें कोयल के कंठको भी लज्जित करती हुई गारही हैं । मुनियों के अनेक समूह आते हैं, जिन्हें कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर डेरे देते हैं ।

शशिरवि हरिहर विधिसनकादी * आए सुर जे परम अनादी
विश्वामित्र संग मुनि झारी * सहस सात ऋषि इच्छाचारी

चन्द्रमा, सूर्य, हरि, महादेव, ब्रह्मा, सनकादिक मुनि आदि परम अनादि देवताभी आये । विश्वामित्र के सात हजार अपनी इच्छानुसार विचरने वाले मुनिगण आये ।

दोहा—पाराशर भृगु अंगिरा, नारद व्यास अगस्त्य ।

आये यूथप सकल मुनि, देवल सहित पुलस्त्य ॥ १८ ॥

फिर पाराशर, भृगु, अङ्गिरा, नारद, व्यास, अगस्त्य और देवल सहित पुलस्त्यजी आदि सब मुनियों के श्रुण्ड आये ।

सख स्थल अति दीखि सुहावा * नाना भाँति देख सुख पावा
मिथिलापुर जो दूत सिधाये * देखि नगर वासिन्ह सुख पाये

आगन्तुकों ने यज्ञ का सुन्दर और नाना प्रकार से सुशोभित स्थान देखकर सुख पाया । जो दूत जनकपुर गये थे, उन्हें देखकर जनकपुर-वासियों को बड़ा सुख हुआ ।

द्वारपाल सन खबर जनाई * अवध नगर ते पत्रो आई
सुनि विदेह सहसा उठि धाए * तन मनपुलकि नयन जल छाए

दूतों ने द्वारपाल द्वारा यह समाचार भेजा कि अयोध्या से पत्रो आई है । अचानक यह मुन जनकजी उठ दौड़े । उनका मन और शरीर पुलकित या तथा नेत्रों में जल छाया हुआ था ।

भयो भूप सन आनंद जेता * कहि न सकै शारद अहि तेता
शिथिल अंग नृप द्वारे आए * देखि दूत अतिशय सुख पाए

को अयोध्यापुरी के निकट पहुँचे ।

पुर बाहर सरयू शुचि तीरा * बास दीन्ह हरषित रघुवीरा
सौँपि अनुज कहँ राज समाजू * आए प्रभु जहँ नृप मनि राजू

श्रीरामजी ने प्रसन्न होकर नगर के बाहर पवित्र सरयू के किनारे उन्हें ठहराया, फिर छोटे भाइयों को राज-समाज लौप कर प्रभु वहाँ आये, जहाँ नृप-श्रेष्ठ महाराज जनकजी थे ।

मिलि पुनि नृपति निकट बैठारे * गद्गद् व्है मृदु वचन उचारे
बदन सयंक निरखि सब गाता * आनंद मगन न हृदय समाता

तब राजा ने मिलकर उन्हें निकट बंठाया. फिर गद्गद् होकर मधुर वचन कहे । चन्द्र-मुख व सारा शरीर देखकर राजा के हृदय में आनन्द नहीं समाता था ।

प्रभु विनती करि सब सेवकाई * सचिव भरत पुनि लिए बुलाई
नृप सेवा सब भरत सँवारी * सुनु खगपति आनंद उर भारी

प्रभु ने विनययुक्त सब सेवा करके भरत और मंत्री को बुला लिया । राजा जनकजी की सेवा का सारा नार भरतजी ने संभाला । हे पक्षिराज! सुनो, उनके हृदय में बड़ा ही आनन्द था ।

आइ गुरुहि सादर सिरु नाई * मन भावति वर आशिष पाई
पुनि प्रभु सकल देव गुरु बन्दे * अभिमत आशिष पाइ अनन्दे

फिर गुरुजी को सादर सिर नवाया और मन-चाहा आशीर्वाद पाया । फिर प्रभु ने सारे देवता और गुरुजनों को प्रणाम किया तथा मनोवांछित आशीष पाकर प्रसन्न हुए ।

दोहा—दस सहस्र मुनिवर सहित, आए प्रभु मख धाम ।

बोले वचन विनीत गुरु, मन्त्र सुनहु मम राम ॥२४॥

दस हजार श्रेष्ठ मुनियों सहित प्रभु श्रीरामजी यज्ञशाला में आये । तब वशिष्ठजी ने विनम्र वचन कहे—हे राम ! मेरा विचार सुनो—

धर्म सकल जेहि वेद बखाने * सन्त पुराण लोक सब जाने
विनु प्रिय सफल न होय खरारी * अब चाहिय मिथलेशकुमारी

सब धर्म जिनका घेडों ने ब्रधान किया है और जो सन्त, पुराण और संसार को विदित है, वे बिना स्त्री के सफल नहीं होते । इसलिए, हे खरारि ! अब मिथिलेशकुमारी जानकी चाहिए ।

सुनि सुनि वचन मौन न गहिरहेऊ * सत्य असत्य न एकउ कहेऊ
मम प्रण विरद जान सुनिराया * रहै सुकृति जेहि करहु सो दाया

मुनि के वचन सुनकर श्रीरामजी चुप रह गये, सत्य-असत्य कुछ न बोले । फिर कहने लगे—हे मुनिराज ! मेरे प्रण के पश को समझाकर बया करके वही करिये, जिससे सुकृत (पुण्य) रहें ।

दोउ गुरु मिलि नारद सनकादी * वचन कहेउ सुनु परम अनादी
कनक जटितमनि सुन्दर वाला * रचि सिय रूप सुसील विसाला

उसके संग में साठ हजार श्रेष्ठ वीरों को लिये लक्ष्मणजी उसे वहाँ लाये, जहाँ श्रीरघुनाथजी थे ।

पूजेउ प्रभु हय जग जय हेतू * जस कछु कहा गाधिकुलकेतू
दीन्ह विविध विधि दान अनेका * लिखा पत्र सोइ करि अभिषेका

प्रभु ने विश्व-विजयके निमित्त घोड़े का पूजन किया और जो कुछ विश्वामित्रजी ने कहा—
वही किया । अनेक भाँति से बहुत-सा दान दिया व उनका अभिषेक करके एक पत्र लिखा—
एक वीर कोसलपुर माहीं * अरिदल इमन सुरेश सकाहीं
जेहि बल होय गहौ सोइ बाजी * दण्ड देहु बन जाहु कि भाजी

कोसलपुर में एक वीर शत्रु-बल का नाश करने वाला है, जिससे इन्द्र भी डरते हैं । जिसको
बल हो—वह घोड़े को पकड़ बाँधे, नहीं तो दण्ड दे, अथवा अपने प्राण लेकर वन को भाग जाय ।
लिखि बाँध्यौ हय शीश सँवारी * यह सुनि चरित आव सुनिचारी

भार्गव आदि सकल मुनि संगी * आये जहँ रघुवंश पतंगी

ऐसा लिखकर घोड़े के सिर पर उसे संभाल कर बाँध दिया । यह सुनकर बहुतसे मुनि
वहाँ पर आये । भृगु आदि सब मुनि वहाँ आये, जहाँ रघुकुल के सूर्य श्रीरघुनाथजी थे ।

कथा सकल लवणासुर केरी * मुनिन्ह त्रास जिन्ह दीन्ह घनेरी
सुनि मुनि वचन नयन जल छाये * बहुरि राम निज त्राण मँगाये

तब मुनियों ने लवणासुर की सब कथा कही, जिसने मुनियों को भारी दुःख दिया था ।
मुनियों के ऐसे वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी के नेत्रों में जल भर आया, फिर उन्होंने अपना
तरकस मँगाया ।

दोहा—दीन्हे रिपुसुदनहि सो, बाण अमोघ कराल ।

मंत्र मोरि पढ़ ताहि हति, जोतहु सकल भुआल ॥२८॥

एक कराल और अमोघ बाण निकाल कर शत्रुघ्नजी को दिया और कहा—मेरा मंत्र
पढ़कर इसको मारकर सब राजाओं को जीतो ।

बहुरि विभीषण राम बुलाये * सादर आय साथ तिन्ह नाये
लवणासुर के चरित अपारा * पूछे दिनमणि वंश उदारा

फिर श्रीरामचन्द्रजी ने विभीषण को बुलाया । उन्होंने आकर सादर प्रणाम किया, तब
रघुवंश-मणि श्रीरामचन्द्रजी ने लवणासुर के अपार चरित्र पूछे ।

कर युग जोरि निसाचर नाहा * सन्य कहौ अब सुनु अवगाहा
भगिनि विमात्र नाथ सो मोरी * कुम्भीनिसि तेहि नाम बहोरी

विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा—प्रभो ! सुनिये, मैं सत्य कहता हूँ । मेरी एक सौतेली
पत्नि थी, जिसका नाम 'कुम्भीनिसि' था ।

मधु दानव कहँ रावण दीन्ही * बहु विनती करि तब तेहि लीन्ही
तनय तासु लवणासुर भयऊ * शिव सेवा सादर जेहि कियऊ

को लेकर आगे बढ़ा ।

प्रभु सुत ज्येष्ठ सुबाहु विशाला * भिरयौ मतङ्गहि जनु दुइ काला
यूपकेतु अरु केतु प्रचारी * लरहिं सुखेन न मानहिं हारी

शत्रुघ्नजी के बड़े पुत्र महान बलशाली सुबाहु, मातङ्ग के साथ भिड़ गये, मानो दो काल हों ।
यूपकेतु भी केतु को ललकार सुन सुखपूर्वक भिड़ गये, दोनों लड़ते हैं, परन्तु हार नहीं मानते ।

यूपकेतु करि कोप अपारा * हरि रिपुकेतु खण्ड महि डारा
उहाँ सुबाहु मतङ्गहि हारी * कर पद काटि अबनि महँ डारी

यूपकेतु ने क्रोध पूर्वक केतु को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया उधर सुबाहु ने मातङ्गको
मार उसके हाथ-पैर काटकर पृथ्वी पर डाल दिया ।

करिछल प्रगटेसि विविध बरूथा * अस्त्र शस्त्र गहि सब सूरयूथा
धरु धरु मारु मारु सुर करहीं * लरहिं न भट विस्मय व्है रहहीं

लवणासुर ने माया करके अनेक देवताओं के झुण्ड पंदा कर दिये, जो हाथ में अस्त्र-शस्त्र
लिये हुए थे और 'पकड़ो-पकड़ो, मारो-मारो कह रहे थे । यह माया देखकर शत्रुघ्नजी के
योद्धा विस्मित होकर लड़ते नहीं थे ।

रिपुसूदन प्रभु विशिख सँभारी * जोरेड धनुष सुमिरि त्रिपुरारी
जिमि तस अच तरणि गा सोई * समर अमर नहिं दीखे कोई

शत्रुघ्नजी ने प्रभु श्रीरामजी का वाण शिवजी को स्मरण करके सँभालकर धनुषपर चढ़ाया, तब
जैसे सूर्य अपने पास गये अंधकार का नाश कर देता है, वैसे ही कोई देवता रण में नहीं दीखा ।

सुर समाज कतहुँ नहिं देखा * चलयौ सुबाहु काल जनु वेषा
खल सँभारु गहु सूल विचारी * अस कहि गदा कोप उर मारी

देवताओं के झुण्ड कहीं न देखकर सुबाहु काल के समान वेगसे चले, सम्मुख जाकर लवणासुर से
पोसे-रे घुट्ट ! अब अपना विशूल सँभाल कर ले, ऐसा कह बड़े क्रोध से उसके हृदय में गदा मारी ।

सहि न सक्यौ सो तेज अपारा * मूर्छित अबनि परचौ विकरारा
कैटभ नाम वीर बलवाना * मूर्छित लवणासुर मन जाना

तव खिसियान सूल लै धावा * यूपकेतु के सम्मुख आवा

यह राक्षस उस अपार तेज को न सह सका और व्याकुल हो मूर्छित होकर पृथ्वी पर
गिर पड़ा । कैटभ नामक एक बलवान दैत्य ने जब लवणासुर को मन में मूर्छित जाना तो
यह दैत्य विधिया कर विशूल लेकर दौड़ा और यूपकेतु के सामने आया ।

सां०—मारेसि हृदय सँभारि, गिरे जपत करुणा अयन ।

मूर्छित होत पुकारि, रामचन्द्र दिनमणि तिलक ॥ ३ ॥

और यूपकेतु के हृदय में तककर मारा, वे करुणासागर को जपते हुए गिर गड़े । मूर्छित

साजि वाजि गज वाहिनी, गहि गहि हने निशान ।

आया समर सकोप अति, लवणासुर बलवान् ॥३२॥

घोड़े-हथियों की सेना सजाकर व नगाड़े बजाता हुआ क्रोधित हो लवणासुर रण में आया ।

सुमिर अवधपति चरण युग, छाँड़ेउ तीव्र नराच ।

परची धरनितल खिन्न व्हे, व्याकुल निपट पिशाच ॥३३॥

शत्रुघ्नजी ने श्रीरामजी के चरणों का स्मरण कर कराल बाण छोड़ा, जिसके लगते ही वह कटककर पृथ्वी पर व्याकुल होकर गिर पड़ा ।

तासु मरण सुनि जब सुरयूथा * चढ़ि विमान नभ देत बहया
वाजहिंह दुन्दुभि वरपहिं फूला * आजु नाथ बीते सब सूला

निसाचर का मरना सुनकर सब देवता आकाश में विमानों पर चढ़कर आये और दुन्दुभी बजाकर फूल बरसा कर बोले-हे नाथ ! आज सब दुख दूर होगया ।

तहं युग नगर रचे अति रुरे * राखे तनय युगल बल पूरे
मथुरा नाम जगत यश जाना * दूसर विदित जो वेद बखाना

शत्रुघ्नजी ने दो सुन्दर नगर रचकर दोनों पुत्रों को वहाँ का राज्य दे दिया । 'मथुरा' नगर का नाम थीर यश संसार जानता है और दूसरे 'विदित' नगर को महिमा वेदों ने गाई है ।

ज्येष्ठ तनय बल बुद्धि विशाला * नाम सुबाहु विदित महिपाला
राख्यो यमुना तट बल भूरी * विदित नगर पश्चिम बहु दूरी

बल-बुद्धि में महान बड़े पुत्र सुबाहु को यमुना के किनारे मथुरा का राजा बनाया और दूसरे पुत्र सुपान्तु को विदित नगर का राजा बनाया, जो पश्चिम में बहुत दूर था ।

चिरञ्जीव कहि हने निशाना * दक्षिण अश्व चला जब जाना
सचि तनय राँखे सुत सङ्गा * उतरे सब दल यमुन तरङ्गा

पुत्रों को आशीर्वाद देकर नगाड़ा बजाया, शत्रुघ्नजी ने जब घोड़े को दक्षिण दिशा को चलता हुआ जाना तो मन्त्री के पुत्रों को अपने कुमारों के निकट रखकर सब सेना साथ ले यमुना के जल में उतरे ।

दोहा—रवितनया पद वन्दि केँ, चली सेन हय सङ्ग ।

हर्षहि सुर वर्षहि सुमन, निरखि सेन चतुरंग ॥३४॥

यमुनाजी के चरणों को वन्दना करके सब सेना घोड़े के साथ चला । देवता चतुरंगिणी सेना को लेकर प्रसन्न हो पुत्रों को वर्षा करने लगे ।

बाल्मीकि थल वाजि समेता * दानन सघन सुनीश निकेता
सिय सुत युगल वीर बरवण्डा * भुजबल विपुल दिनेश प्रचण्डा

सब सेना घोड़े सहित वहाँ पहुँची, वहाँ सघन वन में बाल्मीकिजी का आश्रम था, वहाँ सोताजी

हमहि प्रचारत नृप बल भारी * डरपाहि सिंह बजाये तारी
जस कहि धनुष बान कर लीन्हे * मुनिवर चरन विनय चितदीन्हे
मारयो रथ मारथी तुरंगा * कोटिन्ह बान हने सब अंगा

लव बोले-बलवान् राजा हमें ललकार रहे हैं क्या ताली बजाने से सिंह डर सकता है। ऐस। कहकर हाथ में धनुष-बाण लेकर मुनि के चरणों का ध्यान किया। फिर रथ, मारथी तथा घोड़े मार डाले और सब अंगों में करोड़ों बाण मारे।

दोहा-एकहि एक प्रचार करि, हने सकल नर शूर।

आए सब रघुवीर पहुँ, कायर करनी कर ॥ ३५ ॥

दोनों कुमारों ने एक-एक शूर को रण में ललकार कर मार डाला। जो क्रूर-करनी वाले कायर थे, वे सब भागकर श्रीरामजी के पास आये।

पूछेउ सकल भानुकुल नाथा * रिषु के सकल कहें गुन गाथा
लछिभन संग जाहु सब साई * मुनि बालक बाँधेउ बरिआई

तबसे श्रीरघुनाथजी ने पूछा तो उन्होंने शत्रु के गुणों की तारी कथा कह सुनाई। वे बोले-तुम सब लक्ष्मण के साथ जाओ और मुनि-बालकों को बाँधलो।

मारेउ छनि आनेउ पुर माहीं * रिषिसुत बधव उचित फलनाहीं
चली शेष संग सैन अपारा * आए तुरत समर जहँ भारा

उन्हें मारना मत, नगर में ले आना क्योंकि ऋषि पुत्रों को मारना उचित नहीं होता लक्ष्मणजी के साथ अपार सेना चली और शीघ्र ही उस स्थान पर आये, वहाँ भारी युद्ध हुआ था।

लै घर जीव जाहु मुनि बालक * दिनकर वंश देव द्विज पालक
आँखिन्ह ओट होहु तुम्ह ताता * आवत क्रोध बढ़त भभ गाता

लक्ष्मणजी बोले-हे मुनि-बालको! अपने प्राण लेकर घरजाओ, सूर्यवंश देवता और ब्राह्मणों का रक्षक है। तुम आँखों की ओट में होजाओ, क्योंकि मेरे शरीर में क्रोध बढ़ता आरहा है।

दोहा-सुनिलछिभनके वचन वर, विहँसे बालक वीर।

अनुज विलोकत जाहु घर, सुनहु महा रणधीर ॥ ३६ ॥

लक्ष्मणजी के उत्तम वचन सुनकर दोनों वीर बालक हैंते और कहने लगे- हे रणधीर! आप अपने छोटे भाई को दशा देखते हुए घर लौट जाइये।

निज सहाय सठ आनि बुलाई * केवल तोहि न हतै भलाई
सुनु कुश कठिन वाण सन्धाना * काँपी पुहुमि शेष अकुलाना

लक्ष्मणजी ने कहा-रे सूर्य! अपने सहायकों को बुला ला, केवल तुझे मारने से कुछ भलाई नहीं है। ऐसे वचन सुन कुश ने बड़ा कठिन वाण ताना, जिससे पृथ्वी काँपने लगी और शेषजी घबड़ा गये।

काटहि विशिख विशिख न जाई * कौतुक करहि विविध खगराई